

॥ भारतवर्षीय केन्द्रीय दि० जैन महासमिति  
धर्मपुरा, दिन्ली ।

जनवरी १९५१

# प्रस्तावना

भारतीय धर्मोंमें जैनधर्मका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उसके अहिंसा और अपरिग्रहवाद आदि सिद्धान्त, उनकी विचार-सरणी और अहिंसाके व्यावहारिक सुन्दर एवं सुगमरूपका दर्जे व दर्जे कथन जैसा जैनधर्ममें पाया जाता है वैसा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। जैनधर्मकी अहिंसाके उद्गम का इतिवृत्त बहुत ही प्राचीन है उसके प्रवर्तक भगवान् आदिनाथ अथवा ऋषभदेव हैं जिन्हें आदि-ब्रह्मा भी कहा जाता है, और जिनके सुपुत्र भरत चक्रवर्तीके नामसे इस देशका नाम 'भारतवर्ष' भूतलमें प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। भारतके सभी धर्मोंपर जैनी अहिंसाकी छाप है, इसमें किसीको विवाद नहीं। उसने ही लोकमें समता समानता अथवा विश्वप्रेमकी अनुपम धाराको जन्म दिया है उसका दायरा भी संकुचित नहीं है और न यह केवल मानवों तक ही सीमित है, किन्तु वह संसार के प्रत्येक प्राणीमें विश्व प्रेमकी भावनाको उद्भावित करता है और उनमें अभिनव मैत्रीका संचार भी करता है तथा अनेकान्तके व्यवहार द्वारा उनके पारस्परिक विरोधोंका निरसन करता हुआ उनके जीवनमें समन्वय और सहिष्णुताका आदर्श पाठ सिखाता है।

जैनधर्ममें भावोंकी प्रधानता है, उसमें परिणामोंकी अच्छाई बुराईका जो स्वरूप एवं फल बतलाया गया है और जो जीवनकी उन्नति अवनतिका स्पष्ट प्रतीक है जिसके द्वारा नैतिक एवं आध्यात्मिक रूपसे मानव अपने जीवन-स्तरको ऊंचा उठा सकता है। इतना ही नहीं, किन्तु उसे अन्तिम लक्ष्य (पूर्ण विकास) तक पहुंचा सकता है। जीवनके क्रम वार आध्यात्मिक विकासका नाम ही गुणस्थान है जिनकी संख्या १४ बतलाई गई है और जिनमें आत्माके क्रमिक विकाससे लेकर पूर्ण विकासकी भौतिकीका अनुपम चित्रण किया गया है। अर्थात् यह बतलाया गया है कि जीवात्मा किस तरह सांसारिक विषय वासनाओंके जालसे निकलकर आत्मपठनके प्रधान कारण मोहशत्रु पर विजय प्राप्त कर अपना पूर्ण विकास करता है और मोहरूपी समुद्रकी राग द्वेषमयी प्राया-मिथ्या रूप तरङ्गोंकी चंचल कल्लोलोंके कठिन थपेदोंको मार कर कैसे निश्चेष्ट करता हुआ अपने विवेकी स्वभावद्वारा अथवा सत् चित्त आनन्द रूप वस्तुतत्त्वके चिन्तन मनन एवं आत्मध्यान द्वारा कर्म-शृंखलाओंका उन्मूलनकर आत्माको सर्वतन्त्र स्वतन्त्र परमात्मा बनाता है।

## ग्रन्थ और ग्रन्थकार—

जैनधर्ममें जहां भावोंकी प्रधानता है वहां उसके आचारको भी प्रमुख स्थान दिया गया है। उनके सिद्धान्त चार भागों में विभक्त हैं जिन्हें चार अनुयोग अथवा वेद कहते हैं। परणानुयोगमें जीवोंके

आचारमार्गका विधिवत् कथन दिया हुआ है इस विषयके लिए विवेचक अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं जिनमें गृहस्थ और साधुओंके आचार-विचारका विवेचन पाया जाता है। प्रस्तुत ग्रन्थ भी आचार मार्गसे सम्बन्ध रखता है इस ग्रन्थमें श्रावकके आचारोंका सांगोपांग कथन दिया हुआ है यह ग्रन्थ उपलब्ध श्रावकाचारोंमें सबसे प्राचीन है, रचना संक्षिप्त सरल तथा सूत्रात्मक होते हुए भी गम्भीर अर्थकी प्रतिपादक है इसका एक एक वाक्य जंचा तुला है ग्रन्थमें लक्षणोंके अर्थकी अभिव्यंजकता, आप्त-आगम और गुरुके लक्षणों की परिभाषाएं तथा रत्नत्रय द्वादश ब्रतों और प्रतिभाओंके लक्षण और सम्यग्दर्शनकी महत्ताका विस्तृत वर्णन किया गया है। ग्रन्थमें वाक्य-विन्यास सुन्दर है और वे अनेक उत्तम सूक्तियों तथा अनुप्रास आदिको दिव्य छटासे ओत-प्रोत हैं। विवेचन शैली सरल और अति मधुर है। ग्रन्थमें दार्शनिकताका पद पद पर अनुभव होते हुए भी उसमें दार्शनिक ग्रन्थों जैसी जटिलता एवं दुरुहता नहीं है और न विचारोंमें कहीं संकीर्णताको ही ही स्थान प्राप्त है, किन्तु सर्वत्र उन्नत एवं उदार विचारों का समर्थन पाया जाता है जो कि जैनधर्मकी आत्मा का प्राण है और जो सर्वोदयकी अनुपम धाराका प्रतीक है। ग्रन्थका प्रतिपाद्य विषय चित्ताकर्षक और आचार-शास्त्रके दोहनसे निःस्यूत पीयूषकी वह विमल धारा है जिसका पानकर जीव मिथ्या विषका वमन कर देता है और निर्मल सम्यक्त्री बनकर अनन्त अविनाशी सुखका पात्र बन जाता है।

इस ग्रन्थरत्नके कर्ता स्वामी समन्तभद्र कविकुलकमलदिवाकर, गमक, वाग्मी, वादी, आचार्य, तर्क-शिरोमणि, और महान् योगी थे। आपमें वाद करनेकी अद्भुत शक्ति थी। आपकी आत्मा भरमाच्छादित अगार-सदृश अन्तर्जाव्वल्यमान सम्यग्दर्शनरूप अनुपम वशोतिसे उदीपित थी। आपका व्यक्तित्व महान् और आपकी प्रज्ञा असाधारण थी। आप क्षत्रिय राजपुत्र थे और क्षात्र तेज आपकी रग-रगमें समाया हुआ था। आपका बाल्यकालीन नाम शांतिवर्मा था। आपने सांसारिक वैभवको निःसार समझकर छोड़ दिया था और गुरुके निकट जैन-दीक्षा ले ली थी और अब वे नग्न दिगम्बर साधु बनकर तेजस्वी सिंहके समान निर्भय सर्वत्र भूमण्डलमें विचरण करते थे और स्वयं आत्म साधन करते हुए जगतको आत्मकल्याणका मार्ग घतलाते थे। आपका मुनिजीवन बड़ा ही शान्त और निःस्पृह था और वे उदयागत कर्म-विपाकको—उपसर्ग परीषर्होंकी महान् एवं असह्य पीड़ाको—साम्यभावसे सहते थे और उनसे कभी भी विचलित नहीं होते थे। आपका अधिकांश समय आत्म-चिंतवन, ग्रन्थ-प्रणयन और मुनिपदके योग्य असावय क्रियाओंके अनुष्ठानमें व्यतीत होता था। आप परीक्षाप्रधानी थे—वस्तुतत्त्वको—युक्ति और आगमसे अबाधित स्वीकार करते थे। आपका युक्तिवाद अकाट्य और गम्भीर रहस्यका उद्भावक है और वह वस्तुमें निहित अन्तर्बाह्य स्वरूपका सदबोधक है। आपमें वस्तुतत्त्वके परीक्षण अथवा समीक्षणकी असाधारण क्षमता थी, यद्यो कारण है कि प्रतिवादिजन आपसे पराजित हो जाते थे, और वे प्रायः अपने अभिग्रह अथवा हठको टोड़कर मूढ़ति धन जाते थे। आप केवल दार्शनिक ही न थे, किन्तु आपमें भक्तिका वह अपूर्व स्रोत विद्यमान था जिसके द्वारा आत्मा अपनेको ऊंचा उठाकर विश्ववन्द्य बन जाता है। तीन ग्रन्थ तो आपके गम्भीर पर संक्षिप्त पत्रों की गई है इसीसे आपको 'आद्यस्तुतिकार' जैसे शब्दोंके द्वारा उल्लेखित किया गया है। अधिष्ठ ऐतिहासिक विद्वान् पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारको देहलीके भंडारसे जो एक परिचय-पत्र मिला है।

उसमें अन्यविशेषणों के साथ आपको 'सिद्ध सारस्वत' और 'आज्ञासिद्ध' तक बतलाया गया है अर्थात् आप को सरस्वतीका अनुपम वरदान मिला हुआ था, और उनकी आज्ञा सर्वत्र मानी जाती थी। जिनसे स्पष्ट मालूम होता है कि आप उस समयके महान् योगी थे, इसीसे एक शिलावाक्यमें तो आपके द्वारा महावीर शासनकी हजारगुणी वृद्धि होना तक सूचित किया है। आपकी महत्ता, तपस्वी जीवन, अद्वैत श्रद्धा ये सब आपके असाधारण व्यक्तित्वके परिचायक हैं। आपमें आगत आपत्तियों उपसर्गों अथवा परीषद्‌होंके सहन करनेकी अपूर्व सामर्थ्य थी और था हृदयमें वह स्व-परका अद्भुत विवेक, जो अभद्रता अथवा मिथ्यात्वका शत्रु है और स्वानुभवकी अन्तर्ज्योतिसे उदीपित है।

आचार्य समन्तभद्रने जैनशासनकी अपूर्व सेवा की है और अपनी अनेक अनूठी कृतियोंसे उसके साहित्यको अलंकृत किया है। यद्यपि खेद है कि हम आपकी सभी कृतियोंका संरक्षण नहीं कर सके, पर जो संरक्षित हैं उनका भी हम लोकमें प्रचार एवं प्रसार करनेमें असमर्थ रहे हैं, वे कृतियां सच्चिप्त सूत्रात्मक एवं गम्भीर अथके रहस्यसे ओत-प्रोत हैं और वे दार्शनिक जगतमें अपनी समता नहीं रखती। इस समय आपकी निम्न लिखित कृतियां उपलब्ध हैं—युक्त्यनुशासन, आप्तमीमांसा, बृहत्स्वयंभूस्तोत्र, स्तुतिविद्या (जिनशतक) और रत्नकरण्डश्रावकाचार।

आचार्य समन्तभद्रका समय विक्रमकी दूसरी-तीसरी शताब्दी है, वे बौद्धविद्वान् नागार्जुनके उत्तरवर्ती जान पड़ते हैं, क्योंकि उनके ग्रन्थोंमें नागार्जुनके युक्तिवादका निरसन भी पाया जाता है। इससे ऐतिहासिक विद्वान् समन्तभद्रको विक्रमकी दूसरी शताब्दीके उत्तरार्धका अथवा तीसरी शताब्दीके प्रारम्भका विद्वान् मानते हैं जो सुसङ्गत जान पड़ता है।

### हिंदी टीकाकार पं० सदासुखदासजी

रत्नकरण्डश्रावकाचारकी यह हिन्दी टीका पहिलतजीके जीवनकी आत्म-साधना अथवा ज्ञानाभ्यासका अनुपम फल है। इस टीकाके अवलोकनसे जहां पहिलतजी की आन्तरिक भावनाका परिधान होता है वहां उनकी लगन कर्तव्यनिष्ठा, उत्साह और आत्मजागृत्तिका भान सहजमें हो जाता है। टीकाकी भाषा सरल तथा सुबोध है। यद्यपि यह दुंदारी है और व्रज भाषाके प्रभावसे वह अछूती नहीं है फिर भी वह उस समयके ग्रंथोंकी भाषासे बहुत कुछ परिमार्जित है, उसमें सरसता और मधुरताका अनुभव पड़ते ही होने लगता है। उसका प्रधान कारण टीकाकारकी आन्तरिक विशुद्धता ही है। टीका विशाल-काय और प्रमेय-बहुल तो है ही, पर उसमें चर्चित विविध विषयोंकी गम्भीर विवेचनाके साथ कुछ विषयोंकी आलोचना भी की गई है।

हिन्दीकार पं० सदासुखदासजी का नाम बीसवीं शताब्दीके हिन्दी साहित्यकारोंमें स्वाम तीरसे उल्लेखनीय है। आपने अनेक गद्यात्मक हिन्दी टीकाओंका निर्माण किया है। आर अयपुरके निरामी थे। आपके पिताका नाम दुलीचन्द और गोत्रका नाम काशलीवाल था। माताका नाम मालूम नहीं हो सका। आपका वंश 'डेहराज' के नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त था, इसी कारण आपको 'डेहराज' के नामसे भी पुकारते थे।



डेहराज कब हुए और उनकी वंश-परम्परा क्या है ? इसका कुछ भी पता नहीं चल सका ।

पण्डितजीके वंशमें आज भी मूलचन्द्र नामके एक सज्जन मौजूद हैं । आपके मकानमें एक चैत्यालय है, जो जयपुरमें कचौड़ी मोदीखाना मणिहारोंके रास्तेमें स्थित है । प० सदासुखदासजीने अपना कोई जीवन परिचय नहीं दिया; किन्तु अर्थ-प्रकाशिका टीकाकी प्रशस्तिमें निम्न पंक्तियों द्वारा अपना और अपने पिताजीका नाम तथा गोत्र आदिका उल्लेखमात्र किया है । साथ ही आत्मसुखकी प्राप्तिकी इच्छा भी व्यक्त की है, जैसा कि निम्न पंक्तियोंसे स्पष्ट है —

डेहराजके वंशमाहि इक किचित् ज्ञाता, दुलीचन्द्रका पुत्र काशलीवाल विख्याता ।

नाम सदासुख कहें आत्मसुखका बहु इच्छुक, सो जिनवाणी प्रसाद विपर्यतें भये निरिच्छुक ॥

आपका जन्म जयपुरमें संवत् १८५२ के लगभग हुआ था; क्योंकि पण्डितजीने स्वयं रत्नकरण्ड-श्रावकाचारकी टीकामें अपनी आयुके ६८ वर्ष व्यतीत होनेकी सूचना की है और उस टीकाको सं० १९२० में बनाकर समाप्त किया है ।

पण्डितजीकी जीवन-घटनाओंका और उनके कौटुम्बिक-जीवनका यद्यपि कोई विशेष परिचय उपलब्ध नहीं है तो भी जो कुछ टीका ग्रन्थोंमें दी गई संचित प्रशस्तियों आदि परसे जाना जाता है उसमें पण्डितजीको चित्त वृत्ति, सदाचारिता आत्मनिर्भरता, अध्यात्मरसिकता, विद्वत्ता और सच्ची धार्मिकता पद पदपर प्रकट होती है । आपमें सन्तोष और सेवाभावकी पूरी उमग थी और आपका जिनवाणीके प्रति बड़ा भारी स्नेह था, देश देशान्तरोंमें उसके प्रचार करनेकी आवश्यकताको आप बहुत ही ज्यादा अनुभव किया करते थे । इसीसे आपका अधिकांश समय शास्त्र-स्वाध्याय, सामायिक, तत्त्व-चिन्तन, पठन-पाठन और ग्रन्थोंकी टीका अथवा अनुवाददि प्रशस्त कार्योंमें ही व्यतीत होता था । आप राजकीय प्राइवेट संस्था (फापरटुद्वारे) में कार्य करते हुए भी सांसारिक देह-भोगोंसे बराबर विरक्तिका अनुभव किया करते थे । भोगोंमें आसक्ति अथवा अनुरक्ति जैसी कोई बात आपमें नहीं थी; प्रत्युत इसके उदासीनता संवेद और निर्वेदकी अनुपम भावना आपके चित्तमें घर किये हुए थी और स्व-परके भेद-विज्ञानरूप आत्म-रसके आस्वादनकी सदा लगन लगी रहती थी; फिर भी शास्त्रोंके प्रचारकी समता आपके हृदयमें अपना विशिष्ट स्थान रखती थी । यहां यह बात खास तौरसे नोट करने लायक है कि पण्डितजीके कुटुम्बीजन यद्यपि बीसपन्थके अनुयायी थे; फिर भी पण्डितजी स्वयं तेरा पन्थके पूर्ण अनुयायी थे । जिसका कारण उनके गुरु पं० मन्ना लालजी और प्रगुरु पं० जयचन्द्रजी झाबडा आदिके विचारोंका प्रभाव था, जो कि उनपर बाल्य-काल से ही पड़ना शुरू हो गया था, और वह युवा प्रौढ़ावस्थामें उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होता चला गया तथा जिनवाणीसे सतत अभ्यासकी साधनाने उसे और भी सुदृढ़ बना दिया था । तेरापन्थ और बीसपन्थके विकल्पों और उनसे होनेवाली कटुताका रौद्ररूप भी यद्यपि कभी कभी सामने आजाता था फिर भी आप अपनी चित्त वृत्तिको अस्थिर नहीं होने देते थे, यों ही सहजभावसे बीसपन्थके रीति-रिवाजों तथा मट्टारकीय प्रवृत्तियोंके प्रतिकूल अपने मन्तव्योंका प्रचार करते थे और शुद्ध तेरापन्थ आम्नायको शक्तिभर पुष्ट भी करते थे

रत्नकरण्डश्रावकाचारकी टीकामें भी बीसपन्थका निरसन पाया जाता है फिर भी वह उभय पन्थके अनु

४ घटमठ परस जु आयुके, वीते तुम आघार । शेष आयु तब शरणतैं, जाहु यही मम सार ॥१७॥

यायियों द्वारा उपाध्य बनी हुई है। इसका कारण पण्डितजीकी आन्तरिक विशुद्धि ही है। वे कत्तह और विसंवाद आदि अप्रशस्त कार्योंमें अपना योग देना उचित नहीं समझते थे। शास्त्र-प्रवचनमें भी वस्तु-तत्त्वका विवेचन इस रूपसे करते थे कि श्रोता जन कभी भी उनसे असन्तुष्टिका अनुभव नहीं करते थे। पण्डितजी अपने समय और पर्यायके मूल्यको समझते थे इसी कारण वे अपने समयको व्यर्थ नहीं जाने देते थे, किन्तु धर्मसाधनादि प्रशस्त कार्योंमें उसे व्यतीत करना अपना कर्तव्य समझते थे। आपके अनेक शिष्य थे, जो आपकी प्रेरणा और पठन-पाठनकी सुविधासे सुयोग्य विद्वान् बने थे। उनमें पं० पन्नालालजी सन्धी, नाथूलालजी दोशी और पं० पारसदासजी निगोत्याके नाम खास तौरसे उल्लेखनीय हैं।

आपमें सहन-शीलता कूट-कूटकर भरी हुई थी और चित्तवृत्ति में अपार सन्तोष था। आजीविका-के निमित्त जो कुछ भी मिल जाता था आप उसीसे अपना निर्वाह कर लेते थे, पर उससे अधिक की चाह-दाहमें जलना पाप समझते थे। कहा जाता है कि आपको राजकीय संस्थासे जिसका उल्लेख, ऊपर किया जा चुका है, सिर्फ आठ या दश रुपया महीना वेतन मिलता था और वह बराबर चालीस वर्ष तक इसी प्रमाणमें मिलता रहा—उसमें आपने कभी कोई वृद्धि नहीं चाही, जब कि उस विभागमें कार्य करनेवाले अन्य व्यक्तियोंके वेतनमें तिगुनी चौगुनी तक वृद्धि हो चुकी थी। एक बार महाराज की दृष्टि में यह बात आई और उन्होंने अपने कार्य-भारियों को डाट-डपट कर पंडित जी से कहा, कि हम तुम्हारे कार्य से बहुत प्रसन्न हैं, तुम जितना कहो, उतना वेतन बढ़ा दिया जाय। पंडित जी ने कहा, कि महाराज यदि आप सबमुच प्रसन्न हैं, तो काम के ८ घंटे के स्थान पर ४ घंटे कर दिये जाय, जिससे कि मैं और भी अधिक धर्म साधन कर सकूँ। कहते हैं कि महाराज ने उनके इस उत्तरसे प्रसन्न होकर काम करनेके घंटे भी आधे कर दिये और वेतन भी दूना कर दिया। पर पंडितजी ने दूना वेतन लेने से इनकार कर दिया। पंडितजी की इस निलोभो वृत्तिकी राज्य भरमें अति प्रशंसा हुई।

आपके एक शिष्य पं० पारसदासजी निगोत्याने अपनी 'ज्ञानसूर्योदयनाटक' की टीकामें पण्डितजी का परिचय देते हुए उनके विषयमें जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे पण्डितजीकी आत्मपरिणति, चित्तवृत्ति और दैनिक कर्तव्यकी भांकीका अच्छा पता चल जाता है। वे पद्य इस प्रकार हैं—

“लौकिक प्रवीणा तेरापन्थ मांहि लीना, मिथ्या बुद्धि करि छीना जिन आतम गुण चीना है।  
पढ़ें और पढ़ावै मिथ्या अलटकूँ कढ़ावै, ज्ञान दान देय जिन मारग बढ़ावै हैं ॥  
दीसैं घर-वासी रहैं घरहूतैं उदासी, जिन-मारग-प्रकाशी जग कीरत जग-भासी है।  
कहां कौ कहीजे गुण सागर सुखदासजूके, ज्ञानामृत पीय बहु मिथ्या-विस-नासी है ॥१॥  
जिनवर-प्रणीत जिन आगममें सूक्ष्मदृष्टि, जाको जस गावत अधावत नहि सृष्टि है।  
संशय-तम-भान सन्ताप-सरमान रहै, सांचौ निज-पर-स्वरूप भाषत अभीष्ट है ॥  
ज्ञान दान बटत अमोघ छै पहर जाके, आशाकी वासना मिटाई गुण इष्ट है।  
सुखिया सदीव रहैं ऐसे गुण दुर्लभ, पारस आजमाई सदासुखजू पर दृष्टि है ॥२॥

इन पद्योंमें उल्लिखित दिन-चर्यासे स्पष्ट मालूम होता है कि पंडितजीको ज्ञान-गोष्ठी अथवा तत्वचर्चासे कितना अनुराग था और वे अपने समयको व्यर्थ नहीं जाने देते थे किन्तु उसे स्व-परके हित-साधनमें व्यतीत करते थे। उनका घर भी विद्याका केन्द्र बना हुआ था और ज्ञान-पिपासुजन वहाँ ज्ञान-

मृतका पान कर अपनी अज्ञान तृषाके सन्तापको मिटाया करते थे। इस तरह पंडितजीका छद्म पहरका समय तो बहुत ही आनन्दके साथ ज्ञानाराधनामें व्यतीत होता था।

### सेवा-कार्य

यों तो पं० सदासुखदासजीका सारा ही समय जैनधर्म और समाजकी सेवा करते हुए व्यतीत हुआ है। पर उनका विशेष-सेवा कार्य महान ग्रन्थों की टीका करना है जिसे उन्होंने निःस्वार्थभावसे सम्पन्न किया है। उनका यह टीकाकार्य संवत् १६०६ से संवत् १६२१ तक हुआ है इस १५ वर्षों के अर्धमें उन्होंने ७ ग्रन्थोंकी टीकाएं बनाई हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं—भगवती-आराधना, तत्त्वार्थसूत्र, नाटकसमयसार, अकलंक-स्तोत्र, मृत्युमहोत्सव, रत्नकरण्डश्रावकाचार और नित्यनियमपूजा संस्कृत।

इन सब कार्योंसे पंडितजीकी विद्वत्ता और सेवा-कार्यकी प्रशंसा केवल जयपुर तक ही सीमित नहीं रही; किंतु वह जयपुरसे बाहर आरा आदि प्रसिद्ध नगरों तक पहुँच चुकी थी। चुनांचे आरा-निवासी पंडित परमेश्वरसहायजी अप्रवालने अपने पिता कीरतचन्द्रजी के सहयोगसे जैन सिद्धान्तका अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था और बड़े धर्मात्मा सब्जन थे, और उस समय आरामें अच्छे विद्वान् समझे जाते थे। उन्होंने साधर्मि श्री जगमोहनदासकी तत्त्वार्थ विषयके जानने की विशेष अभिरुचि देखकर स्व-परहितके लिए 'अर्थ-प्रकाशिका' नामकी एक टीका पांच हजार श्लोक प्रमाण लिखी थी और फिर उसे संशोधनादिके लिये जयपुरके प्रसिद्ध विद्वान् पं० सदासुखदासजीके पास भेजा था। पंडित सदासुखदासजीने संशोधन सम्पादनादिके साथ उस टीकाको पल्लवित करते हुये ग्यारह हजार श्लोक प्रमाण बनाकर वापिस आरा भेज दिया था। इस टीकाके सम्पादनकार्यमें उनका पूरे दो वर्षका समय लगा था। और उसे उन्होंने सं० १६१४ में वैशाख शुक्ला रविवारके दिन पूर्ण किया था। यह टीका भी बहुत ही प्रमेय-बहुल, सरल तथा रोचक है। जैसा कि उक्त ग्रन्थकी प्रशस्तिके निम्न पद्योंसे प्रकट है—

“पूरवमें गंगातट धाम, अति सुन्दर आरा तिस नाम।

तामें जिन चैत्यालय लसे, अग्रवाल जैनी बहु वसे ॥१३॥

बहु ज्ञाता तिनमें जु रहाय, नाम तासु परमेश्वरसहाय।

जैन ग्रन्थमें रुचि बहु करै, सिध्या धरम न चितमें धरै ॥१४॥

सो तत्त्वार्थ सूत्रकी, रची वचनिका सार।

नाम जु अर्थ-प्रकाशिका, गिणती पांच हजार ॥१५॥

सो भेजी जयपुर विषै, नाम सदासुख जास।

सोपूरण ग्यारह सहस, करि भेजी तिस पास ॥१६॥

अग्रवाल कुल श्रावक कीरतचन्द्र जु आरे माहि सुवास।

परमेश्वरसहाय तिनके सुत, पिता निकटकरि शास्त्राभ्यास ॥१७॥

क्रियो ग्रंथ निज-परहित कारण, लखि बहु रुचि जगमोहनदास।

तत्त्वार्थ अविगम सु सदासुखदास चहुँ दिश अर्थप्रकाश ॥१८॥

इन सब उल्लेखोंसे पंडितजीके सेवा-भावी जीवनकी झांकीका बहुत कुछ चित्र सामने आ जाता है।

## अंतिम जीवन और समाधिमरण

पंडितजीका यह सुखद जीवन दुर्दैवको सहन नहीं हुआ और उनके अन्तिम जीवनमें एक दुःखद घटना घटी, जिसकी स्वप्नमें भी किसीको कोई कल्पना ही नहीं हो सकती थी। उन्हें वृद्धावस्थामें इष्ट वियोग-जन्य असह्य दुःखकी वेदनाका सहसा उठाना पड़ा—उनके इकलौते पुत्र गणेशीलालजीका बीस वर्षकी अल्पायुमें ही अचानक स्वर्गवास हो गया। गणेशीलालजीका पालन केवल पालन-पोषण ही नहीं किया था किन्तु पढ़ा लिखाकर सुयोग्य विद्वान् भी बना दिया था। और जो उनकी सेवाका सुयोग्य अवसर प्राप्त होने ही वाला था कि कालने उसे बीचमें ही कवलित कर लिया जो पंडितजी की आशालताओंका आधार बना हुआ था और पंडितजी उसे सारा गृह-भार सौंपकर प्रकारसे निश्चिन्त होकर अपना शेष जीवन शांतिसे व्यतीत करना चाहते थे। पर विधिने बीचमें ही भङ्ग कर दिया। परिणाम वही हुआ जो होना था। इस असह्य दुःखद घटनाका आपके जी बहुत प्रभाव पड़ा। उससे पंडितजीका उपयोग अब किसी भी कार्यमें नहीं लगता था और न चित्तमें जैसी स्थिरता ही थी। यद्यपि अन्तस्तलमें आत्म-विवेककी किरणें अपना प्रकाश कर रही थीं और वे कभी उदित होकर सान्धवनाकी अपूर्व रेखा सामने ला देती थीं, तथापि चित्तमें वास्तविक शान्ति नहीं थी उस सकटके समय पंडितजी अपनी दैनिक क्रियाओंका अनुष्ठान भी करते थे फिरभी उनमें पहले जैसी शांति और निराकुलता की छाभा दिखाई नहीं देती थी। पंडितजी ससारकी परिवर्तन-शीलतासे, और कर्मबन्धन उससे होनेवाले कटुक परिणामसे तो परिचित थे ही अतः जब कभी वे वस्तु-स्थितिका विचार करते थे तब समयके लिए उनकी वह चिन्ता दूर हो जाती थी; परन्तु मोहोदयसे पुत्रके गुणोंका स्मरण आते ही वह व्यग्र हो उठते थे। उनके इस दुःखमें उनके शिष्य और मित्र तरह तरहसे सान्त्वना देनेका उपक्रम थे, और पंडितजी भी जब ज्ञान और वैराग्यकी विवेचना करते थे तब वे इतने तन्मय हो जाते थे कि उन्हें अपनी इष्ट-वियोगावस्थाका भान ही नहीं है। इसी बीच अजमेर के सुप्रसिद्ध सेठ मूलचन्द्रजी सो पंडितजीको जयपुरसे अजमेर लेगये—वहाँ उन्हें कुछ अधिक शांतिका अनुभव हुआ और कुछ समयके उनकी चित्त-परिणति पूर्व जैसी होगई इससे उनके शिष्यों तथा मित्रों आदिको भी सन्तोष हुआ सेठ मूलचन्द्रजी सोनी द्वारा शहर के बाहर बनवाई गई नशियां और शहर के मंदिर में पांचों की अपूर्व रचना पंडितजी की ही प्रेरणा का फल है, जिसे देखकर दर्शकको साक्षात् प्रत्यक्ष पंच एक देखने जैसा ही आनन्द प्राप्त होता है।

अजमेरमें कुछ समय ठहरनेके बाद पण्डितजीको अपनी इस पर्यायके अन्त होनेका भान लगा अतः सेठजीने जयपुरसे उनके प्रधान शिष्य पं० पन्नालालजी संधीको अपने पास बुला लिया। उस समय पण्डित सदासुखदासजी ने पण्डित पन्नालालजी से अपनी हार्दिक अभिलाषा व्यक्त की और कहा “अब मैं इस अस्थायी पर्यायसे विदा होता हूँ। मैंने और मुझसे पूर्ववर्ती पण्डित टोडरमल्लजी जयचन्द्र और पन्नालालजी आदि विद्वानोंने असीम परिश्रम करके अनेक उत्तमोत्तम ग्रन्थोंकी सुलभ भाषाव्युत्पन्न बनाई हैं और अनेक नवीन ग्रन्थ भी बनाए हैं, परन्तु अभी तक देश-देशान्तरोंमें उनका जैसा प्रचार हो चाहिए था वैसा नहीं हुआ है और तुम इस कार्यके सर्वथा योग्य हो, तथा जैनधर्मके मर्मको भी

ह समझ गए हो, अतएव गुरु-दक्षिणामें तुमसे केवल यही चाहता हूँ कि जैसे बने तैसे इन ग्रन्थोंके चारका प्रयत्न करो वर्तमान समयमें इसके समान पुण्यका और धर्मकी प्रभावनाका अन्य कोई दूसरा कार्य हीं हैं।" यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि पण्डितजीके सुयोग्य शिष्य संघीजीने गुरुदक्षिणा देनेमें रा भी आना-कानी नहीं की। आपने अपने जीवनमें राजवातिक, उत्तर-पुराण आदि आठ ग्रन्थों पर गणा वचनिकाए लिखी हैं और सत्ताईस हजार श्लोक प्रमाण 'विद्वज्जनबोधक' नामके ग्रन्थका भी निर्माण किया है। इसके सिवाय 'सरस्वतीपूजा' आदि कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं तथा अन्य साधर्मी भाइयोंकी सहायतासे एक 'सरस्वतीभवन' की स्थापना की थी, जिससे मांग आने पर ग्रन्थ बाहर भेजे जाते थे इस कार्यको आप अपने गुरुकी अमानत समझते थे और उसका जीवन-पर्यन्त निर्वाह करते रहे।

आपका प० सदासुखदासजीसे वि० सं० १६०१ से १६०७ के मध्य किसी समय साक्षात्कार हुआ। पन्नालालजी रतनचन्द्रजी वैद्य दूनीवालोकें सुपुत्र थे और वे पन्नालालजीको पढा लिखा कर सुयोग्य भेद्वान् बनाना चाहते थे। अस्तु, पण्डितजीके सदुपदेश से ही संघीजीकी चित्तवृत्ति पलट गई और धर्म-थोंके अभ्यासकी ओर उनका चित्त विशेषतया उत्कण्ठित हो उठा, और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं आजसे रात्रिको १० बजे प्रतिदिन आपके मकानपर आकर जैनधर्मके ग्रन्थोंका अभ्यास एवं परिशीलन किया करूंगा। जब संघीजी अपनी प्रतिज्ञानुसार पंडित सदासुखदासजीके मकानपर रात्रिके १० बजे पहुंचे तब पण्डितजीने कहा कि आप बड़े घरके हैं—सुखिया हैं—अतः आपसे ऐसे कठिन प्रणका निर्वाह कैसे हो केगा? उत्तरमें संघीजीने उस समय तो कुछ नहीं कहा—पर वे नियम-पूर्वक उनके पास पहुंचते हे और धार्मिक ग्रन्थोंका अभ्यास कर जैनधर्मके तत्त्वों का परिज्ञान प्राप्त किया।

पण्डितजीको जब अपनी इस अस्थायी पर्यायके छूटनेका आभास होने लगा, तब उसी समय सब कल्प विकल्पोंका परित्याग कर समाधिमरण करानेकी भावना शिष्योंसे व्यक्त की। यद्यपि समाधिमरण करनेकी उनकी यह भावना संवत् १६०८ में समाप्त होने वाली भगवती आराधनाकी टीका-प्रशस्तिके निम्न हिमें पाई जाती है जिससे यह सहज ही जाना जाता है कि वे अपनी इस अस्थायी पर्यायका परित्याग पाय और शरीरकी कृशता-पूर्वक शांतिके साथ करना चाहते थे। और संयम-सहित परलोक पानेकी उनकी वल कामना थी।

“मेरा हित होने को और, दीखै नाहि जगतमें ठौर।  
याते भगवति शरण जु गही, मरण-आराधन पाऊं सही ॥  
हे भगवति तेरे परसाद, मरण-समय मति होहु विषाद।  
पच परमगुरु पद करि ढोक, संयम सहित लहूं परलोक ॥”

इस तरह पण्डित सदासुखदासजीका समय वि०सम्बत्की १६ वीं शताब्दीका उत्तरार्ध और २० वीं शताब्दीका पूर्वार्ध है। क्योंकि पण्डितजीने अपनी पहली टीकाका निर्माण सं० १६०६में २४ वर्षकी अवस्थाके गभग शुरू किया था और उसे दो वर्षमें बनाकर समाप्त किया था। शेष सब रचनाएं इसके बादकी ही हैं।

पण्डितजीने अपने शिष्योंके सहयोगसे अपने शरीरका परित्याग समाधिमरण-पूर्वक अजमेर १६२३ के अन्तमें या १६२४ के प्रारम्भमें किया। पर उसकी निश्चित तिथि आदिका प्रामाणिक तन्त्रेय न मिननेसे उसे यहां सूचित नहीं किया जा सकता।

प्रथम संस्करणकी प्रस्तावनाका ही संशोधन, परिवर्तन एवं आवश्यक परिवर्धन करके वर्तमान रूप दिया गया है।

—परमानन्द शास्त्री

—हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री

# विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	
प्रथम अधिकार	१—७०	तपमद	४
मूल ग्रन्थका मङ्गलाचरण	१	रूपमद	४
समीचीनधर्मके स्वरूप कहनेकी प्रतिज्ञा,	१	धर्मात्माओंके तिरस्कारमें दोष	५
धर्मका स्वरूप	२	सम्पदाकी असारता	५
सम्यग्दर्शनका लक्षण	२	छह अनायतन	५
सत्यार्थ प्राप्तका लक्षण	३	सम्यक्त्व के भेद और उत्पत्तिका प्रकार	५
आप्तमें न पाये जाने वाले १८ दोष	४	पचलब्धियोंका स्वरूप	५
इवेशाम्बर सम्मत कवलाहारका निराकरण	५	उपशम सम्यक्त्व	५
मूर्तिपूजा का निषेध और उमकी सार्थकता	११	वेदक सम्यक्त्व	५
आप्तके पर्यायवाची नाम	१२	ज्ञाथिक सम्यक्त्व	५
सत्यार्थ आगमका लक्षण	१४	सम्यग्दृष्टिके अन्य गुण	५
सत्यार्थ गुरुका स्वरूप	१६	सम्यग्दर्शनसंयुक्त जीवकी महत्ता	५
निःशङ्कित अङ्ग	१८	धर्म अधर्मका फल	५
निःकाञ्चित अंग	२०	कुद्देवादिककी वन्दनाका प्रतिषेध	५
निर्विचिकित्सा अंग	२४	सम्यग्दर्शनकी श्रेष्ठता	६
अमूढदृष्टि अंग	२४	सम्यग्दर्शन की उत्कृष्टताका हेतु	६
उपगृहण अंग	२६	सम्यक्त्व विना मुनि मोक्षका अधिकारी नहीं है	६
स्थितिकरण अंग	२७	जीवका संसारमें उपकारक अनुपकारक कौन है	६
वात्सल्य अंग	२८	सम्यग्दृष्टि मर कर कहा कहां उत्पन्न नहीं होता	६
प्रभावना अंग	३०	सम्यग्दृष्टि मर कर उत्तम मनुष्य होता है ।	६
आठ अंगोंमें प्रसिद्ध व्यक्तियोंके नाम निर्देश	३१	सम्यक्त्वके माहात्म्यसे देवोंमें उत्पत्ति	६
अंगहीन सम्यग्दर्शन ससारके छेदनेमें असमर्थ	३२	सम्यक्त्व के प्रभावसे चक्रवर्ती और र्थंकर होना	६
लोकमूढता	३२	सम्यग्दृष्टि ही निर्वाणका पात्र है	६
देवमूढता	३८	सम्यग्दर्शनकी महिमाका उपसंहार	६
गुरुमूढता	४२	द्वितीय अधिकार	७१-८२
अष्ट मर्दोंके नाम	४३	सम्यग्ज्ञानका स्वरूप	७
ज्ञान मद्	४३	प्रथमानुयोग	७
पूजा मद्	४५	करणानुयोग	७
कुल मद्	४५	चरणानुयोग	७
जाति मद्	४६	द्रव्यानुयोग	७
बल मद्	४६	तृतीय अधिकार	७३-१२
ऋद्धिमद् (धनमद्)	४७	सम्यक्चारित्रिका स्वरूप	७

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
रागद्वेषादिकके अभावसे ही हिंसाका अभाव	७४	यावज्जीवन त्याग योग्य वस्तुएं	११५
सम्यग्ज्ञानीका चारित्र	७४	अभक्ष्य का त्याग और जलगालनका उपदेश	११६
चारित्रके दो भेद	७४	रात्रि भोजन त्यागका उपदेश	१२१
गृहस्थोंका विकल चारित्र	७५	यमनियमका निर्देश	१२६
अगुणव्रतका स्वरूप और भेद	७५	भोगोपभोगपरिमाणमें त्याग योग्य वस्तुएं	१२६
अहिंसागुणव्रतका स्वरूप	७६	भोगोपभोगपरिमाण व्रतमें काल नियम	१२७
हिंसा अहिंसाकी परिभ पा	७८	भोगोपभोगपरिमाण व्रतके पंचातीचार	१२७
अहिंसागुणव्रतके पंचाती चार	८१	चतुर्थ अधिकार	१२८-१८०
सत्यागुणव्रतका स्वरूप	८२	शिक्षाव्रतके भेद	१२८
सत्यागुणव्रतके पंचाती चार	८२	देशावकाशिक शिक्षाव्रत	१२८
अचौर्यागुणव्रतका स्वरूप	८५	देशावकाशिक व्रतमें क्षेत्र की मर्यादा	१२८
अचौर्यागुणव्रतके पंचातीचार	८६	देशावकाशिकमें कालकी मर्यादा	१२६
श्वदारसंतोषागुणव्रत (ब्रह्मचर्यागुणव्रत)	८६	देशावकाशिकका प्रभाव	१२६
श्वदारसंतोषागुणव्रतके पंचातीचार	८७	देशावकाशिकव्रतके पंचातीचार	१२६
परिग्रह परिमाणगुणव्रत	८७	सामायिकका स्वरूप	१२६
परिग्रह परिमाणगुणव्रतके पंचातीचार	८३	सामायिकके योग्य स्थान	१३०
पंचागुणव्रतोंका फल	८३	सामायिककी अन्य सामग्री	१३१
पंचागुणव्रतोंमें प्रसिद्ध पुरुषोंके नाम	८४	सामायिकमें स्थित गृहस्थ मुनिसमान हैं	१३५
प्रथमापीमें प्रसिद्ध पुरुषोंके नाम	८४	सामायिकमें संसार-मोक्ष-स्वरूप चितवन	१३५
अष्टमृजगुण	८४	सामायिकके पंचातीचार	१३६
गुणव्रतोंका स्वरूप	१०२	प्रोपघोपवास शिक्षाव्रत	१३७
देवव्रत	१०२	प्रोपघोपवासमें त्यागने योग्य पदार्थ	१३८
दिनाश्रौती मंत्रांशका क्रम	१०२	उपवासका अर्थ	१३६
मर्यादा शास्त्रमें अगुणव्रत महाव्रतके सदृश हैं	१०३	उपवास के पंचातीचार	१३६
मनाप्रती हेम होय	१०३	वैय्यावृत्य शिक्षाव्रत	१३६
दो प्रकार पंचातीचार	१०३	प्रकारान्तरसे वैयाव्रतका स्वरूप	१४०
द्वयभेद	१०४	आहार दान	१४१
द्वयभेदके दोष भेद	१०४	दान का फल	१४६
द्वयभेदके दोष भेद	१०५	दान का प्रभाव	१४७
द्वयभेदके दोष भेद	१०५	दान के चार भेद और उनका स्वरूप	१४६
द्वयभेदके दोष भेद	१०६	दान के योग्य पात्र-कुपात्र और उसका फल	१६१
द्वयभेदके दोष भेद	१०६	सुपात्र दान करने वालों में प्रसिद्ध	१६५
द्वयभेदके दोष भेद	११४	वैयावृत्य में जिन पूजन का विधान	१६६
द्वयभेदके दोष भेद	११४	पूजने योग्य नवदेव और द्रव्यों का वर्णन	१६७
द्वयभेदके दोष भेद	११४	अष्टमृज वैय्यावृत्यो का स्वरूप	१७३

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
जिन पूजा में प्रसिद्ध मेंढक	१७८	उत्तम तप	२६१
वैयाव्रत के पंचातीचार	१८०	उत्तम त्याग	२६३
पंचम अधिकार	१८१-४०८	उत्तम आकिंचन	२६५
अहिंसाणु व्रतकी पंचभावना	१८१	उत्तम ब्रह्मचर्य	२६७
सत्याणुव्रतकी पंचभावना	१ १	शल्य रहित ही व्रती है	२७१
अचौर्यव्रतकी पंच भावना	१८२	अष्ट शुद्धियां	२७८
ब्रह्मचर्यकी पंच भावना	१८२	भाव शुद्धि	२७८
परिग्रहत्याग की पंच भावना	१८३	काय शुद्धि	२७८
पंचपापोंकी भावना	१८३	विनय शुद्धि	२७८
इन्द्रिय सुख सुख नहीं है	१८७	ईर्यापथ शुद्धि	२७९
मैत्री आदि चार भावना	१८८	भिक्ताशुद्धि	२७९
काय-चित्तन	१९०	प्रतिष्ठापन शुद्धि	२८१
षोडश कारण भावनाका फल	१९१	शयनासन शुद्धि	२८२
दर्शन विशुद्धि भावना	१९२	वाक्यशुद्धि	२८२
विनय सम्पन्नता ”	२०१	अनशनतप	२८२
शीलव्रतेष्वनतिचार ”	२०४	अवमोदर्यतप	२८३
अभीक्ष्णज्ञानोपयोग ”	२०७	वृत्ति परिसंख्यानतप	२८३
संवेग भावना ”	२०८	रसपरित्यागतप	२८३
शक्तिस्त्याग ”	२१०	विविक्त शयनासनतप	२८४
शक्तिस्तप ”	२१३	कायक्लेशतप	२८५
साधु समाधि ”	२१४	प्रायश्चित्ततप	२८६
वैयावृत्य ”	२१७	विनयतप	२८८
अरहन्तभक्ति ”	२१९	वैयावृत्यतप	२८९
आचार्यभक्ति ”	२२३	स्वाध्यायतप	२९०
बहुश्रुतभक्ति ”	२२६	श्रोताओं की जातियां	२९४
प्रवचनभक्ति ”	२३५	कायोत्सर्ग तप	२९५
आवश्यकपरिहाणि ”	२३७	ध्यान और उसके भेद	२९५
मार्गप्रभावना ”	२४१	अनिष्टसंयोगज आर्तध्यान	२९६
प्रवचन-वत्सलत्व ”	२४४	इष्टवियोगज आर्तध्यान	२९७
दशलक्षण धर्म	२४६	रोगजनित आर्तध्यान	३००
उत्तम क्षमा	२४६	निदान आर्तध्यान	३०१
उत्तम मार्दव	२५२	हिसानन्द रौद्रध्यान	३०३
उत्तम आर्जव	२५३	मृपानन्द रौद्रध्यान	३०४
उत्तम सत्य	२५४	चीर्यानन्द रौद्रध्यान	३०४
उत्तम शौच	२५८	परिग्रहानन्द रौद्रध्यान	३०५
उत्तम संयम	२६०		



विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
धर्मध्यानका सामान्य-स्वरूप	३०६	रूपस्थ ध्यान	३५३
आत्माके तीन प्रकार	३०६	रूपातीतध्यान	३६४
प्राणाविचय धर्मध्यान	२१३	शुक्ल ध्यान और उसके चार भेदों का स्वरूप	३६४
अपायविचय धर्मध्यान	३१४	सल्लोखनाका अवसर	३६७
विषाकविचय ,,	३१६	समाधिभरणकी महिमा	३६८
संस्थानविचय ,,	३१७	संन्यासभरणका प्रारम्भिक कर्तव्य	३६९
सृष्टि-कर्तृत्वका खण्डन	३१८	मृत्यु महोत्सव पाठ	३७२
अनित्यभावना	३२०	कायसल्लोखना	३८३
अक्षरण भावना	३२४	सल्लोखनामें आत्मघातका दोष नहीं है	३८४
संसार भावना	३२६	कषाय सल्लोखना	३८५
पकत्व भावना	३३६	सल्लोखनाके अतीचार	३६६
अन्यत्र भावना	३४०	निःश्रेयसका स्वरूप	३६६
अयुचि भावना	३४२	सिद्ध स्वरूप	४०१
प्राप्त्य भावना	३४३	संन्यासके धारक स्वर्गमें ही जाते हैं	४०१
संसार भावना	३४५	श्रावकोंकी ग्यारह प्रतिमा धारण करनेका उपदेश	४०१
निजरा भावना	३४६	दर्शन प्रतिमा	४०२
लोक भावना	३४६	व्रत प्रतिमा	४०३
बोधिलेभ भावना	३४७	सामायिक प्रतिमा	४०३
धर्मभावना	३४८	प्रोषधप्रतिमा	४०३
विरम्य ध्यान	३४८	सच्चित्त्याग प्रतिमा	४०३
वागिणी धारणा	३४६	रात्रिभोजनत्याग प्रतिमा	४०४
अग्निधारणा	३४६	ब्रह्मचर्य प्रतिमा	४४
पवन धारणा	३४६	आरम्भत्यागप्रतिमा	४०४
वाग्नी धारणा	३५०	परिग्रहत्याग प्रतिमा	४०५
पद्मधारणी धारणा	३५०	अनुमतित्याग प्रतिमा	४०६
संस्थ ध्यान	३५०	उद्दिष्टत्याग प्रतिमा	४०६
	३५०	फल्याण पथ प्रवृत्त प्राणीकी महिमा	४०७
	३५०	ग्रन्थका उपसंहार और आशीर्वाद	४०७



# शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	३२	२०	॥२३॥	॥२२॥
१	२	६ शारीरादि	शारीरादि	३३	१	पावत्र	पवित्र
	३	१० पर्दारथनिका	पदारथनिका	३७	३	तीस	तिस
	३	२५ करह्या	कह्या	३७	१०	उपकरणनिकूँ	उपकरणनिकूँ
	४	१४ ज्ञानवरणादि	ज्ञानावरणादि	३७	११	अराधना	आराधना
	५	५ चचशब्द तै	वा 'च' शब्दतै	३७	१५	रत्नयत्रका	रत्नयत्रका
	६	७ वस्त्रादि	वस्त्रादि	४०	३	सदिदट्ठी	सद्दिट्ठी
	६	८ वीतरागका	वीतरागताका	४०	२४	कर्मका हुआ	कर्मका मंद हुआ
	७, १४, १८, २३, २८	असात वेदनीय	असातावेदनीय	४१	२४	जिन	तिन
	६	६ कषायका	कषायका	४४	२	आजिविकादिक	आजीविकादिक
	६	१७ तो जो लेश्या	तेजोलेश्या	४४	१६	दुष्टिनि	दुष्टनि
	१०	६ भवृत्सम्यग्दृष्टि	अत्रनसम्यग्दृष्टि	४४	२६	अष्टसहस्री	अष्टसहस्री
	११	२४ काषायादि	कषायादि	४५	२८	चांडल	चांडल
	१३	१७ सास्ता	शास्ता	४६	६	आजिविका	आजीविका
	१३	२० शिल्पकर	शिल्पिकर	४६	२०	स्वराध्यायमें	स्वाध्यायमें
	१३	२२ शिष्यनि	शिष्यनि	४२	७	दायोपशलब्धिकूँ	दायोशमलब्धिकूँ
	१३	२७ जीवनकूँ	जीवनिकूँ	५५	१६	सम्यक्त्व	सम्यक्त्व
	१४	१५ सार्वजनिका	सर्वजीवनिका	५६	२०	करै है ।	करै हैं सो कहै हैं ।
	१४	२१ धर्म करनेमें धर्म कहै	धर्म कहै	५६	२१	इस	इन
	१४	२५ हरीकूँ	हरिकूँ	५६	२८	सम्यक्त्वमोहनीको	सम्यक्त्वमोहनीको
	१४	२८ लगवाना	लगावना	६५	२	नान्यत्तनू०	नान्यत्तनू०
	१५	१५ शास्त्रनिके	शास्त्रनिके	७२	१०	उपजावनेका का कारण	उपजावनेका कारण
	१५	२३ ज्ञानिके	ज्ञानीके	७२	२५	करणलब्धादिक	करणलब्धादिक
	२५	१ वचनि	वचन	७५	१	ग्रहस्थीनिके	गृहस्थीनिके
	२६	२४ परजीवनके	परजीवनिके	७५	१३	व्यावहार	व्याहार
	२६	४ त्यागिनिमें	त्यागीनिमें	७५	१३	मूर्खेभ्यः	मूर्खाभ्यः
	२६	१२ परमेष्ठिनमें	परमेष्ठीनिमें	७५	२७	अणव्रत	अणव्रत
	३१	१८ करनेवाला । भया,	करनेवाला भया,	७६	१	चरसत्त्वान्	चरसत्त्वान्
	३१	१६ होयतै सै	होय तैसै	७६	७	अप्रत्याख्याना-	अप्रत्याख्याना-
	३१	१६ लगवा	लगावाका	७७	४	जीवनि	जीवने
	३१	२२ सम्यग्दर्शन	सम्यग्दर्शन	७६	२१	हिसा	हिसा
	३१	२३ अत	अत्र	८२	१४	निय	निग्र
	३२	१७ अम्यक्त्व	सम्यक्त्व	८३	१	स्वर्गवभोदाका	स्वर्ग व मोदाका

८३	६	क्या	किया	११२	१३	निके	तितके
८३	१०	स्थूल	स्थूल	१२६	६	देशविकाशिकेन	देशवकाशिकेन
८३	१५	पंचेन्द्रिय	पंचेन्द्रिय	१३१	४	अवधानयुक्तन	अवधानयक्ते न
८३	२७	योप्र ग्न्यजन	यो ग्राम्य जन	१३२	३	दृष्ट स्वभावकू	दृष्टा स्वभावकू
८३	२८	दृद्यमी	दृद्यमी	१३४	१०	घार पाप	घोर पाप
८४	२	पावन असफल	पावना सफल	१३७	३	प्रोषधोपवासस्तु	प्रोषधोपवास्तु
८४	५	पंचपरमेठी में	पंचपरमेठीमें	१३६	६	प्रोषधोपवास	प्रोषधोपवास
८४	१३	तिर्यचनि मे	तिर्यचनि में	१५६	५	जननिके अर्थि रहनेके	जननिके रहनेके
८५	१०	पतितंवा	पतितं वा	१५६	६	करने के धर्मशाला	करने के अर्थि धर्म शाला
८६	१६	चपरदारान्	च परदारान्				
८६	१६	चपापभीते	च पापभीते	१५६	३०	वचनना हीं	वचन नाहीं
८६	२०	निवृत्ति-	निवृत्ति:	१६१	७	स्वरूप तत्वका	तत्वका स्वरूप
८७	६	गहुरि	बहुरि	१६२	१	धरक	धारक
८७	२१	वां छाअधिक	वांछा अधिक	१६२	२४	से ऐमुखवाले	ऐसे मुख वाले
८७	२१	यर्याद	मर्याद	१६३	६	संकरादिहिं	संकरादीहिं
८८	१६	तरस	तरस	१६३	२०	जाति संकरादि	जातिसंकरादि
८६	१०	वाह्य	वाह्य	१८१	२	भावनात	भावनातें
९०	१२	वियोग	वियोग	१८६	५	राजदिक	राजादिक
९०	२३	बराबरो	बराबरी	१६३	१-	दर्शनविशुद्धि	दर्शनविशुद्धि
९३	२७	निघयो	निघयो	२०३	१३	परिभ्रमणके	परिभ्रमणके
९५	१२	उदुम्बर (१)	उदुम्बर (१)	२३२	३०	मूर्तिक	मूर्तिक
१०१	१३	मन्दिरमें मन्दिरमें	प्रवेश मन्दिरमें प्रवेश	२३५	२४	केवलीव असठ	केवली वासठ
१०७	२०	अभक्ष्य	अभक्ष्य	२५३	११	षराङ्मुख	परान्मुख
११०	३	फत	मत	२७२	२३	रापस्थनीयं	रा पस्थणीय
१११	२०	समस्त	समस्त	३१३	३१	प्र पे	प्ररूपे
११२	१२	समत	समस्त				

नम्रनिवेदन— इस संस्करणके प्रारम्भिक प्रूफोंके संशोधनका कार्य विभिन्न व्यक्तियोंने किया है।

अतः कुछ मही भूलों हो गई हैं, कृपया पाठक उन्हें निम्न प्रकार सुधार लें:—

पृष्ठ ७०	से ७१ तक	— प्रथम अधिकार	द्वितीय अधिकार
” ७३	” ६६	” — प्रथम अधिकार	तृतीय अधिकार
” ६७	” १२८	” — चतुर्थ अधिकार	तृतीय अधिकार

निवेदक — हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री



पं० सदासुखजीकृत देशभाषामयवचनिकासहित

## रत्नकरंड श्रावकाचार

यहां इस ग्रन्थकी आदिमें स्याद्वादविद्याके परमेश्वर परमनिर्ग्रंथ वीतरागी श्रीसमन्तभद्रस्वामी जगतके भव्यनिके परमोपकारके अर्थि रत्नत्रयका रक्षणको उपायरूप श्रीरत्नकरंड नाम श्रावकाचारकू प्रकटकरनेके इच्छुक विघ्नरहित शास्त्रकी समाप्तिरूप फलकू इच्छाकरता इष्ट विशिष्ट देवताकू नमस्कार करता सूत्र कहै हैं—

नमः श्रीवर्द्धमानाय निर्द्धूतकलिलात्मने ।

सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते ॥ १ ॥

अर्थ—श्रीवर्द्धमान तीर्थकरके अर्थि हमारा नमस्कार होहु । श्री कहिये अंतरंगस्वाधीन जो अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतवीर्य, अनंतसुखरूप अविनाशीक लक्ष्मी अर बहिरंग इन्द्रादिक देवनिकरि बंदनीक जो समवसरणादिक लक्ष्मी तिसकरि वृद्धिकू प्राप्त होय सो श्रीवर्द्धमान कहिये है । अथवा अब—समंतात् कहिये समस्त प्रकारकरि ऋद्ध कहिये परमअतिशयकू प्राप्त भया है केवलज्ञानादिक मान कहिये प्रमाण जाका सो वर्द्धमान कहिये । इहां “अवाप्योरलोपः” इस व्याकरणशास्त्रके सूत्रकरि अकारका लोप भया है । कैसा कहै श्रीवर्द्धमान निर्द्धूतकलिल है आत्मा जाका, निर्द्धूत कहिये नष्ट किया है आत्मातै कलिल कहिये ज्ञानवरणादि पापमल जानै ऐसा है । बहुरि जाकी केवलज्ञानविद्या अलोकसहित समस्त तीनलोककू दर्पणवत् आचरण करै है ।

भावार्थ—जाके केवलज्ञानविद्यारूप दर्पण विषै अलोकाकाशसहित पटद्रव्यनिका समुदायरूप समस्त लोक अपनी भूत, भविष्यत्, वर्तमानकी समस्त अनंतानंत पर्यायनिकरि सहित प्रतिचिम्बित होय रहे हैं ऐसा अर जाका आत्मा समस्त कर्ममलरहित भया ऐसा श्रीवर्द्धमान देवाधिदेव अन्तिम तीर्थकर ताकू अपने आवरणकषायादिमलरहित सम्यग्ज्ञानप्रकाशके अर्थि नमस्कार किया । अब आगै धर्मके स्वरूपकू कहनेकी प्रतिज्ञारूप सूत्र कहै हैं—

देश्यामि समीचीनं, धर्म कर्मनिवर्हणम् ।

संसारदुःखतः सत्त्वान्, यो धरत्युत्तमे सुखे ॥ २ ॥

अर्थ—मैं जो ग्रन्थकर्ता हूं सो इस ग्रन्थविषै तिस धर्मकू उपदेश करूं हूं जो प्राणीनिनै पञ्चपरिवर्तनरूप संसारके दुःखतै निकाल स्वर्गमुक्तिके बाधारहित उत्तमसुखनिमें धारण करै । बहुरि कैसेक धर्मकू कहूं हूं जो समीचीन कहिये जामें वादीप्रतिवादीकरि तथा प्रत्यक्ष अनुमानादिककरि बाधा नाहीं आवै, अर जो कर्मबंधनकू नष्ट करनेवाला है तिस धर्मकू कहूं हूं ।

भावार्थ—संसारमें धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोक कहें हैं परन्तु शब्दका अर्थ तो ऐसा जो नरकतिर्यचादिक गतिमें परिभ्रमणरूप दुःखतैं आत्माकूं छुड़ाय उत्तम आत्मीक, अविनाशी, अतीन्द्रिय मोक्षसुखमें धारण करै सो धर्म है । सो ऐसा धर्म मोल नहीं आवै जो धन खरचि दान-सन्मानादिकतैं ग्रहण करिये तथा किसीका दिया नहीं आवै, जो सेवा उपासनातैं राजी कर लिया जाय । तथा मन्दिर, पर्वत, जल, अग्नि, देवमूर्ति, तीर्थादिकनमें नहीं धरचा है जो वहां जाय ल्याइये । तथा उपवासव्रत, कायक्लेशादि तपमें हू, शारीरादि कृश करनेतैं हू नहीं मिलै । तथा देवाधिदेवके मन्दिरनिमें उपकरणदान मण्डलपूजनादिकरि तथा गृह छोड़ वन स्मशानमें बसनेकरि तथा परमेश्वरके नामजाप्यादिककरि नहीं पाइये है । धर्म तो आत्माका स्वभाव है जो परमें आत्म-बुद्धि छोड़ अपना ज्ञाता दृष्टारूप स्वभावका श्रद्धान अनुभव तथा ज्ञायकस्वभावमें ही प्रवर्तनरूप जो आचरण सो धर्म है । तथा उत्तमक्षमादि दशलक्षणरूप अपना आत्माका परिणमन तथा रत्नत्रयरूप तथा जीवनकी दयारूप आत्माकी परणति होय तदि आत्मा आप ही धर्मरूप होयगा । परद्रव्य-क्षेत्रकालादिक तौ निमित्तमात्र हैं । जिसकाल यह आत्मा रागादिरूप परणति छोड़ वीतरागरूप हुवा देखै है तदि मन्दिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जप समस्त ही धर्मरूप हैं । अर अपना आत्मा उत्तमक्षमादि वीतरागरूप सम्यग्ज्ञानरूप नहीं होय तो वहां कहीं हू धर्म नहीं होय । शुभराग होय यदि पुण्यबन्ध होय है अर अशुभ राग, द्वेष, मोह होय तहां पापबन्ध होय है । जहां शुभश्रद्धानज्ञानस्वरूपाचरण धर्म है तहां बन्धका अभाव है । बन्धका अभाव भये ही उत्तम सुख होय है । अब ऐसा सुखका कारण जो आत्माका स्वरूप धर्म ताकूं प्रगट करनेकूं सूत्र कहें हैं,—

सद्रष्टृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः ।

यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः ॥ ३ ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र इन तीनोंको धर्मके ईश्वर भगवान तीर्थकर परमदेव धर्म कहें हैं अर इनतैं प्रतिकूल जे मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र हैं ते संसार-पन्थिमणकी परिपाटी होय हैं ।

भावार्थ—जो आपका अर अन्य द्रव्यनिका सत्यार्थ श्रद्धान, ज्ञान, आचरण सो तो संगारपन्थिमणतैं छुड़ाय उत्तम सुखमें धारण करनेवाला धर्म है । अर आपका अर अन्य द्रव्य-निका अग्न्याय श्रद्धान, ज्ञान, आचरण संसारके घोर अनंतदुःखनिमें डबोवनेवाले हैं ऐमें भगवान योगराग कहें हैं । हम हमारी रुचिविरचित नहीं कहें हैं । अब प्रथम ही सम्यग्दर्शनका लक्षण कहें हैं—

श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमतपोभृताम् ।

त्रिमूढापोढमग्राहं सम्यग्दर्शनमस्मयम् ॥ ४ ॥

अर्थ—सत्यार्थ जे आप्त, आगम, तपोभृत तिनका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन होय है । आप्त तो समस्त पदार्थनिकूँ जान, तिनका स्वरूपकूँ सत्यार्थ प्रगट करनेहारा है अर आगम आप्तका कछा पदार्थनिकी शब्दद्वारकरि रचनारूप शास्त्र है अर आप्तका प्ररूप्या शास्त्रके अनुसार आचरणकूँ आचरनेवाला तपोभृत कहिये गुरु है । इहां जो सांचा आप्त, सांचा शास्त्र, सांचा गुरुका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है । अर असत्य आप्त, आगम, गुरुका श्रद्धान-सो सम्यग्दर्शन नाहीं है । सो सम्यग्दर्शन तीन मूढताकरि रहित है अर अपने अष्टअंगनिकरि सहित है अर अष्टमद् जामें नाहीं हैं ।

भावार्थ—सत्यार्थ आप्त, आगम, गुरुका तीन मूढतारहित, निःशंकितादि अष्टअंगसहित, अष्टमदरहित श्रद्धान होय सो सम्यग्दर्शन है ।

इहां कोऊ कहै जो सप्ततत्त्व, नवपदार्थनिका श्रद्धानकूँ आगममें सम्यग्दर्शन कछा है सो इहां कैसें नाहीं कछा ? ताका समाधान-जातैं निर्दोष बाधारहित आगमका उपदेशविना सप्ततत्त्वनिका श्रद्धान कैसें होय । अर निर्दोष आप्तविना सत्यार्थ आगम कैसें प्रगट होय है तातैं तत्त्वनिका श्रद्धान काहू मूल कारण सत्यार्थ आप्त ही है । अब सत्यार्थ आप्तहीका लक्षणकूँ प्रगट करै हैं,—

आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना ।

भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्यासता भवेत् ॥ ५ ॥

अर्थ—धर्मका मूल भगवान आप्त है ताके तीन गुण हैं निर्दोषपणा, सर्वज्ञपणा, परम-हितोपदेशकपणा । तिनमें जाके चुधा, तृषादिक दोष नष्ट हो गये, तातैं निर्दोष अर त्रिकालवर्ती समस्त गुण पर्यायनिकरि सहित समस्त जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, आकाशनिकी अनन्त पर-णति तिनकूँ युगपत् प्रत्यक्ष जाणै तातैं सर्वज्ञ, अर परमहितोपदेशकपणाकरि आगम जो द्वादशांग ताका मूल कर्ता तातैं आगमका स्वामी ऐसें यह कहे जे तीन गुण तिनकरि संयुक्त होय सो निश्चय-करि आप्त होय है, याहीकूँ देव कहिये है । अन्य प्रकार इन तीन गुणनिविना आप्तपणा नाहीं होय है जातैं जो आप ही दोषनिकरि सहित है सो अन्य जीवनकूँ निराकुल, सुखित, निर्दोष कैसें करेगा । जो चुधा की बाधा, तृषाकी बाधा, कामक्रोधादिक दोषसहित होय सो तो महादुःखित है. ताके ईश्वरपणा कैसें होय । अर जो निरन्तर भयवान भया, शस्त्र आदिक ग्रहण करता रहै, ताके वैरी विद्यमान है सो निराकुल कैसें होय । अर जाके द्वेष, चिन्ता, खेदादिक निरन्तर बतें सो सुखित नहीं होय । अर जो कामी रागी होय सो तो निरन्तर परके वश है बाके स्वार्थानता नाहीं, पराधीनतातैं सत्यार्थवक्तापणा वणै नाहीं । अर मदके वशीभूत निद्राके वशीभूत होय ताके सत्यार्थ-वक्तापणा नाहीं होय सकै है । अर जो जन्म-मरणसहित है ताके संसारपरिभ्रमणका अभाव नाहीं

संसार ही है ताकै आप्तपणा नाही वणै । जातैं निर्दोष होय ताही के सत्यार्थपणाकरि आप्त नाम वणै है । रागी-द्वेषी तो आपका अर परका रागद्वेष पुष्ट करनेरूप ही कहै, यथार्थवक्रपणा तो वीतरागकै ही समभवै है । बहुरि सर्वज्ञ नाही होय तो इंद्रियनिके अधीन ज्ञानवाला पूवें भये जे राम रावणादिक तिनकूं कैसें जानैं ? अर दूरवर्ती जे मेरु कुलाचल स्वर्ग नरक परलोकादिकनिकूं कैसें जानैं ? अर सूक्ष्मपरमाणू इत्यादिकनिकूं कैसें जानैं ? इंद्रियजनित ज्ञान तो स्थूल विद्यमान अपने सन्मुखहीकूं स्पष्ट नाही जानै है । इस संसारमें पदार्थ तो जीव, पुद्गल, कालादिक अनन्त हैं अर एक कालमें अपनी भिन्न-भिन्न परणतिरूप परिणमें हैं यातैं एकसमयवर्ती अनन्त पदार्थोंकी भिन्न-भिन्न अनन्त ही परिणति हैं । अर इंद्रियजनितज्ञान क्रमवर्ती स्थूल पुद्गलकी अनेक समयमें भई जे एक स्थूल पर्याय ताकूं जाननेवाला है । अनेक पदार्थनिकी अनेकपर्याय हैं । जो एक समयवर्ती ही जाननेकूं समर्थ नाही तो अनन्तकाल गया अर अनन्तकाल आवैगा, तिनकी अनन्तानन्त परणतिकूं इंद्रियजनित ज्ञान कैसें जानैं । तातैं सर्व त्रिकालवर्ती समस्त-द्रव्यनिकी परिणतिकूं युगपत् जाननेकूं समर्थ ऐसा सर्वज्ञहीके आप्तपणा संभवै है । अर जो परम हितोपदेशक है सोई आप्त है ये तीन गुण जामें होय सो ही देव है । यद्यपि अरहन्तदेव मनुष्य-पर्यायकूं धारण करता मनुष्य है तो हू ज्ञानवरणादि चारिघातिया कर्मनिके नाशतैं प्रगट भया जो अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य, अनन्तसुखरूप निजस्वभाव तिसमें रमनेतैं तथा कर्मनिके विजयतैं अप्रमाण शरीरकी कान्ति प्रगट होनेतैं, अनन्त आनन्दसुखमें मग्न होनेतैं, तथा इन्द्रादिक समस्त देवनिकरि स्तुतियोग्य होनेतैं, तथा अनन्तज्ञानदर्शनस्वभावकरि समस्त लोकालोकमें व्याप्त होनेतैं, अनन्त-शक्ति प्रगट होनेतैं, अन्यदेव मनुष्यनितैं असाधारण आत्मरूपकरि दिए है । तातैं मनुष्य पर्यायहीमें अपने अनन्त ज्ञानवीर्यसुखादि गुणनितैं याकूं देवाधिदेव कहिये है ।

इहां कोऊ प्रश्न करे जो आप्तका लक्षण तीन काहैतैं कया ? एक निर्दोष कहनेतैं ही समस्त गुण लक्षण आवता ? ताकूं कहिये है,—निर्दोषपणातो आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्गल कालादिकके हू है इनके हू अचेतनपणातैं क्षुधा-तृषा, राग-द्वेषादिक नाही है यातैं निर्दोषपणातैं आत्म-पणाका प्रसङ्ग आवता तातैं निर्दोष होय अर सर्वज्ञ होय सोई आप्त है । अर निर्दोष सर्वज्ञ दोय ही गुण कहैं तो भगवान सिद्धनिके आप्तपणाका प्रसङ्ग आवता तव सत्यार्थ उपदेशका अभाव आवता तातैं निर्दोष सर्वज्ञ परमहितोपदेशकता इन तीन गुणनिकरि सहित देवाधिदेव परम औदारिक शरीरमें तिष्ठता भगवान सर्वज्ञ वीतराग अरहंतहीके आप्तपणा है ऐसैं निश्चय करना योग्य है । अर अरहन्तदेव जिन दोषनिकूं नष्ट करि आप्त भये तिन दोषनिके नाम कहनेकूं सूत्र कहैं हैं—

क्षुत्पिपासाजरातङ्कजन्मान्तकभयस्मयाः ।

न रागद्वेषमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते ॥ ६ ॥

अर्थ—लुत् कहिये लुधा १, पिपासा कहिये तृषा २, जरा कहिये वृद्धपणा ३, आतङ्क कहिये शरीर-सम्बन्धी व्याधि ४, जन्म कहिये कर्मके वशतैं चतुर्गतिमें उत्पत्ति ५, अन्तक कहिये मृत्यु ६, भय कहिये इस लोकका भय, परलोकका भय, मरणभय, वेदनाभय, अनरक्षाभय, अगुण्णभय अकस्मात्भय, ऐसैं सप्त प्रकारका भय ७, समय कहिये गर्व मद ८, राग ९, द्वेष १०, मोह ११, चच शब्दतैंग्रहण किये चिन्ता १२, रति १३, निद्रा १४, विस्मय कहिये आश्चर्य १५, विषाद् १६, स्वेद कहिये पसेव १७, खेद व्याकुलता १८, ए अष्टादशदोष जाकै नाहीं सो आप्त कहिये ।

अब यहाँ कौऊ श्वेताम्बर मतका धारक प्रश्नकरै है,—भो दिगम्बरधर्मधारक-हो ! जो केवली भगवानकैं लुधा, तृषाका अभाव है तो आहारादिकनिमें प्रवृत्तिका अभाव होतैं केवलीकैं देहकी स्थिति नाहीं रहीं चाहिये अर देहकी स्थिति तुम्हारे मान्य ही है तातैं केवलीकैं आहार करनेकी सिद्धि भई । जैसे आहार कियेविना अपने देहकी स्थिति नाहीं रहै तैसें केवलीकैं भी आहारविना देह नाहीं रहै अर देहकी स्थिति है तो अवश्य आहार करै ही है । तिसकूँ उत्तर कहैं हैं,—केवलीकैं आहारमात्र साधिये है कि कवलाहार साधिये है ? जो आहारमात्र हीकी सिद्धि चाहो तदि सयोगकेवलीपर्यन्त समस्त जीव आहारक ही हैं ऐसा परमागमका वाक्य है क्योंकि समस्त ही एकेंद्रियकूँ आदि लेय सयोगीपर्यन्त जीव समय-समयमें सिद्ध राशिके अनन्तवें भाग अर अभव्यराशितैं अनन्तगुणा कर्मपरमाणु अर नोकर्मपरमाणूँनिकूँ निरन्तर ग्रहण करैं हैं । अर जो तुम या कहो हम तो केवलीकैं कवलाहार कहिये ग्रास-ग्रास मुखमें ले अन्नजलादिक अपना भक्षण करनेकी ज्यों आहार करना कहैं हैं ? कवलाहार जो ग्रासरूप आहार तिस विना केवलीके देहकी स्थिति नाहीं रहै । जैसे अपना देह कवलाहारविना नाहीं रहै । ताकूँ कहैं हैं—देवनिका देह कवलाहार विना सागरांपर्यन्त कैसे तिष्ठै है ? समस्त देवनिके कवलाहार कदाचित् नाहीं है अर देहकी स्थिति है ही, तातैं तुम्हारा हेतु व्यभिचारी भया । अर जो या कहो देवनिके देहकी स्थिति तो मानसिक आहारतैं है जो मनमें आहारकी इच्छा उपजते ही कण्ठमें अमृत भरै है तातैं तृप्ति होय है सो मानसीक आहार है सो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी कल्पवासी चतुरनिकायके देवनिके कवलाहारविना मानसिक आहारतैं ही देहकी स्थिति है तो तैसें ही केवली भगवानके कर्मनोकर्म-वर्गणाके आहारतैं देहकी स्थिति है । अर जो या कहो केवलीकी तो मनुष्य देहमें स्थिति है यातैं अपने देहकी तुल्य कवलाहारतैं ही देहकी स्थिति मानिये है तो अपना देह ज्यों पसेव, खेद, उप-सर्ग, परीषहादिक भी मानना चाहिये । अर जो या कहोगे केवलीके अतिशय प्रभावतैं नाहीं होय है तो भोजनका अभावरूप भी अतिशय कैसें नाहीं मानो हो । बहुरि अपने देहमें देखिये तैसें केवलीकैं हूँ मानो हो तो जैसें अपने इन्द्रियजनित ज्ञान है तैसें केवलीके हूँ ज्ञान इन्द्रियजनित मानो । देखना, श्रवण करना, आस्वादना, चिन्तवना इन्द्रियनितैं भया तदि केवलज्ञानरूप-अतीन्द्रियज्ञानको जलांजलि दीनी, सर्वज्ञपणाका अभाव आया । अर जो या कहोगे ज्ञानकरि समान होतैं



हू केवलीकै अतीन्द्रियज्ञान ही है, तो देहमें स्थिति होते हू कवलाहार अभाव कैसें नाही मानो हो ? अर जो या कहोगे केवलीकै वेदनीयकर्मका सद्भाव है यातैं भोजनकी इच्छा उपजै है यातैं कवलाहारमें प्रवृत्ति होय है । सो ऐसें कहना हू उचित नहीं जातैं मोहनीयकर्मके सहायसहित ही वेदनीयकर्मके भोजनकी इच्छा उपजावनेमें समर्थपणा है क्योंकि भोजनकी इच्छा सो बुभुक्षा है । इच्छा है सो मोहनीयकर्मका कार्य है, यातैं नष्ट हुवा मोहनीयकर्म जाके ऐसे भगवान केवलीकै भोजन करनेकी इच्छा काहेतैं उपजै ? अर मोहनीय विना हू इच्छा उपजै है, तो मनोहर स्त्रीकू भोगनेकी इच्छा हू उपजनेका प्रसङ्ग आया तथा सुन्दर शय्यामें शयन, आभरण, वस्त्रादि भोगोपभोगकी इच्छा का प्रसङ्ग आया, तदि वीतरागका अभाव भया, जहाँ इच्छा तहाँ वीतरागता नहीं ।

बहुरि तुम्हारे केवली आहार करै हैं सो एक दिनमें एक वार करै हैं कि अनेकवार करै हैं, कि एक दिनके अन्तर, कि दोय दिन, पांच दिन, पक्ष मासादि केता अन्तर करि भोजन करै हैं ? जेता अन्तर कहोगे तितना प्रमाण ही शक्ति रही, शक्ति घटे भोजन करै हैं, भोजनके आश्रय ल भया तदि अनन्तवीर्य भगवान् केवलीकै कहना असत्य भया । केवलीकै आहारकै अधीन ही ल रखा । बहुरि केवली बुभुक्षाका उपशम करनेके अर्थि भोजनका आस्वादन करै हैं सो केवलज्ञानमें भोजनका स्वाद ले हैं कि रसना इन्द्रियतैं आस्वादै हैं ? जो केवलज्ञानतैं आस्वादै हैं तो दूर तंत्रमें तिष्ठता हू भोजनका आस्वादन कर लें तदि कवलाहारकरि कहा प्रयोजन रखा ? अर जो जनाइन्द्रियतैं स्वाद ले हैं तो मतिज्ञानका प्रसङ्ग आया क्योंकि इन्द्रियनिकरि देखना, स्वादना, अग्रण करना, स्पर्शना, चिंतवन करना सो तो मतिज्ञान है । बहुरि जो तुम यह कहो कि सर्वज्ञपणाकै अर कवलाहारकै विरोध नहीं । जैसें इहां आहार करि मनुष्यनिकै ज्ञानकी हीनता नहीं देखिये है तैमें भोजन करवे हू केवलज्ञानकी हीनता नहीं होय है । ताकू कहिये है—जो हम पूछें हैं द्रव्य, आभरण, वस्त्र, वाहन, काम, विषय भोगनेमें हू सर्वज्ञपणाका विरोध नहीं । अर जो तुम या कनो सर्वज्ञकै मोहके उदयका अभाव है यातैं द्रव्य, आभरण, काम, विषयभोगादिकग्रहण करनेकी इच्छा नाही है अर असातावेदनीयका उदय विद्यमान है तातैं आहार ग्रहण करै हैं क्योंकि कर्मनिका शक्ति भिन्न-भिन्न है । कर्मनिकी शक्ति एकसी होय तो कर्मनिमें जुदा-जुदा भेद नहीं होय ।

करनेतैं ही केवलज्ञान उपजनेका नियम नहीं है । मल्लीकुमारीके गृहस्थ अवस्थाहीमें केवलज्ञानकी उत्पत्ति कही हो तथा भरतचक्रवर्तीके समस्त छह खण्डका राज भोगते सन्तेहू, आरीसाका महलमें केवलज्ञान उपज्या कही तथा मरुदेवी हाथीचढ़ी, पुत्रके अर्थि रुदन करतीके केवलज्ञान कही हो । वांस चढ्या नटके केवलज्ञान कही हो । उपासरामें बुहारी देती दासीके केवलज्ञान कही हो तथा गृहस्थीके वा स्त्रीके तथा अन्यधर्मी कौज भेषधारी होहु दंडी, त्रिदंडी, संन्यासी कपाली, फकीर, जटाधारी, मुण्डनकरनेवाला, मृगछाला, वाघाम्बर ओढ़नेवाला समस्त कुलिंगीनके मोक्ष कही हो । समस्त नाई, धोत्री, खटीक, चांडालादि समस्तके मोक्ष कही हो । हृषिकेश चांडालके केवलज्ञान अर मोक्ष कही हो । तुम्हारे व्रततैं, दीक्षातैं ही प्रयोजन नहीं, तुम्हारे केवलज्ञान तो पहले गृहस्थके उपजि आवै अर दीक्षा पाळें होय, यतीपणा पाळें होय ऐसे कही हो । सर्वज्ञपणा पहले हो जाय अर दीक्षा पाळें होय तदि दीक्षातैं कौन प्रयोजन सध्या ? अर गृहस्थके मोक्ष होय अर अन्य कुलिंगीनके हू मोक्ष हो जाय तदि तुम्हारा दीक्षाग्रहण, मुंहपट्टीबन्धन, दण्डग्रहण, बोधापात्रनिका ग्रहण निरर्थक रखा । इत्यादि तुम्हारे हजारों दोष आवैं हैं । अर जो तुम कही असातावेदनीय उदयतैं केवलीके लुधा, तृषा, रोग, मल मूत्रादिक होय, सो नहीं है इसका उत्तर सुनहु-लुधा तो असातावेदनीयकर्मकी उदीरणतैं होय है सो असाताकी उदीरणकी छट्टे गुणस्थानमें व्युच्छित्ति है तदि सप्तम गुणस्थानादिकनिमें लुधादि वेदनाका अभाव है । बहुरि और सुनहु,—जिसकाल मुनि श्रेणी चढ़ैं तदि सातिशय अप्रमत्तगुणस्थानमें अधःकरणके प्रारम्भमें चार आवश्यक होय हैं, एक तो प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धि १, अर दूजा स्थितिबन्धका अपसरण कहिये घटना २, अर सतावेदनीयादिक पुण्यप्रकृतिनिमें अनन्तगुणकारूप रसका वर्द्धित होना ३, अर असातादिक अशुभ प्रकृतनिका रस अनन्तगुणा घट निवकांजीररूप दीय स्थानरूप रहै है, विष हलाहलरूप शक्ति घट जाय है ४ । पाळें अपूर्वकरणमें गुणश्रेणी निर्जरा १, गुणसंक्रमण २, स्थितिखण्डन ३, अनुभाग-खण्डन ४ ये चार आवश्यक होय हैं । तातैं तिनकरणपरिणामनिके प्रभावतैं असातादिक अप्रशस्त प्रकृतिके रसके असंख्यात वार अनन्तका भाग लागि घटनेतैं ऐसी मन्द शक्ति रही सो सर्वज्ञके असातावेदनीयपरीपह उपजायवेकू समर्थ नहीं । अर घातिया कर्मका सहाय रखा नहीं तातैं परी-पह देनेमें समर्थ नहीं है । बहुरि उक्तां च गोमट्टसारै,—

“समयद्विदिगो बन्धो सादसुदयपगो जदो तस्स । तेणासादसुदओ सादसरूवेण परिणमदि ॥१॥  
एदेषा कारणेण हु सादस्सेव दु णिरंतरो उदओ । तेणासादणिमिन्ता परीसहा जिणवरे एत्थि ॥२॥  
एद्वं य रायदोसा इन्दियणाणं च केवलमिह जदो । तेण दु सादासादज सुहदुक्ख एत्थि इन्दियजं ॥३॥

अर्थ—पूर्वली बांधी जो असातावेदनीय ताका असंख्यातवार अनन्तका भाग लागि रस घटि अति मन्द रह गया । अर नवीन असाताका बन्ध होय नहीं । जातैं सप्तम गुणस्थानतैं एक सातावेदनीयका ही बन्ध नवीन होय है अर असाताका बन्ध होय नहीं । अर केवलीके मानाकर्म

बन्धै सो भी एक समयकी स्थितिरूप बन्धै सो उदय होता हुआ ही होय है तातैं असाताका उदय भी सातारूप ही परिणमै है ।

भावार्थ—साताका उदय तो नवीन निरन्तर अनन्तगुणा रसरूप सर्वज्ञके उदयमें आवे अर अमातावेदनीयका रस अनन्तवें भाग, सो जैसे अमृतके समुद्रकूँ एक विषकी कणिका विषरूप करनेकूँ समर्थ नहीं होय तैसेँ सर्वज्ञके अतितीव्र अनन्तगुणा साताकर्मके रसका उदयमें अनन्त, भागरूप अतिमन्द असाताका उदय कैसेँ चुधाकी वेदना उपजावै ? या कारणतैं भगवान् सर्वज्ञके निरन्तर साताकर्मका ही उदय है, यामें किंचित् असाताका उदय हू सातारूप ही परिणमै है, ता कारण असाताका उदयजनित परीपह जिनेंद्रकै नहीं हैं । जातैं भगवान् केवलीके राग-द्वेष नष्ट भया तथा इन्द्रियजनित ज्ञानका अभाव भया, तातैं साता असततातैं उपज्या इन्द्रियजनित सुख दुःख हू केवलीके नहीं है । अर और हू कहैं हैं,—अतिमन्द उदयरूप असाता अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं है । जैसेँ मन्दउदयरूप संज्वलनकषाय अप्रमत्तादि गुणस्थाननिमें प्रमाद नहीं उपजाय सकै तथा जैसेँ अतितीव्र वेदके उदयतैं उपजी मैथुनसंज्ञा सो मन्दवेदका उदयरूप नवमें गुणस्थानमें नहीं हैं तथा निद्रा प्रचलाका उदय तो वारवैं गुणस्थानमें द्विचरम समय पर्यन्त है । परन्तु उदीरणा-विना निद्राकूँ नहीं कर सकै है तातैं जागृत अवस्थाविना आत्मानुभवनरूप ध्यान नहीं बन सकै, तैसेँ असाताकी उदीरणाविना असाता कर्म चुधा तृषादिक नहीं उपजाय सकै है । अर और भी समझो कि—अप्रमत्त हू साधू आहारकी इच्छामात्रतैं प्रमत्तपणानें प्राप्त होय है तो भोजन करता हू केवली प्रमत्त नहीं होय सो बड़ा आश्चर्य है । बहुरि केवली भगवान् त्रैलोक्यके मध्य मारण, ताड़न, छेदन ज्वालन, मद्य मांसादि अशुचि द्रव्यनिकूँ प्रत्यक्ष देखता कैसेँ भोजन करै है ? अल्प शक्तिका धारक गृहस्थ हू अयोग्य वस्तु, निंद्य कर्म देख अन्तराय करै है अर केवली अन्तराय नहीं करै, तो केवली केँ गृहस्थनितैं हू अधिक भोजनमें लम्पटता रही । अर शक्तिकी हीनता रही, तदि अनन्तशक्ति कहां रही ? अर जाके चुधा वेदना होय ताके अनन्तसुख कहां रखा ? चुधा समान वेदना जगतमें अन्य नाहीं हैं । यानें चुधा वेदना सर्वज्ञके होतैं अनन्तवीर्य, अनन्तसुख नहीं ठहरैं । तथा ऋद्धिजनित अनिश्चयमान मुनिविषेँ अन्य मनुष्यनिमें नहीं पाइये ऐसा कार्य करनेका सामर्थ्य पाइये है तो अनन्तवीर्यका धारक केवली भगवान् के आहारविना देहकी स्थिति रहना कहा नहीं सम्भवै है । अर जो सर्वज्ञके हू अन्य मनुष्यनिही ज्यों आहार, निहार, निद्रा, रोग, स्वेद, खेद, मल, मूत्र शिथिल होय तो नामान्य आत्मामें अर परमात्मामें कहा भेद रखा ? बहुरि जीवना कवलाहारतैं ही नाहीं हैं, आत्माकर्मके उदयतैं हैं, उक्त च गाथा—

४, ओजयाहार ५, मानसीकआहार ६, ऐसैं छह प्रकार है । भगवान अरहंतकें तो अन्य जीवनिके असंभव ऐसे शुभ अस्म नोकर्मवर्गणाका ग्रहण सो ही आहार है । अर नारकीनकें कर्मका ओगना सोही आहार है । अर चारप्रकारके देवनिकें मानसीक आहार है, मनमें बांछा होतैं ही कखठयेंतें अमृत भरें हैं ताकरि तृप्तता होय है । मनुष्य अर पशुअनिकें कवलाहार है । अर पक्षीनकें अरुडेमें तिष्ठतेनिकें माताकी उदरकी ऊष्मारूप ओजाहार है । अर एकेन्द्रिय पृथिव्यादिकनकें लैषआहार है अर्थात् पृथिव्यादिकनका स्पर्श ही आहार है । बहुरि भोगभूमिके औदारिक देहके धारक बहुष्यनिका शरीर तीन कोसप्रमाण अर भोजन आंवलाप्रमाण तीन दिनके अन्तर गये लेहैं, यातैं कवलाहार ही देहकी स्थितिका कारण नाहीं हैं अर जो आहारकपनातैं कवलाहारकी ही कल्पना करो हो तो सयोगीपनातैं मनके माननेका अर प्राण माननेतैं पंच इन्द्रियनिका अर शुक्लेश्यातैं कषायका हू प्रसङ्ग आत्रेगा । अर एकादश परीपह जिनके हैं ऐसे कहना तो उपचारमात्र है । वेदनीयकर्म विधमान है यातैं कख्या है । परन्तु जैसे मन्त्र औपधिआदिकके प्रभावकरि, जाकी विषशक्ति नष्ट भई ऐसा विप मारनेकूं समर्थ नाहीं, तैसे शक्तिरहित असातावेदनीय बुधा उपजावनेकूं समर्थ नाहीं हैं । मणि-मन्त्र, औपधि, विद्या ऋद्ध्यादिकनिका अचिन्त्य प्रभाव है ।

श्वेताम्बरनिके कल्पित सूत्र हैं तिनमें अनेक, कल्पित असंभव रचना रची है । कोऊ एक गोशाला नाम गारोड्या महावीरस्वामीके निकट दीक्षित होय, विद्याका मदकरि, महावीर स्वामीछं विवाद करनेकूं समोसरणमें जाय विवाद किया, तो विवादमें हार गयो । तदि क्रोधकरि भगवान ऊपरि तोजोलेश्या कोऊ ऋद्धि अग्निमय प्रज्वलित चलाई । तिसकरि समोसरणमें दोग्य मुनि सिंहासन नीचें दग्ध भए । अर उस तैजस ऋद्धितैं उपजी अग्निमयज्वाला भगवानके ऊपर भी जाय पहुंची, भगवानकूं उपसर्ग भारी भया । तिस अग्निकी गरम बाधातैं भगवानके आंवरुधिरका घेचस (अतीसार) भया । सो छह महीना रखा । पाछें केवलज्ञानतैं जानकरि शिष्यकूं कहि सेठका घरतैं सुपत्नी जीवका पका मांसकूं मंगाय, भक्षण करि, व्याधि मेटी । अर कही में ऐसे कुपात्रकूं विना-समभ्यां दीक्षा दीनी ऐसा अवरणवाद लिखैं हैं । तथा तीन ज्ञान लियें उपजे वीर जिनेन्द्रका चटशालामें पढ़ना कहैं हैं । तथा तीर्थकर तो पहिले दीक्षित नग्न होय हैं । पीछे इन्द्र स्कन्ध ऊपरि वस्त्र धरि देवै तव वस्त्रकूं (ग्रहण कर) लेहैं । तथा वीर-जिनकी वाणी गणधर विना निष्फल खिरी, कोऊ भी सानी नाहीं तथा आदिनाथकूं जुगलिया कहैं हैं । अर कोऊ एक अन्य जुगलियो मर गयो ताकी स्त्री, विधवा भई । तिस विधवा स्त्रीको ऋषभदेव अङ्गीकार करी, तदि दूजी सुनन्दा रानी नाताकी भई । इन दुण्ड्यादिक श्वेताम्बरनिकें ऐसे अनर्थरूप वचन कहनेका भय नाहीं है । तथा ऐसा विरुद्ध कहैं हैं कि—वीर जिन पहिली देवनन्दा नाम ब्राह्मणीके गर्भमें अवतार लेय, अस्सी दिन पर्यंत रखा ता पीछे इन्द्रने विचारी कि ऐसे नीच घरमें इनका जन्म योग्य नाहीं, तातैं हरिण्यगवेपी देवनैं आज्ञा करी, तदि देव जाय देवनन्दा नाम ब्राह्मणीके गर्भमेंतैं निकालि, राजा सिद्धार्थकी रानी त्रिसला ताके

गर्भमें धर्या । विचारो कि जीव अपने बांधे कर्मनिकरि कुलादिकमें उपजें हैं देवनिकरि जन्म कैसें फिरै । परन्तु मिथ्यादर्शनके प्रभावकरि कहनेका ठिकाना नहीं । तथा तीर्थकर केवलीकूँ सामान्य केवली नमस्कार करै है । बाहुवलीने ऋषभदेवकूँ नमस्कार किया कहै हैं, सप्तम गुणस्थानतैं ही वंदनन्दक-भाव नहीं । जहाँ आत्मस्वभावका अनुभव तहां विभाव कैसें कहै है । कृतकृत्य भगवान् सर्वज्ञदेव तिनकै नमस्कार करि कहा साध्य है ? वंदने योग्य परमेष्ठी अरु में वंदना करनेवाला ऐसा भाव तो प्रमत्त नाम छड्डा गुणस्थानपर्यंत ही है । तथा ऐसें कहै हैं एक स्कन्धक नाम त्रिदंडी कुलिंगी भेपीकूँ अपने निकट आवता जान वीरजिन गौतमगणधरकूँ कही कि—यह स्कन्धक संन्यासी आवै है यह जवर है थारै इनके मेल है सामै जाय याकूँ ल्यावो । तदि गौतम गणधर वड़ी भक्तिसें मनुख जाय ल्यायो । वड़ा अनर्य है अवृतसम्यग्दृष्टी भी कुलिंगीका सम्मान नहीं करै ? तो महाव्रती गणधर कैसें भक्तिपूर्वक सन्मान करै ? स्त्रीके पंचमगुणस्थान सिवाय गुणस्थान ही नहीं आदिके तीन संहनन नहीं, अहमिंद्रलोक नहीं अरु सप्तम नरकमें गमन नहीं, ता स्त्रीके मुक्ति कैसें कहै हैं ? तथा मल्लिजिनकूँ नारी कहै हैं ताकी प्रतिमा पुरुषरूप बनाय पूजै हैं ऐसे महा असत्यवादी हैं । तथा कोऊ एक हरिचेत्रका निवासी मनुष्य जाका दोयकोस ऊंचा काय तिसकूँ कोऊ पूर्व जन्मका वैरी देव हर ल्याया, अरु दोय कोसके देहको छोटा करिके भरतचेत्रमें ल्याय, मधुरा नगरका राज देय, अरु मांस भक्षण कराय पापी करि नरक पहुंचाया । तासुं हरिवंशकी उत्पत्ति कहै हैं । तिन मूर्खनिकी मिथ्या कल्पनाका कुछ ठिकाना नहीं । दोय कोसकी काय ताकूँ कैसें छोटी बनाई ? ऊपरसे छेद्या कि नीचैसे कि बीचमेंसे छेद्या, ताका कछु उत्तर नहीं । अरु भोगभूमिके तो समस्त मनुष्य तिर्यच देवगतिगामी हैं तथा भोगभूमिमें तो स्त्री-पुरुष प्रमाणिक हैं । माता पिता मरै तिनकी एवज पहिलें उपजै हैं । जो अनन्त काल गये भी एक-एक घटै तो समस्त भोगभूमि रीती हो जाय । परन्तु मिथ्यादृष्टीनिकै कुछ कुबुद्धिका और (अन्त) नहीं है । तथा छह द्रव्य कहना अरु मुख्य कालद्रव्यका अभाव कहना समयादिक विनाशीककूँ ही काल जानना ।

तथा और कहै हैं कि—साधुके निंदकके मारनेका पाप नहीं । जो देव, गुरु, धर्मका द्रोही चक्री हू होय तो चक्रवर्तीका कटककूँ हू विध्वंस करता साधुके पाप नहीं । जो आपके ऋद्ध्यादिक करि उपजी शक्ति होते हू नहीं मारै तो वह साधु अनंतसंसारी है, ऐसे पापी साधुके कहां साम्य-भाव ? कहां वीतरागता रही ? तथा पापिष्ठ महान शीलवन्तीनकै हू दोष लगाय निर्दोष कहै हैं । भगव नामा चक्रवर्ती तो ब्राह्मी नामा बहनकूँ परणि लीनी कहै हैं । अरु द्रोपदीकूँ पंचभर्तारी कहै हैं अरु पंचभर्तारीहीकूँ मती कहै हैं । अरु कोऊ पूछै तुम सती कहो हो तो पंचभर्तारी मति क्यो अरु पंचभर्तारी कहो हो तो मती मत कहो । ताकूँ ये कहै हैं कोऊ राजादिक सौ स्त्रीका नियम रामे ताके शीलवानपणा ही है, तैसें स्त्रीहू कितनेक पुरुषनिका प्रमाण करै तातैं सिवाय प्रदय नहीं ताके शीलवतीपणा ही है । तथा देवनिकै अरु मनुष्यनिकै कामभोग सेवन कहै

हैं सो वैक्रियिकदेहधारीके अर सप्तधातुमय मलीन देहके संगम कदाचित् नाही होय है । बहुरि कोऊ साधुकै उपवास होय अर अन्य साधुकै आहार उवरिजाय तो उपवासीक साधु भक्षण करले है गुरु की आज्ञातैं व्रत भंग नाही है । तथा उपवासमें औषधि भक्षण करैं तो दोष नाही लागै । तथा समोसरणमें भगवान नग्न बैठैं हैं अर वस्त्रसहित दीखता कहैं हैं । तथा साधु यतिकैं लाठी पात्र वस्त्रादिक चौदह उपकरण रखना ही धर्म है । तथा चांडालादिकनिकै मुक्ति कहैं हैं तथा वीरजिनका समोसरणमें चन्द्रमा सूर्य विमानसहित आये कहैं हैं । सरस्वती गतिकी मर्यादाका भंग कहैं हैं । तथा साधुका मन चल जाय तो श्रावक अपनी स्त्रीकूँ देय कामवेदना मिटाय मन थिर करै । तथा गंगादेवीसे पचपन हजार वर्ष पर्यन्त भरतचक्रीने कामभोग किया कहैं हैं, तथा भोगभूमिके युगल मलमूत्र धारण करैं हैं अर मर जाय तदि तीन कोसके मुरदेके शरीरकूँ देवता उठाय भैरूंडादिक पत्नीनको खुवाय देय हैं । जादव आदिक समस्त क्षत्रियनकूँ मांसभक्षी कहैं हैं । गौतम नाम गणधर आनन्द नाम श्रावक के घर शरीरकी कुशल पूछने गया तदि भूँठ बोल्या, गणधर भी चूककर भूँठ बोलैं हैं । तथा जन्मके समयमें वीरजिन मेरुकूँ कम्पायमान किया कहैं हैं । चर्मका नीर घृतादिक निर्दोष कहैं हैं । इत्यादि हजारों अनर्थरूप कथन करि कल्पितसूत्र बनाये हैं तिनकी विशेष कथा कहां तक कहिये ?

इनही श्वेताम्बरीनमें महाभ्रष्ट दूँडिया भए हैं, ते प्रतिमा के वंदनका अभाव कहैं हैं । अर भोले लोगनिकूँ कहैं हैं ए प्रतिमा एकेन्द्रिय पाषाण तिनकै आगैं पंचेन्द्रिय होय कैसे नाचो हो, कैसे वंदन करो हो । तुमकूँ क्योंकर शुभगति देयगी तातैं साधु दूँडियानकी वंदना दर्शन करो तिनकूँ कहिये है कि—तुम्हारा चर्ममय मलीन चामकर ढक्का, मलमूत्रादि करि भरचा, कफ लार करि लिप्त देह ताका दर्शन करनेतैं कहा साध्य ? तुम आत्मज्ञानकरि रहित समस्त जगतके अभक्त वस्तुनिकूँ भक्षणकरनेहारे तुम्हारा दर्शनतो बंधहीका कारण है । अर तुम्हारा कल्पितसूत्रका श्रवण सम्यक्त्वका विध्वंस करनेहारा बंधका कारण है । अर जिनेन्द्रका धातु पाषाणका प्रतिबिंब, तिनका दर्शनमात्रतैं परम वीतराग सर्वज्ञका ध्यान प्रकट होय जाय, परमशांतता शुभोपयोग प्राप्त होय जाय अर तुम्हारे पापमय देहके दर्शनतैं पापका बन्ध होय जाय । कैसे हो तुम महाविदूरूप विकारी रागद्वेष काषायादि पापमलसहित, अयोग्य अभक्त आहारके लम्पटी, हिंसादिक पापनिमें प्रवृत्ति करनेवारे, अन्य जीवनकूँ मिथ्यामार्गमें प्रवर्तानेहारे, तुम्हारे देखनेकरि घोर पापबन्ध होय । सगहनेवालेके सत्तर कोडाकोडी सागरकी स्थिति लिये मोहनीय कर्मका बन्ध होय है । इम कलिकालमें जैनधर्मका सत्यार्थ मार्गकूँ श्वेताम्बरोंने विगाड्या है । यातैं इनका स्वरूप जाननेके अर्थि ऐसे प्रकरण पाय श्वेताम्बरनिके मतका स्वरूप दिखाया । इनकैं सत्यार्थ आप्तता कैसे होय ? और ह मतवाले जे देव प्रत्यक्ष भयभीत तथा असमर्थ होय चक्र, त्रिशूल, खड्ग ग्रहण करि राखे हैं और कामी होय स्त्रीनिके अर्धिन होय रहे हैं । अरु जुधा, तृषा, काम, राग, द्वेष, निद्रा, नीहास, वैर,

निगेय प्रकट जाके प्रसिद्ध हैं तिनके निर्दोषपना कैसे होय । अरु जे इन्द्रियज्ञानसहित ज्ञानी तिनके सर्वपना आपना कहामें होय ? ताते सर्वज्ञ वीतराग परमहितोपदेशकहीके आपना वने है । अब पूर्वापरविरोधादि दोषनिकरि रहित सत्यार्थ पदार्थनिका उपदेश देनेवाला जो शास्ता ताका नाम प्रकट करता अरु कहै हैं—

परमेष्ठी परंज्योतिर्विरागो विमलः कृती ।

सर्वज्ञोऽनादिमध्यान्तः सार्वः शास्तोपलाल्यते ॥ ७ ॥

अर्थ—जे अर्थसहित अष्ट नामनिकू धारण करै है सो शास्ता कहिये है । परमेष्ठी, परंज्योतिः, विरागः, विमलः, कृती, सर्वज्ञः, अनादिमध्यान्तः, सार्वः, एते सार्थक नाम जाके हैं सो मान्या है, याही क' आप्त कविने है ॥ १७ ॥

विस्मयादिकरहित शरीरमें तिष्ठै सो आप्त भगवान् अरहंत ही विमल हैं । अन्य जे काम मलसहित ते विमल नहीं हैं । बहुरि जिनके कछु करना नहीं रखा जो शुद्ध अन्त ज्ञानादिष्य अपना स्वरूपकू प्राप्त होय कृतकृत्य व्याधिउपाधिरहित भया सो भगवान् आप्त ही कृती हैं । अन्य जे जन्ममरणादिसहित चक्र, त्रिशूल, गदादिक आयुध अर कनककामिनीलें आसक्त भोजनपान कामभोगादिककी लालसासहित, शत्रुनिके मारनेकी आकुलता सहित है ते कृती नहीं हैं । बहुरि जे इन्द्रियादिक परकी सहायरहित युगपत् समस्त द्रव्यगुणपर्यायनिकू क्रमरहित प्रत्यक्ष जानै सो भगवान् आप्त ही सर्वज्ञ हैं । अन्यइन्द्रियाधीन ज्ञानकरि सहित सो सर्वज्ञ नहीं हैं । बहुरि जाका जीव द्रव्यकी अपेक्षा तथा ज्ञान दर्शन सुख वीर्यकी अपेक्षा आदि, मध्य, अन्त नहीं तातें अनादि-मध्यान्त है, अथवा भगवान् आप्त अनादि कालतैं है अर अन्तको प्राप्त नहीं होयगा तातें अनादि मध्यान्त है, अर जिनके मतमें आप्तके जन्म-मरण तथा जीवका नवीन प्रगट होना तथा जीवके ज्ञानादि गुण नवीन प्रगट होना मानै हैं तिनके अनादिमध्यान्तपणा नहीं बनै है । बहुरि जिनके वचनकी अर कायकी प्रवृत्ति समस्त जीवनके हितके अर्थि ही है सो भगवान् आप्त सार्व कहिये है । अन्य जे काम, क्रोध, संग्रामादिक हिंसाप्रधान समस्त पापनिकरि अपना-परका अहितसें प्रवर्तन करै हैं, करावै हैं, तिनके सार्व ऐसा नाम हू नहीं है । ऐसैं अष्ट विशेषणसहित सार्थक नामनिकरि शास्ता जो आप्त—ताका असाधारण स्वरूप कहा । 'शास्तीति शास्ता' इस निरुक्तिका ऐसा अर्थ है जो शिष्य जे निकट भव्य तिनकू हितरूप शास्ति कहिये शिचा करै सो शास्ता कहिये । अत्र कहै हैं जो शास्ता कहिये आप्त है सो सत्पुरुषनिकू स्वर्गमुक्तिके प्राप्तकरनेवाली शिचा करता आपके कुछ विख्यातता, लाभ तथा पूजादिक फलकू वांछा नहीं करै है, ऐसा देखावै हैं,—

अनात्मार्थं विना रागैः शास्ता शास्ति सतो हितम् ।

ध्वनन् शिल्पकरस्पर्शान्मुरजः किमपेक्षते ॥ ८ ॥

अर्थ—शास्ता जो धर्मोपदेशरूप करनेवाला अरहंत आप्त सो अनात्मार्थ कहिये अपना रूपाति लाभ पूजादिक प्रयोजनविना तथा शिष्यनिमें रागभावविना सत्पुरुष जो निकट भव्य तिनकू हितरूप शिचा करै है जैसे शिल्पी जो वादित्र बजानेवाला ताका हस्तका स्पर्शमात्रतैं नाना शब्द करता जो मृदंग, सो किंचित् अपेक्षा नहीं करै है ॥ ८ ॥

भावार्थ—संसारी जन लोकमें जितना कार्य करै हैं तितना अपना अभिमान लोभ जस प्रशंसादिकके अर्थि करै हैं अर भगवान् अरिहंत आप्त अपना प्रयोजन-विना इच्छा-विना ही जगतके जीवनकू हितरूप शिचा करै हैं जैसे मेघ प्रयोजनविना ही लोकनिका पुण्यउदयका निमित्ततैं पुण्यदेशनिमें गमन करै अर गर्जना करै अर प्रचुर जलकी वरपा करै हैं । तैंमें भगवान् आप्त हू लोकनिकेपुण्यके निमित्ततैं पुण्यदेशनिमें विहार करै अर धर्मरूप अमृतकी वरपा करता



उपदेश करै है जातैं सत्पुरपनिकी चेष्टा जो आचरण सो परका उपकारके अर्थि है । तथा जैसे कल्पवृक्षादिक वृक्ष तथा धान्यादिक तथा आम्रादिक वृक्ष परजीवनिका उपकारके अर्थ ही फलैं हैं । पर्वतादिक सुवर्णरत्नादिकनिनै तथा प्रचुर जलनै अनेक वृक्षादिकनिनै इच्छाविना ही जगतका उपकारके अर्थ धारण करै हैं, तथा समुद्रहू रत्नदिकनिनै तथा गौ दुग्धनै परके अर्थि ही धारण करै हैं, तथा दातार परके उपकार निमित्त धनकू धारण करै है, तैसेही सत्पुरुष वचननिकू परोपकारके अर्थि ही इच्छाविना धारण करै हैं । बहुत कहने करि कहा ? जैते उपकारक पदार्थ हैं तितने इच्छाविना ही लोकनिकै पुण्यके प्रभावतैं प्रगटैं हैं तैसे ही भगवान आप्त इच्छाविना ही लोकनिका परमोपकारके निमित्त धर्मरूप हितोपदेश करै हैं । ऐसे आप्तका स्वरूप तो च्यार श्लोकनिमें कहा । अब एक श्लोकमें सत्यार्थ आगमका लक्षण कहैं हैं,—

आप्तोपज्ञमनुल्लंघ्यमदृष्टेष्टविरोधकम् ।

तत्रोपदेशकृत् सार्व शास्त्रं कापथघटनम् ॥ ६ ॥

अथ—शास्त्र ताकू कहिये हैं जो सर्वज्ञ वीतरागका कहा होय अर किसी वादीप्रतिवादी करि उल्लंघन नाही किया जाय, अर दृष्ट जो प्रत्यक्ष अर इष्ट जो अनुमान तिनकरि जामें विरोध नाही आवै, अर तत्र कहिये जैसा वस्तुका स्वरूप होय तैसा उपदेश करनेवाला होय, अर सार्वजनिका हितरूप होय अर कुमार्ग जो मिथ्यामार्ग ताकू निराकरण करै, ऐसे छह विशेषण सहित शास्त्रका स्वरूप वर्णन किया ॥ ६ ॥

इहां ऐसा भाव जानना—जो कालके निमित्तकरि मिथ्यामार्गी बहुत पैदा भये हैं तिनने अपना अभिमान विषय-कपायपुष्ट करने कू अनेक खोटे शास्त्र रचि, जगतकू सत्यार्थ धर्मतैं अष्ट किया है, जेते मत संसार में प्रवतैं हैं तिनने समस्त शास्त्रनिनैही प्रवतैं हैं शास्त्रविना कोऊ मत है ही नाही । ब्राह्मणादिक तो वेद, स्मृति, पुराण तिनमें हिंसाकी प्रधानताकरि अश्वमेध, नरमेधादिक यज्ञ अर जीवनिका शिकार समस्त जलचारी, थलचारीनिकी हिंसाकरनेमें धर्म करनेमें धर्म कहैं हैं । तथा देवतानिके अर पित्र्य व्यंतरादिकनिकू वृषताके अर्थि मांसपिंडका देना हू धर्म बतावैं हैं । अर भवानी भैरवा-दिक देव भैमा-पुरुष इत्यादिकनिकू मार चढ़ावैं, अर भक्षण किये ही प्रसन्न होय हैं । तथा देवता मांसाहारी ही हैं । राजनिका धर्म शिकार ही है इत्यादिक शास्त्रनिके वचनतैं ही प्रवतैं हैं तथा हरिहर ब्रह्मादिक भगवान हैं, परमेश्वर हैं, ऐसे कह करिकै हरीकू तो निरन्तर ग्वालनिकी स्त्रीनिमें धामकू होय वांसुरी बजावना, नाचना तथा गोवर्द्धन अहीरकू मार स्त्री का हरना, अनेक न्याय-अन्याय लीला करना, सो सब शास्त्रनिमें लिखी ही जगत मानै है । तथा हर जो शिव, ताके अर्द्ध-अर्द्धम नार्गना धरना, अर भस्म लगवाना, अनेक हत्या तथा सरापनै प्राप्ति होना, त्रिशूलादिक आयुध रखना, फिर लोकका मंहार करना, ए समस्त शास्त्रनिमें लिखनेतैं ही जगतके लोग निश्चय

करें हैं। तथा शिवका लिंग पार्वतीकी योनिमें तिष्ठतेकूँ निरन्तर जल सींचना, आक-धतूरा चढ़ानना इत्यादि समस्त शास्त्रनिमें लिखनेतैं ही जगतमें अनेक मनुष्य ऐसी प्रवृत्तिकूँ ही धर्म जानि सेवन करै हैं। तथा ब्रह्माकूँ समस्त सृष्टिका कर्ता अर पितामह कहै हैं, तिस ब्रह्माकूँ अतिकामी होय अपनी पुत्रीसूँ विषय करि भ्रष्ट हुवा कहै हैं, उर्वसी नाम अप्सरारामें मोहित होय अपने चार हजार वर्षके फलतैं चार मुख धारण कर उर्वसीकूँ अवलोकन करि तपतैं भ्रष्ट भया अर उर्वसीका सरापकूँ प्राप्त भया सो समस्त उनके शास्त्रनिमें ही लिखा है। तथा जगतकी रचना करनेवाला अर पालन करनेवाला भगवान नारायण कच्छ, मच्छ, सूर, सिंहादिक अनेक अवतार धारण करि दानवांका संहार करना तथा हनूमानकूँ बांदरा, गणेशकूँ हस्तीरूप अर मूसापरि चढया अर मोदक (लाडू) के भक्षणमें अतिरागी सो समस्त शास्त्र हीमें लिखै हैं। जीवमारनेमें, तथा जीव मारि देवतानिकूँ तृप्ति करनेमें तलाव, कूप वा बावड़ी खुदवानेमें बड़ा धर्म होना शास्त्रहीमें लिखा है। तथा श्वेताम्बर अनेक कल्पित सूत्र रचे हैं तिनका भ्रष्टाचार समस्त शास्त्रनिमें ही प्रवतैं है। तथा कलिकालके भेषधारी कुलदेव्यांकी पूजा, क्षेत्रपालादि व्यंतरांकी आराधना, पद्मावती चक्रेश्वरी इत्यादिक देवीनिकी पूजा तथा अनेक मिथ्या प्ररूपणा तर्पणादिक लिखदिये हैं। तथा अन्य भील, म्लेच्छ, मुसलमानादिक समस्तके शास्त्र हैं। शास्त्रांविना मिथ्या कल्पना कैसें प्रवतैं ? तातैं जगत में शास्त्र बहुत हैं।

शास्त्रनिके बलतैं ही अनेक पाखण्ड, भेष, मिथ्या धर्म प्रवतैं हैं तातैं परीक्षा-प्रधानी होय परीक्षा करि शास्त्रकूँ ग्रहण करना। पूर्वोक्त छह विशेषणकरि सहित ही आगम है। प्रथम तो सर्वज्ञ वीतरागका कह्या होय जो सर्वज्ञविना इन्द्रियजनित ज्ञानकरि जीव अजीव अतीन्द्रिय अमूर्तीक पदार्थनिकूँ नाहीं प्रकट कर सकेगा तथा पाप पुण्यादिक अदृष्ट पदार्थनिकूँ तथा परमाणु इत्यादिक सूक्ष्म पदार्थनिकूँ कैसें प्ररूपण करैगा। तथा स्वर्ग नरककी पर्यायनिकूँ अर स्वर्ग-नरकमें उपजे सुख-दुःखके कारण अनेक सम्बन्धनिकूँ कैसें जानैगा। तथा मेरु कुलाचलादिकनिका प्ररूपण कैसें करैगा। तथा जीवादिक द्रव्यनिके अनन्त पर्याय होय गया अर अनन्त होयगा अर अनन्त वस्तु के अनन्त गुण अर अनन्तपर्यायनिका एक समयमें युगपत् परिणमन तिनको क्रमवती इन्द्रियजनित ज्ञानका धारी कैसें प्ररूपण करैगा। तातैं सर्वज्ञविना इन्द्रियजनित ज्ञानिके आगमका कहना यथार्थ नाहीं बनै है। तातैं सत्यार्थ आगमका कहना सर्वज्ञके ही बनै है, अर रागद्वेषका धारक अपना अभिमान पुष्ट करनेका इच्छुक, अपनी विख्यातता करनेका इच्छुक, तथा विषयोंका लोभी होयगा सो सत्यार्थ नहीं कहैगा। तातैं सर्वज्ञ वीतरागका कह्या हुआ ही आगमके प्रमाणता है। बहुरि जिस आगममें वादी प्रतिवादी करि दिखाया अनेक दोष आजाय सो आगम प्रमाण नाहीं, जातैं वादी प्रतिवादी जाकूँ उल्लंघन नाहीं कर सकै, बाधा नाहीं दे सकै ऐसा अनुल्लंघ्य ही आगम है। बहुरि जिम आगममें प्रत्यक्ष अनुमानकरि बाधा नाहीं आवै सो आगम है। जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाणतैं तथा अनुमान प्रमाणतैं बाधा आय जाय सो आगम प्रमाण नाहीं है। बहुरि जिस आगममें आपका अर परका निर्णय नाहीं

तथा-हेय-उपादेय, कृत्य-अकृत्य, देव-कुदेव, धर्म-अधर्म, हित-अहित, ग्राह्य-अग्राह्य, भक्ष्य-अभक्ष्य-कानिर्णय करि सत्यार्थ वस्तुका स्वरूप नहीं, वृथा शब्दोंका आडम्बररूप लोकरञ्जन असत्य कथा, देश-कथा, राजकथा, रानीकथा, कामकथा इत्यादिककारि अनेकविकथा संसारमें उरभानेवाला है, अर आत्माका संसारतैं उद्धार करनेका उपायरूप-कथन नहीं कहै सो मिथ्या आगम है । यातैं तत्वभूत जीवके हितका उपदेशरूप जामें कथन होय सो तत्वोपदेशकृत् ही आगम है । वहुरि जो सर्व प्राणीनिका हितरूप उपदेश करनेवाला होय सो ही सार्वविशेषण सहित आगम है । जामें प्राणीनिकी हिंसा-प्ररूपण करी तथा मांसभक्षण तथा जलथल आकाशगामी जीवनिके मारनेके उपाय तथा महाआ-रण्यके तथा मारण उच्चाटन करने का, परधन हरनेका, संग्राम करनेका, सैन्यके विध्वंस करनेका, नगर प्राप्त विध्वंस करनेका, परिग्रह परस्त्रीमें रुचनेका, उपाय वर्णन किया, सो आगम सार्थ कहिये सत्यस्त प्राणीनिका हितरूप नहीं । वहुरि जो कुमार्गका निराकरण करि स्वर्ग-मोक्षके मार्गका उप-देश करनेवाला होय सो क्वाथघट्टन विशेषण सहित आगम है अर जो शृंगार वीर रसादिकका वर्णन करि कुमार्गमें प्रवर्तानेवाला तथा जुआ-मांसभक्षणादिक छोटे विसनिरूप मार्गमें तथा संसारमें लयनेके कारण जो रानी, द्वेषी, विषयी, कषायी देव तिनकी सेवा तथा पाषण्डी भेषीनिकी उपा-तना, मिथ्या धर्यरूप कुमार्ग तिनमें प्रवर्तिरूप कथनी जामें होय सो खोटा आगम है । जो विशेष नहीं समझै तिनकूं भी इतना समझना चाहिये जो वीतरागका आगम होयगा तामें रागादिक विषय कषायका अभाव अर समस्त जीवनिकी दया ये दौय तो प्रधान हों ही । ऐसैं एक श्लोक ये आगमका लक्षण कहा ।

अथ तपस्वी जो सत्यार्थगुरु ताका स्वरूप कहैं हैं,—

विषयाशावशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः ।

ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥१०॥

अर्थ—जो पांच इन्द्रियनिकी विषयानिकी जो आशा कहिये वांछा ताकरि रहित होय, छह कायके जीवनिका घात करनेवाला आरम्भ कर रहित होय अर अन्तरङ्ग बहिरङ्ग समस्त परि-ग्रहकरि रहित होय अर ज्ञान ध्यान तपमें आसक्त होय ऐसैं चारि विशेषण सहित जो तपस्वी कहिये गुरु मो प्रशंसा करिये है ॥१०॥

भावार्थ—जो गन्ना इन्द्रियका लम्पटी होय, नाना रसनिके स्वादकी आशाके वशीभूत होय रखा होय, तथा वर्ण इन्द्रियका वशीभूत होय, अपना यश-प्रशंसा सुनवाका इच्छुक होय, अभिमानी होय, तथा नेत्रादिककरि रूप महल मन्दिर वन वाग ग्राम आभरण वस्त्रादिक देखनेका इच्छुक तथा कोमल शय्या कोमल ऊँचा आमन ऊपरि सोवने बैठनेका इच्छुक, सुगन्धादिक ग्रहण करनेका इच्छुक विषयोंका लम्पटी होय सो औरनिकूं विषयनितैं छुड़ाय, वीतराग मार्गमें नहीं प्रवर्तवै,

सराग मार्गमें लगाय संसार समुद्रमें डबोय देय है । तातैं विषयनिकी आशाके वश नाहीं होय सो ही गुरु आराधना-करने, वन्दने योग्य है । जातैं विषयनिमें जाके अनुराग होय सो तो आत्मज्ञान-रहित बहिरात्मा है गुरु कैसेँ होय बहुरि जाकेँ त्रसस्थावर जीवनिका घातका आरम्भ होय ताकेँ पापका भय नाहीं, पापिष्ठकेँ गुरुपना कैसेँ सम्भवै ? बहुरि जो चौदहप्रकार अन्तरङ्गपरिग्रह अर दस प्रकार बहिरङ्गपरिग्रहसहित होय सो गुरु कैसेँ होय ? परिग्रही तो आप ही संसारमें फंसरह्या है सो अन्यका उद्धारक गुरु कैसेँ होय । इहां मिथ्यात्व १, वेद जो स्त्री-पुरुष नपुंसक २, राग ३, द्वेष ४, हास्य ५, रति ६, अरति ७, शोक ८, भय ९, जुगुप्सा १०, क्रोध ११, मान १२, माया १३, लोभ १४, ऐसेँ चौदह प्रकार अन्तरङ्ग परिग्रह हैं । इनका स्वरूप कहिये है,—यद्यपि मनुष्यादि पर्याय अर शरीर अर शरीरका नाम, शरीरका रूप तथा शरीरके आधार जाति, कुल, पदस्थ राज्य, धन, कुटुम्ब, जस-अपजस, ऊँच-नीचापना, निर्धनपना, मान्यता-अमान्यता, ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, शूद्रादिक वर्ण, स्वामी-सेवक, जती-गृहस्थपना इत्यादिक बहुत प्रकार हैं ते पुद्गलनिकी रचनामय कर्मनिके किये हुए प्रत्यक्ष देखैं हैं, सुनैं हैं, अनुभवैं हैं, जो ये विनाशीक हैं पुद्गल मय हैं, मेरा स्वरूप नाहीं है ऐसेँ आछीतरह चारम्बार निर्णय करि राख्या है तो हू अनादिकालतैं मिथ्यात्वकर्मका उदयकरि ऐसा संस्कार दृढ़ होय रह्या है जो इनिका नाशतैं आपका नाश मानैं हैं । इनके घटनेतैं अपना घटना, बढ़नेतैं अपना बढजाना, ऊँचापना नीचापना मानि समस्त देहादिकमय होय रहैं हैं । यद्यपि अपने वचनकरि इन समस्तकूँ पररूप कहैं हैं हमारा नाहीं, पराधीन विनाशीक है तथापि अभ्यन्तर इनका संयोग वियोगमें राग-द्वेष-सुख-दुःखरूप अपने आत्माका होना सो मिथ्यात्व नाम परिग्रह है ॥ १ ॥ बहुरि स्त्री, पुरुष, नपुंसकादिकमें कामसेवनैरूप राग अन्तरङ्ग में होना सो वेद नामका परिग्रह है ॥२॥ परद्रव्य जो देह, धन, स्त्री, पुत्रादिकनिमें रंजायमान होना सो रागपरिग्रह है ॥३॥ परका ऐश्वर्य, यौवन, धन, सम्पदा, यश, राज्य, विभवादिकनैं वैर रखना सो द्वेषपरिग्रह है ॥४॥ हास्यके परिणाम सो हास्यपरिग्रह है ॥५॥ अपना मरण होनेतैं वियोग, वेदनादि होनेतैं डरपना सो भयपरिग्रह है ॥ ६ ॥ आपके रागकरनेवाला पदार्थमें आसक्ततातैं लीन होना सो रतिपरिग्रह है ॥७॥ आपकूँ अनिष्ट लागे तिसमें परिणाम नहीं लगना सो अरतिपरिग्रह है ॥८॥ इष्टका वियोग होतैं क्लेशरूप परिणाम होना सो शोकपरिग्रह है ॥ ९ ॥ घृणावान वस्तुको देख अश्रण, स्पर्शन, चिंतवनादिक करि परिणाममें ग्लानि उपजना सो जुगुप्सापरिग्रह है अथवा परका उदय देख सुहावै नहीं सो जुगुप्सापरिग्रह है ॥१०॥ रोपके परिणाम सो क्रोधपरिग्रह है ॥११॥ ऊँच जाति, कुल, तप, रूप, ज्ञान, विज्ञान, ऐश्वर्य, बल इत्यादिमा मद करनेकरि आपकूँ ऊँचा और परकूँ नीचा समझि, कठोर परिणाम होना सो मानपरिग्रह है ॥१२॥ कपटलिये वक्रपरिणाम सो मायापरिग्रह है ॥१३॥ परद्रव्यनिमें चाहरूप परिणाम सो लोभपरिग्रह है ॥१४॥ ऐसेँ संसारका मूल, आत्माका घातक, तीव्रबन्धनके कारण चतुर्दशप्रकार अभ्यन्तर परिग्रह

हैं। अर क्षेत्र १, वास्तु २, हिरण्य ३, सुवर्ण ४, धन ५, धान्य ६, दासी ७, दास ८, कुप्य ९, मांड १० ऐसैं दशभेदरूप बाह्यपरिग्रह है। ऐसैं अन्तरङ्ग बहिरङ्ग चौबीसप्रकारके परिग्रहरहित निर्ग्रन्थ मुनिकैं ही गुरुपना निश्चय करना। संयमधारण करकै भी अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग परिग्रहकरि जिनका मन मलीन है, तिनके गुरुपना नाहीं वनै है। बहुरि जे निरन्तर दिवस रात्रिविपै चालते हालते, बैठते, भोजन करतेहू ज्ञानाभ्यासमें धर्मध्यानमें इच्छानिरोध नाम तपमें आसक्त हैं ते गुरु प्रशंसायोग्य सान्य हैं, पूज्य हैं, बन्ध हैं। इन गुणनिविना अन्यकूँ सम्यग्दृष्टि बन्दनादिक नाहीं करै है। अथवा “ज्ञानध्यानतपोरत्नः” ऐसाहू पाठ है याका अर्थ ऐसा है ज्ञान ध्यान तप ही हैं एत जाकै ऐसा गुरु होय है। ऐसा गुरुका स्वरूप कइया।

ऐसैं देव गुरु आगमका श्रद्धान है लक्षण जाका ऐसा सम्यग्दर्शन ताका निःशंकित नाम गुण कहनेकूँ सूत्र कहै हैं,—

इदमेवेदृशं चैव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा ।

इत्यकम्पाऽऽयसाम्भोवत्सन्मार्गेऽसंशया रुचिः ॥११॥

अर्थ—इदं कहिये यह आप्त, आगम, गुरुका लक्षण कइया सो ही तत्त्वभूत सत्यार्थ स्वरूप है। ईदृशं चैव कहिये और इस प्रकार ही है, अन्यप्रकार नाहीं। ऐसैं अकम्प जो खड्गका जल तिमकी ज्यों सन्मार्गमें संशयरहित जो रुचि कहिये श्रद्धान सो निःशंकित गुण है ॥११॥

भावार्थ—संसारमें जब अनेक प्रकारके गदा, चक्र, त्रिशूलादिक आयुध अर स्त्रीनिमें अति आसक्त क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी अपना कर्तव्य दिखावनेके इच्छुकनिक्कूँ देव कहै हैं अर हिंसा तथा काम क्रोधादिकनिमें धर्मका प्ररूपक आगमकूँ आगम कहै हैं, अनेक पाखण्डी लोभी कामी अभिमानीनिक्कूँ गुरु कहै हैं सो कदाचित् नाहीं है। ऐसा जाके दृढ़ श्रद्धान है मूढनिकी खोटी युक्तिकरि जाका चित्त चलायमान नाहीं होय तथा छोटे देवतानिके विकार करनेकरि मन्त्र-तन्त्रादिककरि परिणाम विकारी नाहीं होय हैं। जैसे खड्गका जल पवनकरि चलायमान नाहीं होय, तैमें परिणाम सत्यार्थ देव, गुरु, धर्मके स्वरूपतैं मिथ्यादृष्टीनिके वचनरूप पवनकरि संशयकूँ नाहीं प्राप्त होय, तिमके निःशंकितगुण होय है। इहां और हू विशेष कहिये हैं,—

जो आत्मतत्त्वका स्वरूप निर्दोष आगममें कइया ताकूँ स्वानुभवकरि आपकूँ आप जाण्या अर पर-पुद्गलिनिके सम्बन्धकूँ पररूप जाण्या सो सम्यग्दृष्टि सप्तभयकरिरहित होय, निःशंकित-गुणकूँ प्राप्त होय है। सो सप्तभयके नाम कहै हैं—इमलोकका भय १, परलोकका भय २, मरण-का भय ३, वेदनाभय ४, अनरनाका भय ५, अगुप्ति भय ६, अकस्मात् भय ७,। तिनमें अपना परिग्रह इन्द्रादिक तथा आर्जाविकादिक विगड़ि जानैका भय सो इमलोकका भय है सो समस्त संसारी जीवनिक्कूँ हैं। बहुरि जा परलोकमें कौन गति क्षेत्रकूँ प्राप्त हुंगा ऐसा परलोकका भय है।

बहुरि मरण होनेका बड़ा भय जो मेरा नाश होयगा, नहीं जानिये कैसा दुःख होयगा, ऐसा अभाव होयगा, ऐसा मरणभय है। बहुरि रोगादिक कष्ट आवनेका भय सो वेदनाभय है। बहुरि अपना कोऊ रत्नक नहीं ऐसा जानि भय करना सो अनरत्नाभय जानना। बहुरि अपनी वस्तुका चोरनेका भय सो अगुप्ति भय है। बहुरि अकस्मात् अचानक दुःख उपजनेका भय सो अकस्मात् भय है। अपना अर परका स्वरूपकूँ सम्यक् जाननेवाला सम्यग्दृष्टिके ये सप्तभय नहीं होंय हैं। इस देहमें पगके नखतैं लगाय मस्तक पर्यंत जो ज्ञान है चैतन्य है, सो हमारा धन है, इस ज्ञान-भावतैं अन्य एक परमाणूँ मात्र हूँ हमारा नहीं है। देह अर देहके सम्बन्धी जे स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, राज्य विभवादिक हैं ते मोतैं भिन्न परद्रव्य हैं, संयोगतैं उपजैं हैं हमारा इनका कहा संबंध ? संसारमें ऐसे सम्बन्ध अनन्तानन्त होंय वियोग भये हैं। जिनका संयोग भया है तिनका वियोग निश्चयतैं होय ही गा। जो उपजा है सो विनसैगा। मैं ज्ञानस्वरूप आत्मा उपज्या नहीं, विनखंगा नहीं, ऐसा जाके दृढ़ निश्चय है तिसकै देह छूटनेका अर दस प्रकार परिग्रहका वियोग होनेका भय नहीं, तदि इस लोकके भयरहित सम्यग्दृष्टि निःशंक हैं। बहुरि सम्यग्दृष्टिकै परलोकका भय हूँ नहीं हैं। जिसमें समस्त वस्तु अवलोकन करिये सो लोक है। जातैं हमारा लोक तो हमारा ज्ञानदर्शन है, जिसमें समस्त प्रतिबिंबित होय रहे हैं।

भावार्थ—जो समस्त वस्तु भूलकैं हैं सो हमारा ज्ञानस्वभाव में अवलोकन करूं हूँ, हमारे ज्ञानके बाह्य किसी वस्तुकूँ में नहीं देखूं हूँ, नहीं जाणूं हूँ, जो कदाचित् हमारा ज्ञान है सो निद्राकरि मुद्रित होय जाय तथा रोगादिककरि मूर्च्छाकरि मुद्रित होय जाय तो समस्त लोक विद्यमान है तो हूँ अभावरूपसा ही भया यातैं हमारा लोक तो हमारा ज्ञान ही है। हमारा ज्ञान बाह्य किसी वस्तुकूँ देखनें जाननेमें आवैं नहीं है अर हमारे ज्ञानतैं बाह्य जो लोक है, जिसमें नानाप्रकार नरकस्वर्ग सर्वज्ञके प्रत्यक्ष है सो सब मेरा स्वभावतैं अन्य है। पुण्यका उदय है सो देवादि शुभ-गतिका देनेवाला है। अर पापका उदय है सो नरकादिक अशुभगतिका देनेवाला है, यातैं पाप-पुण्य दोऊ ही विनाशीक हैं अर स्वर्ग नरकादिक पुण्य-पापका फल हूँ विनाशीक है। अर मैं आत्मा ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्यका अविनाशणानैं धारण करता अखण्ड हूँ, अविनाशी हूँ, मोक्षका नायक हूँ, मेरा लोक मेरे मांहीं है। तिसहीमें समस्त वस्तुकूँ अवलोकन करता वसूं हूँ। ऐसैं पर-लोकका भयकूँ नहीं प्राप्त होता सम्यग्दृष्टि निःशंक है। बहुरि स्पर्शन, रसना, घ्राण, नेत्र, कर्ण ये पंच इंद्रिय अर मन, वचन, कायका बल अर आयु अर श्वासोच्छ्वास ये कर्मनिकारि ग्ये बाह्यप्राण हैं, पुद्गलमय हैं इन प्राणनिका नाशकूँ जगतमें मरण कहैं है अर आत्माका ज्ञान-दर्शन-सुख सत्त्वारूप भावप्राण हैं तिनका नाश-कोऊ कालमें हूँ नहीं है। यातैं जो उपजैगा मो मरैगा मो पुद्गल परमाणु संचयकूँ प्राप्त होय इंद्रियादिक प्राणस्वरूपकरि उपजैं हैं, ये ही विनशैं हे. ये मेरा स्वभावरूप ज्ञान-दर्शन-सुख सत्ता कदाचित् तीनकालमें हूँ विनाशीक नहीं है। इंद्रियादिक प्राण

पर्यायकी लार उपजै हैं, विनशैं हैं, मैं तो चैतन्य अविनाशी हूँ ऐसा निश्चयका धारक सम्यग्दृष्टिके सरणके भयकी शंका नाहीं है। बहुरि वेदना भयकूँ जीत निःशंक है। वेदना नाम जाननेका है सो जाननेवाला मैं जीव हूँ, सो अपना एक अचलज्ञानका ही अनुभव करूँ हूँ, सो तो वेदना अविनाशीक है। सो जानका अनुभव वेदना तो शरीरविषैं नाहीं है अर वेदनीयकर्मजनित सुखदुःखरूप वेदना है, सो मोहकी महिमातैं आपमें ही दीखै है परन्तु मेरा रूप नाहीं है, शरीरमें हैं। मैं इसतैं भिन्न ज्ञाता हूँ, ऐसैं ज्ञानवेदनातैं देहकी वेदनाकूँ भिन्न जानता सम्यग्दृष्टिनिःशंक है। बहुरि अनरक्षाभय हू सम्यग्दृष्टिकैँ नाहीं होय है जातैं जगतविषैं जो सत्त्वारूप वस्तु है ताका त्रिकालहूमें नाश नाहीं है ऐसा हमारे दृढ़ निश्चय है तातैं मेरा ज्ञानस्वरूप आत्मा हू स्वयं किसीकी सहाय विना ही सत् है। यातैं याका कोऊ रक्षा करनेवाला हू नाहीं, अर कोऊ विनाश करनेवाला भी नाहीं है। जाका कोऊ विनाश करनेवाला होय, ताका रक्षक हू कहुँ देख्या चाहिये, तातैं सम्यग्दृष्टि अविनाशी स्वरूपकूँ अनुभव करता, अनरक्षाभयरहित निःशंक है। बहुरि अगुप्तिभय जो कपाटादिककी रक्षाविना हमारा धन नष्ट होय जासी, ऐसा चोरको भय सो हू नाहीं है जो वस्तुका स्वरूप निजरूप अपने स्वरूपकैँ मांही ही है अपना रूप आपतैं वाहर नाहीं है यातैं चैतन्यस्वरूप जो मैं आत्मा ताका चैतन्यरूप हमारे मांही ही है यामें परका प्रवेश नाहीं, यो अनन्तज्ञानदर्शन हमारा रूप सो ही हमारा अप्रमाण अविनाशी धन है, यामें चोरका प्रवेश नाहीं, चोर हर सकै नाहीं तातैं सम्यग्दृष्टि अगुप्तिभय निःशंक है। बहुरि सम्यग्दृष्टिके अकस्मात्भय हू नाहीं है, जातैं मेरा आत्मा तो सदा काल शुद्ध है, दृष्टा है, अचल है, अनादि है, अनन्त है, स्वभावतैं सिद्ध है, अलक्ष है, चैतन्य प्रकाशरूप सुखका स्थानक है, इसमें अचानक कछु हू होना नाहीं है, ऐसैं दृढभावयुक्त सम्यग्दृष्टि निःशङ्क है। जाकैँ सम्यग्दर्शन है, ताके पणाममें सप्त भय नांही हैं सत्यार्थ अपना स्वरूप जानैँविना सप्तभयरहित अपना आत्मा नांही होय है। बहुरि सम्यग्दृष्टि अहिंसाकूँ ही धर्म निश्चयरूप जानैँ है, जाकैँ ऐसी शङ्का नाहीं उपजै है, जो यज्ञ-होमादिक जीवघातके आरम्भ इनमें हू धर्म कछु तो होयगा ऐसी शङ्काका अभाव सो निःशङ्कित अङ्ग है।

अब एक श्लोक करि दूजे निःकांचितगुणकूँ कहै हैं:—

कर्मपरवशे सांते दुःखैरन्तरितोदये ।

पापवीजे सुखेऽनास्था श्रद्धानाकाङ्क्षणा स्मृता ॥१२॥

अर्थ—जो इन्द्रियजनित सुखमें सुखपनाका आस्थारहित श्रद्धानभाव सो अनाकांचणा नामा सम्यक्त्वका गुण भगवान कहा है। वैसाक है इन्द्रियजनित सुख, कर्मनिके परवश है, स्वाधीन नाहीं है, पुण्यकर्मके उदयके अधीन है। पुण्यकर्मका उदयके सहायविना कोट्यां उपाय महान पुरुषार्थ करते हू सुखकी प्राप्ति नाहीं होय है, इष्टका लाभ नाहीं होय है, बहुरि अनिष्टको

प्राप्त होय है । अर कदाचित् पुण्यके उदय करि सुखकू प्राप्त भी होय तो सो सुख अन्तकरि सहित है, पराधीन कितने काल भोगैगा ? जातैं इन्द्रियजनित सुख है सो अपने इष्ट विषयके अधीन है अर इष्टको समागम है सो विनाशीक है । इन्द्रधनुषवत् विजुरीका चमत्कारवत् क्षणभंगुरि है तथा पराधीन है, शरीरकी नीरोगिताके अधीन तथा धनके अधीन, स्त्रीके अधीन, पुत्रके अधीन, आयुके अधीन, जीविकाके अधीन तथा क्षेत्रके अधीन, कालके अधीन, इन्द्रियनके अधीन, इन्द्रियनिके विषयके अधीन, इत्यादिक हजारों पराधीनताकरि सहित अर पतनके सम्मुख केतेक काल भोगनेमें आवै है तातैं इन्द्रियजनित सुख है सो अवश्य अन्तकरि सहित ही है । अर अन्तकरि सहित है तो हू अखण्ड धारा प्रवाहरूप नाहीं है वीचि-बीचिमें अनेक दुःखनिके उदय सहित है । कदे तो शोक आय जाय है, कदे स्त्री-पुत्र-मित्रको वियोग होना, कदे अपमानको होना, कदे धनकी हानि होना, कदे अनिष्टको संयोग होना, ऐसैं अन्तरित अनेक दुःखनिसहित है । बहुरि पापका बीज है, इन्द्रियजनित सुखनिमें लीन होते अपना स्वरूप भूलै ही, अर महाघोर आरम्भमें तो प्रवतैं ही, अन्यायके विषयसेवन करै ही, यातैं पापबन्ध होय ही है, तातैं इन्द्रियजनितसुख नरक-तिर्यचादिक गतिमें परिभ्रमण करावनेवाला पापबन्धका बीज है । ऐसा पराधीन अन्तसहित दुःखनिकरि व्याप्त जे इन्द्रियजनित सुख हैं ते सम्यग्दृष्टिकू सुख नाहीं दीखैं हैं तदि सुखमें आस्थारूप श्रद्धान कैसें होय ? जब श्रद्धान ही नाहीं तदि वांछा कैसें करै ? भाव ऐसा जानना जो सम्यग्दृष्टि है, ताके आत्माका अनुभव होय ही अर आत्माका अनुभव भया, तब आत्मा स्वभाव जो अतीन्द्रिय अनन्तज्ञान अर निराकुलता लक्षण अविनाशीक सुख तिसका अनुभव होय है । जातैं संसारीनिके जो इन्द्रियनके अधीन सुख है सो तो सुखाभास है, सुख नाहीं है, वेदनाका इलाज है, जाके क्षुधाकी तीव्र वेदना उपजैगी सो भोजन करि सुख मानैगा । तृषा उपजैगी, सो शीतल जल पीया चाहैगा । शीतकी वेदना व्यापैगी, सो रुईका वस्त्र तथा रोमादिक वस्त्र ओढ्या चाहैगा । गरमीकी वेदना उपजैगी, सो शीतल पवन चाहैगा, जातैं वेदनाविना इलाज कौन चाहै ? नेत्ररोगविना खपरद्यो नेत्रनिमें कौन क्षेपै ? कर्णरोगविना बकराका सूत्र तथा तैलादिक कर्णमें कौन क्षेपै ? तथा शीतज्वरकी वेदनाविना अग्निका ताप तथा सूर्यका आताप आदरतैं कौन सेवन करै ? तथा वातरोगविना दुर्गंध तैलादिकका मर्दनादिक कौन आदरै ? तातैं इन संसारीक पांचौं इन्द्रियनके तीव्र चाहरूप आताप उपजै है तदि विषयनिके भोगनेकी इच्छा उपजै है । तातैं विषयभोगना तो उपजी हुई वेदनाकू थोरे काल शान्ति करै है फिर अधिक-अधिक वेदना उपजावै है यातैं इन्द्रियनके विषयनके भोगनेतैं उपज्या सुख है सो तो दुःखही है । बाह्यशरीर इन्द्रियादिककू ही आत्मा जाननेवाला बहिरात्मा है सो विषयनिकी वेदनापूर्वक इलाजकू सुख मानै है । सो मानना मोहकर्मजनित भ्रम है । सुखतो वेदना ही नाहीं उपजै ऐसा निराकुलता लक्षणरूप है । विषयनिके अधीन सुख मानना मिथ्या श्रद्धान है, यातैं सम्यग्दृष्टिकू अहमिंद्रलोकका हू सुख पराधीन आकुलतारूप विनाशीक



केवल दुःखरूप ही दीखै है ताँ सम्यग्दृष्टिकै इंद्रियजनित सुखमें बाँछा कदाचित् नहीं होय है । इस जन्ममें तो धन, सम्पदा, विभवादिक नहीं चाहै है अर परलोकमें इंद्रपना, चक्रीपना इत्यादिक कदाचित् हू नहीं चाहै है । ए इंद्रियनिके विषय तो अल्पकाल हैं अर आगँ इनका फल असंख्यातकाल नरकका दुःख तथा अनन्तकाल, असंख्यातकाल तिर्यचादिक गतिनिमें तथा महा दरिद्री, महा रोगी नीच कुलके धारक कुमानुपनिमें अनेक जन्म धारणकरि दुःख भोगवै है । इस जगतमें आशा अर शङ्का दोऊ मोहके उदयकरि जीवके निरन्तर वतैं हैं । सो आशा किये कुछ प्राप्ति होय नहीं है । समस्त जीव अपने नित्य ही धनकी प्राप्ति, नीरोगता, कुटुम्बकी वृद्धि, इंद्रियनिका बल अपनी उन्नता चाहैं हैं परन्तु चाह किये कुछ होय नहीं है, समस्त जीव चाहकरि निरन्तर पापका बन्ध अर अन्तरायका तीव्र बन्ध करैं हैं । अर केतेक भोगाभिलाषी होय दान, तप, व्रत, शील, संयम धारण करैं हैं परन्तु बाँछा करि पुण्यका घात होय है । पुण्यबन्ध तो निर्वाञ्छककै होय है । तथा शुभ-अशुभ कर्मके दिये विषयनिमें सन्तोषी होय, निराकुल होय विषयनिमें बाँछा नहीं करै, तिसके पुण्यका बन्ध होय है । वहुरि समस्त जीव नित उठ यह चाहैं हैं मेरे-वियोग, मरण, हानि, अपमान, धनका नाश, रोग वेदना, मत होहु । निरन्तर इनकी शङ्का करैं हैं, बहुत भय करैं हैं तो हू वियोग होय ही, मरण होय ही तथा धनहानि, बलहानि, अपमान, रोग, वेदना पूर्वकर्मबन्ध किये तिनके अनुकूल होय ही । तिनहूँ टालनेहूँ इन्द्र, जिनेन्द्र, मन्त्र, तन्त्रादिक कोऊ समर्थ नहीं, फयोकि मरण होय है सो आयुर्कर्मका नाशतैं होय है । अलाभादिक अन्तरायकर्मके उदयतैं होय है, रोग वेदनादिक असाता कर्मके उदयतैं होय है । अर कर्महूँ हरनेमें अर देनेमें अर पलटनेमें कोऊ देव, दानव, इन्द्र, जिनेन्द्रादिक समर्थ हैं नहीं, अपने भावनिकारि बन्ध किये कर्मनिमें अपने किये गन्तोप, जमा, तपरचरणादिक भावनिकारि छुड़ावनेहूँ आप ही समर्थ है अन्य नहीं । ऐसैं दृढनिश्चयका धारक निःशङ्क निर्वाञ्छक सम्यग्दृष्टि ही होय है ।

इहां कोऊ प्रश्न करै है,—जो सकल परिग्रहके त्यागी जे मुनीश्वर साधु, तिनकै तथा त्यागी गृहस्थनिकै तो शंकाग्रहितपना तथा बाँछाका अभावपना होय सकै परन्तु व्रतरहित गृहस्थीनिकै निःशंकित, निःकांचित कैसै सम्भवै । अत्रतसम्यग्दृष्टि गृहस्थीके भोगनिकी इच्छा देखिये है । यगिज व्यसङ्गमें, सेवा करनेमें, लाभ चाहै ही है अपने कुटुम्बकी वृद्धि, धनकी वृद्धि बाँछै ही है तथा रोगकी शंका, कुटुम्बके वियोगकी शंका, जीविकाके विगड़ि जानेकी, धनके नाश होनेकी शंका निरन्तर तैं है । तदि निःशंक्पना निर्वाञ्छकपना कैसे होय ? अर निःकांचितभावविना सम्यक्त्व कैसे होय, नातैं अत्रती गृहस्थीके सम्यक्त्व होना कैसे सम्भवै ? तिसका उत्तर ऐसा जानना—

जो सम्यक्त्व होय है सो भिव्यान्व अर अनन्तानुबन्धी कपायके अभावतैं होय है यातैं सम्यक्त्वस्यै गृहस्थीके भिव्यान्वका प्रभाव भया अर अनन्तानुबन्धी कपायका हू अभाव भया, तै जनासैं तो गन्वार्य आन्मन्वका अर परतन्वका श्रद्धान प्रगट होय है । अर

अनन्तानुबन्धी कषायके अभावतै विपरीत रागभावका अभाव भया, तदि ज्ञान श्रद्धानकी विपरीतताका अभावतै इसलोक, परलोक, मरणभय आदिक सप्त भय अव्रतसम्यग्दृष्टिकै नाहीं हैं, याहीतै अपने आत्मकूँ अविनाशी टंकोत्कीर्ण ज्ञान-दर्शन स्वभाव श्रद्धान करै है। अर विपरीत जो पर वस्तुमें वाँछा, ताका अभावतै समस्त इन्द्रियनिके विषयनिमें वाँछारहित है। स्वर्गलोकमें उपजे इन्द्र अह-मिन्द्रनिके हू विषयभोगनिकूँ विष समान दाह-दुःखके उपजावनेवाले जानि कदाचित् स्वप्नमें हू वाँछा नाहीं करै है। अपना आत्माधीन निराकुलतालक्षणरूप अविनाशी ज्ञानानन्दहीकूँ सुख जानै है अर अपने देहकूँ धन सम्पदादिकनिकूँ कर्मजनित पराधीन विनाशीक दुःखरूप जानि ये हमारा है, ऐसा विपरीत भूठा संकल्प हू नाहीं करै। यातै अनन्तानुबन्धी कषायके उदयजनित विपरीत भूठा भय, शंका परवस्तुमें वाँछा अव्रतसम्यग्दृष्टिके कदाचित् नाहीं है। परन्तु अप्रत्याख्यानावरण कषाय, प्रत्याख्यानावरण कषाय, संज्वलनकषाय, तथा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद इन इकवीस कषायके तीव्र उदयतै उपज्या रागभावका प्रभावकारि इन्द्रियनिका आतापका मारधा त्यागतै परिणाम कांपै है। यद्यपि विषयनिकूँ दुःखरूप जानै है तथापि वर्तमानकालकी वेदना सहनेकूँ समर्थ नाहीं। जैसे रोगी कड़वी औषधिकूँ कदाचित् पीवना भला नाहीं जानै है तथापि वेदनाका मारधा कड़वी औषधिकूँ बड़ा आदरतै पीवै है परन्तु अन्तरङ्गमें औषधि पीवना महा बुरा जानै, जो ऐसा दिन कब आवैगा जिस दिन औषधिका नाम भी ग्रहण नाहीं करूँगा, तैसेँ अव्रतसम्यग्दृष्टि हू भोगनिकूँ भला कदाचित् नाहीं जानै है परन्तु तिनघिना निर्वाह होता दीखै नाहीं, परिणामनिकी दृढ़ता दीखै नाहीं। कषायनिका प्रबल धका लागि रहा है इन्द्रियनिका आताप सहा जाय नाहीं, यातै वेदनाका मारधा बाँछै है। संहनन कच्चा, कोई सहाई दीखै नाहीं, कषायनिका उदय करि शक्ति नष्ट हो रही है, परवश पड्या है तथा जैसे वन्दीगृहमें पड्या पुरुष वन्दीगृहतै अति विरक्त है तथापि पराधीन पड्या महादुःखका देनेवाला वन्दीगृहकूँ ही लीपै है, धोवै, भूवारै है। तैसेँ सम्यग्दृष्टि हू वन्दीगृह समान देहकूँ जानता, लुधा-तृषादिक वेदना सहनेकूँ असमर्थ हुआ, देहकूँ अपना नाहीं जानै है। वर्तमानकालकी वेदनाका ही याकै भय है। अर वेदना मेटने मात्रही अव्रतसम्यग्दृष्टिकै वाँछा है। कर्मके उदयके जालमें फंसा है। निकल्या चाहै है। तथापि राग, द्वेष, अभिमान, अप्रत्याख्यानका सम्बन्धही ऐसा है जो त्याग व्रतादिका चाहै है। तो हू नाहीं होने देहै। उदयकी दशा बड़ी बलवान है संसारी, जीव अनादितै कर्मके उदयके जालमेंतै निकल नाहीं सकै है। देहका संयोग बनि रखा तितने देहका निर्वाहकेअर्थि जीविका भोजन वस्त्रकूँ बाँछैही है। तथा अप्रत्याख्यान कषायका उदयकरि लोकमें अपनी नीची प्रवृत्तिकी अभावरूप उच्चप्रवृत्ति चाहै है। धन सम्पदा जीविका विगड़ जानेका भय करै ही है, तिरस्कार होने का भय करै ही है। इन्द्रियनिका संताप सहनेकी असमर्थपनातै विषयनिकूँ बाँछै है जातै कषाय घटी नाहीं, राग घट्या नाहीं, तातै आगानै बहुत दुःख उपजतो दीखै, ताकूँ टाल्या चाहै ही है,

तथापि राज्यभोगसंपदानिकूं सुखकारी जानि वांछा नहीं करै है । ऐसै निःकांचित अङ्गका लक्षणकह्या ।

अत्र निर्विचिकित्सा नामा तीसरा अङ्गका लक्षण कहनेकूं सूत्र कहैं हैं,—

स्वभावतोऽशुचौ काये रत्नत्रयपवित्रिते ।

निर्जुगुप्सागुणाप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता ॥१३॥

अर्थ—जो मनुष्यपर्यायका काय है सोस्वभावहीतैं अशुचि है यामें कोऊ उत्तम मनुष्यके रत्नत्रय प्रकट होजाय तो अशुचि भी काय पवित्र है । यातैं त्रतीनिका देह रोगादिकतैं मलिनहू देख इसमें जुगुप्सा जो ग्लानि ताका अभाव अर रत्नत्रयमें प्रीति सो निर्विचिकित्सित नामा अङ्गहै ॥१३॥

भावार्थ—यो देह तो सप्तधातुमय तथा मलमूत्रादिकमय है । स्वभावहीतैं अशुचि है । यो देह तो रत्नत्रयस्वरूप प्रकट होनेतैं पवित्र है, यातैं रोगसहित तथा वृद्धता तथा तपश्चरणकरि क्षीणता मलीनता देख ग्लानि जाकै नहीं होय, अर गुणनिमें प्रीति होय ताकै निर्विचिकित्सा नाम अङ्ग है । यहां ऐसा विशेष जानना । जो सम्यग्दृष्टि है सो वस्तुका सत्यार्थ स्वरूप जानैं हैं । यातैं पुद्गलके नानास्वभाव जानि मलमूत्र, रुधिर, मांस, राधसहित तथा दारिद्र रोगादिक सहित मनुष्य, विर्यचनिका शरीरादिकी मलीनता, दुर्गन्धतादिक देखि करि तथा श्रवण करि ग्लानि नहीं करै है । जो कर्मनिके उदय करि अनेक जुधा, तृषा, रोग, दारिद्रादिककरि दुःखित होना तथा पराधीन बन्दीगृहादिकमें पड़ना, नीच कुलादिकमें उत्पन्न होना तथा नीच कर्मकरि मलीन भोजन करना, महामलीन वस्त्र धारना, खोटारूप अङ्ग उपांगादिकनिका पावना होय है । सम्यग्दृष्टि यामें ग्लानि करि अपने मनकूं नहीं विगाड़ै है । तथा कषायांकें अधीन होय निंघ आचरण करते देख अपने परिणाम नहीं विगाड़ै है ताकै निर्विचिकित्सा अङ्ग होय है । तथा मलीन क्षेत्र, मलीन ग्राम तथा गृहादिकनिमें मलीनता, दरिद्रता देख ग्लानि नहीं करै तथा अन्धकार, वर्षा, ग्रीष्म, शीत वेदना ताकरि महित कालकूं देख ग्लानि नहीं करै बहुरि आपके दरिद्रता तथा रोग आवता तथा विषाण होता तथा अशुभ कर्मके उदयकूं आवता परिणामकूं मलीन नहीं करै । जो मैं कर्म बन्ध रिया ताके फलकूं में ही भोगूंगा, अशुभकर्मका फल तो ऐसा ही होय है, ऐसैं जानि अपना परिणामकूं मलीन नहीं करै । तिस पुरुषकैं निर्विचिकित्सा अङ्ग होय है । जिसके निर्विचिकित्सा अङ्ग हैं तिसहीके दया हैं, तिसहीके वैषाद्युत्य होय, तिसहीके वात्सल्य स्थितिकरणादिक गुण प्रकटहोय हैं । ऐसै नम्यक्त्वना निर्विचिकित्सा नामा अङ्ग कह्या ।

अत्र अम्यक्त्वनामा नम्यक्त्वना चौथा अङ्ग कहनेकूं सूत्र कहैं हैं,—

कापथे पाथ दुःखानां कापथस्थेऽप्यसंमतिः ।

असंपृक्तिरनुत्कीनिरमृदा दृष्टिरुच्यते ॥ १४ ॥

पं—नम्यक्त्वना नम्यक्त्वना चौथा अङ्ग कहनेकूं सूत्र कहैं हैं, निर्विचिकित्सा नामा अङ्ग कह्या ।

तिसत्रिपैं अर कुमार्गी जो मिथ्यामार्गमें तिष्ठनेवाले पुरुषनिधिपैं जाकै मनकरि प्रशंसा नाहीं, बचनिकरि स्तवन नाहीं तथा कायंकरि प्रशंसा जो अंगुलिनिके नखादिकनिका मिलाप नाहीं, सराहना नाहीं सो अमूढ़दृष्टि है ॥१४॥

इहां संसारी जीव मिथ्यात्वके प्रभावतैं रागी, द्वेषी देवनिका पूजन प्रभावना देखि प्रशंसा करै हैं, देवीनिकै जीवनिकी विराधना की प्रशंसा करै हैं तथा दशप्रकारके कुदानकूं भला जानै हैं तथा यज्ञ होमादिककूं तथा खोटे मन्त्र, तन्त्र, मारण, उच्चाटनादिक कर्मनिकी प्रशंसा करै हैं तथा कुआ, वावड़ी, तालाव खुदावनेकी प्रशंसा करै हैं तथा कन्दमूल, शाक, पत्रादिक भक्षण करनेवालेनिकूं उच्च जानि प्रशंसा करै हैं तथा पंचाग्निकरि तपनेवाले, वाघम्बर ओढ़नेवाले, भस्म लगानेवाले, ऊर्ध्वबाहु रहनेवालेनिकूं महान उच्च जानै हैं तथा गेरुकरि रंगे वस्त्र तथा रक्त वस्त्र तथा श्वेत वस्त्रादिकनिकूं धारण करते, कुलिंगीनके मार्गनिकी प्रशंसा करै हैं तथा खोटे तीर्थनिकी अर खोटे रागी द्वेषी मोही वक्रपरिणामी शस्त्रधारी देवनिकूं पूज्य जानै हैं तथा जोगिनी, यक्षणी, क्षेत्रपालादिकनकूं धनके दातार मानै हैं तथा रोगादिक मेटनेवाले मानै हैं, यक्ष, क्षेत्रपाल, पद्मावती, चक्रेश्वरी इत्यादिकनिकूं जिनशासनके रक्षक मानि पूजै हैं तथा देवतानिके कवलाहार मानि तेल, लापसी, पूवा वड़ा, अतर पुष्पमाला इत्यादिककरि देवतानिकूं राजी करना मानै हैं तथा देवतानिकूं रिसवत देनाकरि विचारै हैं जो मेरा अमुक कार्य सिद्ध होजाय तो तेरे छत्र चढ़ाऊँ, तेरे मन्दिर बनवाऊँ, तेरे रुपया चढ़ाऊँ, तथा जीव मारि चढ़ाऊँ, स्वामणका चूरमा करि चढ़ाऊँ तथा बालकनिके जीवनेके अर्थि चोटी, जहूला उतराऊँ इत्यादिक अनेक बोलौ बोलना सो समस्त तीव्रमिथ्यात्वका उदय का प्रभाव है। जहां जीवनिकी हिंसा तहां महा घोर पाप है जातै देवतानिके निमित्त, गुरुनिके निमित्त हिंसा संसार-समुद्रमें डबोवनेवाली है। कोऊ देवादिकनिके भयतै तथा लोभतै तथा लज्जातै हिंसाके आरम्भमें कदाचित् मत प्रवर्तौ। दयानानकी तो देव रक्षा ही करै है जो किमीका अपराध नाहीं करै, ताकी विराधना देव हू नाहीं कर सकै हैं। रागी, द्वेषी, शस्त्रधारी देव हैं ते तो आप ही दुःखी हैं, भयभीत हैं, असमर्थ हैं। समर्थ होय अर भयरहित होय सो शस्त्र कैतै धारण करै। अर बुधावान होय सो ही भोजनादिक करि पूजा चाहै, तातैं खोटे मार्ग जो संसारमें पतनके कारण ऐसे मिथ्यादृष्टीनिके त्याग, व्रत, तप, उपवास, भक्ति, दानादिक अर इनके धारण करनेवालेनिकी मन-वचन-कायकरि प्रशंसा नाहीं करै सो अमूढ़दृष्टिनामा सम्यक्त्वका अङ्ग है। जातै जाकै देव-कुदेवका तथा धर्म-कुधर्मका तथा गुरु-कुगुरुका तथा पाप-पुण्यका तथा भय-अभयका तथा त्याज्य-अत्याज्यका आराध्य-अनाराध्यका तथा कार्य-अकार्यका तथा शास्त्र-कुशास्त्रका, दान-कुदानका, पात्र-अपात्रका तथा देनेयोग्य-नाहीं देनेयोग्यका तथा युक्ति-कुयुक्तिका तथा कहने योग्य-नाहीं कहने योग्यका, ग्रहण करने योग्य नाहीं ग्रहण करनेयोग्यका अनेकान्तरूप सर्वज्ञ-वीतरागका परमात्मतैं

आलीतरह जानि निर्णयकरिमूढ़ता रहित होय, पक्षपात छोड़ करके व्यवहार परमार्थमें विरोधरहित होय, तैसें श्रद्धान करना सो अमूढ़दृष्टिनामा चौथा अङ्ग है ।

अब उपगूहननामा सम्यक्त्वका पांचमा अङ्ग प्ररूपण करनेकूं सूत्र कहें हैं,—

स्वयंशुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्लजनाश्रयाम् ।

वाच्यतां यत्प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम् ॥१५॥

अर्थ—यो जिनेन्द्रभगवानको उपदेश्यो हुवो रत्नत्रयरूप मार्ग है सो स्वयमेव शुद्ध है, निर्दोष है, इस रत्नत्रयमार्गके कोऊ अज्ञानीजनका आश्रय तथा कोऊ अशक्ल जनकरि निंघता प्रगट भई होय, ताहि जो दूर करे, शुद्ध निर्दोष करे, तानै उपगूहन कहिये हैं ॥१५॥

इहां ऐसा जानना जो यो जिनेन्द्र भगवानका उपदेश्या हुवा दशलक्षणरूपधर्म तथा रत्नत्रयधर्म है, सो अनादिनिधन है, जगतके जीवनिका उपकार करनेवाला है । समस्तप्रकार निर्दोष है, कोऊ का हू यातैं अकल्याण नाहीं होय है अर कोऊकरि वाधा नाहीं दी जाय है, ऐसा धर्मविपै कोऊ अज्ञानीके चूकनिके निमित्ततैं तथा कोऊ शक्तिहीनके निमित्ततैं जो धर्मकी निन्दा होती होय ताकूं दूर करे, आच्छादन करे, सो उपगूहननामा अङ्ग है ।

भावार्थ—अन्य मिथ्यादृष्टि लोक सुनैगे तो धर्मकी निन्दा करैगे तथा एक अज्ञानीकी चूक सुनि, समस्त धर्मात्मानिकूं दूषण लगावैगे, कहैगे—इस जिनधर्ममें तो जेते ये ज्ञानी, तपस्वी, त्यागी, व्रती हैं ते पाखण्डी हैं, गैरमार्गी हैं । एकका दोष देखि समस्त धर्म अर समस्त धर्मात्मा दूषित होय जायेंगे, तातैं धर्मात्मापुरुष होय सो धर्मात्मा में कोऊ दोष हू लागि जाय तो धर्मसं प्रीति करि, धर्ममें परके निमित्ततैं आगया दोषकूं ढांके हैं । जैसें माताकी पुत्रमें ऐसी प्रीति है जो पुत्र कदाचित् अन्याय खोट हू करै तो ताके खोटकूं आच्छादन करै ही, तैसें धर्मात्मापुरुषकी साधर्मितैं तथा धर्मतैं ऐसी प्रीति है, जो कर्मके प्रबलउदयकरि कोऊ साधर्मिके अज्ञानतातैं तथा अशक्लतातैं व्रतमें, संयममें, शीलमें दोष आजाय, विगड़ि जाय तो आपका सामर्थ्यप्रमाण तो आच्छादन ही करै । इहां विशेष ऐसा और हू जानना जो सम्यग्दृष्टिका स्वभाव ही ऐसा है जो कोऊ ही जीवका दोष प्रगट नाहीं करै अर अपना उच्चकर्तव्य प्रकाश नाहीं करै, अपनी प्रशंसा परकी निन्दा नाहीं करै है । सम्यग्दृष्टिकै परजीवनके दोष हू देखि, ऐसा विचार उपजै है, जो इस संसारमें जीवनिके अनादि कालका कर्मनिके वशीभूतपना है, यातैं जहां मोहनीयका उदय तथा ज्ञानावरण-दर्शनावरणका उदय प्रवर्तैं है तहां दोषमें प्रर्तननेका अर चूकनेका कहा आश्चर्य है । जीवनिक्ूं काम-क्रोध-लोभादिक निरन्तर मारैं हैं, भुलावैं हैं, अष्ट करैं हैं । हमहू संसारमें राग-द्वेष-मोहके वशीभूत होय कौन-कौन अनर्थ नाहीं किये हैं, अब कोऊ जिनेन्द्रका, परमागमका शरणका प्रसादतैं किंचित् दोषकी अर गुणकी पहिचान भई है तो हू अनादिकालका कपायनिका संस्कारकरि, अनेक दोषनिमें प्राप्न होय रहा हू तातैं अन्यजीवनिके कर्मके उदयकी पराधीनतातैं भये दोषनिक्ूं देखि, करुणा ही

करना । मंसारी जीव विषयनिके अर कषायनिके वशीभूत होय पराधीन हैं । ए कषाय अर विषय ज्ञानहूँ विगाड़ि, नाना प्रकार नाच नचावैं हैं अर आपा भुलावैं हैं । तातैं अज्ञानी जनकृत दोष-कूँ देखि आप मंक्लेश नाहीं करै है । चेत्रपालादिकके निमित्ततैं, जो भावी है, ताहि टालनेकूँ कोऊ समर्थ नाहीं हैं । ऐसैं उपगूहन नामा सम्यक्त्वका पंचम अङ्ग कहा ।

अब स्थितिकरणनामा सम्यक्त्वका छठा अङ्ग कहनेकूँ सूत्र कहैं,—

दर्शनाच्चरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलैः

प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितिकरणमुच्यते ॥१६॥

अर्थ—कोऊ पुरुष सम्यग्दर्शनकरि सहित श्रद्धानी था तथा चारित्रधारक व्रत संयमसाहृत था, फिर कोऊ प्रबल कषायके उदयकरि तथा छोटी संगतिकरि तथा रोगकी तीव्र वेदना कार तथा दरिद्रताकरि तथा मिथ्या उपदेशकरि तथा मिथ्यादृष्टीनिके मन्त्र-तन्त्रादिक चमत्कार देखि सत्यार्थ श्रद्धान, आचरणतैं चलायमान होता होय, तिनकूँ चलते जानि, जिनका धर्ममें वात्सल्य है ऐसे धर्मात्मा प्रवीण पुरुष ताकूँ उपदेशादिकरि फिर सत्यार्थ श्रद्धानमें, चारित्रमें स्थापन करै सो स्थितिकरण कहिये ॥ १६ ॥

इहां ऐसा जानना कोऊ धर्मात्मा अव्रतसम्यग्दृष्टि तथा व्रती पुरुषका परिणाम रोगकी वेदनाकरि तथा दरिद्रताकरि वियोगकरि धर्मतैं चिग जाय तो धर्ममें प्रीतिके धारक प्रवीण पुरुष ताकूँ धर्मतैं छूटता जानि, ताकूँ उपदेशकरि धर्ममें स्थिर करै ताकै स्थितिकरण अङ्ग है । भो धर्मके इच्छुक ! धर्मानुरागी हो,!! मनुष्यभव अर यामें उत्तमकुल, इन्द्रियनिकी शक्ति, धर्मका लाभ ये बहुत दुर्लभ मिल्या है अर छूटे पाछैं इनका पावना अनन्तकालमें हू कठिन है, तातैं कर्मका उदयकरि प्राप्त भया रोग-वियोग-दारिद्रादिक दुःख तिनकरि कायर होय, आर्त्तपरिणामी होना योग्य नाहीं । दुःखित भये कर्मका अधिक बन्ध होयगा, कायर होय भागोगे तो कर्म नाहीं छाड़ैगा । अर धीर-वीरपनाकरि भोगोगे तो हू नाहीं छाड़ैगा । तातैं दुर्गतिका कारण जो कायरता, ताकूँ धिक्कार होऊ । अब साहस धारण करौ । मनुष्य जन्मका फल तो धीरता तथा संतोषव्रतसहित धर्मका सेवन करि आत्माका उद्धार करना है । अर जो मनुष्यका देह है सो रोगनिका घर है इसमें रोग उपजनेका कहा आश्चर्य है । यामें तो धर्म ही शरण है । अर रोग तो उपजैही गा अर संयोग है सो वियोग-करि सहित ही है । कौन-कौन पुरुषनिपै दुःख नाहीं आये ? तातैं अपना साहस धारण करि एक धर्मका ही अवलम्बन करो । बहुरि जे-जे वस्तु उपजै हैं ते-ते समस्त विनाशसहित हैं जो देहही का वियोग होयगा तो अन्य अपने कर्मके आधीन उपजै मरै तिनिका हर्ष, विषाद करना वृथा बन्धनका कारण है ।

बहुरि इस दुःषमकालके मनुष्य हैं ते अल्पआयु-अल्पबुद्धि लिए ही उपजै हैं इस कालमें कषायकी आधीनता अर विषयनिकी गृद्धता, बुद्धिकी मन्दता, रोगकी अधिकता, ईर्ष्याकी बहुलता

दरिद्रता लिए ही बहुधा उपजें हैं तातें सम्यग्ज्ञानकूँ प्राप्त होय, कर्मके जीतनेकूँ उद्यम करना योग्य है, कायर मति होहू । ऐसैं उपदेश देय परिणामकूँ स्थिरकरै । रोगी होय तो औषधि भोजन, पथ्यादिक कर उपचार करै । द्वादश भावनाका स्मरण करावै, शरीरकी टहल मलमूत्रादिक विकृतिको दूर करनेकरि जैसेँ तैसेँ परिणामनिकूँ धर्मविषै दृढ़ करना सो स्थितिकरण है । तथा कोऊ कै रोगकी अधिकताकरि ज्ञान चलायमान हो जाय, व्रत भङ्ग करने लागि जाय, अकालमें भोजन पानादिक जाचवा लागि जाय, त्याग करी वस्तुकूँ चाहिवा लागि जाय, ताकूँ दयालु होय ऐसा मधुर उपदेशादिक करै जाकरि फिर सचेत हो जाय बाकी अवज्ञा नाहीं करै । कर्म बलवान है वातपित्तादिक करि ज्ञान विगड़नेका कहा प्रमाण है, सो यहां बहुत उपदेश लिखने करि ग्रन्थ चढ़ि जाय तातें थोरा ही करि बहुत समझना । तथा दारिद्रादिकरि पीड़ित ताकूँ अपनी शक्तिप्रमाण उपदेश तथा आहार, पान, वस्त्र, जीविका, रहनेका मकान तथा पात्र तथा जैसेँ स्थंभन होय जाय तैसेँ दान, सम्मान उपाय करि स्थिर करना सो स्थितिकरण नामा सम्यक्त्वका छटा अङ्ग है । जो अपना आत्मा हू नीतिमार्ग छोड़ता होय तथा काम-मद-लोभके वश होय अन्यायका विषय अन्याय धनकी चाहरूप हो जाय तथा अयोग्य वचनमें प्रवृत्ति करने लगजाय तथा अभव्य-भक्षण में प्रवृत्ति हो जाय, अभिमानके वशी होय जाय, सन्तोषतैं चिगि जाय, अनेकपरिग्रहोंमें लालसा बधि जाय, कुटुम्बमें अतिराग बधि जाय तथा रोगमें कायर होय जाय, आर्तध्यानी होय जाय वियोगमें शोकसहित होय जाय, तथा दरिद्रतातैं दीन होय जाय, उत्साहरहित आकुलतारूप होय जाय, ताकूँ हू अध्यात्मशास्त्रका स्वाध्याय कराय, भावनाको शरण ग्रहण कराय, अपना आत्माका स्वभाव अजर-अमर अविनाशी, एकाकी, अन्य परद्रव्यका स्वभावरहित चिंतवन कराय धर्मतैं नाहीं छूटने देना तथा असातदिक कर्म अन्तरायकर्म तथा अन्य हू कर्मका उदयकूँ आपतैं भिन्न मानि कर्मका उदयतैं अपना स्वभावकूँ नाहीं चलने देना सो स्थितिकरण नामा छटा अङ्ग है ।

अथ वात्सल्यनामा सम्यक्त्वका सप्तम अङ्गके कहनेकूँ सूत्र कहैं हैं,—

स्वयूथ्यान् प्रति सद्भावसनाथापेतकैतवा ।

प्रतिपत्तिर्यथायोग्यं वात्सल्यमभिलष्यते ॥१७॥

अर्थ—सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप धर्मके धारकनिका जो यूथ ( समूह ) सो धर्मात्मा कै अपना यूथ है । रत्नत्रयके धारकनिका यूथमें भये ऐसे मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका तथा अ-व्रत सम्यग्दृष्टि तिनतैं सत्यार्यभावसहित अर कपटरहित यथायोग्य प्रतिपत्ति कहिये उठि खड़ा होना, मन्मुख जाना, वन्दना करना, गुणनिका स्तवन करना, अञ्जलि करना, आज्ञा धारण करना, पूजा-प्रशंसा करना, उच्चस्थान बैठाय आप नीचे बैठना तथा जैसेँ कोऊ दरिद्रीकै महा निधानका लाभ-तैं हर्ष होय तैंमें धारना, महान् प्रीतिका उपजाना अर यथाअवसरमें आहार-पान, वस्तिका, उप-करणादिक करि, वैवाहृत्य करि, आनन्द मानना सो वात्सल्यनामा अङ्ग कहिये है ॥१७॥

बहुरि यहां और विशेष जानना—जाके अहिंसा धर्ममें प्रीति होय जे हिंसारहित कार्य होंय तिनकूं प्रीतिसहित करै अर हिंसाके कारणनिकूं दूरहातैं टाल्या चाहै तथा सत्यप्रचनमें, सत्यवचनके धारकनिमें अर सत्यार्थ धर्मकी प्ररूपणामें प्रीति होय तथा परका धन, परकी स्त्रीनिके त्याग में राग होय परधन, परस्त्रीका त्यागनिमें जाकै प्रीति होय, तिसहीके वात्सल्य अङ्ग होय है। तथा दशलक्षणधर्ममें अर धर्मके धारक साधमीनिमें, जाकै अनुराग होय ताकै वात्सल्यअङ्ग होय है। बहुरि जाकै धर्ममें अनुरागकरि त्यागी संजर्मानिमें महान् आदरपूर्वक प्रियवचनकरे प्रवर्तन होय ताकै वात्सल्य अङ्ग होय है। यद्यपि सम्यग्दृष्टिकै अन्तरङ्ग तो अपना शुद्ध ज्ञानदर्शनमें अनुराग है अर वाद्य उत्तम ज्ञानादिधर्मके धारकनिमें तथा धर्मके आयतनमें अनुराग है तथापि अन्य मिथ्याधर्मनिमें द्वेष नाहीं करै है। जातैं प्रवचनसार सिद्धान्तमें ऐसैं कहा है—जो राग-द्वेष-मोह ये बन्धके कारण हैं तिनमें मोह जो मिथ्यात्व अर द्वेष ये दोऊ तो अशुभ भाग ही हैं एकान्तकरके संसारपरिभ्रमणका कारण पापकर्मका ही बन्ध करै। अर राग भाव है सो शुभ अर अशुभ दोय प्रकार है, तिनमें अरहंतादिक पंचपरमेष्ठिनमें तथा दशलक्षणधर्ममें तथा स्याद्वादरूप जिनेन्द्रका आगममें तथा वीतरागका प्रतिबिम्ब, वीतरागप्रतिबिम्बके आयतनमें अनुरागरूप शुभ राग है सो स्वर्गादिक साधक पुण्यबन्धका करनेवाला तथा परम्परायकरि मोक्षका कारण है। अर विषयनिमें अनुराग तथा कषायनिमें अनुराग तथा मिथ्याधर्ममें, मिथ्यादृष्टिनिमें, परिग्रहादि पंच पापनिमें अनुराग है सो अर मोहभाव अर द्वेषभाव है ते नरकनिगोदादिकनिमें अनन्तकाल परिभ्रमणके कारण हैं। यातैं सम्यग्दृष्टि है सो अन्य अज्ञानी मिथ्यादृष्टि पातकीनिमें हू द्वेषभाव नाहीं करै है। जातैं समस्त जीव मिथ्यात्वकर्षके तथा ज्ञानावरणादिकर्मके वशीभूत होय आया भूल रहे हैं—अज्ञानी हैं इनमें वैर करि कहा साध्य है? इनकूं तो इनकी विपरीतबुद्धि ही मारि राखे है, यातैं सम्यग्दृष्टि दयाभाव ही करै है, रागद्वेषरहित मध्यस्थ रहै है। जातैं सम्यग्दृष्टि है सो तो वस्तुका स्वभावनै सत्यार्थ जानि एक इन्द्रियादिक जीवनिमें करुणाभाव रूप प्रीति ही करै है तथा समस्त मनुष्यनिमें वैररहित होय किसी जीवकी विराधना, अपमान हानि नाहीं वांछै है तथा मिथ्यादृष्टिनिकरि किये जे देवनिके मन्दिर, स्थान, मठ तिनतैं वैर करि विगाड़ना नाहीं चाहे है तथा सरागदेवनिकी मूर्ति तथा देवनिकी क्रूरमूर्ति तथा योगिनी, यज्ञ, भैरवादिक व्यन्तरनिकी स्थापनास्थान इनसुं कदाचित् वैर नाहीं करै जातैं ये देवनिकी मूर्ति अर इनके स्थान तो अनेक जीवनिके अभिप्रायके आधीन पूजनेकूं आराधनेकूं बनाये हैं। अन्यका अभिप्रायकूं अन्यप्रकार करने कूं कौन समर्थ है। समस्त ही मनुष्य अपना अपना धर्म मानि देवतानिका स्थापन करै हैं। जाकूं जैसा सम्यक् तथा मिथ्या उपदेश मिल्या तैसै प्रवर्तन करै हैं। तातैं वस्तुका यथावत् स्वरूपकूं जनता समस्तमें माम्यभाव करता, सम्यग्दृष्टि किसी मनुष्य हीकूं, रैकारो-तूकारो नाहीं दे है तो अन्यके धर्म, अन्यके देवनिकूं, अन्यके मन्दिरनिकूं गाली अवज्ञाके वचन कैसै कहै, नाहीं कहै। समस्त जीवनिमें मैत्रीभाव



धारता, सम्यग्दृष्टि है सो अचेतन जे स्थान पाषाण, गृहादिक, अन्यके विश्रामस्थानतै स्वप्नमें हूँ वैर नहीं करै है। अर अन्य जे दुष्ट बलवान होयकरि अपना धन-धरती-आजीविका तथा कुटुम्बका घात अर आपका मरण करै तिसमें हूँ वैर नहीं करै। ऐसा विचार करै जो हमारा पूर्वोपार्जित कर्मके उदय करि सोतै वैर विचारि बलवान शत्रु उपज्याहै सो अब मैं जेता सामर्थ्य है तिस प्रमाण साम जो प्रिय वचन, दाम जो धन देना तथा अपना बल प्रमाण दण्ड देना, इनमें परस्पर भेद करना इत्यादिक उपायनितै रोकि अपनी रक्षा करूँ अर जो नहीं रुके तो आप विचारै जो मेरे पूर्व उपजाये कर्मनिका उदय आया सो याकूँ बलवान उपजाया, मोकूँ निर्बल उपजाय सोकूँ दण्ड दिया है, सो मैं कौनसूँ वैर करूँ? मेरा वैरी कर्म निर्जर जाय तैसै साम्यभाव धारणकरि कर्मका विजय करूँ, अन्यसूँ वैर करि वृथा कर्मबन्ध नहीं करूँ। सम्यग्दृष्टिके वात्सल्य समस्तमें है, कोऊसे वैर नहीं करै है। बहुरि कोऊ दुष्ट जीव धर्मसूँ वैर करि मन्दिर प्रतिमाका विघ्न करचा चाहे तो ताकूँ आपका सामर्थ्यसूँ रोक्या जाय तो रोकै अर प्रबल होय तो विचार करै जो कालनिमित्तसूँ धर्मका घातक प्रकट होय अपना वैर साधै है सो प्रबल कैसे रुकै? हमारे उत्तम ज्ञानादिक तथा सम्यग्ज्ञान-श्रद्धानादिक कोऊ घातनेकूँ समर्थ नहीं है अर मन्दिरारिक दुष्ट विगाड़ै ही हैं अर धर्मात्मा फिर करावै ही हैं। कालके निमित्तसूँ अनेक दुष्ट उपजै हैं उनके रोकनेकों कौन समर्थ है। भावी बलवान है। आखी हौनी होय तो दुष्ट मिथ्यादृष्टि प्रबल बलके धारक नहीं उपजते, तातै वीतरागता ही हमारे परम शरण होहु। ऐसै वात्सल्यनामा सम्यक्त्वका सप्तम अङ्ग वर्णन किया।

अब प्रभावना नामा सम्यक्त्वका अष्टम अङ्ग कहनेकूँ सूत्र कहै हैं—

अज्ञानात्तमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथम्।

जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात्प्रभावना ॥१८॥

अर्थ—संसारी जीवनिके हृदयविषै अज्ञानरूप अन्धकारकी व्याप्ति होय रही है। ताहि सत्यार्थ स्वरूपके प्रकाशतै दूरि करिकै जिनैन्द्रके शासनका, माहात्म्यका प्रकाश करना सो प्रभावना-नामा सम्यक्त्वका आठवाँ अङ्ग है ॥१८॥

इहां ऐसा विशेष है अनादिकालका संसारी जीव सर्वज्ञ-वीतरागका प्रकाश्या धर्मकूँ नहीं जानै, है याहीतै ऐसा हूँ ज्ञान नहीं है जो मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है, मैं यहाँ जन्म नहीं लिया तदि कैसा था, कौन था, इहां मोकूँ कौन उपजाया, अब रात्रि-दिन व्यतीत होय आयु विन-गै हूँ मेरे कहा करनेयोग्य है, मेरा हित कहा है, आराधने योग्य कौन है, जीवनिके नानाप्रकार, नाना जीवनिके मुख दुःख कैसे हैं तथा देवका, गुरुका, धर्मकी स्वरूप कैसा है तथा मरणका, जी-वनका कहा स्वरूप है तथा भक्ष्य अभक्ष्यका स्वरूप कहा है, इम पर्यायमें मेरे कौन कार्य करने-योग्य है, मेरा कौन हूँ, मैं कौन हूँ? इत्यादि विचाररहित मोहकर्मकृत अन्धकारकरि आच्छादित

होय रहे हैं तिनका अज्ञानरूप अन्धकारकूँ स्याद्वादरूप परमागमका प्रकाशतै दूरकरि स्वरूप-पररूपका प्रकाश करना सो प्रभावना नामा अङ्ग है । बहुरि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र-कारि आत्माका प्रभाव प्रकट करना सो प्रभावना है तथा दानकरि, तपकरि, शील-संयम, निर्लोभता विनय, प्रियवचन, जिनेन्द्रपूजन, गुणप्रकाशनकरि जिनधर्मका प्रभाव प्रकट करना सो प्रभावना है । जिनका उत्तम परिणामकरि, उत्तमदानकूँ तथा घोर तप निर्वाच्छिकताकूँ देखिकरि, मिथ्यादृष्टि हू-प्रशंसा करै । अहो जैनीनके वत्सलतासहित बड़ा दान है यह निर्वाच्छिक ऐसा तप जैनीनतै ही वनै, अहो जैनीनका बड़ा व्रत है-जो प्राण जाते हू व्रतभङ्ग जिनके नाही । अहो जैनीनके बड़ा अहिंसा व्रत जो प्राण जाते हू अपने संकल्पतै जीवहिंसा नाही करै हैं तथा जिनकै असत्यका त्याग तथा चोरीका त्याग परस्त्रीका त्याग, परिग्रहका परिमाण करि समस्त अनीतितै पराङ्मुख हैं अरु अभक्ष्य नाही खावना, प्रमाणसहित दिवसमें देखि, सोधि भोजन करना, इन जिनधर्मीनिका बड़ा धर्म है । जिनके महा विनयवन्तपना है अरु प्रिय-हित-मधुरवचन ही करि समस्तकै आनन्द उप-जावै हैं । तथा अतिशयकारी जिनकै बड़ी क्षमा है । अपना इष्ट देवमें अतिशयकारी भक्ति है । आगमकी आज्ञाका बड़ा दृढ़ श्रद्धानी जिनकै बड़ी प्रबल विद्या, जिनकै महान् उज्ज्वल आचरण है वैरभावरहित हुआ समस्त जीवनिमें जिनकै मैत्रीभाव है, ऐसा आश्चर्यरूप धर्म इनतै ही वनै ऐसी प्रशंसा जिनधर्मकी जिनके निमित्ततै मिथ्याधर्मीनिमें हू प्रकट होय तिनकरि प्रभावना होय है । जो अनीतिका धन कदाचित् नाही वाँछै हैं अरु अन्यान्य, विषयभोग स्वप्नमें हू अङ्गीकार नाही करै हैं, जो हमारा निमित्तखूँ जिनधर्म की निन्दा होय जाय तो हमारा जन्म दोऊ लोकका नष्ट करनेवाला । भया, तातै सम्यग्दृष्टि अपना तथा कुलका तथा धर्मका तथा साधर्मीनिका तथा दानशीलतपव्रतका अपवाद नाही होयतै सै प्रवर्तन करै है । धर्मके दूषण लगवा बड़ा भय करै है । धर्मकी, प्रशंसा उच्चता, उज्ज्वलता ही प्रगट होय तैसे प्रवर्तन करै, तिसकै प्रभावना नामा अष्टम अङ्ग होय है । ऐसै सम्यक्त्वके अष्टअङ्गनिका संचेपतै वर्णन किया । इन अष्टअङ्गनिका समुदाय सो ही सम्यग्दर्शन हैं । अङ्गनितै अङ्गी भिन्न नाही, अङ्गनिका समूहकी एकता सो ही अङ्गी है । तैसे ही निःशंकितादिक गुणका समुदाय सो ही सम्यग्दर्शन होय है । अत इन् अङ्गनिका प्रतिपत्नी जे शङ्का, कांक्षा, ग्लानि, मूढ़ता, अनुपगूहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना इत्यादिककरि धर्मकूँ दूषित नाही करै हैं ।

अब निःशंकितादिक अङ्गनिका पालनमें जे आगममें प्रमिद्ध भये तिनका नाम दोष श्लोकनिमें कहै हैं—

तावदञ्जनचौरोऽङ्गे ततोऽनन्तमतिः स्मृता ।

उदायनस्तृतीयेऽपि तुरीये रेवती मत्ता ॥१६॥

ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो वारिषेणस्ततः परः ।

विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्षतां गतौ । २०॥

अर्थ—तावत् अंगे कहिये प्रथम अङ्ग, जो निःशंकित अङ्ग तिसविषै अंजनचौर आगम विषै कहा है । द्वितीय अङ्गविषै अनन्तमतीनामा सेठकी पुत्री कही । तृतीय अङ्गविषै उदायननामा राजा अर चतुर्थअङ्गविषै रेवती नामा राणी कही । पंचम अङ्गविषै जिनेन्द्रभक्त नामा श्रेष्ठी हुआ । छठा अङ्गविषै वारिषेण नामा राजपुत्र हुआ । बहुरि शेष जे सप्तम अर अष्टम अङ्गविषै विष्णुकुमार मुनि अर वज्रकुमार मुनि दृष्टान्तपदानै प्राप्त होते भये । ऐसै सम्यक्त्वके अष्टअङ्गनिमें प्रसिद्ध भये तिनकी कथा प्रथमातुयोगके आगममें प्रसिद्ध है, तहांतें जाननी ।

अब अङ्गहीन सम्यक्त्वके संसारपरिपाटीके छेदनमें असमर्थता दिखावनेकूं सूत्र कहें हैं,—

नाङ्गहीनमलं छेत्तुं दर्शनं जन्मसन्ततिम् ।

न हि मन्त्रोऽक्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम् ॥२१॥

अर्थ—अङ्गकरिहीन जो सम्यग्दर्शन सो संसारकी परिपाटीके छेदनकूं समर्थ नहीं होय । जैसे अक्षर करि हीन जो मन्त्र सो विषकी वेदनाकूं नहीं हनै है ॥ १॥ जातें जाके परिणाममें नेशंकितादिक अङ्ग प्रकट होय हैं सो ही सम्यग्दृष्टि संसारपरिभ्रमणकूं हनै है अर जाके एक भी अङ्ग नहीं भया होय ताके संसारका अभाव नहीं होय है । अक्षरकरि हीन मन्त्र जैसे सर्पादिकानिका विष दूर नहीं करै ।

अब तीनप्रकार मूढ़ता हैं, ते सम्यक्त्वके घातक हैं याते तीनप्रकार मूढ़ताका स्वरूप जानि सम्यग्दर्शनको शुद्ध करना योग्य है सो तिनमेंतें लोकमूढ़ताके स्वरूप कहनेकूं सूत्र कहें हैं,—

आपगासागरस्नानमुच्चयः सिकताश्मनाम् ।

गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते ॥२३॥

अर्थ—जो लौकिक जे मिथ्याधर्मी जन तिनकी रीति देख जे नदीस्नानमें धर्म माने हैं, समुद्रके स्नानमें धर्म मानै हैं, बालू रेतका पुञ्ज करै हैं तथा पाषाणका ढेर करनेमें धर्म माने हैं, धर्म मानि पर्वततें पड़ना, अग्निविषै पड़ना, ताहि लोकमूढ़ता कहिये है, सो लोकमूढ़ताकरिरहित सम्यग्दर्शन होय है ॥२३॥

इहां मिथ्यात्वके उदयतें देशकालके भेदतें लौकिक अज्ञानी परमार्थरहित जन अनेक प्रकारकी प्रवृत्तिकरि अपने धर्म होना, पवित्रता होना, लाज होना, वियोग नहीं होना, दीर्घ जीवना माने हैं सो लोकमूढ़ताकूं प्रगट अज्ञानता जानि, याका त्यागकरि सम्यक्त्वभावकी विशुद्धता करो । इहाँ केते मूर्खान्ता जन हैं ते स्नान करि आपकूं पवित्र मानै है सो ज्ञान-निकूं आगमज्ञानपूर्वक विचार करना जो आत्मा है सो तो अमूर्ताक है तिन पर्यंत तो स्नान पहुंचे नहीं अर काय है सो महाअपवित्र

है जहाँ नङ्गमते पापत्र ह चन्दन गङ्गाजल पुष्पादिक स्पर्शने योग्य नहीं रहै अर जो हाड, मांस, रुधिर, नाम इत्यादिक अशुचि यामग्रीकरि गन्या अर जो दुर्गन्ध विद्या मूत्रादिक अशुचि द्रव्यनिकरि भरया अर जाके मुक्के द्वारा होय तो महा अशुचि कफ अर लार दंतमल जिह्वामल निरन्तर बहै है अर नेत्रनिमें नानिककण दुर्गन्ध गीठ सबै हैं अर कर्णनिमें कर्णमल सबै हैं अर नासिकाते निरन्तर दुर्गन्ध मूत्रां योग्य गिरणरु नहै है, अधोद्वार मल मूत्र दुर्गन्ध आंख कृमिनिक्रं निरन्तर बहै है अर नमस्त शरीरके रोमते महादुर्गन्ध मलीन पसेव सबै है, ऐसे जाके नवद्वार निरन्तर मल सबै हैं ऐसा शरीर जलका स्नानते कैसे शुद्ध मानिये ? जैसे मल करि बनाया घड़ा अर मलकरि भरया अर नमस्त तरफ मलदाहूँ बहै सो जलकरिके धोवनेते कैसे शुद्ध होय ? इस लोकमें जो वस्तु तथा भूम्यादिक क्षेत्र अशुचि अपवित्र कहिये है ते नमस्त इस शरीरके सङ्गमते ही अपवित्र होय हैं । कोऊ चामपडनेते कोऊ केश पडनेते कोऊ उच्छिष्ट (अंठि) पडनेते तथा रुधिर मांस हाड वसा (चरबी) राध मल मूत्र मूक लार कफ नासिकामल इनका सर्ग होनेते ही तथा स्नानके जलके छींटेनिके, कुरलेनिके स्पर्शते ही अपवित्र (अशुचि) देखिये हैं सुनिये हैं याते आञ्जीताह विचारो जो देहका मद्द विना कोऊ अशुचि है ही नहीं । ऐसा देह जलके स्नानते कैसे शुद्ध होय, अर जो जलके स्नानादिकते शुद्ध होय गया तो फिर कोऊके स्नानका छांटा लागि जायगा तो अपवित्र हुआ ही मानैगा । तथा गंगा पुष्करादिकमें हजारवार स्नान कुरला करि फिर कोऊ वस्तु ऊपर कुरला करैगा तो महा अपवित्रता मानैगा । जल करि तो देहके ऊपरि मैल लाग्या होय तथा वस्त्रादिक मलिन होय तो धोवनेते उज्ज्वल होय है अर देहकू उज्ज्वल पवित्र नहीं करै हैं । जैसे—कोयलाकू ज्यों धोवो त्यों कालिमा ही निकलै है । तैसे ज्यों ज्यों देहकू धोवै त्यों त्यों महा मलिनता प्रगट होय है । स्नानते पवित्र होना मानना सो तीव्रमिथ्यात्व है । अर और हू विचारो जगतमें जल बराबर कोऊ अपवित्रही नहीं है जामें निरन्तर मीडका, काछवा, सर्प, ऊंढरा, विसमरा, मांखी मांछरादि अनेक जीव नित्य मरै हैं अर जामें चर्म हाड समस्त गलि जाय हैं अर अनेक ब्रसनिका घात जामें होय है ऐसा महानिग्र अपवित्र जल तिमके स्पर्श होनेते कैसे पवित्र होय ? अर गंगादिक नदीनमें कोआं मनुष्यनिके मल मूत्र रुधिर मांस कर्दम तथा मनुष्यनिके तिर्यञ्चनिके मृतक कलेवर घुल रहै तिस गङ्गाका जल कैसे पवित्र करै ? जलका मृतक कर्दे ही मिटे नहीं याते बाहिर लाग्या मैल दूर हो जाय याते मनकी ग्लानि मिट जाय अर याते पवित्र होना तथा स्नानमें धर्म मानना सो तो मिथ्यादर्शन है जो गंगाका जलते ही पवित्र होजाय वा स्नानकरि मुक्त होय जाय तो कीर धोव-रनिके पवित्रता ठहरे वा मुक्ति होय । अन्य दान पूजादिक समस्त निष्फल हुआ । मिथ्यात्वका प्रभावते सब विपरीत श्रद्धानी होय रहे हैं । जे अष्ट प्रकार लौकिक शुचि कही हैं ते व्यवहार आ-चार कुलाचारके उज्ज्वल करने कू तो समर्थ हैं परन्तु देहकू पवित्र नहीं करै हैं । ए तो मनमें ग्लानि आप मानि राखी है सो संकल्पते दूरि करले है जो मैं स्नान कर लिया है, सो ही श्रीराजवा-

तिंकजीमें अशुचिभावनामें कहा है ।

शुचिपना है सो दोय प्रकार है—एक लौकिक, एक लोकोत्तर ताहि अलौकिक ह कहिये है । तहां जिसके कर्ममल-कलंक दूर भया ऐसा आत्माका अपने स्वभावविषे स्थित रहना सो लोकोत्तर शुचिपना है अर तिसका साधन सम्यग्दर्शनादिक हैं, अर सम्यग्दर्शनादिकका धारक साधु है अर तिनका आधार निर्वाणभूम्यादिक ह सम्यग्दर्शनादिकका उपाय है ताते शुचिपनाके योग्य है । अर लौकिक शौचपना है सो अष्टप्रकार है—कालशौच १, अग्निशौच २, भस्मशौच ३, मृत्तिकाशौच ४, गोमयशौच ५, जलशौच ६, पवनशौच ७, ज्ञानशौच ८ ए आठ शौच शरीरके पवित्र करनेकूं समर्थ नाहीं हैं लौकिकजनोंके व्यवहार छोड़ें बड़ा अनर्थ होय जाय, हीन आचारका ग्लानि जाती रहे, तो समस्त एक होय जाय तदि परमार्थ ह नष्ट होय जाय, याते अनादिकालने वाग-शुचिताकी मानता देखि मनकी ग्लानि भेट ले हैं । जाते केती वस्तु तो जगनमें कानव्यतीत भये शुद्ध मानिये हैं जैसे रजस्पला स्त्री तीन रात्रि गये शुद्ध मानिये हैं परन्तु शरीर तो कोऊ काल ह शुद्ध नाहीं होय है । बहुरि केतेक उच्छिष्ट धातु के पात्र भस्मकरि योजनेते शुद्ध मानिये ह परन्तु शरीर तो भस्मकरि शुद्ध नाहीं होय है । बहुरि केतेक शूद्रादिक स्पर्श किये हुए धातुमय पात्र अग्निके संस्कारकरि शुद्ध मानिये हैं परन्तु शरीर तो अग्निका संसर्ग करे ह शुद्ध नाहीं होय है । बहुरि मलमूत्रादिकका स्पर्श मृत्तिकाते होय शुद्ध मानिये हैं, परन्तु शरीर तो मृत्तिकाते शुद्ध नाहीं होय है । बहुरि गोमयकरि भूम्यादिककूं लीप शुद्ध माने हैं, परन्तु गोमयते शरीर तो शुद्ध नाहीं होय है । बहुरि कर्दमादिक लगनेते तथा अस्पृश्यका स्पर्श होनेते जलकरि धोवनेते तथा जलकरि स्नान करनेते शौच मानिये हैं, परन्तु शरीर तो स्नानते शुद्ध नाहीं होय है, स्नान किए पीछे ह चन्दन पुष्पादिक पवित्र वस्तु ह शरीरके स्पर्शमात्रते मलीन होय जाय है । बहुरि केतेक भूमि पाषाण कषाट काष्ठादिक पवनकरिही शुद्ध मानिये है परन्तु शरीर तो पवनकरि शुचि नाहीं होय है । बहुरि केतेक वस्तु अपने ज्ञानमें जाका अशुद्धताका संकल्प नाहीं होनेते शुद्ध मानिये है परंतु शरीरमें तो शुद्धपनाका संकल्प ह नाहीं उपजै है, ताते शरीर तो अष्ट प्रकारका लौकिक शौचकरि शुद्ध नाहीं होय है, लौकिकशौच परिणामनिकी ग्लानि भेटै है । व्यवहारमें उज्वलता जग्नि कुलकी उच्चता जनावै है परन्तु शरीरकूं तो शुचि नाहीं करै हैं । देह तो सर्वप्रकार अशुचि ही है । यामें जो आत्मा परका धन अर परकी स्त्रीमें अभिलापरहित होय अर जीवमात्रका विराधना रहित होजाय तो हाडमांसका मलीन देह ह देवनकरि पूज्य महापवित्र होय जाय । इस देहकूं पवित्र करने का और कारण ही नाहीं है, सो ही श्रीपञ्चनन्दी नाम दिग्म्बर वीतराग मुनि कथा है सो है । अर विष्टा मूत्रादिककरि भरया रुधिर रस हाड चामादिककरि रज्या अर महाशूगला अर महादुर्गंध, महामलीन समस्त अशुचिका रहनेका एक संकेतगृह ऐसा मनुष्य का शरीर जलकरि स्नान

करनेतैं कैसें शुद्ध होय । आत्मा तो अपने स्वभावतैं ही अत्यन्त पवित्र है, अर अमूर्तिक है, ताकूँ जल पहुँचै ही नाहीं ऐसे पवित्रमें स्नान वृथा है अर यो काय है सो अशुचि ही है सो स्नानकरि कदाचित् शुचिताकूँ प्राप्त नाहीं होय, यातैं स्नानके दोऊ प्रकारकरि विफलता भई । अर जे फिर हू स्नान करै हैं तिनके पृथ्वीकाय जलकायादिक अर अनेक त्रसनिका घात होनेतैं पापबन्धके अर्थि अर रागभावके अर्थि ही है ।

भावार्थ—गृहस्थके स्नान बिना सरै नाहीं परन्तु अज्ञानी गृहस्थ स्नानमें धर्म मानै है । अर स्नानतैं पवित्रता मानै है ऐसी मिथ्याबुद्धि लग रही है सो याका स्वरूपकूँ समझै तो याकूँ धर्म तो नाहीं मानै अर यातैं पवित्रपना नाहीं मानै । यद्यपि गृहस्थके स्नानबिना व्यवहार समस्त दूषित होय जाय । अर व्यवहार दूषित होय जाय तदि परसार्थकी शुद्धता नाहीं कर सकै परन्तु याकूँ राग वधावनेतैं, अर हिंसा होनेतैं पापरूप तो श्रद्धान करै । बहुरि और हू शिन्ना जाननी,— चित्तकेविषै पूर्वकालका क्रोटिनभवकरि संचय किया कर्मरूप रज ताका सम्बन्ध करि उपज्या जो मिथ्यात्वादिक मल ताका नाश करनेवाला जो आपापरका भेद जाननेरूप विवेक सो ही सत्पुरुषनिकै मुख्य स्नान है । सत्पुरुषनिकै तो मिथ्यात्वमलका नाश करनेवाला एक विवेक ही स्नान है अर अन्य जो जलकरि स्नान है सो तो जीवनिका समूहका घात करनेतैं पापका करनेवाला है, यातैं धर्म नाहीं होय है । ताही कारणतैं स्वभावहीतैं अशुचि जो काय तिसविषै पवित्रता नाहीं है । बहुरि कहै हैं जो ज्ञानीजन हो ! आपकी शुद्धताके अर्थि परमात्मा नामा तीर्थमें सदा काल स्नान करो । वृथा खेदकरि व्याकुल भये गंगादिक तीर्थनप्रति क्यों दौड़ो हो ? कैसाक है परमात्मानामा तीर्थ ? सम्यग्ज्ञानरूप ही जामें निर्मल जल है अर दैदीप्यमान सम्यग्दर्शनरूप जामें लहरि है अर अविनाशी अनन्तमुख करि शीतल है अर समस्त पापनिकै नाश करनेवाला है । ऐसा परमात्मस्वरूप तीर्थमें लीन होहू । बहुरि जगतके पापिष्ठ मिथ्यादृष्टिजननिनें निर्मल तत्त्वनिका निश्चयरूप द्रह नाहीं देख्या है अर कठै हू ज्ञानरूप रत्नाकर समुद्र हू नाहीं देख्या । अर समता नामा अतिशुद्ध नदी हू नाहीं देखी, तिसकारण करि पापके हरनेवाले सत्य तीर्थनिकूँ छाँड़ि करि मूर्खलोक हैं ते तीर्थ जिनकूँ कहै हैं ते संसारके तारनेवाले नाहीं ऐसे गंगादिक नदीनिमें डूबकरि हविष होय हैं ।

भावार्थ—जिनमूर्खनिनें तत्त्वनिका निश्चयरूप द्रहकूँ नाहीं देख्या, अर ज्ञानरूप समुद्र नाहीं देख्या, अर समता नाम नदी नाहीं देखी, ते गंगादिक तीर्थाभासनिमें दौड़ता फिरे हैं, जो तत्त्वनिका निश्चयरूप द्रहकूँ देखता अर ज्ञानरूप समुद्रकूँ देखता अर समतानामा नदीकूँ देखता तो इनमें गरक होय, मिथ्यात्वकषायरूप मलकरि रहित होय, आम कूँ उज्वल करलेता । बहुरि इस भुवनमें ऐसा कोऊ तीर्थ नाहीं है तथा ऐसा जल हू नाहीं तथा और हू कोऊ द्रव्य नाहीं है, जिसकरि यो समस्त अशुचि मनुष्यका शरीर साक्षात् शुद्ध होजाय अर यह शरीर कैसाक है—आधि, व्याधि, जरा, मरणादिक करि निरन्तर व्याप्त अर निरन्तर ताप करनेवाला ऐसा है, जातैं सत्पुरुषनिके

याका नाम हू सहने योग्य नहीं है बहुरि समस्त तीर्थनिके जलतैं नित्य स्नान करिये अर चन्दन कपूरादिकका विलेपन करिये तो हू यह शुद्ध नहीं होय, सुगन्ध नहीं होय, रक्षा करते हू विनाश के मार्ग ही तिष्ठै है । जो नदीमें स्नानतैं ही शुद्ध होजाय तो कौट्यां मच्छी, मच्छ, काछिवा, कीर, धीवरादिक शुद्ध होजाय, तातैं यह लोकमूढता त्यागनें योग्य है ।

अब इहां इतना विशेष और जानना जो स्नान करनेतैं पवित्र नहीं होय अर धर्म हू नहीं होय परन्तु गृहस्थाचारमें मुनीश्वरनिकी ज्यों स्नानका त्याग योग्य नहीं । क्योंकि जो पापिष्ठ जीवनिस्सं स्पर्श होजाय अर स्नान नहीं करै तो अपना मनमें पापकी ग्लानि जाती रहै । तदि तिनकी संगति स्पर्शन खान, पान, यथेच्छ करने लागि जाय, तब व्यवहारधर्मका लोप होजाय, यातैं जिन धर्मीनिका आचार है ते व्यवहारके विरोधी नहीं । जो अतिपापतैं आर्जाविकाफे करनेवाला चांडाल, कसाई, चमार, शिकारी, भैल, धीवरादिक अतिपापिष्ठ तथा मुसलमान म्लेच्छनिकी शरीर ऊपर छाया पड़ते हू महामलीनता मानिये है तो इनका स्पर्श होनैतैं स्नान कैसें नहीं करै ? स्नान हू करै अर परमात्माका स्मरण हू करै ? अर याकैं नजीक बैठनेतैं बुद्धि मलीन होय है अर जो मुसलमान वेश्यादिकनिस्सं कान लगाय मुखके सन्मुख अपना मुख करि वचनालाप करै हू तिनकी बुद्धि उत्तम धर्मादिक कार्यतैं विमुख होय, विपरीत प्रवर्तन करै है तथा जीवनिके घातक कूकरा, मार्जारदिक पशु अर पक्षी इत्यादिक दुष्ट तिर्यंचनिका भोजनके स्थाननिमें आगमन होजाय तथा भोजनका स्पर्शन होजाय तो त्याग करना उचित है, तो इनका स्पर्शन होतैं स्नान विना भोजन स्वाध्यायादिक करनेमें हीनाचारपना होय है, पापतैं ग्लानि जाती रहै, कुलका भेद नहीं ठहरै । अर स्त्रीकरि सहित संगम करै तहां अनेक जीवनिकी हिंसा अर महाअशुचि अङ्गनिका संघट्टन अर रुधिर-वीर्यादिकनिका बाह्य स्पर्शनादिक अर महानिंद्य रागका उपजना है याका त्याग नहीं बन सकै तो इस पापकी ग्लानि करि आपको अशुद्धि मानि स्नान तो करै जो मैं निंद्यकर्म किया है तातैं बाह्य शुद्धिता वास्तै स्नान किये विना पुस्तकनिका तथा जिनमन्दिरके उपकरणनिका उत्तम वस्तुका कैसें स्पर्शन करूं । यद्यपि देहमें रुधिर, मांस, हाड, चाम, केश, मलमूत्र भरे हू, परन्तु रुधिर, राध, चाम, हाड, मांस, मल-मूत्रादिकनिका बाह्य स्पर्श होजाय तो अवश्य धोवना उचित है, जातैं केश चामादिक शरीरतैं दूर हुआ पाछै स्पर्शनेयोग्य नहीं है । अर इनका हस्तादिकदरि स्पर्श होजाय तो शीघ्र ही हस्त धोवना उचित है । इनकी ग्लानि नहीं करै, तो नीच चमार, चाण्डाल, कसार्यानिंतैं एकता होनेतैं आचरण भेद नहीं रहे, तदि समस्त जाति व्यवहारके लोप होनेतैं उत्तम कुलका अर नीच कुलका आचार समान होजाय, तदि व्यवहार आचारके विगाडनेतैं धर्मका मार्ग अष्ट होजाय । निंद्यकर्म करनेकी लज्जा छूटि जाय, तदि कुलके मार्ग विगाडनेतैं महापापका बन्ध होय है । परमार्थशौच तो व्यवहारकी शौचता करि ही शुद्धि होय है । जाका भेजनेमें, पानमें, स्पर्शनमें, संगतिमें, प्रवृत्तिमें मलीनता होजाय तदि परमार्थ धर्म मलीन हो ही जाय, जिन-

धर्मी हैं सो चांडाल, भील, म्लेच्छ, मुसलमानादिककी शरीरकी छायाहीतैं मलीनता मानै हैं अर धोवी, कलाल, लुहार, खाती, सुनार, भड़भूजा, इत्यादिकनिका स्पर्शनकूं हिंसाकर्म करनैतैं दूर ही छाड़िये हैं। मुनीश्वर तो नीच जातिके मनुष्यका स्पर्श होंतैं दण्ड स्नान करै अर तीस दिन उपवास करै अर नाही जानैतैं नीचकुलके गृहनिमें प्रवेश होजाय तो भोजनका अन्तराय करै हैं। अर भदिरा मांस अर शरीरतैं चार अंगुल बहता रुधिर राधि अर पंचेन्द्रिय जीव मृतकका क्लेवर भोजन करते देखैं, तो भोजनका अन्तराय करै हैं तो जिनधर्मी गृहस्थ हाड़, कौड़ी, चाम, केश, उन इनके स्पर्शनतैं भोजन केसैं नाही छाड़ैं याहीतैं गृहस्थ हैं सो हस्तपाद प्रचालनकरि शुद्धभूमिमें शुद्ध भोजन करै हैं। अधम जातिका स्पर्शा भोजन नाही करै। बहुरि जिनेन्द्रका पूजन वास्तैं स्नान करना योग्य ही है, क्योंकि स्नानकरि देवका स्पर्शन-पूजन करना यह बड़ा विनय है। यद्यपि स्नानतैं शुद्धता नाही, तो हू, देवके उषकरणिकूं स्नानकरि स्पर्शना, धोया हुआ द्रव्य चढ़ावना सो देव-विनय ही है, विनय है, सो ही अराधना है। जातैं जिनमन्दिरके उपकरणका हू विनय करिये है तो जिनेन्द्रके आगमकी वाणीका, पूजनके द्रव्यका हू स्नानकरि स्पर्शना, हस्त धोय लगावना, मन्दिरमें हस्त-पाद प्रचालनकरि, प्रवेश करना सो हू विनय ही है। यद्यपि पाप मलकी शुद्धता करना प्रधान है तो हू भगवान जिनेन्द्रका आगममें अष्टप्रकार लौकिक शुद्धि कही है। लौकिक शौचके विना परमार्थधर्मतैं अष्ट होजाय है। मुनीश्वरका देह रत्नयत्रका प्रभावतैं महापवित्र है तो हू बाह्यशौचके निमित्त कमण्डलु राखैं हैं, हस्तपाद धोय स्वाध्याय करै हैं, अत्यन्त मन्द जलतैं पादप्रचालन कराय भोजन करै हैं, तातैं व्यवहार आचारकूं नाही छाड़ैं हैं। यो भगवान जिनेन्द्रका धर्म अनेकान्तरूप है अर निश्चय-व्यवहारका विरोध रहित ही धर्म है। सर्वथा एकांतरूप जिनेन्द्रधर्म नाही है। लौकिक शुचितारहित होय सो धर्मकी निन्दा करावै, कुलकी निन्दा करावै, तदि अपना आत्मा मलिन होय ही है। बहुरि मैथुनसेवन किया होय अर मृतककूं दग्धकरि आया होय अर केशक्षौर कराया होय अर चांडाल म्लेच्छादिकनिका स्पर्श भया होय, मृतक पंचेन्द्रीका स्पर्श भया होय, रजस्वलादि अंशुचिका स्पर्श भया होय इत्यादि और कारण होय, तहां अवश्य स्नान करना अर अन्य कारणनिमें जहां मल, मूत्र, हाड़, चामादिकका जिस अंगसों स्पर्श भया होय तिसकूं धोवना शीघ्र ही उचित है। अष्टप्रकार शौच लौकिकमें अनादिका प्रवतैं हैं। यातैं आगमकी आज्ञा मानना अपना हित है। बहुरि जगतमें प्रगट देखिये है, कर्णके मलतैं नेत्र मलकूं, अर यातैं नासिका मलकूं, यातैं कफ लालादिक मुखके मलकूं, यातैं मूत्रकूं यातैं विष्टाकूं अधिक २ अशुचि मानिये है अर जो समस्त मलकूं समानही मानिये तो समस्त आचार उपद्रित होय, विपरीत होय जाय। यद्यपि द्रव्यार्थिकनयतैं समस्त एक पुद्गल जाति हैं, तथापि बहुत भेद हैं। यद्यपि हाड़, मांस, रुधिर, मल, मूत्रादिक समस्त पृथ्वीरूप, जलादिरूप होजाय है अर पृथ्वी जलादिकनिका मांस, रुधिर, मलादिकरूप होजाय है, तथापि पर्यायनिमें बड़ा भेद है। द्रव्यके अर पर्यायके सर्वथा



एकता मानेंतें समस्त व्यवहार परमार्थका लोप होय, तातें द्रव्यके पर्यायके कथंचित् एकपना कथंचित् अनेकपना मानना ही श्रेष्ठ है।

बहुरि बालूके पिंड करनेमें तथा पर्वततैं पडनेमें, अग्निमें दग्ध होनेमें, हिमालय गलनेमें पंचानितपनेमें धर्म मानै है सो लोक मूढता है। तथा ग्रहणमें सूतक मानना, स्नान करना, चांडालादिककू दान देना, संक्रांति मानि दान देना, कुवा पूजना, पीपलपूजना, गायकू पूजना, रुपया मोहरकू पूजना लक्ष्मीकू पूजना, मृतक पितरकू पूजना, छींक पूजना, मृतकनिके तृप्ति करनेकू तर्पण करना, श्राद्ध करना, देवतानिका रतजगा करना, गङ्गाजलकू शुद्ध मानना, तिर्यंचनिके रूपकू देव मानना, कुआ, वावड़ी, वापिका तलाव खुदावनेमें धर्म मानना, वाग लगावनेमें धर्म मानना मृत्युञ्जय आदिके जप करावनेतैं अपनी मृत्युका टलजाना मानना, ग्रहांका दान देनेतैं अपने दुःख दूर होना मानना, सो समस्त लोक मूढता है। बहुत कहनेकरि कहा जो योग्य-अयोग्य सत्य-असत्य, हित-अहितका, अराध्य-अनाराध्यका विचाररहित, लौकिक जनकी प्रवृत्ति देख, जैसे अज्ञानी अनादिके मिथ्यादृष्टि प्रवर्तै तैसी प्रवृत्तिकू सत्य मानना, विचार रहित लौकिकजननिकी प्रवृत्ति देख प्रवर्तन करना सो लोकमूढता है। अर केतेक जिनधर्मी कहाय करके हू आत्मज्ञानकररहित परमागमकी आज्ञाकू नहीं जानते भेपधारीनिके कल्पे हुए अनेक क्रियाकांड तथा तीर्थकरादिकनिका तर्पण कराना, अपना पिता, पितामहका तर्पण कराना, तथा यज्ञादिकनिके अर्थि होमभ्यज्ञादिकनिमें अपना कल्याण होना मानै हैं। शकलीकरणादिक विधान कराना सो लोकमूढता है। तथा केतेक स्नान करि रसोई करनेमें तथा स्नानकरि जीमनेमें तथा आला वस्त्र पहरि, जीमनेमें अपनी पवित्रता शुद्धता मानै हैं, परम धर्म मानै हैं अर अभच्य-भक्षण अर हिंसादिकका विचार नहीं करै हैं सो समस्त, मिथ्यात्वके उदयतैं लोकमूढता है,—

अत्र देवमूढता कहनेकू सूत्र कहै हैं,—

वरोपलिप्सयाशावान् रागद्वेषमलीमसाः ।

देवता यदुपासीत देवतामूढमुच्यते ॥ २३ ॥

अर्थ—अपने वांछित होय ताकू वर कहिये वरकी वांछा करके आशावान हुवा संता जो रागद्वेषकरि मलीन देवताकू सेवन करै सो देवतामूढ कहिये है ॥२३ ॥

संसारी जीव हैं, ते इस लोकमें राज्यसंपदा स्त्री, पुत्र, आभरण, वस्त्र, वाहन, धन-पेश्वर्यनिका वांछा महित निरन्तर वतैं हैं। इनकी प्राप्तिके अर्थि रागी, द्वेषी, मोही देवनिका सेवन करै सो देवमूढता है। जातें राज्यसुखसंपदादिक तो सातावेदनीयका उदयतैं होय है, सो सातावेदनीयकर्मकू कोऊ देनेकू समर्थ है नाहीं तथा लाभ है, सो लाभांतरायका क्षयोपशमतैं होय है, अर भोग सामग्री उपभोग सामग्रीका प्राप्त होना सो भोगोपभोग नाम अन्तरायकर्मका क्षयोपशमतैं होय है अर अपने भांगनिकरि वांछे कर्मनिकू कोऊ देव-देवता देनेकू तथा हरनेकू समर्थ है नाहीं। बहुरि

कुलकी वृद्धिके अर्थि कुलदेवीकूँ पूजिये है अर पूजते-पूजते हू कुलका विध्वंस देखिये हैं अर लक्ष्मीके अर्थी लक्ष्मीदेवीकूँ तथा रुपया मोहरनिकूँ पूजते हू दरिद्र होते देखिये हैं । तथा शीतलाका स्तवन-पूजन करते हू सन्तानका मरण होते देखिये हैं । पितरनिकूँ मानते हू रोगादिक वधै हैं तथा व्यन्तर क्षेत्रपालादिकनिकूँ अपना सहायी भानै है सो मिथ्यात्वका उदयका प्रभाव है । बहुरि केतेक कहै हैं जो चक्रेश्वरी, पद्मावती देवी ये शस्त्रधारण किये जिनशासनकी रक्षक हैं तथा सेवकनिकी रक्षा करनेवाली एक एक तीर्थकरनिकी एक एक देवी है, एक एक यज्ञ है, इनका आराधन करने, पूजनेतैं धर्मकी रक्षा होय है; ये धर्मात्माकी रक्षा करै हैं, तातैं इन देवीनिका और यज्ञनिका स्तवन करना, पूजन करना योग्य है । देवी समस्त कार्यके साधनेवाली तीर्थकरनिकी भक्त हैं, इसविना धर्मकी रक्षा कौन करै, याही तैं मन्दिरनिके मध्य पद्मावतीका रूप, जाके चार भुजा तथा बत्तीस भुजा अर नाना आयुधनकरि युक्त अर तिनके मस्तक ऊपर पार्श्वनाथस्वामीका प्रति-विम्ब अर ऊपर अनेक फलनिका धारक सर्पका रूपकरि बहुत अनुरागकरि पूजै हैं सो सब परमाग-मतैं जानि निर्णय करो । मूढलोकनिका कहियो योग्य नाही । प्रथम तो भवनवासी, व्यन्तर, ज्यो-तिषी इन तीन प्रकारके देवनियें मिथ्यादृष्टि ही उपजै है । सम्यग्दृष्टिका भवनत्रिक देवनियें उत्पाद ही नाही अर स्त्रीपना पावै ही नाही, सो पद्मावती चक्रेश्वरी तो भवनवासिनी अर स्त्रीपर्यायमें अर क्षेत्रपालादिक यज्ञ ये व्यन्तर, इनमें सम्यग्दृष्टिका उत्पाद कैसें होय ? इनमें तो नियमतैं मिथ्यादृष्टि ही उपजै हैं ऐसा हजारांवार परमागम कहै हैं । बहुरि जो इनके जिनधर्मसँ प्रीति है, तो जिनधर्मके धारीनतैं अपना पूजा वन्दना नाही चाहै, जैनी होय सो आयकूँ अवती जानता सम्यग्दृष्टिसे वन्दना पूजा कैसें करावै ? साधमीनिका उपकारविना कहे ही करै । बहुरि भगवानका प्रतिविम्ब तो अपने मस्तक ऊपरि है अर भगवानके भक्तनितैं अपनी पूजा करावै, ऐसा अविनय धर्मात्मा होय कैसें करै ? बहुरि अनेक आयुध धारण करि अपनी वीतराग धर्ममें प्रवृत्तिकूँ दिगाडै है । अर अपना असमर्थ-पना प्रगट दिखावै है तथा जिन शासनके रक्षक एक एक यज्ञ यज्ञणी ही कैसें कहो हो ? भगवानके शासनके तो सौधर्म इन्द्रकूँ आदि लेय असंख्यात देव, देवी समस्त सेवक हैं अर जिनका हृदय-में सत्यार्थ धर्मतैं पूर्वकृत अशुभकर्म निर्जर गया होय, ताकै समस्त पुद्गलराशि अचेतन है, सो हू देवतारूप होय उपकार करै हैं, देव, मनुष्य उपकार करै सो कहा आश्चर्य है । अर शासनमें हू ऐसी केई कथा हैं जो शीलवान तथा ध्यानी तपस्वीनिके धर्मके प्रसादतैं देवनिके आसन कम्पाय-मान भये, अर देव जाय उपसर्ग टाले अर नाना रत्ननि करि पूजा करी, ऐसी कथा तो शासनमें बहुत हैं अर ऐसी तो कहूँ कथा भी नाही जो धर्मात्मा पुरुष देवनिकूँ पूजै अर पद्मावती, चक्रेश्वरीकी भी केई कथा हैं जो शीलवन्ती व्रतवन्तिनीकी देव-देवियोंने पूजा करी अर शीलवन्ती, व्रतवन्ती तो जाय कोऊ देव-देवीकी पूजा करी नाही लिखी है । तथा कार्तिकेय स्वामी कहै हैं :—

ए य को वि देदि लच्छी ए को वि जीवस्स कुणइ ज्वयारं ।

उच्यारं अवयारं कम्म वि सुहासुह कुणदि ॥ ३१६ ॥  
 भत्तीए पुञ्जमाणो वितरदेवो वि देदि जदि लच्छी ।  
 तो कि धम्मं कीरदि एव चिंनेहि सदिदट्ठी ॥ ३२० ॥

अर्थ—इस जीवकू कोऊ लक्ष्मी नहीं देवे है अर जीवका कोऊ उपकार अपकार हू नहीं करै है । जो जगतमें उपकार अपकार करता देखिये है सो अपना किया शुभ-अशुभकर्म करि करै है, वहुनि जो भक्ति करि पूजे व्यंतरदेव ही लक्ष्मी देवै, तो दान, पूजा शील, संयम, ध्यान, अध्ययन, तपरूप समस्त धर्म काहेकू करिये ? वहुनि जो भक्ति करि पूजे-वन्दे कुदेव ही संसारके कार्यमिद्ध करैगे तो कर्म कछु बात ही नहीं ठहरें ? व्यंतर ही समस्त सुखका दावक रहै धर्मका आचरण निष्फल रहा ।

भावार्थ—जगतविषै इस जीवका जो देव, दानव, देवी, मनुष्य, स्वामी, माता, पिता, वांधव, मित्र, स्त्री, पुत्र तथा तिर्यच तथा औषधादिक जो उपकार तथा अपकार करै हैं, सो समस्त अपने किये पुण्यकर्म पापकर्म तिनके उदयके आधीन करै हैं । ये तो समस्त वाह्यनिमित्त मात्र हैं । देखिये है—भला करचा चाहै, उपकार किया चाहै है अर अपकार होय जाय है अर अपकार किया चाहै है अर उपकार होजाय है । यातैं प्रधान कारण पुण्य-पापरूप कर्म है । वहुनि शास्त्रनिमें कथा है—चांडालके अहिंसाव्रतका प्रभावतैं देवता सिंहासनादि रचे अर नीलीका शीलके प्रभावतैं देवता नहायी भये अर सीताके शीलका प्रभावतैं अग्निकुण्ड जलरूप होय गया अर सेठ सुदर्शनका देव आय उपसर्ग टाल्या अर और हू केतेनिके सहायी देवता भये, उपसर्ग टाले अर देवांका आमन कम्पायमान भये अर देव आय सहायी भये ऐसा हजारों कथा प्रसिद्ध हैं । अर भगवान् आदीश्वरके छह महीना अंतराय भोजनका भया तदि कोऊ देव आय काहूकू आहार देनेकी विधि नाहीं जनार्ण, पहली तो गर्भमें आनेके छहमास पहली इन्द्रादिक समस्त देव भगवानकी सेवामें तथा स्वर्गलोकेन आहार, वस्त्र, वाहनादिक लावनेमें सावधान भये हाजिर रहते थे । ते सब देव धर्म भूत गये । तथा भरतादिक सौ पुत्रनिक्क अर ब्राह्मी सुन्दरी पुत्रीनिक्क मुनि-श्रावककां समस्त धर्म पदाया, ते हू विचार नाहीं किया जो भगवान् हू मुनि होय आहारके अर्थिचर्या करै हैं, सो अन्ताय कर्मका ह्यया विना कौन सहायी होय ? तथा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, महर्देव ये महा भीमगनी होय वनमें ध्यान करते थे, तिनकू दुष्ट वैरी आय आभरण अग्निमें लान इति पशुगय दीये अर तिनका चाम मांसादिक भस्म होते हू कोऊ भी देव सहायी नाहीं भया तथा मुनिमान महामुनि तिनकू तीन दिन पर्यंत श्यालिनी अपने वचनिसहित भक्षण करिवो किया तां सोऊ देव सहायी नाहीं भये । अर जाकी माताका इतना ममत्व था जो शोक रुदनादिक ममत्वमें नहीं रही अर पुत्र का गया ऐसी स्वप्न भी नाहीं मंगार्ह । तथा पांचमै मुनिनिक्क पश्ये म देव दिया नहा सोऊ देव सहायी नाहीं भया । तथा पद्म नाम बलभद्र अर कृष्ण नाम

नारायण जिनकी पूर्वे हजारों देव सेवा करें थे जब हीन कर्म उदय आया अर पुण्य क्षीण भया तदि कोऊ देव पानी प्यायवे वाला एक मनुष्य हू नहीं रखा तथा जो सुदर्शनचक्रं नहीं मरचा अर भीलका एक वाणतै प्राणरहित होय गया, ऐसै अनेक ध्यानी, तपस्वी, व्रती, संयमी घोर उपसर्ग भोगे तिनका तो देव सहायी कोऊ नहीं भये अर हरेकनिके सहायी भये तातै ऐसा निश्चय है जो अशुभकर्मका उग्रम हुआ विना अर शुभ कर्मका उदय विना कोऊ देवादिक सहायी नहीं होय है । अपना देह ही वैरी होजाय है तथा खरदूषणका पुत्र शंबुकुमार महापुरुषार्थकरि द्वादश-वर्षपर्यंत वाँसका वीड़ामें सूर्यहास खड्गसिद्ध किया अर लक्ष्मण सहज ही लिया अर उसही खड्गं खरदूषणका पुत्र शंबुकुमारका मस्तक छेद्या गया । अपना हितके अर्थि साधन करी विद्या आपहीका घात किया तातै पूर्वकर्मका उदयकरि अनेक उपकार, अपकार प्रवर्तै हैं । कोऊ देवादिक आराधन किये हुए धन आजीविका, स्त्रीपुत्रादिक देनेमें समर्थ नहीं हैं । बहुरि यहां प्रत्यक्षही देखो नगरका राजा समस्त देव, देवी, पीर, पैगम्बर, स्वामी, फकीर समस्त मतका भेषी अर समस्त देव पुराणके पाठी नित्य यज्ञ, होम, पाठ करनेवाले ब्राह्मणनिकों बहुत आजीविका देवै हैं, अर बड़ा सत्कार अर लक्षां रुपयाका दान देहैं । अर बड़ा पूजा बलिदान सबकै पहुँचै है तो हू संयोग वियोग, हानि, वृद्धि, जीत-हारके टालनेकू कोऊ समर्थ नहीं है । तातै ऐसा निश्चय जानहु जो श्रद्धान नहीं करकै भी अनेक देव-देवीनिकू आराधै हैं—पूजै हैं सो सब देवमूढता है । बहुरि जो मन्त्रसाधन, विद्याराधन, देव आराधन समस्त पाप-पुण्यके अनुकूल फलै हैं तातै जो सुखका अर्थी है ते दया, क्षमा, सन्तोष, निर्वाळकता, मन्दकषायता वीतरागताकरि एक धर्महीका आराधन करो अन्य प्रकार बांझा करि पापबन्ध मत करो ।

अर जो देवनिका समागममें ही प्रीति करो हो तो उत्तम सम्यग्दृष्टि सौधर्म इन्द्र तथा शची, इन्द्राणी तथा लौकांतिकदेवनिका संगममें बुद्धि करो । अन्य अधम देवनिका सेवन करि कहा साध्य है ? बहुरि मिथ्याबुद्धिकरि स्थापन करै हैं और नित्य पूजन करै हैं तदि प्रथम तो क्षेत्रपालका पूजन करै हैं अर क्षेत्रपालका पूजन किया पाछै जिनेन्द्रका पूजन करै हैं, अर ऐसी कहै हैं जैसे पहली द्वारपालका सन्मान करके पीछै राजा का सन्मान करना, द्वारपाल विना राजासौ कौन मिलावै तैसे क्षेत्रपाल विना भगवान्का मिलाय कौन करावै ? जिन मूढनिके ऐसा विचार नहीं जो भगवान् तो मोक्षमें हैं भगवान् परमात्माका स्वरूपकू यो मिथ्यादृष्टि अज्ञानी कैसे जानेगा अर कैसे मिलावैगा ? अर विघ्नकू कैसे विनाशैगा ? आपका विघ्न ही नाश करनेकू सामर्थ्य नहीं सो विचाररहित मिथ्यादृष्टि लोक क्षेत्रपालका महा विपरीतरूप बनाय वीतरागके मन्दिरमें प्रथम स्थापन करै हैं जाका हस्तमें मनुष्यका कटा मूंड अर गदा, खड्ग अर कूकरा वाहनकरि सहित स्थापन करि तैल-गुड़का भक्षणतै क्षेत्रपाल प्रसन्न होय है ऐसै लोकनिकू बहकाय पूजै हैं अर इनका पहिली दर्शन पूजन स्तवन करै हैं सो मिथ्यादर्शन अर कुज्ञानका प्रभाव जानहु ।

परि पार्श्वजिनेन्द्रकी प्रतिमाके मस्तक ऊपरि फणविना बनहैं ही नहीं अर भगवान पार्श्व प्रहिन्त के समवसरणमें धरणेन्द्रका फण मस्तक ऊपर कैसें संभवै है धरणेन्द्र तो भगवान् के तर के अवसरमें फणामण्डप किया था सो फेर फणामण्डपका प्रयोजन नहीं अर पार्श्वजिनेन्द्र अर्हन्त भये अर इन्द्रकी आज्ञातें कुवेर समोभरण रच्यो तहां भगवान् फणसहित नहीं विराजे हुते चार निकायके देव, सनुप्य, तिर्यं च धर्मश्रवण-स्तवन-वन्दना करते ही तिष्ठै, यातें स्थापनाविषै अर्हन्तकी प्रतिविम्बनिके फण कैसें संभवै ? वीतरागमुद्रा तो ऐसें सम्भवै नहीं ; परन्तु कालके प्रभावतें धरणेन्द्रकी प्रभावना प्रगट करनेकूँ लोक विपरीत कल्पना करनें लागि गये सो कौन दूर करि सकै । जैसें पाषाणमय भगवान्का प्रतिविम्ब महा अङ्गोपांग सुन्दरताके कर्णनिकूँ मस्तककी रत्नाके अरि लम्बा करि स्कन्धसाँ जोड़ देहें तिनकाँ देखि समस्त धातु प्रतिविम्बनिके भी कर्ण जोड़ देहें सो देखा-देखी चल गई । तैसें ही अर्हन्त प्रतिविम्बनके ऊपरि फणका आकार करते लोकनिकूँ देखि तत्त्वकूँ गमके विना फण करनेकी प्रवृत्ति चल गई सो फणके कर देनैतें प्रतिमा तो अपूज्य होय नहीं, क्योंकि चार प्रकारके समस्त ही देव सर्व तरफतें सदैव ही भगवान्का सेवन करै हैं । अर जो फणामण्डप करनेतें ही धरणेन्द्रकूँ पूज्य मानै सो देवमूढता है । ऐसे अनेक प्रकारकरि देवमूढता है तथा गणेश, हनुमान, योनि, लिंग, चतुर्मुख, पट्मुखका रूप देवत्वरहित प्रगट असम्भव तिर्यं चरूपकूँ देव मानता, बड़ पीपलादि वृक्षनिकूँ, नदीकूँ, जलकूँ, पवनकूँ, अन्नकूँ देव मानना सो समस्त देवमूढता है बहुत कहा लिखिये ।

अब आगे गुरुमूढताका वर्णन करनेकूँ सूत्र कहै हैं:—

सग्रन्थारम्भहिंसानां संसारावर्तवर्तिनाम् ।

पाखण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाखण्डिमोहनम् ॥२४॥

अर्थ—परिग्रह, आरम्भ अर हिंसाकरि जे सहित संसाररूप भंवरनिमें प्रवर्तन करते ऐसे पाखण्डिनिकी जो प्रधानता उनके वचनमें आदर करि प्रवर्तन करना सो पाखण्डिमूढता है ॥२४॥

भावार्थ—जिनेन्द्रधर्मका श्रद्धान ज्ञानकरि रहित होय जो नाना प्रकारका भेष धारण करिके प्रायः उंचा मानि जगतके जीवनिते पूजा, वन्दना, सत्कार चाहता जो परिग्रह रखै हैं अर अनेक आरम्भ करै हैं जिनाके कार्यानिमें प्रवर्तन करै हैं इन्द्रियनिके विषयनिका रागी संसारी असंयमी अज्ञानानिमें गोठ्यं कृता अभिमाना होय आपकूँ आचार्य, पूज्य, धर्मात्मा कहावता गम्भी-द्वेषी श्रुत प्रमै है । अर बुद्धशास्त्र, शृंगारके शास्त्र, हिंसाके कारण आरम्भके शास्त्र, रागके बधावनेवाले शास्त्रनिमें आा मान्ते भये उपदेश करै हैं ते पाखण्डि हैं, जिनके नाना प्रकारके रमनि करि भागी मोक्षमें लक्षणा यादनिं कामादिककी क्रियामें लीन होय रहे अर परिग्रहके बंधावनेके अर्थि न मानै नै नै नै करि ने मुनि, माधु, आचार्य, महन्त पूज्यनाम कहावै अर लोकनिते नमस्कार रचना नाँ अर विद्या रचनेमें, गिरनिमें, मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, जप, होम, मारण, उच्चाटन, वशी-

करणादिक निम्न आचरण करै हैं ते पाखण्डी है । तिन पाखण्डीनिका वचनकूं प्रमाण करना अर सत्कार करना धर्मकार्यमें प्रधान मानना सो पाखण्डमूढता है ।

अब सम्यक्त्वकूं नष्ट करने वाले अष्ट मद हैं तिनके नाम कहनेकूं सत्र कहै हैं,—

ज्ञानं पूजां कुलं जातिं बलभृद्धिं तपो वपुः ।

अष्टावाश्रित्य मानित्वं समयमाहुर्गतस्मयाः ॥२५॥

अर्थ—नष्ट भये हैं मद जिनके ऐसे गणधर देव हैं ते ऐसे समय कहिये मद ताहि कहै हैं जो ज्ञाननै, पूजानै, कुलनै, जातिनै, बलनै, ऋद्धिनै, तपनै, शरीरके रूपादिक इन अष्टकूं अश्रयकरि जो मानीयना सो समय कहिये हैं ॥२५॥

भावार्थ—ज्ञानका मद १, पूजाका मद २, कुलका मद ३, जातिका मद ४, बलका मद ५, ऋद्धिका मद ६, तपका मद ७, शरीरका मद ८, सम्यग्दृष्टिके नाही होय है । जिनके एक हू मद होय सो सम्यक्त्वी कैसे होय ? सम्यग्दृष्टिके सत्यार्थ चिंतवन है सो विचारै है—हे आत्मन् ! जो तू इन्द्रियनिकरि उपज्या ज्ञान पाया है सो याका गर्व कैसे करै है ? यह ज्ञान तो ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमके आधीन है, विनाशीक है इन्द्रियनिके आधीन है, वातपित्तकफादिकके आधीन है याके विनशनेका प्रमाण मत जानो । याका गर्व कहा करो हो इन्द्रियांकूं नष्ट होते ही ज्ञान हू नष्ट हो जाय है तथा वातपित्तादिक की घटत वधत होते क्षणमात्रमें ज्ञान विपरीत हो जाय, बाबला हो जाय । अर इन्द्रियजनित ज्ञान पर्यायका लार ही विनसैगा अर केई बार एकेन्द्रिय भया तहां चार इन्द्रिय ही नाही पाई एकेन्द्रियनिमें जडरूप पापाण, धूल, पृथ्वीरूप, होय असंख्यात काल अज्ञानी भया अर केई बार विकलत्रयमें हित-अहितकी शिचारहित भया । तथा केई बार क्रूर, शूकर, व्याघ्र, सर्पादिकविषै विपरीत ज्ञानी होय भ्रम्या । अर निगोदमें अक्षरके अनन्तवेभाग ज्ञान रहित भया । अर व्यंतरादिक अधम देवनिमें हू मिथ्यात्वके प्रभावत आपापरकूं नाही जानता नष्ट होय एकेन्द्रियमें उपजि अनन्तकाल परिभ्रमण किया अर मनुष्यनिमें हू कोऊ विरले मनुष्यनिके ज्ञानावरणके क्षयोपशमकी अधिकतातै तीक्ष्ण ज्ञान होय जाय तो कोई मनुष्य तो नीच कर्मनिमें प्रवीण होय अनेक जलके जीव तथा थलके जीव तथा आकाशचारी जीवनिके मारनेमें, पकड़नेमें, बांधनेमें अनेकयन्त्र पींजरा, जाल, फांसी, वनवानेमें प्रवीण होय हैं । केई नाना प्रकारके खड्ग, बन्दूक, तोप, बाण, जहर, विष आदिक विद्यामें प्रवीणता पाय अपना चातुर्यका मदकरि उन्मत्त भये ग्रामके, देशके विध्वंस करनेमें प्रवीण होय हैं । केई सिंह, व्याघ्र बराहादिक जीवनकी शिकारमें प्रवीण होय हैं । केई ज्ञान पाय अनेक जीवनिके धन हरनेमें, लूटनेमें, मार्गमें गमन करतेनिका धन हरनेमें प्राण हरनेमें प्रवीण होय हैं । केई ज्ञानकी तीक्ष्णता पाय भोलै प्राणिनका तिरस्कार करनेमें, तथा भूठेनिकूं सांचे कर देनेमें अर सांचेनिकूं भूटे कर देनेमें धन अर

प्राण दीउनिके हरनेमें प्रवीण होय हैं । केतेक अपने ज्ञानकी तीक्ष्णता करिके अन्य मनुष्यनिकी चुगली करनेमें लुटाय देनेमें, धन धरती आजिविकादिक विनष्ट करा देनेमें, राजदिकनिकारि दण्ड करा देनेमें, मरण कराय देनेमें प्रवीण होय हैं । केतेक मनुष्यनिके काष्ठ, पाषाण-धातु-रत्ननिके अनेक वस्तु बनवानेमें, केतेकनिके चित्र-कर्मादिक अनेक आभरण वस्त्र महलादिक अनेक रचना बनाव देनेमें प्रवीणता पाय गर्वके वश भये नष्ट होय हैं । अर केतेक मनुष्य ज्ञानकी प्रबलता पाय अनेक शृंगारशास्त्र, युद्धशास्त्र, वैद्यकशास्त्रादिक बनाव राजानिकूँ रिभावै हैं । अनेक छन्द अलंकार विद्या, एकान्तरूप न्यायविद्या, वेद-पुराण क्रियाकाण्डादिककी प्ररूपणा करि गर्विष्ठ भये आत्म-ज्ञानरहित होय संसार परिभ्रमण करै हैं । अर केई वीतराग धर्मकूँ पाय करके हू मिथ्यात्वका तीव्र उदयतैँ सत्यार्थज्ञानश्रद्धानकूँ नाहीं प्राप्त होय अपना अभिमान वचन पद पुष्ट करनेकूँ सूत्र-विरुद्ध मार्गकूँ प्रवर्तन कराय आयकूँ कृतार्थ मानै हैं । ऐसैँ ज्ञानकी अधिकता पाय करके हू मिथ्यात्वके प्रभावतैँ अधिक-अधिक बन्धकरि नष्ट ही भया । अर तातैँ अत्र वीतरागी सम्यग्ज्ञानी गुरुनिका उपदेश पाय ज्ञानका गर्व मत करो । भो आत्मन् ! तेरा स्वभाव तो सफल लोकालोकका जानने-वाला केवलज्ञानरूप है । अत्र कर्मके क्षयोपशमतैँ उपज्या इन्द्रियाँके आधीन शास्त्रनिका किंचित्-ज्ञान ताका कहा गर्व करो हो ? जैसैँ कोऊ प्रबल अपना वैरी मंडलेश्वर राजाकूँ बांध वन्दीखाने भेलि किंचित् कुरिसत भोजन देय नाना त्रास देता राखै अर किसी कालमें कोऊ किंचित् मिष्ट भोजन हू देवै तो तिस भोजनकूँ पाय मंडलेश्वर राजा कैसैँ गर्व करै ? तैसैँ तुम्हारा अनन्तज्ञान स्वरूप केवलज्ञानकूँ इन कर्मनिनैँ लूट देहरूप वन्दीगृहमें पराधीन करि इन्द्रियद्वारैँ किंचित् ज्ञान दिया ताकूँ पाय कहा गर्व करो हो, यो ज्ञान विनाशीक पराधीन है पर्यायकी लार तो अवश्य नष्ट होय ही गा । अर इस पर्यायमें हू रोगतैँ, वृद्धपनातैँ, इन्द्रियनिकी विकलतातैँ, दुष्टिनिकी संगतितैँ, कषाय विषयनिकी अधिकतातैँ, क्षणमात्रमें विनाश होनेकाभरोसा नाहीं, तातैँ विनाशीक ज्ञान पाय मद करोगे तो समस्त गुण नष्ट होय ज्ञानरहित एकेन्द्रियादिकनिमें जाय उपजोगे । अर इस कालमें तुम कोऊ कविता छन्द चरचा समझिकेँ तथा नवीन काव्य, श्लोक, शास्त्र छन्द, युक्ति बनाव करिके तथा जिनमतके सिद्धान्तनिका किंचित् ज्ञान पाय, मदकूँ प्राप्त होय रहे हो सो मदकूँ प्राप्त होना, योग्य नाहीं, पूर्वकालमें भये ज्ञानी वीतरागीनिके रचे ग्रन्थनिके वाक्यनिकूँ देखहु, जो अकलंकदेव-करि रची लघुत्रयी, बृहत्त्रयी, चलिका ये सात ग्रन्थ तिनमें प्रवेशके अर्थि माणिक्यनन्दी नामा मृनीश्वरां परीक्षामुख रच्या तिसकी बड़ी टीका प्रमेयकमलमार्तंड वारह हजार प्रभाचंद्रजी रची, अर लघुत्रयी ऊपरि न्यायकुमुदचंद्रोदय सोलह हजार श्लोकनिमें प्रभाचंद्रजी रच्या तथा तत्त्वार्थसूत्रनिकी पाय्य तो चौरासी हजार श्लोकनिमें रची सो इस अवसरमें प्रसिद्ध नाहीं है तो हू तिसका मंगला-चरण जो देवागमनामा स्तोत्रके ऊपरि विद्यानन्दीस्वामी आप्तमीमांसानामा अष्टसहस्री रची तथा अकलंकदेवजी राजवार्तिक रच्या तथा विद्यानन्दस्वामी अठारह हजार श्लोकनिमें श्लोकवार्तिकजी

रच्या तथा आप्तरीक्षा रची तिनिका निर्वाध वचनके प्रभाक् देखते बड़े बड़े वादीनिके गर्व गल जाय तथा नाटकत्रय सारत्रय इत्यादिक अनेकांतरूप निर्वाधयुक्ति वचनकूँ जानि कर कैसेँ ज्ञानका मद करो हो । कदाचित श्रुतज्ञानारणका च्योपशमतै किंचित् ज्ञान पाया है तो बड़ा दुर्लभ लाभ याका जानि आत्माकूँ विषयनितै तथा अभिमानादिक कषायनितै छुड़ाय, परम समता धारण करि संसारपरिभ्रमणका अभावमें यत्न करो । ज्ञानका मदकरि आत्माकूँ अनन्तसंसारी मत करहु । ऐसेँ

ज्ञानके मदका अभावका उपदेश किया ॥ १ ॥

अब दूजा पूज्यपनाका मद, ऐश्वर्यका मद, सम्यग्दृष्टि नाहीकरैँ हैं जातैँ यो राज्य-ऐश्वर्य आत्माका स्वभाव नाही, कर्मका किया है, विनाशीक है, पराधीन है, दुर्गतिका कारण है, मेरा ऐश्वर्य तो अनन्त चतुष्टयमय अक्षय अविनाशी अखण्ड सुखमय है तथा अनन्तज्ञानदर्शनमय है, अनन्त शक्तिरूप है । तातैँ ये कर्मकृत महाउपाधिरूप आत्माकूँ क्लेशितकरि दुर्गति पहुंचानेवाले स्वरूपको भुलावनेवाले ऐश्वर्य आत्माका स्वरूप नाही । कलहका मूल, वैरका कारण क्षणभंगुर परमात्म-स्वरूपकूँ भुलावनेवाले, महा दाहके उपजानेवाले, दुःखस्वरूप हैं अनेक जीवनिके घातक हैं । महा-आरम्भ, महा परिग्रहमें अंधकरि नरक पहुंचाने वाले हैं । इस ऐश्वर्य करि मैं केते दिन पूज्य रहूँगा । क्षणमें विध्वंस होय रंक होजाऊँगा । जगतमें धनके लोभी तथा अज्ञानी लोक मौकूँ ऊँचा मानैँ हैं, सत्कार करैँ हैं, सो राज्य संपदादिकनिका मेरे कैँ दिनका स्वामीपना है ? मृत्युका दिन नजीक आवैँ है; मुझ सारिखे अनन्तानन्त जीव संपदाकूँ अपनी मानते नष्ट हो गये परमाणुमात्र हूँ पर-द्रव्य मेरा नाही है; अन्ये द्रव्य अन्यका कैसेँ होय ? इस पर्यायमें कर्म-कृत परका संयोगरूप ऐश्वर्य है सो दान, सन्मान, शील, संयम, परजीवनिका उपकारकरि प्रशंसा योग्य है । ऐश्वर्य पाय गर्व-रहित, वाञ्छारहित, समतासहित, विनयव्रतपना ही शुभगतिका कारण है । अन्यप्रकार मिथ्यादर्शन-जनित मिथ्याभावजीवकूँ आपा भुलाय ऐश्वर्यमें उलभाय नरक पहुँचावैँ है ऐसेँ दृढ अज्ञान करता सम्यग्दृष्टि पूज्यपनाका मद, ऐश्वर्यका मद नाही करैँ । अर अन्य जीवनिकूँ अशुभके उदयवशतैँ दारिद्रकरि पीड़ित अशुभ सामग्री सहित देखि अयज्ञा तिरस्कार नाही करैँ है, करुणा ही करैँ है ॥२॥

अब सम्यग्दृष्टिके कुलका मद नाही होय ऐसा दिखावैँ हैं, जगतमें पिताके वंशकूँ कुल कहैँ हैं । सम्यग्दृष्टि विचारैँ है मेरा आत्मा कोऊ करि उपजाया नाही है तातैँ ज्ञानस्वरूप जो मैं, ताकेँ कुल ही नाही है ज्ञाता-दृष्टा स्वभाव ही मेरा कुल है अर जो अनादि कालका कर्मकरि परा-पराधीन मैं, इस पर्यायमें जो उत्तम कुल पाया तो इसका गर्व करना महा अनर्थ है । पृथ भवनिमें मैं अनन्तवार नारकी भया, अनन्तवार सिंह-व्याघ्र-सर्पनिके उपज्या, अनन्तवार गृक, गीदड़, गवा, ऊँट, मीठा, भैंसा इत्यादिकनिके कुलमें उपज्या । अनेकवार म्लेच्छनिके, भीलनिके, चाँदल चमारनिके, धीवरनिके, कसायीनिके कुलमें उपज्या । अर अनेकवार नाई, घोड़ी, तेली, एली, लुहार,



भद्रभूजा, चारन, भाट, डूम, भांडनिके कुलमें उपज्या हूँ । और अनेक वार दरिद्रीनिके कुलमें उपज्या हूँ । कदाचित् कोऊ शुभ कर्मका उदयतें ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्यनिके कुलमें आय उपज्या तो अब कर्मका किया कुलमें आय गर्व करना सो बड़ा अज्ञान है; इस कुलमें मेरा केता दिन वाम ? अर अनादिसुं इस कुल-जातिमें मेरा वास था नाहीं, नवीन उपज्याहूँ अर विनशिकरि अन्यकुलमें पुण्य-पापके आधीन उपजना होयगा । तातें उत्तम कुल पावनेका फल तो ये है जो मोक्षमार्गका माधक रत्नत्रयमें प्रवर्तन करना, तथा अधम आचरणका त्याग करना । बहुरि ऐसा विचार करो जो मं पुण्यका प्रभावकरि उत्तम कुल पाया है सो मोक्ष नीच कुलके मनुष्य ज्यों अभच्य-भक्षण करना योग्य नाहीं । तथा कलह, विमंवाद, मारण, ताडन, गाली, भण्डवचन, बोलना योग्य नाहीं तथा जुवाकी क्रीडा वेश्यासेवन, परधनहरणादिक करना योग्य नहीं, तथा निंदकर्मकरि आजिविका करना अयोग्य है । तथा हास्यवचन, असत्य वचन, छलकपटकरना योग्य नाहीं । अर उत्तम कुलका पाय करिके हू जो निंदकर्म करुगा तो इस लोकमें धिक्कार योग्य होय दुर्गतिका पात्र होऊंगा । ऐसैं कुलका मद सम्यग्दृष्टि नाहीं करै हैं ॥ ३ ॥

बहुरि माताकी पत्त जाति है सो सम्यग्दृष्टि जीव जातिका गर्व नाहीं करै है । जातें अनेकवार नीच जातिमें उपज्या बहुरि एकवार उच्च जातिमें उपज्या । अनन्तवार नीच जातिमें अर एक वार उच्च जातिमें उपज्या ऐसैं नीच जाति अनंतवार पाई अर उच्च जातिहू अनन्त वार पाई है । अब उच्च जातिके पायेका कहा गर्व करो हो । अनेकवार निगोदमें उपज्या तथा कूकरी, सूकरी, चांडाली, भीलनी, चमारी, दासी वेश्यानिके गर्भमें अनेकवार जन्मधारण किया । अब नीच जातिमें उपज्या पुण्यका तिग्स्कार तो कैसे करो हो, अर उच्चजातिकी माताके जन्म लेय मदोन्मत्त कैसे भये हो ? या जाति तो पुण्य-पाप कर्मका फल है । सो रस देय निर्जरैगा, जाति-कुलमें ठहरना कै दिनका है । तातें जातिकुलको विनाशीक अर कर्मके आधीन जानि उत्तम शील पालनेमें, क्षमा धारणमें, स्वराध्यायमें, परोपकारमें, दानमें, विनयमें, प्रवर्तनकरि जातिका उच्चपणा सफल करो । जातिका मदकरि संसारमें नष्ट मत होहु ।

अब बलका मद हू सम्यग्दृष्टिके नाहीं होय है—सम्यग्दृष्टि विचारै है—मैं अत्मा अनन्त बलका धागक हूँ सो कर्मरूप मेरा प्रबल वैरी मेरा बलकू नष्टकरि बलरहित एकेंद्रिय विकल्पयादिकमें समस्त बल आच्छादनकरि मेरी बलरहित ऐसी दशा करी जो जगतकी ठोकरातें कुचन्या गया चीथ्या गया । अब कोऊ वीर्यान्तरायनाम कर्मका किंचित् क्षयोपशमतें मनुष्य गर्भमें आहातके आश्रयतें किंचित् बलका उघाड हुआ है । अब जो इस देहके आधार पराधीन चलनेमें तपश्चरणकरि कर्मनिका नाश करूं तो बल पावना मफल है । तथा इस बलके लाभतें मंत्रन, उपवास, शील, संयम, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग करूं तथा कर्मके प्रबल उदय होतें आये हुए उपवर्ग परीक्षनितें चलायमान नाहीं होऊं । रोग-दारिद्र्यादिक कर्मनिके प्रहारतें कायर नाहीं होऊं,

दीनताकूँ प्राप्त नाहीं होऊं तो मेरा बल पावना सफल है । तथा दीन, दरिद्री, असमर्थनिके दुर्वचन श्रवणकरकेहूँ क्षमा ग्रहण करूँ तो मेरी आत्माकी विशुद्धताका प्रभावतैँ दुर्जय कर्मनिकूँ सारि क्रम क्रम करि अनन्तरीर्यकूँ प्राप्त होय अविनाशी पद पाऊं । अर जो बलवान होय निर्बलनिका घात करूँ अर असमर्थनिकी धन, धरती, स्त्रीनिकूँ हरण करूँ तथा अपमान तिरस्कार करूँ तो सिंह व्याघ्र, सर्पादिक दुष्ट तिर्यचनिकी ज्यों परजीवनिके घातके अर्थ ही मेरे बल पावना रखा, ताका फल दीर्घकाल नरकनिके दुःख, तिर्यचनिके दुःख भोग; निगोदमें अनंतानन्त काल परिभ्रमण करूंगा । तातैँ बलका मद समान मेरी आत्माका घातक अन्य नाहीं है ॥ ५ ॥

बहुरि ऋद्धि जो धन सम्पदा पावनेका ज्ञानीके गर्व नाहीं होय है; सम्यग्दृष्टि तो धनादिकके परिग्रहको महाभार मानै है । ऐसा दिन कदि आवेगा जो समस्त परिग्रहका भारकूँ छांडिकरि में आत्मीक धनकी संभाल करूँ । यो धन परिग्रहको भार महाबन्धन है अर राग, द्वेष, भय, संताप, शोक, क्लेश, वैर, हानिकूँ कारण है, मद उपजावनेवाला है, महा आरम्भादिकका कारण है, दुःख रूप दुर्गतिका बीज है । परन्तु करिये कहा ? जैसे कफमें पड़ी मच्छिका आपकूँ छुड़ावनेकूँ समर्थ नाहीं अर कर्दमके समूहमें फंसया वृद्ध अशक्त बलद निकलनेकूँ समर्थ नाहीं अर कर्दमके द्रहमें पड्या हस्ती आपकूँ निकासनेकूँ समर्थ नाहीं होय है । तैसेँ मैं हूँ इस धन कुटुम्बादिकके फन्दमेंसँ निकस्या चाहूँ हूँ तो हूँ आसक्तपनातैँ तथा रागादिकका प्रबल उदयतैँ तथा निर्वाह होनेकी कठिनताके देखनेतैँ कम्पायमान हूँ । ऐसेँ अपमान भयादिकका करनेवाला परिग्रहतैँ निकसनेका इच्छुक सम्यग्दृष्टि परार्थीन, विनाशीक, दुःखरूप सम्पदाका गर्व नाहीं करै । याका संगमर्का बड़ी लज्जा है जो मैं मेरी स्वाधीन, अविनाशी, आत्मीक लक्ष्मीकूँ छांडि जानी होय करके भी इस खाक समान लक्ष्मीकूँ नाहीं छाँड़ हूँ इस समान मेरी निर्लज्जता और कहा होयगी और हीनता कहा होयगी ॥ ६ ॥

अब सम्यग्दृष्टिकैँ तपका मद नाहीं होय है मद तो तपका नाश करनेवाला है अर जे तपके प्रभावकरि अष्टकर्मरूप वैरीनिकूँ नष्ट करि; परमात्मापनाकूँ प्राप्त भये ते धन्य हैं । में गंगारी आसक्त हुआ इन्द्रियनिकूँ भी विषयनितैँ रोकनेकूँ समर्थ नाहीं, कामका विजय किया नाहीं, निद्रा, आलस्य, प्रमादकूँ हूँ जीता नाहीं । इच्छा रोकनेमें समर्थ नाहीं । पर्यायमें लालसा घटा नाहीं । जीवनेकी वांछा मिटी नाहीं । मरनेका भय दूर हुआ नाहीं, स्तवनमें-निन्दामें, लाभमें-अलाभमें, समभाव हुआ नाहीं, तितनेँ हमारे काहेका तप ? तप तो वह है जातैँ कर्म वैरीनिके उदयकूँ जीत शुद्धात्मदशामें लीन होय जाय, धन्य हैं जिनके वीतरागता प्रगट हुई है । ऐसा विचार करि संयुक्त सम्यग्दृष्टिकैँ तपका मद कैसेँ होय ? ॥ ७ ॥

बहुरि सम्यग्दृष्टिकैँ शरीरके रूपका गर्व नाहीं है । जातैँ सम्यग्दृष्टि तो अन्ता न्यून ज्ञानमय देखै है । जिसमें ममस्त-वस्तुकूँ यथात्रन् अवलोकन करिये और यो चामडाभय गर्व

को रूप हमारो रूप नहीं हैं। यो देहका रूप क्षण क्षणमें विनाशीक है। एक दिन आहार पान नहीं करै तो महाविरूप दीखै है। इस देह का रूप समय समय विनाशीक है अर जरा आजाय तदि महा सुगला भयङ्कर दीखने लागि जाय है अर रोग तथा दरिद्रता आजाय तदि कोऊके देखने योग्य स्पर्शन योग्य नहीं रहै। इस रूपका गर्व कौन ज्ञानी करै ? एक क्षणमें अंध हो जाय एक क्षणमें काणा, कूबड़ा, लूला, टूटा, वक्रमुख, वक्रग्रीव, लम्ब—उदरादिक विडूरूप होजाय। इहां रूपका गर्व करना बड़ा अनर्थ है। सुन्दर रूप पाय शीलकूँ मलीन मत करो। दरिद्री, दुखी, रोगी, अंगहीन, कुरूप, मलीन देखि तिनका तिरस्कार मत करो, ग्लानि मत करो, संसारमें महा कुरूप मनुष्य-तिर्यचनिमें महासुगला भयङ्कररूप अनेक अनेकवार पाया है तातैं रूपका गर्व मत करो ॥८॥ ऐसैं सम्यग्दर्शनका नाश करने वाला अष्ट मदनिका स्वप्नमें भी जैसे संसर्ग नहीं होय वैसे निरन्तर करना योग्य है।

अब जो पुरुष मदोन्मत्त होय अन्य धर्मात्माजनका तिरस्कार करै है तिसके दोषका उपजना दिखावता सन्ता सूत्र कहै हैं—

स्मयेन योऽन्यानत्येति धर्मस्थान् गर्विताशयः ।

सोऽत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकैर्विना ॥२६॥

अर्थ—गर्वरूप है अभिप्राय जाका ऐसा जो कोऊ पुरुष गर्वकरि धर्मके धारक अन्य धर्मात्मा पुरुषनिनै तिरस्कार करै है सो आपका धर्मका तिरस्कार करै है जातै धर्मात्मा पुरुष विना धर्म नहीं पाइये है। तातैं जो धन, ऐश्वर्य, रूपादिकका मद करिकैं धर्मात्माकूँ तिरस्कार करै सो आपका धर्महीका तिरस्कार किया। क्योंकि धर्म तो कोऊ पुरुषके आधार है पुरुष विना है नहीं ॥२६॥

भावार्थ—संसारमें धन ऐश्वर्य आज्ञाका बड़ा मद है मदकरि गर्विष्ठ होय जाय तदि देह-गुरु-धर्मका हू विनय भूले है। ऐसा विचार करै है जो मन्दिर कहा वस्तु है, मैं अन्य नवीन बनाय लूंगा, वा हमारा ही बनाया है अर जो ये तपस्वी त्यागी हैं सो हू हमारे ही आधीन भोजन वस्त्रकरि जीवैं हैं अर यो धर्म हू धन खरचनेतै ही होय है धन खरच्यांसूँ ही ठाकुरजीकी पूजा प्रभावना होय है ऐसैं अबज्ञा करै है। तथा अनेक पापाचरण करतो हू कोऊ अभिमानके वश होय दान, पूजा प्रभावनामें पांच रुपया लगाय आपकूँ धन्य मानै है, तथा धन, आज्ञा, ऐश्वर्यका मदकरि अन्व होय ऐसा मानै है जो जगतमें धन ही बड़ा है जो धनवानके घर बड़े-बड़े ज्ञानी शास्त्रनिके पारगामी, काव्य श्लोकनि के बनावनेवाले, नित्य आवैं हैं बड़े-बड़े ज्ञानी शास्त्रनिके अर्थि धनगननिहूँ घरमें आप श्रवण कराता फिरै है। तथा अनेक कला चतुराईवाला धनवानके घर नित्य आवैं हैं। तथा पूजन करनेवाला प्रभावना करनेवाला तथा भजन करनेवाला अनेक धनवानका

आश्रय लेय धनवान् श्रमण करावता फिरै है तथा उपवास व्रत बेला तेला करनेवाला त्यागी तपस्वी धनवाननिके ही घर भोजन कूँ आवै है तथा मन्त्र जापादिक हू धनवन्त पुरुषनिके भले होनेकूँ करै हैं । तातैं समस्त धर्म और समस्त गुण हमारे धनके आधीन है ऐसैं धन ऐश्वर्य-करि अना आत्माकूँ ऊँचा मानता कृतकृत्य भये धर्मात्मानिकी अज्ञा करै हैं जातैं आत्मज्ञानी परमार्थी परम संनोषीनिकूँ तो देखै नाहीं, जिनको चक्रीकी सम्पदा अर इन्द्रलोककी सम्पदा हू दुखःरूप दीखै है वे पुरुष धनवन्तनिका समागम स्वप्नहूमें नाहीं चाहै हैं । अर जगत के अल्पपुण्य-वाले निर्धन लोक गृहकुटुम्बके पालनेकी आशा करि संतप्त भये अपना अभिमान छाँडि धनवानके घर आवे दयावान उपकारी जानि करिकै तथा धर्मसूँ प्रीति अर पावनेका फल लेनेवाला जानि धन-वानके द्वारै आवै हैं परन्तु धनका मदकरि अन्ध होय ताकै तो दान नाहीं होय है । उपकार नाहीं करै है दयारहित निर्दयी होय है । केवल हमारा मान मत छीजो, मत विगाड़ो, ऐसैं मानता मरण करि बहुत ममता कृपणताका प्रभावकरि नरक तिर्यचगतिमें बहुत काल परिभ्रमण करै हैं बहुरि जे धन सम्पदा पाय करिके मरहित हैं तिनके ऐसा विचार है जो या धनसम्पदा हमारा रूप नाहीं, हमारी नाहीं, कोऊ पूर्वकृत पुण्य फल है सो विनाशीक ह अब इस सम्पदाकरि किसीका उपकार करूं, दरिद्री लोगनिका संताप दूर करूं, करुणाकरि दुःखित जीवनिका उपकार करूं, तथा जिन-धर्मके श्रद्धानी ज्ञानी तिनका दारिद्रादिक संताप मेदि निराकुल करूं । समस्त जन धनवानकी आशा करै हैं, मैं दरिद्री होता तो मातैं कौन उपकार चाहता, तातैं मेरे शुभ कर्म फल्या है तो आश्रितनिका भरण पोषण करूं बालक वृद्ध रोगी अनाथ विधवा अशक्तनिका उपकार करिही मेरा धन पावना सफल है तथा ऐसा कार्यमें लगाऊँ जातैं जिनधर्मकी परिपाटी बहुत काल प्रवर्तैं, जानाम्यास की परम्परा चली जाय, नित्यपूजन ध्यान अध्ययन तप शील करि संसारके उद्धार करनेवाला कार्यका प्रवर्तन करै, ये धन पाएका फल है लाभ है । जो पर उपकारमें धन नाहीं लागैगा तो अवश्य विनाश होसी ही । किसीकी लार सम्पदा परलोक गई नाहीं । दान विना केवल पाप दुर्ध्यान कराय यह सम्पदा संसारमें उबोय देगी । इस सम्पदा पाइवेका तो दान करना ही फल है । कोट्यां मनुष्य पूर्वे दान नाहीं दिया ते घर घर द्वारै अन्न मांगता फिरै है, उदर भर भोजन नाहां मिलै है, शरीर ऊपरी कपड़ा नाहीं मिलै है, दरिद्री दीन हुआ परकी उच्छिष्टादिक-निमें आशा करता फिरै है, सो दानरहितताका तथा कृपणताका फल है । मनुष्यनिका पशुवनिका दासपना करता हू उदर नाहीं भर सकै है । दान विना मोकूँ आगामी कालमें सम्पदा नाहीं प्राप्त होयगी, दानमें धर्मके स्थाननिमें जो लगाऊंगा तो पावना सफल है । मरण हुआ परलोक साथी जायगी नाहीं; जहां धरी है तहां धरी रहैगी, तातैं कोऊ जीवनिके उपकारमें खरच होयतो सुफल है वही सम्पदा हमारी है ऐसा विचार सहित मम्यगृष्टि है सो परोपकारके कार्यनिमें लगावनेमें उद्यमी रहै हें । यद्यपि धर्मात्मा पुरुषनिके तो या संपदा ग्रहण करने योग्य ही नाहीं, मोहकरि अध करनेवाला हें,

आत्माकूँ भुलाने वाली है यामें सम्यग्दृष्टि अपनापन ही नहीं करै, तथापि चारित्रमोहके उदयतै राग नहीं घटै तो परजीवनिके उपकारमें तो अवश्य लगावना । बहुत कष्टतै उपजाई ताकूँ उत्तम कार्यमें लगावना छांडिकरि मरजानेमें अपना कहा भला होयगा ? या विचारि जे पाररहित जन हैं ते निर्धन रोगी दुःखित जननिकूँ देखि अवज्ञा नहीं करै हैं, धन देय दुःख मेटे हैं । धर्ममें प्रवर्तवनेवाले शुभ कार्यमें खरचि करावनेवालेनिकूँ देखि बड़ा आनन्द मानै हैं, धर्म साधन करनेवालेनिके शामिल होय धनके भोगनेमें आनन्द मानै हैं, ते संपदा पावनेका फल लिया है अर आगै परलोकमें देवनिकी सम्पदा चक्रीनिकी सम्पदाकूँ दानी ही प्राप्त होय हैं ।

अर आगै जे संपदामें रागी हैं तिनकूँ संपदाका स्वरूप दिखावनेकूँ सूत्र कहै हैं—

यदि पापनिरोधोऽन्यसंपदा कि प्रयोजनम् ।

अथ पापास्रवोऽस्त्यन्यसंपदा कि प्रयोजनम् ॥ २७ ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि विचारै है जो ज्ञानावरणादि अशुभ पापप्रकृतितिका आस्रव होना मेरे रुक गया तो इसतै अन्य संपदाकरि मेरे कहा प्रयोजन है । अर जो हमारे पापका आस्रव होय है अर संपदा आवै है, तो इस संपदाकरि कहा प्रयोजन है ॥ २७ ॥

भावार्थ—इस जीवके जो त्यागरूप संयमरूप प्रवृत्तिकरि पापका आस्रव होना रुक गया तो अन्य जो इन्द्रियनिके विषयनिकी संपदा राज ऐश्वर्य संपदा नहीं भई तो इस संपदातै कहा प्रयोजन है । आस्रव रुकनेतै तो निर्वाणसंपदा अहमिंद्रलोककी स्वर्गलोककी संपदा प्राप्त होय है । या खाक-धूलिसमान अ्लेशकी भरी क्षणभंगुर संपदाकरि कहा प्रयोजन है अर जो इस जीवके त्यागरूप संयमरूप प्रवृत्तिकरि पापका आस्रव नहीं है सो निर्वन्ध नाम संपदा बड़ी विभूति महालक्ष्मी है । अर जो अन्याय अनीति कपट छल चोरी इत्यादिककरि मेरे पापका आस्रव निरन्तर होय है अर धन सम्पदा प्राप्त होगई तो इस करि कहा प्रयोजन है ? शीघ्र ही मरणकरि अन्तर्मुहूर्तमें नरकका नारकी जाय उपजैगा । तातै सम्यग्दृष्टिके तो पाप कर्मके आस्रवका आवनेका बड़ा भय है अर पापका आस्रव रुक जानेकूँ ही महा सम्पदाका लाभ मानै है अर इस संसारकी सम्पदाकूँ तो परार्थीन दुःखकी देनेवाली जानि, यामें लालसा नहीं करै है । अर कदाचित् लाभांतराय भोगांतराय कर्मका क्षयोपशमतै प्राप्त होय ताकूँ परार्थीन विनाशीक बन्ध करनेवाली जानि इस सम्पदामें लिप्त नहीं होय है । वर्तमानकी किंचित् वेदनाकूँ मेटनेवाली मानि उदासीन भया कड़वी औषधि ज्यों ग्रहण करै हैं, सम्पदाकूँ अपना हित जानि वांछा नहीं करै है ।

अन छह अनायतनका ऐसा स्वरूप जानना—कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र अर कुदेवका श्रद्धान वा नेवन करनेवाला अर कुगुरुकी सेवा करनेवाला अर कुशास्त्रका पढ़नेवाला ऐसै छह प्रकार ये धर्म के आयतन कहिये स्थान नहीं । इनतै कदाचित् अपना भला होना नहीं, यातै छह अनाय-

तन हैं। इनका संक्षेप स्वरूप ऐसा जानना—जैसे सर्वज्ञपना नहीं, वीतरागपना नहीं, जाकूँ कामी क्रोधी तथा चौरनिका अरु जारनिका शिरोमणि कहिये, तथा जाकूँ भोजनका इच्छुक, मांसका भक्षक, क्रोधी लोभी अपनी पूजा करानेका इच्छुक, जीवनिका संहार करनेवाला, अपने भक्तनिका उपकारक अभक्तनिका विनाशक कहें, जिनको बहुत मूढ़लोग देवबुद्धि करि पूजें हैं अरु देवपनाका आयतननाहीं उसमें देवबुद्धि करना मिथ्या है। वे देवपनाका आयतननाहीं हैं। वहुरि जो व्रत-संयमरहित अनेक पाखण्ड भेषका धारक तिनमें व्रत त्याग विद्याध्ययनादिक परिग्रह त्याग देखि करकैं तथा मन्त्रज्ञत्रतन्त्रविद्या ज्योतिष, वैद्यक तथा शकुनविद्या तथा इन्द्रजालादिक विद्यानिकरि अनेक मूढ़ लोगनिके मान्य पूज्य देख करि पाखण्डी जिन-आज्ञा-वाश भेषीनिमें पूज्य गुरुपना नहीं जानना। वहुरि छोटे मिथ्याशास्त्र हिंसाके पोषक, तिनमें आत्महित नहीं, सो शास्त्र सम्यग्ज्ञानका आयतन नहीं है। अरु कुदेव कुगुरु कुशास्त्रनिके सेवन करनेवाले इनकी उपासनातैं अपना कल्याण माननेवालेनिकूँ सम्यग्दृष्टि प्रशंसा नहीं करै है ऐसे सम्यग्दर्शनके घात करनेवाले तीन मूढ़ता, अष्ट मद, अष्ट शङ्कादिक दोष छह अनायतन इन पच्चीस दोषनिका परिहार करि, व्यवहार सम्यग्दर्शनके धारणतैं निश्चय सम्यग्दर्शनकूँ प्राप्त होहू। अरु जाकै पच्चीस दोषरहित आत्माका श्रद्धानभाव है ताहीकै निश्चय सम्यग्दर्शन होनेका नियम है। जाकै बाह्यदोष ही दूर नहीं होय ताकै अन्तरङ्ग हू सम्यग्दर्शन शुद्ध नहीं होय है।

अब सम्यक्त्वके भेद अरु उत्पत्ति कैसें होय है सो कहै हैं:-

सम्यक्त्व तीन प्रकार है—उपशमसम्यक्त्व १, क्षयोपशमसम्यक्त्व २, क्षायिकसम्यक्त्व ३। संसारी जीवके अनादिकालतैं अष्टकर्मनिका बन्धन है तिनमें मोहनायकर्मका भेद जो दर्शनमोहनी ताका तीन भेद है। मिथ्यात्व १, सम्यग्मिथ्यात्व २, सम्यक्त्वप्रकृतिमिथ्यात्व ३। अरु चारित्र-मोहनीका भेद जो अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसें सात प्रकृति सम्यक्त्वका घात करनेवाली हैं। इन सप्त प्रकृतिनिका उपशमतैं उपशमसम्यक्त्व होय है। अरु इन सप्त प्रकृतिनिका क्षयतैं क्षायिकसम्यक्त्व होय है। इन ही सप्त प्रकृतिनिका क्षयोपशमतैं क्षयोपशमिक सम्यक्त्व होय है याहीकूँ वेदकसम्यक्त्व कहिये है। तहां अनादिमिथ्यादृष्टि जीवकैं पइलां उपशमसम्यक्त्व ही होय है अरु मिथ्यादृष्टिकै मिथ्यात्व छूटि सम्यक्त्व होय ताकूँ प्रथमोपशमसम्यक्त्व कहिये है। अरु जो उपशमश्रेणीकी आदिमें क्षयोपशमसम्यक्त्वतैं उपशमसम्यक्त्व होय, सो द्वितीयोपशमसम्यक्त्व है। अब मिथ्यादृष्टिकैं मिथ्यात्वगुणस्थानतैं उपशमसम्यक्त्व कैसें होय, ताकूँ श्रीलब्धिसारजीके अनुसार किंचित् लिखिये है,—

सम्यग्दर्शन उपजै है सो चारोंही गतिमें अनादिमिथ्यादृष्टि वा सादिमिथ्यादृष्टिकैं उपजै है परन्तु संज्ञकै ही उपजै है, असंज्ञकै नहीं उपजै। पर्याप्तकै ही उपजै, अपर्याप्तकै नहीं उपजै। मन्द कषायीकैही उपजै, तीव्रकषायीकै नहीं उपजै। भव्यकैही उपजै, अभव्यकै नहीं उपजै। गुण दोषनिका विचा-

सहित साकारोपयोग जो ज्ञानोपयोगयुक्तकैही उपजै, दर्शनोपयोगीकै नाहीं उपजै । जागृतअवस्थाहीमें उपजै, निद्राकरि अचेतकै नाहीं उपजै । सम्मूर्च्छनकै नाहीं उपजै । अर पांचमी करणलब्धिमें उत्कृष्ट जो अनिवृत्तिकरण तिसका अन्त समयमें प्रथमोपशमसम्यक्त्व प्रगट होय है । अब पंचलब्धिके नाम ऐसे हैं—क्षयोपशमलब्धि १, विशुद्धिलब्धि २, देशनालब्धि ३, प्रायोग्यलब्धि ४, करणलब्धि ५, इन पांच लब्धिविना सम्यक्त्व नाहीं उपजै । तिनमें चार लब्धि तो कदाचित् संसारी भव्य तथा अभव्यकै भी होय जाय हैं, परन्तु करणलब्धि तो जाकै सम्यक्त्व तथा चारित्रकू अवश्य प्राप्त होना होय तिस-हीकै होय है । अब क्षयोपशमलब्धिकू आगममें ऐसै कहै हैं—जिस कालमें ऐसा योग आ मिलै जो अष्ट कर्मनिमें ज्ञानावरणादिक समस्त अप्रशस्त प्रकृतीनिकी शक्ति जो अनुभाग सो समय समय प्रति अनन्तगुणा घटता, अनुक्रमकरि उदय आवै, तिसकालमें क्षयोपशमलब्धि होय है । जातै उत्कृष्ट अनुभागका अनन्तवां भाग परिमाण जे देशघातिस्पर्द्धक तिनका उदय होते हू उत्कृष्ट अनुभागका अनन्त बहुभाग मात्र जे सर्वघातिस्पर्द्धक तिनकी सत्तामें अवस्थिति सो उपशम ऐसा संयोगकी प्राप्ति जिस कालमें होय सो क्षयोपशमलब्धि जाननी । प्रथम भई जो क्षयोपशमलब्धि तिसकै प्रभावतै उपज्या जो जीवकै सातावेदनीय आदि शुभ प्रकृतिके बन्धकू कारण धर्मानुरागरूप शुभ परिणामनिकी प्राप्ति होय सो विशुद्धिलब्धि है । सो ठीक ही है जातै अशुभकर्मनिका रस देय घटि जाय तदि जीवकै संक्लेशपरिणामकी हानि होजाय तदि विशुद्धपरिणामनि की वृद्धि होनी युक्त ही है । ऐसै दूजी विशुद्धिलब्धि कही । अब देशनालब्धिका ऐसा स्वरूप जानना,—छहद्रव्य नपदार्थनिके उपदेश करनेवाला आचार्यादिकनिका लाभ अर तिनिका उपदेशकी प्राप्ति अर तिनकरि उपदेश्या पदार्थनिका धारण करनेकी प्राप्ति सो देशनालब्धि है । नरकादिकनिमें उपदेश-दाता जहां नाहीं है तहां पूर्व जन्ममें धारया जो तत्त्वार्थ जिसके संस्कारका बलतै सम्यग्दर्शन होय है ।

अब चौथी प्रायोग्यलब्धिका स्वरूप आगममें जैसा है—सो कहै हैं,—ए कही जे तीन लब्धिकरि संयुक्त जे जीव समय-समय विशुद्धताकी वृद्धिकरि आयुर्कर्मविना सात कर्मनिकी अन्तःकोटाफोटिसागरमात्र स्थिति अवशेष राखै, तिसकालविषै जो पूर्व स्थिति थी ताको एक कांडक घात करि छेदि, तिस कांडकके द्रव्यको अवशेष रही स्थिति विषै निक्षेपण करै है अर घातिकर्म-निका जो अनुभाग कहिये रस सो तो दारु अर लतारूप अवशेष रहै है । अर शैलास्थिरूप नाहीं रहै है, अर अघातियानिका अनुभाग निंब-कांजीररूप रहै, विष अर छलाइलरूप नाहीं रहै है । पूर्व जो अनुभाग था ताके अनन्तका भाग दीए बहुभाग मात्र अनुभागकू छेदि, अवशेष रखा अनुभागविषै प्राप्ति करै है । तिस कार्य करनेकी योग्यताकी प्राप्ति सो प्रायोग्यलब्धि है, सो भव्यके वा अभव्यकै भी समान होय है । बहुरि संक्लेशपरिणामी संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्तकै जो संभवै ऐसा उत्कृष्ट स्थितिवन्ध अर उत्कृष्टस्थिति अनुभाग प्रदेशका सत्त्व होतै जीवकै प्रथमोपशमसम्यक्त्व नाहीं

ग्रहण होय है अरु विशुद्ध लक्ष्मण शीघ्रै संभवता ऐसा जघन्यस्थिति बन्ध अरु जघन्यस्थिति अनुभाग प्रदेशका सत्त्व होते हू प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होय है । प्रथमोपशमसम्यक्त्वके सम्मुख भया जो मिथ्यादृष्टि जीव सो विशुद्धिताकी वृद्धिकरि वधता संता प्रायोग्यलब्धिका प्रथम समयतै लगाय पूर्वस्थितिके संख्यातवें भागमात्र अन्तःकोटाकोटिसागरप्रमाण आयुत्रिना सात कर्मनिका स्थिति-बन्ध करै है । तिस अन्तःकोटाकोटिसागर स्थितिवन्धतै पत्न्यका संख्यातवां भागमात्र घटता स्थिति बंध अन्तर्मुहूर्तपर्यन्त समानता लिये करै है । बहुरि तातै पत्न्यका संख्यातवां भागमात्र घटता स्थिति-बन्ध अन्तर्मुहूर्तपर्यन्त समानता लिये करै । ऐसै क्रमतै संख्यात स्थितिवंधापसरणानि करि पृथक्त्व सौ सागर घटे पहला प्रकृतिबंधापसरणस्थान होय । बहुरि इसही क्रमतै तिसतै हू पृथक्त्व सौ सागर घटै दूजा प्रकृतिबंधापसरणस्थान होय । ऐसै ही क्रमतै इतना स्थितिवंध घटे एक एक स्थान होय । ऐसै प्रकृतिबंधापसरणके चौतीस स्थान होय हैं । यहां पृथक्त्व नाम सात-आऽ का है । तातै यहां पृथक्त्व सौ सागर कहनेतै सातसै वा आठसै सागर जानना । अब यहां कैसी कैसी प्रकृतीनिका बन्धमेंतै व्युच्छेद होय है, यहांतै लगाय प्रथमोपशमसम्यक्त्वपर्यन्त बंध नहीं होय ऐसै बंधापसरण हैं, तिन चौतीस बन्धापसरणका वर्णन किए कथनी बहुत होजाय जो विशेष जान्या चाहै सो श्रीलब्धिसारग्रन्थतै जानहु । अरु और हू विशेष प्रायोग्यलब्धिमें जानना ।

अब पंचमी करणलब्धि सो भव्यहीकै होय अभव्यके नहीं होय है । अधःकरण १, अपूर्वकरण २, अनिवृत्तिकरण ३ ऐसै तीन करण हैं । इहां करण नाम कषायनिकी मंदतातै विशुद्धरूप आत्मपरिणामनिका है । तिनमें अन्य अन्तर्मुहूर्तप्रमाण काल तो अनिवृत्तिकरणका है, यातै संख्यातगुणा अपूर्वकरणका काल है । यातै संख्यातगुणा अधःप्रवृत्तकरणका काल है । सो हू अन्तर्मुहूर्तप्रमाण ही है । जातै इस अन्तर्मुहूर्तके असंख्यात भेद हैं । इस अधःप्रवृत्तकरणकालके विषै अतीत-अनागत-वर्तमान त्रिकालवर्ती नानाजीवसंबंधी इस करणके विशुद्धितारूप परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण हैं, ते परिणाम अधःप्रवृत्तकरणके जेते समय हैं तितनेमें समान वृद्धि लिये समय समय वृद्धि लिए हैं । जातै इस करणके नीचले समयके परिणामनिकी संख्या अरु विशुद्धिता ऊपरले समयवर्ती किसी जीवके परिणामनितै मिलै है तातै याका नाम अधःप्रवृत्तकरण है । याका परिणामनिकी संख्या विशुद्धिताके लौकिक दृष्टांत अलौकिक संदृष्टि गोमट्टसारमें तथा लब्धिसारमें हैं तहांतै विशेष जानना । इहां एता बड़ा विस्तार कैसै लिखा जाय, ग्रन्थ बहुत बड़ा होजाय । बहुरि अधःप्रवृत्तकरणके परिणामनिका प्रभावतै चार आवश्यक होय हैं, एक तो समय समय प्रति अनन्तगुणी विशुद्धिताकी वृद्धि होय है । दूजा स्थितिवंधापसरण होय है, पूर्व जेता प्रमाण लिये कर्मनिका स्थितिवन्ध होता था तिसतै घटाय घटाय स्थितिवन्ध करै है । बहुरि सातावेदनीयक आदि देकर प्रशस्तकर्मप्रकृतिनिका समय समय अनन्तगुणा वधता गुड-खांड-शर्करा अमृत समान चतुःस्थानलिये अनुभागबन्ध होय है । बहुरि असातावेदनीयादि अप्रशस्तकर्मप्रकृतिनिका अनन्त-



गुणा घटता निंब कांजीर समान द्विस्थानलिये अनुभागबन्ध होय है । विप-हालाहलरूप नाहीं होय है । ऐसै अधःप्रवृत्तकरणके परिणामतै चार आवश्यक होय हैं । अधःप्रवृत्तकरणका अन्तर्मुहूर्त-काल व्यतीत भये दूजा अपूर्वकरण होय है । अधःकरणके परिणामतै अपूर्वकरणके परिणाम असंख्यात लोकगुणें हैं सो नानाजीवनिकी अपेक्षा हैं । एक जीवकी अपेक्षा एक समयमें एक ही परिणाम होय है । एक जीवकी अपेक्षा तो जेते अपूर्वकरणके अन्तर्मुहूर्तकालके समय हैं, तेते परिणाम हैं ऐसे ही अधःकरणके भी एक जीवके एक समयमें एक परिणाम ही होय हैं । नाना जीवनिकी अपेक्षा एक समयकै योग्य असंख्यात परिणाम हैं ते अपूर्वकरणके परिणाम भी समय समय सदृश चय करि वर्धमान हैं । इस अपूर्वकरणके परिणाम हैं ते नीचले समय संबंधी परिणामनितै समान नाहीं हैं । प्रथम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धितातै द्वितीय समयकी जघन्य विशुद्धिता हू अनन्तगुणी है, ऐसै परिणामनिका अपूर्वपणा है, तातै दूसरा करणकू अपूर्वकरण कथा है । अपूर्वकरणका प्रथम समयतै लगाय अन्तसमयपर्यन्त अपने जघन्यतै अपना उत्कृष्ट अर पूर्व समयका उत्कृष्टतै उत्तर समयका जघन्य परिणाम क्रमतै अनंतगुणी विशुद्धिता लिये सर्पकी चालवत् जानने । इहां अनुकृष्टि नाहीं है । अपूर्वकरणके पहले समयतै लगाय यावत् सम्यक्त्वमोहनी मिश्र-मोहनीका पूर्ण काल जो जिसकालमें गुण संक्रमण करि मिथ्यात्वको सम्यक्त्वमोहनी, मिश्रमोहनी-रूप परिणामावै है तिसकालका अन्तसमयपर्यंत गुणश्रेणी १, गुणसंक्रमण २, स्थितिखण्डन ३, अनुभागखण्डन ४ ये चार आवश्यक होय हैं । बहुरि स्थितिवन्धापसरण है सो अधःकरणका प्रथम समयतै लगाय तिस गुणसंक्रमण पूर्ण होनेका कालपर्यन्त होय है । यद्यपि प्रायोग्यलब्धितै ही स्थितिवन्धापसरण होय है तथापि प्रायोग्यलब्धिके सम्यक्त्व होनेका अनवस्थितिपना है नियम नाहीं तातै ग्रहण नाहीं किया । बहुरि स्थितिवन्धापसरणका काल अर स्थितिकाण्डकोत्करणका काल ए दोऊ समान अन्तर्मुहूर्तमात्र हैं तहां पूवै वांध्या था ऐसा सत्तामें कर्मपरमाणुरूप द्रव्य तामेसू काढ़ि जो द्रव्य गुणश्रेणीमें दिया ताका गुणश्रेणीका कालमें समय समय प्रति असंख्यात गुणा अनुक्रम लिये पंक्तिबंध जो निर्जराका होना सो गुणश्रेणीनिर्जरा है ॥ १ ॥ बहुरि समय समय प्रति गुणकारका अनुक्रमतै विवक्षित प्रकृतिके परमाणु पलट करि अन्यप्रकृतिरूप होय परिणामें सो गुणसंक्रमण है ॥ २ ॥ बहुरि पूवै वांधी थी ते सत्तामें तिष्ठती कर्मप्रकृतिनिकी स्थितिका घटावना सो स्थितिखण्डन है ॥ ३ ॥ बहुरि पूवै वांधा था ऐसा सत्तामें तिष्ठता अशुभ प्रकृतिनिका अनुभागका घटावना सो अनुभागखण्डन कहिये ॥ ४ ॥ ऐसै चार कार्य अपूर्वकरणविषै अवश्य होय हैं । अपूर्वकरणके प्रथमसमयसम्बन्धी प्रशस्त अप्रशस्त प्रकृतिनिका जो अनुभागसत्त्व है तातै ताके अन्तसमयविषै प्रशस्तप्रकृतिनिका अनन्तगुणा वधता अर अप्रशस्त-प्रकृतिनिका अनन्तगुणा घटता अनुभागसत्त्व होय है । इहां समय समय प्रति अनंतगुणी विशुद्धता होनेतै प्रशस्तप्रकृतिनिका अनन्तगुणा अर अनुभागकांडकका साहाय्यकरि अप्रशस्तप्रकृतिनिका

अनन्तवें भाग अनुभाग अन्तममयविषे सम्भवै है । इन स्थितिखण्डादि होनेके विधानका कथन वद्वन विन्नागरूप लब्धिगारतें जानना । इहां संक्षेपमात्र प्रकरणके वशतें जनाया है । ऐसैं अपूर्व-करणविषे कहे जे स्थितिखण्डादि कार्य विशेषतें तीसरा अनिवृत्तिकरण विषे भी जानना । विशेष इतना-इहां गमान-गमयवर्ती नाना जीवनिके सदृशपरिणाम ही हैं । जातैं जितने अनिवृत्तिकरणके अन्तर्मुहूर्तके गमय हैं तितने ही अनिवृत्तिकरणके परिणाम हैं तातैं समय समय प्रति एक एक ही परिणाम हैं । अर इहां जो स्थितिखण्ड, अनुभागखण्डादिका प्रारंभ और ही प्रमाणालियें होय है । जातैं अपूर्वकरणसंबन्धी है स्थितिखण्डादिक जिनका ताकैं अन्तसमयविषे ही समाप्तपना भया । इहां अन्तरकरणादिविधि हैं सो लब्धिसारजीतें जाननी ।

इहां प्रयोजन ऐसा है जो अनिवृत्तिकरणका अन्तसमयविषे दर्शनमोहनीय अर अनन्तानु-वन्धीचतुष्क इनके प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभागनिका समस्तपने उदय होनेकी अयोग्यतारूप उप-शम होनेतें तत्त्वार्थनिका श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शनकूं पाय औपशमिकसम्यग्दृष्टि होय है । तहां प्रथम समयविषे द्वितीय स्थितिचिषे तिष्ठता मिथ्यात्वके द्रव्यको स्थितिकांडक अनुभागकांडक घात विना गुणसंक्रमणका भाग देय मिथ्यात्व सम्यङ् मिथ्यात्व सम्यक्त्वमोहनीरूपकरि मिथ्यात्वके द्रव्यकूं तीन प्रकार करै है । भावार्थ-अनादिकालका दर्शनमोहनी एकरूप था तिसका द्रव्य करणनिके प्रभारतें तीनप्रकार शक्तिरूप न्यारे २ होय तिष्ठै है । ऐसैं मिथ्यादृष्टिके सम्यक्त्व होनेका कारण पंचलब्धिनिका संक्षेपतें स्वरूप जनाया । इस उपशमसम्यक्त्वका जघन्य तथा उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ही काल है । अन्तर्मुहूर्तपूर्ण भये पाछें नियमतें तीन दर्शनमोहनी प्रकृतीनिमें एकका उदय होय है । तहां जो सम्यक्त्वमोहनीका उदय होय तो उपशमसम्यक्त्व छूटि जीवकैं वेदकसम्यक्त्व होय है सो सम्यक्त्वमोहनीका उदयतें वेदकसम्यग्दृष्टि चल मल अगाढ़रूप तत्त्वको श्रद्धान करै हैं । सम्यक्त्व-मोहनीका उदयतें श्रद्धानविषे चल्पना होय है तथा मल जो अतिचारसहित होय है वा शिथिल श्रद्धान रहै । इस वेदकसम्यक्त्वकूं ही क्षयोपशमसम्यक्त्व कहिये है जातैं दर्शनमोहनीके सर्वघाति-स्पर्द्धकनिका उदयका अभाव सो ही यहां त्व है अर देशघातिस्पर्द्धकरूप सम्यक्त्वप्रकृतिके उदय होतैं बहुरि तिस सम्यक्त्वमोहनीर्हाके वर्तमानसमय संबंधीते ऊपरिके निपेक उदयकूं नाहीं प्राप्त भये, तिनसम्बन्धी स्पर्द्धकनिका सत्तामें अवस्थित रूप है लक्षण जाका ऐसा उपशम होतैं क्षयोपशमसम्यक्त्व होय है इसहीकूं सम्यक्त्वप्रकृति के उदयका वेदन जो अनुभवन तातैं वेदकसम्यक्त्व कहिये है । बहुरि जो उपशमसम्यक्त्वका अन्तर्मुहूर्त काल बीते पीछें जो सम्यङ् मिथ्यात्वका उदय होय तो मिश्रगुण-स्थानी हो जाय, ताकैं तत्व अतत्त्व दोऊनका मिल्या हुआ श्रद्धान होय है । अर जो मिथ्यात्वका उदय हो जाय तो मिथ्यादृष्टि विपरीत श्रद्धानी होय । जैसैं ज्वरकरि पीडित पुरुषकूं मिष्टभोजन नाहीं रुचै, तैसैं ताकूं अनेकान्तरूप वस्तुका सत्यार्थस्वरूप तत्त्व नाहीं रुचै, तथा रत्नत्रयरूप मोक्षका मार्ग नाहीं रुचै, तथा दशलक्षणरूप स्वपरकी दयारूप धर्म नाहीं रुचै । अर जो उपशमसम्यक्त्वका

अन्तर्मुहूर्तकालमेंते जघन्य एक समय उत्कृष्ट छह आबली अवशेष रहे, जो अनंतानुबन्धी क्रोधमान-  
 मायालोभमेंतें कोऊ उदय हो जाय तो सम्यक्त्वतें छूटि सासादननाम गुणस्थान पाय जघन्य एक  
 समय उत्कृष्ट छह आबली सासादन नाम पाय नियमतें मिथ्यादृष्टि होय है । ऐसैं उपशमसम्यक्त्वका  
 अंतर्मुहूर्तकाल पूर्ण भये पाछैं चार मार्ग हैं । जो सम्यक्त्वमोहनीका उदय होय जाय तो क्षयोपशम  
 सम्यक्त्वो होय । अर मिश्रप्रकृतिका उदय होय तो मिश्रगुणस्थानी होय अर मिथ्यात्वका उदय  
 होय तो नियमतें मिथ्यादृष्टि होय, अनन्तानुबन्धी चार कषायमेंतें कोऊ एक का उदय होय तो  
 सासादनगुणस्थानी नाम पाय पाछैं मिथ्यादृष्टि होय है । अब क्षायिकसम्यक्त्व होनेका संक्षेप कहै  
 है—दर्शनमोहके क्षयतें क्षायिक सम्यक्त्व होय है, अर दर्शनमोहका क्षपणनेका आरम्भ करै सो  
 कर्मभूमिका मनुष्य ही करै, भोगभूमिका मनुष्य नाहीं करै, समस्त देव नारकी अर तिर्यचनिकै  
 क्षायिकसम्यक्त्व आरंभ नाहीं होय है । अर कर्मभूमिका मनुष्य आरम्भ करै सोहू तीर्थंकर वा  
 अन्यकेवली श्रुतकेवलीके पादमूलके नजीक तिष्ठता होय सोही दर्शनमोहकी क्षपणाका आरम्भ करै  
 हैं जातैं केवली श्रुतकेवलीकी निकटता विना ऐसी विशुद्धिता नाहीं होय है । यहां अधकरणका  
 प्रथमसमयसौं लगाय जेते मिथ्यात्वका अर मिश्रमोहनीका द्रव्यकूं सम्यक्त्वप्रकृतिरूप होय संक्रमण  
 करै तावत् अन्तर्मुहूर्तकालपर्यन्त दर्शनमोहनीकी क्षपणाका आरंभ कहिये है तिस आरंभकालके  
 अनंतरवर्ती समयतें लगाय क्षायिकसम्यक्त्वके ग्रहणके प्रथम समयमें निष्ठापक होय है । सो जहां  
 प्रारम्भ क्रिया या कर्मभूमिका मनुष्य वैही निष्ठापक होय तथा सौधर्मादिक कल्प वा कल्पातीत  
 अहंनिद्रनिविषै वा भोगभूमिके मनुष्यतिर्यञ्चनिविषै वा धम्मानाम नरकपृथ्वी विषै भी निष्ठापक  
 होय है । जातैं पूवैं बांधी है आयु जानैं ऐसा कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टि मरकरि च्यारों गतिनिविषै  
 उपजै है । तहां क्षपणाकूं पूर्ण करै है । अब अनंतानुबन्धी क्रोधमानमायालोभ अर मिथ्यात्व  
 सम्यक्त्व मिथ्यात्व सायक् प्रकृति इन तीनकी कैसे क्षपणा करै है । कोऊ मनुष्य वेदकसम्यग्दृष्टि  
 अमंयत वा देशमंयत वा प्रमत्त वा अप्रमत्त इस चार गुणस्थाननिमेंतें कोऊ एक गुणस्थानमें तिष्ठता  
 पूवैं तीनकरणकी विधि करके अनंतानुबन्धी क्रोधमानमायालोभ के उदयावलीमें तिष्ठते निषेकनि  
 कं छांडि अर उदयावली बाध तिष्ठते समस्त निषेकनिकूं विसंयोजना करता अनिवृत्तिकरणके  
 अन्तके समयविषै समस्त अनंतानुबन्धीके द्रव्यकूं द्वादश कषाय अर नव नोकषायरूप परिणमन  
 करै हैं सो अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन है । यहां हू विसंयोजनमें गुणश्रेणी अर स्वितिकांड-  
 यादादिक बहुत विधि हैं । अनंतानुबन्धीका विसंयोजन किये पाछे अन्तर्मुहूर्तकाल विश्रामकरि अन्य  
 क्रिया नाहीं करि वा पाछे बहुत तीन करणकरि अनिवृत्तिकरणका कालविषै मिथ्यात्व मिश्र  
 सम्यक्त्वमोहनीको क्रमत् नष्ट करै है । सो इन करणनिके सामर्थ्यतें जो जो कर्मनिकी स्थिति  
 मनुष्यागनिका धान होने का विधान है सो लब्धिमारतें जानहु । ऐसे सप्तप्रकृतिनिका नाशकरि  
 क्षायिकसम्यक्त्व होय है । एमें तीनप्रकार सम्यक्त्व होनेका विधान संक्षेपतें वर्णन किया । अब

सम्यग्दृष्टिके अन्य ह अष्ट गुण प्रकट होय हैं तिनकरि आपकै वा अन्यकै सम्पत्त्य जाना जाय है । संवेग १, निर्वेद २, आत्मनिन्दा ३, गर्हा ४, उपराम ५, भक्ति ६, वात्सल्य ७, अनुकंपा ८ ये आठ जाकै होय उसके सायग्दर्शन होय है । संवेग कहिए धर्म में अनुराग ताके होय ही, जातैं संसारी मिथ्यादृष्टिका अनुराग तो देहसूँ लागि रखा है जो मेरा देह उज्ज्वल रहै बलवान् रहै पुष्ट रहै, तथा देहसूँ ममता करि अभच्य भक्षणकरि आनन्द मानै है । अन्यायके विषै शृंगारादिक करि देहहीकूँ भूषित करै है पारीनिका सम्बन्धमें आनन्द मानै है तथा विकथामें राग करै है तथा स्त्रीपुत्रधनसम्पदामें नगर देशराज्यपेश्वर्यतैं अनुराग करै है । सम्यग्दृष्टिके देहादिकनिमें आत्मबुद्धि नाहीं, तातैं दर्शलक्षणधर्ममें अनुराग करै है अर सम्यग्दृष्टिके अनुराग तो धर्मात्मा पुरुषनिमें धर्मकी कथामें धर्मके आयतनमें होय है । ऐसा संवेगगुण है सो सम्यग्दृष्टिके होय ही है ॥१॥ बहुरि सम्यग्दृष्टिके पंचपरिवर्तनरूप संसारतैं अर कृतघ्न देहतैं अर दुर्गतिके ले जाने वाले भोगनितैं विरक्तमना नियमतैं होय ही सो दूजा गुण निर्वेद प्रगट होय है ॥२॥ बहुरि अपना प्रमादीपना करि तथा असंयमभावकरि तथा सांसारिक पापमें प्रवृत्तिकरि निरन्तर परिणाम में निवृपनाका चिंतवन जो ऐसा दुर्लभ मनुष्यबनाकी एक क्षण भी धर्मका आश्रय बिना जाय है सो बड़ा अनर्थ है । ऐसैं अपने परिणामनिकरि अपना दोष सहित प्रवर्तनकूँ विचारि अपने मनमें अपनी निन्दा करना सो तीजा आत्मनिदानाम गुण है ॥३॥ बहुरि जो अपने गुरु होंय तथा बहुज्ञानी साधर्मी होंय तिनके निरुद विनय-सहित अपने निय दोषादिक प्रकट करना सो चौथा सम्यग्दृष्टिका गर्हानाम गुण है ॥४॥ बहुरि जो क्रोधमानमायालोभकी सम्यग्दृष्टिके मन्दता होय ही है । राग द्वेष काम उन्माद वैरादिक सम्यग्दृष्टिके अपना घातक जानि मन्द होय ही है सो ही उपशमगुण है ॥५॥ बहुरि सम्यग्दृष्टिके पंचपरमेष्ठी में तथा जिनवाणीमें जिनेन्द्रके प्रति-विषमें दशलक्षण धर्ममें धर्मके धारक धर्मात्मानिमें तपस्वीनिमें उनके गुण स्मरणकरि गुणनिमें अनुराग करना सो सम्यग्दृष्टिके भक्तिनाम छठा गुण होय ही है ॥६॥ बहुरि सम्यग्दृष्टिके धर्मात्मामें प्रीति होय ही, जैसेँ दरिद्रीनिके धनकूँ देखि प्रीति आनन्द प्राप्त होय, तैसेँ धर्मात्माकूँ सम्यग्दृष्टिकूँ वा सम्यग्ज्ञानीके धर्मके व्याख्यानकूँ श्रवण करि वा देखने करि सम्यग्दृष्टिकै अत्यन्त आनन्द प्रगट होना सो वात्सल्यनामा सप्तमगुण है ॥७॥ बहुरि सम्यग्दृष्टिकै पटूकाय के जीवनिकी दया प्रगट होय ही है, परजीवनिके दुःख देख अपना परिणाम कंपायमान होजाय, जातैं आपमें दुःख आया तथा ताके दुःख भेटजाने प्रति परिणामका होना सो सम्यग्दृष्टिके अनुकंपा-गुण प्रगट होय है ॥८॥ ऐसै और हू अपरिमाण गुण सम्यग्दृष्टिकै स्वयमेव प्रगट होय हैं जातैं जिनके सत्यार्थ श्रद्धान ज्ञान प्रगट होगयां तिनके समस्त बाह्य आभ्यन्तर गुण ही होय परिणामैं है ।

अब जो जीव सम्यग्दर्शनसंयुक्त है ताहीकै महान्पना है ऐसा कहनेकूँ सूत्र कहै हैं :—

सम्यग्दर्शनसंपन्नमपि मातंगदेहजम् ॥

देवा देवं विदुर्भस्मगूढांगारान्तरौजसम् ॥२८॥

अर्थ—सम्यग्दर्शनकरि संयुक्त चांडालके देहतेँ उपज्या जो चांडाल ताहि हू देवा कहिये गणधरदेव जे हू ते देव कहै हैं। जैसेँ भस्मकरि देवा जो अङ्गार ताकै आभ्यन्तर तेज है।

भाषार्थ—सम्यग्दर्शनकरि सहित चांडाल है ताकूँ हू भगवान गणधरदेव हैं ते देव कहै हैं। जातैं यो हाड मांसमय देह चांडालतैं उपज्या तातैं देह चांडाल है। परन्तु सम्यग्दर्शन जाकै हुआ ऐसा आत्मा तो दिव्य गुणनिकरि दिवै है तातैं मनुष्य शरीरकूँ भी उत्तमगुणका प्रभावकरि देव कहा है। जैसेँ भस्मकरि आच्छादित अङ्गार आभ्यन्तर भकभकाट करता तेजकूँ धारण करै है तैसेँ सम्यग्दृष्टि हू मलीन देहके आभ्यन्तर गुणनिकरि दिवै है तातैं स्वाभी श्री ममन्तभद्रजी कहै हैं, जो सम्यग्दृष्टिकी महिमा हमारी रुचिकरि नाहीं कहै हैं, भगवानका द्वादशांग-रूप आगममें गणधरदेव सम्यग्दृष्टि चांडाल कूँ हू देव कहै हैं, जातैं यह देह तो महामलीन मलमूत्रका भरया हाडमांसचाममय जाके नवद्वारनितैं निरन्तर दुर्गन्ध मल भरै हैं ऐसा अपवित्र मलीन हू साधुनिका देह है सो रत्नत्रयका प्रभाव करि इन्द्रादिक देवनिके दर्शन करने योग्य, स्तवन करने योग्य, नमस्कार करने योग्य होय है। गुण विना चामडाका कफमूलमूत्रका भरया मलीनकूँ कौन वन्दना करै, पूजै, अवलोकन करै। यातैं सम्यग्दर्शन होते वन्दने पूजने योग्य है।

अथ धर्म अधर्मका फल प्रगट करता सूत्र कहै हैं,—

श्वापि देवोऽपि देवः श्वा जायते धर्मकिल्बिषात् ।

कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्माच्छरीरिणाम् ॥२९॥

अर्थ—धर्मके प्रभावतैं श्वान जो कूकरो सोहू स्वर्गलोकमें देव जाय उपजै है। अर पाप के प्रभावतैं स्वर्गलोकका महान् ऋद्धिधारी देव हू पृथ्वी मे कूकरो आय उपजै है। अर प्राणीनिकै धर्म का प्रभावतैं और हू वचनद्वारै नाहीं कही जाय पेसी अहमिन्द्रनिका सम्पदा तथा अविनाशी मुद्रियम्पदा प्राप्त होय है।

भाषार्थ—मिथ्यात्वका प्रभावतैं दूजा स्वर्गपर्यन्तका देव एकेन्द्रियनिमें आय उपजै है यन्नानन्तकाल त्रमन्यावगनिमें परिश्रमण करता फिरै है। अर वारमा स्वर्गपर्यन्तका देव मिथ्यात्व के प्रभावतैं पञ्चेन्द्री निर्यञ्चनिमें आय प्राप्त होय है। तातैं मिथ्यात्वभाव महा अनर्थकारी जानि सम्यक्दर्शनिमें वन्न करना योग्य है।

अथ इन्द्रादिक सम्यग्दृष्टिके वन्दने योग्य नाहीं है ऐसा दिखावता सूत्र कहै हैं,—

भयाशास्नेहलोभाच्च कुदेवागमलिगिनाम् ।

प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः ॥३०॥

अर्थ—शुद्ध सम्यग्दृष्टि हैं तैं भयतैं, आशातैं, स्नेहतैं, लोभतैं कुदेवनिक्कं, कुआगमकं, कुलिङ्गीनिक्कं प्रणाम नाहीं करै, विनय नाहीं करै । जे काम, क्रोध, भय, इच्छा, लुधा, तृषा, राग, द्वेष, मद, मोह, निद्रा, हर्ष, विषाद, जन्म मरणादि दोषनिकरि संयुक्त हैं ते समस्त कुदेव हैं । तिनकी व्यक्ति जातमें पंचमकालके प्रभाततैं प्रगट बहुत है । एक सर्वज्ञ वीतराग विना समस्त कुदेवहैं । अर हिंसाके पोषक रागी द्वेषी मोहीनिकरि प्रकारया पूर्वापरदोषसहित विषय कषाय आरम्भक पुष्ट करनेवाले, प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणकरि दूषित ऐसे शास्त्र कुआगम हैं अर जो हिंसादि पञ्चपापनिका त्यागी, आरम्भ-परिग्रहरहित, देहके सम्बन्धमें निर्ममत्व, उत्तमत्वमादि दश धर्मके धारी दोष टारि अजाचीक वृत्तिसहित दीनतारहित निर्जन स्थानमें बसतो, ध्यान अध्ययनमें निरन्तर प्रवृत्त तो पांच इन्द्रियनिके विषयांका त्यागी, षट्कायका जीवांका विराधना का त्यागी एक बार मौनतैं परका दिया रस नीरस आपके निमित्त नाहीं किया ऐसा भोजन रत्नत्रयका सहकारी कायकी रक्षा के निमित्त ग्रहण करता ऐसा नग्न मुनिरात्रका लिंग भेष तथा एक वस्त्रका धारक तथा कौपीनधारक चुल्लक का लिंग (भेष) तथा तीजा अर्जिकाका लिंग (भेष) एक वस्त्र का धारक, इन तीन लिंग विना जो अन्य अनेक लिंग धारण करै हैं ते समस्त कुलिङ्गी हैं । एक मुनिका लिंग तथा कौपीनधारक चुल्लक तथा एक वस्त्रकी धारणहारी अर्जिका इन तीन भेष सिवाय समस्त भेषीनिक्कं सम्यग्दृष्टि विनय नमस्कार नाहीं करै है । ऐसे कुदेव कुशास्त्र कुलिङ्गीनिक्कं भय, आशा, स्नेह, लोभतैं सम्यग्दृष्टि नमस्कार नाहीं करै, विनय नाहीं करै ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि है सो कुदेव कूं भयतैं नमस्कार नाहीं करै । जो यो देव है । याहूँ राजादिक हजारों मनुष्य पूजै हैं जो याहूँ वन्दना नाहीं करूंगा तो यो देव रोषकरि मेरा विगाड़ करैगा, सम्पदा हरैगा । तथा स्त्री-पुत्रादिकको घात करैगा । तथा कदाचित् याका द्वेषतैं मेरे रोग विद्यमान हैं, दुःख विद्यमान है तथा द्वेषकरि अब मेरे हानि करैगा, रोग करैगा तथा इन क्षेत्रमें समस्त लोक पूजै हैं तथा हमारे कुलमें बड़ा पिता तथा पिताका पिता, माता, भाई, बन्धु पूजते आवैं हैं, अब मैं इसकी वन्दना पूजा उठा दूंगा अर कदाचित् मेरा घर अनेक पुत्र-पौत्रादिक लक्ष्मीकरि भरा है जो किसीका मरण वा धनहानि तथा रोगादिक होजाय तो मोहूँ दूषण आवैं, अर मेरे बड़ा दुःख खड़ा हो जाय तो बड़ा अनर्थ है । अर सारा लोक हूँ ऐसै कहै है यो देवता प्रागैं नाहीं माननेवालेनिक्कं अन्धा कर दिया था । याकी पूजा बोलारी सत्कारतैं अनेकनिके रोग दूरि करि दिये । तथा यो जगन्नाथस्वामी है याकी पुरीमें नाई, धोत्री, मीणा, खटीक, चमार, परस्पर शामिल होय ओठि (उच्छिष्ट) भक्षण करै हैं याकी अग्नि करै ताकै कोठ निकाल देहै ऐसा भय दिखावैं, तथा अन्धेनिक्कं आँखें दी हैं, सम्पदा दी है याका निन्दाकरि सम्पदा भ्रष्ट होगई थी । तथा प्रागैं यह शनिश्चर देव रोषकरि विक्रमादित्य राजानै चौरंग्यों करा दियो छो, ऐसैं अनेक देवी, भैरों, क्षेत्रपाल, हनुमान, गणेश, दुर्गा चण्डी, सूर्यादिक ग्रह, योगिनी, जज्ञ इत्यादिकनिका भय मानि सम्य-

गृष्टि इनकूँ नमस्कार विनयादिक नहीं करै । बहुरि कुछ पुत्र सम्पदा आजीविका राज्य धन ये देवता देगा ऐसी आशा करि हू वन्दना नहीं करै । तथा हमारे माहिं इस देवताका स्नेह है हमारे तो दुःख आजाय यदि हमारा रत्नक तो देवता ही है ऐसा स्नेहतै हू वन्दना नहीं करै । बहुरि लोभतै हू कुदेवनिका सत्कार वंदना नहीं करै जो मैं तो जिस दिनतै आराधना यो देवताकी करूं हू तिस दिनतै मेरे लाभ है, उच्चता है, ऐसै लाभका कारण, संकल्पकरि कुदेवनिका आराधना नहीं करै । तथा राजाका भयतै, पिता माताका भयतै, कुटुम्बका भयतै, तथा लोकलाजतै कुदेवनिकूँ वंदना नहीं करै । ऐसै ही जो शास्त्र रागद्वेष हिंसाका पुष्ट करनेवाला तथा शृंगारकथा, युद्धकथा स्त्री कथादिक धिक्कथाका प्ररूपक एकांतरूप वस्तुकूँ कहै, यज्ञ, होम, मन्त्र, यंत्र तंत्र, वर्गीकरण मारण उच्चाटनादिक तथा महाहिंसाके आरम्भके कहनेवाले, तथा कुदेव कुधर्मकी आराधना करनेवाले, संसारमें उल्लावनेवाले शास्त्रनिकूँ सम्यग्दृष्टि वंदना सत्कार नहीं करै है । तिसके कथनकूँ रचनाकूँ प्रशंसा नहीं करै, संसारमें उल्लावनेवाला शास्त्रका व्याख्यानादिक प्रकाश नहीं करै । भय अर आशा स्नेह लोभतै खोटा आगमका प्रकाश नहीं करै । जो मैं मेरा बाप, दादा आदिक करि मेरे इन शास्त्रनिकरि बहुत द्रव्यका उपार्जन हुआ है तथा इस शास्त्रतै मैं हू बहुत धन उपार्जन करूं तथा मेरी प्रतिष्ठा बधाऊँ तथा जगतके मान्य होजाऊँ तथ सभके ऊपरि होय राजादिकनै अपने सेवक करूं ऐसा लोभतै कुशास्त्रनिका सेवन सम्यग्दृष्टि नहीं करै । तथा जो शास्त्रसेवन नहीं करूं गातो मेरी आजीविका नष्ट होजायगी तथा समस्त लोकनिमें मेरी मान्यता, पूज्यता घट जायगी ऐसा भयतै कुशास्त्रसेवन नहीं करै । तथा इस शास्त्रके ब्रॉचने पढनेमें बड़ा रसहै, मन रंजायमान होजाय है, बड़ी रसीली कथा है तथा लोकनिनै रंजायमान करनेवाला है ऐसा स्नेह करिहु कुशास्त्रनिका आराधन सम्यग्दृष्टि नाहा करै है । बहुरि कोऊ आशा करिके हू सम्यग्दृष्टि कुशास्त्रनिका सेवन नहीं करै है जो इसतै देवता ब्रश हो जायगा वा विद्या सिद्ध हो जायगी इत्यादिक इय लोकसम्बन्धी आशा करके हू कुशास्त्रनिकी प्रशंसा वंदना नहीं करै है । बहुरि सम्यग्दृष्टि है सो कुलिंगीनेकूँ हू भय, आशा, स्नेह, लोभतै प्रणाम वन्दना प्रशंसा नाही करै है । जो यो तपस्वी है वा विद्यावान है, तथा राजमान्य है, लोकमान्य है तथा इनमें दृष्टि, मुष्टि, मारण, उच्चाटनादि अनेक शक्ति है मेरा विगाड मत कदाचित् करघो ऐसा भयतै प्रणामादि नहीं करै । तथा यो करामाती है वा विद्यावान है यातै कोऊ विद्या सीखनी है तथा यो राज्यमान्य है यातै हमारा कार्य लेना है ऐसा लोभतै हू पाखंडीनिकूँ वन्दना नमस्कार सम्यग्दृष्टि नहीं करै । तथा यो वेपभारी मोकूँ रसायण देनी करी है तथा एक औषधि याषूँ वाकफ करनी वा सीखनी है तथा व्याकरणविद्या तथा न्याय तथा ज्योतिषविद्या मोकूँ सीखनी है । यातै याका सेवन है इत्यादिक आशा लोभ करि पाखंडी पिपय आरम्भा परिग्रहधारीकूँ सम्यग्दृष्टि नमस्कार नहीं करै, ताकी प्रशंसा नहीं करै, ताकूँ मन्यवादी नाही करै, धर्मरूप जानै नाहीं ।

अब यहां कौऊ कहै जो कौऊ बलवान जवरीतैं नमावै तथा आप नाहीं नमें तो बड़ा उपद्रव करै तदि कहा करै ? ताका उत्तर कहै हैं —

जो परकी जवरीतैं नमस्कार किये श्रद्धान नाहीं विगड़ै है जातैं देवतादिकनिके भयतैं तथा आशातैं, स्नेहतैं, लोभतैं जो नमस्कार करै तदि श्रद्धान विगड़ै । अर जवरीतैं दुष्ट स्लेच्छादिक व्रती मुखमें अभक्ष्य देवै तो व्रत नाहीं विगड़ैगा । तथा अन्यमतीनके ग्रन्थनिमें तथा वाक्यनिमें कुदेवनिकूं नमस्कार लिखा है तथा कुदेवनिकी स्तुति लिखी है तो उनके वांचनें मात्रतैं तो कुदेवनिकूं नमस्कार स्तुति नाहीं होजायगी, सम्यग्दर्शन तो आत्माका भाव है अपने भावनितैं जो कुदेवादिकनिमें वंदना योग्य अर आपकूं वंदनेवाला मानि नमस्कार स्तवन वन्दना करै कुछ इततैं अपना भला होना जानै तिसके सम्यक्त्वका अभाव है । बहुरि इस कालमें स्लेच्छ मुसलमान राजा भए जव वे कुछ पूछैं अर आप कुछ उनसूं कदा चाहै तदि हाथ जोड़ ही अर्ज करी जाय इसमें अपना श्रद्धान ज्ञान नाहीं नष्ट होय है । चारित्रधारी त्यागी साधुजन होय सो हाथ हू नाहीं जोड़ै, अर अपनी देह खड खंड करै तोह धर्मकार्यविना वचन नाहीं कहै, अर त्यागीनितैं दुष्ट मनुष्य स्लेच्छ राजादिक महापापी हू प्रणाम नहीं चाहै हैं । तातैं संयमी तो राजाकूं, चक्रीकूं, माताकूं, पिताकूं, विद्यागुरुकूं कदाचित् ही नमस्कार नाहीं करै है ये द्विजन्मा हैं । अर अव्रतसम्यग्दृष्टि हू अपना वशतैं कुदेव कुगुरु, कुधर्मकूं नमस्कार नाहीं करै । अन्य व्यवहारीनिकूं यथायोग्य विनय सत्कारादि करै है । अर परकी जवरीतैं देश त्यागै आजीविका त्यागै धन त्याग जाय परन्तु कुधर्मका सेवन कुदेवादिक की आराधना नाहीं करै है ।

अब रत्नत्रयमें हू सम्यग्दर्शनके श्रेष्ठपना दिखावनेकूं सूत्र कहै हैं—

दर्शनं ज्ञानचारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते ।

दर्शनं कर्णधारं तन्मोक्षमार्गं प्रचक्षते ॥३१॥

अर्थ—ज्ञान और चारित्रतैं सम्यग्दर्शन जो है ताहि अतिशय करकैं साधिमान कहिये सर्वोत्कृष्ट है ऐसा जानि सेवन करै है । तिस ही कारणतैं मोक्षके मार्गविषै सम्यग्दर्शनकूं कर्णधार कहिए है । जैसें समुद्रके विषै जहाजकूं खेवटिया पार करै है तैसें अमार ऐसा संसार समुद्रविषै रत्नत्रयरूप जहाजको पार करनेमें सम्यग्दर्शन खेवटिया है ।

भावार्थ—रत्नत्रयमें सम्यग्दर्शन ही अति उत्कृष्ट है ।

अब सम्यग्दर्शनके उत्कृष्टपनाका हेतु कहनेकूं सूत्र कहै हैं—

विद्यावृत्तस्य संभूतिस्थितिवृद्धिफलोदयाः ।

न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव ॥३२॥

अर्थ—विद्या कहिए ज्ञान अर वृत्त कहिए चारित्र इनकी उत्पत्ति अर स्थिति अर वृद्धि अर



फलका उदय यह सम्यक्त्व नहीं होते संतो, नहीं होय है । जैसे बीजका अभाव हाँतें वृत्तकी उत्पत्ति स्थिति वृद्धि फलका उदय नहीं होय है ।

भावार्थ—बीज ही नहीं तदि वृत्त कैसेँ उपजैगा अर वृत्त ही नहीं उपज्या तदि स्थिति कौनकी होय, वृद्धि कौन की होय, अर फलका उदय कैसेँ होय ? जातैं सम्यग्दर्शन नहीं होय तदि ज्ञान चारित्र हू नहीं होय, सम्यक्त्व विना ज्ञान है सो कुज्ञान है अर चारित्र है सो कुचारित्र है । जब सम्यक्त्व विना ज्ञान चारित्रकी उत्पत्ति ही नहीं तदि स्थिति कहाँतें होय, अर ज्ञान चारित्रकी वृद्धि कैसेँ होय, अर ज्ञान चारित्रका फल जो सर्वज्ञ परमात्मारूप होना कैसेँ होय ? तातैं सम्यक्त्व विना सत्यश्रद्धान ज्ञान चारित्र कदाचित ही नहीं होय । सो ही भगवान् गुणभद्राचार्य महाराजनेँ आत्मानुशासनमें कछा है—

शमशोधवृत्ततपसां पाषाणस्ये व गौरवं पुंमः ।

पूज्यं महामणेरिव तदेव सम्यक्त्वसंयुक्तम् ॥ १५ ॥

अर्थ—शम कहिये कषायनिकी मंदता, अर बोध कहिये अनेक शास्त्रनिका प्रबल ज्ञान होना, अर वृत्त कहिये त्रयोदश प्रकार, दुर्द्धर चारित्रका पालना, अर कायरनितैं नहीं वणि सकै ऐसा वारा प्रकारका घोर तप ये चारों ही पुरुषके बड़े भारी हैं परन्तु पुरुषके इनका बड़ा भारीपणा पाषाणका भारीपणाके तुल्य है अर एही शमभाव ज्ञान-चारित्र तप जो सम्यक्त्व संयुक्त होय तो महामणि चिन्तामणि ज्यों पूज्य हो जाय ।

भावार्थ—जगतमें अनेक पाषाण हू हैं अर मणिहू हैं । मणि भी पाषाण ही है अर भाभुडा पत्थर हू पाषाण ही है परन्तु कांतिकरि बड़ा भेद है, पाषाण-पाषाण समान नहीं । जो भाभुडा पत्थर तीन मण हू ले जाय तो एक पैसा मिलै अर मणि जो पद्मरागमणि तथा वज्रमणि रत्यां मासा हू हाथ लागि जाय तो लक्ष्यां धन उपजै है । अपने पुत्र पौत्रादिकताईका दरिद्र नष्ट हो जाय है । तैसेँ सम्यक्त्वमहित अल्प हू शमभाव अल्प हू ज्ञान, अल्प हू चारित्र अल्प हू तप भाव इस जीवकू कल्पवर्मा इन्द्रादिकनिमें उपजाय जन्ममरणके दुःखरहित परमात्मा कर देहै । अर सम्यक्त्व विना बहुत हू शमभाव तथा बहुत हू ग्यारा अंगर्यन्त ज्ञानका अभ्यास, बहुत हू उज्ज्वल चारित्र, वीर-रूप हू तप किया हुआ मो कषायनिकी मंदता होय तो भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषीनिमें तथा अन्वच्छद्विधारी कल्पवर्मासीनिमें उपजाय फिर चतुर्गति संसारमें भ्रमण करावै है । तातैं सम्यक्त्व-महित ही शम बोध चारित्र तप धारण जीवका कल्याण है ।

अब सोऊ आशंका करै जो सम्यक्त्व नहीं होय अर चारित्र तप ग्रहण करै ऐसा मुनि है नो आग्निभक्तिकमें लान ऐसा गृहस्थतै तो उत्तम होयगा ? तिसकू उत्तर करता सूत्र कहै है—

ग्रहस्थो भोजमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् ।

अनगारो ग्रही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः ॥३३॥

अर्थ—जाके दर्शनमोह नाही ऐसा गृहस्थ है सो मोक्षमार्गमें तिष्ठै है अर मोहवान् ऐसा अनगार कहिये गृहरहित मुनि सो मोक्षमार्गी नाही है । याहीतैं मोहवान् जो मुनि तातैं दर्शनमोह-रहित गृहस्थ है सो श्रेयान् कहिये सर्वोत्कृष्ट है ।

भावार्थ—जाकै मोह जो मिथ्यात्व सो नाही ऐसा अव्रतसम्यग्दृष्टि हू मोक्षमार्गी है । जाकै सात आठ भव देव मनुष्यनिके ग्रहण होय करि नियमतैं मोक्ष हो जायगा । अर जाकै मिथ्यात्व है अर मुनिके व्रतधारी साधु भया तो हू मरि करि भवनत्रिकादिकमें उपजि संसारहीमें परिभ्रमण करैगा सो ही कुन्दकुन्दस्वामी दर्शनपाहुडमें कहा है—

दंसणभट्टा भट्टा दंसणभट्टस्त णत्थि णिव्वाणं ।  
 सिज्झंति चरियभट्टा दंसणभट्टा ण सिज्झंति ॥३॥  
 सम्मत्तरयणभट्टा जाणंता बहुविहाइं सत्थाइं ।  
 आराहणाविरहिया भमंति तत्थेव तत्थेव ॥४॥  
 सम्मत्तविरहिया णं सुट्ठुवि उग्गं तवं चरंता णं ।  
 ण लहंति वोहिलाहं अवि वाससहस्सकोडीहिं ॥५॥  
 जे दंसणोसु भट्टा णाणे भट्टा चरित्तभट्टा य ।  
 एदे भट्टविभट्टा सेसंपि जणं विणासंति ॥८॥  
 जह मूलम्मि विण्णट्ठे दुमस्स परिवार णत्थि परिवड्ढी ।  
 तंह जिणदंसणभट्टा मूलविण्णट्टा ण सिज्झंति ॥१०॥  
 जे दंसणोसु भट्टा पाए ण पडंति दंसणधराणं ।  
 ते होति लल्लमूआ वोही पुण दुल्लहा तेसिं ॥१२॥  
 जे वि पडंति य तेसिं जाणंता लज्जगारवभएण ।  
 तेसिं पि णत्थि वोही पावं अणुमोअमाणाणं ॥१३॥  
 जिणवयणमोसहमिणं विसयसुहविरेयणं अमियभूदं ।  
 जरमरणवाहिहरणं खयकरणं सब्बदुक्खाणं ॥१७॥  
 एकं जिणस्स रूवं वीयं उक्किट्ठसावयाणं तु ।  
 अवरट्ठियाण तइयं चउत्थं पुण लिगदंसणं णत्थि ॥१८॥  
 जं सकइ तं कीरइ तं च ण सकइ तं च सदहरां ।  
 केवल्लिजिणेहिं भणियं सदहमाणस्स सम्मत्तं ॥२२॥  
 ण वि देहो वंदिज्जइ ण वि य कुलो ण वि य जाइसंजुत्ती ।  
 को वंदमि गुणहीणो ण हु सवणो णेय सावओ होइ ॥२७॥  
 अर्थ—जो सम्यग्दर्शनकरि अष्ट हैं ते अष्ट हैं, क्योंकि सम्यग्दर्शनतैं अष्ट हैं तिनके अनंत

कालहूमें निर्वाण नहीं होय है । अर जिनके सम्यग्दर्शन नहीं छूटया अर चारित्रतैं भ्रष्ट भए तो तीजे भवमें निर्वाण पाय जाय है । अर सम्यक्त्व छूटि जाय तो अनन्त भवमें हू संसार भ्रमण नहीं छूटै है ॥३॥ जे सम्यक्त्वरत्न करि भ्रष्ट हैं ते बहुत प्रकार शास्त्रनिकूं जानतहू च्यार आराधनारहित भये संसारहीमें भ्रमण करै हैं ॥४॥ जे सम्यक्त्वरत्नकरि रहित हैं ते हजार कोटिवर्ष आर्द्धा तरह उग्रतपकूं आचरण करता हू रत्नत्रयका लाभकूं नहीं पावै हैं ॥५॥ जे सम्यग्दर्शन-रहित हैं ते ज्ञानके विषै हू विपरीतज्ञानी भए भ्रष्ट ही हैं । अर जाका आचरण हू भ्रष्ट है ते तो भ्रष्ट-नितैं हू भ्रष्ट हैं । जे इनकी संगति करै है तिनकूं हू धर्मरहित कर विनाश करै हैं ॥६॥ जैसे जिस वृक्षका मूल कहिये जड़ ताका नाश भया तिमके डालला पत्र पुष्प फलादिक परिवारकी वृद्धि नहीं होय है तैसें सम्यग्दर्शनकरि भ्रष्ट हैं ते मूल भ्रष्ट हैं तिनके ज्ञानचारित्रादिककी कैसे सिद्धि होय ? ॥१०॥ जे सम्यग्दर्शन करि भ्रष्ट हैं अर सम्यग्दर्शनके धारकनिकूं अपने पगनिमें पड़ावनेकूं चाहै हैं ते परलोकमें चरणरहित लूला अर वचनरहित गूंगा होय हैं ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शनतै रहित होय सम्यग्दृष्टीनितैं वन्दना नमस्कार करावै हैं तथा करावा चाहै हैं ते बहुत काल एकेन्द्रिय होय है ॥१२॥ अर जे पुरुष लज्जा करकैं तथा गारब जो अपना बड़ापणा करके भय करकैं मिथ्यादृष्टिनिके चरणनिमें वन्दना करै हैं तिनके हू पाप जो मिथ्यात्व ताका अनुमोदनातै रत्नत्रयकी प्राप्ति दुर्लभ है ॥१३॥ सम्यग्दृष्टिकै यो जिनेन्द्रका वचन ही अमृतरूप औषधि है, अर विषयनिका सुखरूप आमाशयका विरेचन करनेवाला है अर जरा-मरण रूप वेदनाके क्षय करनेका कारण है, अर समस्त संसारके दुःखनिका क्षयका कारण है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टिके ऐसा निश्चय है जो जन्मजराभरणादिक समस्त दुःखरूप रोगकूंदूर करनेवाला अमृतरूप तो जिनेन्द्रका वचन ही है इस बिना इस अनादिकालका विषयनिकी चाह रूप दाहका नाश करनेवाला आमाशयकूं काटि ज्ञान सुखादि अंगनिकूं अमृतवत् पुष्ट करनेवाला अन्य उपाय है ही नहीं ॥१७॥ एक लिङ्ग तो जिनेन्द्रका धारण किया नग्नस्वरूप समस्त वस्त्र शस्त्रादिरहित है, अर दृजा उत्कृष्ट श्रावकका एक कोपीन तथा खण्डवस्त्र सहित है, तीजा आर्यिकाका है, चौथा लिंग ( भेष ) जिनमतमें नहीं, जो है सो जिनधर्मवाह्य है, वन्दने योग्य नहीं ॥१८॥ जिनेन्द्रकी जो आज्ञा है तिसको पालनेका सामर्थ्य होय सो तो आप आचरण करै, अर जाका करनेकी सामर्थ्य नाहीं होय तो ताका श्रद्धान ही करता जीवकै केवली जिन सम्यक्त्व कहा है ॥२२॥ सम्यग्दृष्टिकै रत्नत्रयरहित देह वन्दनीक नाहीं है । जाति संयुक्त कुल हू वन्दने योग्य नाहीं हू जातें सम्यग्दर्शनादिक गुण रहित श्रावक हू वन्दनीक नाहीं अर मुनि हू वन्दनीक नाहीं । रत्नत्रयके प्रभावतैं देह वन्दनीक हो जाय है, कुल जात्यादिक हू वन्दनीक होय हैं ॥२७॥

अब इस जीवका सर्वोत्कृष्ट उपकार करनेवाला अर अपकार करनेवाला कौन है ? सो वन्दनेको सब कहै हैं :—

न सम्यक्त्वसमं किञ्चित्त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि ।

श्रेयोऽश्रे यश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूभृताम् ॥३४॥

अर्थ—इन प्राणीनिके सम्यग्दर्शन समान तीन कालमें अर तीन जगतमें अन्य कोऊ कल्याण है नहीं, अर मिथ्यात्व समान तीन कालमें, तीन जगतमें अन्य कोऊ अकल्याण है नहीं ।

भावार्थ—अनन्तकाल तो व्यतीत हो गया अर वर्तमानकाल एक समय अर अनन्तकाल आगै आसी ऐसे तीन कालमें अर अधो भवनलोक अर असख्यात द्वीप सागरपर्यंत मध्यलोक अर स्वर्गादिक ऊर्ध्वलोक इन तीन लोकमें सम्यक्त्व समान अन्य कोऊ सर्वोत्कृष्ट उपकार करनेवाला जीवनिका है नहीं, हुआ नहीं, होसी नहीं । जो उपकार इस जीवका सम्यक्त्व करै है ऐसा उपकार तीन लोकमें भये ऐसे इन्द्र, अहमिन्द्र, भुवनेन्द्र चक्री, नारायण, बलभद्र, तीर्थाकरादिक समस्त चेतन अर मणि-मन्त्र औषधादिक समस्त अचेतन द्रव्य कोऊ सम्यक्त्व समान उपकार नहीं करै, अर इस जीवका सर्वोत्कृष्ट उपकार जैसा मिथ्यात्व करै है तैसा उपकार करनेवाला तीन लोकमें तीन कालमें कोऊ चेतनद्रव्य अचेतनद्रव्य है नहीं, हुआ नहीं, होसी नहीं । तातें मिथ्यात्वका त्यागहीमें परम यत्न करो । समस्त संसारका दुःखकू मेटनेवाला आत्मकल्याणका परम हृद् एक सम्यक्त्व है तातें इसका उपार्जनमें ही उद्यम करो ।

अब सम्यग्दर्शनका प्रभाव वर्णन करने कू सूत्र कहै है:—

सम्यग्दर्शनशुद्धा नारकतिर्यङ्मनपुंसकस्त्रीत्वानि ।

दुष्कूलविकृताल्पायुर्दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः ॥ ३५ ॥

अर्थ—जो जीव सम्यग्दर्शनकरि शुद्ध हैं ते व्रतरहित हू नारकीपणा, तिर्यचपणा, नपुंसकपणा, स्त्रीपणाकू नहीं प्राप्त होय हैं । अर नीचकुलमें जन्म अर विद्वृत कहिये आंधा, काणा, बहरा टूटा, लूला गूंगा, कूबड़ा, वावन्या, हीनअंग, अधिकअंग मांजरा विटरूप नहीं होय, तथा अल्प-आयुका धारक अर दरिद्रपनाकू नहीं प्राप्त होय है । बहुरि व्रतरहित अत्रत सम्यग्दर्शिकै इकतालीस कर्मप्रकृतिका बन्ध होय नहीं ऐसा नियम है । मिथ्यात्व १ हुँडकसंस्थान २ नपुंसकवेद ३ असृपाटिकसंहनन ४ एकेंद्री ५ स्थावर ६ आताप ७ सूक्ष्म-पना ८ अपर्याप्ति ९ वेद्री १० त्रीन्द्री ११ चतुरिंद्री १२ साधारण १३ नरकगति १४ नरक-गत्यानुपूर्वी १४ नरकआयु १६ ए षोडश प्रकार प्रकृति तो मिथ्यात्व भावतें ही बंधै हैं अर अनन्तानुबन्धीके प्रभावतें बन्धकू प्राप्त होय ऐसी पच्चीस प्रकृति और हैं अनन्तानुबन्धी क्रोध १, मोन २, माया ३ लोभ ४ स्त्यानगुद्धि ५ निद्रानिद्रा ६ प्रचलाप्रचला ७ दुर्भग ८ दुःस्व ९

अनादेय १० न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान ११ स्वातिसंस्थान १२ कुब्जकसंस्थान १३ वामनसंस्थान १४ वज्रनाराचसंहनन १५ नाराचसंहनन १६ अर्द्धनाराचसंहनन १७ कीलितसंहनन १८ अप्रशस्तविहायोगति १९ स्त्रीपना २० नीचगोत्र २१ तिर्यग्गति २२ तिर्यग्गत्यानुपूर्वी २३ तिर्यंचत्रायु २४ उद्योत २५ इसप्रकार इकतालीस कर्मकीप्रकृतिका मिथ्यादृष्टि ही बन्ध करै है अरु सम्यग्दृष्टिकै मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीका अभाव भया तातैं अत्रतसम्यग्दृष्टिके इकतालीस प्रकृतिका नवीन बन्ध नाहीं होय है और जो सम्यक्त्व ग्रहण नाहीं हुआ तदि मिथ्यात्व अवस्था में बन्ध करी जे प्रकृति सम्यक्त्वके प्रभावतैं नष्ट होजाय हैं परन्तु आयु बन्ध किया सो नाहीं छूटै तो हू सम्यक्त्वका ऐसा प्रभाव है जो पूर्वे सप्तमनरककी आयु बांधी होय अरु पाछै सम्यक्त्व हो जाय तो प्रथम नरकही जाय द्वितीयादिकनिमें नाहीं जाय और जो तिर्यंचमें निगोदकी एकेन्द्रियकी आयु बांधी होय तो सम्यक्त्वका प्रभावतैं उत्तम भोगभूमिको पंचेन्द्रिय तिर्यंच ही होय एकेन्द्रियादिक कर्मभूमिको जीव नाहीं होय । और जो पूर्वे लब्धिअपर्याप्त मनुष्यकी आयु बांधी होय तो सम्यक्त्वके प्रभावतैं उत्तम भोगभूमिको मनुष्य होय है अरु व्यन्तरादिकनिमें नीचदेवका आयु बन्ध किया होय तो कल्पवासी महाद्विक देव ही होय है अन्य भवनत्रिक देवनिमें तथा चार देवनिकी स्त्रीनिमें समस्त मनुष्यणी तिर्यंचणीनिमें नाहीं उपजै है ऐसा सम्यक्त्वका प्रभाव है । नीचकुलमें, दरिद्रीनिमें, अल्प-आयुका धारक नाहीं होय है ।

अब सम्यग्दर्शनका प्रभावतैं कैसा मनुष्य होय सो कहनेकूं सूत्र कहै हैं—

ओजस्तेजोविद्यावीर्ययशोवृद्धिविजयविभवसनाथाः ।

महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूताः ॥३६॥

अर्थ— सम्यग्दर्शनकरि पवित्र पुरुष हैं ते मनुष्यनिका तिलक कहिये समस्त मनुष्यनिका मण्डन करनेवाला वा समस्त मनुष्यनि के मस्तक ऊपरि धारण करने योग्य ऐसा मनुष्यनिका तिलक होय है,कैसेक होय हैं ओजः कहिये पराक्रम,अरु तेजः कहिये प्रताप,अरु विद्या कहिये समस्त लोकमें अतिशयरूप ज्ञान अरु अतिशयरूप वीर्य कहिये शक्ति अरु उज्ज्वल यश और वृद्धि कहिये दिनदिन प्रति गुणनिकी अरु सुख की वृद्धि, विजय कहिये समस्त प्रकारकरि जीतनेरूप अरु अतिशयकारी विभव ऐसैं ओज, तेज, विद्या, वीर्य, यश, विजय, विभव इन समस्त गुणनिका म्गामी होय है । वदुरि महानकुलका स्वामी होय है अरु महानधर्म महाअर्थ महाकाम महामोक्षरूप चार पुण्यार्थका स्वामी होय है । सम्यग्दर्शनके धारणतैं ऐसैं अप्रमाणप्रभावके धारक मनुष्य होय हैं—

अब सम्यक्त्वके प्रभावतैं देवनिका विभव प्राप्त होय है ताकूं कहनेकूं सूत्र कहै हैं—

अष्टगुणपुष्टितुष्टा दृष्टिविशिष्टाः प्रकृष्टशोभाजुष्टाः ।

अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः स्वर्गे ॥३७॥

अर्थ—जिनेन्द्रके भक्त ऐसे सम्यग्दृष्टिजे हैं ते देवनिमें अप्सरानिकी सभाविषै चिरकाल पर्यन्त रमै हैं । कैसे भये संते रमै हैं ? अणिमा, महिमा, लधिमा, गरिमा, प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व, वशित्वादि, जो अष्ट गुण तिनकी पुष्टता जो अन्य असंख्यात देवनिमें नाहीं पाईये ऐसी अधिकता करि सतोपित भये तथा सर्व देवनिमें उत्कृष्ट ऐसी कांति तेज यश तिनकर युक्त ऐसे हुए स्वर्ग लोकमें तिष्ठै हैं ।

भावार्थ—अत्रतसम्यग्दृष्टि स्वर्गलोकमें देव होय हैं सो हीणपुत्री नाहीं होय । इन्द्रतुल्य विभव कांति ज्ञान सुख ऐश्वर्यका धारक महर्षिक होय सामानिक वा त्रापस्त्रिशत् वा लोकपालादिकनिमें उपजै हैं अन्य असंख्यात देवनिकै ऐसी अणिमादिक ऋद्धि तथा देहकी कांति आभरण विमान विक्रिया नाहीं होय ऐसा उत्कृष्ट विभय पाय असंख्यातकालपर्यन्त कोट्यां अप्सरानिकी सभामें रमै हैं ।

अब स्वर्गका सागरांपर्यंत इन्द्रियनिमें उपजे सुख भोग मनुष्यलोकमें आय कैसा होय सो कहनेकूँ सूत्र कहै हैं—

नवनिधिसप्तद्वयरत्नाधीशाः सर्वभूमिपतयश्चक्रम् ।

वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः क्षत्रमौलिशेखरचरणाः ॥३८॥

अर्थ—जिनके उज्ज्वल सम्यग्दर्शन है ते स्वर्गलोकमें आयु पूर्ण करकै यहां मनुष्यलोकमें आय अर नवनिधि चौदहरत्ननिका स्वामी समस्त भरतक्षेत्रके बत्तीस हजार देशनिका पति अर बत्तीस हजार मुकुटबन्ध राजानिकै मस्तक ऊपरी मुकुटरूप है चरण जिनका ऐसा चक्रकूँ प्रवर्तन करनेकूँ समर्थ चक्रवर्ती होय है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि स्वर्गमें मनुष्यभवमें आय नव निधि चौदह रत्ननिका स्वामी समस्त राजानिका मस्तक उपरि आज्ञा प्रवर्तन करता षट्खण्ड पृथ्वी का पति अर्थात् चक्रवर्ती होय है ।

अब सम्यक्त्वका प्रभावतैं तीर्थङ्कर होय हैं ऐसा सूत्र कहै हैं—

अमरासुरनरपतिभिर्यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजाः ।

दृष्ट्या सुनिश्चिन्तार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्याः ॥३९॥

अर्थ—जे पुरुष सम्यग्दर्शनकरि सम्यक् निर्णय किये हैं पदार्थ जिनने ते अमरपति असुरपति नरपति अर संयमीनिका पति गणधर तिनकरि बन्दनीक हैं चरणकमल जिनका अर लोकनिके शरणमें उत्कृष्ट ऐसे धर्मचक्रके धारक तीर्थंकर उपजै हैं ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि तीर्थङ्कर होय अनेक जीवनिके सांसार दुःखके छेदन करनेवाला धर्मचक्रकूँ प्रवर्तन करावै है जिनकूँ इन्द्र असुरेन्द्र गणधरादिक नित्य वन्दना करै हैं। जीवनिकूँ परम शरण हैं—

अथ सम्यग्दृष्टिके ही निर्वाण होय है ऐसा सूत्र कहै हैं—

शिवमजरमरुजमक्षयमव्याबाधं विशोकभयशङ्कम् ।

काष्ठागतसुखविद्याविभवं विमलं भजन्ति दर्शनशरणाः॥४०॥

अर्थ—जिनके सम्यग्दर्शन ही शरण है ते पुरुष शिव जो निराकुलता लक्षण मोच ताहि अनुभवै हैं। कैसाक है शिव जामें जरा नाहीं अनन्तान्तकालहूमें आत्मा जहां जीर्ण नाहीं होय है, अर अरुज कहिये जामें रोग पीडा व्याधि नाहीं है अर अक्षय कहिये जामें अनन्त चतुष्टय स्वरूपका नाश नाहीं है। अर जहां कोऊ प्रकार बाधा नाहीं है अर नष्ट हुआ है शोक भय शङ्का जातैं ऐसा शोकभयशंकरहित है। बहुरि परम हृदकूँ प्राप्त भया है सुखका अर ज्ञानका विभव जामें ऐसा है अर द्रव्यकर्म तो ज्ञानावरण दिक अर भावकर्म रागद्वेषादिक अर नोकर्म शरीरादिक इस प्रकार कर्ममलका अभावतैं विमल है ऐसा अद्वितीय स्वरूप मोचाकूँ सम्यग्दृष्टि ही अनुभवै है। ऐसैं सम्यग्त्वका प्रभाव वर्णन किया।

अथ दर्शनाधिकारको समाप्त करता दर्शनकी महिमाकूँ उपसंहार करता सूत्र कहै हैं—

देवेन्द्रचक्रमहिमानममेयमानं, राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरोऽर्चनीयम् ।

धर्मेन्द्रचक्रमधरीकृतसर्वलोकं, लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरूपैति भव्यः ॥४१॥

अर्थ—जिन जो परमात्मा तिसका स्वरूपमें हैं भक्ति कहिये अनुराग जाकैं ऐसा सम्यग्दृष्टि भव्य है सो इम मनुष्यभगतैं चय करि स्वर्गलोकमें अप्रमाण हैं ऋद्धि शक्ति सुख विभवका प्रभाव जामें ऐसा देवेन्द्रतिका सन्तुहनी महिमा पायकरि पाछै पृथिवीमें आय कर बत्तीस हजार राजानिका मस्तककरि पूजनीय ऐसा राजेन्द्र जो चक्रवर्ती ताका चक्रकूँ पाय करके फिर अहमिन्द्र लोकका महिमाकूँ पाय नीचे किया है समस्त लोक जानैं ऐसा भगवान् तीर्थङ्करनिका धर्मचक्र ताहि प्राप्त होय करि निर्वाणकूँ प्राप्त होय हैं। सम्यग्दर्शनका धारी इन अनुक्रमकरि निर्वाणकूँ प्राप्त होय है। ऐसैं दर्शनमोहनीका अभावतैं सत्यार्थ श्रद्धान सत्यार्थ ज्ञान प्रगट होय है। अर अनन्तानुबन्धीके अभावतैं स्वरूपाचरण चारित्र सम्यग्दृष्टिके प्रगट होय है। यद्यपि अपत्याख्यानावरणके उदयतैं देशचारित्रनाहीं भया है अर प्रत्याख्यानावरण का उदयतैं मरुतचारित्र नाहीं प्रगट भया है तो हू सम्यग्दृष्टिके देहादिक परद्रव्य तथा रागद्वेषादिक कर्मजनित परभाव इनमें दृढ़ भेदविज्ञान ऐसा भया है जो अपना ज्ञानदर्शनरूप ज्ञानस्वभाव ही

में आत्मबुद्धि धारणें अर पर्यायमें आत्मबुद्धि स्वप्नमें हू नाहीं होनेसे ऐसा चिंतवन करै है—  
 हे आत्मन् ! तू भगवानका परमात्मका शरणग्रहण करके ज्ञानदृष्टि अवलोकनकर अष्टप्रकारका  
 स्पर्श पंच प्रकारका रस दौषप्रकार गंध पंचप्रकार वर्ण ये तुम्हारा रूप नाहीं है पुद्गलका है, ये  
 क्रोध मान माया लोभ तुम्हारा स्वरूप नाहीं है कर्मका उदयजनित ज्ञानदृष्टि विकार है, तथा हर्ष  
 विषाद मद मोह शोक भय ग्लानि कामादिक कर्मजनित विकार हैं ते तुम्हारे स्वरूपतैं भिन्न हैं।  
 बहुरि नरक तिर्यच मनुष्य देव ये चार गति आत्माका रूप नाहीं कर्मका उदयजनित है विना-  
 शीक है। देव मनुष्यादिक तुम्हारा रूप नाहीं, सम्यग्ज्ञानी के ऐसा चिंतवन होय है जो मैं गोरा  
 नाहीं, मैं श्याम नाहीं, मैं राजा नाहीं, मैं रङ्ग नाहीं, मैं बलवान नाहीं, मैं निर्बल नाहीं, मैं स्वामी  
 नाहीं, मैं सेवक नाहीं, मैं रूपवान नाहीं, मैं क्रूरुप नाहीं, मैं पुण्यवान नाहीं, मैं पापी नाहीं,  
 मैं धनवान नाहीं, मैं निधन नाहीं, मैं ब्राह्मण नाहीं। मैं चात्रिय नाहीं मैं वैश्य नाहीं, मैं शूद्र  
 नाहीं, मैं स्त्री नाहीं, मैं पुरुष नाहीं, मैं नपुंसक नाहीं, मैं स्थूल नाहीं, मैं कृश नाहीं, मैं नीच  
 जाति नाहीं मैं ऊंच जाति नाहीं, मैं कुलवान नाहीं, मैं अकुलीन नाहीं, मैं पंडित नाहीं, मैं मूर्ख-  
 नाहीं, मैं दाता नाहीं, मैं जाचक नाहीं, मैं गुरु नाहीं, मैं शिष्य नाहीं, मैं देह नाहीं, मैं इन्द्रिय  
 नाहीं, मैं मन नाहीं; ये समस्त कर्मका उदयजनित पुद्गलका विकार है। मेरा स्वरूप तो ज्ञाता  
 दृष्टा है ये रूप आत्मा का नाहीं पुद्गलका है। मुनिपना चुल्लकपना हू पुद्गलका भेष है। ये  
 लोक हमारा नाहीं, यो देश यो ग्राम यो नगर समस्त परद्रव्य हैं। कर्म उपजाय दिया कौन्स  
 चेत्रमें, अपना संकल्प करूं, सम्यग्दृष्टिके ऐसा दृढ़ विचार होय है। अरमिथ्यादृष्टि परकृत पर्या-  
 यमें आपा मानै है। मिथ्यादृष्टिका आपा जातिमें कुलमें देहमें धनमें राज्यमें ऐश्वर्यमें महल मकान  
 नगर कुटुम्बनिमें है। याकी लार हमारी घटी, हमारी बड़ी, हमारा सर्वस्व पूरा हुआ, मैं नीचा हुआ,  
 मैं ऊंचा हुआ, मैं मरा, मैं जिया, हमारा तिरस्कार हुआ, हमारा सर्वस्व गया इत्यादिक परवस्तुमें  
 अपना संकल्प करि महा आत्त ध्यान रौद्रध्यान करि दुर्गतिको पाय संसार परिभ्रमण करै है।  
 बहुरि मिथ्यादृष्टि जीव किंचित् जिनधर्म में अधिकार पाय अर नवीन नवीन अपना परिणामते  
 युक्ति बनाय लोकनिकै भ्रम उपजाय आप पांच आदम्यांमें महान् ज्ञानीपनाका अमिमानकरि सब  
 विरुद्ध अनेक कथनी करै है। कृतघ्न भया जिनसत्रनिकी हू निंदा करै है। बहुज्ञानीनिकी निंदा  
 करै है। दुष्ट अमिप्रायी पांच आदम्यांमें मान्यता वा पक्षापात ग्रहण करि निजाधार रहित हुआ  
 हठग्राही आप थापी एकांती, स्याद्वादरूप भगवानकी वाणीतैं परान्मुख हुआ कलह विसंवाद  
 परकी निन्दाहीकूँ धर्म मानता तिष्ठै है। तथा केतेक मिथ्यादृष्टि किंचित् मात्र बाह्य त्याग ग्रहण  
 करके तथा स्नानकरि भोजन करते तथा अन्य देवादिकी बंदनाका त्यागकूँ कृतकृत्य मानता  
 जगतके जीवनिकी निंदा करि आपकूँ प्रशंसा योग्य मानै है, अर अन्यायतैं आजीविका अर हिंसा-  
 दिकके आरंभमें निपुण होय अन्य धर्मीनिके छिद्र हेरते फिरै है। तथा निर्दोष पुरुषनिके दोष



विन्यात करि मदमें छके फिरै है, आरकूँ उंचा मानै है, अन्यकूँ अज्ञानी अष्ट मानै है । पापिष्ठ आपकी प्रशंसा कराय फूलो फूलो फिरै है अपना स्वरूपकी शुद्धताकूँ नाही देखता नाना चेष्टा करै है भोले जीवनिकूँ मिथ्या उपदेश देय एकांतके हठकूँ ग्रहण करावै है । अर कुगुरु कुदेव-निकूँ नमस्कारके त्याग करनेतैं अर अन्य देवनिक्की निंदा करके अर सभामें बैठ मिथ्या भेष-धार्मिकी निंदा करके आपही कूँ सम्यग्दृष्टि मानै है । तथा लोग हमकूँ दृढ़ श्रद्धानी धर्मात्मा मानेगे ऐसा अनंतानुबन्धीमानके उदयतैं परकी निन्दा करनेतैं ही आपकूँ उच्च जानतैं जगतकूँ अधर्मी मानै है । जातैं कुदेव कुगुरुकूँ नमस्कार तो समस्त तिर्यंच भी नाहीं करै हैं । अर नारकी नाहीं करै हैं । भोगभूमि के कुभोग भूमि के हू नमस्कार नाहीं करै हैं । अर समस्त देवता हू नाहीं पूजै हैं । नमस्कार पूजा नाहीं करनेतैं ही सम्यग्दृष्टि होय तो समस्त नारकी मनुष्य निर्यंचादिक सम्यग्दृष्टि होय जांय सो है नाहीं । बहुरि जगतके समस्त मिथ्यादृष्टि मनुष्य देवादिकनिक्की निंदा करनेतैं ही सम्यक्त्व नाहीं होयगा । जगतकी निन्दा करनेवाला अर पार्श्वनिंत बैर करनेवाला तो कुगतिहीका पात्र होयगा । जातैं मिथ्याभाव तो जीवनिके अनादिका है सम्यग्दृष्टि तो इनकी हू करुणा करै अर समस्तमें साम्यभाव ही करै है । यातैं सम्यग्दर्शन तो प्राण-परका मन्व्य श्रद्धा ज्ञान विनयसहित स्याद्वादरूप परमात्मके सेवनतैंही होयगा ।

इति श्रीम्यामीसमन्तभद्राचार्यविरचित रत्नकरण्डश्रावकाचारके सूत्रनिकी

देशभाषामयत्रचनिवृत्तिपै सम्यग्दर्शनका स्वरूपवर्णन

नामवाला प्रथम अधिकार समाप्त भया ॥१॥

अव सम्यग्ज्ञानरूप धर्मकूँ प्रकट करनेकूँ सूत्र कहै हैं—  
(आर्या छन्द । )

अन्यूनमनतिरिवतं याथातथ्यं विना च विपरीतात्  
निस्सन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानभागमिनः ॥४२॥

अर्थ—आगमके जाननेवाले श्री गणधर देव तथा श्रुतकेवली हैं ते ताकूँ ज्ञान कहै हैं जो वस्तुका स्वरूपकूँ परिपूर्ण जानै, न्यून नाहीं जानै, अर वस्तुका स्वरूप जैसा है तातैं अधिक नाहीं जानै, अर जैसा वस्तुका सत्यार्थस्वरूप है तैसाही जानै अर विपरीतपनाकरि रहित जानै अर संशयरहित जानै ताहि भगवान् ज्ञान कहै हैं । इहां सम्यग्ज्ञानका स्वरूप कइया है, सो जो वस्तुका स्वरूपकूँ न्यून जानै सो मिथ्याज्ञान है -जैवैं आत्माका स्वभाव तो अनन्त ज्ञान स्वरूप है अर आत्माकूँ इन्द्रियजनित मतिज्ञानमात्र ही जानै सो न्यूनस्वरूप जानैतैं मिथ्याज्ञान भया । अर वस्तुके स्वरूपकूँ अधिक जानै सो हू मिथ्याज्ञान है । जैसैं आत्माका स्वभाव तो ज्ञान दर्शन सुख सत्ता अमूर्तीक है ताकूँ ज्ञान दर्शन सुख सत्ता अमूर्त भी जानना अर पुद्गलके गुण रूप स्पर्श गंध वर्ण रस मूर्तीक हू जानना सो अधिक जानैतैं मिथ्याज्ञान है अर सीपकूँ सुपेद अर चिलकता देखे वामैं रूपाका ज्ञान होना सो विपरीतज्ञान हू मिथ्याज्ञान है । अर यह सीप है कि रूपो है ऐसैं दोऊ में संशय रूप एकका निश्चयरहित जानाना सो संशयज्ञान है सो हू मिथ्याज्ञान है अर जो वस्तु का जैसा स्वरूप है तैसैं जानना सो सम्यग्ज्ञान है अथवा जैसैं सोलाकूँ पांच गुणा करिये तो अस्सी होय ताकूँ अठहतर जानै सो न्यून ज्ञान भया अर अस्सी का वियासी जानिये सो अधिकका जानना भया अर अस्सी होय ताकूँ सोलह जानना वा पांच जानना सो विपरीतज्ञान भया अर सोलहकूँ पांचगुणा किये अस्सी भये कि अठहतर भये ऐसा संदेह रूप ज्ञान सो संशयज्ञान है । ऐसैं न्यून जानना तथा अधिक जानना तथा विपरीत तथा संशयरूप जानना ऐसैं चार प्रकार का मिथ्याज्ञान है अर जो वस्तु का स्वरूपकूँ न्यून नाहीं जानै अधिक नाहीं जानै विपरीत नाहीं जानै संशयरूप नाहीं जानै ऐसा वस्तु का स्वरूप है तैसा संशयरहित जानै ताहि सम्यग्ज्ञान कहिये है ।

अव सम्यग्ज्ञान है सो प्रथमानुयोगकूँ जानै है ऐसा सूत्र कहै हैं—

प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम् ।

बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचानः ॥४३॥

अर्थ—सम्यग्ज्ञान है सो प्रथमानुयोगनै जानै है, कैसाक है प्रथमानुयोग—अर्थ जे

धर्म अर्थ काम मोक्षरूप चार पुरुषार्थ तिनका है कथन जामें बहुरि चरित कहिये एक पुरुषके आश्रय है कथा जामें, बहुरि त्रिषष्ठिशलाका पुरुषनिकी कथनीका सम्बन्धका प्ररूपक यातैं पुराण है । बहुरि बोधिसमाधिको निधान है सो सम्यग्दर्शनादिक नाहीं प्राप्त भये तिनकी प्राप्ति होना सो बोधि है अर प्राप्त भये जे सम्यग्दर्शनादिकनिकी जो परिपूर्णता सो समाधि है । सो यो प्रथमानुयोग रत्नत्रयकी प्राप्तिको अर परिपूर्णताको निधान है उत्पत्तिको स्थान है अर पुण्य होनेका कारण है तातैं पुण्य है । ऐसा प्रथमानुयोगकूं सम्यग्ज्ञान ही जानै है ।

भाषार्थ—जामें धर्मका कथन अर धर्मका फलरूप कहे जे धन संपदा रूप अर्थ काम जो पंच इन्द्रियनिका विषय अर संसारतैं छूटनेरूप मोक्ष ताका कथन है अर एक पुरुषके आचरणका है कथन जामें ऐसा चारित्ररूप है । अर त्रिषष्ठिशलाका पुरुषनिका है वर्णन जामें तातैं पुराणरूप है । अर ब्रह्मा श्रोतानिके पुण्यके उपजावनेका का कारण है तातैं पुण्यरूप है । अर चार आराधनाकी प्राप्ति होनेका, अर चार आराधनाकी पूणता करनेका निधान है ऐसा प्रथमानुयोगकूं सम्यग्ज्ञान ही जानै है ।

अब करणानुयोगका जाननेवाला हू सम्यग्ज्ञान है ऐसा सूत्र कहै हैं—

लोकालोकविभक्तैर्युगपारवृत्तोश्चतुर्गतीनां च ।

आदर्शमिव तथामतिरवैति करणानुयोगं च ॥४४॥

अर्थ—तैसैं ही मति कहिये सम्यग्ज्ञान जो है सो करणानुयोग जो है ताहि जानै है । कैसाक है करणानुयोग लोक अर अलोकके विभागको अर उत्सर्पिणीके छह काल अर अवसर्पिणीके पट्कालके परिवर्तन कहिये पलटनेका अर चार गतिनिके परिभ्रमणका आदर्शमिव कहिये दर्पणवत् दिखानेवाला है ।

भाषार्थ—जामें पट्द्रव्यका समुदायरूप तो लोक अर केवल आकाश द्रव्य ही सो अलोक अपने गुणपर्यायनिसहित प्रतिविम्बित होय रहे हैं । अर छहकालके निमित्ततैं जैसे जीव-पट्गलनिकी परणति है ते प्रतिविम्बरूप होय जामें भलकै हैं अर जामें चार गतिनिका स्वरूप प्रकट दिपै हैं सो दर्पण समान करणानुयोग है । तिनै यथावत् सम्यग्ज्ञान ही जानै है ।

अब चरणानुयोगका स्वरूप कहनेकूं सूत्र कहै हैं—

गृहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गम् ।

चरणानुयोगसमयं सम्यग्ज्ञानं विजानाति ॥४५॥

अर्थ—गृहमें आयक है बुद्धि जिनकी ऐसे गृहस्थी अर गृहतैं चिरक होय गृहका त्यागी

ऐसा अनगर कहिये यति तिनके चारित्र जो सम्यक् आचरण ताकी उत्पत्ति अर वृद्धि अर रक्षा इनका अंग कहिये कारण ऐसा चरणानुयोग सिद्धांत ताहि सम्यग्ज्ञान ही जानै है ।

भावार्थ मुनिका अर गृहस्थका जो निर्दोष आचरण ताकी उत्पत्तिका अर दिन दिन वृद्धि होनेका अर धारण किया तिनकी रक्षाका कारण चरणानुयोगरूप ज्ञान ही है ।

अब द्रव्यानुयोगका स्वरूप कहनेकूँ सूत्र कहै हैं—

जीवा जीवसुतत्वे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षौ च ।

द्रव्यानुयोगदीपः श्रु तविद्यालोकमातनुते ॥४६॥

अर्थ—यो द्रव्यानुयोग नाम दीपक है सो जीव अर अजीव ये दोय जे निर्वाध तत्त्व तिननै अर पुण्य-पापनै अरबन्ध मोक्ष जे हैं तिननै भावश्रु तज्ञानरूप प्रकाश होय तैसेँ विस्तारै है ।

भावार्थ—द्रव्यानुयोग नाम दीपक ऐसा है जो बाधारहित जीव-अजीवका स्वरूपकूँ अर पुण्यपापकूँ अर कर्मके बन्धकूँ अर कर्मतैँ छूट जानेकूँ आत्मामें उद्योत हो जाय, तैसेँ विस्तार करि-दिखावै है। ऐसेँ चार अनुयोगरूप श्रु तज्ञानका स्वरूप वर्णन किया । ज्ञानके वीस भेद अर अंग तथा पूर्वरूप वर्णन किये ग्रन्थ बहुत हो जाय ।

इतिश्री रवामी समन्व भद्राचार्यधिरिचित रत्नकरन्द श्रावकाचार के मूल सूत्रनिकी देशमाषामय वचनिकाविषै सभ्यज्ञान का स्वरूप वर्णन करनेवाला द्वितीय अधिकार समाप्त भया ।

अब सम्यक्चारित्रनामा तृतीय अधिकारकूँ वर्णन करते चारित्रस्वरूप धर्मके कहनेकूँ सूत्र कहै हैं—

मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञानः ।

रागद्वेषनिवृत्यै चरणं प्रतिपद्यते साधुः ॥४७॥

अर्थ—दर्शनमोहरूप तिमिरको दूर होते संते सम्यग्दर्शनका लाभतैँ प्राप्त भया है सम्यग्ज्ञान जाकै ऐसा साधु जो निकटभव्य है सो रागद्वेष का अभावके अर्थि चारित्र है ताहि अङ्गीकार करै है ।

भावार्थ—इस संसारी जीवकै अनादिकालसे दर्शनमोहनीयका उदयरूप तिमिरकरि ज्ञाननेत्र ढकि रखा है तिस मोह-तिमिरतैँ अपना अर परका भेदविज्ञानरहित हुआ चारों गतिनिमें पर्यायही कूँ आपा जानता अनन्तकालतैँ भ्रमण करै है । कोऊ जीवक करणलब्धादिक सामग्रीतैँ दर्शन-मोहका उपशमतैँ तथा क्षयतैँ तथा क्षयोपशमतैँ सम्यग्दर्शन होय है तदि मिथ्यात्वका अभावतैँ ज्ञान हू सम्यक्पनाकूँ प्राप्त होय है तदि कोऊ सम्यग्ज्ञानी रागद्वेषका अभावके अर्थि चारित्र अंगीकार करै ।

अथ रागद्वेषका अभावतै ही हिंसादिकका अभाव होनेका नियमके अर्थि सूत्र कहै हैं—

रागद्वेषनिवृत्ते हिंसादिनिवर्तना कृता भवति ।

अनपेक्षितार्थवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतीन् ॥४८॥

अर्थ—रागद्वेषका अभावतै हिंसादिक पंच पापनिकी निवृत्ति कहिये अभाव परिपूर्ण होय है । पंच पापनिका अभाव सोही चारित्र है ? अभिलाषरूप नाहीं है प्रयोजनकी प्राप्ति जाकै ऐसा कौन पुरुष राजनिनै सेवन करै ?

भावार्थ—जाकै अर्थ जो प्रयोजन तथा धनादिक फलके प्राप्त होनेकी अभिलाषा नाहीं ऐसा कौन पुरुष राजनिनै सेवन करै ? नाहीं करै । राजनिकी महाकष्टरूप सेवा तो जाकै भोगनिकी चाह तथा धनकी तथा अभिमानादिककी अभिलाषा होय सो करै । जाकै कुछ अपेक्षा चाहना नहीं सो राजाका सेवन नाहीं करै । जाकै रागद्वेषका अभाव भया सो पुरुष हिंसादिक पंच पापनिमें प्रवृत्ति नाहीं करै ।

अथ चारित्रका लक्षण रागद्वेषका अभाव कक्षा सो इसका विशेष कहनेकू सूत्र कहै हैं—

हिंसानृतचौर्येभ्यो मैथुनसेवापरिग्रहाभ्यां च ।

पापप्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम् ॥४९॥

अर्थ—हिंसा अनृत चौर्य मैथुनसेवन परिग्रह ये पाप आवने के पनाला हैं इनतै जो विरक्त होना सो सम्यग्ज्ञानीके चारित्र है ।

भावार्थ—निश्चय चारित्र तो बहिरङ्ग समस्त प्रवृत्तितै छूटे परमवीतरागताके प्रभावतै परम साम्यभावकू प्राप्त होय अपना ज्ञायकभावरूप स्वभावमें चर्या सो स्वरूपाचरण नामा सम्यक्-चारित्र है तो हू पंचपापनितै विरक्तहोय अन्तरंग बहिरंग प्रवृत्तिकी उज्वलतास्वरूप व्यवहारचारित्र विना निश्चयरूप चारित्रकू प्राप्त नाहीं होय है । तातै हिंसादिक पंच पापनिका त्याग करना ही धर्म है । पञ्च पापका त्याग करना ही चारित्र है ।

अथ इस चारित्रकै दोय प्रकार का कहनेकू सूत्र कहै हैं—

सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंगविरताना

अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां ॥५०॥

अर्थ—सो चारित्र समस्त अन्तरंग परिग्रहतै विरक्त जे अनगार कहिये गृह मठादि निपत स्थानसहित वनस्रएडादिकमें परम दयालु हुआ निरालम्ब विचरै ऐसे ज्ञानी मुनीश्वरनिकै गहन चारित्र है अथ जे स्त्रीपुत्रधनधान्यादिक परिग्रहसहित घरमें तिष्ठै ते जिन वचनके श्रद्धानी

न्यायमार्गकू' नहीं उलंघन करिकैं पापतैं भयभीत ऐसे ज्ञानी ग्रहस्थीनिकै विकलचारित्र है ।

भावार्थ—गृहकुटुम्बादिकके त्यागी अपने शरीरमें निर्ममत्व साधूनिकै सकलचारित्र होय है । गृहकुटुम्बधनादिकसहित गृहस्थीनिके विकलचारित्र होय है ।

अब—गृहस्थीनिकै विकलचारित्र कहनेकू' सूत्र कहै हैं—

गृहिणां त्रेधा तिष्ठत्यगुगुणशिद्धान्नतात्मकं चरणां ।

पंचत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथासंख्यमाख्यातं ॥ ५१ ॥

अर्थ—गृहस्थीनिकै चारित्र है सो अणुव्रत गुणव्रत शिद्धान्नतस्वरूप तीनप्रकारकरि तिष्ठै हैं सो यो तीन प्रकार चारित्र है सो यथासंख्य पांच भेदरूप तीन भेदरूप च्यार भेदरूप परमागममें कक्षा है ।

भावार्थ—जो गृहवास छोड़नेकू' समर्थ नहीं ऐसा सम्यग्दृष्टिगृहमें तिष्ठता ही पञ्च प्रकार अणुव्रत तीन प्रकार गुणव्रत च्यार प्रकार शिद्धान्नत धारणकरि चारित्रकू' पालै है ।

अब पञ्च प्रकार अणुव्रत कहनेकू' सूत्र कहै हैं—

प्राणातिपातवितथव्यावहारस्तेयकाममूर्च्छेभ्यः ।

स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमणमणुव्रतं भवति ॥ ५२ ॥

अर्थ—प्राणिका जो अतिपात कहिये वियोग करणा सो प्राणातिपात कहिये हिंसा, अर वितथ असत्य ऐसा व्यवहार कहिये वचन कहना सो वितथव्याहार कहिये असत्य वचन, अर स्तेय कहिये चोरी और काम कहिये मैथुन अर मूर्च्छा कहिये परिग्रह ये पांच पाप हैं । इन स्थूल-पापनिर्ते विरक्त होना सो अणुव्रत है ।

भावार्थ—मारने का संकल्प करकैं जो तसकी हिंसाका त्याग सो स्थूलहिंसाका त्याग है । वहुरि जिस वचन कर अन्य प्राणीका घात हो जाय, तथा धर्म विगड़ जाय, अन्यका अपवाद हो जाय कलह संक्लेश भयादिक प्रकट हो जाय ऐसा वचन का क्रोध, अभिमान, लोभके वश होय कहनेका त्याग करना सो स्थूल असत्य का त्याग है । अर विना दिया अन्यके धनका लोभके वशतैं छलकरि ग्रहण करने का त्याग सो स्थूल चोरीका त्याग है । वहुरि अपनी विवाही स्त्री विना समस्त अन्यस्त्रीनिमें काम की अभिजापा का त्याग सो स्थूल कात्याग है । वहुरि दशप्रकार परिग्रह का परिमाण करि अधिक परिग्रहका त्याग सो स्थूल परिग्रहका त्याग है । ऐसैं पाप आवने के प्रनाले ये पांच हिंसादिक तिनका त्याग सो ही पञ्च अणुव्रत है ।

अब अहिंसा अणुव्रतका स्वरूप कहने कू' सूत्र कहै हैं—

संकल्पात्कृतकारितमननाद्योगत्रयस्य चरससत्वान् ।

न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाद्विरमाणं निपुणाः ॥ ५३ ॥

अर्थ—जो गृहस्थ मनवचनकायके कृत-कारित-अनुमोदनारूप संकल्पतै चरप्राणी द्वीन्द्रि-यादिक त्रसप्राणीनिका घात नहीं करै ताहि निपुण जे गणधरदेव हैं ते स्थूलहिंसातै विरक्त कहै हैं । इहां ऐसा जानना जो गृहस्थ सम्यग्दर्शनसंयुक्त दयावान हिंसातै भयभीत होय त्यागके सम्मुख हुआ तो गृहस्थके एकेन्द्रिय जे पृथिवीकायादिक तिनकी हिंसाका त्याग तो बन सकै नहीं, गृहका त्यागी योगीश्वरनिकै ही त्रसस्थावर दोऊनिकी हिंसाका त्याग बनै । अरप्रत्याख्याना-वरणादिक कषायका उदयतै गृहतै ममता छूटी नहीं, तिस गृहस्थके त्रसजीवनिका संकल्पीहिंसाके त्यागतै भगवान अहिंसा-अणुव्रत कहा है । संकल्पीहिंसाका त्याग ऐसे जानना—दयावान गृहस्थ अपने परिणामनिकर मारनेरूप संकल्पतै तो त्रसजीवका घात करै नहीं, करावै नहीं घात करतेका मनवचनकायतै प्रशंसाकरै नहींऐसा परिणाम रहे । अरजो कोऊ दुष्टचैर ईर्ष्यादिककरि आपको मारा चाहै तथा आजीविका धनादिक हरा चाहै तिसका भी घात करनेकूँ नहीं चाहै तथा कोऊ आपकूँ बहुत धन देकर मरावै तो कीड़ीमात्रकूँ मारनेका संकल्प करि कदाचित् नहीं मारै । तथा एक जीव मारनेतै अपना रोग आपदा दूर होय तो जीवनिकै लोभतै त्रसजीवकूँ नहीं मारै । हिंसातै अत्यन्त भयभीत है तो हू गृहस्थके आरम्भ में त्रस जीवनिका घात हुआ विना रहै नहीं, याही-तै गृहस्थके मारनेका संकल्पकरि त्रसकी हिंसाका त्याग है अर आरम्भी हिंसाका त्याग करनेकूँ समर्थ नहीं है केवल आरम्भमें यत्नाचारसहित दयाधर्मकूँ नहीं भूलता प्रवर्तै है, क्योंकि गृहस्थके आरम्भ विना निर्वाह नहीं । केतेक आरम्भ नित्य होय है, चूल्हा बालनाचाकीपीसना ओखलीमें कूटना, बहारी देना, जलका आरम्भ करना, उपार्जन करना यह छह पापके कर्म तो नित्य ही हैं बहुरि केतेक और हू नित्य भी कदाचित् अन्य कारणतै हू आरम्भ बहुत हैं अपने पुत्र पुत्रीका विवाह करना मकान बनाना लीपना धोवना झाड़ना होय ही । रात्रि-गमनादि आरंभ करना धातु का पापाण का काण्ठ का आरम्भ करना, शय्या बिछावना उठाना पांव पसारना ममेटना जातिकूँ जिमावना दीपकादिक जोवना इत्यादिक पाप हीके कार्य हैं । तथा गाड़ी रथ ऊपरि चट्टिचलना हस्ती घोडा ऊंट बलघ इत्यादिक ऊपर चाड़ि चलना, गाय भैस इत्यादिक-राखनात्रिनमें त्रस जीवका घातहोय ही तथा जिनमन्दिर करावना दानका देना, पूजनकरना इनमें हू आरम्भ है तो केरो त्रसहिंसाका त्याग होय ? ताका उत्तर कहै हैं, जो आपका परिणाम तो जीव मारनेका है नाहीं अर जीव मारने वाग्ते आरम्भ करै नहीं इस कार्य करनेमें जीव मर जाय तो मत्ता है ऐसा राग हू नाहीं, आप तो जीव विराधनातै भयभीत हुआ गृहचाराका कार्य करनेको आरम्भ करै हैं । जीव मारनेके वाग्ते नाहीं करै हैं । अपने परिणाममें तो मेलता धरता उठता

बैठता लेता देता जीवनिकी रक्षा करने ही का संकल्प करै है, मारनेका संकल्प नहीं करै, तिसके पापबन्ध कैसे होय ? जीव अपने आयुकर्मके आधीन उपजै अर मरै है अपने हाथ नहीं, आप तो जेता आरम्भ करै तितना दया रूप हुआ यत्नाचारतै करै । यत्नाचारीके भगवानका परमागममें हिंसा होते हू बन्ध होना नहीं कखा है । समस्त लोक जीवनिकरि भरा है जीवनिके मरने जीवनिके आधीन अपना उपयोग विना हिंसा अहिंसा नहीं है । अपने परिणामके आधीन हिंसा अर अहिंसा है । जातै सिद्धान्तमें ऐसा कखा है जो मुनिराज चारहस्तप्रमाण आगेको सोधता गमन करै है अर जो पगको उठाय धरवो होय तहां जीव उखलकरि आय पड़े अर जीव मर जाय तो मुनीश्वरनिके किंचित् हू बन्ध नहीं होय है; क्योंकि साधुके परिणामनिमें तो ईर्यासमिति पालना चित्त विषै तिष्ठै था तातै बन्ध नहीं । आहार प्रासुक जानि देखि सोध करिये है अर सूक्ष्म जीव आय पड़े तो कौन जानै ? भगवान् केवलज्ञानी ही जानै । आप प्रमादी होय यत्ततै देखै सोधै विना भोजन करै तो दोषतै लिपै । याहीतै श्रावक प्रमाद छांडि बड़ी सावधानीतै प्रवर्तन करता दोषकू कैसे प्राप्त होय ? चूल्हाकू दिनमें सोधि बुहारि ईंधन भड़काय यत्ततै अग्नि जलावै है ऐसे ही चाकी ओखली भी सोधि झाड़ि अन्नकू सोधि पीसण खोटणका आरम्भ करै है वीधा अन्नकू नहीं ग्रहण करै है । अर बुहारी हू दिवसमें देखि कोमल कूंची मूज इत्यादिकतै जीव विराधनाका भय सहित हुआ देवै है कजोडा बुहारै हैं तथा जलकू दोहरा दड़ वस्त्रतै छानि जतनपूर्वक वरतै है तथा द्रव्यका उपार्जन हू अपना कुलके योग्य सामर्थ्य सहायादिकके योग्य जैसे यश अर धर्म नीति नहीं बिगड़े तैसे यत्ततै अति मति कृषी विद्या वाणिज्य शिल्प इन षट् कर्मनिकरि करै है; क्योंकि श्रावकका व्रत तो चारों वणोंमें होय है आपके उज्ज्वल हिंसा-रहित कर्मछं आजीविका ऐसी होती हो तो निव्व कर्मकरि, संक्लेश कर्मकरि लोभादिकके वश होय पापरूप आजीविका करै नहीं, अर आपकू अन्य आजीविकाका उपाय नहीं दीखै तो घटायकरि पापतै भयभीत हुआ न्यायतै करै । क्षत्रियकुलका शस्त्रधारक होय तो दीन अनाथकी रक्षा करता दीन दुःखित निर्बलको घात नहीं करै, शस्त्ररहितकू नहीं मारै, गिर पड्या ऊपरि घात नहीं करै पीठ देय भाग जाय दीनता भाषै तिन ऊपरि घात नहीं करै है अर धनके लूटनेको घात नहीं करै अभिमानतै वैरतै घात नहीं करै अपने ऊपर घात करता आवै ताकू तथा दीननिकू मारनेकू आवै तिनकू शस्त्रतै रोके जो शस्त्रतै जीविका करता होय सो केवल स्वामिधर्मतै तथा अनाथनिका स्वामीपना आपके होय सो शस्त्रधारण करै । जाके शस्त्रसंबन्धी सेवा नहीं अर प्रजाका स्वामीपना नहीं ताकै वृथा शस्त्र-धारण नहीं होय है । अर स्याहीतै आमद खरच लिखनेकी जीविका होय तो मायाचारदिक दोष-रहित स्वामीके कार्यकू यथावत् सही लिखता जीविका करै । और माली जाट इत्यादिक कुलमें अन्य जीविका नहीं होय तो कृषि जो खेती करि आजीविका करता हू दयाधर्मको छांडै नहीं, जो खेत पहली बहता आया होय तिसकू परि-



माण करि अधिकका त्यागी हुआ खेती करै है अधिक तृष्णा नहीं करै यामें हू बहुत घटाय आपकूँ निन्दता खेती करै है । बहुत जल सींचै है तो हू आप अनछाएया जल एक चुल्लू मात्र हू नहीं पीवै है । कोऊ आय बहुत धन भी देवै अर कहै तुम यहां धान्यके बहुत घृच छेदो हो हमतैं एक मोहर लेय हमारे एक वृक्षकी एक डाहली काट आवो तो लोभके वशि होय कदाचित् नहीं छेदै है तथा खेतीमें बहुत जीव मरै हैं तो भी इसके जीव मारनेका अभिप्राय नाही, केवल आजीविकाका अभिप्राय है कोऊ सौ मोहर देवै तो लोभके वशि होय अपना संकल्पतैं एक कीडी हू मारै नाही ऐसी व्रतमें दृढ़ता है । अर उत्तम कुलवाला खेती करै नहीं । बहुरि विद्याकरि आजीविका करै ऐसा ब्राह्मणादिक श्रावक है सो मिथ्यात्वभावका पुष्ट करनेवाला तथा हिंसाकी प्रधानता लिये रागद्वेषका वधावने वाला शास्त्रनिकूँ त्याग करि उज्वल विद्या पढावै सो ही दया है । बहुरि श्रावक है सो बहुत हिंसाके छोटे वाणिज्य त्याग न्यायपूर्वक तीव्र लोभकूँ त्याग आपकी निन्दा करता सन्तोष सहित प्रमाणीक सांचसूँ व्यौहार करै दयाधर्मकूँ नहीं भूलता समस्त जीवनिकूँ आप समान जानता वाणिज्य करै है । बहुरि शिल्पकर्म करनेवाला शूद्र हू श्रावकका व्रत ग्रहण करै है सो बहुत निंदकर्मनिकूँ तो टालै ही अर टालनेकूँ समर्थ नहीं तीमें बहुत हिंसा टालि दयारूप प्रवर्तै है संकल्पतैं याकूँ मारना या जाणि घात नहीं करै । अर मन्दिर बनवाना पूजन करना दान देना इन कार्यनिमें तो निरन्तर बड़ा यत्नाचारतैं केवल दयाधर्मके निमित्त ही प्रवर्तन करै है ।

हिंसाका भाव काहेतैं होय जातैं पुरुषार्थसिद्ध्युपाय नामा ग्रन्थमें श्रीअमृतचन्द्रस्वामी ऐसैं फया है—

यत्खलु कषाययोगात्प्राणानां द्रव्यभावरूपाणां ।

व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ ४३ ॥

अर्थ—जे कषायके संयोगतैं द्रव्यप्राण जे इन्द्रिय कायादिक अर भावप्राण जे ज्ञानदर्शनादिक तिनको वियोग करवो सो निश्चित हिंसा होय ।

भाषार्थ—जो कषायके वशि होय परके द्रव्यप्राण भावप्राणनिको वियोग करवो सो निश्चित-दिग्मा होय है । कषायपरहितकैं प्राणीका मरणमात्रतैं हिंसा नहीं होय है आप परजीवके मारनेकी कषायमदित होय ताकैं हिंसा होय है ।

अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति ।

तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥ ४४ ॥

अर्थ—जो रागद्वेषादिको आत्माके नहीं पगट होवो सो अहिंसा है अर आत्माके परिणाम में रागद्वेषादिकनिर्जा उन्नति होय सो ही हिंसा है । जितेन्द्रभगवानके आगमका संक्षेप तो इस

प्रकार है—बाह्य प्राणीनिकी हिंसा होहु वा मत होहु जो परिणाम रागद्वेषादि कषायसहित होय सो ही अपना ज्ञानदर्शनादिरूप भावप्राणनिका घात है सो ही आत्महिंसा है जाके आत्महिंसा है ताके परकी हिंसा भी होय ही है ।

युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि ।

न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥ ४५ ॥

अर्थ योग्य आचरण करता सत्पुरुषके रागद्वेषादि कषाय विना प्राणनिका घाततैं ही हिंसा कदाचित् नहीं होय है ।

भावार्थ—यत्नतैं दयासहित प्रवर्तन करता पुरुषकै जीवघात होतैं हू हिंसाकृत बन्ध नहीं होय है ।

व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वशप्रवृत्तायाम् ।

स्त्रियतां जीवो मा वा धावत्यग्रे ध्रुवं हिंसा ॥४६॥

अर्थ रागद्वेषादिकनिके आधीन प्रवृत्ते जे गमन आगमन उठना बैठना धरना मेलना ऐसे आरम्भ तिनमें जीवनिका मरण होहु वा मत होहु हिंसा तो निश्चयतैं आगैं दौड़ती है । यत्ना-चाररहित होय आरम्भ करै है ताके जीव अपने आयुके आधीन मरण करो वा मत करो आप तो अपने परिणामतैं निर्दय भया ताके हिंसाकृत बन्ध आगैं आगैं दौड़ै है ।

यस्मात्सकषायः सन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानं ।

पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु ॥४७॥

अर्थ—जातैं आत्मा कषायसहित हुवो संतो प्रथम ही आप करिकै आपनै हनै है पाछैं अन्य प्राणीनिकी हिंसा उत्पन्न होय वा नहीं होय जिस काल कषायसहित आत्मा भया तिस ही काल में अपना ज्ञानानन्द वीतरागस्वरूपका घात तो अवश्य करि ही चुका ।

हिंसायामविरमणं हिंसापरिणामनमपि भवति हिंसा ।

तस्मात्प्रमत्तयोगे प्राणव्यपरोपणं नित्यम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—जातैं हिंसाके विषै विरक्त होय त्याग नहीं करना सो भी हिंसा है अर हिंसामें प्रवर्तन है सो हू हिंसा है तातैं प्रमत्तयोग होतैं प्राणनिका घात नित्य है ।

भावार्थ—अपना अर परका घात होनेकी सावधानीरहित प्रवर्तते जे मनवचनकायके योग सो प्रमत्तयोग है जहां प्रमत्तयोग है तहां सासती हिंसा है जो कोऊ हिंसा तो नहीं करै परन्तु हिंसामें विरक्त होय हिंसाका त्याग नहीं करै सो सते विलाव समान सदाकाल हिंसक ही है, अर

हिंसामें प्रवर्तन करै है सो हू हिंसक ही है । भावनिताँ तो दोऊ हिंसक हैं बाह्य निमित्त हिंसा का मिलो वा-मति मिलो ।

सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तुनिवन्धना भवति पुंसः ।

हिंसायतननिवृत्तिः परिणामविशुद्धये तदपि कार्या ॥४६॥

अर्थ—अन्यवस्तु है कारण जाकूँ ऐसी तो सूक्ष्म हू हिंसा नहीं है जाते पुरुषकै जो हिंसा होय है सो तो अपना परिणाममें हिंसा करने का भाव दौतै हिंसा होय है । इहां कोऊ पूछै जो परद्रव्यके निमित्ततै सूक्ष्महिंसा नहीं होय है तो बाह्य वस्तुका त्याग व्रत संयम किस वास्तै करिये हैं ? ताका उत्तर करै हैं—यद्यपि हिंसक परिणाम होय तदि ही जीव कै हिंसा होय परन्तु हिंसा होनेके स्थाननिमें प्रवर्तेगा ताकै हिंसाके परिणाम कैसै नहीं होयगा ? तातै परिणाम को विशुद्धता के अर्थि जहां हिंसा होय ऐसे खान पान ग्रहण आसन वचन चिंतवनादिक त्याग करने योग्य हैं ।

निश्चयमबुध्यमानो यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते ।

नाशयति करणचरणां स बहिःकरणालसो बालः ॥ ५० ॥

अर्थ—जो जीव निश्चयनयका विषय रागादि कषायरहित शुद्धात्मा रूपकूँ तो जाण्या नाहीं अर मेरा भाव कषायरहित है मेरे समस्त प्रवृत्तिमें हिंसा नाहीं ऐसा वृथा निश्चय करता निरर्गल यथेच्छ प्रवर्तै है सो अज्ञानी बाह्य आचरण में प्रवृत्ति छांड़ि प्रमादी हुआ करणचरणरूप चारित्रका नाश करै है ।

भावार्थ—जाका परिणाम रागद्वेषरहित भया ते अयोग्य भोजन पान धन परिग्रह आरम्भादिकमें कैसै प्रवर्तन करैगा जो हिंसाकूँ विरक्त है सो हिंसा होने के कारण दूरहीतै छांड़ैगा ।

अब और हू पुरुषार्थसिद्धयुपाय में कहै हैं, कोऊ तो हिंसा नाहीं करकै अर हिंसाके फलका भोगनेवाले होय है जैसे आयुध बनानेवाले लुहार सिकलीगर हिंसा नाहीं करकै हू तन्दुलमच्छकी ज्यों हिंसाके फलकूँ प्राप्त होय है । अर कोऊ दयावान होय यत्नाचारतै जिनमंदिर बनवाने वाला बाह्यहिंसा होते हू हिंसा के फलकूँ नाहीं प्राप्त होय है । कोऊ पुरुष हिंसा तो अल्प करी परन्तु तीव्र रागद्वेषरूप भावनिताँ करने करि उदयकालमें महाफलकूँ प्राप्त होय है । बहुरि केई अनेक पुरुषमिलि करकै एकहिंसाकरी परन्तु उस हिंसा करने में कोऊ तो तीव्र रागवाला सो तीव्रफलकूँ प्राप्त होय है मध्यमकषायवाला मध्यमफलकूँ प्राप्त होय है । तथा कोऊ पुरुषकै हिंसा तो पाछै काल पाय वनेगी परन्तु हिंसा के परिणाम करनेतै हिंसाका फल पहले ही उदय होय रस दे है । अर कोऊकै हिंसा करतां करतां फलै है जैसे कोऊ पुरुष अन्य कोऊकूँ मारण करै तिस कालमें ही उसका प्रहारतै आपहू मारया जाय है । कोऊकै पूर्वे करी पाछै फलै है । कोऊ हिंसा का आरम्भ तो क्रिया अर पाछै बन सकी नाहीं सो हू फलै है जैसे कोऊका घात करने

का उपाय किया तो बणि सकता नहीं अर पाछें वै जानि आपका घात किया ही । बहुरि हिंसा तो एक करै अर हिंसा का फल अनेक पुरुष भोगें जैसे चोर तथा हत्याराकूँ मारै वा खली चढ़ावै तो एक चांडाल अर देखनेवाले अनेक तमासगीर पापबंधकरि फल भोगवै हैं । अर संग्राम में हिंसा करनेवाला तो बहुत योद्धा होय हैं अर फलभोगनेवाला एक राजा होय है तातें करै एक अर भोगें अनेक हैं अर करै अनेक भोगें एक है । बहुरि कोऊ के तो हिंसा करी हुई हिंसाहीका फल देहै । अर अन्यकै सो ही हिंसा अहिंसाका फल देहै जैसे कोऊ पुरुष किसी जीवकी रक्षा करनेकूँ यत्न करैथा यत्न करते हू उसका मरण हो गया तो वाकै रक्षाका अभिप्रायतैं अहिंसाहीका फल होयगा । अर कोऊ का परिणाम तो किसी के मारने का था आपदाकूँ प्राप्त करने का था अर उसका पुण्यका उदयतैं आपदा हू नहीं भई अर मरण हू नहीं भया अनेक लाभ भया तो मारनेके अर्थी कों तो पापही का बंध होय है । अर कोऊका परिणाम किसीकूँ दुःख देने का नहीं था सुख देनेका वा रक्षा करने का था अर उसके दुःख हो गया वा मरण होगया तो सुख देनेका परिणामकरि वाकै पुण्यबंध ही होयगा । इसप्रकार कर अनेक भंगनिकरि गहन यो जिनेन्द्र का मार्ग है यामें एकांती मिथ्यादृष्टीनका पार होना अतिकष्टतैं हू नहीं होय । अनेकांतके प्रभावतैं नयसमूहके जाननेवाला गुरु ही शरण है । यो जिनेन्द्रभगवानको नयचक्र तीक्ष्णधाराकूँ धारण करता एकांत दुष्टआग्रह सहित मिथ्यादृष्टिनिका मिथ्यायुक्तीनिका हजारों खण्ड करने वाला है । यातैं भो ज्ञानीजन हो ! भगवान वीतरागकी आज्ञातैं प्रथम ही हिंसा होने योग्य जे जीवनिके स्थान इंद्रियकायादिक जीवनिके कुलकोड तिनकूँ जानो । बहुरि हिंसा करनेवाला भाव ताकूँ जानो । बहुरि हिंसाका स्वरूप कहा है ताकूँ जानो । बहुरि हिंसाका फलकूँ जानो ऐसे हिंस्य हिंसक हिंसा हिंसाका फल इनचारकूँ यत्नतैं जानि करके पाछें देश काल सहाय अपना परिणाम अर निर्वाह होना जानि अपनी शक्तिकूँ नहीं छिपाय गृहस्थपणामें हू अपने पदके योग्य हिंसाका त्याग ही करो तथा त्रसजीवनिकी संकल्पी हिंसाका तो त्याग करो अर समस्त आरम्भमें दयावान हुआ यत्नाचारतैं प्रवर्तन करो अर पंचस्थावरनिष्ठा आरम्भमें घटायकरि दयावान होय प्रवर्तो ।

ऐसैं अहिंसा अणुव्रतका स्वरूप कहा अब अहिंसाव्रतका पंचअतिचार जनावनेको सूत्र कहे है—

छेदनबंधनपीडनमतिभारारोपणं व्यतीचाराः ।

आहारवारणापि च स्थूलवधाद्द्व्युपरतेः पंच ॥ ५४ ॥

अर्थ—ये स्थूलहिंसाका त्यागनामक व्रतके पंचअतीचार हैं ते गृहस्थके त्यागने योग्य हैं । छेदन कहिये अन्य मनुष्यतिर्यञ्चानिके कर्ण नासिका श्रोत्रादिक अंगनिका छेदना सो छेदन नामक अतीचार है ॥ १ ॥ अर मनुष्यनिकूँ बंधनादिककरि बांधना तथा बंदीगृहमें रोकना तथा

तिर्यन्चनिकूँ दृढबंधनकरि बांधना पत्नीनिकूँ पौजेमें रोकना इत्यादिक बंधन नामा अतीचार है । २ ॥ मनुष्यतिर्यञ्चनिकूँ लात धमूका लाठी चाबुक आदिका घातकरि ताडना करना सो पीडन नामा अतीचार है ॥३॥ बहुरि मनुष्यतिर्यञ्च गाडा गाडी इत्यादिक ऊपरि बहुत बोभका लादना सो अतिभारारोपण नामा अतीचार है ॥ ४ ॥ अर मनुष्यतिर्यञ्चनिको खात्रने पीवनेको रोकना सो अन्नपानका निराकरण नामा अतीचार है ॥ ५ ॥ यह पांच अतीचार स्थूलहिंसाका त्यागीकूँ त्यागने योग्य है ।

अब सत्य नामक अणुव्रत के कहनेकूँ सूत्र कहै हैं—

स्थूलमलीकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे ।

यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादवैरमाणं ॥ ५५ ॥

अर्थ—जो स्थूल असत्य नाहीं बोलै अर परकूँ असत्य नाहीं बुलावै अर जिस वचन-तैं आपकै अन्यकै आपदा आवै ऐसा सत्य हू नाहीं कहै ताहि सत्पुरुष स्थूल भूठका त्याग कहै हैं

भावार्थ—सत्य अणुव्रतका धारक होय सो क्रोधमानमायालोभके वशीभूत होय ऐसा वचन नाहीं कहै जाकरि अन्यका घात हो जाय अन्यका अपवाद होजाय अन्यकै कलंक चढ़ि जाय सो वचन निंघ है । जिस वचन तैं मिथ्याश्रद्धान होजाय तथा धर्मसूँ छूटिजाय, व्रत संयम त्यागतैं शिथिल होजाय, श्रद्धान विगडिजाय सो वचन नाहीं कहै तथा कलह विसंवाद पैदा हो जाय, विषयानुराग बधिजाय, महाआरम्भमें प्रवृत्ति होजाय, अन्यके आर्चध्यान प्रकट होजाय परके लाभमें अन्तराय होजाय, परकी जीविका विगडि जाय, अपना परका अपयश होजाय ऐसा निंघ-वचन योग्य नाहीं । तथा ऐसा सत्य वचन हू नाहीं कहै जाकरि आपको अन्य विगाड होजाय आपदा आजाय अनर्थ पैदा होजाय दुःख पैदा होजाय मर्म छेद्या जाय, राजका दण्ड होजाय धनकी हानि हो जाय ऐसा सत्यवचन हू भूठ ही है । बहुरि गालीके वचन भण्डवचन नीचकुलबालेनिके बोलनेके वचन तथा मर्मछेद के वचन परके अपमानके वचन, परके तिरस्कारके वचन, अहंकारके वचनकूँ कदाचित् नाहीं कहै । जिनसूत्रके अनुकूल तथा आपका परका हितरूप अर बहुत प्रलाप रहित प्रमाणीक संतोषका उपजानेवाला, धर्मका उद्योत करनेवाला वचन कहै जातैं न्यायरूप आजीविका सधै अनीतिरहित होय ऐसे वचनको कहता गृहस्थके स्थूल असत्यका त्यागरूप द्वितीय अणुव्रत होय है ।

अब सत्याणुव्रतके पंच अतीचार कहनेकूँ सूत्र कहै हैं

परिवादरहोभ्याख्या पैशून्यं कूटलेखकरणां च

न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य ॥५६॥

अर्थ—इहां परिवाद तो मिथ्या उपदेश है जो स्वर्गवमोक्षका कारण जो चारित्रं तिस चारित्रकू अन्यथा उपदेश करना सो परिवाद नामा अतीचार है ॥ १ ॥ अर कोऊ आपकू छाानी बात कही होय सो किसीकू कह देना विख्यात करि देना तथा कोऊ स्त्रीपुरुषादिकनिका एकान्तमें गुह्य चेष्टा देख करिकै तथा गुह्यवचन श्रवण करि किसीकू प्रगट करना सो रहोम्याख्याना नामा अतीचार है ॥ २ ॥ बहुरि अन्यका छिद्र जानि विगाडि करानेके अर्थि कोऊकू छिपकरि कह देना चुगली करना सो पैशून्यनामा अतीचार है ॥ ३ ॥ बहुरि अन्यके विना कहा तथा विना आचरण कया झूठा लिख देना, जो इसने ऐसा कहा है ऐसा आचरण किया है सो कूटलेखकरण नामा अतीचार है ॥ ४ ॥ बहुरि कोऊ आपको धन सौंपि गया तथा वस्त्र आभरणादिक मेलि गया फिर संख्या भूलि अल्प माँगने आया ताकू कहै तुम्हारा है सो ही लेजावो सो न्यासापहारिता अतीचार है ॥ ५ ॥ ऐसैं तथूल असत्य का त्यागनामा अणुव्रतके पांच अतीचार त्यागने योग्य हैं। इहां ऐसा विशेष जानना जो अनादितैं अनंतकाल तो यो जीव निगोदमें ही वास किया फिर कदाचित् निगोदमेंतैं निकसि करिकै फिर पांच स्थावरनिमें असंख्यातकाल परिभ्रमणकरि बहुरि निगोदमें अनन्तकाल बारम्बार अनन्तानन्त परिवर्तन एकन्द्रियमें किये तहां तो वचन पाया नाहीं जिह्वा इन्द्रिय ही नाहीं भई बहुरि द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असैनी सैनी पंचेन्द्रियमें उपज्या तहां जिह्वा पाई तो अक्षरात्मक कहने सुननेरूप वचन नाहीं पाया। कदाचित् अनंतानंतकालमें मनुष्य-जन्ममें वचन बोलनेकी शक्ति पाई तो नीच कुलनिमें अयोग्य वचन हिंसाके वचन, असत्य वचन, पर कै अर आपकै संताप करनेवाला वचन बोलि महापापबन्ध करि दुर्गतिका पात्र भया अपने वचन करि अपना घातक भया। कदाचित् कोऊ पूर्वपुण्यके उदयकरि मनुष्यजन्म पाया है तो यामें वचन बोलनेमें बड़ा यत्न करो। भोजनपान करना, कामसेवन करना, नेत्रनितैं देखना, काननितैं श्रवण करना तो शूकर कूकर गधा कागलाकै भी होय है क्योंकि आंख नाक कान जीभ कामेन्द्रिय ये तो समस्त ढोरनिके भी होय हैं इस मनुष्यजन्ममें तो एक वचन ही सार है करामाती है जो इस वचनकू विगाड्या सो अपना समस्त जन्म विगाड्या। वचनतैं ही जानिये है यो परिडत है यो मूर्ख है यो धर्मात्मा है यो पापी है। यो राजा है यो राजाका मन्त्री है यो रङ्ग है यो कुलीन है यो अकुलीन है यो हीनाचारी है यो उत्तमाचारी है यो संतोषी है यो तीव्रलोभी है यो धर्मवासनासहित है यो धर्मवासनारहित हैं यो मिथ्यादृष्टि है यो सम्यग्दृष्टि है, यो संस्कृती है यो संस्कृतिरहित है, यो उत्तम संगतिको राजसभामें रखो हुवो है यो गम्यजन गंवारनिमें रखो है, यो लौकिक चतुर है यो लौकिकमूढ़ है यो हस्तकलासहित है यो कलाविज्ञानरहित है यो डयमी पुरुषार्थी है यो आलसी प्रमादी है, यो शूर है यो कायर है, यो दातार है यो कृपण है, यो दयावान है यो निर्दय है, यो दीन याचक है यो महन्त है, यो क्रोधी है यो चमावान है यो मदोद्धत है यो मदरहित है, यो विनयवान है यो

कपटी है यो निष्कपट है यो सरल है यो वक्र है इत्यादिक आत्माके गुणदोषादिक समस्त वचनद्वारै ही प्रगट हो हैं, यातैं मनुष्य-जन्म पावन असफल किया चाहो तो एक वचनहीकी उज्ज्वलता करो। इस वचन हीतैं सत्यार्थ उपदेशकरि भगवान् अरहन्त त्रैलोक्यकरि वंदनीक होय जगतको मोक्षमार्गमें प्रवर्तन कराया है वचनहीतैं अनेक जीवनिका मिथ्यात्वरागादिक मूल दूरि-करि अजर अमर अविनाशी पद दिया है। पंचपरमेंठीमें भी वचनकृत उपकारके प्रभावतैं प्रथम अरिहन्तनिष्कं ही नमस्कार किया है। ज्ञानीवीतरागके वचनकरि स्वर्ग नरकादिक तीन लोक प्रत्यक्षकी ज्यौं दीखैं हैं। वचनहीकी सत्यताके प्रभावकरि पंचमकालमें धर्मप्रवर्तैं है। अर उज्ज्वल वचन, विनयका वचन, प्रियवचनरूप पुद्गलनि करि समस्त लोक भरया है मोल नाहीं लागै तथा किसीकूं जीकारो देनेमें अपना अंगमें दुःख नाहीं उपजै है जीभ तालू कण्ठ नाहीं भिदैं है यातैं समस्त प्राणीनिकै सुख उपजावै ऐसा प्रियवचन ही कहो। अर असत्यवचनके प्रभावकरि ही मिथ्यादेवनिकी आराधना तथा यज्ञादिक हिंसाके प्ररूपक वेदादिक ग्रंथनिमें मांसभक्षणादिक कुकर्मनिमें प्रवृत्ती हू असत्य वचनतैं ही भई है तथा खोटे शास्त्रनि की रचना नाना प्रकारके मिथ्यात्वरूप मत नरक तिर्यंचनिमें परिभ्रमण करानेवाला समस्त दुष्ट आचार इस असत्य वचनके प्रभावकरि ही प्रवृत्तैं है अर अयोग्यवचनतैं ही घर घरमें कलह विसंवाद, परस्पर वैर, परस्पर ताड़न मारन प्राणापहार क्रोधभय संताप भय अपमानादिक देखिये है अर अप्रतीति अविश्वास खेद का कारण एक असत्य वचनहीकूं जानो। अर असत्य का प्रभाव करि परलोकमें नरकतिर्यंच-गतिकूं प्राप्त होय। अरु कुमानुषनिमें तथा नीच चांडाल चमार भील कषायी इत्यादि कुलमें हू असत्य ही उपजावै तथा अनेक भवनिमें दरिद्री रोगी गूंगो बहरो हींण दीन असत्यका प्रभावतैं हा होय है तातैं समस्त दुःखका मूल एक असत्यवचन ही है सो शीघ्र ही त्याग करि एक सत्यवचन प्रियवचन हीमें प्रवृत्ति करो, तातैं तुम्हारा वचन समस्तके आदरने योग्य अनेक देव मनुष्यनिके ऊपरि आज्ञा करने योग्य होय तथा समस्तश्रुतका पारगामी श्रुतकेवलीपना गणधरपना सत्यहीका प्रभावतैं प्राप्त होय है यातैं असत्यका त्याग ही जीवका कल्याण है।

बहुरि पुष्पार्थसिद्ध्यु पायमें कहैं हैं—

हेतौ प्रमत्तयोगे निर्दिष्टे सकलवितथवचनानां ।

हेयानुष्ठानादेरनुवदनं भवति नासत्यां ॥१००॥

भागोपभोगसाधनमात्रं सावद्यमच्चमा मोक्तुं ।

चेतेपिऽशेषमनृतं समस्तमपि नित्यमेव मुञ्चन्तु ॥१०१॥

अर्थ—समस्त असत्य वचनको कारण प्रमत्तयोग भगवान् कह्यो है कषायके आधीन होय

जो वचन कहै है सो असत्य है यातैं कषायविना देना मेलना धरना त्यागना ग्रहण करना इत्यादिकका कहना सो असत्य नाहीं है अर जे गृहस्थ अयना भोग उपभोगका साधनमात्र सदोष वचन त्यागनेकूं समर्थ नाहीं है तो गृहस्थ अन्य निरर्थक पापबन्ध करने वाला समस्त असत्य वचनकूं तो त्याग अवश्य ही करो ।

भावार्थ—अपना भोग-उपभोगका साधनमात्र सदोष वचनका त्याग नाहीं होय सकै तो ताका त्याग करने में बड़ा उद्यम राखणा अर वृथा बहु आरम्भ बहुपरिग्रहका कारण दुष्परिणामका कारण अन्यके आपकै संतापका कारण ऐसा सदोष निंद्यवचनका तो त्याग अवश्य करना ही श्रेष्ठ है ऐसैं स्थूल असत्यका त्याग नामा दूजा अणुव्रतकूं कया है ।

अब स्थूलचोरीका त्याग नामा तीजा अणुव्रतकूं कहै हैं—

निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविस्मृतं ।

न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणं ॥५७॥

अर्थ—जो किसी पुरुषका जमीनमें गड्ढा हुआ धन होय वा कोऊ स्थानमें महल मन्दिर गृहादिकमें स्थापना किया हुआ धन होय अथवा आपकूं अमानत सौंपि गया होय वा अपने मकानमें तथा परके स्थानमें आपकूं नाहीं जनाया धर गया होय अथवा ग्राममें नगरमें बनमें बागमें पटकिया होय अथवा आपको सौंपि भूलि गया होय वा हिसाब लेखामें चूकि गया हो वा आपके स्थानमें भूलिकरि पटकिया होय अथवा लेने देनेमें गिनतीमें विस्मरण हुआ पैसा रुपया मोहर आभरण वस्त्रादिक बहुत वा अल्प द्रव्य बिना दिया नाहीं ग्रहण करै अर परका द्रव्य उठाय किसीकूं देवे भी नाहीं सो स्थूल चोरीका त्यागरूप अणुव्रत है ।

अर कार्तिकेयस्वामी ऐसैं कया है—

जो बहुमुल्लं वस्तुं अप्पमुल्लेण गेय गिरहेदि ।

वीसरियं पि ण गिरहेदि लाहे थूवेहि तूसेदि । ६३५॥

अर्थ—जाके स्थूल चोरीका त्याग होय सो बहुत मोलकी वस्तु-अल्पमोलमें नाही ग्रहण करै जैसे कोऊ पुरुष आपको वस्तुको चौकसि करि बेचै तो सवारूपयामें विक जाय अर आपकूं आय सौंपी जो इसकी कीमत होय सो आप देवो तो तहां सवा रूपयाकी वस्तुकूं प्रगट जानना लोभके वशि हो एक रूपयामें हू नाहीं लेवै । अन्यकी भूली हुई वस्तु ग्रहण नाहीं करै तथा ऐसा परिणाम नाहीं करै जो कोऊ निर्धन तथा अज्ञानीकी वस्तु हमारे थोड़े मोल में आजाय तो भला है अर अल्प लाभहीमें बहुत संतोष राखै ।

भावार्थ—बनजके व्यवहारमें तथा सेवामें लाभ थोरा होय तो सन्तोष ही करै अधिकमें लालसा नाहीं करै तिसकै स्थूलचोरीका त्याग जानना ।



अब अचौर्य नामा अणुव्रत के पंच अतीचार कहनेकूँ सूत्र कहै हैं—

चौरप्रयोगचौरार्थादानविलोपसदृशसन्मिश्राः ।

हीनाधिकविनिमानं पंचास्तेयो व्यतीपाताः ॥५८॥

अर्थ—अचौर्य नामा अणुव्रतके ये पंच अतीचार हैं आप तो चोरी नहीं करै परन्तु अन्यकूँ प्रेरणा करै तथा चोरी करनेका प्रयोग (उपाय) बतावै सो चौरप्रयोग नामा अतीचार है ॥ १ ॥ अर चोरका ल्याया धनको ग्रहण करणा सो चौरार्थादान नामा दूसरा अतीचार है ॥ २ ॥ अर उचित न्यायतै छांड़ि अन्यरीतितै ग्रहण करना अथवा राजाकी आज्ञासूँ जाका निषेध होय तिस कार्यका करना विलोप नामा अतीचार है ॥ ३ ॥ अर बहुत मोल की वस्तुमें अल्पमोलकी वस्तु मिलाय चला देना सो सदृशसन्मिश्र नामा अतीचार है जैसे घृतमें तेल मिलाय देणा शुद्धसुवर्णमें कृत्रिमसुवर्ण मिलाय देना सो सदृशसन्मिश्र है ॥ ४ ॥ बहुरि देनेके वांट ताखडी घाटि परिमाण राखनां लेनेकूँ बढ़ती राखना सो हीनाधिकमानोन्मान नामा अतीचार है ॥ ५ ॥ ऐसै स्थूलचोरीका त्याग नामा अणुव्रतके पंच अतीचार त्यागने योग्य हैं । इस चोरी समान जगतमें अपराध नहीं है । समस्त उच्चता कुलकर्म धर्मविनाश करनेवाली समस्त प्रतीति बड़ापनाका विध्वंस करनेवाली है अर चोरीका धन हू वेश्यासेवनमें परस्त्रीमें व्यसननिमें अभक्षमें खरच होय है वा अन्य किसीमें रह जाय है सन्तोष नहीं आवै है क्लेशित होय रहे है अर प्रगट होय तो राजा तीव्र दण्ड देहै समस्त लोक मारे है हस्तनासिकाका छेदन सर्वस्वहरणादिक दण्ड यहां ही प्राप्त होय है परलोकमें नरकादिक कुयोनिनमें परिभ्रमण होय है ।

अब स्थूल ब्रह्मचर्य नामा अणुव्रतका स्वरूप कहनेकूँ सूत्र कहै हैं—

न चपरदारान् गच्छति न परान् गमयति चपापभीतेर्यत् ।

सा परदारनिवृत्तिः स्वदारसंतोषनामापि ॥ ५९ ॥

अर्थ—जो पापका भयतै परकी स्त्रीप्रति आप नहीं प्राप्त होय अर परकी स्त्री प्रति अन्य पुरुषनिनै गमन नहीं करावै सो स्वदारसंतोषनामधारक परस्त्रीका त्याग नामा चौथा अणुव्रत है ।

भावार्थ—जो अपने जाति कुलकी साखतै विवाही स्त्री तिसविषै सन्तोष धारण करके तिसतै अन्य समस्त स्त्रीमात्रमें राग भावका त्यागी होय परस्त्री तथा वेश्या दासी तथा कुलका तथा कन्या इत्यादिक स्त्रीनिमें विरागताको प्राप्त होय स्त्रीनिष्वं रागभाव कार संगम, वचनालाप, अत्रलोकन, स्पर्शनका त्याग करै ताकूँ परस्त्रीका त्यागी कहिये तथा स्वदारसन्तोषी हू कहिये है ।

अब स्वदारसन्तोषव्रतके पंच अतीचार कहनेकूँ सूत्र कहै हैं—

अन्यविवाहाकरणानङ्गक्रीडाविटत्वविपुलतृषः ।

इत्वरिकागमनं चास्मरस्य पंच व्यतीचाराः ॥ ६० ॥

अर्थ—अस्मर जो स्थूल ब्रह्मचर्यताके पंच अतीचार हैं ते त्यागने योग्य हैं। अपने पुत्र पुत्री विना अन्यके पुत्रपुत्रीनिका विवाहकूँ आ समन्तात् कहिये आप रागी होय करवो सो अन्य विवाहाकरण नाम अतीचार है ॥ १ ॥ अर कामके अङ्ग छांड़ि अन्य अङ्गनितैँ कीडा करिवो सो अनङ्गक्रीडा नाम अतीचार है ॥ २ ॥ गहुरि भण्डिमारूप पुरुषकूँ स्त्रीका रूप स्वांगादिक बनाय मनवचनकायकी प्रवृत्ति सो विटत्व नाम अतीचार है ॥ ३ ॥ बहुरि कामकी अतितृष्णा कामकी तीव्रता सो अतितृष्णा नाम अतीचार है ॥ ४ ॥ बहुरि इत्वरिका जे व्यभिचारिणी स्त्री तिनके घर जावना व्यभिचारिणीकूँ आपके घर बुलावना देन लेन रखना परस्पर वार्ता करना रूप शृंगार देखना सो इत्वरिकागमन नाम अतीचार है ॥ ५ ॥ ये स्थूल ब्रह्मचर्यव्रतके पंच अतीचार त्यागने योग्य हैं। जो देवनिकरि पूज्य यो ब्रह्मचर्यव्रत ताकी रक्षा किया चाहै सो अपनी विवाही स्त्री विना अन्य माता भगिनी पुत्री पुत्रवधूके नजीक हू एकान्तस्थानमें नाहीं रहै अन्य स्त्रीका मुख नेत्रादिककूँ अपना नेत्र जोड़ नाहीं देखै। शीलवन्तपुरुषनिका नेत्र अन्य स्त्रीकूँ देखत प्रमाण मुद्रित होय जाय हैं।

अब परिग्रहपरिमाण नामा अणुव्रत कहनेकूँ सूत्र कहै हैं—

धनधान्यादिग्रन्थं परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता ।

परिमितपरिग्रहः स्यादिच्छापरिमाणानामपि ॥ ६१ ॥

अर्थ—अपनै परिणामनिमें जेतामें सन्तोष आजाय तितना धन धान्य द्विपद चतुष्पद गृह क्षेत्र वस्त्र आभरणादि परिग्रहका परिमाण करकै अधिक परिग्रहमें निर्वाञ्छकपनो सो परिमितपरिग्रह नाम व्रत है याहीकूँ इच्छापरिमाण नाम कहिये है। बहुरि कोऊकै वर्त्तमानमें परिग्रह अल्प है अर वां छाअधिक करि बहुत धनमें परिमाण करि यर्याद करै है सोहू धर्मबुद्धि है व्रती है परन्तु अन्यायतैँ लेवाका त्याग दृढ़ राखै जैसेँ कोऊकै परिग्रह तो सौरुपया का है परिमाण हजारका करै जो हजार सिवाय नाहीं ग्रहण करूँ यो भी व्रत है परन्तु हजार अन्यायतैँ नाहीं ग्रहण करूँगा ऐसा दृढ़ नियम करै जातैँ परिग्रहका परिमाण विना निरन्तर परिणाम अथक वस्तुनिमें परिभ्रमण करै है। समस्त पापनिका मूल कारण परिग्रह है समस्त दुर्घ्यान याहीतैँ होय है जातैँ भगवान् मूर्छाकूँ परिग्रह कहा है। बाह्यपरिग्रह अन्य वस्त्रमात्र तथा रहनेकूँ कुटीमात्र नाहीं होतैँ हू परवस्तुमें ममता ( वांछा ) करिसहित है सो परिग्रह ही है। परमाणाममें अन्तरङ्गपरिग्रह चौदह प्रकार कहा है— मिथ्यात्व १ वेद २ राग ३ द्वेष ४ क्रोध ५ मान ६ माया ७ लोभ ८ हास्य ९ रति १० अरति ११ शोक १२ भय १३ जुगुप्सा १४। तहां मिथ्यात्व तो देहादिक पर-

द्रव्यनिमें अनादिकाततै ममत्तरूप परिणाम हैं यह देह है सो मैं हूं जाति मैं हूं कुल मैं हूं इत्यादिक परपुद्गलनिमें आत्मबुद्धि अनादितै लाग रही है सो मिथ्यात्व है तथा रागद्वेषभाव क्रोधादिकभाव मोहकर्मकरि किए भावनिमें आत्मपनाको संकल्प सो मिथ्यात्व परिग्रह है । तथा कामतै उपज्या विकारमें लीन हो जाना तथा राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास्यादिक छह नोकषायनिमें आपा धारना सो अंतरंग परिग्रह है जाकै अंतरंगपरिग्रहका अभाव है ताकै बाह्य-परिग्रहमें ममता नाहीं होय है समस्त अनीति परिग्रहकी ममतासू करै है । परिग्रहकी वाञ्छतै हिंसा करै, भूठ बोलै हां, चोरी करै ही, कुशीलसेवन करै ही, परिग्रहके वास्ते मर जाय, अन्यकू मारै, महा क्रोध करै, परिग्रहका प्रभावतै महाअभिमान करै परिग्रहके वास्ते अनेक मायाचार करै परिग्रहकी ममतातै महालोभ करै । बहुत आरम्भ बहुत कषायको मूल परिग्रह ही है समस्त पापनिमें छूट्या चाहै सो परिग्रहतै विरक्त होय है ।

सो ही कार्तिकेयस्वामी कह्या है—

को ए वसो इत्थिजणे कस्स ए मयणेण खंडियं माणं  
को इंदिएहिं ए जियो को ए कसाएहि संततो ॥ २८१ ॥  
सो ए वसो इत्थिजणे सो ए जियो इन्दि एहिं मोहेण ।  
जो ए य गिण्हदि गंथं अब्भंतरवाहिरं सव्वं ॥ २८२ ॥  
जो लोहं णिहणित्ता संतो सरणायणेण संतुट्ठो ।  
णिहणदि तिरणा दुट्ठा मरणंतो विणस्सरं सव्वं ॥ ३३६ ॥  
जो परिमाणं कुब्बदि धणधाणसुवणखित्तमाइणं ।  
उवओगं जाणित्ता अणुव्वयं पंचमं तस्म ॥ ३४० ॥

अर्थ—इस जगतमें स्त्रीनिके वश कौन नाहीं है अर कामविकारनें कौनका मान खंडन नाहीं किया अर इन्द्रियनिकरि कौन नाहीं जीत्या गया अर कषायनिकरि तप्तयमान कौन नाहीं है ? समस्त संसारी जीव हैं ते स्त्रीनिके वश होय रहे हैं अर कामविकार समस्त संसारीनिका अभिमान खंडन करै हैं अर समस्त संसारी जीव इन्द्रियनिके वश पराधीन होय रहे हैं अर चार प्रकार कषाय-निकरि समस्त प्राणी दग्ध होय रहे हैं जो पुरुष अभ्यंतर अर बाह्य समस्त परिग्रहकू ग्रहण नाहीं करै है सो ही स्त्रीनिके वश नाहीं, सो ही इन्द्रियनिके आधीन नाहीं, तिसहींकू मोह नाहीं जीतै सो ही कामकरि नाहीं खण्डन होय हैं, सो ही कषायकरि दग्ध नाहीं होय है । जो पुरुष लोभको नष्टकरि नतोपरूप रसायणकरि आनन्दित हुआ समस्त धन संपदादिकनिमें विनाशीक मानि दृष्टा तृष्णाकू आगामी वाञ्छाकू छान्दिकरि धन धान्य सुवर्ण चेत्र स्थानादिकनिको अपना अभि-

प्राय जानि परिमाण करै है जो इतना परिग्रहस्य मेरा निर्वाह करना अधिकमें मेरा प्रवृत्ति करने का त्याग है ऐसे पापरूप जानि बांछा छांडै ताकै परिग्रहपरिमाण नामा अणुव्रत होय है । बहुरि परमागममें परिग्रहका लक्षण मूर्च्छा कहा है जीवकै जो परपदार्थनिमें ममताबुद्धि सो ही मूर्च्छा है जातै परवस्तुमें ऐसा अपना मानकरि राग है जो आत्माका जीवन मरण हित-अहित योग्य-अयोग्यके विचारमें अचेत होय रखा है मोहकी उदीरणतैं म्हारो म्हारो ऐसो परद्रव्यमें परिणाम सो ही मूर्च्छा है मूर्च्छा हीकू भगवान परिग्रह कहा है याहीतैं बाह्य परिग्रह अल्प होहु वा मति होहु, समस्त परिग्रहरहित है तो हू मूर्च्छावान परिग्रही है सो ही कहै हैं—

बाहिर-गन्ध-विहीणा, दल्लिहमणुआ सहावदो हुंति ।

अब्भन्तरगन्ध पुण णा सक्कदे को वि छंडेदु ॥ ३६७ ॥

अर्थ—बाह्य परिग्रह-रहित तो दरिद्री मनुष्य स्वभावहीतें होय हैं सो देखिये ही हैं हजारों लाखां मनुष्य ऐसे हैं जिनकू जन्म लिये पीछे पीतल तांवा कांसाका पात्र मिल्या ही नाहीं । जे जन्मतैं घृत भक्षण किया नाहीं, मोदकादिक खाया नाहीं, पाग अंगरखी जामा कदे पहरया ही नाहीं, स्त्री विवाही ही नाहीं, कदे उदर भर भोजन मिल्या नाहीं, सुवर्णादिक देख्या नाहीं, समस्त जन्ममें दोय चार दिनके खावने योग्य अन्नमात्रका हू संग्रह हुआ नाहीं, अन्य सुवर्णरूपादिकनिका तो दर्शन ही नाहीं, पैसा रुपया एक भी जिनकू कदे प्राप्त हुआ नाहीं, रहने को कुटीमात्र हू अपनी भई नाहीं ऐसैं अनेक मनुष्य देखिये हैं परन्तु अभ्यन्तर ममता छोड़नेकू कोऊ समर्थ नाहीं, तातैं मूर्च्छा ही परिग्रह है । यहां कोऊ पूछै—जो मूर्च्छा ही परिग्रह है तो बाह्य धन धान्य वस्त्रादिक बाह्य वस्तुका संगमके परिग्रहपना नाहीं ठहरया ? ताकू उत्तर करै हैं— ये बाह्य परिग्रह अन्तरंग परिग्रहके निमित्त हैं । इन बाह्य परिग्रह का देखना श्रवण करना, चितवन करना शीघ्र ही परिग्रहमें लालसा उपजावै है, ममता उपजावै है, अचेत करै है तातैं बहिरङ्ग परिग्रह मूर्च्छाका कारण त्यागने योग्य है । अर अंतरङ्ग बहिरङ्ग दोऊ प्रकार परिग्रह के ग्रहणकू भगवान हिंसा कही है अर दोय प्रकारका परिग्रहका त्याग सो अहिंसा है ऐसैं परमागमके जानने वाले कहै हैं । जातैं मिथ्यात्व कषायादिक अंतरंगपरिग्रह तों हिंसाहीके दूजे पर्यायनाम हैं । अर बाह्यपरिग्रहमें मूर्च्छा सो ही हिंसा है । बहुरि ये कृष्णादिक लेश्याके अशुभ-परिणाम हू परिग्रहमें रागकरि ही होय है क्योंकि परिणामनिही शुद्धता मंद कषायकरि होय है कषायनिकी मंदता होय सो परिग्रहके अभावतैं होय । अर महान आरम्भ भी परिग्रह की अधिक-तातैं ही होय है । ऐसैं जानि समस्त परिग्रह छांडनेका राग नाहीं घटया तो परिग्रहमें उपयोग माफिक परिमाण करिकें तो रहो । अर जो परिग्रह तो अल्प है अर अधिककी बांछा बनि रही है सो इस बांछातैं प्राप्त नहीं होयगा, लाभ तो अंतरायकर्मका क्षयोपशमतैं होयगा बांछातैं तो और

पाप कर्म का बंध ही होयगा तातैं पाप का कारण परिग्रहकी ममता छांड़ि जेता प्राप्त भया तितनामें सन्तोष धारण करि ही रहो । यहां ऐसा विशेष जानना, यद्यपि समस्त परिग्रह त्यागने योग्य है परन्तु जो गृहस्थपनामें रहि धर्मसेवन करया चाहै सो अपने पुण्यके अनुकूल परिग्रह राखै ही । जो परिग्रह गृहस्थके नाहीं होय तो काल दुकालमें, रोगमें - विधोगमें, व्याहमें मरण में परिणाम ठिकाने रहै नाहीं, परिणाम विगड़ि जाय । तातैं गृहस्थधर्मकी रक्षावास्तै परिग्रह संचय करै ही । अरु आजीविकाको उपाय न्यायमार्गतैं करै ही, क्योंकि साधु तो परिग्रह अल्प हू राखे तो दोऊ लोक तैं भ्रष्ट हो जाय, अरु गृहस्थ परिग्रह नाहीं राखै तो भ्रष्ट होजाय, जातैं गृहस्थाचारमें रहे तो ताकै अल्प तथा बहुत परिग्रह विना परिणाममें समता नाहीं रहै । अरु आजीविका-नाहीं होय तो निराधारका परिणाम धर्मसेवनमें ठहर सकै नाहीं, परिणाम में तीव्र आर्ति मिटै नाहीं, भोजन-पान मिलने योग्य आजीविका विना स्वाध्यायमें पूजनमें, शुभ भावनामें परिणाम ठहरि सके नाहीं, आकुलता करि संक्लेश बधतो जाय, सन्तोष रहै नाहीं । जातैं रोग आवतैं, वृद्धपना आवतैं विधोग होतैं अन्न वस्त्र का आधार विना अपना परिणाम कोऊ देशमें कोऊ काल में थिरता, पावै नाहीं, देहकी रक्षा आजीविका विना नाहीं, देह विना अणुत्रत शील संयम काहेतैं होय ? यातैं अपना पुण्यकी अनुकूलता अरु उद्यम, सामर्थ्य, सहाय साधनादिक देश कालके योग्य विचारि न्यायमार्गतैं आजीविका करि धर्म सेवन करौ । अहिंसातैं, सत्यप्रवृत्तितैं अदत्त परके धनका त्यागकरि आपकू जगतकै लोकनिकै विश्वास आवनेयोग्य पात्र बनो । तथा विद्या, कला चातुर्य करि आजीविका होने योग्य आपकू करौ । पाछैं लाभान्तराय का ज्योपशम प्रमाण लाभ-अलाभ अल्पलाभ होय ताहीमें सन्तोष करो । अरु कुटुम्बका पोषण, देहका पोषण पुण्य के उदयतैं लाभ भया तिस परिमाण करौ । ऋणवान मत होहू, ऋण हुआ पाछैं समस्त धीरज, प्रतीति का अभाव हो जायगा, दीनता प्रगट हो जायगी, एक बार अपनी प्रतीति विगड़ै पाछैं आजीविका होना कठिन है । बहुरि आजीविकाकै अनुकूल खरच राखो, पुण्यवाननिकू देख अधिक खरच करोगे तो जस अरु धर्म अरु नीति तीनों नष्ट हो जायंगे । अरु अन्य पुण्यवानों का खरच देख बराबर करोगे तो दरिद्री होय दोऊ लोकतैं भ्रष्ट हो जायंगे अरु या जानो हो जो हमारी बड़ी आवरू है पूवैं हमारे बड़ा बड़ा कार्य भया है अवं कैसे घटावैं ? जो घटावैं तो हमारा समस्त बड़ापना विगड़ि जाय ऐसी बुद्धि मति करो । पुण्य अगत हो जाय तब बड़ापना कैसे रहेगा ? अब बड़ापना तो सांच, सन्तोष धारण करि शीलकरि विनयकरि दीनता रहितपना करि इन्द्रियनिबे विषयनिशी चाह घटावनेकरि है । जातैं दोऊ लोक में उच्चलता होय पुण्य -को उदय आ जाय तदि जीवकू स्वर्गलोक का महद्विक देव बना दे, चक्रवर्ती करदे । अरु पाप का उदय आवै तदि नरक का नारक तथा एकेन्द्रिय बना दे । तथा भार वहनेवाला रोगी, दरिद्री मनुष्य कर दे तिर्यंच कर दे, इसही भव में राजा होय रंक हो जाय, कौन सा बड़ापनाकू देखो हो । अरु अपने

धन तो अल्प अर अभिमानी होय बहुत धन खरच करोगे तो दरिद्री अर ऋणवान दीन होय समस्ततैं नीचे हो जावोगे निंघताकूँ प्राप्त होय आर्तध्यानतैं दुर्गतिकै पात्र हो जावोगे । तातैं आजीविका होय तातैं अल्प खरच करो । यो ही प्रवीणपणो है, परिदुत्तपणो है जो आमदनीतैं अल्प खरच करै सो ही कुञ्जवानपणो है, सोई उत्तम धर्म है । क्योंकि आमदनीतैं खरच बधावोगे तो अपनी ही बुद्धितैं दरिद्री होय मूर्खता दिखावोगे । अर ऋणवान हो जावोगे तदि उत्तम कुल योग्य आदर-सत्कार आचरण समस्त नष्ट हो जायगा, अर मलीनता प्रगट हो जायगी । अर पूजन स्वाध्याय शुभ भावना में बुद्धि निर्धन हुआ पीछैं, ऋणवान हुआ पीछैं नहीं तिष्ठैगी । तातैं आजीविकतैं अल्प खरच करना ही गृहस्थ की परम नीति है । अर अभिमानी होय अधिक खरच करै ताकैं अन्यका बिना दिया धन ऊपरि चित्त चलि जाय है अनेक असत्य कपटादिक पापमें प्रवृत्ति होय संतोष धर्म नष्ट हो जाय है । कोऊ या कहै-जो आजीविका तो पूर्व कर्मके आधीन हैं धर्म-सेवन अपने आधीन है ताकूँ कहिये है जो-यहां आजीविका पुण्यके आधीन ही है परन्तु धर्मग्रहण होजाना हू पुण्यकर्मका सहाय बिना नहीं होय है । धर्मग्रहणकी योग्यतामें हू एती सामग्री मिले होय है उत्तमकुलमें जन्म पावना, जातैं चाण्डाल, चमार, भील शूद्रादिकके कुलमें धर्मका लाभ कैसे होय ? बहुरि सुदेशमें उपजना, इन्द्रियांकी पूर्णता पावना, रोगरहित देह पावना, शुभ सङ्गति पावना, आजीविकाकी स्थिरता पावना, सम्यक्धर्मका उपदेश पावना, इत्यादिक पुण्यका उदय-जनित बाह्यसामग्री पाये बिना धर्मग्रहण वा धर्मका सेवन नहीं होय है । तातैं जाकैं पूर्वपुण्यका उदयतैं आजीविकाकी स्थिरता होय ताकै धर्मसेवनमें योग्यता होय है । बहुरि जाके इन्द्रियनिकी पूर्णता, नीरोगता होजाय अर न्याय-अन्यायका विवेक तथा धर्म-अधर्म योग्य-अयोग्यका विवेक होय तथा प्रियवचन, विनय, अन्यके धन अर अन्यकी स्त्रीसुं पराङ्मुखता अर आलस्य प्रमादरहितता, धीरता, देश-कालके योग्य वचन होय ताकै अजीविकाका लाभ अर धर्मका लाभ हो जाय । गुणवानकै, निर्लोभीकै, आलस्यरहित उद्यमिकै, विनयवानकै जीविका दुर्लभ नहीं है । आप जीविका योग्य पात्र बन जाय तो जीविका कदाचित् दूर नहीं । लाभान्तराय कर्मका ज्योपशम प्रमाण आजीविका थोड़ी वा बहुत नियमतें बन ही जाय तिसमें सन्तोष करि अधिकमें बांछाका त्याग करि परिग्रहपरिमाणत्रत धारण करो । अर पुण्यका उदयके आधीन आजीविका प्राप्त होजाय तो अनीतिमें प्रवृत्ति करि आजीविकाकूँ नष्ट मत करो । आजीविका नष्ट होजायगी तो धर्म अर जस नष्ट होजायगा । अर अपने भावनिकरि जो नीति धर्म नहीं छांडोगे न्यायमार्ग चालोगे फिर हू असाताका उदयतैं, अग्नितैं, जलतैं, चोरनितैं, राजाकैं उपद्रवतैं आजीविका विगड़ि जाय तथा धन विगड़ जायगा तो धर्म नहीं विगड़ैगा, यश नहीं विगड़ैगा । जगतमें अप्रतीतिका पात्र नहीं होवोगा, अर प्रवल लाभान्तराय का उदयतैं न्यायरूप उद्यम करते हू जो लाभ नहीं होय तो समता ही ग्रहण करो । जो आयुर्कर्म बाजो है तो

भोजनादिककी विधि कर्म मिलाय देगो, कर्म बलवान है। वनमें, पहाड़में, जलमें नगरमें, अन्तरायका क्षयोपशम प्रमाण सबकू मिलै है। कोऊका पुण्य तो ऐसा है जो बहुत लोकनिकू भोजनादिक देय आप भोजन करै है। अर कोऊके अन्तरायका ऐसा उदय है जो अपना उदर हू नहीं भरै है। कोऊकू आधा उदर भरने लायक मिलै है। कोऊकू एक दिन मिलै, एक दिन नहीं मिलै। कोऊकू दो दिनके आंतरे कोऊकू तीन दिनके आंतरे नीरस भोजन मिलै तो हू धर्मात्मा समताकू नहीं छांडै। जो पूर्वे तिर्यंचनिके भवमें कदे उदर भर भोजन भिन्या नहीं, तथा चुधा-तृषाके मारे अनेक वार मरे हैं तातैं अब धैर्य धारण करि जैसे हमारे धर्म नाहीं छूटै तैसे यत्न करना जिनका परिणाममें ऐसा गाढ़ प्रगट होय तो स्वर्गलोकमें महर्दिक देव होय है। बहुरि कोऊ या कहे जो आप तो गाढ़ पकड़ि समता राखै परन्तु कुटुम्ब जाकी गैलि होय तो कहा करै ? तो ऐसे कुटुम्बकू कहै-भो कुटुम्बके जन हो ! जो आपां पूर्वजन्ममें दान दिया नहीं, व्रत पाल्या नहीं, अभच्य भक्षण किये, अन्यायतैं परका धन ग्रहण किया, तिस पापके उदय करि ऐसे दरिद्री भये जो उदरकू भोजन अर वस्त्र भी नहीं सो अपना किया पापका फल है। जो अब अन्य पुण्य-वाननिके आभरण भोजनादिक देखि क्लेशित होवोगे तो केवल आगांनैं हू तिर्यंच गतिके घोर दुःखनिका कारण पापकर्म तथा कोटनि भवपर्यन्त दरिद्रादिकके कारण पापबन्ध करोगे परकी सम्पदा आपकै नहीं आवैगी। क्लेश दुर्घ्यान तृष्णादि कियेतैं दुःख नहीं मिटेगा अर दुःख बधैगा। अर जो अल्प भिन्यामें संतोष करि निर्वाछक होवोगे तो वर्तमानमें तो दुःख ही नहीं व्यापैगा अर समस्त पापकर्मकी निर्जरा ऐसी होयगी जो घोर तपश्चरणतैं हू नहीं होय। अर अन्य भोजन वस्त्रादिक मिले अर परिणाममें आकुलतारहित समताखू रहै तो बड़ा तप है। अर कर्म मुके थाकै शामिल उपजायो सो अब में दैव पुरुषार्थ दोऊनिके अनुकूल द्रव्य उपार्जनमें उद्यम करू हू परन्तु लाभांतरायका क्षयोपशम प्रमाण न्यायमार्गतैं प्राप्त हो जायगा सो तुम्हारे निकट लाऊं हू। अब यामेंखू हमारे विभागका बांटा होय सो हमकू द्यो अर तुम्हारा होय सो तुम विभाग करि भोजनादिक करो। परन्तु अब हम भगवानका उपदेश्या दुर्लभ धर्म ग्रहण किया है सो अब तुम्हारे वास्तै अनीति कपट घोर पापकरि धन नाहीं ग्रहण करेगे, न्यायनीतितैं जैसे धर्म नहीं विगड़ै तैसे उद्यम करि उपाजन करेगे। तुम भी जैसे हमारा धर्म विगड़ि जाय तैसे प्रवर्तन मत करो। अपना अपना पुण्य-पापका फल नोगो। आकुलता छांडि जेता मिलै तितनामें संतोष धारि सुखतैं रहो ऐसा जाकै निश्चय है ताके परिग्रहपरिमाण नामा स्थूल व्रत होय है। और जो कुटुम्बका पोषणके अर्थि पाप-क्रियामें प्रवर्तैं हैं, असत्य चोरी कपट हिंसा इत्यादिक पापनिमें प्रवर्तैं है तिनके घोर पापका बन्ध होय, पापतैं दुर्गतिका पात्र होय हैं। तातैं अन्य जीतव्यमें व्रत शील संयममें ही दृढ़ता करो। केतेक लोक कहै हैं जो धन तो पापहीतैं आवै है पाप पिना धन आवै नहीं, त्यागी व्रती हुआ धन कैसे आवै ? ताकू कहिये है—ऐसी तो तुम्हारी

भ्रान्ति है जो पाप विना धन आवै नाहीं ऐसा कहना अयुक्त है । जो पापहीतै धन आवै तो इस जगतमें लाखां भील चांडाल चोर चुगुल, मनुष्यनिकूँ मारनेवाले, ग्राम दग्ध करनेवाले मार्ग लूटनेवाले समस्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समस्त जाति समस्त कुल पापीनि करि भरया है समस्त पुरुष स्त्री बालकादि हिंसाके करनेकूँ, असत्य बोलनेकूँ, चोरी करनेकूँ तैयार हैं परन्तु जो पूर्वजन्ममें कुपात्र दान दिया है कुतपकरि खोटा पुण्य बांध्या है तिनकै कुमार्गतेँ धन आवै है, पुण्यहीन तो मारया जाय पूर्वपुण्य विना पापतेँ ही तो नाहीं आवै है अर जो पुण्य बांध्या ते पहां चोरी चुगली करयां विना ही सम्पदाकूँ प्राप्त होय है । राजा के घर जन्म ले है तातेँ कोटि धनके धणीनिकैँ घर जन्म ले है । बहुत कहा कहिये समस्त पुण्यका फल है । खोटे पुण्यकी लक्ष्मी भोगि नरक तिर्यचमें जाय डूवै है ।

अत्र परिग्रहपरिमाणव्रतके पंच अतीचार वर्णन करनेकूँ सूत्र कहै हैं—

अतिवाहनातिसंग्रहविस्मयलोभातिभारवहनानि ।

परिमितपरिग्रहस्य च विच्छेपाः पंच लक्ष्यन्ते ॥ ६२ ॥

अर्थ—परिमितपरिग्रह नामा व्रतके ये पंच अतीचार जानिये हैं जो घोड़ा ऊंट बैल इत्यादिक तिर्यचनिकूँ तथा दास दासी सेवकादिकनिकूँ अतिलोभ के वशतेँ मर्यादारहित अतिदूरका मंजल करावै बहुत चलावै सो अतिवाहन नामा अतीचार है ॥१॥ बहुरि अपने गृह में प्रयोजनरहित हू बहुत वस्तुनिका संग्रह करै भोजन वस्त्र पात्र इत्यादिक थोरे का प्रयोजन होय अर बहुत का संग्रह करै तथा धान्यादिक अर वस्त्रादिक तथा औषधादिक तथा काष्ठ पाषाण धातु इत्यादिकनिका संग्रह में बहुत परिणाम रहै सो अतिसंग्रह नामा दूजा अतीचार है ॥२॥ बहुरि अन्य के बहुत संपदा बहुत परिग्रह तथा अनेक देशांतरनिकी वस्तु वा कदे नाहीं देखे ऐसे वस्तु का देखनेकरि श्रवणकरि आश्चर्य करना सो विस्मय नामा तीजा अतीचार है ॥३॥ बहुरि कोऊ बनिज में तथा सेवा में तथा कलां हुनरतेँ आपके अन्तराय के क्षयोपशम प्रमाण लाभ होय तो हू तृप्त नाहीं होना सन्तोष नाहीं आवना सो अतिलोभ नामा चौथा अतीचार है ॥४॥ बहुरि तिर्यचनि ऊपरि लोभ के वशतेँ अधिक भार लादि चलावना सो अति भारवहन नामा पांचमा अतीचार है ॥५॥ जो गृहस्थ परिग्रह परिमाण करै सो इन पांच अतीचार का हू परित्याग करै ।

ऐसेँ गृहस्थनिके धारण करनेयोग्य पंच अणुव्रत कह करिके अब अणुव्रतनिके फल कहनेकूँ सूत्र कहै हैं—

पञ्चाणुव्रतनिधया निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम् ।

यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते ॥ ६३ ॥



अर्थ—अतीचारनिकरि रहित ये पूर्वोक्त पंच अणुव्रतरूप निधि हैं सो देवलोक रूप फलक हैं जिम देवलोकमें अबधिज्ञान अर अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व प्रशित्व ये अष्ट महागुण हैं, अर धातु उपधातुरहित दिव्यशरीर पाइये है ।

भावार्थ—अणुव्रतनिके धारण करनेवाला मरकरि स्वर्गलोकमें महान् अणिमादिक ऋद्धिका धारक देव ही होय अन्य पर्याय नाहीं पावै ऐसा नियम है । स्वर्गमें धातु उपधातुरहित, रोग वृद्धत्वादिकरहित दिव्यशरीरकू प्राप्त होय असंख्यात वर्षपर्यन्त सुखसम्पदामें लीन हुआ तिष्ठै है ।

अब जे पंच अणुव्रतनिकू धारण करि इस लोक में विख्यात महिमाकू प्राप्त भये तिनके नाम प्रकट करनेकू सूत्र कहै हैं—

मातङ्गो धनदेवश्च वारिषेणस्ततः परः ।

नीली जयश्च संप्राप्तः पूजातिशयमुत्तमम् ॥ ६४ ॥

अहिंसा नामा अणुव्रतकरि मातंग जो चांडाल अर सत्य अणुव्रतकरि धनदेव नामा वणिक-पुत्र अर अचौर्यव्रत करि वारिषेण नामा राजपुत्र अर ब्रह्मचर्यव्रतकरि नीली नामा श्रेष्ठीकी पुत्री अर परिग्रहपरिमाणकरि जयकुमार ये व्रतके माहात्म्य करि उत्तम पूजाके अतिशयकू प्राप्त भये इस ही भवमें देवनिकरि पूज्य भये । यद्यपि इन व्रतनिके प्रभावतैं अनेक भव्य इस लोकमें महिमा पाय देवलोकमें गये तथापि आगमप्रसिद्ध इनकी ही कथा है ।

अब पंच पापनि के प्रभावतैं इस लोकमें घोर क्लेश पाय दुर्गति गये तिनका नाम कहनेकू सूत्र कहै हैं—

धनश्रीसत्यघोषौ च तापसीरक्षकावपि ।

उपाख्येयास्तथा श्मश्रु नवनीतो यथाक्रमम् ॥ ६५ ॥

अर्थ—हिंसा करि तो धनश्री, असत्यकरि सत्यघोष, चोरीकरि तापसी, कुशीलकरि कोतवाल, परिग्रहकरि श्मश्रु नवनीत ये इस लोकमें राजनितैं तीव्र दुःख पाय दुर्गतिकू प्राप्त भये इनका यथाक्रम दृष्टान्त जानना ।

अब अष्ट मूलगुणनिकू कहै हैं—

मद्यमांसमधुत्यागैः सहाणुव्रतपंचकम् ।

अष्टौ मूलगुणानाहुर्गृहिणां श्रमणोत्तमाः ॥ ६६ ॥

अर्थ—श्रमणोत्तम जे गणधर तथा श्रुतकेवली हैं ते गृहस्थके मद्य मांस मधुके त्याग सहित जे पंच अणुव्रत ताहि अष्टमूलगुण कहै हैं ।

भावार्थ—जीव मारनेके संकल्पकरि त्रस जीवनिके मारनेका त्याग (१) अन्यके अर आपके क्लेश उपजावनेवाला अर सांचा श्रद्धान ज्ञान आचरणका घात करनेवाला वचन का त्याग (२) विना दिया धरया गड्या भूल्या परके धनके ग्रहण करनेका त्याग (३) अपना कुलके योग्य विवाही स्त्री विना अन्य समस्त स्त्रीनिमें रागका त्याग (४) न्यायकरि उपजाया परिग्रहके मांहि परिणामकरि अधिक परिग्रह का त्याग (५) ये पांच तो अणुव्रत, अर जिसतैं परिणाम मोहित होय अर अपना हित अहितकी सावधानी बिगड़ि जाय सो मद्य है ताका त्याग (६) अर द्वीन्द्रि-आदिक जीवनिके देहतैं उपज्या मांसका त्याग ७ अर मत्तिकानिकरि संचय किया मधुच्छतातैं उपज्या मधुका त्याग (८) इन अष्टका त्याग सो अष्टमूलगुण हैं जातैं गृहस्थके पंच पाप अर तीन मकारका त्यागमें दृढ़ता होजाय तदि समस्त गुणरूप महलकी नीव लग गई। अनादिकालतैं संसारमें परिभ्रमणका कारण मिथ्यात्व अन्याय अर अभच्य था तिनका अभाव हुआ तब अनेक गुणग्रहणका पात्र भया तातैं ये अष्ट त्याग हैं ते ही मूलगुण हैं। बहुरि अन्य ग्रन्थनिमें पंच उदंवरफल अर तीन मकारका त्यागतैं अष्टमूलगुण कहै हैं इहां उदुम्बर (१) कठूमर (२) गूलर (३) पीपलका गोल (४) बडका बडवाल्या (५) ये पंच उदुम्बर फल कहिये है इनमें बहुत त्रस जीवनिक् प्रगट देखिये है तातैं इन फलनिका भक्षण मांस के समान है और हू केतेक फल जिनमें काल पाय त्रस मर जाय तिनका भक्षण में हू रागभासकी अधिकतातैं महाहिंसा होय है। जाकैं ऐसा परिणाम होय जो याकू में सुखाय खाऊंगा तिसकैं अभच्यमें तीव्र अनुराग तैं बहुत बन्ध होय है। मदिरा है सो मनकू मोहित करै है अचेत करै है अर मन मोहित हो जाय सो धर्मकू विस्मरण होजाय अर धर्म भूलि जाय सो पुरुष निःशंक हिंसाकू आचरण करै है ऐसा विशेष जानना। जो वस्तु मनकू उन्मत्त करै स्वरूपकी सावधानी भुलाय विषयोंमें आसक्तता उपजावे रसना इन्द्रिय अर उपस्थ इन्द्रियके विषयमें अतिराग उपजावै सो ही मद्य है यातैं भङ्ग पीवना तथा अमल (अफीम) पोस्त आदिक नशाकी वस्तु तथा इनके संयोगतैं उपजे पाक माजूम इन समस्त मदकारी वस्तुके भक्षण करनेतैं धर्मबुद्धिका नाश होय है अर अभच्य भक्षण में रक्त हो-जाय बुद्धिकी उज्ज्वलता परमार्थका विचार नष्ट होजाय है तातैं जिनेन्द्रकी आज्ञाकू धारण करया चाहै तो अवश्य अमलकारी वस्तुका भक्षणका त्याग करै है। बहुरि भांगमें त्रस जीव बहुत उपजे हैं अर मदिरामें तो अपरिमाण त्रस जीवनिकी उत्पत्ति है महा दुर्गन्ध है। उत्तम कुलके पुरुष मदिराकी धारा दूरतैं हू भोजन करते देख लें तो भोजन का शीघ्र त्याग करै अर स्पर्शन तैं वस्त्र-सहित स्नान करै। मदिराकरि उन्मत्त होय सो माताकू पुत्रीकू स्त्रीरूप आचरण करै है। अर अपनी स्त्रीकू माता पुत्रीरूप आचरण करै है। भय ग्लानि क्रोध काम लोभ हास्य रति अरति शोक ये समस्त दोष हिंसादिक के कारण हैं ते समस्त मद्यपयोंकैं होय हैं तातैं धर्मका अर्थी मद्यपान का दूरहीतैं त्याग करै।

बहुरि द्वींइं द्रियादिक प्राणीनिके घात करनेतैं मांस उपजै है अर जाकी आकृति महाघृणा उपजावे है मांसका स्पर्शन अर दुर्गन्ध अर नाम ही परिणाममें महाग्लानि उपजावै है। जे धर्मरहित नरकादिकके जानेवाले महा निर्दय परिणामी होय ते मांस भक्षण करै हैं अर जो स्वयमेव मरे हुए बलद भैसा अजा मृगादिकनिका मांस है ताके आश्रय अनन्त तो वादर निगो-दिया जीव अर असंख्यात त्रसजीव-तिनका घात होय है। बहुरि कच्चा मांसमें अर अग्निकरि पक्या मांसमें अर जिस काल नीचे अग्नि लाग करि सीके है तिसकाल पकता हुआ मांसमें हू अनन्त जीव निरन्तर उपजै हैं तैसी ही जातिका जीव समय-समय उपजै हैं तातैं कच्चा मांस, पक्या हुआ मांस, वा पकता हुआ मांस सूका हुआ मांसकूँ जो खाय हैं तथा मांस की डलीको स्पर्शन करै हैं ते मनुष्य निरन्तर संचय किया ऐसा बहुत जीवनिका घात करै। हैं। बहुरि चांडालनि की उच्छिष्टकपायीनिकी म्लेच्छनिकी कूकरनि की उच्छिष्ट तो मांस होय ही है। मांस भक्षीनिके दया नाहीं आचार नाहीं जाति कुल धर्म दया क्षमादिक समस्त गुणनिकरि भ्रष्ट हैं। दुर्गतिगामी महापापी महानिर्दयीनिनैं मांस भक्षणकूँ शास्त्रनिमें धर्म कहा है। मांसकरि देवता तथा पितरनिकूँ तृप्त होना कहैं देवतानिकूँ मांसभक्षी कहैं श्राद्धनिमें ब्राह्मणनिकूँ मांसपिंड भक्षण कराय देवनिका पितरनिका तृप्त होना कहै हैं सो ये समस्त मिथ्यादर्शनका प्रभाव है।

बहुरि मधु समान-कोरु अधम नाहीं। मत्तिकानिका वमन भील चाण्डालनिकी उच्छिष्ट अनन्तजीवनिका स्थान है बहुत मत्तिकानिकूँ मारि भील चांडाल ल्यावैं वा स्वयमेव मरै हैं तिनमें हू असंख्यात त्रसजीवनिकी उत्पत्ति है याकूँ पवित्र मानना पंचामृतनिमें कहना, याकूँ शुद्ध कहना इस समान विपरीत और नाहीं। शहद का एक कणमात्र हू जो औषधादिकनिके अर्थि ग्रहण-करै हैं रोग के दूर करनेकूँ भक्षण करै हैं सो नरकनिके घोर दुःख भोगि असंख्यात वा अनन्त जन्मनिमें अनेक रोगनिका पात्र होय है। मधु मद्य मांस नवनीत- ( मक्खन ) ये चार महाविकृति भगवान के पुरमागममें कहे हैं जो जिनधर्म ग्रहण करै सो मद्य माखन मांस मधु इन चार विकृतिनिका प्रथम ही परित्याग करै। इन चारनिकूँ भगवान् महाविकृति कही है इनका परिहार विना धर्मका उपदेश का पात्र ही नाहीं होय है। धर्म है सो अहिंसारूप है ऐसैं जिनेन्द्रनि की आज्ञा वारम्बार श्रवण करते हू जो स्यावरनिकी हिंसाकूँ छांडनेकूँ असमर्थ हैं ते त्रस जीव-निकी हिंसाकूँ तो शीघ्र ही छोडो। हिंसाका त्याग नव प्रकार करि है मनकरि हिंसा करै नाहीं, अन्यकरि हिंसा करावै नाहीं, अन्य हिंसा करै ताकूँ सराहै नाहीं। ऐसैं ही वचनकरि हिंसा करै नाहीं, करावै नाहीं, करतेकूँ प्रशंसा करै नाहीं। ऐसैं ही कायकरि हिंसा करै नाहीं, परकूँ हिंसा करनेकूँ प्रेरणा करै नाहीं, करनेवालेकी प्रशंसा करै नाहीं। ऐसैं मन वचन कायद्वारै कृत कारित-अनुमोदनाकरि हिंसाकूँ छांडै है तिसके औत्सर्गिक त्याग कहिये उत्कृष्ट त्याग है। अर नव भङ्ग विना जो त्याग सो अपवादिक त्याग कहिये सो अनेक प्रकार है। या अहिंसाधर्म मोक्षको

कारण अर समस्त संसारके परिभ्रमणका दुःखरूप रोगके मेटनेकूँ अमृत समान पाय करके अज्ञानी मिथ्यादृष्टिनिका अयोग्य आचरण देखि अपने परिणाममें आकुल मत होहू । संसारमें कर्मके प्रेरे अनेक प्रकारके जीव हैं । कई हिंसाकूँ हैं कई अभक्ष्य भक्षण करनेवाले हैं कई क्रोधी लोभी मानी मायावी महाआरम्भी महापरिग्रही हैं अन्यायमार्गी हैं । तिनकी अनीति देखि अपने परिणाम मत विगाडो । कर्मके प्रेरे जीव आपा भूल रहे हैं आप तो साम्यभाव ही ग्रहण करो । कोऊ या कहै भगवानका धर्म सूक्ष्म है धर्मके अर्थि हिंसा होनेमें दोष नाही ऐसै धर्ममूढ़ होय करिके प्राणीनिकी हिंसा नाही करिये । बहुरि जो देवके निमित्त गुरुके कार्य करनेके निमित्त करी हुई हिंसा हू शुभ नाही है हिंसा तो पाप ही है । धर्म तो दयारूप है । जो देव गुरुके कार्य करनेके निमित्त हिंसाका आरम्भ ही धर्म होय तो हिंसारहित धर्म है ऐसा जिनेन्द्रका वाक्य असत्य हो जाय यातै हिंसाकूँ धर्म कदाचित् श्रद्धान मत करो । कोऊ कहै धर्म तो देवतानितै होय है, देवतानिके निमित्त समस्त देना योग्य है ऐसी विपरीत बुद्धिकरि प्राणीनिकी हिंसा करना योग्य नाही । बहुरि केतेक कहै हैं देवी कहिये कात्यायनी चण्डिका भवानी दुर्गा पार्वती इत्यादिक नाम करिके प्रसिद्ध हैं ताके बकरा तथा भैंसा मारि चढ़ाइये या भवानी इतै ही प्रसन्न है सो मिथ्यादृष्टिनिके वाक्यतै चलायमान नाही होना । एक तो यह विचार करो जो देवी जीवनिका मांसकूँ भोगना चाहै है तो आप अनेक भुजानिमें शस्त्रधारण करि भोंह चक्र करि खड़ी है आप ही जीवनिकूँ मारि करि भक्षण क्यों नाही करै है ? अपने भक्तनितै दीन अनाथ जीवनिकूँ भयभीतनिकूँ क्यों मरावै है ? आप ही सिंह व्याघ्रादिक ज्यों सिंहादिकानै मारि क्यों नाही भक्षण करै है ? और आप देवता होय करि हू कागला कूकरा भील चांडालकी ज्यों मांस भक्षणमें रत है क्षुधातुर है, दुःखी है ताके काहेका देवपना ? जो आप ही दुखी आसक्त भो भक्तनिकूँ कैसे सुखी करैगा ? महादुर्गन्ध तिर्यञ्चनिके दुर्गन्धमय घृणा देनेवाला मांसका इच्छक महापापीनिके देवपना नाही होय है । पापनिनै भूटे शास्त्र वनाय आपके मांस भक्षण करनेकूँ अर मूढलोकनिकूँ देवीनिका प्रसादके संकल्पतै मांस भक्षणमें प्रवृत्ति कराय जगतके जीवनिकूँ अपनी इन्द्रियनिके पुष्ट करनेकूँ नरकमें डबोवै हैं । जिनेन्द्रके परमागममें तो भवनवासी व्यन्तर, ज्योतिपी, कल्पवासी चार प्रकारके देवनिकै कवलाहार नाही है मानसीक आहार कहा है । कोऊ कालमें इच्छा उपजते प्रमाण अपने कण्ठ हीमें अमृत भरै है तिसकरि लेशमात्र क्षुधावेदना रहै नाही । तिनके दिव्य वैक्रियिक देह सात धातु उपधातुरहित महादिव्यरूप सुगन्ध शरीर है । देवनिके मांस भक्षण कहना महाविपरीत बुद्धि है । जो देवता मांसभक्षी है तो कागला कूकरा गीध स्यात्तै हू देवता नीच ठहरया तातै देवताके अर्थि हिंसा करना योग्य नाही । अर कोऊ मांसभक्षी गुरुके अर्थि मांसका दान मत करो । जो पापी मांसादिक अभक्ष्य भक्षण करै मदिरा पीवै वह पापी काहेका गुरु ? जो तो मांसादिक भक्षण कराय नरक पोहचाव-

नेका गुरु है। ताके स्पर्शनेतैं देखनेतैं घोर पापका बन्ध होय है। व्हुरि कोऊ कहै अन्नादिकके भक्षणमें तो बहुत जीवनिका घात है तातैं एक जीवकूँ मारि भक्षण करना श्रेष्ठ है ऐसा विचार करि बड़ा प्राणीकूँ मारि खावना योग्य नाही जातैं एकेन्द्रिय प्रत्येकवनस्पति पृथ्वी, जल, अग्नि पवन समस्त त्रैलोक्य में भरे हुए समस्त विकलत्रय अर समस्त देव मनुष्य तिर्यंच इन समस्त-निकूँ इकट्ठा करि गिणिये तो समस्त असंख्यात परिमाण है अर मनुष्य तिर्यंचनिके मांसका एक कणामें एते वादर निगोदिया जीव हैं जो त्रैलोक्यके एकेन्द्री वेन्द्री तेइन्द्री चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय समस्त मनुष्य तिर्यंच देव नारकीनितैं अनन्तगुणा भगवान् सर्वज्ञ देखि परमागममें कह्या है तातैं अन्न जलादिक असंख्यात वरस भक्षण करै तिसमें जो एकेन्द्रीकी हिंसा होय तातैं अनन्तगुणे जीवनिकी हिंसा सूईकी अणीमात्र मांसके भक्षण करनेमें है। व्हुरि एकेन्द्रीकी हिंसा अर त्रसहिंसा बराबर नाही है दुःखमें हू बड़ा अन्तर है। ज्ञानमें बड़ा अन्तर हैं। एकेन्द्रीका शरीर रस रुधिर हाड मांस चामादिक धातुकरि रहित है। अर मांस भक्षणमें तीव्र परिणाम तीव्र निर्दयपना है तैसा अन्नके भक्षणमें नाही है। जैसे अपनी स्त्रीकूँ स्पर्श करनेमें अर अपनी पुत्रीके माताके स्पर्श करनेमें परिणाम कैसैं समान होय, बड़ा अन्तर है तातैं बहुत कहनेकरि कहा त्रस-जीवका घात करना घोर पाप जानना

व्हुरि ऐसी आशंका हू मत करो जो यह सिंह व्याघ्र सर्पादिक बहुत प्राणीनिका घातक हैं इनकूँ मारे बहुत जीवनिकी रक्षा होयगी ऐसी मिथ्याबुद्धिकरि हिंसक जीवनिकी हिंसा हू मत करो। जातैं कौन हिंसककूँ मारोगे ? चिड़ी कागला सूबा मैना तीतर इत्यादिक समस्त पक्षी हिंसक हैं तथा कीडा कीडी लट मकड़ी माखी सर्प वीछू इत्यादिक तथा ऊंदरा कूतरा विलाव स्याल सिंह अनेक तिर्यंच मनुष्यादिक समस्त जीव पापकर्मके सन्तापतैं हिंसक ही हैं। तुम कौन कौनकी हिंसा करोगे ? और तुम्हारे हिंसक जीवनिके मारनेका विचार भया तब तुम समस्त हिंसकनिके घात करनेवाले महाहिंसक भये। तुम्हारे समान पापी कौन रह्या ? तातैं हिंसक जीवनि की हिंसाके परिणाम कदाचित् मत करो ? हिंसक कौननै किया ? पूर्वैं उपजाये अपने कर्मके आधीन समस्त जीव उपजै हैं पापका सन्तान अनन्त कालतैं चल्या आया है कौन दूर करि सकै। पापी जीव कौननै किया, पुण्यवान कौननै समस्त कर्मकी विचित्रता है। कालके प्रभावतैं पापी जीवनिको पापके फल देनेकूँ अनेक पापी जीव उपजै हैं कौन दूर करनेकूँ समर्थ है तातैं दयावान होय समस्त जीवनिकी करुणा ही करो। व्हुरि ऐसा विचार ही मत करो जो यो बहुत जीवैगा तो पापका बन्ध करैगा जो इस पापरूप पर्यायतैं छूटि जाय तो याकै बहुत पापका बन्ध नाही होय ऐसी करुणा करकै हू पापी जीवनिकूँ मत मारो जातै तुम तो समस्तकी दया ही करो। व्हुरि ये जीव बहुत दुःख करि पीडित हैं जो मरण करि जाय तो शीघ्र ही दुःखसौं छूटि जाय सो ऐसा मिथ्या विचार हू मत करो जातैं मरण

करि जो जायगा तो वत्तमानकी पर्याय ही छूटैगी असाता कर्म नाही छूटेगा । जो यहाँतैं छूटि अन्य पर्याय तिर्यच नरक मनुष्यादिक पावैगा तहां बहुतगुणा रोग दरिद्र प्राप्त होयगा बहुत काल दुःख भोगैगा । बहुत कहने करि कहा है जो कदाचित् सूर्यका उदय पश्चिम दिशामें हो जाय, अग्नि शीतल हो जाय, चन्द्रमाकी किरण उष्ण हो जाय अर सूर्यका आताप शीतल हो जाय और समस्त पृथ्वी जगतके ऊपरि हो जाय अर पाषाणमय भारी गोला जलतैं तिर जाय अर अग्निमें कमल उपजि जाय अर सूर्यकूँ अस्त होतैं दिनका प्रारम्भ हो जाय, सर्पका मुखमें अमृत हो जाय, कलह तैं यश हो जाय अजीर्णतैं रोग नष्ट हो जाय, कालकूट जहरके भक्षणतैं जीवना वधि जाय, विवादतैं प्रीति वधि जाय तो हू हिंसातैं तो धर्म नाही उपजैगा । जगतमें एते नाही होने योग्य कार्य हो जाय तो होहू, परन्तु हिंसाके परिणामतैं तो कोऊ देश कोऊ कालमें धर्म नाही हुआ नाही होय है, अर नाही होयगा । अब यहां कोऊ आशंका करै जो गृहस्थ जिनमन्दिर करावै है उपकरण करावै है जिन-पूजा करै है इनमें हू आरम्भ ही है अर आरम्भ है तहां हिंसा होय ही तातैं जिन मन्दिरादिक बनवानेमें धर्म कैसेँ सम्भवै है ? ताकूँ उत्तर कहिये है जो गृहस्थ आरम्भादिकका त्यागी है अर जाका परिणाम वीतरागतारूप होय धनका उपर्जनादिकसूँ विरक्त होयगा ताकूँ मन्दिरादिक बनवाना योग्य नाही । अर जाका राग धन परिग्रहसूँ आरम्भसूँ घट्या नाही अभिमान घट्या नाही अपनी जाति कुलादिकमें ऊँचे होनेकै अर्थि अभिमानतैं विख्यातता अर्थि अपने भोगनिके अर्थि हवेली महल चित्रशालादिक बनावै है, बाग बनावै है अनेक अने विहार करनेके स्थान बनावै है सन्तानादिकोंके विवाहादिकमें बहुत धन लगावै है जाति कुल नगर निवासीनिकूँ जिमावै है तिनकूँ कोऊ धर्मात्मा शिन्ना करै है जो तुम्हारा राग आरम्भादिकतैं नाही घट्या तो ये केवल पापवन्धके कारण अभिमानादिक पुष्ट करने वाले पापके आरम्भनिकूँ त्यागकरि जिनमन्दिर बनवानेका आरम्भ करो जिसके प्रभावतैं तुम्हारा अशुभ राग घटि जाय अर आगेकूँ तुम्हारे परिणाम वीतरागके सम्मुख होजाय, अर अहिंसाधर्मका प्रवर्तन वधि जाय, अनेक जीव स्वाध्यायकरि शास्त्र-श्रवणकरि वीतरागका दर्शन भावना पापाचारका रोकना, शील संयम ध्यानकी वृद्धि करना इत्यादिक उत्तम कार्य करि धर्मकी वृद्धि करै । जिनमन्दिर है सो अहिंसाधर्मका आयतन है जिनमन्दिरका निमित्तसूँ अनेक जीव पापाचारछाँडि जिनमन्दिरमें आवैं तदि जिनधर्मके शास्त्रश्रवण करै तदि अपना अर परद्रव्यनिका भेदविज्ञान उपजै तदि मिथ्यादेव मिथ्यागुरु मिथ्याधर्मकी उपासना छाँडि सर्वज्ञ वीतरागके धर्ममें प्रवर्तन करै तदि हिंसादिक पापनितैं सप्तव्यसनतैं अन्यायतैं अभक्षतैं विरक्त होय वीतरागके ध्यानमें, पूजनमें, कायोत्सर्गमें, सामायिकमें, संयममें उपवास शील संयम दान व्रत प्रभावनामें लीन होय मोक्षमार्गमें प्रवर्तन करै तातैं ऐसा निश्चय जानहु जिनमन्दिरका निमित्त विना मोक्षमार्ग नाही प्रवर्तै । तातैं जा पुरुषनै जिनमन्दिर

कराया सो बहुत जीवनि का उपकार किया। वहुरि आपका हू बड़ा उपकार है आप करावनेवाले का परिणाम सुलटे मार्ग में लगी जाय हैं जो मैं जिनेन्द्र वीतराग का मंदिर कराया है अब जो मैं अन्याय मार्ग चलूंगा तो जगत में निंद्य हो जाऊंगा। मैं अभक्ष्य—भक्षण कैसे करूं, भूठ कैसे बोलूँ, व्यसननि में प्रवृत्ति कैसे करूं, कलह करना गाली देना लोकनिंद्य कर्म करना ये अयोग्य दुराचार तो लोकलाजतैं ही अति दूर जाता रहै है अरु परिणाम ऐसा हो जाय जो मन्दिर में मैं मन्दिर करानेवाला ही प्रवर्तन नहीं करूंगा तो और कौन प्रवर्तैगा ऐसा विचार करि अभिपेकमें, जिन-पूजनमें शास्त्र-श्रवणमें जापमें व्रतमें जागरण भजनमें प्रवर्तन लगी जाय तदि आपके धर्म में अतिप्रीति वधि जाय शास्त्रके वाचनेवालेनितैं शास्त्रश्रवण करनेवालेनितैं धर्ममें प्रीति करनेवाले साधर्मीनिष्ठ सिद्धांतकी चर्चा कथनी करनेवालेनिमें अनुराग वधता चल्या जाय पढ़ने वालेनिष्ठ अतिहर्ष वधै। वहुरि आज मन्दिरमें पूजन कौन कौन किया दर्शनमें कौन कौन आवै है यहां व्याख्यान में कौन कौन बैठे है आज उपवासवाले केतेक हैं अबकैं बेला तेला कौन कौन किया प्रोषधोपवासवाले केतेक हैं जागरणमें केतेक लोग लुगाई प्रवर्तैं हैं, भजन गान बहुत सुन्दर भये, ऐसैं धर्मकी प्रवृत्ति देखि बहुत आनन्द वधै, समस्त साधर्मीनिमें वात्सल्यता दिन दिन वधै अरु हजारां लोग लुगाईनिमें प्रभाव जैसे जैसे प्रगट होय तैसे तैसे धर्मानुराग वधता चल्या जाय। वहुरि गृहचारका नुकता व्योहार विवाह करना, वस्त्र बनवाना, आभरण बनवाना, अपने रहनेका जायगामें मकान बनवाना, चित्राम करावना सुवर्ण लगावना इत्यादि रागके वधावनेवाले पाप कार्यनिमें तो प्रीति घटि जाय है जो इनकरि कहा प्रयोजन है, कौनकूँ दिखावना है, पाप का कारण है निंद्य है ऐसा विराग आजाय है लज्जा आजाय जो पाप कार्यकूँ कहा दिखाऊँ ? जो एता धन मन्दिर में लगाऊँ तो बहुत जीवनिकै बहुत काल पर्यन्त धर्म में अनुराग वधै ऐसा विचार जो धन लगावै सो मन्दिरके उपकरणनिमें सिंहासन छत्र चामर भामण्डल घण्टा ठोणा कलश तथा थाल रक्वावी भारी धूपदहनादिक समवशरणादि अनेक उपकरण सुवर्ण रूपाके कांसेके पीतलके उपकरणनिमें धन लगाय आपकैं धर्मात्मा जननिकै धर्ममें अनुराग वधावै तथा गदेली चांदनी पडदा सायबान इत्यादिकनिकरि साधर्मी धर्मसेवन करनेवालैनि का बडा धैयाव्रत होय है तथा विवाहादिकमें लगाया धनतैं ऐसी कीर्ति उच्चपना प्रगट नहीं होय जैसा मन्दिर करानेवालेका बहुत काल पर्यन्त कीर्ति (यश) प्रकट होजाय अपने देशके समस्त लोक पूजन प्रभावना दर्शन धर्मश्रवण करि महान पुण्य उपार्जन करैं हैं।

यहां कौऊ कहैं मन्दिर करावना उपकरण कराय जिनमान्दरमें मेलना अपना अरु अन्यका उपकार तो करैं हैं परन्तु मन्दिर करावने में छहकायके जीवनि की हिंसा तो धर्म के घात करनेवाली होय ही है।

ऐसे कहनेवालेकूँ उचर करिए है—यामें हिंसा नाहीं होय है हिंसा तो अपना जीवघात करनेका परिणाम होयगा तदि होयगी । मन्दिर करानेवालेके हिंसा करनेका परिणाम नाहीं है अहिंसाधर्म मे प्रवृत्ति करनेका परिणाम है जैसे मुनीश्वरनिकूँ यत्नाचारतै आहार देता गृहस्थके हिंसा नाहीं, तथा जैसे माधुनिकी वन्दनाके अर्थि वा धर्मश्रवणके अर्थि गमन करता गृहस्थके हिंसा नाहीं होय है तथा जैसे नित्य विहार करता ईर्यापथ सोधि गमन करता मुनीश्वरनिके हिंसा नाहीं है तथा मुनीश्वर नित्य उपदेश करै हैं गमन करै हैं शयन करै हैं उठै हैं बैठे हैं आहार करै हैं नीहार करै हैं वन्दना करै हैं कायोत्सर्ग करै हैं तीर्थ वंदना गुरुवंदनाकूँ जाय हैं तिन कार्यनिमें हिंसक परिणाम विना जीवकी विराधना होते हू हिंसा नाहीं है जीवनि करि तो धरती आकाश समस्त वस्तु भरया है परन्तु कपायके वशि होय दयाभाव समस्त रहित होय प्रवर्तन करैगा तिसकै जीव मरो वा मत मरो, हिंसा ही है । जातै अपना परिणाममें दया नाहीं । हिंसाभाव अर अहिंसाभाव तो जीवके परिणाम हैं बाह्यमें जीवका घात अघातके आधीन नाहीं सो पूर्वे बहुत वर्णन किया है । अब यहां मन्दिर बनावनेवालेका परिणाम विचारो जाकूँ हवेली बनावनेमें वाग बनानेमें कुआ वावड़ी बनानेमें महाहिंसा दीखै है अर जिसकै लाभ घट्या है धनसूँ ममता टूटी है पापतै भयभीत भया है सो मन्दिर करावै है । पहले गृहस्थकै व्यापारनिमें तो प्रवर्तनि करै था तदि दयाधर्मकूँ याद हू नाहीं करै था । अब सब काममें धर्महीसूँ परिणाम जोड़ै है जो यत्नसूँ करो यो मन्दिरको काम है जल दोहरा नातणासूँ छान छान लगावै है । कली चूना तगार दो दिन सिवाय नाहीं राखै दो दिनमें उठावनेमें यत्न करै है अर उठावना मेलना धरना इनमें अपना परिणाम तो यही राखै है जो यत्नसूँ करो विराधनाकूँ टालो । इत्यादिक कार्यनिमें हिंसाका परिणाम तो नाहीं करै है अपना परिणाम तो धर्मके आयतन बनावनेका है जो धर्मका स्थान बनि जायगा तो यामें अखण्ड अहिंसाधर्म प्रवर्तैगा । अर यो मन्दिर है सो महान धर्मको आयतन है गृहसम्बन्धी बहुत हिंसा आरम्भ घटाय परिणामनिमें दयारूप प्रवर्तनमें यत्न किया है मन्दिरमें पग धरतां प्रमाण ईर्यापथ सोधि चालो यो मन्दिर है मत विराधना हो जायो मन्दिरमें मन्दिरमें प्रवेश किये पीछे जैनीनिकै इतने त्याग तो विना करै ही हैं—भोजनका त्याग जलपानका त्याग विकथाका त्याग गाली का त्याग शयन का त्याग पवन लेनेका त्याग वनज करनेका त्याग इत्यादिक पापवन्धके कारण समस्त दुर्गचारका त्याग होय है तातै जिनमन्दिर तो समस्त प्रकार अहिंसा धर्महीका प्रवर्तक जानना जामें आरम्भ विषय कपायनिका त्याग करने की ही महिमा है ।

ऐसे मांसादिकका त्यागरूप मूलगुण कहि अब तीन प्रकार गुणव्रत कहनेकूँ सूत्र कहै हैं—



अर्थ—दिशानिकी मर्यादा करी तिनमें अज्ञानतैं वा प्रमादतैं पर्वतादिक ऊपरि चढावना सो ऊर्ध्वातिपात अतीचार है। रूप वावडी इत्यादिकनिमें नीचैं उतरयो सो अधःअतिक्रम है। तिर्यक् गुफादिकनिमें प्रवेश करना सो तिर्यग्गतिक्रम है। बहुरि क्षेत्र वधाय लेना सो क्षेत्र-वृद्धि अतीचार है। त्याग किया तिसका विस्मरण हो जोना सो विस्मरण नाम अतीचार है। ये दिग्ब्रतके पंच अतीचार हैं।

अब अनर्थदण्डत्यागव्रत कहनेकूँ अष्ट सूत्र कहै हैं—

अभ्यन्तरं दिग्वधेरपार्थकेभ्यः सपापयोगेभ्यः ।

विरमाणमनर्थदण्डव्रतं विदुर्व्रतधराग्रयः ॥ ७४ ॥

अर्थ—आप जो दिशानिकी मर्यादा करी ताके मांहि वृथा जे मनवचनकायके योगनिकी प्रवृत्त तिनतैं विरक्त होना ताहि व्रतधरनिमें अग्रणी जे भगवान ते अनर्थदण्डव्रत कहै हैं।

भावार्थ—मर्यादा करि लीनी तहां हू ऐसा कर्म करै जातैं अपना प्रयोजन हू नाहीं सधै अर वृथा पापका बन्ध होय दण्ड भुगतना पडै सो अनर्थदण्ड है सो अनर्थदण्ड त्यागने योग्य है जातैं जिसके करनेतैं अपना विषयभोग हू नाहीं सधै कुछ लाभ हू नाहीं होय यश हू नाहीं होय धर्म हू नाहीं होय। अर पापका बन्ध निरन्तर होय जाका फल कडवा दुर्गतिनिमें भोगना पडै सो अनर्थदण्ड त्यागने ही योग्य है।

अब अनर्थदण्ड पांच प्रकार है तिनकूँ कहै हैं—

पापोपदेशहिंसादानापध्यानदुःश्रुतीः पंच ।

प्राहुः प्रमादचर्यामनर्थदण्डानदण्डधराः ॥ ७५ ॥

अर्थ— पापका उपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति, प्रमादचर्या ए पांच अनर्थदण्ड हैं तिननै अदण्डधर जे गणधर देव हैं ते कहै हैं।

भावार्थ—अशुभ मन वचन कायके योग तिनकूँ दण्ड कहिये है, जातैं समस्त जीवनिकूँ अपने अपने अशुभ मनवचनकायके योग ही दुर्गतिनिमें नानाप्रकार दंड दे हैं तातैं अशुभ मनवचनकायकूँ दंड कहिये, ताकूँ अदंडधर जे अशुभ योगनिकूँ नाहीं धारैं ऐसे गणधरदेव हैं ते पांच प्रकार अनर्थदण्ड कह्या है। पापका उपदेश देना सो पापोपदेश ॥ १ ॥ हिंसाके उपकरणनिका दान सो हिंसादान ॥ २ ॥ छोटा ध्यान सो अपध्यान ॥ ३ ॥ छोटा श्रवण करना सो दुःश्रुति ॥ ४ ॥ प्रमादरूप चर्या करणा सो प्रमादचर्या ॥ ५ ॥ ऐमें पांच प्रकार अनर्थदंड हैं।

अब पापोपदेश नाम अनर्थदंड कहनेकूँ सूत्र कहै हैं—

तिर्यक्क्लेशवणिज्याहिंसारम्भप्रलम्भनादीनाम् ।

प्रसवः कथाप्रसंगः स्मर्तव्यः पाप उपदेशः ॥ ७६ ॥

अर्थ—जे तिर्यचनिके क्लेश उपजनेकी तथा वनज कहिये बेचनेकी खरीदनेकी अर हिंसा की अर आरम्भकी अर प्रलंभ कहिये कपट ठगपनाकी इत्यादिक पाप उपजनेकी कथामें बारम्बार प्रवृत्तिरूप उपदेश करनेतैं पापोपदेश नामा अनर्थदण्ड है ।

भावार्थ—तिर्यचनिकू मारनेका, डाहनेका दृढ़ बांधनेका मर्मस्थानमें पीड़ा करनेका, बहुत बोक लादनेका, बाधी करनेका नाशिका फोड़नेका, तिर्यचनिको पकड़नेका पिंजरेनिमें रोकनेका जो उपदेश सो तिर्यक्क्लेश नामा पापोपदेश है । तथा अनेक वस्तुनिमें पाप उपजानेवाला वनजका उपदेश तथा जिनतैं छहकायके जीवनिकी हिंसा होय ऐसा उपदेश सो हिंसोपदेश है । अर बाग वनावना जायगा वनावना विवाह करना इत्यादि पापके आरम्भका उपदेश सो आरम्भोपदेश, अर कपट छल करनेका उपदेश सो प्रलंभनोपदेश है, अनेक प्रकार पापरूप उपदेशकी कथा करना, पापमें प्रेरणा करना, सो पापोपदेश नाम अनर्थदण्ड है ।

अब हिंसादान नामा दूजा अनर्थदण्ड कहनेकू सूत्र कहै हैं—

परशुकृपाणखनित्रज्वलनायुधशृङ्गिशृङ्खलादीनाम् ।

बधहेतूनां दानं हिंसादानं ब्रुवन्ति बुधाः ॥ ७७ ॥

अर्थ—हिंसाका कारण जे फरसी खड्ग कुदाल अग्नि आयुध विष वेडी साँकल इत्यादिकनिका दान ताहि ज्ञानी हैं ते हिंसादान नाम अनर्थदण्ड कहै हैं । जिनतैं हिंसा ही उपजै ऐसी वस्तुका अन्यकू देना फावड़ा कुदाल खुरपा कुशि हथोड़ा तरवार छुरी कटारी तमंचा भाला बाण धनुष बन्दूक तोप दारू गाला गोली, चाबुक, दांतला, दतीला, वेडी, साँकल, जहर, अग्नि इत्यादिक वस्तुकू दान करना, मांगी देना, बेचना भाड़ै देना सो समस्त हिंसादान नाम अनर्थदण्ड है ।

अब अपध्यान नामा अनर्थदण्डकू सूत्र कहै हैं—

बधबन्धच्छेदादेर्द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादेः ।

आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदाः ॥७८॥

अर्थ—जो वैरतैं वा अपने विषय सांधनेके रागतैं परकी स्त्री पुत्रादिकनिका बन्धन मारण वा छेदनादिका चिंतवन ताहि जिनशासनविषै प्रवीण हैं ते अपध्याननामा अनर्थदण्ड कहै हैं ।

भावार्थ—जाकै रागद्वेषतैं ऐसा परिणाममें चिंतवन रहै जो याका पुत्र मर जाय, याकी स्त्री मर जाय, याकै दण्ड हो जाय, याका हस्त नाक कर्ण छेद्या जाय, याका धन लुट जाय, याकी

आजीविका नष्ट हो जाय, याकी इन्द्रियां नष्ट हो जाय, याका लोकमें अपवाद होजाय, यो स्थान-भ्रष्ट हो जाय, बुद्धि भ्रष्ट होजाय ऐसा चिंतवन वारंवार करै । ऐसैं अन्यके दुःख आपदा चाहना, अपने कुछ लाभदिक होय नाहीं, आपका चिंतवनतैं कुछ होय नाहीं, अपने वृथा महापाप का बंध होय । अन्य का बुरा भला आपका पाप-पुण्यके अनुकूल होय है । वृथा दुर्ध्यान करै ताकै अपध्यान नामा अनर्थदंड कहिये है ।

अत्र दुःश्रुति नामा अनर्थदंड कहनेकूं सूत्र कहै हैं—

आरंभसंगसाहसमिथ्यात्वद्वेपरागमदमदनैः ।

चेतःकलुषयतां श्रुतिरवधीनां दुःश्रुतिर्भवति ॥७६॥

अर्थ—आरम्भ कहिये असि मसि कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, अर संग कहिये धन धान्यादिक परिग्रह, अर साहस कहिये आश्चर्यकारी वीरकर्मादिक, अर मिथ्यात्व कहिये ब्रह्माद्वैत ज्ञानाद्वैत क्षणिक याज्ञिकादिक विरुद्ध अर्थका प्रतिपादक शास्त्र, अर राग कहिये आसक्तता, द्वेष कहिये वैर, अष्ट मद अर कामवेदना-कृत विकार इनकरि चित्तकूं कलुषित करने वाले ऐसे अवधि जे शास्त्र तिनको जो श्रवण सो दुःश्रुति नामा अनर्थदंड है ।

भावार्थ—जो मिथ्यात्व रागे द्वेष का उपजानेवाला पदार्थनिका विपर्यय स्वरूप ग्रहण करानेवाला शास्त्रका, विकथाका, शृंगार वीर हास्यका प्ररूपक तथा मारण उच्चाटन वशीकरण कामका उत्पादक शास्त्रनिका श्रवण करना तथा जांगलिक सर्पनिका भूतनिका रसकर्म इन्द्रजाल रमायण मायाचारादिके प्ररूपक यज्ञादिक हिंसाके प्ररूपक दुष्टशास्त्र दुष्टकथा दुष्टराग दुष्टचेष्टा दुष्टक्रिया दुष्ट कर्मनिका श्रवण करना सो दुःश्रुतिनामा अनर्थदंड है ।

अत्र प्रमादचर्या नाम अनर्थदंडकूं कहै हैं—

चित्तिसलिलदहनपवनारम्भं विफलं वनस्पतिच्छेदम् ।

सरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते ॥८०॥

अर्थ—पृथ्वी खोदनेका, पापाणादिक फोड़ने का आरम्भ, जल पटकनेका सींचनेका चिड़कनेका जल विलोपनेका अवगाह करने का आरम्भ, विना प्रयोजन अग्नि बधावने का चालनेका तुभावनेका दावनेका आरम्भ, पवन बालनेका पवनके यंत्र रोकनेका अग्निमें धमनेका वृथा आरम्भ, तथा प्रयोजन विना वनस्पतिके छेदना तथा विना प्रयोजन गमन करना, विना प्रयोजन गमन करगना ते गमन प्रमादचर्या नामा अनर्थदण्ड कथा है । यहां ऐसा विशेष जानना, ग्रन्थके गृहाचार्यमें अनेक पापकाके आनरण है जो गृहाचारीके पापतैं निराला नाहीं तथा पाप जो जिनमें उद्य प्रयोजन तुम्हारा सिद्ध नाहीं होय ऐसैं विना प्रयोजन पापवन्ध

का कारण, जिनका फल दुर्गतिनिमें असंख्यात काल अनंतकाल दुःख भोगो ऐसे निंद्यकर्म तो छोड़ो। जो उत्तम कुलमें जिनेन्द्रको उपदेश उत्तमधर्म अतिदुर्लभ पायो है तो विना प्रयोजनके पाप-बंधतैं भयभीत होना योग्य है। पशुकी ज्यों जन्म वृथा मत व्यतीत करो। आपका घरका पापतैं नाहीं छूट्या जाय तो अन्यकूँ ऐसा पापका उपदेश मत करो, गृह जायगा बणावनेमें मझाहिंसा होय है, यातैं गृह बनवानेका, जायगा धवल करावनेका, जायगाकी मरम्मत करावनेका वाग-वगीचा बनावनेका, रोडी खुदावनेका, गली खुदावनेका, कुआ बावडी बनवानेका, तालाव खुदावनेका, जल निकासनेका, तालावकी पाल बंधवानेका, तालावकी पाल फुड़ावनेका, नदीकी पाल बंधावनेका, बना हुआ मकान गृह डहावनेका, वाग-वगीचा डहावनेका, वृक्ष कटावने का, बनकटी करावनेका कोयला बनावनेका, घास खुदावनेका, दाह लगावनेका, मिथ्या देवनिका मकान बनवानेका, मिथ्या देवतानिका मन्दिर तथा मूर्तिकी विगाड़नेका, खेती करनेका, सुन्दर मकानकूँ मलीन करनेका कदाचित् उपदेश मत करो। तथा तिर्यचनिकै दुःख होनेका, मारने का, दृढ़ बांधनेका, बाधी करनेका, डाह देनेका, नाशिका फोड़नेका उपदेश मत करो। मनुष्य तिर्यचनिके भोजन-पान रोकनेका, बंदोगृहमें धरनेका, संताननितैं वियोग करनेका, पत्नीनिकूँ पिंजरामें धरनेका, सर्प बीछू सिंह व्याघ्र मूसा न्यौला कूकरा इत्यादि हिंसक जीवनिके मारनेका, जूवा लीखां मारनेका, उटकण खटमल मारनेका, खाट तामड़ै देनेका, छिड़काव करावनेका, जीवनिके पकड़ने मारनेके यत्र जाल बनवानेका उपदेश मत करो। खोटे पापरूप शास्त्र पढ़नेका जिन शास्त्रनिमें शृंगार मायाचारादिककी अधिकता मिथ्या श्रद्धान करानेवाले जिन ग्रंथनिमें मारण-क्रिया विष बनावनेकी क्रिया मारण उच्चाटन वशीकरण मंत्र तंत्रादिक तथा इन्द्रजालादिक अनेक कपटनिका उपदेश तथा रसनिका दग्ध करना रसायण करना इत्यादि पापके शास्त्र, वीर-रसके शास्त्र, हिंसाप्रधान क्रियाके शास्त्र मत पढ़ो, अन्यकूँ उपदेश मत करो, तथा अभक्ष्य भक्षण करनेका, रात्रि-भोजन करनेका, भूठ बोलनेका चुगली करनेका, चोरी करनेका खोटी साख भरनेका, व्यभिचार करावनेका, व्यवहारादिक महाआरम्भ करनेका, रोशनी प्रज्वलित करनेका, दारूके (शारूदके) छुड़वानेका, तथा वाग वगीचा देखनेकूँ प्रेरणा करनेका उपदेश मत करो।

तथा इस देशतैं दूसरे देशमें व्यौपार बहुत है, वहां जावो ऐसा उपदेश मत करो। तथा परिणाम-निमें दुर्ध्यानके कारण ऐसा मेला ख्याल कौतुक व्यभिचारादिक कर्म मनुष्य तिर्यचनिकी गडि-कलहादिक देखनेका उपदेश मत करो। तथा युद्धादिक करनेका, गाली देनेका परकी आजीवका विगाह देनेका उपदेश मत करो। तथा खोटे गीत गान नृत्य वादित्र कलह विसंवाद श्रवण करनेका उपदेश मत करो। तथा इस देशमें दासी दास सुलभ हैं, इनकूँ अमुक देशमें लेजाय वेंचैं तो बहुत लाभ होय, ऐसा उपदेश क्लेशवण्णिया है। तथा गाय भैस अश्ववादि अमुक देशमें ग्रहण करि अन्य देशमें वेंचैं

तो बहुत धनका लाभ होय सो तिर्यक्वृण्णिया है । तथा चिड़ीमार शिकारीनिकूँ ऐमें कहै जो अमुक देशमें मृग सूकर पत्नी इत्यादिक जीव बहुत हैं ऐसा कहना सो वधकोपदेश है । तथा खेती करनेवालेनिकूँ पृथ्वीके आरम्भका जल अग्नि पवन वनस्पति छेदनादिकका उपदेश देना सो आरंभोपदेश है । ये समस्त पापोपदेश त्यागने योग्य हैं तथा हुक्का जरदा तमाखू भांग अमल छोंतरादिक पीवनेका, सूँघनेका, खावनेका उपदेश महापापका कारण है सो मत करो । जातै हुक्का जर्दों तो उत्तम कुलके योग्य ही नाहीं, जिसतैं जाति कुल भ्रष्ट हो जाय । धुवां का अर जलका संयोगतैं बहुत जीव हुक्काके जलमें उपजैं । अर जल महादुर्गन्ध होजाय । अर जहां पड़ै तहां छह कायके जीवनिकी विराधना ही करै । अर चूना ईंट पकावनेका उपदेश मत करो । वहुरि बहुत पापके वनिजका उपदेश मत करो । गाय भैंस बल्द ऊंट गाड़ा गाडीनिका रखनेका उपदेश मत करो । कौऊ दातार मनुष्य तिर्यंचनिकूँ भोजन वस्त्र धनादिक देता होय ताके अंतराय मत करो । कुपात्र दानका उपदेश मत करो, देतेमें पिघन मत करो । व्रत-भङ्ग करनेका उपदेश मत करो इत्यादि । बहुत कहा कहिये अपने धर्म अर्थ कामना कुछ भी सिद्ध होय नाहीं, केवल आपके पापहीका बंध होय, ऐसा पापरूप उपदेश मत करो । वहुरि जिनतैं हिंसा बहुत होय ऐसे उपकरण किसीकूँ मत द्यो, मांगे मत द्यो भाड़े मत द्यो, प्रीतिकरि मत द्यो, मोलकरि मत द्यो, जिनके देनेमें किंचित् लाभ हू होय तो हू महापापके कारण जानि देना योग्य नाहीं । जिनकूँ हस्तमें लेते ही दुष्ट परिणाम होजाय, घातहीका विचार रहै ऐसे खड़ग छुरी भाला बाण धनुष बन्दूक कटारी इत्यादिक आयुध देना योग्य नाहीं । वहुरि भूमि खोदनेके कागख जिनकरि गलीनिमें गेड निमें खेतनिमें बड़े बड़े जीव सर्प विच्छू गिडोला लट कीड़ा मूसा इत्यादिक जीव कटि जांय, छिद जांय कोटनि जीवनिकी हिंसा होजाय ऐसा फावडा कुदाल कुम खुरपा हल मुद् गर हथोड़ा किसीकूँ मत द्यो । तथा अनेक व्रस स्थावरनिकूँ चीरनेवाला मारनेवाला परसी कुल्हाड़ा बसोला करोंन दांतला दतीला किसीकूँ मत द्यो । तथा तिर्यंच मनुष्यनिके मारनेके कारण लाठी घोंटा चाबुक चामडा लोटा किसीको मत द्यो । वहुरि अग्नि विष वेडी सांकल पिंजरा जाल जीव पकड़नेका यन्त्र किसीको मत द्यो । मार्जार कूकरा इत्यादिक हिंसक जीवनिक्क अपना करि मत पालो । सूआ तीतर बुलबुल कूकडा मैना कबूतर वाज इत्यादिक पत्नीनिकूँ पींजरामें रखना पालना मत करो । वहुरि केतेरु बहुत पापके उपकरण घरमें हू मत राखो, घरमें रहै देखते हू हिंसाके उपकरण परिणाम ही बिगाड़ै हैं । वहुरि निन्द्य वनिज हू महापापके कारण जिनमें किंचित् लाभ होय तो हू पापसूँ भयभीत होय त्याग करो । लोहा, नील, मैण, लवण, लकड़ा, साजी, सण, सावण, लाख चमड़ा, ऊन, केश, कसूँभा, गुड़, खांड, अन्न, चावल, मिहाडा, शस्त्र, दारू, गोला, सीसा, लहसन, कांदा, आदो, जमीकन्द, तथा, घृत, तैल, आम, नीबू, इत्यादिक वनस्पतिकाय, भांग, तमाखू, जर्दा, तिल, राल, काकडा, पिंजरा, फांसी, गांजा, चरस, दासी, दास, घोड़ा, ऊंट,

बलध, भैया, गाडा, गाडी, ईंट, इनके बेवनेमें खरीदनेमें संवयमें महा हिंसा होय है । यातें त्याग करो । समस्तका त्याग नहीं बन सके तो यामें महापाप जानि कोऊ अन्नादिकमें अल्प संग्रह, अल्प प्रमाण राखि अन्य समस्तका तो त्याग करो । बहुरि केतीक खोटी आजीविका महापापबन्ध करि दुर्गति लेजाय ते परिहार करो । कटिवाली करनेकी कोटवालका पिवादापनाकी बनकटी करानेकी, गाडा, गाडी, ऊंट, बलध, भाड़ै, देनेकी, ऊंट बलध, गाडा, गाडी, भाड़ै करानेवाला दलाल यो नहीं दीखै है जो याका कांधा गल गया है, कि नासिका गल गई है कि पीठ गल गई है, कि पग दूखै कि याका अगमें कीड़ा पड़ि रखा है, कि वृद्ध है कि रोगी है ऐमा विचार भाडाकी दलालीवालाकै नहीं है । चातुर्मासमें भी बहुत बोझ लदाय दे । अर भाडाकी आजीविका अर भाडाकी दलाली दोऊ महापाप हैं । अर लोभ के वश होय वृद्ध पुरुषका व्याह सगाई मत करावो । राजका हासिल मत चुरावो । तथा अन्य अपराधीकी चुगली खानेकी, भूठी साखि भरनेकी गवाही होजानेकी, वैद्यपकी आजीविका मत करो, जंत्र मंत्र भूत भूतणी डाकनिके इलाज करनेकी रमायणादिक धूर्तीईतें दिखाय टग लेनेकी आजीविका मत करो । यह दुर्गतिको ले जानेवाली है तथा काठ बेचनेवाला मदिरा करनेवाला, कलाल कपायी धोत्री चमार, ईंट चूना पकानेवाला, नीलगर जुआरी, घसियारा, घास खोदनेवाला इनकूं व्याज पर धन मत दो । मांसभक्षिनिकूं वेश्यानिकूं निध पापकी आजीविका करनेवाले-निकूं व्याज पर रुखा मत दो, अपना मकान भाड़े मत दो । बहुरि अशुभ परिणामके धारक अन्य-मार्गी मांसभली, मद्यपायी, वेश्यामें आसक्त, परस्त्री-लम्पटी, अधमीनितें मित्रता प्रीति करनेका हू त्याग करो । परके दोष ग्रहण मत करो । अन्यकी लक्ष्मी में बांछा मत करो, अन्यकी लक्ष्मीकूं देखि आश्चर्य मत करो, अपना दीनपना मत चिन्तवन करो, अन्यकी स्त्रीके देखनेमें अभिलाषा मत करो । अन्य मनुष्य निर्यचनिकी कलह मत देखो । अन्यके पुत्रका स्त्री का वियोगकी बांछा मत करो । परका अपमान अपयश सुनि हर्षित मत होहू । अन्यके लाभ देख विपाद मत करो । अन्यके रस सहित भोजन आभरणादिक देखि अपने परिणाममें दुःखित मत होहू । आपके दारिद्र वियोग रोग होते आर्त परिणामकरि क्लेशित मत होहू, धनवा-निम्न ईर्ष्या मति करो । बहुरि कोऊ सिंह व्याघ्र सर्पादिकनिकी शिकार चिन्तवन मत करो, कोऊ-का संग्राममें ज्य पराजय मत चाहो, परकी स्त्रीका संसर्ग बचनालाप करनेमें वेश्यादिकनिका हाव-भाव नृत्यका विलास देखनमें अभिलाषा मत करो । गाली भंड बचनलिये गीत मत सुनो । खोटे राग सांग कौतूहल परिणाम मलिन करनेका कारण श्रवण, देखना दूरहीतें छांडौ । दारिद्र आवतेहू नीच प्रवृत्तिकारि आजीविका मत करो, किसीतें याचना मत करो, दीनता मत भाखो, निर्धनपणाकूं होते हू प्रवृत्ति विकाररूप मत करो । नीचकुलवालेनिके करनेयोग्य वस्त्र रंगना धोवना इत्यादिक निधकर्म करनेका परिहार करो । बहुरि जिनालय आदिक धर्मके स्थाननिमें स्त्री-

निकी कथा राजकथा चौरकथा देशकथा महापापबन्ध करनेवाली कथा कदाचित्त मत करो ।  
 बहुरि लेन देन व्याह सगाईका भगडा तथा न्याय पंचायती जिन मन्दिरमें बैठि जाति कुलका  
 विमंवाद कदाचित्त कत करो । मन्दिरमें बैठि करोगे तो धर्मस्थानकी मर्यादा तोड़नेतैं नरक निगोद  
 का कारण घोरकर्षका बन्ध होयगा । तातैं धर्मायतनमें पापका बधावने वाला कर्म दूरहीतैं त्याग  
 करो । बहुरि जिनमन्दिरमें भोजन-गान ताम्बूल गन्ध पुष्प विषयादिक तथा शयन उच्चासन वनिज  
 सगाई भगडा गालीके वचन हास्यके वचन अविनयके वचन आरम्भके वचनादिकमें कदाचित्त  
 प्रवर्तन मत करोगे । बहुरि मिथ्या श्रुतका श्रवण मत करो, जिनके श्रवणतैं विषयनि में राग वाधै, हास्य  
 कौतुक उपजै काम जाग्रत हो जाय, भोजनके नाना स्वादनमें चित्त चलि जाय ऐसी कथनी श्रवण  
 मत करो । तथा स्त्री पुरुषनिके पापरूप चरित्रकी कथा, तथा भूत-प्रेतनिकी असत्य कथा, तथा  
 हिसाकी प्रधानत के धारक वेद स्मृत्यादिकी कथा, तथा कपोल-कल्पित अनेक कहानी, तथा  
 फारसी किताबनिका लिख्या तिनकूं किस्सा कहै हैं ते महा दुर्ध्यान करने वाले श्रवण मत करो ।  
 तथा भारत, रामायणदिकनिकी कल्पित कथा कदाचित्त श्रवण मत करो । बहुरि कपायनिके उत्पन्न  
 करने वाले क्रोधीनिके वचन, अभिमानीके मदके भरे वचन, मायाचारीनिके कुटिल वचन, लोभी-  
 निके लालसा उपजावनेवाले वचन, मद्य मांस अभक्ष्यके स्वादकी प्रशंसा करनेवालेनिके वचन,  
 मद्य अमल भांग तमाखू हुकानिकी प्रशंसा करनेवालेनिके वचन श्रवण मत करो । बहुरि धर्मके  
 अभाव करनेवाले परलोकादिकके अभाव कहनेवाले नास्तिकनिके वाक्य पापबन्धके कारण मत  
 श्रवण करो । बहुरि वृथा आरम्भ विसंवादकूं छोडो । तथा माटी कजोड़ी कर्दम कांटा ठीकरा  
 मल मूत्र कफ उच्छिष्ट जल अग्नि दीपक इत्यादिक भूमिकूं देखे विना मत पटको, तथा शीघ्र-  
 ताम्बू पाषाण काष्ठ आसन शय्या पल्यंक धातुका पात्र चरवा चरी तबला परात चौकी पाटा  
 वस्त्रादिकनिकूं जमीन ऊपर वासकरि रगड़करि प्रमादतैं मत सरकाओ, यामें बहुत जीवनिकी  
 हिंसा होय है । यत्नाचारका अभाव है तातैं देखि यत्नतैं उठाओ मेलो । बहुरि विना प्रयोजन  
 भूमिका कुचरना, वृक्षकी डालहलानिका मोडना, हरित तृणादिककूं छेदना, मर्दन करना, वृक्षनिके  
 पत्र पुष्पादिकनिकूं चीरना तोड़ना वृथा जल पटरना इत्यादिक पातैं भयभीत होय मत करो ।  
 बद्धत रुहा कहिये गृहाचारमें जेता वस्तु पात्र अन्न जलादिक हैं तिनकूं देखकरि धरो, जैसे धर्म,  
 नार्थी भिगडै है उजाड बिगाड नार्थी होय तैसें करो । प्रमाद छांडि भोजन पान औषधि पकवाना-  
 दिक नेत्रनिंत देखि मोधि भक्षण करो, शीघ्रतामूं प्रमादी होय विना सोध्या भोजन मत करो ।  
 गपनमें पागपनमें उठनेमें देखे विना मोधि विना प्रवर्तन मत करो । जातैं दया पलै अर अपना  
 नर्गरके वाधा नार्थी होय, हानि नार्थी होय तथा प्रमादी होय हित-अहितका विचार किये विना  
 गुण-दुःख रा विचार-विना किर्माकूं वार्ता मत कहो । कहनेमें गुण-दोषका विचार करि कहो ।  
 अर सोई आरतूं पदं तो शीघ्रतामे उत्तर मत द्यो, याही कहो में समझ करि विचार करि आपकूं

जुवात्र देस्यों । पाछै अक्काश पाय धर्म अर्थ कामसूत्रं अविरोद्ध विचार विनय सहित उत्तर करो । शीघ्रतातैं उत्तर देने में उस काल में क्रोध मान माया लोभके वशतैं वचन निकसनेका ठिकाना नहीं, कषायके उदयतैं योग्य-अयोग्य कहनेका विचार नहीं रहै है, अन्यका वाक्य हू परिपूर्ण श्रवण करि लेवे तथा कहनेका समस्त अभिप्राय जाननेमें आजाय तदि उत्तर करना योग्य है तातैं प्रमाद जो असावधानतातैं वचन मत कही । एकान्तरूप हठग्राही पक्षपाती मत होहु, धर्म विगड़ जायगा । तातैं दोऊ लोकके हितके अर्थी हो तो प्रमादचर्या नामा अनर्थदण्ड छोड़ो । ऐसैं पञ्च प्रकार अनर्थदण्डनिकूँ समझ करि त्याग करै ताकैं अनर्थदण्ड त्याग नामा व्रत होय है ।

वहुरि अनर्थदण्डनिमें महाअनर्थकारी घूतक्रीड़ा है जूवा समस्त व्यसननिमें प्रधान है समस्त पापनिका स्थान है महान् आसक्तका कारण है, समस्त अनीतिनिमें महा अनीति है, याका परिणाम ही महादुष्ट है जो अपना समस्त धन सम्यदा जूवामें संकल्प करिकैं हू अन्यका धन लिया चाहै है । जुवारी के एता बड़ा लोभ है जो कोऊ प्रकार परका धन मेरे आजाय ऐसैं रात्रि दिन चिंतन करता रहै है । मेरा धन जाय तो जावो, अपयश होहु मरण होहु दरिद्रता होहु, कोऊ प्रकार परका धनमें जीत ल्युं तदि मेरा जीवितव्य सफल है । लोभकषायकी तीव्रता सो ही महाहिंसा है । जुवारीका महानिर्दयी परिणाम होय है परका घात ही चिंतन करै है । जो जुवामें धन हारि जाव तो चोरी करै, धन वास्तै मनुष्यनिकूँ मारै ही, जुवारीनिके परस्पर महाक्लेश होय ही, मारामारी होय ही, मायाचारी होय ही । जिनसूँ महाप्रीति होय तिनसूँ भी महाकपट अनेक छल करि धन ग्रहण करया ही चाहै । जुवा कपटका तो स्थान ही है हजारों छल रचै है, अपनी स्त्रीने जुवामें संकल्प कर दे, पुत्र पुत्रीनै कर दे, स्त्रीनै हर जाय, पुत्रीनै हार जाय, जुवारीनै देदे है जुवारी दरिद्री व्यसनीकूँ पुत्री परिणाय देहै, जुवामें अपना सकान रहनेका बेच देहै, दायपर लगाय देहै, तथा पुत्रकूँ बेच देहै । लक्ष धनका धनी एक क्षणमें सगस्त धन हार दरिद्री हो जाय है तदि महान् आर्तध्यान रौद्रध्यानतैं मरि दुर्ग तमें भ्रमण करै है अर धन जीत ल्यावै तो मद उपजै है, कुमार्गमें ही जाका धन खर्च होय है । महा रौद्रध्यानके प्रभावतैं मरि महा कुयोनि पाय भ्रमण करै है । जुवारी मद्यपान भङ्गपानादि करै है, वेश्यामें आसक्त होय जाय है, सुमार्गमें धन लगै नहीं जुवारीतैं न्यायरूप अन्य आजीविका नहीं करी जाय है, जुवारीकी प्रतीति जाती रहै है याकूँ कोऊधन नहीं दीजै है । जुवारीके सत्य वचन कदाचित् नहीं होय है । जुवारीके शुभ परिणाम होय नहीं, अपना पूर्वोपार्जित कर्मका दिया न्यायका धनमें संतोष कदाचित् आवै नहीं । एकान्तमें एकाकीकूँ मारि धन खोस लेजाय है, अपना धना नातादार भाई होय ताकूँ एकान्तमें मारि आभरणदि ले ही जाय है । जुवारीकी प्रतीति मूरख होय सो हू नहीं करै है, परधनकी अति तीव्र तृष्णाकरि कुदेवनिकी बोलारी बोलै है, मिथ्याधर्म सेवन करै है सन्तोष शील निराकुलताकूँ जलाजलि दे है, अति लोभके परिणामतैं विपरीत बुद्धि हो जाय है । परमार्थ जामे नहीं हैं । धर्म को



श्रद्धान् स्वप्नमें हू नहीं होय है । समस्त पापनिका मूल जुवाकूँ जानि दूरहीतैं त्याग करो । जुव रीकी बुद्धि कोट उपायकरि हू विपरीतता नहीं छाँड़ै है, परलोकमें दुर्गति ही पाय है । जुवारी तो नीचलोभकरि अपना आत्माकूँ धात्या है ।

बहुरि केतेक अज्ञानी जुवामें हार जीत धनकी तो नहीं करै परन्तु मनुष्य जन्मकूँ वृथा व्यतीत करनेका इच्छुक धन संकल्प कर तो जुवा नहीं करै हैं, अर क्रीड़ाके निमित्त चौपड़ शतरंज गंजफा इत्यादिक अनेक अविद्या करै हैं तिनके हारमें अर जीतमें रागद्वेषकी बड़ी तीव्रता है, हर्ष विपाद बहुत होय है, कपट बहुत करै हैं, पिता पुत्र हू परस्पर विसंवाद कलह करै ही हैं । परिणाम जीत हारमें तीव्रतानें प्राप्त होय है । या ऐसी अविद्या है जो इस क्रीड़ामें राचै है ताका इस लोकसम्बन्धी सेवा-वनिज लिखना इत्यादिक समस्त कार्य बिगड़ि जाय तो हू छाँड़ि नहीं सकै है जाकै धूतक्रीड़ा है ताकै अन्य उद्यमोंका अभाव होय है । दरिद्रता नजीक आवै है हान नीच मलिन जानिके बरोबर बैठ धूतक्रीड़ा करै है, यो नाहाँ देखै हैं यो म्लेच्छ है नाई कलाल धोवी समस्त धूतक्रीड़ामें सामिल प्रत्यक्ष देखिये हैं जिनकी मनादुर्गंध आवै है वस्त्रनिमेंतें जूवां झड़ झड़ पड़े हैं निके बरोबर बैठ रमिये हैं । अन्य अधर्मनिका स्थानमें आप जाय बैठे हैं, मार्गमें खेलते देखकर खड़ा रह जाय, बैठनेकूँ स्थान नहीं होय तो आप खड़ा-खड़ा ही देखै है ऐसा व्यसन है । खावना पीवना देन लेन सब छाँड़ि खड़ा हुआ देखै है, मनियार नीलगर कमनीगर, विसायती समस्त मांसभक्षी नीच-कर्मनिके सामिल ख्याल खेलै देखै है । बहुत कहा कहिये अपना सर्व कार्य बिगड़ि जाय, तथा माता पितादिकका मरण हो जाय, तो हू इस ख्यालमेंतैं उछ्या नहीं जाय है ऐसा तीव्र परिणामतैं नरक तिर्यंच बंध होय ही । जामें धन कछु नहीं आवै बड़ा विसंवाद होय तिस क्रीड़ामें तीव्र राचनेतैं धनकी हारजीत-वालेतैं तीव्र पापका बंध करै है । जाके धनकी हार-जीत होय सो तो अल्पकाल राचै है याका परिणाम समस्त कालमें राचै है इस व्यसनमें लागै है ताकूँ धर्मका नाम नहीं सुहावै है, ताकै बुद्धि विपरीत होय पापक्रियामें, अन्यायमें, असत्यमें, विकथा ही में राचै है । देखहु यह मनुष्य जन्म अर उत्तम कुल अर नीरोग शरीर उत्तम धर्म ए अनन्तकालमें नहीं पाया सो संयोग मिलि गया याका एक बड़ी कोटि धनमें नहीं मिलै ऐसा अवसर सिद्धांतनिका स्वाध्याय जीवादिक द्रव्यनिकी चर्चा, अनित्यादिक द्वादश भावना, पौडशकारण भावना, पञ्च परमगुरुका नमस्कार जाय स्मरणादिककरि सफल करनेका था तानें चौपड़, गजफा, शतरंज ये महा अविद्या में राचि समस्त धर्मतैं धर्मके मार्गतैं पराङ्मुख होय महापाप उपजाय मर जाना यो फल ग्रहण करि तिर्यंच नरकादिकमें जाय उम्रै है । बहुरि ऐसा जानना भगवानका परमागममें तो सप्त व्यसनका त्याग जाकै होयगा सो ही जिनधर्म ग्रहण करनेका पात्र होयगा । जाकै ए व्यसन ग्रहण हो जाय निमकी बुद्धि ही विपरीत हो जाय है, पापकार्यनिमें प्रवीण हो जाय है, अनीतिमें तत्पर

हो जाय है। इस लोकका कार्य तो न्यायमार्गमें अपने कुलके योग्य षट्कर्मकरि आजीविका करना अर खान-पानादिक शरीरका संस्कार तथा न्यायरूप लेना देना धरना, जाना आना, प्रयोजनरूप करना अर परलोकके अर्थि धर्मकार्यमें प्रवर्तन करना यही गृहस्थके दाय करने योग्य कार्य हैं इन दाय कार्य बिना जो प्रवृत्ति सो ही व्यसन हैं। ते सप्त व्यसन हैं धूतक्रीड़ा (१) मांसभक्षण (२) मद्यपन (३) वेश्यासेवन (४) शिकार करना (५) चोरी करना (६) परस्त्री-सेवन करना (७) ये महा घोर पापबन्धके कारण सप्त व्यसन हैं। इन व्यसननिमें उलभना सहज है छूटकरि सुलभना बड़ा कठिन है। इन व्यसननिमें पापबन्ध ही ऐसा होय है जो बुद्धि ही विपर्ययमें हो जाय है, निकसि नहीं सकै है। यहां धूत व्यसन वर्णन किया, याहीमें होड लगावना है। अब दम-गीस वरसतैं अफीमके फाटकाको व्यौपार हू तीव्र तृष्णाकरि युक्त पुरुषके संतोषका विगाड़नेवाला प्रवर्त्या सो हू जुवा ही में गर्भित जानना। बहुरि मांस मद्य शिकार जैनीनिके कुलमें है ही नहीं, ये लगे पीछें महाव्यसन हैं परन्तु आगै अभक्ष्यनिमें कहैगे तथा व्रीध्या अन्नादिकानिका समस्त भोजन, अर चमड़ाका स्पर्शा समस्त जल, घृत, तेल, रसादिक, रात्रि भोजन इत्यादिक समस्त अभक्ष्य मांसवे; दोष समान जानि त्यागै ही। बहुरि भांग, तमाखू, जर्दा, अफीम, हुक्का ये समस्त पराधीन करनेतैं अर ज्ञानके नष्ट करनेतैं परमार्थरूप बुद्धिकू नष्ट करनेतैं मदिरा समान ही हैं यातैं त्याग ही करना। बहुरि अन्य जीवनिकी दया नहीं करके आजीविका विगाड़ देना, धन लुटा देना तीव्र दण्ड कराय देना सो समस्त शिकार ही है। अन्यका मान-भङ्ग कराय देना, स्थान छुडाय देना सो समस्त शिकारतैं अधिक-अधिक है सो त्याग ही करना। बहुरि वेश्या-सेवन किया जाका समस्त अचार भोजन-पान भ्रष्ट है वेश्याकू चांडाल, भील, झेच्छ, मुसलमान, इत्यादिक समस्त सेवन करै हैं जो वेश्या मांस मद्यका खान-पान नित्य ही करै है धनहीतैं जाके प्रीति है ऐसी वेश्याकी मुखकी लाल पीधै है जाति कुल आचार समस्त भ्रष्ट है तातैं त्याग ही श्रेष्ठ है, वेश्याका संगम किया तिसके चोरी जूवा मद्य-पानादिक समस्त व्यसन होय है। समस्त धनकी हानि होय है, धर्मतैं पराङ्मुखता हो जाय है बुद्धि विपरीत होजाय है मायाचारमें झूठमें छलमें तत्परता हो जाय है निध कर्मकी ग्लानि जाती रहै है लज्जा नष्ट हो जाय है वेश्याका देखनेमें हाव, विलास, विभ्रमादिक देखने चितवन करतैं अतिरागी होय कुलमर्यादा समस्त भंग करै है वेश्यामें आसक्त हुआ पुरुष कफविपै पड़ी मत्तिकाकी ज्यों आपकू नहीं छुडाय सकै है महा अनीत है। बहुरि चोरपनाका महा व्यसन है चोर आप भी निरन्तर भयरूप रहै है अर चोरका अन्य जीवनिकै बड़ा भय रहै है; माता कै भी चोरपुत्रका भय रहै है। चोर इस लोकमें आपकी समस्त प्रतिष्ठा विगाड़ि महाकलङ्कित होय है। राजासू तीव्र दण्ड पावै है हस्त नाशिकादिक छेद्या जाय है। चोरका परिणाम संतोष-रूप कदाचित् नहीं होय है। चोरके योग्य-अयोग्य करने योग्यका विचार ही नहीं रहै है।

याहीतैं धर्मध्यान स्वाध्याय धर्मकथातैं पराङ्मुख रहै है । अर जिनशास्त्रनिका अवण पठन करता हू अन्यके धन ऊपर चित्त चलावे है सो ठग है, जगतके ठगनेकूँ शास्त्ररूप शस्त्र ग्रहण किया है तिसके धर्मकी श्रद्धा कदाचित् नाहीं जानना । जाके जिनधर्मकी प्रधानता होय है ताकै चारित्रमोहका उदयतैं त्याग व्रत संयम नाहीं होय तो हू अन्यायके धनमें तो बांछा नाहीं चालै है चोरीतैं दोऊ लोक अः होना जानि विना दिया परका धनमें बांछा मत करो । बहुरि पर-स्त्री को बांछा नाम व्यसन समस्त अनर्थनिमें प्रधान है परस्त्रीलम्पटकै इसलोक परलोकमें जो घोर-पाप, आपदा, अकीर्ति, अपयश, मरण, रोग, अशवाद, धनहानि, राजदण्ड, जगतका वैर, दुर्ग-तिगमन, मारन, ताड़न, बन्दीगृहमें बन्धनादिक होय हैं तिनकूँ वचनद्वारे कौन कहनेकूँ समर्थ है ? ऐसैं सप्तव्यसन दूरतैं ही त्यागो इनके त्यागनेमें कुछ हानि नाहीं है । जानै सप्तव्यसन त्याग क्रिया सो आपका समस्त दुःख अकीर्ति नरकादिक कुगति समस्त आपदाका निराकरण किया ।

अब अनर्थदण्डव्रतके पांच अतिचार कहनेकूँ सूत्र कहैं हैं—

कंदर्पं कौत्कुच्यं मौखर्यमतिप्रसाधनं पञ्च ।

असमीच्या चाधिकरणं व्यतीतयोऽनर्थदण्डकृद्विरतेः ॥८१॥

अर्थ—चारित्रमोहनीयकर्मका उदयतैं रागभावकी अधिकतातैं हास्यतैं मिल्या हुआ भण्ड वचन बोलना सो कंदर्प नाम अतीचार है (१) बहुरि तीव्ररागका उदयतैं हास्यरूप भंडवचन करि सहित जो कायकी खोटी चेष्टा शरीरकी निंद्य क्रिया करना सो कौत्कुच्य है (२) अर विना प्रयोजन बहुत सार-रहित वक्त्रवाद सो मौखर्य कहिये है (३) अर प्रयोजन-रहित अधिकता करि मनवचनकायको प्रवर्तवना सो असमीच्याधिकरण कहिये है । रागद्वेष करनेवाला काव्य श्लोक कवित्त छन्द गीतनिका चितवन सो मन-असमीच्याधिकरण कहिये है । बहुरि पापकथाकरि अन्य के मनवचनकायकूँ विगाड़नेवाली खोटी कथा कहना सो वचन-असमीच्याधिकरण है । बहुरि प्रयोजन विना गमन करना उठना, बैठना, दौड़ना, पटकना, फेंकना तथा पत्र फल पुष्पादिकनिका छेदन, भेदन, विदारण, क्षेपणादिक करना तथा अग्नि विष चारादिकका देना सो काय-असमीच्याधिकरण नामका अतीचार है (४) जेता भोग, उपभोगकरि प्रयोजन सधै तातैं अधिक बिना प्रयोजनका अतिसंग्रह करै सो अतिप्रसाधन नाम अतीचार है । (५) ऐसैं अनर्थदण्डव्रतके पांच अतीचार कहे ते त्यागने योग्य हैं ।

अब भोगोपभोगपरिमाणव्रत अष्ट सूत्रनिकरि कहैं हैं—

अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोगपरिमाणम् ।  
अथवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये ॥८२॥

अर्थ—प्रयोजनवान हू पंच इन्द्रियनिके विषयनिका जो राग भाव करिकेँ आसक्तिाकौँ घटा-  
वनेके अर्थि जो परिमाण करना सो भोगोपभोगपरिमाण नामा व्रत है ।

भावार्थ—संसारी जीवनिकेँ इन्द्रियनिके विषयनिमें अतिराग वतै है रागतैँ व्रत संयम दया  
क्षमादिक समस्त गुणनितैँ पराङ्मुख होय रह्या है यातैँ अणुव्रतका धारक गृहस्थ है सो हिंसा  
असत्य चोरी परस्त्रीसेवन अपरिमाणपरिग्रहतैँ उपजी जो अन्यायके विषयनिमें प्रीति तिसका  
त्याग करकेँ तो व्रती भया अब न्यायके विषयनिकूँ हू तीव्ररागके कारण जानि जाकेँ अति अरुचि  
भई होय सो रागकी आसक्तिा घटावनेके अर्थि अपने प्रयोजनवान हू इन्द्रियनिके विषयनिमें परि-  
माण करैँ सो भोगोपभोगपरिमाण नामा गुणव्रत है । व्रतीनिकूँ इन्द्रियनिके विषयनिमें निरर्गल  
प्रवृत्ति गेकि भोगोपभोगका परिमाण करना महान संवर का कारण है । अब भोग तो कहा होय  
है अर उपभोग कहा, तिनका लक्षण कहनेकूँ सूत्र कहैँ हैं—

भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः ।

उपभोगोऽशनवसनप्रभृतिः पंचेन्द्रियो विषयः ॥८३॥

अर्थ—जो एक वार भोग करिकेँ फिर त्यागने योग्य होय सो भोग है । बहुरि भोग करकेँ फिर  
भोगने योग्य होय सो उपभोग है । भोग तो भोजनादिक पंच इन्द्रियनिके विषय हैं अर उपभोग  
वस्त्रादिक पंच इन्द्रियनिके विषय हैं ।

भावार्थ—जो एक वार ही भोगनेमें आवैँ फिर भोगनेमें नाहीं आवैँ ते भोग हैं । अर जो  
वार-वार भोगनेके अर्थि आवैँ ते उपभोग हैं । जैसेँ भोजन नानारूप एक वार ही भोगनेमें आवैँ तथा  
कर्पूर चन्दनादिकका विलेपन तथा पुष्प माला, अतर, फुल्ल तथा मेला कौतुक इन्द्रजलादिक  
स्तवनके गीतके शब्दादिक एक वार ही भोगनेमें आवैँ हैं ते पंच इन्द्रियनिके विषय-भोग कहावैँ  
हैं । अर जैसेँ वस्त्र आभरण स्त्री सिंहासन पर्यंक महल वाग वादित्र चित्राम इत्यादिक वारंवार  
भोगनेमें आवैँ ते उपभोग हैं । भोगोपभोग दोऊनिका परिमाण करैँ ताकेँ व्रत होय है ।

अब जे परिमाण करने योग्य नाहीं यावज्जीव त्याग करने योग्य हैं तिनके कहनेकूँ सूत्र  
कहैँ हैं—

त्रसहतिपरिहरणार्थं क्षौद्रं पिशितं प्रमादपरिहृतये ।

मद्यं च वर्जनीयं जिनचरणौ शरणमुपयातैः ॥८४॥

अर्थ—जिनेन्द्र भगवानके चरणनिका शरणकूँ प्राप्त भये ऐसे सम्यग्दृष्टि हैं तिननैँ त्रसनिकी  
हिंसाका परित्यागके अर्थि क्षौद्र जो मद्य, अर पिशित कहिये मांस वर्जन करने योग्य है । अर  
प्रमाद जो हित-अहितमें असावधानी ताका वर्जनके अर्थि मद्यका त्याग करना योग्य है ।

मावार्थ—जे पुरुष जिनेन्द्रके चरणनिकी आज्ञाके श्रद्धानी हैं ते त्रमजीवनिकी हिंसाका त्यागके अर्थि मधु अर मांसका त्याग ही करै । अर प्रमाद जो अचेतपना ताका त्यागके अर्थि मदिराका त्याग करै ही । जाकै मधु मांस मद्य का त्याग नाही सो जिन-आजातै पराड मुख है, जैनी नाही है ।

बहुरि त्यागने योग्यनिकूँ कहै हैं—

अल्पफलबहुविधातान्मूलकमाद्राणि शृङ्गवेराणि ।

नवनीतनिम्बकुसुमं कौकैमित्येवमवहेयम् ॥८५॥

यदनिष्टं तद्ब्रतयेद्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जह्यात् ।

अभिसंधिकृता विरतिर्विषयाद्योग्याद् ब्रतं भवति ॥८६॥

अर्थ—जिनके सेवनतै फल जो अपना प्रयोजन सो तो अल्प सिद्ध होय अर जिनके भक्षणतै घात अनन्त जीवनिका होय ऐसे मूल कन्द आदो शृंगवेर इत्यादिक कन्दमूल अर नवनीत जो माखन निंबका फूल केवड़ा केतकीका फूल इत्यादिक जे अनन्त काय ते त्यागने योग्य हैं । एक देहमें अनन्त जीव ते अनन्तकाय हैं जो आपके अनिष्ट होय ताका ब्रत करना त्याग करना, अर जो सेवन योग्य नाही तो अनुपसेवनिका त्याग ही करना योग्य है । यद्यपि अनिष्ट अनुपसेव्यके सेवनका प्रयोजन नाही है तो हू अपने अभिप्रायकरि योग्य विषयका हू त्याग सो ब्रत है । जातै जाका फल तो एक जिह्वाका आस्वादनमात्र अर जाका एक बालमात्र कणहमें अनन्तानन्त वादरनिगोदजीवनिका घात होय ऐसे कन्दमूलादिक अर निंबका पुष्प अर केतकी केवड़ा का पुष्प त्यागने योग्य है । तथा अन्यहू पुष्प प्रत्यक्ष त्रसजीवनिकरि भरे हैं ते जिनधर्मीनि के त्यागने योग्य हैं । बहुरि जो वस्तु शुद्ध हू है अर भक्षण करनेतै अपना देहमें वेदना उपजावै, उदरशूलादिक उपजावनेवाला घात पित्त कफादिक दोष तथा रुधिर विकार उदरविकारादिककूँ उत्पन्न करनेवाला भोजनादिक तथा अन्य हू दुःखके कारण इन्द्रियविषयनिका सेवन मत कगे । जातै जो अति तीव्र रागी इन्द्रियनिका लम्पटी होयगा सो ही अनिष्ट सेवन करैगा । जो अपना मरण होजाना तथा तंब्रवेदना भोगना ऐसै तीव्र दुःख हू कूँ नाही गिणता भक्षण करै है ताकै ताकै जिह्वाकी तीव्र विकलतातै महापापका बन्ध होय है । अनेक मनुष्य भोजनके अस्वादनमें अनुराग करिकै अनिष्ट भोजनतै रोग वधाय आर्तध्यानकरि दुर्गतिकूँ जाय हैं तातै अनिष्टका त्याग ही श्रेष्ठ है । बहुरि केती ही वस्तु अपने कुलकूँ तथा व्यवहारकूँ धर्मकूँ मलीन करनेवाले हैं ते सेवने योग्य नाही ते अनुपसेव्य हैं । शंख, हस्तीका दांत केश, मृगमद गोलोचन इत्यादिकका स्पर्शा हुआ भोजन जल सेवन योग्य नाही तथा उँटनीका तथा गधीका दुग्ध और गायका मूत्र तथा भल मूत्र कफ लाल उच्छिष्ट भोजन ये

सेवने योग्य नहीं । तथा म्लेच्छ भील अस्पृश्य शूद्रनिका स्पर्श किया हुआ भोजन तथा अशुद्ध-भूमिमें पट्टा चर्मका स्पर्शा मार्जार श्वानादिक करि तथा मांसभन्नी मद्यपार्याणिकरि बनाया हुआ स्पर्श किया हुआ समस्त भोजन लोकनिघ्न भोजन अनुपसेव्य है । जिनधर्मीनिके भक्षण करने योग्य नहीं । बुद्धिक्रं विपरीत करै है । मार्गतै भ्रष्ट करने वाला धर्मतै भ्रष्ट करनेवाला है । इहां ऐसा विशेष जानना, श्रीराजवार्तिकमें हू पंचप्रकार भोग संख्या कही है तहां त्रसका घात जामें होय ॥१॥ प्रमाद उपजावनेवाला होय ॥२॥ बहुवध कहिये जामें अनन्त जीवनिका घात होय ॥३॥ अनिष्ट होय ॥४॥ अनुपसेव्य होय ॥५॥ ये पांचप्रकार त्यागने योग्य हैं यावज्जीवन त्यागने योग्य हैं । अर जिसका यावज्जीव त्याग करनेकूं समर्थ नहीं तो वाका त्याग कालको मर्यादाकरि करना । यहां केतीक वस्तुनिमें तो प्रगट त्रसनिका घात हैं अर केतीक वस्तुनिमें अनन्त जीवनिके संघट्ट इकट्टे होय घात होय है बीधा अन्न है तामें ईलीं घुन प्रगट हजारों फिरैं हैं बीधे अन्न खानेवालेकै अप्रमाण त्रसनिका घात होय है जो गृहस्थ धान्यका संग्रह राखै है ताकै नित्य बीधा अन्नके भक्षणतै महापाप प्रवतै है याहीतै पापतै भयभीत जैनी होय सो अबीधा अन्न खरीदौ और दोय महीनाका खरचप्रमाण राखै । दोय महीना भक्षण करि चुकै तदि और अबीधा अन्न देखि ग्रहण करै । थोड़ा संग्रहमें अच्छीतरह सोधनेमें आजाय, थोड़ाका जाधता यत्नाचारतै बनि सके बीधता दीखै तदि बदल्य मंगावै, अन्य पांच जायगा अबीधा देखि लावै बहुत धान्य होय तो देय सके नहीं फटक सके नहीं, बदल्या जाय नहीं, बहुत बीधा होजाय अर खावना पडै तदि नित्य छांणि-छांणि ईली लट घुणनिकूं पात्र भर भर मार्गमें पटकै तहां मनुष्यनिके तथा पशुनिके पगतलै खुंद जाय, मर जाय पशु चर जाय । बहुरि धान्यमें जीव पड़ने लगैं हैं तदि दिन प्रति दूना, चौगुना, मौगुना, हजार गुना, छोटा बड़ा वधता चल्या जाय है अर समस्त घरके मकाननिमें अर रमोईमें परींडा ऊपर, दीवारपर, चाकीपर फैलते खान, पानकी वस्तुनिमें जमीनमें छतनिमें लाखां कोट्यां जीव विचरने लग जाय हैं । तातै लोभके वशतै, प्रमादके वशतै, अभिमानके वशतै बहुत संग्रह मत करो । बहुरि मूंग, मोठ, उड़द तथा अन्य हू फलादिक जिनके ऊपरि सुफेद फूली प्रगट होजाय तामें त्रसजीव जानि भक्षण मत करो । बहुरि वर्षाकालके चार महीनेमें केतीक वस्तुका संग्रह मत राखो । नगर शहरमें बसनेका सुख तो ये ही है कि जिम अवसरमें चाहें तिस अवसरमें दस पांच दो चार दिनके खरचमें आवै तितनी दस पांच जायगामें आछी निर्दोष दीखै सो खरीदो । वर्षा ऋतुमें गुड़में, शकरमें, खांडमें बहुत चींटीं लट सुलसुली पडै हैं तथा सूंठ अजवायणि इलायची, डौंडा सुपारी बहुत बीधै हैं दाख पिस्ता चारोली छिवारा खोपरा इत्यादिकनिमें परिमाणरहित लट कीडा इल्यां बहुत हजारों लाखां उत्पन्न होय हैं । पुरवाई पवनका संयोगतै ही गुडादिकमें परिमाणरहित जीव उपजै हैं तथा मर्यादारहित बहू लाडू पेडा घेवर बरफी इत्यादिकमें बहुत जीव प्रगट लट उपजै हैं । बहुरि हलदी धणां जीरा मिरच अमचूर कोथोड़ी इनमें वर्षा-

ऋतुमें बहुत ब्रसजीव उपजै हैं तातैं अल्प संग्रह करो, नित्य देख सोधि प्रवर्तो यो यत्नाचार ही धर्म है। चून शीतऋतुमें सात दिनका, ग्रीष्मऋतुमें पांच दिनका वर्षाऋतु में तीन दिनका सिवाय भक्षण मत करो, चूनका संग्रह मत करो। चूनमें बहुत लट पैदा होजाय हैं दाल चावल इत्यादिक जब रांधो तदि दोय तीन वार सोधि रांधो। बहुरि प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें ऐसा लिख्या है श्लोकार्द्र—“सर्वाशनं च न ग्राह्यं दिनद्वययुतं नरैः” अर्थ—समस्त भोजन दोय दिनकर युक्त नाहीं भक्षण करना। यातैं एक रात्रि गयां सिवाय दूजी रात्रि व्यतीत होजाय सो भक्षण योग्य नाहीं। यामें जलका संसर्गयुक्त पक्वान्नादिक हू आगये। बहुरि पुवा मोलपुवा सीरो इत्यादिक तथा बड़ा कचोरी रात्रि वास्या को रस चलि जाय है। जातैं यामें जलका संसर्ग बहुत रहै है। बहुरि रोटी खिचड़ी तरकारी लोंजी रात्रिवासी तो भक्षण ही नाहीं करना अर स्वादसों चलि जाय तो उस दिनमें भी भक्षण नाहीं करना बहुरि रात्रिका बनाया समस्त भोजन भक्षण नाहीं करना। बहुरि दही पहला दिनका जमाया दूजा दिन पर्यंत खावो अधिक नाहीं। बहुरि दोय दालका अन्नकू दही छाछके सामिल भक्षण मत करो जो मिलायकर खावोगे तो यामें विदलका दोष लगेगा जीभ नीचे कण्ठमें उतरते ही संमूर्च्छन जीव उपजै हैं याकू विदल कहिए है। बहुरि दुग्ध दूहां पाछें छानि दोय घडी पहली तप्त करो पाछें सम्मूर्च्छन त्रमनिकी उत्पत्ति होय है। घृत हू छाछमेंसू निकस्या पाछें शीघ्र ही तपाय छानि भक्षण करना योग्य है ताया छान्यां बिना मत भक्षण करो। बहुरि घृत तेल जल इत्यादिक रस चामका पात्रमें घाल्या हुआ भक्षण योग्य नाहीं यामें असंख्यात ब्रस जीव उपजै हैं। सीघड़ा (कुप्पा) बनै हैं ते मांसकू गाड़ि पाछें कूटि माटीके सांचे ऊपरि बनावै हैं इनका स्पर्शा घृत तेल जल मांसके समान है। इनकी प्रवृत्ति मुसलमानांका राज्य हुआ तदि मुसलमानां चलाई है। जो चामका बिना स्पर्शा घृतादि नाहीं मिलै तो रुच भोजन करो। अर ऋगुन पीछें तिलनिमें तथा सिंघाड़ेनिमें बहुत ब्रसजीव उपजै हैं यातैं ऋगुन पीछें तेल अथवा मिंवाड़ा कदाचित मत भक्षण करो। बहुरि जलकू गाड़ी दोहरा कपडाम् छाणिकार पोवो, अन्यकू छाणिकारि प्यारो छाणिकारि ही पशूनिकू हू प्यावो, अणछाण्यां जलतैं स्नान भोजन वस्त्रधोवन इत्यादि कोई भी क्रिया मत करो, जलमें यत्नाचार क्रियातैं दयावानपनाकी हद बनी रहै है। पात्रका मुखतैं त्रिगुना लांबा दोहरा वस्त्र नवीन होय तातैं छाणा अत्रवाण्या (विलह्न) अन्य पात्रमें करि जलके स्थानमें पहुंचावो जलमें यत्नाचारकी यही मर्यादा है। छान्या पाछें दोय घडीकी मर्यादा है फिर काम पडै तो फिर छाण करि बर्तो। तप्त जल दोय पहर बर्तो, बहुत उफूलतो तप्त क्रियो हुवो आठ पहर बर्तो पाछें निकाम है। बहुरि केतेक वस्तुनिकू त्रमनिकी घात जानि नर्वया भक्षण मति करो जैमें—बोर लटांको प्रत्यक्ष स्थान है, मिंडीनिमें बहुत लट उपजै हैं, बैंगण तगवृज कौहला पेठा जामुन आइ बड़वाला गोल अंजीर कट्टमर ऊमर फल पीन् थानू जामफल टांडू अजातरुन मून्म फल बीजाफल चलितरस तथा सागफल तथा

पत्र शाक कन्दमूल आदि शृंगवेर सलगम प्याज लहसन गाजर किशोरिया इत्यादिक तथा कचनार महुआ क्षीरवृक्ष का फल खिरनीकू आदि लेय नीमका फल इत्यादिक अनेक फल हैं केवडा केतकी इत्यादिक फूल हैं तिनका तो प्रगट दोष आगमते वा प्रत्यक्षतै है ही परन्तु परमागमते वनस्पतिका ऐसा स्वरूप जानना-वनस्पति दोष प्रकार है एक प्रत्येक दूजी साधारण । प्रत्येक तो एक देहमें एक जीव है अर देह एक जामें जीव अनन्तानन्त सो साधारण वनस्पति हैं । यातै साधारण भक्षण करै तामें अनन्तानन्त जीवनिका घात जानि त्याग करना योग्य है अब साधारण प्रत्येककी पहचानके ऐसे लक्षण जानने जिम वनस्पतिमें लीक प्रगट नाही भई होय, रेखसी नाही दीखी होय, कली प्रगट नाही भई होय अर जामें पैली प्रगट नाही भई होय अर जाका तोडता ही सम-भङ्ग हो जाय वा कांटे फूटे नाही तथा जाके मापीतांतू तूतडो प्रगट नाही भयो होय सो साधारण वनस्पति है यामें एक अणुमात्रमें अनन्तानन्त जीव हैं अर जिस वनस्पतिमें धार तथा कला तथा रेखा तथा पैली प्रगट दीखै सो साधारण नाही, प्रत्येकवनस्पति है तथा जाकू तोडिये टेढा वाका टूटै सूधा शस्त्रसे बनारया जैसा साफ बरोबर नाही टूटै तथा जाके माही तार तूतडा प्रगट हो गया होय सो प्रत्येक वनस्पति है परन्तु कोऊ वनस्पति पहली साधारण होय वाही एक अन्तर्मुहूर्तमें प्रत्येक हो जाय है कोऊ साधारण ही बनी रहै पान फूल बीज डाहली कूपल इत्यादिक समस्त साधारण प्रत्येककी याही पिछाण जानना । पत्रमें समभंगादिक होय तो पत्र साधारण है अन्य समस्त वृक्ष साधारण नाही । बीज कूपल समभंग सहित होय रेखादिक प्रगट नाही होय तेते बीज कूपल साधारण हैं अन्य साधारण नाही ऐसै इस वनस्पतिमें कोऊ साधारण मिल जाय कोऊ प्रत्येक हो जाय इत्यादिक दोषरूप तथा वनस्पतिमें अनेक त्रसर्जव-निका संसर्ग उत्पत्ति जानि जे जिनेंद्रधर्म धारण करि पापिनितै भयभीत हैं ते समस्त ही हरित-कायका त्याग करो जिहा इन्द्रियकू वश करो अर जिनका समस्त हरितकायके त्याग करनेका सामर्थ्य नाही है ते कंदमूलादिक अनंतकायका तो यावज्जीव त्याग करो । अर जे पंच उदंबादिक प्रगट त्रस जीवनिकर भरया है ऐसा फल पुष्प शाक पत्रादिकनिकू छांडि करिकै त्रसघातकर रहित दीखै ऐसी तरकारी फलादिक दश बीसकू अपने परिणामनिके योग्य जानि नियम करो । इन सिवाय अठईस लाख कोड़ कुल वनस्पतिकाय हैं तिनका तो त्यागकरि भार उतारो । हरि त-काय प्रमाणकका नियम करै ताके कोट्या अभक्ष्य टलै तिसमें पत्रजात भक्षण योग्य नाही । त्रसकी उत्पत्ति टालि अन्य बहुत घटाय नियम करो विना घटाय निरर्गल रखा असंयमीपना होय आसव होय है तातै हरितकायका भक्षणमें नियम व्रत करना योग्य है । बहुरि जिस भोजन ऊपरि ऊलण आजाय, ऊपर फूल सा नीला हरा लाल आजाय सो भोजन मत करो यामें अनन्तजीवनिका घात है यातै त्रसके ऊपर फूली आजाय सो दूरतै ही त्यागो । बहुरि मोहके कारण प्रमादके उपजावनेवाले ज्ञानकू विगाड़ने वाले जिहाइन्द्रिय अर उपस्थइन्द्रिय



कूँ विकल करनेवाली ऐसी भांग तमाखू छोंतरा अमल हुक्का जरदा इत्यादिक अभक्ष्यनिका खावना पीवना जिनधर्मीनिकै त्यागने योग्य है। ये अमल पराधीन करै हैं इनमें अफीमका भक्षण करनेवालेकू एक घड़ी अफीम नहीं होय तो जमीनमें बेहोश होय पड़ि जाय है वेदनाका आत्त-परिणामतैं पशु ज्यों पग जमीमें पड्या पड्या रगड़ै है निर्लज्ज हुआ याचना करै है नेत्रनितैं नीर ाड़ै है और अफीम मिलि जाय तदि अमलमें आया भूला हुआ ऊंगवो करै है, जिह्वा इन्द्रियकी तोलुपता बधि जाय है स्वाध्याय धर्मश्रवण व्रत संयम उपवासादिकनिकूँ दूरहीतैं त्यागै है बुद्धि धर्मतैं पराङ्मुख होजाय है, उत्तम आचार नष्ट होजाय है। बहुरि हुक्काकी महामलीनता दुर्गंध तमाखू और धुवांका योगतैं पानीमें जीवनिकी उत्पत्ति होय है जहां हुक्काका जल पड़े तहां छह-कायके जीवनिका घात होय है। अर याकी दुर्गंधतैं उत्तम आचारके धारक नजीक बैठ नहीं सकै हैं अर वारम्बर घरघरमें अग्नि हेरतो फिरै है घरमें राखको ठीकरो धरयोही रहै है नीचकुलवाले नीचजननिके पीवने योग्य है। हुक्का पीवनेवालेकूँ गाडीवान घोड़ाका चाकर मीणा गूजर मुसलमान इत्यादिकनिकी संगति रुचै है उत्तम कुलवालेनिके योग्य नहीं है अर हुक्का नाही मिलै तो नाई धोत्री गूजर मीणा तेली तमोली मुसलमाननिकी चिलम याचना करि पीवै है अर नाही पीवै तो बड़ा रोग पैदा होजाय उदरमें आफरो चढ़ि जाय नीहार बन्द होजाय महान दुःख गले बाँध्या है तातैं व्रत संयम उपवास स्वाध्यायदिक समस्त उत्तम कार्यनिकूँ तिलांजलि देहै। बहुरि जरदा महा अशुचि द्रव्य है याकूँ मुखमें राखि मलमूत्र मोचन करै है रास्तामें मार्गमें मलमूत्रादिक ऊपरि पगरखी पहरै जरदा खाय है मांसभक्षी मद्यपायीनिका तथा नीच जातिका घरका पानी मिल्या कत्था चूना खाय है नीच जाति अपना हस्तादिक विना धोये अंग खुजावते जरदा मसल देहै उच्छिष्टकी ग्लानि नहीं करै है समस्त शय्या आसन खूणा वारी समस्त जायगां उच्छिष्टखूँ लिप्त करि देय है पशु हूँ रस्ते धालता सोता मुख नाही चलावै है याकै परतैं हूँ अधिक विकलता है। मुखमें महादुर्गंध रहै है जरदाका पीका जहां पड़े तहां माछी माछर डांस मकड़ी कीडा कीडा बड़ा बड़ा त्रस ही मारि जाय तहा पंचस्थावरनिका घात होय ही। व्रत संयम स्वाध्याय जाप्य शुभ भावनाका नाश होय है जरदा खानेवालानिकी बुद्धि आत्माके हितमें प्रवर्तन नाही करै है संयमके योग्य नाही होय है तामें दया क्षमा शील सन्तोष इन्द्रियविजय परिणाम कदाचिउ नाही प्रवर्तैं हैं अनेक पापाचार कसट छलमें बुद्धि प्रवीण होजाय है। अनेक व्यमनि-नमें प्रवृत्ति होजाय है जरदा खानेवालेके मांगनेकी लाज नाही रहै। समस्त नीच जातिखूँ भी मांगि करि खाय है। मद्य मांस खानेवाले जिसकाल मद्य पीवै हुक्का पीवै है उसका हस्ततैं दीया जरदा बीडी मांगि मांगि खाय है जरदा खानेवाले बहुत मनुष्यनिकूँ नीकेकरि देविण हूँ एरुतैं हूँ परमार्थ में बुद्धि-परलोक शुद्ध करनेकी बुद्धि नाही होय है इम जरदेके प्रभाररुनि हीन आचारकी बुद्धि होय तदि परमार्थतैं बुद्धि अष्ट होय लौकिकजनमें, व्यभिचारमें,

लोभमें प्रवल होय है सांचा धर्म याकै नहीं होय है ऐसा आपका परिणाममें आप अनुभव करो । अर परका जरदा खानेका स्वरूप प्रत्यक्ष देखि जरदा खानेका त्याग करो । अर जरदा एक दिन हू नहीं खाय तो परिणाममें उषाधि उदरमें व्याधि अनेक रोग व्याधि उपजावै है तातें जरदा खाना महारोगकूँ, महाव्याधिकूँ, स्रगलापनाकूँ अङ्गीकार करना है । बहुरि भांग पीवना हू अपना बडापना शोभितपना नष्ट कर देहै भंगेराका दरजा घटि जाय है, भंगेराके जिह्वा इन्द्रियकी लंपटता बधि जाय है । त्रिकलीपना होइ जाय है प्रमादी हुआ ऐश करना बहुत निद्रा लेना बहुत घृत खांडका भोजन करना चाहै है । पाचों इन्द्रियां विषयांकी लंपटतानै प्राप्त होजाय हैं ज्ञान शिथिल होजाय है वैमी होजाय है भांग पीवनेवालेके मीठा भोजनमें ऐसी लंपटता होजाय है जो मीठा मिलै कृतकृत्य होजाय है आत्मज्ञान धर्मका ज्ञान कदाचित् नहीं होय है बाह्य आचारण भ्रष्ट होय ही है अर भांगमें हजारों ब्रसजीव चालता दौड़ता उपजै है वर्षाऋतु मेँ भांगमेँ अपरिणाम ब्रसजीव उपजै हैं भंगेरा भांग सोधै नहीं घोटिकरि पीजाय है । ऐसै हू अफीम खाना जरदा खाना हुक्का पीवना भांग पीवना अर और हू छोटरा पीवना तमाखू सूँघना ये देहके तो महारोग ही हैं अमल करनेवालेकी आकृति विगड़ि जाय है धर्म विगड़ि जाय ऐसा नियम है । ये नसा सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रिका हू महाघातक है ये अमल अनर्थदंडनिमेँ हू हैं अर व्यसननिमेँ हू हैं यातै मनुष्य जन्म अर जिनधर्म उत्तम कुलादिक पायाकूँ सफल किया चाहो हो तो अमल नसा करनेका त्याग ही करो ।

बहुरि रात्रिके अन्नसमेँ भोजन करना त्यागने योग्य ही है रात्रि-भोजन करै ताकै यत्नाचार तो रहै ही नहीं अर जीवनीकी हिंसा होय ही । रात्रिबिषै कीडां मांछर मांछी मकडी कसारी अनेक जीव आय पडै हैं अर दीपक जोव भोजन करै तो दीपकके संयोगतै दूर-दूरके जीव दीपक के शीघ्र आय भोजनमेँ पडै हैं । अर रात्रिभोजन जिनधर्मी होय करै तो आगाने मार्ग-भ्रष्ट होजाय अर रात्रिमेँ चूल्हा चाकी परींडाका आरम्भ करना मेलना धोवना मांजना ये घोरकर्म प्रगट होजाय तदि महान हिंसा अर महान दुःख प्रगट होजाय तदि घोर आरम्भीके जिनधर्मका लेश हू नहीं रहै है । बहुरि कोऊ कहै जो आरम्भ तो नहीं करै सीधा भोजन लाइ, पेडा, पूडी, पूवा, बरफी, दुग्धादिक भक्षण करनेमेँ रात्रि-आरम्भ नहीं भया, ताकूँ ऐसा समझना जो दिवस कूँ छांड रात्रि भोजन करै ताकै तीव्ररामरूप महान हिंसा होय है जैसेँ अन्नके ग्रासका अनुराग अर मांसके ग्रासका अनुराग समान नहीं होय है तैसेँ रात्रि भोजनका अनुराग है सो दिनके भोजनका अनुरागके समान नहीं है । दिवसमेँ ही भोजन बहुत है रात्रि दिवस दोऊनिमेँ भोजन करै ताके ढोर समान संवररहित प्रवृत्ति रही तथा रात्रिभोजन करनेवालेके व्रत तप नहीं होय है । ऐसा विशेष—जानना जो अनादिकालतै विदेहनिमेँ एक बार वा दोय बार ही भोजन है रात्रि मेँ कदाचित् हू भोजन नाही । जो रात्रि भोजन करै तो चूल्हा चाकी

भुवारी जलादिकका समस्त आरम्भ रात्रिमें होजाय तदि भोजन करनेमें, तरकारी बनावनेमें तथा पुरुषनिके भोजन करनेमें, स्त्रीनिके कुटुम्ब सेवकादिकनिके भोजन करनेमें धोयवेमें, बुहारिवेमें, मांजनेमें दोय पहर रात्रि व्यतीत हो जाय है अनेक जीवनिका संहार होजाय समस्त यत्नाचारका अभाव होय जाय अर कीडा कीडो ईलो कसारी मकडो इत्यादिक बड़े बड़े जीवनिका भोजनमें पतन तथा ईंधनमें चूल्हामें तरकारीमें जलमें पात्रनिमें पतन होय है अर दीपकादिक तथा चूल्हाका निमित्तकरि माखी मच्छर डांस पतङ्गादिक अनेक जीवनिका नित्यप्रति होम हो जाय, अर दिनमें भी आरम्भ अर रात्रिमें हू घोर आरम्भ करि समस्त कुटुम्बजननिके महादुःख पैदा होजाय । रात्रिमें घोर धन्धातैं समता नाही आसके तामें धर्मसेवन तथा शास्त्रका पठन श्रवण तत्त्वार्थकी चर्चा सामायिक जाप्य शुभध्यानका तो अवसर ही रात्रिभोजन करनेवाले के नाही रहै है यातैं जिनेन्द्रधर्मके धारक रात्रिभोजन कदाचित् हू नाही करै है ऐसी सनातनरीति अब ताई चली आवै है अर जिनधर्मी रात्रिभोजन नाही करै हैं ऐसैं कोट्यां मनुष्यनिमें प्रसिद्धता अर उज्ज्वलता अर प्रभावना अर उच्चता अर भोजनकी शुद्धताकू विगाड कोऊ विषयनिकरि प्रमादी अन्ध भया रात्रिमें दुग्ध कलाकन्द पेडा खाय है तथा औषधि जलादिक पीवे है सो अपने उत्तम आचार धर्मनै अर कुल मर्यादानै अर जैनीपनानै जलांजलि देय सन्मार्गतैं भ्रष्ट हुआ उन्मार्गी है, उनका मार्ग तो ब्राह्म आभ्यन्तर भ्रष्ट है अर आगानै अधर्मकी परिपाटी चलावै है । बहुरि रात्रिका किया भोजन दिनमें हू भक्षण करना योग्य नाही है । बहुरि मिथ्याधर्मके धारकनिके मांसभक्षीनिके संग बैठि भोजन मत करो । नीचजातिकेसू मित्रता मति करो देवताके चड्या भोजन मत भक्षण करो । दांतका चूडा, रोमका वस्त्र, कामली पहिर भोजन बनावै तो भक्षण योग्य नाही, मांसभक्षीनिके घरमें भोजन नाही करना नीचजातिके घरमें भोजन नाही करना । बहुरि अत्तारनिका अर्क तथा माजूम तथा शरबत अन्य हू समस्त वस्तु भक्षण करना योग्य नाही । अत्तारके विलायतका वण्यां म्लेच्छनिके जलकर बनाया उच्छिष्ट अर्कनिकी भरी हुई बोतलां आवै हैं अर समस्त वस्तु अज्ञात हैं अर अर्कादिकनिमें अनेक जलचर थलचर नभचर पंचेन्द्रियादिक जीवनिके मांसके कई अर्क हैं अर बहुत जातिकी मदिरा बनाय अर्क संज्ञा करै हैं बहुत जीवनिके अण्डानिका रसका बोतलां भरी हैं अर मधु जो शहद सो समस्त सरबत मुरब्बा माजूम जवारसादिकनिमें है अर अनेक जीवनिका अनेक अङ्ग इन्द्रियां जिह्वा कलेजा इत्यादिक शुष्क हुआ मांसनिकू अत्तार वेचै है यहांके समस्त उत्तमकुलनिकी बुद्धि भ्रष्ट करनेकू मुसलमान लोक अपनी उच्छिष्ट भक्षण करवानेकू समस्त हिन्दुस्तानके लोकनिकू भ्रष्ट करनेकू अत्तारानिकी दुकानां करवाई हैं करोड कपायीनिकी दुकान समान एक अत्तारकी दुकान है । यहां इस देशमें राजालोग हिन्दूधर्मकी रचावास्ते अठारासै बाईसका संवत् ताई तो अत्तारका बसना दुकान करना नाही होने दिया फिर कालके निमित्ततैं पापकी प्रवृत्ति फैली ही । अब उत्तम कुलवाले हू इनका अर्कादिक

खावने लगे हैं सो मुसलमाननिका भूँठन और मांस-मदिरादिक भक्षण करने लगे तदि ब्राह्मणपना महाजनपना वैश्यपना कहां रहा सब कुलभ्रष्ट भये । अर अभक्ष्य भक्षण करने हीतें सत्यार्थधर्मतें रहित लोकनिकी बुद्धि होगई है अर अत्तारनि की औषधिहीतें रोग मिटै है ऐसा नियम नाहीं । अत्तारनिका अर्क पीवा करि धर्मभ्रष्ट होय बहुत लोक मरते देखिये हैं जिनके दुर्गतिका बन्ध होगया है तिनके ही इनकी भ्रष्ट औषधिसे आराम होय है जैसे राजा अरविन्दके दाहज्वरका अनेक इलाज किया तो हू दाहज्वर शांत नाहीं भया अर पाछें अपना महलकी छाति ऊपर लड़ते विसमरानिका शरीरतें रुधिरका बून्द अपने शरीर ऊपरि पडा तातें शीतलता भई तदि पापी पुत्रनिष्क कही मोक्ष रुधिरकी बावडी भराय द्यो जो मैं वामें क्रीडा करि आतापरहित हो हूँ । तव पुत्र पापतें भयभीत होय लाखका रङ्गकी बावडी भराई तदि राजा बावडीकू देखि बडा आनन्द मानि बावडीमें गर्क होय अर कपटके लोहेकी बावडी जानि पुत्र ऊपर क्रोधित होय पुत्रकू मारनेकू छुरी लेय दौड्या सो मार्गमें पडि अपना हाथकी छुरीतें आप मरि नरक जाय पहुंच्या । ऐसैं ही जिनकी दुर्गति होनी है तिनकै अत्तारनिकी औषधिस्व आराम होय है तदि उनके पापरूप अत्तारी वस्तुनिमें प्रवृत्ति होय है यातें प्राणनिका नाश होते हू छह-महीनेके बालक हूकू अत्तारकी औषधि देना योग्य नाहीं । धर्म विगड्यां पाछें यो जिनधर्म अनन्तकालमें हू नाहीं मिलेगा । तातें जैनधर्मके धारकनिष्क हजारों खण्ड होजाय तो हू अभक्ष्यभक्षण नाहीं करना । बहुरि बजारकी दुकाननिका चून कदाचित् मति भक्षण करो । बेचनेवालेनिकै समस्त चमारी खटीकनी और मुसलमानिनी धोविन इत्यादिक तो पीसैं हैं मुसलमान धोवी बलाईनिके राजाका तबेला तोपखानानितें चून मिलै सो बजारवाले मोल लेय लेवे हैं अर महीनाका छह महीनाका पीस्याको प्रमाण नाहीं हजारों सुलसुल्यां पडि जाय हैं । घणा जणा बीधो नाज लेय मोदी लोग पिसावै हैं अर मुसलमान म्लेच्छ समस्त उसहीमें हस्त घालि तुला ले जाय हैं मुसलमानाकै नुकता विवाहमें काम नाहीं आवै सो आधा ओसणि आधो फेर जाय हैं बहुरि सरायका दुकानदारां का पीतलका, कांसीका, लोहेका, पात्र भोजन करनेकू लेना योग्य नाहीं समस्त मांस भक्षी दुराचारीनिकू भी वे ही पात्र दे हैं तातें अपना आचारकी उज्वलता चाहै हैं सो तीन-चार पात्र अपने निकट राखि विदेशमें गमन करै हैं अर जहां जाय तहां दमड़ी बघती देय चून तयार कराय भक्षण करै चूनकी नाहीं विधि मिलै तो खिचड़ी तथा धूधरी रांधि खाय । बहुरि बजारकी मिठाई लाडू बुरफी घेवरादिक मत भक्षण करो । इनका चूनका घृतका जलका कुछ परिणाम नाहीं है । लोभी निंदकमीनिकै आचार नाहीं होय है बहुरि मैदाका खमीरा बाडिकरि सडावै है खट्टा पढ़ते ही जामें अनन्तानन्त जीव पड़ै है । पाछें कटाईमें पकै है भुनै हैं सो जलेवी करै हैं सावनी करै हैं सो भक्षण करने योग्य नाहीं । तथा दहीमें खांड बुरा मिलाय बहुत काल पर्यंत मति राखो दोय महरतताई खाना योग्य है अपना मित्र भाई पुत्रादिकके सामिल एक पात्रमें भोजन करना

योग्य नहीं। मनुष्य कूकरा बिलाई इत्यादिकनिका उच्छिष्ट भोजन त्यागना योग्य है तथा गाय भैंस गधा इत्यादिक तिर्यचनिका उच्छिष्ट जलादिकमें स्नान मति करो पान तो कदाचित् हू मत करो। तथा अन्नका खांडका लापसीका बनाया मनुष्य तिर्यचनिका आकार ताकू मत भक्षण करो तथा देवी दिहाडी व्यन्तरादिकनिकी पूजाके वास्तै संकल्प किया भोजन त्यागने योग्य है तथा मांसभक्षीनिका भाजनमें भोजन मत भक्षण करो। भाजन मांसभक्षी को मांग्या मत द्यो। नाईका भाजनका जलसों छौर मत करावो रजस्वलाका स्पर्श किया पात्र भोजन योग्य नहीं। बहुरि अनुपसेव्य जानि विकाररूप वस्त्र आभरण मत पहरो जो उत्तम कुलके योग्य नहीं ऐसा नीच कुलनिके पहरनेके वेश्या तथा विटपुरुषनिके पहरनेके तथा म्लेच्छ मुसलमाननिके पहरनेके तथा स्वामी योगी फकीर भांडनिके पहरनेके वस्त्र आभरण परिणाम विगाडै हैं अपने तथा परके विकार उपजानेवाला तथा अपना पदस्यके योग्य लोकतैं अविरुद्ध ऐमा आभरण वस्त्र भेष धारना योग्य है बहुरि कहनेकरि कहा संक्षेपतैं जानना जो समस्त संसार परिभ्रमणके कारण पंचइन्द्रियनिका विषयनिमें लालसा है तिन इन्द्रियनिमें हू जिह्वाइन्द्रिय अर उपस्थ इन्द्रिय दोय इन्द्रियनिकी लालसा इसलोक परलोक दोऊनिकू विगाड देनेवाली है इन दोय इन्द्रियनिके विषयकी लोलुपता जिनके अधिक है ते मनुष्यजन्ममें हू पशुके समान हैं। पशुयोनिमें हू इन दोऊ इन्द्रियां का विषयकी चाहकरि परस्पर लडि लडि मरजाय है अर मनुष्यजन्ममें हू कलह करना मारना मरना निर्लज्ज होना उच्छिष्ट खावना दीनता भाषणां पुण्यदान लेना अभक्ष्य भक्षण करना इत्यादिक समस्त नीचकर्मनिमें प्रवृत्ति रसनाइन्द्रियके विषयनिकी लालसातैं ही होय है। अर देखहु भोगभूमिके अर देवलोकके नानाप्रकारके भोगनिमें हू तृप्तता नाहीं भई अत्र ये किंचित् जिह्वाका स्पर्शमात्रका स्वाद अति अल्पकालमें है भोजन गिल्यां पाछैं नाहीं अर पहली नाहीं ऐसा तृष्णाका वधावनेवाला आहारमें लुब्धताका त्याग करि समस्त इन्द्रियांको विजय करि रस नीरसकी कर्म जैसी विधि मिलाई तिसमें सन्तोष धरि अभक्ष्यनिका त्याग करि देहका धारणमात्रके अर्थि भोजन करै है सो समस्त पापरहित होय देवलोकका पात्र होय है। अत्र यहां ऐसा जानना जो भोगोपभोग परिणाम करै सो अपना परणामनिकी दृढ़ता देखै जो मेरे एता घट्या है एता दान नाहीं घट्या है। अर सामर्थ्य देखै जो ऐसा योग्य वनैगा तो मेरा देहका तथा परिणामका इमहू निर्वाह करनेका सामर्थ्य है कि नाहीं है ऐसा विचार करि व्रत धारण करना। अर देशकी रीति निर्वाह योग्य देशकी अर कालकू अवसरकू देखना अवस्था देखना अपना कोऊ गहायो है कि त्यागव्रतके विगाडनेवाला है ऐसा हू विचार करना शरीरका रोगरहितपना (नीरोपपना देवना भोजनादिक मिलनेका, नाहीं मिलनेका संयोग देखना तथा भोजनादिक मेरे आर्गन है कि परवान है ऐसे न्यागव्रततैं हमारे तथा स्त्री पुत्र स्वामी इत्यादिकनिके परिणाममें संकल्प होयगा कि संकल्प नाहीं होयगा अपना स्वाधीनरना पराधीनपना जानि जैसैं परिणाम-

निकी उज्ज्वलता सहित व्रतका निर्वाह होय तैसें नियमरूप त्याग करो । तथा यम कहिये यावज्जीव त्याग करो । केतेक तो यावज्जीव ही त्यागने योग्य है—जामें प्रगट व्रसनिका घात होय तथा अनन्त जीवनिका घात होय अपने कुलमें सेवने योग्य नहीं होय तथा मद करनेवाला होय तथा मांस मद्य माखन मदिरा अचार महाविकृति अर रात्रिविषै भोजन घूतक्रीडादिक सप्तव्यसन, बिना दिया परधनका ग्रहण अर व्रसहिंसा अर स्थूल असत्य, अन्यायका परिग्रह, बिना छान्या जल, अनर्थदण्ड ये तो यावज्जीव ही त्यागने योग्य हैं । इनमें नियम कहा करिये ये तो महा अनीति हैं इनके त्याग करनेमें शरीर ऊपरि कुछ क्लेश भार दुःख नहीं आवै, अपयश नहीं होय है इनका त्यागमें धन चाहिये नहीं, बल चाहिये नहीं, स्वामीका तथा स्त्रीका पुत्र कुटुम्बादिकनिका सहाय चाहिये नहीं किसीकूँ पूछनेका वाक्किफ करनेका हू काम नहीं, अपने परिणामके ही आधीन है कोऊप्रकार इनका त्यागमें शीत उष्ण क्षुधा तृषादिककी बाधा पीडा भोगना पड़े नहीं स्वाधीन है परिणामनिमें देहमें सुख करनेवाला है यातें दुर्लभ सामग्री भोगोपभोगका परिमाण करना श्रेष्ठ है । बहुरि कदाचित प्रबलकर्मके उदयतैं यो मनुष्य कुदेशमें पराधीनतामें जाय पड़े प्रबलरोगतैं पराधीन होजाय तथा प्रबल जराके आवनेतैं उठने बैठने चालनेकी सामर्थ्य घटि जाय तथा कोऊ स्त्री पुत्रादिक सहायी नहीं होय तथा नेत्रनिकरि अंध हो जाय बधिर होजाय तथा लम्बा रोग आजाय तथा बन्दीखानामें दुष्ट म्लेच्छादिक अपना भोजन जलादिक बिगाडि दे तथा जवरीतैं समस्तके सामिल बैठाय खान-पान करावै ऐसा ऐसा उपद्रव आजाय तो तहां अन्तरंगमें तो व्रतसंयमकूँ छांड़े नहीं बाहिर श्रीपंचनमोकार मन्त्र को ध्यान करि ही शुद्ध है क्योंकि बाह्य देहादिक पवित्र होहु वा अपवित्र होहु मलमूत्र रुधिरादिककरि लिप्त होहु समस्त कुत्सित ग्लानियोग्य अवस्थाकूँ प्राप्त हुआ जो पुरुष परमात्माकूँ स्मरण करै है सो बाह्य हू पवित्र है अर अभ्यन्तर हू जातैं देह तो सप्तधातुमय मलमूत्रादिकी भरी हुई अर रोगनिका स्थान है एक क्षणमें समस्त शरीरमें कोठ भरने लागि जाय है हजारों फोडा फुनसी गूमडी लोहू राध स्रवणें लागि जायें मलमूत्र अशुद्धिपूर्वक स्रवणें लागि जाय है ऐसा अवसरमें बाह्य व्यवहार शुद्धता कैसें होय अर निर्धन एकाकीका सहायक कौन होय ? तहां धर्मात्मा पुरुष अशुभकर्मका उदयमें ग्लानि त्याग करके धीरता धारण करि आर्च परिणाम करि संकलेश नहीं करै है अशुभकर्मके उदयकूँ निर्जरा मानता अन्तरङ्ग वीतरागताकरि संसार देह भोगनिका स्वरूप चिन्तवन करता बारह भावना भावता कर्मके उदयतैं अपना आत्मस्वरूपकूँ भिन्न जाता दृष्टा शुद्ध चिन्तवन करता वीतरागताकरि ही राग द्वेष हर्ष त्रिपाद ग्लानि भय लोभ ममत्तरूप आत्माके मलकूँ धोय आपकूँ शुद्ध मानै है ताकैं समस्त शुद्धता होय है ।

अब भोगोपभोगपरिमाण व्रतकै दोय प्रकारता कहनेकूँ सूत्र कहै हैं—

नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोगसंहारे ।

नियमः परिमितकालो यावज्जीवं यमो ध्रियते ॥८७॥

अर्थ—भगवान हैं सो भोग अर उपभोगका घटावनेतैं नियम अर यम ऐसैं दोय प्रकार भोगोपभोग परिणाम व्रत कह्या है । तिनमें कालका परिणामकरि त्याग करना सो नियम कह्या है अर इस देहमें जीवन है तितने तक तो त्याग करि रहना सो यम कह्या है ।

भावार्थ—जो एकवार भोगनेमें आवैं ऐसे आहारादिक तो भोग हैं अर जे वारम्बार भोगने में आवैं ऐसे वस्त्र आभरणादिक उपभोग हैं । इन भोग-उपभोगनिका, परिणाम यम नियम करि दोय प्रकार है तिनमें जिस भोग उपभोगका एक मुहूर्त तथा दोय मुहूर्त तथा पहर तथा दोय पहर, एक दिवस, दोय दिवस पांच दिन पन्द्रह दिन एक मास दोय मास चार मास छह मास एक वर्ष दोय वर्ष इत्यादिक कालकी मर्यादा करि त्याग करै सो नियम नामका परिमाण है । जातैं जो आपके उपयोगी होय शुद्ध होय ताका त्यागमें तो कालकी मर्यादाकरि ही नियमरूप त्याग करना । अर जो आपके प्रयोजनरूप हू नाहीं होय तथा परिणामनिष्कं विगाड़ने वाला होय अथवा सदोष होय ताकूँ यावज्जीव त्याग करि यमनामा परिणाम करना योग्य है । इस भोगोपभोग परिमाणतैं अनेक पापके आस्रव रुक जाय हैं । इन्द्रियां वशीभूत हो जाय हैं राग अतिमन्द हो है, व्यवहार शुद्ध हो जाय है । मन वश हो जाय व्यवहार परमार्थ दोऊ उज्ज्वल हो जाय तातैं भोगोपभोगपरिमाण व्रत ही आत्मा का हित है विरुद्ध भोग तो त्यागिये ही और अविरुद्ध भोग होय तिनमें हू अपनी शक्ति परिमाण देश काल देखि दिवस रात्रिके कालकी मर्यादा करी तामें हू फिर दोय घड़ीकी चार घड़ीकी मर्यादा करि रहना यातैं कर्मनिकी बड़ी निर्जरा है ।

अब और हू भोगोपभोगनिमें परिमाण कहनेकूँ सूत्र कहै हैं—

भोजनवाहनशयनस्नानपवित्राङ्गरागकुसुमेष ।

ताम्बूलवसनभूषण--मन्मथसंगीतगीतेषु ॥८८॥

अर्थ—भोगोपभोगपरिमाण नाम व्रतमें नित्य हू नियम करै—आजका दिनमें एक बार भोजन करूंगा वा दोय बार भोजन करूंगा वा तीन चार बार इत्यादिक भोजन करनेका परिमाण करै अथवा आजका दिनमें एती जातिका अन्न तथा एते रस, एते व्यञ्जन भक्षण करूंगा अधिक प्रकार भक्षण नाहीं करूंगा ऐसैं भोजनका नियम करै । वहुरि वाहन जे हाथी घोड़ा ऊंट बलध पालकी रथ चहली नाव जहाज इत्यादिक वाहन ऊपर चढनेका नियम करै । वहुरि पलंग खाट इत्यादिक विषय शयन का नियम करै जो आजमें पलंगादिकमें शयन करूंगा वा भूमिमें ही शयन

करूंगा । बहुरि आज एक बार स्नान करूंगा वा दोय बार स्नान करूंगा वा स्नान नाहीं करूंगा इत्यादिक नियम करै । बहुरि पवित्र जो अङ्गराग कहिये चन्दन केशर कपूर्रादिके विलेपन करना वा नाहीं करना इनमें नियम करै । बहुरि पुष्प तथा पुष्पनिकी माला आभरणादिक धारण करनेमें नियम करै । बहुरि तांबूल इलायची सुपारी लवंगादिक भक्षण करूंगा वा नाहीं करूंगा ऐसा नियम करै । बहुरि वस्त्रानिका नियम करै जो आज एते वस्त्र पहरूंगा, अधिक नाहीं पहरूंगा ऐसैं वस्त्रनिमें नियम करै । बहुरि आज एते ही आभरण पहरूंगा अधिक नाहीं ऐसैं आभरण पहरनेमें नियम करै । बहुरि काम सेवनेका नियम करै । बहुरि नृत्य देखनेका नियम करै बहुरि गीत गावनेका वा अन्यवेश्या कलावन्तादिकतैं गवावनेका नियम करै । बहुरि और हहरितकायके भक्षणमें नियम करै । बहुरि पदरसके भक्षणमें जल पीवनेमें नियम करै । बहुरि सिंहासन कुर्सी चौकी इत्यादिक आसनमें बैठनेका नियम करै । इत्यादिक अपने योग्य ह भोग-उपभोगनिमें नित्य नियम करै है ताकै भोजन-पानादिक करनेतैं ह निरन्तर सवर होय है ।

अब नियमके अर्थि कालकी मर्यादा कहनेकूँ सूत्र कहै हैं—

अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथर्तुरयनं वा ।

इति कालपरिच्छित्या प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः ॥ ८६ ॥

अर्थः—अद्य कहिये एक घड़ी मुहूर्त प्रहर अर दिवा कहिये दिवस तथा रात्रि पक्ष तथा एक मास तथा दोय मासका ऋतु अर अयन कहिये छह मास इत्यादिक कालका परिमाण करि त्याग करना सो नियम है । ऐसैं भोगोपभोगका परिणाम वर्णन किया ।

अब भोगोपभोगपरिमाण व्रतके पंच अतीचार कहनेकूँ सूत्र कहै हैं—

विषयविषतोऽनुपेक्षानुस्मृतिरतिलौल्यमतितृषानुभवौ ।

भोगोपभोगपरिमाव्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते ॥ ६० ॥

अर्थः—ये भोगोपभोग व्रतके पांच अतीचार त्यागने योग्य हैं । विषय हैं ते संताप बधावै हैं अर विषयांका निमित्ततैं मरण होय हैं यातैं ये पंच इन्द्रियनिके विषय विष हैं इनमें परिणामका राग नाहीं घटना सो अनुपेक्षा नाम अतीचार है ॥ १ ॥ बहुरि जे विषय पूर्वकालमें भोगे थे तिनकूँ बारम्बार याद करचा करै सो अनुस्मृति नाम अतीचार है ॥ २ ॥ बहुरि विषय भोगै तिस काल में अतिगृद्धितातैं अति आसक्त हुआ भोगै सो अतिलौल्य नाम अतीचार है ॥ ३ ॥ बहुरि विषयनिकूँ आगामी कालमें भोगनेकी अति तृष्णा लगी रहै सो अतितृष्णा नाम अतीचार है ॥ ४ ॥ बहुरि विषयनिकूँ नाहीं भोगै तिस कालमें भी जानै भोगू ही हूँ ऐसा परिणाम



सो अनुभव नाम अतीचार है ॥ ५ ॥ ऐसै भोगोपभोगपरिमाण व्रतके पांच अतीचार छांडि व्रत  
कूं शुद्ध करना ।

इति श्री स्वामिसमन्तभद्राचार्यविरचित, रत्नकरण्डश्रावकाचारके मूल सूत्रनिकी देशभाषामय  
वचनिकाविषै तृतीय अधिकार समाप्त भया ॥ ३ ॥

—०—

अब च्यार शिचाव्रतनिके स्वरूपका निरूपण करनेकूं सूत्र कहै हैं—

देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा ।

वैष्यावृत्यं शिचाव्रतानि चत्वारि शिष्टानि ॥ ६१ ॥

अर्थ:—देशावकाशिक (१) सामयिक (२) प्रोषधोपवास (३) वैष्यावृत्य (४) ऐसैं चार  
शिचाव्रत कहै हैं । भावार्थ:—ए चार व्रत हैं ते गृहस्थपनामें मुनिपनाकी शिचा करै हैं ।  
अब देशावकाशिक व्रतके कहनेकूं सूत्र कहै हैं—

देशावकाशिकं स्यात्कालपरिच्छेदनेन देशस्य ।

प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य ॥ ६२ ॥

अर्थ:—अणुव्रतनिके धारक पुरुषनिकै दिन दिन प्रति विस्तीर्ण देशकूं कालकी मर्यादा  
करि घटावना सो देशावकाशिक नाम शिचाव्रत है ।

भावार्थ:—जो पूर्वकालमें दश दिशानिमें जावना मंगावना भेजना बुलावना इत्यादिक-  
निकी मर्यादा यावज्जीव दिग्ब्रतमें करी थी सो तो बहुत थी तामेंतैं अब रोजीना क्षेत्रकूं घटाय  
कालकी मर्यादा करि व्रत करै सो देशावकाशिक व्रत है जैसे पूर्व दिशामें दोयसै कोसका परिमाण  
यावज्जीव क्रिया सो तो दिग्ब्रत है फिर यामेंतैं रोजीना मर्यादा रूपकरि राखै जो आज चार कोस  
हीका म्हारै परिमाण है वा इस नगर का ही परिमाण है वा आज अपने घर बाहिर नाहीं जाऊंगा  
सो देशावकाशिक व्रत है ।

अब देशावकाशिक व्रतमें क्षेत्रकी मर्यादा प्रगट करै हैं—

ग्रहहारिग्रामाणां क्षेत्रनदीदावयोजनानां च ।

देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धाः ॥ ६३ ॥

अर्थ:—तपोवृद्ध जे गणधर देव हैं ते देशावकाशिक व्रत करनेकूं सीमा मर्यादा कहै हैं  
गृहकूं, कटरकूं, ग्रामकूं क्षेत्रकूं, नदीकूं, वनकूं, योजनकूं, देशावकाशिक व्रतमें मर्यादा कहै

हैं । इनकूँ उल्लंघनका हमारे इतने काल त्याग है ।

अब देशावकाशिकमें कालकी मर्यादा कहै हैं—

संवत्सरमृतुरथनं मासचतुर्मासपक्षमृत्तं च ।

देशावकाशिकस्य प्राहुः कालावधिं प्राज्ञाः ॥ ६४ ॥

अर्थः—प्रवीण पुरुष हैं ते एक वर्ष, छह महीना, दोंय मास, चार मास, एक पक्ष, एक नक्षत्र इस प्रकार देशावकाशिक व्रतके कालकी मर्यादा कहै हैं ।

अब देशावकाशिकका प्रभाव दिखावै हैं—

सीमान्तानां परतः स्थूलेतरपंचपापसंत्यागात् !

देशविकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाध्यन्ते ॥ ६५ ॥

अर्थः—रोजीना जेता क्षेत्रका परिमाण किया पाके वारैं स्थूल अर सूक्ष्म जे पंच पाप तिनका त्यागतैं देशावकाशिक व्रत करकैं महाव्रतनिहूँ सिद्ध करिये हैं ।

भावार्थ—मर्यादा करी तीं वारैं समस्त पंच पापनिका त्यागतैं अणुव्रत महाव्रत तुल्य भये । अब देशावकाशिक व्रतके पंच अतीचार कहनेकूँ सूत्र कहै हैं—

प्रेषणशब्दानयनं रूपाभिव्यक्तिपुद्गलक्षेपौ ।

देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेऽत्ययाः पंच ॥ ६६ ॥

अर्थः—आपके जेता क्षेत्र की मर्यादा थी तिस बाहर प्रयोजनके अर्थि अपना सेवककूँ वा मित्र पुत्रादिककूँ कहै तुम जाओ तथा या काम कर दो ऐसैं कहना सो प्रेषण नाम अतीचार है ॥ १ ॥ बहुरि मर्यादावाह्य क्षेत्रमें तिष्ठेनितैं वचनालाप करना तथा अन्य शब्दकी समस्या करि समझाय देना सो शब्द नाम अतीचार है ॥ २ ॥ बहुरि मर्यादावाह्य क्षेत्रमें कोऊकूँ बुलावना वा वस्त्रादिक वाञ्छित वस्तुकूँ शब्द कहि भंगावना सो आनयन नाम अतीचार है ॥ ३ ॥ वाह्य क्षेत्र में तिष्ठेनिकूँ समस्या वास्ते अपना रूप दिखावना सो रूपाभिव्यक्ति नाम अतीचार है ॥ ४ ॥ बहुरि मर्यादाके क्षेत्रके वाह्य क्षेत्रमें वस्त्रादिक तथा कंकरी पाषाण काष्ठखण्ड आदिक फेंकि आपाजितावना सो पुद्गलक्षेप नाम अतीचार है ॥ ५ ॥ ऐसैं देशावकाशिक व्रतके पंच अतीचार त्यागने योग्य हैं । ऐसैं देशावकाशिक व्रत कह करि अब सामायिक शिन्धाव्रतका स्वरूप कहै हैं—

आसमयमुक्ति मुक्तं पंचाघानामशेषभावेन ।

सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम शंसन्ति ॥ ६७ ॥

अर्थः—सामायिक कहिये परम साम्यभावकूँ प्राप्त भये ऐसे गणधर देव हैं ते सामायिक

नाम करि ताकी प्रगट प्रशंसा करै है जो सर्वत्र कहिये मर्यादा करी तिस क्षेत्रमें अर मर्यादावाह्य क्षेत्रमें हू समस्त मनवचनकाय कृतकारित अनुमोदनाकरि कालकी मर्यादारूप जो समस्त पंचपापनिका त्याग सो सामायिक है ।

भावार्थ—समस्त पंचपापनिका कालकी मर्यादाकरि समस्तपनाकरि त्याग सामायिक है । अब सामायिकमें पंचपापनिका त्याग करि कैसें तिष्ठै सो कहै हैं—

मूर्धरुहमुष्टिवासोबन्धं पर्यकबन्धनं चापि ।

स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञाः ॥ ६८ ॥

अर्थः—समयज्ञ जे परमागमके जाननेवाले हैं ते मूर्धरुह जे केश तिनका बन्धन अर मुष्टिवन्धन अर वस्त्रबन्धन अर पर्यकासनबन्धन हू जैसें होय तैसें स्थान कहिये खड़ा तथा उपवेशन कहिये बैठा समय कहिये रागद्वेषादि रहित शुद्धात्मा जो है ताहि जानता रहै ।

भावार्थ—सामायिक करनेवाला कालकी मर्यादा-परिमाण समस्त प्रकार पापनिका त्याग करि खड़ा होय करि तथा पर्यकासन कर वैठै । अर पर्यकासनमें अपना वाम हस्ततल ऊपरि दक्षिण हस्ततलकूँ स्थापन करै । अर अपना मस्तकका केश वा वस्त्र हलता हीय तो परिणामके विक्षेप करै यातैं मस्तकके चोटी इत्यादिकके केश होंय तिनकूँ बांधि ले अर वस्त्र हू विखरि रखा होय ताकूँ हू गांठ देय बांधि करि सामायिक खड़ा हुआ करै वा बैठा हुआ करै ।

अब सामायिकके योग्य स्थानकूँ कहै हैं—

एकान्ते सामयिकं निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च ।

चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया ॥ ६९ ॥

अर्थः—जिस स्थानमें चित्तकूँ विक्षेप करनेके कारण नहीं होय अर बहुत असंयमीनिको आगना जावना नहीं होय अर अनेक लोकनिकरि वाद विवादादिकका कोलाहल नहीं होय अर जहां गीत नृत्य वादित्रादिकनिका प्रचार नजीक नहीं होय अर तिर्यचनिका अर पक्षीनिका संचार नहीं होय और जहां बहुत शीतकी तथा उष्णताकी, प्रचण्ड पवनकी, वर्षाकी, बाधा नहीं होय तथा डांस, माछर, मच्छिका, कीडा, कीडी, जुवा, मधुमच्छिका, टांझा, सर्प, वीछू, कनसला इत्यादिक जोवनकृत बाधा नहीं होय ऐसा विक्षेपरहित स्थान एकान्त होय वा वन होय जीर्ण भागके मकान होय वा गृह होय वा चैत्यालय होय वा धर्मात्मा जननिका प्रोपधोपवास करनेका स्थान होय ऐसा एकान्त विक्षेपरहित वन होहु वा जीर्ण भाग तथा सना गृहादिक चैत्यालयादिक में प्रमन्नचित्त हुआ सामायिकमें परिचय करौ ।

अब सामायिककी और हू सामग्री कहिये हैं—

व्यापारवैमनस्याद्विनिवृत्यामन्तरात्मविनिवृत्या ।

सामयिकं बध्नीयादुपवासे चैकमुभ्रते वा ॥ १०० ॥

सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यम् ।

व्रतपंचकपरिपूरणकारणमवधानयुक्तेन ॥ १०१ ॥

अर्थ—कायकी चेष्टारूप व्यापार तामें विरक्तपनातैं बाह्य आरम्भादिकतैं छूटि अर अन्तरात्मा जो मन ताकूँ विकल्परहित करिकैं अर उपवासके दिनविषै अथवा एकभुक्तिके दिनविषै सामयिकरूप तिष्ठै तथा आलस्यरहित पुरुष दिवस दिवस प्रति नित्य रोजीना यथावत् सामायिक जो है ताहि एकाग्रचित्तकरि युक्त हुआ परिचय करने योग्य है, बुद्धि करने योग्य है । कैसाक है सामायिक अहिंसादिक पञ्च व्रतनिकी परिपूर्णताका कारण है ।

भावार्थ—सामायिक करनेमें उद्यमी श्रावक है सो समस्त आरम्भादिक कायकी क्रियाकूँ त्याग करि अर मनका विकल्प छाँडि सामायिक करै तिनमें कौऊ तो पर्वका निमित्त पाय उपवास जिस दिन करै तिसही दिनमें सामायिक करै कौऊ एक ठाणाके दिन-सामायिक करै कौऊ नित्य-प्रति सामायिक करै सो पूर्वाह्न मध्याह्न अपराह्न तीनकालविषै दोग दोग घड़ीका नियम करि साम्यभाव की आराधना करै सो एक स्थानमें निश्चल पर्यंकासन तथा कायोत्सर्ग नाम निश्चल आसन धरि अंग-उपांगनिका चलायमानपना छाँडि काष्ठ-गणणकरि गढ़्या प्रतिविंवृत्युल्य अचल होय दशदिशानिकूँ नाहीं अवलोकन करता अपने अङ्ग-उपांगनिकूँ नाहीं देखता किसीतैं वार्ता नाहीं करता समस्त पंच इन्द्रियनिके विषयनितैं मनकूँ रोकि समस्त अवेतन द्रव्यनिमें राग द्वेष हर्ष विपाद वैर स्नेहादिकनिकूँ छाँडि सामायिकमें तिष्ठै है सामायिकमें तिष्ठता समस्त जीवनमें मैत्री धारण करता परम क्षमा धारण करै है मैं सर्व जीवनमें क्षमा धारण करूँ हूँ कोई जीव मेरा वैरी नाहीं है मेरा उपार्जन किया मेरा कर्म ही वैरी है मैं अजान भावतैं क्रोधी अभिमानी लोभी होय करके विपरीत-परिणामी हुआ जाकी प्रवृत्तिहूँ मेरा अभिमानादि पुष्ट नाहीं भया तिसकूँ ही वैरी मान्या कौऊ मेरा स्तवन बड़ाई नाहीं करी, मेरे कर्तव्यकी प्रशंसा नाहीं करी ताकूँ वैरी समभया मेरा आदर सत्कार उठना स्थान देना इत्यादिकमें मन्द प्रवर्त्या ताकूँ वैरी जान्या तथा कौऊ मेरा दोष छो ताकूँ जनाया ताकूँ वैरी जान्या तथा कौऊ मेरे आधीन नाहीं प्रवर्तन किया मोकूँ कुछ भोजन वस्त्र धनादिक नाहीं दिया ताकूँ वैरी मान्या सो ये समस्त मेरी कपायतैं उपजी दुबुद्धितैं अन्य जीवनमें वैर बुद्धि ताहि छाँडि क्षमा अंगीकार करूँ हूँ अर अन्य समस्त जीव हैं ते हूँ मेरा अज्ञानभाव विषयकपायांके आधीन जानि मेरे ऊपरि क्षमा करो मोकूँ माफ करो ऐसैं वैर विरोधकी बुद्धिकूँ छाँडि मैं समस्तमें समभाव धारि सामायिक अंगीकार करूँ हूँ जेते दोग घटिका परिमाण में मनकरि वचनकरि कायकरि समस्त पंच इन्द्रियनिका विषयनिकूँ समस्त आरम्भ परिग्रहकूँ

त्यागकरि भगवान पंचपरमेष्ठीका स्मरण करता तिष्ठं हूं ऐसैं सामायिकका अवसरमें प्रतिज्ञाकरि पंच नमस्कारके अक्षरनिका ध्यान करता तथा पंच परमेष्ठीके गुणनिकूँ स्मरण करता तथा जिनेन्द्रका प्रतिविंबकूँ चिंतवन करता सामायिकमें तिष्ठै तथा अपने आत्माका ज्ञाता दृष्ट स्वभावकूँ रागद्वेषतैं भिन्न अनुभव करता तिष्ठै तथा चार मंगल पद, चार उत्तम पद, चार शरण पदनिकूँ चिंतवन करता तिष्ठै तथा द्वादशभावना षोडशकारणभावना चिंतवन करै अर चतुर्विंशति तीर्थकरनिका स्तवनमें तथा एक तीर्थकरकी स्तुति तथा पंच परम गुरुनिके स्तवनमें इनके अर्थमें एकाग्रचित्त धारण करि सामायिक करै तथा प्रतिक्रमण करनेकूँ समस्त दिवसमें किये दोपनिकूँ दिनका अन्तमें चिन्तवन करै अर समस्त रात्रिमें जे दोप किये तिनकूँ प्रभात समय चिन्तवन करै जो यो मनुष्य-जन्म अर तामें भगवान सर्वज्ञ वीतरागका उपदेश्या धर्म अनन्तकालमें बहुत दुर्लभ प्राप्त भया है इस जन्मकी घड़ी हू धर्म बिना व्यतीत मत होहू ऐसा विचार करै जो आजका दिनमें तथा रात्रिमें जिनदर्शन पूजन स्तवनमें केता काल व्यतीत किया, अर स्वाध्याय सत्संगति तत्त्वार्थनिकी चर्चा तथा पंचपरमेष्ठीनिका जाप ध्यानमें तथा पात्रदानमें केता काल व्यतीत किया, अर बहुत आरम्भमें अर इन्द्रियनिके विषयनिमें अर व्यवहारादिक विक्रथामें अर प्रमादमें, निद्रामें काम-सेवनमें भोजनपानादिकमें आरम्भदिकनिमें केता काल व्यतीत किया तथा मेरा मनवचनकायकी प्रवृत्ति तथा रागादिक संसारके कार्यानिमें अधिक भई कि परमार्थमें अधिक भई ऐसैं समस्त दिवसका किया कर्तव्यकूँ दिनका अन्तमें चिन्तवन करै अर रात्रिका कियाकूँ प्रभात समय चिंतवन करै जातैं जो पांच रुपयाकी पूंजी लेय बनिज करै है सो हू नित्य रोजाना अपना ठगावना कुमावना टोटा नफाकी संभाल करै है तो पुण्यके प्रभावतैं इस जन्म पाया जो उत्तम मनुष्य जन्म वीतरागधर्म सत्संगति इन्द्रियपरिपूर्णातादिक धन तिसमें व्यवहार करता ज्ञानी अपनी आत्माके हानि वृद्धि नाहीं सम्भालि करै कहा ? जो टोटा नफाकी सम्भाल नाहीं करै तो परलोकतैं-ल्याया धर्मधनादिकनिकूँ नष्ट करि घोर तिर्यच गतिमें वा नारकीनिमें निगोदनिमें जाय नष्ट हो जाय तातैं धर्मरूप धनका वधावनेका अर्थि एक दिनमें दोय बार तो संभाल करै ही अर जो कषायनिके वशतैं जे अपने मन वचन-काय की दुष्ट प्रवृत्ति भई ताकूँ बारम्बार निन्दा करै हाय मैं दुष्ट चिन्तवन किया तथा कायतैं दुष्ट क्रिया करी, हाय मैं वचनकी प्रवृत्ति बहुत निन्दा करी यामें महा अशुभ कर्मबन्ध किया, धर्मकूँ दूषित किया अपयश प्रगट किया, अब इस निन्द्य कर्मकूँ चिंतवन करते मेरे परिणाम पश्चात्तापकरि दग्ग होय हूं अहो ! मोहकर्म बड़ा बलवान है जो मैं मेरे दुष्ट परिणामनिकी दुष्टताको अर पापके करनेवाले अर दुर्गतिके ले जाने वाले हमारे निन्द्य परिणामनिकूँ नीकैं मेरा घात करने वाले जानूँ हूं अर प्रयोजन रहित जानूँ हूं अर अपनी जीवित्वकूँ बहुत अल्प जानूँ हूं अर परलोकमें मेरे किये कर्मका फलकूँ मैं ही अकेला ही भोगूंगा ऐमा अच्छी तरह बारम्बार परिणाममें निश्चय करूँ हूं चिंतऊ हूं । चिंतवन करते करते हू मेरा

परिणाम जो अन्य जीवनितें वैर अर विषयनिमें राग नाही घटै है सो यो प्रबल मोह कर्मकी महिमा है याहीतें मोहकर्मना नाश करि विजयकूँ प्राप्त भये ऐसे पंच परमेष्ठिनिकूँ स्मरण करूँ हूँ जो मोहरूपके जीतनेवाले जितेन्द्रका प्रभावकरि मेरे मोहकर्मतें उपजे रागभाव द्वेषभाव कामादि विकारभाव तथा क्रोधभाव अभिमान भाव मायाचारके भाव लोभभाव मेरा नाशकूँ प्राप्त होहूँ । जैसी वीतरागता जितेन्द्र भगवान पाई तैसी मेरे भी होहूँ इस अभिप्रायतें मैं कायतें ममत्व छाँडि पंचपरमेष्ठीका ध्यानसहित कायोत्सर्ग करूँ हूँ । तथा अज्ञानभावतें जो पूर्वकालमें पृथ्वीकायका खोदना कुचरना कूटना इत्यादिक करि घात किया होय तथा अवगाहनेकरि विलोवनेकरि छिड़कनेकरि स्नानादिककरि जलकायका जीवांकी विराधना करी, तथा दासना बुकावना कसेरना कूटना इत्यादिककरि अग्निकायके जीवनिकी विराधना करी, तथा बीजणां इत्यादिककरि पवनकायका जीवांकी विराधना करी, तथा जड़ कन्द मूल छाल कूपल पत्र फूल फल डाहला डाहली साँस तृण घास बेल गुल्म वृक्षादिकनिका तोड़ना छेदना बनारना उपाडना चवाना रांधना चाँटना इत्यादिककरि वनस्पतिकायकी विराधना करी, तिनतें उत्पन्न भया पापकर्म तिनका नाश परमेष्ठीके जाप्यके प्रभावतें अब मेरा परिणाम छह कायनिके जीवनिकी घाततें पगड़ मुख होहूँ संयमभावकी प्राप्ति होहूँ । बहुरि जो मेरे गमनमें आगमनमें उठनेमें पसरनेमें संकोचनेम भोजनमें पानीमें आरम्भ उठावनेमें मेलनेमें तथा चाकी चूल्हा आँखली बुहारी जलका परींडा अर सेवा कृपि विद्या वाणिज्य लिखना शिल्पकर्म जीविकामें तथा गाड़ी घोड़ा इत्यादिक वाहननिमें प्रवर्तन करि जो मेरी यत्नाचाररहित प्रवृत्ति ताकरि जो द्विइन्द्रिय त्रिइन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय जीवनिकी विराधना भई होय सो मिथ्या होहूँ । मैं बुरी करी ये आरम्भादिक भला नाही संसारमें डुबोनेवाले हैं, नरक देनेवाले हैं इन आरम्भ विषय कपायनिकरि ही यो जीव एकेन्द्रियादिक तिर्यचनिमें अनन्तानन्त काल लुधा तृषा मारन ताड़न लादन बंधन बालन छेदन फाड़न चीरन चावन इत्यादिक घोर दुःख भोगता ते हिंसातें उपजाया कर्म को नाशके अर्थि अर आगाने हिंसारूप परिणाता अभावके अर्थि मैं पंच नमस्कार पदका शरण ग्रहण करूँ हूँ । बहुरि अज्ञान भावतें व प्रमादतें जो मैं अमत्य वचन कह्या तथा गाली दीनी तथा भण्डवचन कह्या तथा मर्मछेद करनेवाले कर्कश वचन व कठोर कह्या तथा किसीकूँ चोरीका कलंक लगाया किसीकूँ कुशीलका कलंक लगाया तथा धर्मात्मा ज्ञानी तपस्वी शीलवन्तनिकूँ दोष लगाया तथा धर्मात्मानिकी निन्दा करी तथा साँचे देवधर्मगुरुकी निन्दा करी तथा मिथ्याधर्मकी प्ररूपणा करी तथा स्त्रीनिकी कथा राजकथा भोजनकथा देशकथा इत्यादिक घोर पापनिमें मेरा वचन प्रवर्त्या ताका अब पश्चात्ताप करूँ हूँ । मैं घोर कर्मका बन्ध किया जाका फल नरकनिके दुःख तथा तिर्यचगतिनिके घोर दुःख अनन्तकाल भोगने हैं अर अनन्तकाल गूँगा बहिरा आंधा नीच जाति नीच कुलमें महा दारिद्रसहित उपजना है यातें अब दुष्ट वचनके बोलनेकरि उपजाया पापकर्मका नाशके अर्थि अर अब

आगाने मेरे दुष्ट वचनमें प्रवृत्ति कदाचित् मत होहु इस वास्ते मैं पंचनमस्कारपदका शरण ग्रहण करूँ हूँ । बहुरि अज्ञानभावतै वा प्रमादतै पूर्वकालमें जो मैं परका विना दिया धन गिरया पञ्चा भूल्या ग्रहण करनेमें परिणाम किया कष्ट छततै ठग्या तथा जवर होय परका धन राखि मेल्या, नाहीं दिया तो बहुत संक्लेश आपकै अर अन्यकै उपजाय दिया तातैं घोर पाप उपजाया ताका फल नरक तिर्यचादि गतिनिमें परिभ्रमण अनन्तकालपर्यंत दरिद्रादिक घोर दुःख होना है, यातैं चोरी करि उपजाया जो पापकर्म ताका नाशके अर्थि अर आगानै मेरा- पराया धन-विना दिया ग्रहण करनेमें परिणाम कदाचित् मत होहु इस वास्ते मैं पंचनमस्कारपदका शरण ग्रहण करूँ हूँ । बहुरि परकी स्त्रीके रूप आभरण-वस्त्र हाव-भाव विलासकूँ राग भावतै देखनेकी इच्छा करि तथा राग भावतै देखि तथा संगमादिक किया तातैं उगर्जन किया धार पाप जाका फल अनन्तकालपर्यंत नरकगतिनिमें परिभ्रमण करि अनेक भवनिमें हजारों रोगका पावना तथा दरिद्रादि दुःख भोगना तथा बहुत कालपर्यंत कामरूप अग्निकरि दग्ध भया असंख्यात भवनिमें कामवेदनाकरि पीडित हुआ लडि लडि मर जाना है तातैं परस्त्रीकी वांछाकरि उपजाया पापकर्मका नाशके अर्थि अर आगामी कालमें मेरा अन्यकी स्त्रीमें अनुराग कदाचित् मत होहु इस वास्ते मैं पंचपरमगुरुनिका पंचनमस्कारमन्त्रका ध्यान करूँ हूँ । बहुरि मैं अज्ञानी परिग्रहमें बड़ी ममता करि शरीरादिक पुद्गलकूँ मेरा मानि यामें ही आपा जान्या तथा रागादिकभाव मोहकर्मके उदयतै मया तिनिकूँ अपना भाव मानि परद्रव्यनिमें बड़ी आसक्तता करी धन-धान्य कुटुम्बादिककी वृद्धिकूँ अपनी वृद्धि मानी इनकी हानिकूँ अपनी हानि मानी अर अब हू जायगा हाट आजीविका स्त्री पुत्र धन धान्य आभरण वस्त्रादिक हजार वस्तुरूप परिग्रहमें हमारा हमारा ऐसी बुद्धिमें विपरीतता लग रही है जो आपका ज्ञान परका ज्ञान पाप-पुण्यका ज्ञान परलोकका ज्ञान नष्ट होय रखा है कण्ठगत प्राण हो जाय तो हू ममता नाहीं घटै है । अर जगत्में प्रत्यक्ष देखै है जो किर्माकी लार परिग्रह गया नाहीं मेरी लार जायगा नाहीं तो हू दिन प्रति वधाया चाहै है यामें मरण करूँ तहां पर्यंत किंचित् मत घट जावो इस प्रकार ही निरन्तर चितवन गै हूँ इम परिग्रहरूप टावाग्निकूँ संतोपरूप जलकरि नाहीं बुझाया चाहै है समस्त पावनिका मूल एऊ परिग्रहमें मूर्च्छा है मैं अज्ञानी याहीका आरम्भमें, याहीमें ममता धारण करनेकरि अनन्तकालमें दुर्लभ पैसा गतुप्य जन्म जिनवर्म पाया ताहि विद्यादि अनन्तभवनिमें नरक तिर्यच गतिनिके दुःखकूँ अज्ञकार किया ताका मेरे बड़ा परचात्ताप है । अब ऐसे घोर पापकर्मके नाश करने का उपाय भगवान पंचरामेष्टी विना कोऊ दूजा है न्हीं अर आगामी कालहमें परिग्रहमें विरक्तताका ज्ञान शान्ता भगवान पंचरामेष्टी विना कोऊ है नाहीं यातैं मूर्च्छाका नाशके अर्थि परम सन्तोष उरनेके अर्थि परिग्रहका न्यायके अर्थि पंचनमस्कारका ध्यानपूर्वक कायोत्सर्ग करूँ हूँ ।

अब मामाविश्वमें तिष्ठता गृहस्थ कैसा है सो कहै हूँ—

सामयिके सारम्भाः परिग्रहा नैव संति सर्वेऽपि ।

चेलोपसृष्टमुनिरिव गृही तदा याति यतिभावम् ॥१०२॥

अर्थ—गृहस्थ जो हैं तिनके सामायिकके अवसरविषे आरम्भकरि सहित समस्त ही परिग्रह नहीं हैं यातैं सामायिक करता गृहस्थ जो है सो वस्त्रसहित मुनिकी ज्यों यतिका भावकूँ प्राप्त होय है ।

भावार्थ—सामायिकके अवसरमें समस्त आरम्भ अर समस्त परिग्रह नहीं है परन्तु गृहस्थ है यातैं वस्त्र पहरे है तातैं वस्त्र विना अन्य प्रकार तो मुनितुल्य ही है मुनिकै नग्नपना होय है याकै वस्त्रधारण है एता ही अन्तर है तातैं मुनि नहीं कहा जाय है । बहुरि जो उपसर्ग परीषह आजाय तो मुनीश्वरनिकी ज्यों धीरता धारण करि सहै कायर नहीं होय ऐसैं सूत्र कहै हैं—

शीतोष्णदंशमशकपरीषहमुपसर्गमपि च मौनधराः ।

सामायिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्नचलयोगाः ॥१०३॥

अर्थ—सामायिककूँ धारण करता गृहस्थ मौनकूँ धारण करै है अर वचन कायकूँ नहीं चलायमान करता शीत उष्ण दंश-मशकादि परीषह अर चेतन-अचेतनकृत उपसर्गनिकूँ सहै हैं ।

भावार्थ—सामायिक करनेके अवसरमें जो शीतका उष्णता का वर्षाका पवनका डास मांछर दुष्टनिके दुर्बवचन रोग पीडादिका परीषह आजाय तथा दुष्ट वैरीकरि किया तथा सिंह व्याघ्र सर्पादिक तथा अग्नि-जलादिक-जनित उपसर्ग आजाय तो बड़ा धैर्य धारणकरि मनवचनकायकूँ साम्यभावतैं नहीं चलायमान करता मौनसहित समस्तकूँ सहै है ।

अब सामायिक करता संसारका स्वरूपकूँ अर मोक्षके स्वरूपकूँ ऐसैं चिंतवन करै है—

अशरणमशुभमनित्यं दुःखमनात्मानमावसामि भवम् ।

मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके ॥१०४॥

अर्थ—सामायिक धारता गृहस्थ संसारकूँ ऐसैं चिंतवन करै यो चतुर्गतिमें परिभ्रमणरूप संसार अशरण है यामें अनन्तानन्त जन्म मरण करते अनन्तकाल व्यतीत भयो अर समस्त पर्यायनिमें जुधा तृषा रोग वियोग मारन ताडन भोगतैं कहुँ शरण नहीं जो कोऊ कालमें कोऊ क्षेत्रमें कोऊ रक्षा करनेवाला नहीं तातैं संसार अशरण है । बहुरि अशुभकर्मके बन्धनकरि दुःखका देनेवाला अशुभदेहरूप पिंजरामें फस्या हुआ अशुभ कषायनिरूप अशुभभावनिमें लीन हुआ निरन्तर अशुभका ही बन्ध करता अशुभ ही कूँ भोगै है यातैं यो संसार अशुभ है । बहुरि इस संसारमें जीव अनन्तानन्तकाल परिभ्रमण करते करते कदाचित् सुक्षेत्रमें घास उत्तमकुल इन्द्रिय-



परिपूर्णता सुन्दर रूप प्रबल बुद्धि जगतमें पूज्यता, मान्यता तथा राज्यसम्पदा, धनसम्पदा सुन्दर मित्रनिका सङ्गम, आज्ञाकारी महाप्रवीण सुपुत्र, मनोहर बल्लभाका संगम तथा पण्डितपना स्वरपना बलवानपना आज्ञा ऐश्वर्यादिक मनोवाञ्छित भोग, नीरोग शरीरादिक कर्मके उदयकरि पा जाय तो क्षणमात्रमें विजुलीवत्, इंद्रधनुषवत्, इंद्रजालीका नगरवत् नियमते विलाय जाय हैं। फिर अनन्तानन्तकालमें हू नहीं प्राप्त होय हैं ताते संसार अनित्य है अर समस्तकालमें कर्मबन्धनसहित देहपिजरमें फस्या अनन्तानन्त जन्ममरणादिकनिकरि सहित है अनन्तकालहमें दुःखका अभाव नहीं ताते संसार दुःख ही है। बहुरि संसारपरिभ्रमणरूप मेरा आत्मा नहीं ताते संसार अनात्मा है ऐसे सामायिकमें तिष्ठता गृहस्थ चितवन करै है अहो परिभ्रमणरूप संसार है सो अशरण है अनित्य है दुःखरूप है अर मेरा स्वरूप नहीं ऐसा संसारमें मिथ्याज्ञानका प्रभावकरि में अनन्त- कालते वास करूं हूँ। अब मोक्ष जो संसारते छूटना है सो मेरा आत्माकू शरण है फिर अनन्तानन्त कालमें हू संस्कारमें आनेकरि रहित है। बहुरि शुभ है अनन्त कल्याणरूप है बहुरि नित्य है अविनाशी है बहुरि अनन्तानन्तस्वरूप है जामें अनन्त- ज्ञानादि अर अनाकुलतारूप सुख है अर मेरा आत्माका स्वरूप है पर रूप नहीं ऐसे सामायिकमें तिष्ठता गृहस्थ संसारका अर मोक्षका स्वरूप चितवन करै है। साम्यभाव सहित सामायिक दोय घड़ी मात्र हो जाय तो महान कर्मकी निर्जरा है सामायिककी महिमा कहनेकू इंद्र हू समर्थ नहीं है सामायिकके प्रभावते अभव्य हू ग्रैवैयिक पर्यत उपजे है सामायिक समान धर्म न कोऊ हुयो न होसी याते सामायिक अङ्गीकार करना ही आत्माका हित है। अर जाके सामायिकादिक का पाठका ज्ञान आवै नहीं ते पचनमस्कारमात्र ही एकाप्रताते मनवचनकायकू निश्चल करि मनस्त आरम्य कणाय त्रिपयनिका त्याग करि पंचनमस्कारमन्त्र का ध्यान करता दोय घटिका पूर्ण करो।

अब सामायिकके पंच अतीचार कहे हैं—

वाकायमानसानां दुःप्रणिधानान्यनादरास्मरणौ ।

सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पंच भावेन ॥१०५॥

अर्थ—१. पांच सामायिकका भावनिकरि अतीचार हैं सामायिक करते वचनकी संसार सम्बन्धी प्रवृत्ति करना सो वचन-दुःप्रणिधान नाम अतीचार हैं ॥१॥ बहुरि शरीरकी संयम-रहित चलायमानपनाकी चेष्टा सो कायदुःप्रणिधान नाम अतीचार है ॥२॥ बहुरि मनमें आर्तरीन्द्रादिक निराम्य करे सो मनोदुःप्रणिधान नाम अतीचार है ॥३॥ बहुरि सामायिककू उत्साहरहित निरा- दर्शन करे सो अनादर नाम अतीचार है ॥४॥ बहुरि सामायिक करता देव-वन्दनादिकके पाठ भूलि जाय वा शयोन्मनादिक भूलि जाय सो अस्मरण नाम अतीचार है ॥५॥ ऐसे पंच अती-

चार सहित सामायिकका वर्णन किया ।

अथ प्रोषधोपवासकूँ वर्णन करै हैं--

पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्राषधोपवासस्तु ।

चतुरभ्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सद्विच्छाभिः ॥१०६॥

अर्थ—पर्वणि जो चतुर्दशी अर अष्टमीका दिवस-रात्रिविषै चार प्रकार आहारका जो सम्यक् इच्छा करि त्याग करना सो प्रोषधोपवास जानने योग्य है । एक मासविषै दोय अष्टमी अर दोय चतुर्दशी ए अनादितें पर्व ही हैं इन पर्वनिमें गृहस्थ व्रत-संयम सहित ही रहै जातैं धर्मात्मा संयमी हैं ते तो सदाकाल व्रती ही रहै हैं यातैं धर्ममें अनुरागका धारक गृहस्थ एक महीनामें चार दिन तो समस्त पापके आरम्भ अर इन्द्रियनिके विषयनिकूँ नष्ट करि व्रतशीलसंयमसहित उपवास धारण करि चार प्रकारका आहारका त्याग करि संयम सहित तिष्ठै ताकै प्रोषधोपवास जानना । अथ प्रोषधोपवासका विशेष कहैं हैं । सप्तमीके दिन वा त्रयोदशीके दिन मध्याह्नकाल पहली एक वार भोजन-पानादिक करि समस्त आरम्भ वणिज सेवा लेन-देनका त्याग करि देहादिक में ममत्व त्यागि एकान्त वस्तिका तथा जिन-मन्दिरमें एकान्त स्थान वा चैत्यालय वा शून्य-गृह मठादिक वा प्रोषधोपवास करनेका स्थानमें जाय समस्त विषयनिका त्याग करि मनवचनकायकी प्रवृत्तिनिकूँ रोकि धर्म-ध्यान करिकैं वा स्वाध्याय करिकैं सप्तमी वा त्रयोदशीका अर्द्ध दिनकूँ व्यतीत करै, पाछैं संध्याकाल-सम्बन्धी देववन्दनादिक करि रात्रिनै धर्मकथा वा जिनेन्द्रका स्तवनादिक करि रात्रि व्यतीत करै वा धर्मध्यान करता शोधित संथरानें अल्प काल प्रमाद टालि रात्रि व्यतीत करै, अष्टमी चतुर्दशीका प्रातःकालमें सामायिकादिक वन्दना करि तथा प्रासुक द्रव्यनितैं पूजनकरि शास्त्रका अभ्यासकरि भावनाका चिंतवनकरि धर्मध्यानसहित अष्टमी चतुर्दशीका दिन अर समस्त रात्रिकूँ व्यतीत करि नवमी वा पूर्णिमाका प्रभातसंबन्धी कर्मक्रिया करि पूजनादि वन्दना करि उत्तम मध्यम जघन्य पात्रमें कोऊ पात्रका लाभ होय ताकूँ भोजन कराय आप पारनौ करै । ऐसैं षोडश प्रहर धर्मसहित व्यतीत करै ताकैं उत्कृष्ट प्रोषधोपवास होय है । तथा कार्तिकेयस्वामी कहा है जो अष्टमी चतुर्दशीके दिन स्नान विलेपन आभूषण स्त्रीसंसर्ग पुष्प अतर फुलेल धूपादिकनितैं त्याग जोज्ञानी वीतरागतारूप आभरण करि भूषित हुआ दोऊ पर्वनि में सदाकाल उपवास करै वा एक वार भोजन करै वा नीरस आहार करै ताकै प्रोषधोपवास होय है तथा अमितगतिश्रावकाचारमें पर्वीका दिनमें उपवास अनुपवास एक भुक्त ऐसैं तीन प्रकार कहा है । तिनमें चार प्रकार आहारका त्यागकूँ उपवास कहा अर एक वार जल ग्रहण करै ताकूँ अनुपवास कहा अर एक वार अन्न-जल ग्रहण करना ताकूँ एकभुक्त ऐसी संज्ञा है परन्तु तात्पर्य ऐसा जानना जो अपनी शक्तिकूँ नाहीं छिपाय करिकै धर्ममें लीन भया उपवास करै तथा आगैं प्रोषधप्रतिमा

चतुर्थी कहसी तिसविषै तो षोडश प्रहरका नियम जानना अर दूजी व्रतप्रतिमामें यथाशक्ति व्रत तप संयम धारण करि पर्वीमें धर्मध्यान सहित रहना ।

अब उपवासमें और हू वर्णन करै हैं—

पंचानां पापानामलंक्रियारम्भगन्धपुष्पाणाम् ।

स्नानाञ्जननस्यानामुपवासे परिहृतिं कुर्यात् ॥१०७॥

अर्थ—उपवासके दिन हिंसादिक पञ्च पापनिका त्याग करि रहै अर अलंक्रिया कहिये आभरणादिक मण्डनका त्याग करै अर गृहकार्यका आरम्भ जीविकाका आरम्भ छांडै अर सुगंधि केशर कर्पूरादिक तथा अतर फुलेलादिक गंधके ग्रहणका त्याग करै अर पुष्पनिका ग्रहण करनेका त्याग करै । बहुरि स्नान करनेका नेत्रमें अञ्जन आंजनेका अर नास लेनेका त्याग करै तथा और हू नृत्य वादित्रके बजावनेका देखनेका श्रवणका त्याग करै । तथा और हू पंच इन्द्रियनिके भोगका त्याग करै जातैं उपवास करिये है सो इन्द्रियनिका मद मारनेकूँ अर इन्द्रियनिका विषयामें गमन है ताके रोकनेकूँ अर कामके मारनेकूँ प्रमाद आलस्यादिकनिके रोकनेकूँ नष्ट करनेकूँ आरम्भादिकतैं विरक्त होनेकूँ परीषह सङ्गमें सामर्थ्य होनेकूँ धर्मके मार्गतैं नाहीं चिगनेकूँ जिह्वा इन्द्रिय उपस्थइन्द्रियके दण्ड देनेकूँ उपवास करिये है अर अपनी प्रशंसा वा लाभ वा परलोकमें राज्यसंपदादिक प्राप्त होनेकूँ उपवास नाहीं करिये है । केवल विषयानुराग घटावनेकूँ शक्ति बधावनेकूँ उपवास करिये है जातैं इन्द्रियां स्नानपानादिकके नाना स्वादमें निरन्तर प्रवर्तैं हैं उपवास करनेतैं रसादिकके भोजनमें लालसा नष्ट हो जाय, निद्राका विजय हो जाय, काम मारया जाय तातैं उपवासका बड़ा प्रभाव जानि उपवास करिये है ।

अब उपवासका दिन कैसे व्यतीत करै सो कहैं हैं—

धर्मामृतं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेद्धान्यान् ।

ज्ञानध्यानपरो वा भवतूपवसन्नतन्द्रालुः ॥१०८॥

अर्थ—उपवास करता गृहस्थ है सो निरालसी हुआ संता ज्ञानका अभ्यासमें अर धर्मध्यानमें तत्पर होहू अर अतितृष्णारूप हुआ धर्मरूप अमृतका पान कर्णइन्द्रियकरि करिहू । अर अन्य भव्य जीवनिहूँ धर्मरूप अमृतका पान करावो ।

भावार्थ—उपवासके दिन धर्मकथा श्रवण करो तथा अन्य धर्मात्मानिकूँ धर्मश्रवण करावो ज्ञानका अभ्यासकरि वा धर्मध्यानमें लीनता करि ही उपवासका अबसर व्यतीत करो आलस्य निद्राकरि व्यतीत मत करो तथा आरम्भादिकमें विकथामें काल व्यतीत मत करो ।

अब उपवासका अर्थ कहै हैं—

चतुराहारविसर्जनमुपवासः प्रोषधः सकृद्भुक्तिः ।

स प्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्भमाचरति ॥१०६॥

अर्थ—अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य ये चार प्रकारके आहार इनका त्याग सो उपवास है अर धारणाका दिनविषै अर पारणा का दिनविषै एकवार भोजन करना सो प्रोषध कहिये है ऐसै षोडश प्रहर भोजनादिक आरम्भ छाँडि पाछै भोजनादिक आरम्भ आचरण करै सो प्रोषधोपवास है ।

अब उपवासके पंच अतीचार कहनेकूँ सूत्र कहै है--

ग्रहणविसर्गास्तरणान्यदृष्टमृष्टान्यनादरास्मरणे ।

यत्प्रोषधोपवासव्यतिलंघनपञ्चकं तदिदम् ॥११०॥

अर्थ—जो प्रोषधोपवासके पंच अतीचार हैं ते ऐसै जानने, नेत्रनिर्ते देख्यां विना अर कौमल उपकरणतै शुद्ध किये विना जो पूजाके तथा स्वाध्यायके उपकरण ग्रहण करना ( १ ) बहुरि देख्यां सोध्यां विना उपकरणनिका मेलना अथवा शरीरके हस्त पादादिक पसारना ( २ ) बहुरि देख्यां सोध्यां विना आस्तरण जो शयन करनेका उपकरण विछावना बैठना ( ३ ) ऐसै ए तीन अतीचार हैं । बहुरि उपवासमें अनादर करना उत्साह-रहित करना सो अनादर नाम अतीचार है ( ४ ) बहुरि उपवासके दिन क्रिया पाठ करनेकूँ भूल जाना सो अस्मरण नाम अतीचार है ( ५ ) ऐसै उपवासके पंच अतीचार कहे ते टालने योग्य हैं ।

अब वैयावृत्य नामा शिवाव्रत कहनेकूँ सूत्र कहै है इस व्रतकूँ अतिथिसंविभाग नाम ह कहिये है--

दान वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये ।

अनपेक्षितोपचारोपक्रियमगृहाय विभवेन ॥१११॥

अर्थ—यहां परमागममें दानहीकूँ वैयावृत्य कहिये है जाकै तप ही धन है अर्थात् जो इच्छानिरोधादिक तपहीकूँ अपना अविनाशी धन जानै है जातै तप विना समस्त कर्मकलंकमलरहित आत्माका शुद्ध स्वभावरूप अविनाशी धन नाहीं पाइये तातै रागादिक कषायमलका दग्ध करनेवाला ऐसा तपरूप धन ग्रहण किया अर जो संसारमें नष्ट करनेवाला जड अचेतन विनाशीक सुवर्णादिक त्याग किया ऐसा जो तपकी निधि जो परम वीतरागी दिगम्बर यतिनिकूँ आन दातारके अर पात्रके धर्मप्रवृत्तिके अर्थि जो दान देना सो वीतरागी यतीनिकी वैयावृत्य है, कैसे हैं दिगम्बर यती सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान

सम्यक्चारित्र इत्यादिक गुणनका निधान हैं व्हुरि कैसे हैं जातैं नाहीं है अन्तरङ्ग बहिरङ्ग परिग्रह जिनके ऐसे मठ मकान उपासरा आश्रमादिकरहित एकाकी अथवा गुरुजनांकी चरणांकी लार कदे वनमें, कदे पर्वतनिकी निर्जन गुफानिमें कदे घोर वनमें, नदीनिके तटनिमें नियम रहित है नित्य विहार जिनका, असंयमीनिका गृहस्थानिका संगमरहित आत्माकी विशुद्धता जो परम वीतरागताकूँ साधता अर लौकिकजनकृत पूजा स्तवन प्रशंसादिककूँ नाहीं चाहता परलोकमें देवलोकदिकनिके भोगनिकूँ तथा इन्द्रपनाका अहिमिन्द्रपनाका ऐश्वर्यकूँ रागरूप अंगारेनिकारि तप्त महान् आताप उपजावनेवाली तृष्णाके बधावनेवाले जानि परम अतीन्द्रिय आकुलतारहित आत्मीक सुखकूँ सुख जानता देहादिकमें ममत्वरहित आत्मकार्य साधै है । ऐसे साधुजनका वैयावृत्यका लाभ अनन्तकालमें दुर्लभ है । कैसे हैं साधु यद्यपि इस देहतैं अत्यन्त निर्ममत्व हैं तो हू देहकूँ रत्नत्रयका सहकारी कारण जानि रस नीरस कड़ा नरम आहार देय रत्नत्रयका साधनकरि धर्मके अर्थि इस कृतघनदेहकी रक्षा करै हैं जो अकालमें देह नष्ट होय जायगा तो मग्कार देवादिक पर्यायमें असंयमी जाय उपजूंगा तहां असंख्यातकालपर्यन्त असंयमी हुआ कर्मका बन्ध करूंगा तातैं जो आहारादिकका त्याग करि इस मनुष्यपनाका देहकूँ मारद्या तो कर्ममय कार्माण देह नाहीं मरैगा इस देहकूँ मारद्या तो नवीन और देह धारण करूंगा तातैं इन समस्त शरीर के उत्पन्न करनेका बीज जो कर्ममय कार्माणदेह है याके मारनेमें यत्न करूँ । यातैं कषायनिकूँ लीतता विषयनिका निग्रह करता छियालीस दोष टालि बत्तीस अन्तरायरहित चौदह मलका परिहार करिकैं आपके निमित्त नाहीं किया ऐसा शुद्ध आहारकी योग्यता मिल जाय तो अद्ध उदर तो भोजनतैं भरै चतुर्थ भाग जलतैं भरै चतुर्थ भाग ध्यान अध्ययन कायोत्सर्गादिकमें सुखतैं प्रवृत्तिके अर्थि खाली राखै है । न्योत्रा बुलाया जाय नाहीं, याचना करै नाहीं, इस्तादिककी समस्या करै नाहीं ऐसे साधुनिकूँ जो आहारादिकका दान सो वैयावृत्य है । कैसाक है दान अनपेक्षितोपचारोपक्रिय जो प्रत्युपकार कहिये हमारा हू कुछ उपकार करैगा वा उपक्रेय कहिये हमकूँ प्रसन्न होय विद्या मन्त्र औषधादिक देगा तथा मुनीश्वरनिके अर्थि देनेतैं मेरी नमरमें दातापनाकरि मान्यता हो जायगी वा राज्यमान्य हो जाऊंगा, वा मेरे घरमें अट्ट धन होजायेगा तातैं आगैं पंचाशचर्य भये हैं मेरे हू लाभ होयगा ऐसा विकल्प अर वांछा नाहीं करता केवल रत्नत्रयका धारकनिकी भक्तिकरि आपकूँ कृतार्थ मानि अपना मनबचनकायकूँ तथा गृहचारा पायाकूँ कृतार्थ मानता दान करै है आनन्दसहित आपनेकूँ कृतकृत्य मानै है सो वैयावृत्य है । अर वैयावृत्यका अन्य हू स्वरूप कहै हैं—

व्यापत्तिव्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागात् ।

वैयावृत्यं यावानुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम् ॥ ११२ ॥

अर्थ—संयमीनिके जो व्यापत्ति-व्यपनोद कहिये नाना प्रकारकी जे आपदा ताहि दूर करना अर संयमीनिका चरणमर्दनादिक करना और हू जो संयमीनिका गुणमें अनुराग करि यावन्मात्र उपकार करना सो वैयावृत्य है ।

भावार्थ—साधुनिके ऊपरि कौऊ देव मनुष्य तिर्यच वा अचेतनकरि किया उपसर्ग आया होय तो अपनी शक्तिप्रमाण उपसर्ग दूर करै तथा चोर भील दुष्टादिक मार्गमें खेदित किया होय अर परिणाम क्लेशित होय गया होय तिनकूँ धैर्य धारण करावना तथा मार्गकरि खेदित भया होय ताका पादमर्दनादिक करना, रोगी होय ताका संयम मलीन नहीं होय तैसेँ यत्नाचारतैं आसन शय्या वस्तिकाका सोधना यत्नाचारपूर्वक उठावना, बैठावना, शयन करावना, मलमूत्रादिक कराय देना जो अबुद्धिपूर्वक मलमूत्रादिक अयोग्य स्थानमें वा वस्तिकामें भया होय तो यत्नतैं अविरुद्ध स्थानमें क्षेपना तथा कफ नाशिका मलादिककूँ पूँछना उठाय अविरुद्ध स्थानमें क्षेपणा, आहार औषधादिक संयमीके योग्य होय तिनकूँ अवसरमें देय वेदना दूर करना तथा कालके योग्य बाधारहित वस्तुका देना, वेदना करि चलायमान चित्त होगया होय तो उपदेश देय चित्तकूँ थांमना, धर्मकथा करना, अनुकूल प्रवर्तना गुणनिका स्तवन करना ऐसेँ संयमीनिका गुणनिमें अनुराग करि जेता उपकार करना सो समस्त वैयावृत्य है ।

अब वैयावृत्यमें प्रधान आहारदान है ताकूँ कहिये हैं—

नवपुण्यैः प्रतिपत्तिः सप्तगुणसमाहितेन शुद्धेन ।

अपसूनारम्भाणामार्याणामिष्यते दानम् ॥ ११३ ॥

अर्थ—सप्त गुणनिकरि सहित जो दातार है सो सून अर आरम्भ करि रहित जे आर्य कहिये सम्यग्दर्शनके धारक मुनि तिनकूँ नवपुण्य परिणामनिकरि जो प्रतिपत्ति कहिये गौत्र आठर करि अंगीकार करना ताहि दान कहिये है ।

भावार्थ—दान करना सो तीन प्रकारके पात्रनिकूँ करना तिनमें जो चाकी चृन्दा श्रोमन्ती बुहारी परीडा ये तो पंच सून अर द्रव्यका उपार्जनकूँ आदि लेय समस्त आरम्भ अर पंच सून करि रहित तो उत्तम पात्र दिग्म्वर साधु है । व्रतनिका धारक श्रावक मध्यमपात्र है अर व्रतरि रहित अर सम्यक्त्व करि सहित जवन्य पात्र है तिनमें उत्तमपात्रादिकनिकूँ दानका देनेकाले दातार के सप्त गुण हैं । दान देय इस लोकमन्वन्धी विख्यातता लोकमान्यता राजमान्यता धनधान्यादिककी बुद्धि यशकीर्तनादि इस लोकमन्वन्धी फल न चाहिये ॥१॥ बहुरि दातार श्रेयसपात्रकूँ नहीं प्राप्त होय जो बहुत लेनेवाले हैं कौन कौनकूँ देवें ऐसा क्रोध नहीं करि मुनि आर्यादिकनिकूँ दान देना ॥२॥ बहुरि कपटकरि सहित दान नहीं करै कदना शरीर, दिग्गारना शरीर, दानना

और, लोकनिकूँ भक्ति दिखावेमाही संक्लेशित होना ऐसा कपटकरि रहित दान करै ॥३॥ अन्य दातारतैं इर्ष्यारहित होय दान करै जो इसने कहा दिया है मैं ऐसा दान करूँ जो मेरा दानतैं इसका यश घटि जाय ऐसैं ईर्ष्याभावकरि दान नाहीं करै । ४॥ अर दान देय विपाद करै नाहीं जो कहा करूँ मैं समस्तमें उच्चता राखूँ हूँ अर नाहीं दूँ तो मेरी उच्चता घटि जाय ऐसैं विपादी हुआ नाहीं देवै । ५॥ बहुरि पात्रका संगम मिल जाय या निर्विघ्न दान होजाय तिसका अपूर्व निधि पायेकासा आनन्द मानना सो मुदितभाव जानना ॥६॥ दान देनेका मद अहंकार नाहीं करना सो निरहंकारता नाम गुण है ॥७॥ ऐसैं पात्र-दान करता दातार सप्तगुण सहित होय है । बहुरि पात्र-कूँ दान देवै सो मुनि श्रावकका जैसा पद होय तिस परिमाण नवधा भक्तिकरि देवै, नव प्रकार भक्तिके नाम—संग्रह ॥१॥ उच्चस्थान ॥२॥ पादोदक ॥३॥ अर्चन । ४। प्रणाम ॥५॥ मनःशुद्धि ॥६॥ वचनशुद्धि ॥७॥ कायशुद्धि । ८॥ एषणाशुद्धि ॥९॥ तिनमें मुनीश्वरनिकूँ तथा चुल्लककूँ तो तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ याका अर्थ खडा रहो खडा रहो ऐसैं तीन बार कहना जामें अति पूज्य-पनातैं अति अनुराग जाका चित्तमें होयगा सो ही तीन बार आदरपूर्वक कहैगा अन्य हू श्रावका-दिक योग्यपात्र घर आवें तो आइये पधारिये इत्यादिक आदरके वचनका कहना सो संग्रह वा प्रतिग्रह है ॥ १ ॥ बहुरि उच्चस्थान देना ॥ २ ॥ अर प्रासुक प्रमाणीक जलसूँ चरण धोवना ॥ ३ ॥ जैसा अवसर जैसा पात्र ताकै योग्य पूजन स्तवन पूज्यपनाके वचन कहना ॥ ४ ॥ अर मुनि वा श्रावककी योग्यता प्रमाण नमस्कार आदि करना ॥ ५ ॥ मनकी शुद्धता करनी ॥ ६ ॥ वचनकी शुद्धता करनी—अयोग्य वचन नाहीं बोलना ॥ ७ ॥ कायशुद्धि यत्नाचार सहित चलना उठना इत्यादिक ॥ ८ ॥ अर भोजन शुद्धि पात्रके योग्य होय सो देना यो एषणा शुद्धि है ॥ ९ ॥ ऐसैं जिन-सूत्रके अनुसार पात्रके योग्य देशकालके योग्य आहार देना । जातैं पात्रके गुणनिमें हर्ष अनुराग विना देना निष्फल है अर जाकूँ धर्म प्रिय होयगा ताकै धर्मात्तामें अनुराग होयगा ही ऐसा नियम है । अर मुनीश्वरनिके जिनधर्मीकी नवधा भक्तिहीतैं परीचा होय है जाकै नवधा भक्ति न हीं ताका हृदयमें धर्म हू नाहीं धर्मरहितके मुनीश्वर भोजन हू नाहीं करै हैं । अन्य हू धर्मात्ता पात्र गृहस्थादिक हैं ते हू आदर विना लोभी होय धम का निरादर कराय दान वृत्तितैं भोजनादिक कदाचित नाहीं ग्रहण करै हैं जैनीपना ही दीनतारहित परम संतोष धारण करना है । अर दातार है सो ऐसा आहार औपधि शास्त्र वस्तिका वस्त्रादिक द्रव्यका दान करै जातैं रागद्वेष वधै नाहीं, मद वधै नाहीं, जातैं मोह काम आलस्य चिंता असंयम भय दुःख अभिमानका करने-वाला द्रव्यकूँ देना योग्य नाहीं । जिस द्रव्यके देनेतैं स्वाध्याय ध्यान तप संतोषकी वृद्धि होय सो द्रव्य देने योग्य है । जातैं पात्र का दुःख मिटि जाय, रोग नष्ट होजाय परिणामका संक्लेश नष्ट होजाय ऐसा द्रव्य देना योग्य है । इहां अन्य विशेष जानना, दानविषै पांच प्रकार जानना— दाता ॥ १ ॥ देय । २ ॥ पात्र ॥ ३ ॥ विधि ॥ ४ ॥ फल ॥ ५ ॥ दाता तो कैसाक होय-सप्त

गुणका धारक होय धर्ममें तत्पर पात्रनिके गुणनिके सेवनमें लीन भया पात्रकूँ अंगीकार करै प्रमादरहित ज्ञानसहित शांत परिणामी हुआ पात्र की भक्तिमें प्रवर्तै सो भक्तिगुण दातारका है ॥ १ ॥ देनेमें अति आसक्त हुआ पात्रका लाभकूँ परम निधान लाभ मानै सो दातारका तुष्टि गुण है ॥ २ ॥ साधुनिकूँ दान होजाना इसलोक परलोकमें परम कल्याण है ऐसा परिणाममें गाढ़ प्रीति सो दाताका श्रद्धा नाम गुण है ॥ ३ ॥ जो द्रव्य क्षेत्र काल भावकूँ सम्यक् विचार योग्य वस्तु का दान करै सो दातारका विज्ञान गुण है ॥ ४ ॥ दानकूँ देय दानका प्रभावतै संसारसंबंधी धन राज्य ऐश्वर्य विद्या मन्त्र यश कीर्तनादि फलकूँ नहीं चाहै सो दातारका अलोलुप गुण है ॥ ५ ॥ जाकै अल्प हू वित्त होय तो हू दान देनेमें बड़ा उद्यम होय जाका दानकूँ देखि धनाढ्य पुरुषनिके हू आश्चर्य उरजै सो दातारका सात्त्विकगुण है ॥ ६ ॥ क्लृप्तताका महान कारण हू आजाय तो हू किसीके अर्थि रोष नहीं करै सो दाताका क्षमा गुण है ॥ ७ ॥ और हू मुनि तथा श्रावक तथा अत्रत सम्यग्दृष्टि ये तीन प्रकारके पात्र तिनके अर्थि देनेवाले उत्तम दातारके अनेक गुण हैं । विनयवान होय विनयरहितका दान निष्फल है जातै कुछ देनेकूँ नहीं होय तो विनय करना ही महादान है । सत्कार करना प्रिय वचन बोलना स्थान देना गुण स्तवन करना यो ही बड़ो दान है धर्ममें प्रीति होय दानका अनुक्रमका ज्ञाता होय दानका कालकूँ जाननेवाला होय जिनसूत्रका जाननेवाला होय भोगनिकी बांझा रहित होय समस्त जीवनिका दयालु होय रागद्वेषकी मंदता जाकै होय सार असारका जाननेवाला होय समदर्शी होय, इन्द्रियनिकूँ जातनेवाला होय, आया परीषहतै कायरतारहित होय, अदेखसका भावरहित होय, स्वमत परमतका ज्ञाता होय प्रियवचनसाहित होय, व्रतीनिका पवित्र गुणकरि जाका चित्त व्याप्त होय लोकव्यवहार अर परमार्थ दोऊनिका जाननेवाला होय सम्यक्त्वादि गुणसहित होय, अहंकारादि मदरहित होय, वैयावृत्यमें उद्यमी होय ऐसा उत्तम दातार प्रशंसायोग्य है । बहुरि जाका हृदयमें निरन्तर ऐसो विचार रहै कि जो द्रव्य व्रतीनिकी सेवामें लागै तथा साधर्मी जननिका उपकारमें श्रावक जननिके आपदा दुःख निवारणमें धर्मके बधावनेमें धर्ममार्गके चलावनेमें लगौगा सो धन मेरा है । अन्य ससारके कार्य-निमें विषय भोगनिमें कुटुम्बके विषय कषाय साधनेमें जो धन खर्च होय सो केवल बंधके करने-वाला संसारसमुद्रमें डबोनेवाला है, ये कुटुम्बके धन खायहैं ते तो दायादार हैं धन बटावनेवाले हैं, जवरीतै धन लूटनेवाले हैं, राग-द्वेष क्रोधादि कषाय उपजाय व्रत संयमका घात करनेवाले हैं अर मोकूँ पापमें प्रेरणा करनेवाले हैं अर मेरे हू इनका संयोगतै ऐसा अज्ञानरूप अंधकार छाया हू जातै धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, यश अपयश कछु नाही दीखै हू स्त्री पुत्रादिकके विषय साधनेकूँ अन्य निर्धल तथा भोले अज्ञानी जीवनिका धनके ठगनेमें लूट लेनेमें परिणाम उद्यमा होय जाय हैं । इस कुटुम्बकूँ धन वस्त्र आभरण भोजनादिककरि तुष्टि करनेके अर्थि भूटमें चोरी में निरन्तर परिणाम लग्या रहै है यातै अब भगवान चीतरागका धर्मकूँ पाय कुटुम्बके अर्थि



धनका उपार्जनके अर्थ अन्यायमें अनीतिमें तो नहीं प्रवर्तन करना जो न्यायमार्गमें धनका उपार्जन होइगा तिसमेंतैं मेरा कुटुम्बका अरु धर्मके अर्थि दानका विभाग करि जीवनका दिन व्यतीत करूंगा । धन यौवन जीतव्य क्षणभंगुर है अवश्य जायगा, मरण अचानक आयगा धनसंपदा कुंडुम्बादि कोऊ लार नहीं जायगा । मेरा दान शील तप भवनाकरि उपजाया पुण्य एक परलोकमें मेरा सहायी होय लार जायगा जो इहां समस्त सामग्री मिली है सो पूर्व जन्ममें जैसा दान दिया तैसी फली है अब दानके देनेमें धर्मात्मानिकी सेवामें दुःखित बुभुक्षितनिके उपकारमें प्रवर्तूंगा तो परलोकमें समस्त सुखकू प्राप्त हूंगा मोक्षमार्गकी सम्यग्ज्ञानादिक सामग्रीकू प्राप्त हूंगा । भोजन तो दानपूर्वक भक्षण करै ताका भोजन करना सफल है अपना उदर भरना तो पशुके हू है जाके गृहमें पात्रदान है ताका गृहाचार सफल है दान विना पशुनिके हू रहने योग्य बिल होय ही है । पत्नीनिकै घूसला होय ही हैं । समुद्रमें जल हू बहुत अरु रत्न हू बहुत परन्तु जल तो महाद्वार अरु रत्न मगर मच्छादिकनि करि व्याप्त दोऊ उपकार विना निष्फल हैं । तैसैं धनवान कृपण काधन परके उपकाररहित है सो निष्फल है । जो गृहस्थ धन पाय साधर्मिनिहा उपकारमें दीन अनाथनिके सत्कारमें नहीं खरच किया सो यो धन याको नहीं यो धन तो किसी अन्य पुण्यवानको है यो तो रखवालो भयो चौकसी करै है । धनका स्वामी तो अन्य ही पुण्यवान है जो दान भोगमें लगावेगा जाके घरमें पात्र आजाय अरु देनेकी सामग्री होय फिर नहीं दिया जाय ताकै हस्तमें चिन्तामणि रत्न नष्ट भया जानहू । जो धनकू पाय दानमें नहीं प्रवर्तै है सो मूढ़ अपने आत्माकू ठगे है । धनकू दानमें लगावै है सो धनका स्वामी है जाका परिणाम दानका देनेमें, पात्रके हेरनेमें निरन्तर प्रवर्तै है तिनके दानका संयोग नहीं होय तो हू निरन्तर दान ही है । जो द्रव्यकू अल्प होते वा बहुत होते हू पात्रकू पाय अतिभक्ति देवै है सो दातार है । भक्तिरहितके दातापना नहीं होय है ।

बहुरि अवसर टालि अकालमें दान देहै तिनकै अकालमें बोया बीजकी ज्यों निष्फल होय है अरु जो अपात्रमें दान देहै ताको दान खारडी भूमिमें बोया बीजकी ज्यों निरर्थक है । अथवा दुष्टकू दिया दान सर्पकू पाया दुग्ध मिश्रीकी ज्यों दातारने संसारके घोर दुःख मरण आताप देनेकू विष समान परिणाम है बहुरि अपना भाग्यप्रमाण जेता धन मिलै तिननामें दानका विभागमें परिणाम करै ऐसा नहीं विचारै जो मेरे पास अधिक धन होय तो अधिक दान करूँ ऐसैं दान वास्ते अभिमानी होय धनकी वांछा मत करो । जेता आपके लाभान्तरायका क्षयोपशमकू लाभ भया तेवामें संतोष करि अधिक की वांछा नहीं करना सो ही बड़ा दान है । आपकू जो न्यायपूर्वक द्रव्य प्राप्त भया तिसमें जाका निरन्तर ऐसा परिणाम रहै जो मेरा धनमेंतैं कोऊके अर्थि आजाय तो कमावना मेरा सफल है अपने गृहके खरचमें लेनेमें देनेमें केई मोतैं कुछ कमावले तो ये ही हमारे बड़ा लाभ है ऐसा परिणाम दातारका रहै है । अरु जो दान देय सो हर्षित चित्त

होय देवै, जो देवै भी अर क्रोधकरि देवै अपमानकरि देवै तिरस्कारके वचन कहि देवै रोषकरि देवै दूषण लगाय देवै तिस दातारके इस लोकमें तो कलह अर अपयश होय है, परलोकमें अशुभ-कर्मका फलतैं दारिद्र अपमानादिक अनेक भवनिमें प्राप्त होय है। अर देने योग्य नाहीं ऐसे खोटे दान कुदान ही हैं तिनकूँ देना योग्य नाहीं। भूमिदान देना योग्य नाहीं जामें हल फावडा खुरपा-दिकनिकरि भूमि विदारन करिये अर महान् हिंसा प्रवतैं महा आरम्भ पंचेन्द्रियादिक सर्प मूषा सूर हिरणादिक बड़े बड़े जीवनिकूँ धान्यादिक फलके बाधक जान मारिये हैं भूमिकी ममताकरि भाई भाई परस्पर मारि मर जाय तीव्ररागको कारण ऐसा भूमिदानतैं महाघोर पापका बन्ध जानो। बहुरि महाहिंसाका कारण तातैं अनेक हिंसा होय ऐसा लोहका दान महाकुदान जानि छांडना। बहुरि स्वर्णदान त्यागना जाकरि पात्रका नाश होजाय मारया जाय सदाकाल भय उपजावे संयमका नाश करै तथा इस धनतैं राग द्वेष काम क्रोध लोभ भय मद आरम्भादिकी प्रचुर उत्पत्ति होय आत्मस्वरूपका विस्मरण हो जाय तातैं वीतराग धर्मका इच्छुक स्वर्णदानकूँ पाप समझि न्यागना। बहुरि कौट्यांत्रसजीवनिर्का उत्पत्तिका कारण ऐसा तिलदान त्यागने योग्य है। बहुरि चाकी चूल्हा छाजला बुहारी मूसल फावडा दतीला अन्न तेल दीपक गुड़ादि रस इत्यादिक महापाप सामग्रीका भरया महा आरम्भ मोहका उपजावने वाला गृहका दानकूँ धर्म मानि मिथ्यधर्मी दे हैं सो कुदान है बहुरि जिस गौकूँ बांधनेमें हरित तृणादिक चरनेमें तथा जीया ( जवा ) बुग ( बग ) उजनेमें मलमें मूत्रमें असंख्यात जीव उपजैं सींगनतैं मारनेतैं खुर पूंछादिकनितैं जीवघात करने वाला गौका कुदान सो दान है। बहुरि संसारके बधावनेवाला महा बंधन करने वाला जो कन्याका दान सो कुदान है। इहां कहो जो कन्यादान तो गृहस्थकूँ दिये विना कैमें रह्या जाय सो ठीक है गृहस्थ है सो अपनी कन्याका विवाह योग्य कुलमें उपज्या जो जिन-धर्मी व्यवहारचातुर्यादिक वरके गुण देखि कन्या देवे है परन्तु कन्या-दानकूँ धर्म तो श्रद्धान नाहीं करै जिन-धर्मी तो कन्यादातकूँ पाप ही श्रद्धान करै है जैसे गृहचारका आरम्भादिक अनेक पापका कारण है तैसें कन्यादान हू पापका कारण है परन्तु विषयनिका दरुड है सो अङ्गीकार किया ही सरै। अन्यन्त वाले तो कन्यादान देनेका बहुत बड़ा फल कहै हैं लक्ष यज्ञ कियाका फल कहै हैं कोटि ब्राह्मणकूँ भोजन करावने तैं कोटि गऊनिका दान देनेतैं हू अधिक फल कहै हैं अन्यकी कन्याका विवाह कराय देनेका हू बड़ा धर्म कहै हैं सो जिनधर्ममें तो याकूँ संसार परिभ्रमणका कारण कुदान कहै हैं। बहुरि और हू संसार-समुद्रमें डबोवने वाले मिथ्यादृष्टि लोभी विषयनिका लंपटनिकरि कल्या कुदान त्यागने योग्य है। स्वर्णकी गाय बनाय देवै हैं तिलकी गाय, घृतकी गाय, रूपाकी गाय बनाय देवै हैं अर लेनेवान्ना घृतकी गायकूँ लापसीकी गायकूँ तिलकी गायकूँ खाय है स्वर्ण रूपाकीकूँ कटावै हैं, गलावै है। अर गायकी पूंछमें तेतीस कोटि देवता अर अडसठ तीरथ कहै हैं तथा दास दामिका दान

देहें रथदान दे हैं तथा संक्रांति मानि ग्रहण मानि व्यतीपातादि मानि दान देवैं हैं ते समस्त मिथ्यात्वका प्रभाव है। वहुरि मृतककूँ तृप्ति करने के अर्थि ब्राह्मणादिकनिकूँ भोजन करावै हैं देखहु ब्राह्मणनिके जीमनेतैं मृतककूँ कैसे पहुंचेगा ? दान तो पुत्र देवै अर पिता पापतैं छूटै, बहुत कालका मरचा हुआका हाड गंगामें चोपणेतैं मृतकका मोच होय। गयामें जाय श्राद्ध करनेतैं इकवीस पीठीका उद्धार कहै हैं गयामें पिंड देनेतैं दश पीठी पहली दश पाइली एक आप ऐसैं इकवीस पीठी संसारमें कुगतिमें पडी हुई निकस वैकुण्ठ वास करै है, अगाऊ बेटा पोतानिका सन्तान चाहै जेता पाप करो गया श्राद्ध इकवीस पीठीमें कोऊ एक हू पिंडदान दिया तो सबकी मुक्ति होय जायगी तातैं कोऊ पापको भय मत करो। वहुरि जे श्राद्धमें ब्राह्मणनिकूँ मांसपिंड जिमावै हैं मांसकिर देवतानिकूँ तृप्त करै हैं देवता दुर्गा भवानी जीवनिका राक्षसनिका तिर्यचनिका रुधिर पीवनेतैं बहुत तृप्त होती मानै हैं देवीनिकै बकरा भैंसा काटि बलिदान करै हैं। पापी छोटा शास्त्र बनाय अपने मांसभक्षणके अर्थि महाघोर कर्म करि नरकके मार्गकूँ आप जाय हैं अन्यकूँ नरक पहुंचावै हैं सो जिह्वाइन्द्रीका लोलुपी लोभी कौन घं रकर्ष नाहीं करै ? वे पापी मनुष्यपनामें ल्याली स्याल कागला कूकरा व्याघ्रकामा आचरण करै हैं जिनका ऐसे घोरपापके शास्त्र तिनके धर्ममें अर म्लेच्छ धर्ममें कुछ फरक नाहीं। ये अक्षर म्लेच्छनिके हैं वेदके अक्षरनितैं लोकनिके अज्ञान उपजाय शिकारमें धर्म जनाया। जलचर थलचर नभचर जीवनिके मारनेमें धर्म बताया जगतकूँ अष्ट किया है अर करै हैं। अर जाका देवता तो मुंडमाला अर मांसभक्षक रुधिर पीवनेमें अतिलीन है तिनके सेवकनिके पापकी कहा कथा। तिन कुपात्रनिकूँ दान देना सो महा दुःखका करनेवाला कुदान है। ऐसैं कुदानके बहुत भेद हैं कुदानके देनेतैं अर कुदानके लेनेतैं नरव-तिर्यचनिमें बहुत जन्म-मरणकरि निगोदमें एकेन्द्रिय विकलत्रयमें अनन्तकालपर्यंत असंख्यात परावर्तन करै है। या जानि कुदान मत करो कुपात्रदान मत करो।

अब यहां पहले सूत्रके अनुकूल दानका फल कहै हैं—

गृहकर्मणापि निचितं कर्म विमार्ष्टि खलु गृहविमुक्तानाम् ।

अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारि ॥११४॥

अर्थ—गृहरहित ऐसे अतिथि जे मुनि तिनकी जो प्रतिपूजा कहिये दान सन्मानादिक उपासना है सो गृहस्थके पटकर्मकरि उपार्जन किया जो पापकर्मरूप मल ताहि शुद्ध करै है। जैसे शरीर ऊपरि लग्या रुधिररूप मल तिनै जल धोवै है।

भावार्थ—गृहस्थके नित्य ही आरम्भादिककरि निरन्तर पापका उपार्जन होय है तिस पापकूँ धोवनेकूँ एक मुनीश्वरादिकनिकूँ दिया दान ही समर्थ है जैसे रुधिर लग्या होय सो रुधिरतैं नाहीं धुवै है जलकरि धुवै है तैसे गृहाचारके आरम्भतैं उपज्या पाप मल है सो गृहके

त्यागी साधुनिके अर्थि दान देनेकरि धुवै है ।

अथ दानका और हू कहनेकूँ सूत्र कहै हैं—

उच्चगोत्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात्पूजा ।

भक्ततेः सुन्दररूपं स्तवनात्कीर्तिस्तपोनिधिषु ॥११५॥

अर्थ—तपके निधान जे साम्यभावके धारक द्वाविंशति परीषहनिके सहनेवाले अपने देह पंचइन्द्रियनिके विषयनिमें निर्ममत्व ऐसे उत्तम पात्र जो मुनि तिनके अर्थि नमस्कार प्रणति करनेतें उच्चगोत्र जो स्वर्गलोकमें जन्म तथा स्वर्गतेँ आय तीर्थकरपनामें जन्म वा चक्रीपनामें जन्मरूप उच्चगोत्रकूँ तथा सिद्धनिकी सर्वोत्कृष्ट उच्चताहूँ प्राप्त होय है । अर उत्तमपात्रके दान देनेतें भोगभूमिके भोग वा देवलोकके भोग भोगि राज्यादिकनिके भोग पाय अहिन्द्र लोकके भोग पाय तीर्थकर चक्रीपना पाय निर्वाणके अनन्त सुखका भोगकूँ पावै हैं । बहुरि साधुनिकी उपासना जो सेवन ताकरि त्रैलोक्यमें पूज्य केवली हांय हैं । बहुरि साधुनिका भक्ति करनेतें सुन्दर रूप ताहि प्राप्त होय हैं । बहुरि साधुनिका स्तवन करनेतें त्रैलोक्य-व्यापिनी कीर्ति इन्द्रादिकनिकारि स्तवन कीर्तनकूँ प्राप्त होय हैं ।

और हू दानके प्रभाव कहनेकूँ सूत्र कहै हैं—

क्षितिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले ।

फलति च्छायाविभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् ॥११६॥

अर्थ—अवसरविषै सत्पात्रविषै गया अल्प हू दान सुन्दर पृथ्वीमें प्राप्त भया बडका बीजकी ज्यों प्राणीनिके छाया जो माहात्म्य ऐश्वर्य अर विभव जे भोगोपभोगकी सम्पदारूप बाँछित बहुत फलकूँ फलै है जातें पात्रदानका अर्चित्य फल है पात्रदानके प्रभावेतें सम्यक्त्व ग्रहण हो जाय है । बहुरि सम्यक्त्वरहित मिथ्यादृष्टि हू पात्रदानके प्रभावेतें उत्तम भोगभूमिविषै जाय उपजै है कैसाक है भोगभूमि जहां तीन पत्यकी आयु तीन कोशका उंचा शरीर अद्भुतरूप समचतुरस्र संस्थान महाबल पराक्रमयुक्त मनुष्य होय है स्त्री पुरुषनिका युगल उपजै है तीन दिन गये कदाचित् किंचित् आहारकी इच्छा उषजै सो बदरीफल प्रमाण आहार करनेकरि जुधाकी वेदनारहित होय है । दश जातिके कल्पवृक्षनिमें उषजे बाँछित भोगनिकूँ भोगै है । जहां शीत उष्णताकी वेदना नाहीं है जहां वर्षाका ताडनाका उपजना नाहीं, दिन-रात्रिका भेद नाहीं, सदा उद्योतरूप अन्धकाररहित काल वतै है, शीतल मन्द सुगन्ध पवन निगंतर विचरै है, जिस भूमिमें रज पापाण तृण कंटक कर्दमादि नाहीं होय है, स्फटिक मणि-समान भूमिका है यात्रत् जीव रोग नाहीं शोक नाहीं, जरा नाहीं, क्लेश नाहीं जहां सेवक नाहीं, स्वामी नाहीं, स्वपर चक्रका भय नाहीं पट्कर्मकरि जीवनोपाय करना नाहीं । दश प्रकारके कल्पवृक्ष हैं । तूर्याङ्ग ॥१॥ पात्राङ्ग ॥२॥ भूषणाङ्ग ॥३॥

पानांग ॥४॥ आहारांग ॥५॥ पुष्पांग ॥६॥ ज्योतिरंग ॥७॥ गृहांग ॥८॥ वस्त्रांग ॥९॥ दीपांग ॥१०॥ तूर्याङ्ग जातिका कल्पवृक्ष तो बांसुरी, मृदंग इत्यादिक कर्णइन्द्रियनिकू तप्त करनेवाला वादित्र देहैं ॥१॥ पात्रांग जातिका वृक्ष रत्न-सुपर्णमय अनेक प्रकारके आनन्दकारी कलश दर्पण भारी आसन पर्यकादि समस्त जातिके पात्र देहैं ॥२॥ भूषणांगजातिके वृक्ष अनेक प्रकारके आभूषण क्षण-क्षणमें पहरने योग्य हार मुकुट कुण्डल मुद्रिकादि अङ्गकू भूषित करनेवाने वा महलकू द्वारकू तथा शय्या आसन भूमिकू भूषित करनेवाले अनेक आभूषण देहैं ॥३॥ पानांगजातिके वृक्ष नाना प्रकार पीवनेका योग्य शीतल सुगन्ध पान लिये खड़े हैं ॥४॥ आहारांगजातिके कल्पवृक्ष अनेक स्वादरूप अनेक प्रकारके आहार धारै हैं परन्तु जुधाकी पीडा ही नाही तदि रोग विना इलाज औषधि कौन अङ्गीकार करै भोगभूमिमें उपजनेवालेकें जुधा नाही तीन दिन गये बदरीफल मात्र भोजन करै हैं ॥५॥ पुष्पांगजातिके वृक्ष नानाजातिके महा कोमल सुगंध पुष्पमाला आभरणादिक अनेक पुष्प धारै हैं ॥६॥ ज्योतिरंग जातिके कल्पवृक्षनिकी ज्योतिकरि सूर्य चन्द्रमा नजर ही नाही आवै हैं सूर्यके उद्योततैं बहुतगुणा उद्योत धारण करै हैं तातैं रात्रि दिनका भेद नाही हैं ॥७॥ गृहांगजातिके कल्पवृक्ष अनेक महल चौरासी खणनिपर्यंत विस्तीर्ण रत्ननिकरि चित्र विचित्र देहै ॥८॥ वस्त्रांगजातिके कल्पवृक्ष नानाप्रकारके वाञ्छित पहरने योग्य वस्त्र तथा शय्या आसन विछायत आदि समस्त वस्त्र देहैं ॥९॥ बहुरि दीपांगजातिके अन्धकार विना ही दीपमालिकाकी शोभाकू विस्तारै हैं ॥१०॥ बहुरि भोगभूमिमें स्त्रीपुरुषनिका युगल मरण-समयमें पुरुषकू छींक अर स्त्रीकू जम्भाई आवै है तिस समयमें सन्तान युगल उत्पन्न होय है सन्तानकू तो माता-पिता न ही देखै अर माता पिताकू सन्तान नाही देखै तातैं इनके त्रियोगका दुःख नाही है । अर मरण किये पाछे इनका देह शरद कालका मेघपलटवत् विलाय जाय है । बहुरि युगलिया उत्पन्न हुवा पाछे सप्त दिन तो अपना अंगुष्ठ चाटै हैं । अर पाछे सप्त दिनमें सूधा औंधा पलटना होय पाछे सप्त दिनमें अस्थिर गमन करै हैं पाछे सप्त दिनमें परिपूर्ण यौवनवान होय हैं । बहुरि सप्त दिनमें समस्त दर्शन ग्रहण चातुर्य कला ग्रहण करै हैं । ऐसैं गुणचास दिनमें परिपूर्ण होय अनेक पृथक् विक्रिया अपृथक्विक्रिया-सहित नानाप्रकारके महल मन्दिर वनविहार करते क्षणक्षणमें अनेक कोटि नवीन नवीन विषय तिनकी सानग्री भोगतैं अनेक क्रीडा रागरङ्गादिक अनेक सुखरूप क्रीडा चेषाकरि तीन पल्य पूर्ण करि मरण समयमें छींक जम्भाई मात्रतैं प्राण त्यागै । सम्यग्दृष्टि होय सो तो सौधर्म ईशान स्वर्ग मे जाय है अर मिथ्यादृष्टि मरणकरि भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी देवनिमें उपजै है कषायके प्रभाततैं देवलोक विना अन्य गति नाही पावै हैं । बहुरि सम्यग्दृष्टि होय तथा श्रावकके व्रतका धारक होय जो पात्र दान करै सो षोडशम स्वर्गपर्यंत महद्विक देव ही उपजै है । आगममें पात्र तीन प्रकार हैं अर्थात् उत्तमपात्र, मध्यमपात्र और जघन्यपात्र तिनमें उत्तमपात्र तो महाव्रतनिके

धारक अट्टाईस मूलगुण तथा उत्तरगुणनिके धारक देहमें निर्ममत्व वीतराग साधु हैं । मध्यम पात्र ग्यारह भेदरूप श्रावक सम्यग्दृष्टि व्रतनिकरि सहित हैं तथा स्त्रीपर्यायमें व्रतनिकी हदकू धारण करती तिनके एक वस्त्रतैं अन्य समस्त परिग्रहरहित परके घर एक बार याचनारहित मौनतैं भिक्षा भोजनकरि आर्यिकानिका संगमें धर्मध्यानसहित महातपश्चरण करती तिष्ठै ऐसी आर्यिका मध्यमपात्र है तथा अणुव्रत अर सम्यग्दर्शनसहित श्राविका मध्यमपात्र है अर व्रतरहित जिनेन्द्र-वचनके श्रद्धानी सम्यग्दर्शनसहित पुरुष तथा सम्यग्दर्शनसहित व्रतरहित स्त्री जघन्यपात्र है । इन तीन प्रकारका पात्रनिमें चार दान देना तथा सत्कार करना स्थानदान करना आदर करना, तथा यथायोग्य स्तवन पूजा प्रशंसादिकके वचन बोलना उठि खड़ा होना, उच्च मानना सो समस्त दान है ।

अब चार प्रकार दान कहनेकू सूत्र कहै हैं--

आहारौषधयोरप्युपकरणवासयोश्च दानेन ।

वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः ॥११७॥

अर्थ—चतुरस्र जे प्रवीण ज्ञानी हैं ते आहार दान औषधि दान उपकरणदान अर आवासदान इन चार प्रकारके दान करके वैयाव्रतकू चार स्वरूप करि कहै हैं । आहारदान औषधि-दान उपकरणदान आवासदान । या प्रकार गृहस्थकै चार प्रकार दान बह्या । जातैं अभयदानकी प्रधानता तो छहकायके जीवनिकी कृत कारित अनुमोदनाकरि विराधनाका त्यागी दिग्म्बर मुनीश्वर-निके है अर श्रावकनिकै हू ब्रस जीवनिका संकल्पी हिंसाका त्यागतैं अभयदान है ही परन्तु अभय-दानकी मुख्यता तो आरम्भका त्यागतैं विषयनितैं अत्यन्त पराङ्मुखतातैं होय है तातैं जेतै गृहा-च रतैं सम्पदातैं तथा न्यायरूप विषयनितैं परिणाम नाहों निरला होय तितने आहारादिक चार प्रकारका दान करि पापका नाश करहु, सम्पदा आयु काय अत्यन्त अस्थिर हैं । गृहचारी तो दानकरि ही पूज्य है । आहारादिक दान विना गृहस्थपना पाप-आरम्भके भार करि पापाणकी नात्र-समान केवल संसार-समुद्रमें डबोवने वाला है । बहुरि ज्ञानी गृहस्थ चितवन करै है जो यो धन में उपार्जन किया तथा पितादिकनिका धरचा हमारे विना खेद प्राप्त होगया तथा राज्य ऐश्वर्य देश नगर आमरण वस्त्र स्त्री सेवकनिका समूह समस्त जो विना खेद प्राप्त होगया सो समस्त पूर्व जन्ममें दान दिया दुःखितनिका पालनपोषण किया ताका फल है । तथा परके धनमें स्वप्नमें हू चित्त नाहीं चलाया, परम संतोष धारण करि विषयनिषू विरक्त होय निर्वाङ्कता धारण करी ताका फल है । तथा दीन दुःखित रोगी असमर्थ वाल बृद्धनिकी दया धारण करि उपकार किया ताका फल यह सम्पदा है सो दीय दिन याका संयोग है परलोक लार जायगी नाहीं, जमीनमें गड़ी रहैगी तथा अन्य देशान्तरमें धरी रहैगी तथा अन्यपै रह जायगी वा स्त्री पुत्र-कुटुम्ब दायेदार

मालिक बनैंगे तथा-राजा लूट लेगा तथा अचानक मरि दुर्गति चल्या जाऊंगा यो धन सैकड़ां दुर्ध्यानतैं महापापके आरम्भतैं देश-देशनिमें परिभ्रमण करि बड़ा कष्टतैं उपार्जन किया था प्राण-निष्ठ हू अधिक याकी रक्षा करी अब इस धनका फल छोडकरि मरि जाना ऐसा विचारना तो योग्य नाही जगतमें देखो जो लाख धन होय भोगनेमें तो आवै नाही जातैं भोगनेमें तो आधा सेर अन्न आवै है अर तृष्णा ऐसी बध है जो अब धन बधाऊं । अहो अन्यकै तो पचास लाख धन होगया मेरे पांच लाख ही है । अब कैसे बधाऊं, कौन आरम्भ करूं, कौन उपाय करूं, कौन राजानिकूं रिभाऊं, तथा कौन बनिज करूं तथा कौनमूं मित्रता करूं, जाके बुद्धितैं मेरे धन उपार्जन होजाय तथा कौनसा सेवककूं अङ्गीकार करूं जो मेरा अल्प धन खाय अर मोकूं बहुत धन उपार्जन करदे ऐसैं हजारों दुर्ध्यान करतो संसारी जीव समस्त सम्पदा राज्य ऐश्वर्य छांडि-महामूर्च्छातैं अतिगौद्र परिष्णामतैं मरि घोर नरकका घोर दुःख भोगै है । संसारमें अनन्त दुःखरूप परिभ्रमण करता बुधा तथा रोग दारिद्रकूं भोगता अनन्तकाल असंख्यातकाल व्यतीत करै है । अब इस घोर कालमें कोऊ किंचित् मोहनिद्राके उपशमतैं जिनेन्द्रमगवानके वचनतैं कोऊ अति विरले पुरुष सचेत होंय अपना हितकूं चिंतवन करते चार प्रकारके दानमें प्रवर्तन करै हैं । दानमें आहारदान प्रधान है इस जीवका जीवन आहारतैं है कोटि सुवर्णका दान आहारदान समान नाही है । आहारहीतैं देह रहै है । देहतैं रत्नत्रय धर्म पलै है । रत्नत्रयधर्मतैं निर्वाण होय है निर्वाणमें अनन्त सुख है । त्यागी निर्वाणक साधुनिका उपकार तो एक आहारदानतैं ही है । आहार विना कोऊ तिल-तुपमात्र वस्तु हू नाही अङ्गीकार करै, आहार विना देह रहै नाही, आहार विना अनेक रोग उपजै हैं । आहार विना ज्ञानाभ्यास नाही होय । आहार विना व्रत संयम तथ एक हू नाही पलै । आहार विना सामायिक, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, ध्यान एक हू नाही होय, आहार विना परमागमको उपदेश नाही होय, आहार विना उपदेशग्रहण करनेकूं समर्थ नाही होय, आहार विना कांति विनसी जाय, मति विनसि जाय, कीर्ति चांति शांति नीति गति रति उक्ति शक्ति धृति प्रीति प्रतीति नाशकूं प्राप्त होय है । आहार विना समभाव इंद्रियदमन जीवदया मुनि श्रावकका धर्म विनयमें प्रवृत्ति, न्याय में प्रवृत्ति, तपमें प्रवृत्ति, यशमें प्रवृत्ति समस्त विनाशनै प्राप्त होय जाय, आहार विना वचनकी प्रसीणता नष्ट हो जाय है, आहार विना शरीरका बण विगडि जाय, शरीरमें मुखमें दुर्गंधता हो जाय । शरीर जीर्ण हो जाय, समस्त चेष्टा नष्ट हो जाय । आहार नाही मिलै तो अपने प्यारे पुत्रकं, पुत्रीकं, स्त्रीकं, बच देइ । आहार विना नेत्रनिंतैं देखनेकूं समर्थ नाही होय, कर्णनिंतैं श्रवण करनेकूं नामिकरतैं गन्ध ग्रहण करनेकूं, स्पर्शन-इंद्रियतैं स्पर्शन करनेकूं समय नाही होय । आहार विना समस्त चेष्टा गति मृतकसमान होय । आहार विना मरण हो जाय, आहार विना चिता शोक भय कनेश नमस्न मंताप प्रकट होय हैं । दीनता होजाय संसारी लोक अपमान पद, तैं घोर दुःख दुर्ध्यानकूं दूर करनेवाला जो आहारदान दिया सो समस्त व्रत संयममें

प्रवृत्ति कराई, समस्त रोगादिक दूर किया, यातें आहारदान समान कोऊ उपकार नहीं है।

बहुरि रोगका नाश करनेवाला प्रासक औषधिका दान श्रेष्ठ है। रोगकरि व्रत संयम विगडि जाय स्वाध्याय ध्यानादिक समस्त धर्मकार्यका लोप हो जाय है। रोगीके सामायिकादिक आश्रयक नहीं बनि सकै है। रोगकरि आर्त्तध्यान निरंतर होय है, मरण विगडि जाय है, रोगीके संक्लेश दिन प्रतिदिन बधै है। अपघात करया चाहै है, रोगी पराधीन हो जाय है। मन इंद्रियां चलायमान हो जाय हैं। उठना बैठना सोवना चालना बहुत कठिन हो जाय है। स्वास का लार वेदना बधै है। क्षणमात्र जक (चैन) नहीं लेने देहै। बहुत कहा कहिये रोगीकूँ खावना पीवना, बोलना, चालना देना. सोवना उठना, बैठना समस्त कार्य जहर पीवने समान बाधाकारी होय हैं यातें प्रासुक औषधिदान करि रोग मेटने समान कोऊ उपकार नहीं। रोग मिटै आहारादिक किया जाय, समस्त तप व्रत संयम ध्यान स्वाध्याय कायोत्सर्गादि रोगरहित होय तदि करि सकै है।

बहुरि ज्ञानदान समान जगतमें उपकार नहीं। ज्ञान विना मनुष्य जन्ममें हू पशु समान है ज्ञानाभ्यास विना आपका परका ज्ञान नहीं होय। ज्ञान विना इसलोक परलोकका जानना कैसै होय ज्ञान विना धर्मका स्वरूप, पापका स्वरूप, करनेयोग्य नहीं करने योग्यका विचार नहीं होय है। ज्ञान विना देव-कुदेवका गुरु-कुगुरुका, धर्म-कुधर्मका जानना नहीं होय है। ज्ञान विना मोक्षमार्ग ही नहीं, ज्ञान विना मोक्ष नहीं, ज्ञानरहित मनुष्यमें अर पशुमें भेद नहीं इंद्रियनिका विषय पोषना कामसेवन करना तो तिर्यचनिकै भी होय है जातें मनुष्य जन्म तो ज्ञान-हीतें पूज्य है। तातें ज्ञान दान दिया सो पुरुष समस्त दान दिया। परमोपकार तो ज्ञानदान ही है

बहुरि वरित्कादान जो स्थानका दान जामें शीत उष्ण वर्षा पवनादिक बाधारहित ध्यान स्वाध्याय की सिद्धताको कारण ऐसा स्थानका दान श्रेष्ठ है। यहां ऐसा जानना उत्तम—पात्र जे परम दिगम्बर महामुनि तिनका समागम तो कोऊ महाभाग पुरुषकै कदाचित होय है जैसे जगत पाषाणनिकरि बहुत भरया है। परन्तु चिंतामणिरत्नका समागम होना अति दुर्लभ है। तैसें वीतराग साधुका समागम दुर्लभ है। फिर आहारदान होना अति ही दुर्लभ है। अर आहार हू आप के निमित्त नहीं किया अर सोलह उद्गम दोष, षोडश उत्पादन, दश एषणा दोष ऐमें वियालीस दोष अर प्रमाण १ संयोजन १ धूम १ अंगार १ ऐसै छयालीस दोष वत्तीस अंतराय चौदह मलनिकूँ टालि एकवार भोजन करै सो अर्द्ध उदर तो भोजनधर भरे अर चतुर्थभाग जलकरि पूर्ण करै अर उदरका चतुर्थभाग खाली राखै। सो हू एक उपवामके पारने, कट्टे दोष उपवामके पारने कदाचित् तीन उपवास भये. कदाचित् पक्षोपवास सामोपवासादिकके पारने अजाचीक वृत्तिकरि नवधा भक्तिकरि दिया हुआ भोजन कोऊ पुण्यदानके घर होय है अर अजाचीक



वृत्तिकूँ धारते मौनसहित मुनीश्वरनिकूँ औषधिदानहू का देना दुर्लभ है ! कोऊ गृहस्थ आपके निमित्त प्रासुक औषधि करी होय अर अचानक मुनीश्वरनिका समागम हो जाय अर शरीरकी चेष्टासूँ रोगकूँ बिना कइया जानि योग्य आपधि होय तो देवै तातें साधुनिकूँ औषधिदानहू दुर्लभ है । शास्त्रदान हू योग्य पुस्तक इच्छा होय तो पढ़ै तितनै ग्रहण करै पाछें वनमें तथा वनके चैत्यालयमें भेलि चल्या जाय है । बहुरि मुनीश्वरनिके अर्थि वस्तिका दानहू दुर्लभ है जातें दिगम्बर मुनि एक स्थानमें रहै नाहीं वदै पर्वतनिकी गुफामें कदै भयङ्कर वनमें कदै नद निके पुलनिमें ध्यान अध्ययन करते तिष्ठै हैं । कदाचित कोऊ वस्तिकामें एक दिन ग्राम के बाह्य अर पाच दिन नगरके बाह्य अर वर्षाऋतुमें चार महीना एके स्थानमें रहै । अर कदाचित् कोऊ साधुके समाधिमरणका अवसर आजाय तो मास दोय मास एकस्थान रहै । अन्य प्रकार जैनका दिगम्बर एक स्थानमें रहै नाहीं । अर एक रात्रि दोय रात्रि हू कोऊ कदाचित निर्दोष प्रासुक वस्तिकामें रहै सो वस्तिका कैसी होय आपके निमित्त करी नाहीं होय, आपके निमित्त भुवारी नाहीं होय मुनि आयां पाछें धोलै नाहीं उजालदान खोलै नाहीं वारणा मुद्या होय तो वारणा खोलै नाहीं भाड़ा देइ लेवै नाहीं । बदलके अपना वस्तिका देय परकी लेवै नाहीं, याचना करि लीनि नाहीं होय, राजाका भय दिखाय लीनी नाहीं होय । इत्यादिक छियालीस दोष-रहित वस्तिका होय, तथा जीर्ण वनमें तथा उजड ग्रामका मकान होय जहां असंयमीनिका आर (आना) जार (जाना) नाहीं होय । स्त्री नपुंसक तिर्यचनिका आगम नाहीं होय, जीव-विराधनारहित होय, अन्धकारादि नाहीं होय तहां साधुजन एक रात्रि दोय रात्रि कदाचित् वसै । अनेक देशनिमें विहार करै तिनकूँ वस्तिकादान होना बहुत दुर्लभ है यातें उत्तम पात्रकूँ दान होना अति दुर्लभ है । अर इस पंचमकालमें वीतरागी भावलिगी साधु हो कोई प्रिला देशान्तरमें तिष्ठै है तिनका पावना होय नाहीं । पात्रका लाभ होना चतुर्थ-काल में ही बड़े भाग्यतें होय था । परन्तु इस क्षेत्रमें पात्र तो बहुत थे अर इस दुःपमकालमें यथावत् धर्मके धारक पात्र कहीं देखनेमें ही नाहीं आवैं । धर्मरहित अज्ञानी लामी बहुत विचरै हैं सो अपात्र हैं । इस कालमें धर्म पाय करिकें गृहस्थ जिनधर्मके धारक श्रद्धानी कोई कहीं कहीं पाइए हैं । जे वीतराग धर्मकूँ श्रवण करि कुधर्मकी आराधना दूरहीतैं त्याग करि नित्य ही अहिंसाधर्म के धरनेवाले जिनवचनामृत पान करनेवाले शीलवान संतोषी तमस्वी ही पात्र हैं अन्य भेषधारी बहुत विचरै हैं जिनके मुनि श्रावकके धर्मका सत्य सम्यग्दर्शनादिकको ज्ञान ही नाहीं ते कैसैं पात्रपना पावै ? मिथ्यादर्शनके भाव करि आत्मज्ञान-रहित लोभी भये जगतमें धना-दिक्किका मिष्ट आहारदानका इच्छुरु भये बहुत विचरै हैं ते अपात्र हैं । तातें पात्रदान होना अनिदुर्लभ है ।

यहां गेया विशेष जानना जो कलिकालमें भावलिगी मुनीश्वर तथा अर्जिका तथा लुल्लकका समागम तो है ही नाहीं । अर जो कदाचित् चिंतामणिरत्नकी ज्यो किसी महाभाग्य पुरुषकूँ

उनका दानका समागम मिले तो आध सेर अन्नका भोजनमात्र उनके अर्थि देनेमें आवै अर जो जुल्लक अर अर्जिकाके कदाचित् वस्त्र नीर्ण होजाय तो अर्जिका तो एक श्वेत वस्त्र ही ग्रहण करि पुराना वस्त्र वहां छांडि जाय, अर जुल्लक एक कोपीन एक श्वेत ओछा वस्त्र जातैं समस्त अंग नहीं ठकै ऐसा थोड़े मोलका ग्रहण करि पुराना वस्त्र वहां ही छांडि जाय है अन्य तिल-तुषमात्र हू ग्रहण करै नहीं । ऐसैं पात्रनिके दानमें तो कुछ द्रव्यको खर्च नहीं विना न्योता विना बुलाया कदाचित् अचानक आ जाय तो गृहस्थ अपने निमित्त किया रूत सचिकण भोजन तिसमें दानका विभाग करिये है धनाढ्य पुरुष धनकूँ कौन कार्यमें लगाय सफल करै । जो भोगनिमें लगाइये तो भोग तो तृष्णाके बधावने वाले इन्द्रियनिकूँ विकल करने वाले महापापमें प्रवर्तन कराय नरकादिक कुगतिकूँ प्राप्त करै हैं, जीवका हित-अहितका जाननेकूँ लुप्त करै हैं अर मोहवश होय पुत्रादिक-निकूँ समर्पण करिये है सो पुत्रादिक तो ममताके बधावने वाले विना दिये हू सर्वस्य लेवेंगे । पापाचार करि दुर्घ्यानितैं सम्पदामें ममता धारणकरि धर्मका विध्वंस करि सम्पदा बधाई ताका अर्धविभाग तो धर्मके अर्थि दयाके पात्रनिमें दानकर अपना हित करो । सम्पदा छांडि परलोक जाओगे तहां पुत्र पौत्रादिकको देखनकूँ कैसैं आओगे कुटुम्बका सम्बन्ध तो तुम्हारा यह चामडा-मय मुख नासिका नेत्रादिकतैं है । सो इनकी भस्म होजासी, तथा मृत्तिकामें मिल जासी, कुटुम्ब तुमकूँ अन्य पर्यायमें देखने आवै नहीं । तुम कुटुम्बकूँ देखने आओ नहीं क्योंकि जिन नेत्र कर्णादिकनिमें कुटुम्बकूँ जानो हो तिन नेत्रादिकनिकी तो राख उड जायगी तदि कुटुम्बकूँ कैसैं जानोगे । अर पुत्रादिक कुटुम्बका सम्बन्ध तुम्हारे शरीरका चामतैं है । तुम्हारे आत्माकूँ जानै नहीं अर तुम्हारे अर तुम्हारा चामडाकी राख उड जायगी तदि कुटुम्बके तुमसूँ कहां सम्बन्ध करैगे तातैं भो ज्ञानीजन हो जीवन अल्प है पुत्रादिकनिका सम्बन्ध हू अल्प काल है कोऊ संसारमें शरण नहीं है एक धर्म ही शरण है अर यो धन है सो हू तुम्हारा नहीं है कोऊ पुण्यका प्रभावकरि दोय दिन इसका स्वाभीपना अङ्गीकार करि छांडि मर जाओगे । यो धन लार जायगा नहीं, पुत्रका ममत्वतैं महादुराचार करि धन संचय करो हो सो धनका ममत्व अर पुत्रादिकनिके ममत्वतैं संसारमें आपा भूलि नरक जाय पहुंचोगे अर अनेक पर्यायनिमें दीन दरिद्री भये विचरोगे । अर प्रत्यक्ष देखो हो हजारों मनुष्य अन्न अन्न करते मर जाय हैं दरिद्री रङ्ग भये घर घरके वारने फिरै है दीनता करै हैं जिनकी ओर कोऊ देखै हू नहीं, कोऊ उनकी श्रवण करै नहीं सो समस्त प्रभाव पूर्वजन्मान्तरमें धनसूँ तीव्र ममता बांधि कृपण होय धन संचय किया ताका फल है । अर तुम्हारे मित्र सम्पदा रत्न स्वर्ण रूपादिक हैं तथा नाना रसनि करि सहित भोजन अर शीलवंती रूपवंती राग-रसकरि-भरी स्त्रीनिका समागम अर आज्ञाकारी प्रवीण सुपुत्र अर हितमें सावधान कार्यमाधक चतुर सेवक अर महान विस्तीर्ण महल मन्दिरनिमें निवास इत्यादिक जे सामग्री पाई हैं ते कोई पूर्व जन्ममें दान दिया ताका फल है । दानके प्रभावतैं भोगभूमिमें जन्म

अर स्वर्गके विमाननिके स्वामीपना होय है तहां असंख्यात कालपर्यंत सुख भोगिये है सो यहांका तुच्छ कायक्लेश-सहित महामलीन देहादिक कहा वस्तु है ऐसी सम्पदा हू तुम्हारे थिर नहीं रहैगी । अर तुम्हारे ऐसा विचार है जो या लक्ष्मी हमारी है हमारा कुलमें चली आवै है हम बुद्धिरहित नहीं हैं जो हमारी विनसि जाय जे बुद्धिहीन चूक करि चालै हैं तिनकी सम्पदा विनसै है ऐसा तुम्हारा भ्रम है सो मिथ्यादर्शनके उदयकरि बड़ा भ्रम है अर अनन्तानुबन्धा कषायतैं अभिमान है सो थोरे दिननिमें नरकके नारकी बनाय देगा । तातैं हे आत्मन् ! जो जिनेन्द्र-देवके वचननिका श्रद्धान है अर धर्मसूत्रं प्रीति है अर दुःखी लोकनिकू देख दया आवै है तो चित्तमें सम्यक् चिंतन करो जो मैं मूढात्मा धनसूत्रं ममता करि पूर्वला धन था ताकी तो बड़ा यत्नतैं रक्षा करी अर नवीन भी बहुत धन उपार्जन किया धनके उपार्जनके निमित्त जुधा तृषा शीत उष्णादिक भोगे अर अनेक आरम्भ वनिज राजसेवा विदेशगमन संसुद्र-प्रवेश इत्यादिक किये अधर्मी स्लेच्छादिकनिके परिणामकू राजी करनेकू निव्यकर्म किये जीं तीं प्रकार धन उपार्जन किया तो अब मरण अचानक आवेगा धन रक्षा नहीं करैगा तातैं अब मोकू अन्यायतैं अनीतितैं तथा पापके वनिजतैं अर पापीनिकी पापरूप सेवातैं तो धन उपार्जन करनेका शीघ्र ही त्याग करना चाहिये अर न्यायतैं उपार्जन किया धन तिसमें मर्यादा करि रहना अर जिनका धन भुलाय चुकाय राख्या तिस धनकू उलटा देय क्षमा करावना । बहुरि जो द्रव्य है तिसमें पुत्रादिकनिका विभागका धन तो पुत्रादिकके अर्थि न्यारा करना अर दानके अर्थि निराला धन राख करके परका उपकारके अर्थि, धर्मकी प्रशुतिके अर्थि दान करना । अर जो नवीन धन उपार्जन होय तिसमें हू चतुर्थ भाग तथा छटा भाग तथा अष्टम भाग तथा जघन्य दशम भाग तो पुण्य-दान धर्मके कार्यमें धनवानकू वा निर्धनकू समस्तकू ही दानादिकका विभाग करना योग्य है । जाके उदर पूर्ण भी नहीं होय आधा चौथाई भोजनादिक मिलै ताकू हू दानधर्मका विभाग उत्कृष्ट चतुर्थ भाग जघन्य दशम भाग, मध्यम छट्टो भाग अष्टम भाग न्यारो कर दुःखित बुभुचितका अर जिनपूजनादिकका विभाग करना श्रेष्ठ है । दान विना गृह है सो श्मसान है, पुरुष है सो मृतक है अर कुटुम्ब हैं ते इस पुरुषका धर्मरूप मांस चूथि चूथि खाय हैं । अर गृहस्थ धनवान है जनीनिर्जा अनेक प्रकार पालना करै हैं जे धर्ममें शिथिल होय ते हू धनाढ्य पुरुषनिका आदर देने करि, मिष्ट वचन बोलनेकरि धर्ममें दृढ हो जाय हैं । केतेक काम चाकरी करावने लायक होय तो उनतैं काम ह लेना अर उनका भरण पोषण करना, केतेक कुमाय पैदा कर लेने योग्य होय तिनकू पूंजीका रक्षण देय धन ह बन्या रखातैं है अर ताकू पांच रुपयाकी पैदासि कराय देय, केतेकनिकू वनिज व्यवसायमें प्रवेने मामिल करि निर्वाह करदे केतेनकी धाज प्रतीति करायकै पदाकै योग्य करदे । केतेक-निर्वाह करि रोजगार लगाय दे केतेकनिकू दलाली वगैरह लगाय रोजगार कराय दे क्योंकि श्रारत्न-आश्रय विना परतया मनुष्यका गुदा होना दुर्लभ है । आय धर्मात्मा होय सो अपना धन

धिगडवाका भय नहीं करै है जो मेरा धन साधर्मिनिके कार्यमें आवै सो धन मेरा है अर जो धन साधर्मिनिके कार्यमें नहीं आया सो मेरा नहीं, बहुरि केतेक पुरुष पहली धनाढ्य थे, प्रतिष्ठावान थे तिनके कर्मके उदयकरि धन नष्ट हो गया, आजीवका नष्ट हो गई और खानपानका ठिकाना गया नहीं, घरमें स्त्रीवालकादिकनिकी बड़ी त्रास ऐसैं पुरुषनितैं मिहनत मजूरी होय नहीं ओछा काम किया जाय नहीं, बड़ा आदमी जान कौऊ अंगीकार करै नहीं, धन आभरण वस्त्र पात्र नमस्त वेच खाये अब कौनसों कहैं कौन उपाय करैं ऐसे प्रतिष्ठावान पुरुषकूँ आजीविका लगाय देना चिगतेनिक्कूँ दुःखममुद्रमें तैं हस्तावलम्बन देय काढना, धर्ममें न्यायमें लगाय थोरा बहुत सहारा देय खडा कर देना, जेती योग्यता होय तिस माफिक धीरज करनी, अन्य दूजाके कने रख देना, रोटीका निर्वाह हो जाय तैस करना धर्मतैं जोड देना यो बडा उपकार है। केतेक स्त्री पुत्रादिरहित होय तिनकूँ धर्मके कार्यमें लगाय खान-पानका दुःख भेटि देना, केते बृद्ध होगये उद्यम करनेकूँ समर्थ नहीं होय, केतेक जिनधर्मी धर्ममें सावधान हैं तो हू इन्द्रियां थक गईं रोग सहित देह हो गया, सहाय बिना समता रहै नहीं, तिनकी स्थितिकरण धनवानही सूँ बनै। केतेक पुत्रादिक रहित हैं तिनकूँ धर्मका आश्रय ग्रहण करावना केती श्राविका विधवा होगईं तिनके भोजनवस्त्रका ठिकाना नहीं तिनमें करुणाबुद्धितैं भोजन वस्त्रादिकका साधन कराय धर्ममें लगाय देना धनाढ्य पुरुषनिका सहाय पाय, केतेक पुरुष स्त्री कुधर्मका त्याग करि हठ श्रद्धा करै हैं, केतेक अणुव्रतादिक ग्रहण कै हैं केई श्रद्धानादि सहित सचित्तका त्यागी, केई परचीमें उपवास, केई दिवसमें ब्रह्मचारी केई अपनी स्त्रीका त्यागी केई आरम्भका त्यागी केई परिग्रह-त्यागी केई पापकी अनुमोदनाका त्यागी, केई उद्विष्ट आहारका त्यागी ऐसैं ग्यारह स्थान श्रावकके धारण करनेतैं दानके पात्र होय हैं ते हू धनाढ्य पुरुषनिका सहायतैं धर्ममें प्रवर्तते देख अनेक पुरुष धर्म की प्रवृत्तिमें लगि जाय हैं। बहुरि धनाढ्य पुरुष है सो विद्या पढ़नेके स्थान बनाय दे पढ़ावने वालेनिक्कूँ जीविका देय व्याकरणविद्या, काव्यविद्या, गणितविद्या, तर्कविद्या इत्यादिक अनेकविधा पढ़ावनेकी पाठशाला स्थापना करदे तो जैनीनिमें सैंकड़ों विद्याका पढ़वामें लगि जाय वरसां वरस दस बीस पढिकरि तैयार हुआ करैं तो धर्मकी सन्तान चलयो जाय केई बुद्धिकरि अधिक होय तिनकूँ आजीविकादिका सहायी होय निराकुल करदे तो धर्मकी प्रवृत्ति चली जाय तथा अनेक ग्रंथनिक्कूँ लिखावना पढ़नेवालेनिक्कूँ पुस्तक देना, ग्रंथके सोधनेमें सोधनेवालेनिक्कूँ निराकुल कर- देना ज्ञानके अभ्यास करनेवालेनिक्कूँ प्रीति करना अपने आत्माकूँ ज्ञानके अभ्यासमें लगावना, अपने सन्तानकूँ तथा कुडुम्बीनिक्कूँ ज्ञानके अभ्यासमें लगावना, जैसे तैसे लोकनिकी शास्त्रके अभ्यासमें रुचि करावनी। ये शास्त्र धर्मके बीज हैं जो शास्त्रनिका ज्ञान हो जाय तो सैंकड़ों दुराचार नष्ट हो जाय सम्यग्ज्ञान ही व्यवहार परमार्थ दोऊनिक्कूँ उज्ज्वल करदे है तातैं शास्त्र पढ़ावने समान दान नहीं है। तथा रोग भेटने वाली प्रासुक केतेक औषधि बनाय करि

रोगीनिकूँ देना जे निर्धन मनुष्य हैं तिनकूँ औषधि तैयार मिल जाय तो बड़ा उपकार है तथा कोऊ निर्धन नहीं होय तिनकाभी औषधि करि बड़ा उपकार है निर्धन दुःखित जननिकूँ औषधि-दान देने समान उपकार नहीं है केतेक निर्धननिकूँ औषधि मिलै नहीं, करनेवाला नहीं, बिना सहाय औषधि बन सकै नहीं, औषधितैयार मिले ताका बहुत कोटि धन का लाभ है रोग मेटने वरावर कोऊ दान नहीं बड़ा अभय दान है। बहुरि धर्मात्मा जननिके अर्थि रहनेके अर्थि, धर्म साधन करनेके धर्मशाला वस्तिकादिक अपनी शक्तिसारू मोल ले देना, अपना घरका स्थान होय तहां राखि देना जातै रहनेके स्थान बिना धर्म सेवनादिकमें परिणाम थिर नहीं रहै है। बहुरि जिनधर्मी परदेशी दुःखित आ जाय तो महीना दो महीनाको भोजनादिकके सहायमें प्रवर्तना कोऊ परदेशीके पासि मार्गमें खरची अपने स्थान पहुंचनेकी नहीं होय तथा मार्गमें लुटिगया होय, चोर ले गया होय जैनी जानि आपकनै आया होय ताकूँ अपने गृह पहुंचे तैसै दानादिक करि पहुंचावना अर परदेशी रोगी होय आया होय ताकूँ स्थान बतावना औषधादिकरि रोग रहित करना वारम्बार धर्मोपदेश देय समता देना, वारम्बार पूछना, वैयावृत्य करना। बहुरि निर्धन मनुष्यनितै नहीं बन सकै ऐसा औषधिका दान निरन्तर करना। परिणाम चल गया होय रोगकरि वियोगके दुःखिकरि दारिद्र करि धैर्य छूट गया होय तिनकूँ धर्मोपदेश करि धीरज धारण करावना। बहुरि अपने आत्माकूँ निरन्तर ज्ञानदान देना, आप ज्ञानवान होय तो नित्य अनेक जीवनिकूँ धर्मोपदेश देना तथा कोऊ शास्त्रके अर्थके जानने वाले पुरुषकी प्राप्ति होय तो ताकूँ कल्पवृक्षका लाभ तुल्य बड़ा हर्षसहित आजीविकादिककी थिरता कर देना, बहुत विनय आदरतै राखि धर्मका ग्रहण आप करना, धर्मकी वृद्धिके निमित्त ज्ञानीनिका सन्मानादिकरि धर्मके उपदेशकी तत्त्वनिके स्वरूपकी चर्चाकी, गुणस्थान, मार्गणा-स्थानादिककी चर्चाकी प्रवृत्ति कराय धर्मकी प्रभावना, सम्यग्ज्ञानकी चर्चाकी प्रवृत्ति करावना। जहां धर्मकी प्रवृत्ति मन्द हो गई होय तिन ग्रामनिमें शास्त्र लिखाय भाषा वचनिका योग्य शास्त्र भेजना, ज्ञानदान समस्त मन्दकपायी भद्रपरिणामीनिकूँ करना चाहिये। बहुरि सम्पदा पाय दान-सन्मानतै प्रिय वचनतै अपने मित्रकूँ कुटुम्बकूँ आनन्दित करना। सम्पदाका समागम अर जीवन क्षणभंगुर है इस धनतै अर देहतै तथा वचनतै अन्य जीवनिका उपकार करना ही श्रेष्ठ है। प्रिय वचन बोलने का बड़ा दान है। वैरीनितै अपना वैर छांडना प्रिय वचनतै अपराध जमा करावना बड़ा दान है अपना धन धरती देय करके हू संतोषित करना वैर धोवना अभिमान त्यागना, कुटुम्बी निर्धन होय तिनकूँ शक्ति-प्रमाण दान-सन्मान करना अपनी बहिन बेटी निर्धन होय तो वारम्बार भोजन-पान वस्त्र आभरणादिककरि वारम्बार सन्मान दान करना, दयामान होय ते अन्यकूँ दुःखित जान सन्मानतै दुःख मेटे हैं सो जिनका आपमें उदर पहुँचे अर अपना अंग समान भूवा वहण बेटी जमाई इनका संताप कैसै सहे ? कोऊरि अपना उजाड़ निगाह होगया होय तो कहुक वचनना ही कहना, उनको या कहना

जो भाई, तैं परिणाममें कुछ सन्ताप मत करो गृहचारीमें हानि-वृद्धि लाभ-श्रल्लाम तो कर्मके अनुकूल है अर समस्त सामग्री विनाशीक है तुम तो हमारे अनेक कार्य सुधारो हो तथा हमारे भले करनेकूँ करो हो कर्मके अनुसार कोऊ विगडूँ भी है ऐसैं प्रिय वचनकरि सन्तोषित ही करै । बहुरि निरन्तर ऐसा परिणाम ही राखै जो मेरा धनतैं किसी जीवका उपकार होय तो अच्छा है अन्य पुरुष अपने हितमें प्रवर्तन करो वा अपने अहितमें प्रवर्तन करो, आप तो उपकार करनेमें ही प्रवर्तन करै । बहुरि कोऊ वन्दीखानामें पड्या होय कोऊ भगडा फस्या होय तो अपने घरके पांच रुया देयकर छुड़ावना, कोऊ चूकि अपना धन चोरया होय तो प्रियवचनादिकतैं समत्राभावतैं सुलभाय लेना, निर्धन होय ताख्खं लेनेको इरादो वा भगडो नाहीं करना, कोऊ चोर खाया ताका फजीता अपवाद नाहीं करना आपके आश्रित होय तिनका पालन-पोषण करना, विधवा होय अनाथ होय, रोग वियोगादिक दुःख करि सन्तापित होय तिनका दुःख सन्ताप दूर करनेमें सावधानी करना, बालक होय बालविधवा होय तिनका बहुत प्रकार सम्हालितैं प्रतिपालन करना, अपनेतैं जे वैर राखैं उपकार करेका हू अपकार मानैं तिनका हू गुण-ग्रहण करना अर दान सम्मान करना । अवसर पाय अपने मित्र बांधवादिकनिका सम्मान नाहीं किया तो धन ऐश्वर्य पाय केवल अपयशकी कालिमा ही ग्रहण करी । बहुरि अपने पुत्र कुटुम्बादिककी पालन तो खरडी कूकरी हू करै है अवसर पाय अपने विगाडूँ करनेवाले धन आजीविका हरनेवाले वैरीनिकाहू दान सन्मान उपकार करि वैरका अभाव करना दुर्लभ है । मनुष्यजन्म धन सम्पदा यौवन ऐश्वर्य क्षणभंगुर है अनेक का धन जीवन नष्ट होगया जिनका नाम अर स्थान हू नाहीं रहया । सोई कार्तिकेयस्वामी कखा है—अतिशय करके आभरण वस्त्र स्नान सुगन्ध विलेपन नाना प्रकारके भोजन-पानादिक करि अत्यंत पालन पोषण किया हुआ हू देह एक क्षणमात्रमें जलका भरया काचा घड़ाकी ज्यों विनशै है । जो लक्ष्मी चक्रवर्तीनिकूँ आदि लेय महापुण्यवाननिमें नाहीं रमी सो लक्ष्मी अन्य पुण्यरहित जननिमें कैसैं प्रीति बांधि रहैगी ? या लक्ष्मी कुलवाननिमें नाहीं रमै है कोऊ जानै मेरा कुल ऊंचा है मेरे लक्ष्मी रहती आई है ऐसा नाहीं जानना । कुलवानमें भी रहै वा नाहीं रहै नीच कुलवाले में जाय रहै है धीरमें रमै वा नाहीं रमै पण्डित प्रवीणके रहै वा नाहीं रहै मूर्खनिके हू होय है शूरवीरनिके वा कायरनिके मांहि रमै, वा न रमै पूज्यपुरुषनिमें तथा सुन्दर रूपवाननिमें वा सज्जननिमें वा महापराक्रमीनिमें वा धर्मात्तामें या लक्ष्मी राचै है ऐसा नियम जानै सो नाहिं है ।

भावार्थ संसारी अज्ञानी भ्रमतैं ऐसा जानैं हूँ जो मैं तो कुलवान हूँ मोकूँछांडि लक्ष्मी कैसैं जायगी, तथा मैं धीर हूँ धीरजवानके लक्ष्मी स्थिर रहे है चलायमानके विनसै है तथा मैं महापण्डित प्रवीण हूँ मैं बडा प्रवीणतातैं बधाई है मूर्ख अज्ञानी चूकि करि चालै ताकी लक्ष्मी नष्ट होय है तथा मैं शूरवीर हूँ अन्यकी लक्ष्मीकी रक्षा करूँ हूँ मेरैं कैसैं विनसै, कायरके विनसै

है तथा मैं पूज्य हूँ समस्तकी लक्ष्मी पूज्यमें रही चाहिये, कोऊ नीचकी विनसै है तथा मैं धर्मात्मा हूँ नित्य ही दानपूजाशिलादिकमें प्रवर्तू हूँ मेरी कैसें नष्ट होय, कोऊ पापीके सम्पदा विनसै है तथा मैं सुन्दर रूपवान हूँ हमारी स्रत ऊपर ही लक्ष्मीको वास दीग्यै है कोऊ कुरूपकै विनसै । तथा मैं सुजन हूँ, सबका प्रिय हूँ मेरे लक्ष्मी कैसें विनसै ? दुष्ट होय सबका अप्रिय होय ताकै विनसै, तथा मैं महापराक्रमी हूँ, उद्यमी हूँ, मैं प्रतिदिन नवीन उपार्जन करूँ हूँ मेरी लक्ष्मी कैसें विनसै ? आलसी होय उद्यमरहित होय ताकै विनसै है ऐसा समझना मिथ्या भ्रम है या लक्ष्मी तो पूर्वले किये पुण्यकी दासी है पुण्यपरमाणु नष्ट होते ही विनसै है जैसें पचास हाथके महलमें दीपक बुझते ही अन्धकार होजाय कौन रोके, तथा जैसें जीव निकसते ही समस्त इन्द्रियां चेष्टारहित हो जाय तथा जैसें तेल पूर्ण होते ही दीपक नष्ट हो जाय तैसें पुण्य अस्त होते ही समस्त लक्ष्मी कांति बुद्धि प्रीति प्रतीति एक क्षणमें नष्ट होजाय है । प्रथम तो या लक्ष्मी न्यायके भोगनिमें लगाओ अर परिणामनिमें दयाभाव विचारि दुःखित बुभुक्षितनिकू दान करो या लक्ष्मी जैसें जलमें तरंग क्षणमात्रमें विलाय जाय तैसें कोई दौय दिन लक्ष्मीका संयोग है पाछें नियम सू' वियोग होयगा । जो पुरुष या लक्ष्मीकू निरन्तर संचय ही करै है न तो भोगै है अर न पात्रकू दान देवै सो अपने आत्माकू ठगै है अचानक मरि अन्तमु'हूर्तमें नारकी जाय उपजैगा मनुष्यजन्मकू निष्फल किया । जे पुरुष लक्ष्मीका संचय करके अतिदूर गाडै हैं विनसनेके भयतैं पृथ्वीमें बहुत ऊँडी गाडै हैं सो पुरुष तिस लक्ष्मीकू पाषाण समान करै हैं जैसें जमीनमें अनेक पाषाण हैं तैसें धन भी धरया रहेगा । आपके दान भोगके अर्थि नाहीं तदि दरिद्री तुल्य रखा । बहुरि जो पुरुष लक्ष्मीकू निरंतर संचय करै है अर दान नाहीं करै अर भोगे हू नाहीं तिस पुरुषके अपनी हू लक्ष्मी परकी समान है । जैसें पड़ोसीकी लक्ष्मी तथा नगरनिवासीनिकी लक्ष्मी देखनेमें आवै है अपने भोगनेमें आवै नाहीं, देनेमें आवै नाहीं । बहुरि जो पुरुष लक्ष्मीमें अति आसक्त भया प्रोतिरूप भया अपना आत्माकू खानेमें पीवनेमें औषधादिकनिमें वस्त्र पहरनेमें अपने रहनेकी जायगामें और हू भोगोपभोगनिमें नित्य ही क्लेश भोगै है पण धनके खरच होनेका बड़ा दुःख दीखै है तातैं कष्टतैं आप दिन व्यतीत करै है सो मूढ राजानिका वा अपने दाइयादार पुत्र स्त्री आतादिकनिका कार्य सधै है आप तो धनकी ममताकरि दुर्गतिमें जाय उपजैगा, अर धन राजा ले जायगा, अथवा पुत्र कुटुम्बादिक लेवेंगे आप तो पापी धन उपार्जन करके हू केवल इस लोकमें क्लेशका पात्र ही रखा जो मूढ बहुत प्रकार अपनी बुद्धि करके लक्ष्मीकू बधावै है अर बधाता बधाता वृत्त नाहीं होय है अर लक्ष्मी बधावनेकू अनेक आरम्भ करै है पाप होनेतैं नाहीं डरै है रात्रिमें अर दिनमें धनके उपजानेके विकल्प करते करते बहुत रात्रि व्यतीत भए निद्रा ले है अर दिनमें प्रातः-कालहीतैं द्रव्यके उपार्जनके विकल्प करै है अवसरमें भोजन हू नाहीं करै है अनेक लेनदेन वनिज व्यवहार बकवाद करते करते कठिन रुधाकी प्रेरणातैं भोजन करै है अर रात्रिचिपै कागद पत्र लेखा

हिसाब जवाब सवालकी बड़ी चिन्तामें मग्न भए तीन पहर रात्रि व्यतीत भए सोवै है सो मूढ केवल लक्ष्मीरूप तरुणीका दासपणा करिकै संकट भोगि दुर्गति गमन करै है। अर जो इस बद्धमान लक्ष्मीकूँ निरन्तर धर्मकार्य के अर्थि देहै सो पंडित प्रवीण पुरुषनिकरि स्तुति करने योग्य है अर तिसहीका लक्ष्मी पावना सफल है। ऐसैं जान करि जे धर्मसंयुक्त दारिद्रकरि पीडित ऐसे मनुष्यनिनै स्त्रीनिनै निरन्तर अपेचारहित ख्याति लाभ पूजाकूँ नाहीं चाहता तथा उनतैं कुछ अपना उपकार नाहीं चाहता आदर प्रीति हर्षसहित दान देवै है तिनका जीवना सफल है। जातैं धन यौवन जीवन तो प्रत्यक्ष जलमें बुदबुदाकी ज्यों अथिर देखिये है। अर दानका फल स्वर्गकी लक्ष्मीका, भोगभूमि लक्ष्मीका असंख्याउ कालपर्यंत भोग-सम्पदा देनवाला है, ऐसा जानि निरन्तर दान मेंही प्रवर्तन करो।

इहां ऐसा विशेष और हू जानना जो पूर्वजन्ममें सुपात्रदान दिया है सम्यक् तप किया ते पुरुष तो इस दुःषमकालमें भरत क्षेत्रमें नाहीं उपजै हैं जातैं इस दुःषमकालमें यहां सम्यग्दृष्टिका उपजना है ही नाहीं, जे सम्यग्दृष्टि देवगति नरकगतितैं आवै ते विदेहक्षेत्रमें ही पुण्यवान मनुष्य होय हैं अर मनुष्य तिर्यच गतिका सम्यग्दृष्टि आय नाहीं उपजै है यहां कोऊ पुण्याधिकारीकैं काल-लब्ध्यादि सामग्रीतैं नवीन सम्यक्त्व उपजै है अर पूर्वजन्ममें जिनधर्म पालकरि पुण्य उपजाया सो हू यहां नाहीं उपजै है याहीतैं जिनधर्ममें राजा उपजते रह गये। अर और हू बहुत धनाढ्य पुरुष हू जैनीनिके कुलमें नाहीं उपजै हैं। अर जो जैनीनिके कुलमें धनाढ्य उपजै तो ते जिनधर्मरहित होय हैं कोऊ पुण्याधिकारीने अठैं सत्संगति मिल जाय वा जिनसिद्धांतका श्रवण मिलै तदि नवीन राजतैं जिनधर्ममें सावधान हो जाय है। बहुरि इस कालमें जैनी भी धनाढ्य होय अर धर्मकूँ समझै त्याग आखडीमें सावधान होय तो हू दानमें धन नाहीं खरच्या जाय है, लाखां धन छांडि मर जाय परन्तु आधा चोथाई धन हू दान धर्म में नाहीं लेजाया जाय है। इस कलिकालके धनाढ्य पुरुषनिकी कैसी रीति वा परिणाम होय है सो कहिये है—परिणाम करि क्रोध बघै है अपने पुरुषार्थका बड़ा अभिमान बघै है वात्सन्यता मूलतैं जाती रहे है अन्यका किया कायकूँ सराहै नाहीं, समस्तकी सरुल बुद्धि घाटि दीखै, दया रहै नाहीं, अन्य पुरुषका वचनादि करि अपमान तिरस्कार करता शकै नाहीं, अन्य पुरुष धर्मनीति लिए वचन कहै तिनकूँ क्युक्तितैं खण्डन किया चाहै, धर्मात्मा पुरुष विनयसहित भी भाषण करै तो मनमें बड़ी शंका उपजै जो मोतैं कदाचित् कुछ याचना करैगा निर्वाछक साधमीनिका भी भय ही रहै जो मोकूँ कदाचित् धन खरचनेका उपदेश देगा, अभिमान दिन दिन प्रति बघै स्वभाव ऊपरि तेजी बघै, जो अपना कार्य होय ताकूँ बहुत शीघ्रताहूँ चाहै सेवकादिकका कष्ट दुःखकूँ नाहीं देखै अपना प्रयोजन साध्या चाहै परका प्रयोजन तथा दुःख क्लेशकूँ तुच्छ जानै सम्पदा बघै तांकी लार खरच बघै खरचकी लारि दुःख बघै, दिन खरच घटावेका ही परिणाम रहै अपने भोगोपभोगकी वस्तु लेनेमें ऐसा परिणाम रहै जो



अर्ध-दामनिमें आजाय कुछ घाटि लेजाय मोकूँ बड़ा आदमी समझि बहुत मोलकी वस्तु थोड़े दामनिमें दे जाय, कोऊ निर्धन तथा लूटका माल अति अल्प मोलमें आजाय ताका बड़ा हर्ष मानै, संचय करते करते तृप्ति नाही होय कोऊ आपकूँ ठगाई जाय तासूँ प्रीति करै धनवान दिखै ताकूँ आप ठगावै, धनवान पापी भी होय तासूँ प्रीति करै, धनवान अधर्मी भी होय ताकी बुद्धिकूँ बड़ी मानै, धनवानानै अपनी उदारता दिखावै निर्धनके निकट अपना अनेक दुःख रोवै, दुःखी देख तिसको अपना बहुत दुःख सुनावै, अन्यकी वा निर्धनकी आत्ररु ओछी जानै, धनरहितकूँ अपना वस्तु धीजतां बड़ी अप्रतीति करै, धनरहितकूँ चोर दगावाज समझै, आप पैला सर्वस्व खा जाय तो हूँ आपकूँ सांचा जानै अपनी बडाई करै, अपने कर्तव्यकी प्रशंसा करै, अन्य के उत्तम कार्यनिमें हूँ खोट प्रगट करै, आपकूँ निःस्पृह निर्वाँछक समझै, जगतके अन्य जीवनिके तृष्णा समझै आपकूँ अजर अमर समझै, परकूँ अनित्यपना समझै, अन्य जीवनि कूँ अति लोभी समझै आपकूँ न्यायमार्गी समझै आपकूँ प्रभु समझै धन रहितनिकूँ रंक समझै, आरम्भ परिग्रह बधावता धापै नाही तृष्णा अति बधै, मरणपर्यंत संतोष नाही धारे, अपयशका कार्य करे अर आपकूँ यशस्वी समझै कपटी छलीकूँ धन ठिगा देवै बहुत धूर्त कपटी छलीकूँ अपना कार्य साधने वाला पुरुषार्थी प्रवीण समझै, सत्यवादी मर्यादासहित प्रवृत्तिका धारी निरपेक्ष होय तिनकूँ बुद्धिहीन समझै जहां अपना अभिमान बधै कषाय पुष्ट-होय आपका नाम होता जानै तहां जायगामें, मन्दिरमें, बाग-वगीचनिमें, विवाहमें, यात्रामें, भाडानिमें, बहुत धन खर्च करै । मन्दिरादिकनिमें भी अपनी उच्चता होनेकूँ पंचनिमें अभिमान जहां बधै तहां धन खर्च करै, जीर्णमन्दिरादिकनिमें नाही देवे, निर्धन भूखेनिके पालनमें पीस्यो ( पैसा ) एक नाही देवै, दुर्बल दीन अनाथ वृद्ध रोगी विधवा इनका पालनिमें धन कदाचित् नाही खर्च करै, निर्धन दुःखितकूँ नष्ट हुआ समझै आपहूँ अच्छा भोजन न करै जो कुटुम्बादिकका विभाग करना पड़ेगा । ऐसा अभिमान धारै है जे घणे ही धर्मात्मा तपस्वी परिण्डत हमारे घर आवै हैं अर अनेक आवैगे समस्त देशी विदेशी गुणवान जैनीनिकूँ बड़ा ठिकाना हमारा घर ही है अर हम भी दातार हैं और कहां ठिकाना है अर केतेक अपने घरके कार्य सुधारने वाले वा धर्म कार्यमें नियुक्त हैं तिनकी भी धन का मदकरि बड़ी अवज्ञा करै है इनकी हम पालना करै हैं हमारेतैं छटे इनकूँ कहां ठिकाना है । ऐसे पंचमकालके धनवाननिके ऊपरि मोहकी बड़ी अन्धरी पड़ रही है, पूर्व जन्ममें जिनधर्मरहित कृतपस्या करी है, कुपात्रकूँ दान दिया है इस बीजतैं धन संपदा पाई है सो धनसंपदा छाँडि धन की मूर्च्छातैं मरि, कपायनिकी मंदता तीव्रताके प्रभाव-माफिक सर्पादिक तियैचनिमें वृक्षादिकनिमें मधुमाक्षिकादिकनिमें उपलि नरकादिकनिमें बहुत काल परिभ्रमण करैगे । या धनकी मूर्च्छा इस लोकमें हूँ वैरकी तथा अपयशको कारण है कृपणका सकल जन अपवाद करै हैं कृपणका परिणाम निरन्तर क्लेशित रहै है दुर्घ्यानी रहै । अर दानके मार्गमें लगाया धन अपना धन जानहूँ पात्र-

दानमें गया धन मरणके समयमें परिणामनिकी उज्ज्वलता कराय अन्तर्मुहूर्त में स्वर्गकी संपदाकूँ प्राप्त करै है । यहां उत्तम पात्र तो निर्ग्रथ वीतरागी समस्त मूलगुण उत्तरगुणके धारक दशलक्षण धर्मके धारक वाईस परीषहके सहने वाले साधु हैं ।

दर्शनादिक उद्दिष्टआहारका त्यागी पर्यंत ग्यारह स्थान श्रावकके हैं ते मध्यम पात्र हैं । बहुरि जिनके व्रत तो नहीं अर जिनेन्द्रके प्ररूपे तत्वके श्रद्धानी जन्म-मरणादिरूप संसार परि-भ्रमणतैं भयवान चार प्रकारके संघके हित होनेमें बांछा सहित संसार देह भोगनिमें विरक्तबुद्धि जिनशासनका उद्योतक अपनी निदा गर्हा करता स्वरूप तत्वका विचारमें चतुर, जिनकथित तत्वमें धर्ममें दृढ़ताका धारक, धर्म अर धर्मके फलमें अनुराग सहित, सकल जीविनिकी दयाकरि व्याप्तचित्त मन्दकषायी परमेष्ठीका भक्त इत्यादिक समस्त सम्यक्त्वके गुणनिका धारक सो जघन्य पात्र है । ऐसे तीन प्रकारके पात्रनिमें यथायोग्य आहार औषधि शास्त्र वस्तिकादिक स्थान, वस्त्र, जीविका, जीवनेकी स्थिरताके कारण विनय सहित दिये हुए भावनिके अनुकूल उत्तम मध्यम जघन्य भोग-भूमिमें दातारकूँ उत्पन्न करै हैं अर सम्यग्दृष्टिकूँ सौधर्मादिक स्वर्गमें महर्द्विक देवनिमें उत्पन्न करै हैं । अब कुपात्रके ऐसे लक्षण जानना जिनके मिथ्याधर्मकी दृढ़ वासना हृदयमें तिष्ठै है, अर घोर तपके धारक अर समस्त जीविनिकी दया करनेमें उद्यमी, असत्यवचन कठोरवचनधूँ पराङ्मुख समस्त प्रियवचन कहै धनमें स्त्रीमें कुटुम्बमें निःस्पृह रहै, मिथ्याधर्मका निरन्तर सेवन करनेवाला जप तप शील संयम नियममें जिनके दृढ़ता सहित प्रीति हो मन्द-कषायी परिग्रह-रहित कषायविषयनिका त्यागी एकान्त वाग वनादिकमें बसनेवाले आरम्भरहित परीषह सहनेवाले संक्लेश-रहित सतोषसहित रस-नीरसके भक्षणमें समभावके धारक क्षमाके धाक्क आत्मज्ञानरहित बाह्यक्रिया-कण्डतैं मोक्ष मानने वाले ऐसे कुपात्र हैं । तथा केई जिनधर्मके पक्ष ग्रहण करने वाले हूँ एकान्ती हठग्राही अपनी बुद्धि हीतैं अपने आपकूँ 'धर्मात्मा मान रहै हैं सो केई तो जिनेन्द्र का पूजन आराधना गान भजनहीमूँ आपकूँ कृतकृत्य मानि बाह्य पूजन स्तवनादिकमें तत्पर हैं अन्य ज्ञाना-भ्यास व्रतादिकमें शिथिल रहै हैं । केतेक जलादिकतैं धोवना सोधना अन्नादिककूँ धोवना, स्नान कर जीमना, अपना हस्ततैं बनाया भोजन करना वस्त्रादिकनिका धोवना धोया हुआ स्थानमें जीमना इत्यादिक क्रिया करके ही आपके धर्म मानै हैं, केई देखि सोधि चालना सोवना बैठना जलकूँ बड़ा यत्नाचारतैं छानना याही तैं आपकूँ कृतकृत्य मानै हैं अन्यकूँ क्रियारहितकूँ निध जानै हैं केई उपवासिक व्रत रसपरित्यागादिकरि आपकूँ ऊंचा मानै हैं । केई दुःखित बुभुक्षितका दान हीकूँ धर्म जानै हैं । केई भद्रपरिणामी समस्त धर्महीकूँ समान जानता विचाररहितताहींमें लीन हैं । केई परमेश्वरका नाम मात्रहीकूँ धर्म जानि विकथा निन्दादिरहित तिष्ठै हैं । केतेक अन्य जीविनिका उपकार करि समस्त विनय करनेकूँ धर्म मानै हैं केतेक अपनी इन्द्रियनिकूँ दण्ड देते रूखा सूखा एक वार भोजन कर मौनावलम्बी भये अपने आयुकूँ जेठै तेठै तिष्ठते

व्यतीत करै हैं। केतेक नाना भेषके धारक मन्दकपायी परिग्रहरहित विषयरहित तिष्ठै हैं। केतेक कोऊ एक बार हस्तमें भोजन धर दे सो भक्षण कर याचनारहित विचरै हैं इत्यादिक अनेक एकांती परमागमका शरणरहित आत्मज्ञानरहित मिथ्यादृष्टी कुपात्र हैं इनको दान देना अनेक प्रकार फलै है जैसा पात्र जैसा दातार, जैसा भाव, जैसा द्रव्य, जैसी विधिद्वारा दिया तैसा फलै है केई तो असंख्यात द्वीपनिमें दानके प्रभावतैं पंचेन्द्रिय तिर्यचनिके युगलनिमें उपजै हैं जहां च्यार च्यार, अंगुल प्रमाण महामिष्ट सुगंध तृण भक्षण है महान् अमृत समान जल पीवै ह परस्पर वैर-विरोधरहित तिष्ठै हैं जहां शीतकी बाधा नाहीं उष्णता की तावडा पवन वर्षादिककी बाधारहित अनेकप्रकार स्थलचर नभचर तिर्यच होय यथेच्छ विहार करते सुखतैं भोग भोगते जुगल ही लार उपजै लार ही मरकरि व्यन्तर भवनवासी ज्योतिषी देवनिमें उपजै हैं तथा केई कुपात्रदानके प्रभावतैं उत्तरकुरु देवकुरु भोगभूमिमें तिर्यच उपजै तीन पल्पपर्यंत सुख भोग देवनिमें उपजै हैं केई कुपात्रदानके प्रभावतैं हरिद्वेत्र रम्यकक्षेत्रनिमें दोय पल्पकी आयुके धारक, केई हिमवतक्षेत्रमें हरैण्यवतक्षेत्रनिमें एक पल्पकी आयुकू धारण करि तिर्यच युगलनिमें उपजि, मरि देवलोक जाय हैं। केई कुपात्रदानके प्रभावतैं अन्तरद्वीप छिनवै हैं तिनमें मनुष्य-युगल उपजै हैं। इहां अन्तर द्वीपनिमें मनुष्य उपजै हैं तिनका स्वरूप ऐसा है—समुद्रकी पूर्व दिशामें चार द्वीप हैं तिनमें पूर्वदिशाके द्वीपमें मनुष्य एक पगवाले उपजै हैं, दक्षिण दिशामें पूंछ वाले मनुष्य हैं पच्छिम दिशामें सींगवाले मनुष्य हैं उत्तर दिशामें वचनरहित गूंगे मनुष्य उपजै हैं समुद्रकी चार विदिशाके चार द्वीपनिमें अनुक्रमतैं सांकलकेसे कर्णवाले तथा शङ्कुलीकर्ण मनुष्य उपजै हैं एक कर्णकू ओढले एककू विद्यायले ऐसे लम्बकर्ण उपजै हैं। बहुरि लम्बे कानवाले लम्बकर्ण मनुष्य अर सुआकेसे कर्ण वाले मनुष्य ए समुद्रकी विदिशामें उपजै हैं। बहुरे सिंहकासा मुख (१) घोड़ाका सा मुख (२) कूकराकासा मुख (३) सूकरकासा मुख (४) भैंसाका सा मुख (५) व्याघ्रकासा मुख (६) बूधूकासा मुख (७) वानरका सा मुख (८) मच्छकासा मुख (९) कालमुख (१०) मीढाकासा मुख (११) गौकासा मुख (१२) मेघकासा मुख (१३) विजलीकासा मुख (१४) दर्पणका सा मुख (१५) हस्तीकासा मुख (१६) यह सोलह दिशा विदिशानिके अन्तरालमें तथा पर्वतनिके अन्तकी सधिमें द्वीप हैं तिनमें मनुष्य से ऐमुखवाले उपजै हैं। ऐसे ऐसे लवण समुद्रके एक तटमें चौबीस अन्तरद्वीप हैं। दोऊ तटके अड़तालीस अर अड़तालीस ही कालोदधि समुद्रके ऐसे छियानत्रे अन्तरद्वीपनिमें कुभोगभूमि है तिनमें कुपात्रदानतैं मनुष्य युगल उपजै हैं तिनमें एक टांग वाले हैं ते गुफानिमें बसै हैं अर अन्यन्त मीठी मृत्तिका भक्षण करै हैं इन्तैं अन्य जे इसप्रकारके मनुष्य हैं ते वृत्तनिके नीचे बसै हैं अर कल्पवृत्तनिके दिचे नानाप्रकारके फल भक्षण करै हैं।

अब कुभोगभूमिके मनुष्यनिमें उपजनेके कारण परिणामनिकू तीन गथानिमें त्रिलोक-

सारजीमें कथा सो कहै है—

जिणलिंगे मायावी जोइसमंतोवजीविधणकंखा  
 अइगउरं सणणजुदा करैति जे परविवाहंपि ॥६२२॥  
 दंसणविराहिया जे दोसं णालोचयंति सणगा ।  
 पंचगितवा भिच्छा मोणं परिहरिय भुजंति ॥६२३॥  
 दुब्भावअसुइसूदगपुफवईजाइसंकरादिहिं ।  
 कयदाणावि कुपत्ते जीवा कुणरेसु जायन्ते ॥६२४॥

अर्थ—जो जिनेन्द्रका निर्ग्रथ लिंग धारण करके अनेक परीषह सहते हू मायाचारके परिणाम धरै हैं तथा केतेरु जिनलिंग धारण करि हू ज्योतिषविद्या मन्त्रविद्या लोकनिमें भोजनादिकरि जीवै हैं लोकनिहू ज्योतिष वैद्यरु मन्त्रशास्त्रादि करि आपमें भक्त करै हैं तथा जिनेन्द्र का लिंग अर तपश्चरण करि धनकी वांछा करै हैं तथा जिनलिंग धारण करि ऋद्धिका गर्वकरि युक्त है हम जगतमें पूज्य हैं तथा अपना यश जगतमें विरुपातै हैं ताका गर्वकरि युक्त है तथा अपने साताका उदयजनित सुखकरि गर्वकू धारै हैं तथा जिनलिंग धारण करि आहारकी वांछा धारै हैं तथा अशुभका उदयको भय धारै हैं तथा मैथुनकी वांछा करै हैं परिग्रह शिष्यादिकी वांछा करै हैं तथा जिनलिंग धारि परके विवाहमें प्रवृत्ति करै हैं ते कुतपके प्रभावतै कुमानुपिनिमें उपजै हैं । बहुरि जे जिनलिंग धारण करि सम्यग्दर्शनकी विराधना करै हैं, जे जिनलिंग धारण करके हू अपने दोषनिकी आलोचना गुरुनिहू नार्हीं करै हैं तथा जिनलिंग धारण करके हू अन्य के दोष कहै हैं, बहुरि जे मिथ्यादृष्टि पंचाग्नि तपहार कायक्लेश करै हैं, जे मौन छांडि भोजन करै हैं तथा जे दुष्ट भावनिकरि दान देवै हैं तथा जे अशुचिपणाकरि दान देवै हैं तथा सूतकादि सहित होय दान देवै हैं तथा रजस्वला स्त्रीका संसर्ग करि दान देवै हैं तथा जातिसंकारादिकनि-करि दान देवै हैं तथा कुपात्रनिमें दान करै हैं ते कुमानुपनिमें उपजै हैं ते कुमानुपहू समस्त क्लेश-रहित एक पल्पपर्यंत स्त्री पुरुषका युगल साधि ही उपजै अर मरै हैं । दानके तपके प्रभावतै सदा काल सुखमें मग्न काल पूण करि मन्द कषायके प्रभावतै भवनत्रिकनिमें जाय उपजै हैं । बहुरि केई कुपात्रनिहू दान देय बहुत भोगनि सहित म्लेच्छ उपजै हैं, केई कुपात्रदानके प्रभावतै नीचकुलनि में बहुत धनके धनी मांसभक्षी मद्यपायी वेश्यामें आसक्त निरोग शरीर होय हैं, केई कुपात्रदान के प्रभावतै राजानिके दासी दास हस्ती घोड़ा श्वान वानर इत्यादिकनिमें सुन्दर भोजन वस्त्र आभरणादिक प्रचुर भोग उपभोग समग्री भोगि मरणकरि दुर्गति चले जाय है, जातै कुपात्र ह

अनेकजातिके अर दातारके भाव हू अनेक जातिके हैं अर दानकी सामग्री हू अनेक जातिकी हैं तातैं दानका फल हू अनेक जातिका है ।

बहुरि दयादान ऐसा जानना जो बुभुक्षित होय, दरिद्री होय अन्धा होय, लूला होय, पांगला होय रोगी होय, अशक्त होय वृद्ध होय बालक होय, विधवा होय, वावरा होय, अनाथ होय, विदेशी होय अपने यूथतैं सङ्गतैं विछुडि आया होय तथा बन्दीगृहमें रुक्या होय, बन्धा होय, दुष्टनिका आतापतैं भागि आया होय लुट आया होय जाका कुटुम्ब मर गया होय, भयवान होय ऐसा पुरुष होहू वा स्त्री होहू तथा बालक होहू वा कन्या तथा तिर्यंच होहू इनकी चुघा तृषा शीत उष्ण रोग तथा वियोगादिक करि दुःखित जानि करुणाभावतैं भोजनवस्त्रादिक दान देना सो करुणादानमें हू उनका जाति कुल आचरणादिक जानि यथायोग्य दान करना । जो अभक्ष्यादि भक्षण करने वाले हैं उनकूँ तो भोजन अन्न औषधि मात्र ही देना अर निद्र आचरण वाले नाहीं इनका दुःख दूर करनेयोग्य हू हैं इनकूँ भोजन वस्त्र औषधि स्थान उपदेश हू देना तथा जे स्थान देने योग्य नाहीं इनको दुःखी देखि रोटी अन्नमात्र देय चलावना वैयावृत्य करने योग्य तिनका वैयावृत्य करना ज्ञानदान हू देना जातैं करुणादान पात्र कुपात्र अपात्रका विचाररहित केवल दयामात्र ही करि देना है तो हू देशकाल परिणाम जाति कुलादि विचार सहित यत्नसहित दान करो । मांसभक्षी मद्यपायीकूँ रुपया पैसा नाहीं देना, बहुत दुःखीमें करुणा उपजै तो अन्नमात्र देना याका फल यशकीर्तनादि की वांछा नाहीं करना । बहुरि दानके देने योग्य नाहीं ते अपात्र हैं । अब अपात्रनिके लक्षण कहै हैं जे दयारहित होंय, हिंसाके आरम्भमें आसक्त होंय, महालोभी परिग्रह वधायी ही चाहैं, धनका धनी होय करकैं हू याचना करिवो करैं, यज्ञादिकके करनेवाले वेदोक्त हिंसाधर्ममें रक्त रहैं चंडी भवानीके सेवक होंय, बकरा भैंसानिका घात करावने वाले तथा कुदानके लेने वाले मद्य पीवने में भंगपान करनेमें देश्यासेवनेमें लीन जिनधर्मके द्रोही शिकारादि करनेमें धर्म कहनेवाले, परधन परकी स्त्रीके रागी अपनी प्रशंसा करनेवाले, व्रती नाम कहाय व्रतभंगकरि पंच पापनिमें आसक्तता युक्त, बहुत आरम्भी बहुपरिग्रही तीव्रकपायी असत्यमें लीन खोटे शास्त्रके उपदेश देनेवाले तथा जिन शास्त्रमें खोटे मिलाय मिथ्या प्ररूपण करनेवाले व्यसनी पाखण्डी अभक्ष्य-भक्षक अर व्रतशीलसंयम तपतैं पराङ्मुख विषयनिके लोलुपी जिह्वा-इन्द्रियके वशीभूत भये मिष्ट भोजनके लंपटी ये सब अपात्र हैं जातैं इनमें पात्रपना तो रत्नत्रय धर्मके अभावतैं नाहीं अर कुधर्म जे मिथ्याधर्म सेवने वाले भी परके उपकारी दयावानपना, जमा सन्तोष सत्यशील त्यागादिक पूजा जाप्य नाम स्मरणादि मिथ्याधर्म भी जिनमें पाइये नाहीं तातैं कुपात्र हू नाहीं अर गरीब दीन दरिद्र दुःखित हू नाहीं तातैं दयादानके पात्र हू नाहीं । केवल लोभी मदोन्मत्त विषयांका लम्पटी हैं धर्मके इच्छुक हू नाहीं । तथा वेई जैनी नाम करके हू जिन धर्मका भेष हू केवल जिह्वा इन्द्रियका विषयरूप नाना प्रकारके भोजन जीमनेकूँ धरचा है तथा

घन पैदा करनेकूँ भेष धरया है, अभिमानी होय अपनी पूजा उच्चता धनका लाभके इच्छुक होय तप व्रत पठन वाचनादि अङ्गीकार करै हैं ते अपात्र हैं, दानके योग्य नहीं। इनको दान देना कैसाक है पाषाणमें बीज बोवने समान है तथा कटुक तूँबीमें दुग्ध धारण तुल्य है तथा गहन वनमें चोरके हस्तमें अपना धन सौंपने तुल्य है तथा अपने जीवनिके अर्थि विषभक्षण समान है तथा रोग दूरि करनेकूँ अपथ्यभोज समान है तथा सर्पकूँ दुग्धपान करावने समान दुःखकी उत्पत्तिका बीज है तातैं अन्धकूपमें अपना धनकूँ पटकि देना परन्तु अपात्रकूँ दान मत करो अपात्रका संगम दावाग्निवत् दूरहीतैं त्याग करो। जैसे विषवृक्ष का वासना ही मूर्च्छित करदे है तैसेँ अपात्रकी वासना हू आत्मज्ञानतैं भ्रष्ट करै है ऐसा दानका वर्णनमें पात्र कुपात्रका वर्णन किया है।

अब चार प्रकार सुपात्रदान देय जे प्रसिद्ध हुआ तिनके आगमपाठतैं नाम कहनेकूँ सूत्र कहै है—

श्रीपेणवृषभसेने कौण्डेशः शूकरश्च दृष्टांताः ।

वैयावृत्यस्यैते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्याः ॥११८॥

अर्थ—चार प्रकारके वैयावृत्यका चार दृष्टांत जानने योग्य हैं आहारदानका फलतैं श्रीपेण राजा प्रसिद्ध हुआ और औषधिदानका फलतैं वृषभसेना श्रेष्ठीकी पुत्री प्रसिद्ध भई, अर शास्त्रदानके फलतैं कौण्डेश नामा ग्राह शास्त्रदान देय अन्यभवमें केवली भयो अर वस्तिकाके दानतैं सूअर मरि स्वर्गलोकमें महर्द्धि देव हुवो, दानका अर्चित्य प्रभाव है इस लोकमें हू दानी समस्तमें उच्च होय जाय है। अब यहां ऐसा और हू जानना जो दान देय दानका फल विषयभोग मेरे होयगा ऐसेँ विषयनिकी वांछा कदाचित् मत करो। जे दानका फलतैं इन्द्रियनिके भोग चाहै हैं ते चिंतामणि देय काचखंडकूँ ग्रहण करै है तथा अमृत छांडि विष पीवै हैं तथा सूत्रके अर्थि मखिमय हारकूँ तोड़ै हैं तथा ईंधनके अर्थि कल्पवृक्षकूँ छेदै हैं तथा लोहेके अर्थि नावकूँ तोड़ै हैं तथा अपने कंठमें अतिभार पाषाण बांधि अगाध जलमें प्रवेश करै हैं। कैसेक हैं इन्द्रियनिके विषय अग्निकी ज्यों दाह उपजावै हैं कालकूट जहरकी ज्युं अचेत करै हैं मारै हैं, पंचपापनिमें प्रवर्तवनेवाले हैं, तृष्णा उपजावनेवाले हैं नरकमें प्राप्त करनेवाले हैं, महावैरके कारण हैं ज्वररोग की ज्यों सन्ताप मूर्च्छा प्रलाप दुःख भय शोक भ्रम उपजावनेवाले हैं विषयनिका चिन्तवन ही जीवकूँ अचेत करै है सेवन किये तो अनेक भवनिमें मारै ही यातैं निर्वाच्छक होय दानधर्ममें प्रवर्तन करो। आपकूँ लाभोतरायका क्षयोपशमतै जो प्राप्त भया तामें संतोष करि आगामी वांछा मत करो। पावभर धान हू मिलै तामें भी दानका विभाग करो दान निमित्त धनकी वांछा मत करो

वाञ्छाका अभाव मो ही परम दान है, सो ही परम तप है ऐसैं वैयावृत्यकूं ही अतिथि-संविभाग व्रत कहिये । ऐसैं दानका वर्णन तो किया ।

अब वैयावृत्यहीमें जिनेन्द्र पूजनका उपदेश करनेकूं सूत्र कहै हैं -

देवाधिदेवचरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणम् ।

कामदुहि कामदाहिनि परिचिनुयादादतो नित्यम् ॥११६॥

अर्थ—देव जे इन्द्रादिक तिनका अधिदेव कहिये स्वामी जो अरहन्तदेव ताका चरणनिके समीप जो परिचरण कहिये पूजन सो आदरतैं नित्य ही करै । कैसाक है पूजन समस्त दुःखनिका नाश करनेवाला है वाञ्छितकूं परिपूर्ण करनेवाला है अर कामकूं दग्ध करनेवाला है ।

भार्य—गृहस्थके नित्य ही जिनेन्द्रका पूजन समान सर्वोत्तम कार्य अन्य नहीं है तातैं प्रथम ही नित्य जिनेन्द्रका पूजन करना । इहां ऐसा सम्बन्ध जानना जो किंचिन्मात्र अशुभकर्मका क्षयोपशमतैं मनुष्य तिर्यचनिका ज्यों सप्तधातुमय देह जिनके नहीं तथा आहारादिके अर्धान क्षुधा तृषादिक वेदनाका भेटना नहीं स्वयमेव कण्ठमेंतैं अमृत भरै है तिसकरि क्षुधा तृषा वेदना करि जिनके बाधा नहीं अर जरा आवै नहीं रोग आवै नहीं इत्यादिक कर्मकृत किंचित् बाधाके अभावतैं चरितमें देवनिको उत्तम कहै हैं अर जिनमें ज्ञानावरण वीर्यातरायादिक कर्मका अधिक क्षयोपशम होनेतैं अन्य देवनिमें नहीं पाइये ऐसी ज्ञान वीर्यादिक शक्तिकी अधिकतातैं देवनिके स्वामी इन्द्र भये, जे इन्द्र समस्त असंख्यात देवनिकरि बंध हैं । अर जो समस्त ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय अन्तराय आत्माकी शक्तिके घातक समस्त कर्मका नाश करि जिनेन्द्र भए ते समस्त इन्द्रादिककरि वन्दनीक भए । ते देवाधिदेव हैं देवाधिदेवका चरणनिका पूजन है सो समस्त दुःखका नाश करने वाला है अर इन्द्रियनिके विषयनिकी कामनाका नाश कर मोक्ष होनेरूप सुखकी कामनाकूं पूर्ण करनेवाला है तातैं अन्य आराधना छांडि जिनेन्द्रका आराधन करो । बहुत काल संसारी रागी द्वेषी मोही जीवनिकी आराधन सेवन करि घोर कर्मका बंधकरि संसारमें परिभ्रमण किया । वीतराग सर्वज्ञकूं आराधन करता तो कर्मके बंधका नाश करि स्वार्थीन मोक्षरूप आत्माकूं प्राप्त होता तातैं संसारके समस्त दुःखका नाश करने वाला जिनेन्द्रका पूजन ही करो । इहां कोऊ आशङ्का करै भगवान अरहन्त तो आयु पूर्णकरि लोकके अग्रभागमें मोक्षस्थानमें हैं धातु पाषाणके स्थानरूप प्रतिविम्बनिमें आवैं नहीं तथा अपना पूजन स्तवन चाहैं नहीं, अपना अनंतज्ञान अनंतसुखमें लीन तिष्ठै हैं, अपना पूजन स्तवन तो अभिमान कषाय करि संतापित अपनी बड़ाईका इच्छुक अपना अपना स्तवन करि संतुष्ट होय ऐसा संसारी रागद्वेष सहित होय मो चाहै भगवान परमेष्ठी वीतराग अनंतचतुष्टयरूपमें लीन तिनके पूजाकी चाह नहीं, धातु पाषाणका प्रतिविम्बमें आवै नहीं, किसीका उपकार करै नहीं,

किसीका अपकार ह करै नाहीं, पूजन स्तवनादि करै ताखुं प्रीति करै नाहीं, निरा करै तामें द्वेष करै नाहीं, किम प्रयोजनके अर्थि पूजन स्तवन करिये है ? ताहुं उत्तर कहै हैं ।

जो भगवान वीतराग तो पूजन स्तवन चाहै नाहीं, परन्तु गृहस्थका परिणाम शुद्ध आत्म-स्वरूपकी भगवानमें ठहरै नाहीं, साम्बभावरूप रहै नाहीं निरालंबित ठहरै नाहीं, तदि परमात्म-भावनाका अलंबनके निमित्त विषय कषाय आरम्भका अवलंबन छांडि साक्षात् परमात्मस्वरूपका धातु पाषाणमें प्रतिध्वनिमें संकल्पकरि परमात्माका ध्यान स्तवन पूजन करै है तिस अवसरमें विषय-कषायादिक संकल्पके अभावतै दुर्ध्यानके छूटनेतै अपने परिणामकी विशुद्धताका प्रभावतै अशुभकर्मनिका रस सूक जाय अशुभकर्मनिकी स्थिति घटि जाय, अनुभाग घटि जाय सो ही पापकर्मका अभाव है अर परिणामनिकी विशुद्धताका प्रभाव करि शुभ प्रकृतिनिमें रस बधि जाय है तिन शुभ आयु विना समस्त कर्मनिकी प्रकृतिकी स्थिति घटि जाय है याहीतै वीतरागका स्तवन पूजन ध्यानके प्रभावतै पापकर्मका नाश होय है सातिशय पुण्यकर्मका उपार्जन होय है और हानेश्चय करे पुण्यपापका बन्धका कारण तो अपना भाव ही है बाह्य जैसा अवलंबन मिलै तैसा अपना भाव होय है यद्यपि भगवान अरहन्त धातुपाषाणके प्रतिध्वनिमें आवै नाहीं अर भगवान वीतराग किसीका उपकार अपकार करै नाहीं तथापि वीतरागका ध्यान पूजन नाम अपने शुभ परिणाम करनेकूं रागद्वेषके नाश करनेकूं बाह्य कारण है तातै परम उपकार जीवका होय है जैसे काष्ठपाषाण चित्रामके स्त्रीनिके रूप रागकूं कारण है तथा अचेतन सुवर्ण मणि माणिक्य रूपा महल वन वाग ग्राम पाषाण कर्दम स्मशानादिका देखना श्रवण करना रागद्वेष उपजावै है तथा शुभ अशुभ वचन राग रुदन सुगंध दुर्गंध ये समस्त अचेतन पुद्गल द्रव्य हैं इनका श्रवण अग्लोकन चिंतवन अनुभव करि रागद्वेष होय है तैसें जिनेन्द्रकी परम शांतमुद्रा ज्ञानीनिके वीतरागता होनेकूं सहकारी कारण है प्रेरक नाहीं अर भव्य जीवनिके वीतरागतातै अन्य कुछ चाहना नाहीं है अर जिनेन्द्रनिके चरणनिके पूजनेमें जो जल चन्दनादि अष्ट द्रव्य चढ़ाइये है सो कुछ भगवान भक्षण करै वा पूजन विना अपूज्य रहैगे वा वासना लेवै हैं ऐसा अभिप्रायतै चढ़ावना नाहीं है भगवानके दर्शनका अति आनन्दतै जलचंदनादिकरूप अर्थ उतारण करना है । जैसे राजानिकी भेंट करना, नजर करना, उतारना निछरावलि करनी अक्षतपुष्पादिक चोपना, मोतीनिके थाल वार ( फेर ) के उतारन करै हैं तथा सुवर्णकी महोर रूपयांका थाल उतार करि लुटावै हैं रत्ननिके थाल भर निछरावलि करि चोपै हैं पुष्प अक्षतादिक उतारन करै हैं ते राजानिकी भक्ति अर आनन्द प्रकट करना है, राजानिकूं दान नाहीं राजानिके अर्थि नाहीं है, निछरावलि राजानिके निकट करी हुई अर्थी जन याचक जन ग्रहण करै हैं । तैसें भगवान अरहंतनिके अग्रभागविषै अष्टद्रव्यनिका अघ चढ़ावना जानना ।

अब पूजनके योग्य नव देवता हैं । उक्तं च गोमट्टसारे गाथा—



अरहंतसिद्धसाहूतिदयं जिणधम्मवयणपडिमाहू ।

जिणणिलया इदिराए एवदेवा दिंतु मे बोहि ॥१॥

अर्थ—अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिनधर्म, जिनवचन, जिनप्रतिमा, जिनमंदिर इस प्रकार ये नव देव हैं ते मोकू रत्नत्रयकी पूर्णता देवो । सो जहां अरहंतनिका प्रतिविंब है तहां नव रूप गर्भित जानना जातैं आचार्य उपाध्याय साधु ती अरहंतकी पूर्व अवस्था है अर सिद्ध है सो पूर्व अरहंत होय करके ही सिद्ध भया है अरहंतनिकी वाणी सो जिनवचन है अर वाणीकरि प्रकाश किया अर्थ सो जिनधर्म है अर अरहंतका स्वरूप जहां तिष्ठै सो जिनालय है ऐसे नवदेवतारूप भगवान अरहंतके प्रतिविंबका पूजन नित्य ही करना योग्य है । अरिहंतके प्रतिविंब अधोलोकमें भवनवासीनिके चमर वैरोचनादिक इन्द्र अर अर ख्यात भवनवासी देवनिकरि पूजिये है अर मध्यलोकमें चक्रवर्ती नारायण बलभद्रादिक अनेक धर्मात्मानि कर पूजिये है अर व्यंतरलोक में व्यंतरेंद्रादिक देवनि करि पूजिये है अर ज्योतिर्लोकमें चंद्र-सूर्यादिक असंख्यात ज्योतिषी देवनि करि पूजिये है स्वर्गलोकमें सौधर्म इन्द्रादिक असंख्यात कल्पवासी देवनिकरि पूजिये है ऐसैं त्रैलोक्यके भव्यनि करि बंध पूज्य अरहंतका तदाकार प्रतिविंब है सो सदाकाल भव्यजीवनिकू पूजना योग्य है । अब पूजा दोय प्रकार है एक द्रव्यपूजा एक भावपूजा तहां जो अरहंत प्रतिविंबका वचनद्वारै स्तवन करना नमस्कार करना तीनप्रदक्षिणा देना अंजुलि मस्तक चढावना, जल चंदनादि अष्ट द्रव्य चढावना सो द्रव्यपूजा है अर अरहंतके गुणनिमें एकाग्र चित्त होय अन्य समस्त विकल्पजासु छांडि गुणनिमें अनुरागी होना तथा अरहंतप्रतिविंबका ध्यान करना सो भावपूजा है । अथवा अरहंतप्रतिविंबका पूजनके अर्थि शुद्धभूमिमें प्रमाणीक जलतैं स्नान करि उज्ज्वल वस्त्र पहरि महाविनयसंयुक्त अंजुलि जे.डि भक्तिसहित उज्ज्वल निर्दोष जलकरि अरहंतके प्रतिविंबका अभिषेक करना सो पूजन है । यद्यपि भगवानके अभिषेकका प्रयोजन नाहीं तथापि पूजनके ऐसा भक्तिरूप उत्साहका भाव है जो अरहंतकू साक्षात् स्पर्श ही करू हूं अभिषेक ही करू हूं ऐसी भक्तिकी महिमा है । बहुरि उत्तम जलकू भारीमें धारण करि अरहंतप्रतिविंबका अग्रभाग-विषै ऐसा ध्यान करे जो हे जन्म जरा मरणकू जीतनेवाले जिनेन्द्र ! जन्मजरामरणके नाशके अर्थि जलकी तीन धार आपका चरणारविन्दकी अग्रभूमिविषै क्षेपण करू हूं । हे जिनेन्द्र ! हे जन्म-जगमरणरहित आपका चरणांका शरण ही जन्मजरामरणरहित होनेकू कारण है । बहुरि हे संसार-परिभ्रमणका आतापरहित में अपने संसारपरिभ्रमणरूप आता नष्ट करनेकू चन्दन कपूरैरदिक-द्रव्यकू आपका चरणनिका अग्रभागविषै चढाऊ हूं । हे अविनाशी पदके धारक जिनेन्द्र, मैं हूं अक्षयपदकी प्राप्तिके अर्थि अक्षतनिकू आपका अग्रस्थानमें क्षेपण करू हूं । हे कामवाणके विघ्नमह जिनेन्द्र, मैं हू कामका विध्वंसके अर्थि पुष्पनिकू आपका अग्रस्थानमें क्षेपण करू हूं

क्षुधारोगरहित जिनेन्द्र, में हू क्षुधारोगका नाशके अर्थि नैवेद्यकूँ आपका अग्रस्थानविषै स्थापन करे हूँ । हे मोहअंधकाररहित जिनेन्द्र ! में हू मोह अंधकार-दूरि करनेकूँ आपका अग्रस्थानविषै दीपक धरूँ हूँ । हे अष्टकर्मके दाहक जिनेन्द्र, में हू अष्टकर्मके नाशके अर्थि आपका अग्रभाग-स्थानविषै धूप स्थापना करूँ हूँ । हे मोक्षस्वरूप जिनेन्द्र, में हू मोक्षरूपफलके अर्थि आपका अग्रस्थानविषै फलनिकूँ स्थापन करूँ हूँ । ऐसैँ अपने देश कालकी योग्यता प्रमाण एकद्रव्यतैँ हू पूजन हूँ दोय द्रव्यतैँ तथा तीन च्यार पांच छह सात अष्ट द्रव्यनितैँ हू पूजन करि भावनिकूँ परमेष्ठी के ध्यानमें युक्त करै है स्तवन पढै है महापुण्य उपार्जन करै है पापकी निर्जरा करै है ।

इहां ऐसा विशेष और जानना जो जिनेन्द्रके पूजन समस्त च्यार प्रकारके देव तो कल्प-वृक्षनितैँ उपजे गन्ध पुष्प फलादि सामग्री करि पूजन करै है अर सौधर्म इन्द्रादिक सम्यग्दृष्टि देव हँ ते तो जिनेन्द्रकी भक्ति पूजन स्तवन करके ही अपनी देवपर्यायकूँ सफल मानैँ । अर मनुष्यनिमें चक्रवर्ती नारायण बलभद्रादिक राजेन्द्र हँ ते मोतीनिके अक्षत रत्ननिके पुष्प फल दीपकादिक तथा अमृतपिंडादिकरि जिनेन्द्रका पूजन स्तवन नृत्य गानादिककरि महापुण्य उपार्जन करै हँ । अर अन्य मनुष्यनिमें हू जिनके पुण्यके उदयतैँ सम्यक् उपदेशके ग्रहणतैँ जिनेन्द्रके आराधनामें भक्ति उत्पन्न होय ते समस्त जाति कुलके धारक यथायोग्य पूजन करै हँ । समस्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपना अपना सामर्थ्य अपना अपना ज्ञान कुल बुद्धि सम्पदा संगति देश-कालके योग्य अनेक स्त्री-पुरुष नपुंसक धनाढ्य निर्धन सरोग नीरोग जिनेन्द्रका आराधना करै हँ । केई ग्राम निवासी हँ, केई नगरनिवासी हँ केई वननिवासी हँ केई अति छोटे ग्राममें बसनेवाले हँ तिनमें केई तो अतिउज्वल अष्टप्रकारसामग्री बनाय पूजनके पाठ पढ़िकरि पूजन करै हँ केई कोरा सूका जव, गेहूँ, चना, मक्का, वाजरा, उडद, मूँग, मोठ इत्यादिक धान्यकी मूठी ल्याय जिनेन्द्रको चढावै हँ केई रोटी चढावै हँ, केई रावड़ी चढावै हँ, केई अपनी बाडीतैँ पुष्प ल्याय चढावै हँ केई नानाप्रकार के हरित फल चढावै हँ, केई जल चढावै हँ । केई दाल भात अनेक व्यञ्जन चढावै हँ, केई नाना मेवा चढावै हँ, केई मोतीनिके अक्षत माणिकनिके दीपक सुवर्ण रूपानिके तथा पंचप्रकार रत्ननि करि जड़े पुष्प फलादि चढावै हँ केई दुग्ध केई दही केई घृत चढावै है, केई नानाप्रकारके घेवर, लाह, पेड़ा, बरफी, पूड़ी, पूवा, इत्यादिक चढावै हँ, केई बंदना मात्रही करै हँ, केई स्तवन केई गीत नृत्य वादित्र ही करै हँ, केई अस्पर्श्य शूद्रादिक मन्दिरके बाह्य ही रहि मन्दिरके शिखरकी तथा शिखरनिमें जिनेन्द्रके प्रतिविम्बका ही दर्शन बन्दना करै हँ । ऐसैँ जैसा ज्ञान जैसी सङ्गति जैसी सामर्थ्य जैसी धन सम्पदा जैसी शक्ति तिस प्रमाण देशकालके योग्य जिनेन्द्रका आराधक मनुष्य हँ ते वीतरागका दर्शन स्तवन पूजन बन्दनाकरि भावनिके अनुकूल उत्तम मध्यम जघन्य पुण्यका उपार्जन करै हँ । जो जिनेन्द्रका धर्म जाति कुलके अधीन नाहीं, धनसम्पदाके अधीन नाहीं वाह्यक्रियाके अधीन नाहीं है । अपने परिणामनिकी विशुद्धताके अनुकूल फलै है । फौऊ धनाढ्य-

पुरुष अभिमानी होय यशका इच्छुक होय मोतीनिके अथवा माणिकानिके दीपक रत्नसुवर्णके पुष्पनिकरि पूजन करै है अनेक वादित्र नृत्यगान करि बड़ी प्रभावना करै है तो हू अल्प पुण्य उपाजन करै, वा अल्प हू नाहीं करै, केवल कर्मका बन्ध हो करै है कषायनिके अनुकूल बन्ध होय है। केई अपने भावनिकी विशुद्धतातैं अति भक्तिरूप हुआ कोऊ एक जल फलादिक करि वा अन्नमात्र करि वा स्तवनमात्रकरि महापुण्य उपाजन करै हैं तथा अनेक भवनिके संचय किये पापकर्मकी निर्जरा करै हैं, धनकरि पुण्य मोल नाहीं आवै है। जे निर्वाछक हैं मन्दकषायी, ख्याति लाभ पूजादिककू नाहीं बांछा करता केवल परमेष्ठीका गुणामें अनुरागी हैं तिनके जिन-पूजन अतिशयरूप फलकू फलै है।

अब यहां जिनपूजन सचित्त द्रव्यनितैं हू अर अचित्तद्रव्यनितैं हू सागसयें कह्या है जे सचित्तके दोषतैं भयभीत हैं यत्नाचारी हैं ते तो प्रासुक जल गन्ध अक्षतकू चन्दन कुंकुमादिकतैं लिप्त करि सुगन्ध रङ्गीनमें पुष्पनिका संकल्पकरि पुष्पनितैं पूजैं हैं तथा आगममें कहे सुवर्णके पुष्प वा रूपाके पुष्प तथा रत्नजटित सुवर्णके पुष्प तथा तत्रंगादिक अनेक मनोहर पुष्पनिकरि पूजन करै हैं अरु प्रासुक ही बहु आरम्भादिकरहित प्रमाणीकू नैवेद्यकरि पूजन करै है। बहुरि रत्ननिके दीपक वा सुवर्ण रूपामय दीपकनि करि पूजन करै हैं तथा सचित्तद्रव्यनिके केसरके रङ्गादितैं दीपका संकल्पकरि पूजन करै हैं तथा चन्दन अगारादिककू चढ़ानै हैं कथा वादाम जायफल पूंगीफलादिक अवधि शुद्ध प्रासुक फलनितैं पूजन करै हैं ऐसैं तो अचित्त द्रव्यनिकरि पूजन करै हैं। बहुरि जे सचित्त द्रव्यनितैं पूजन करै हैं ते जल गन्ध अक्षतादि उज्ज्वल द्रव्यनिकरि पूजन करै हैं अर चमेली चंपक कमल सोनजाई इत्यादिक सचित्त पुष्पनितैं पूजन करै हैं, घुसका दीपक तथा कपूरादिक दीपकनिकरि आरती उतारै हैं अर सचित्त आम्र केला दाडिमादिक फलनिकरि पूजन करै हैं धृपायनिमें धूपदहन करै हैं ऐसैं सचित्त द्रव्यनिकरि हू पूजन करिये है दोऊ प्रकार आगम की आज्ञा-प्रमाण सनातनमार्ग है अपने भावनिके अधीन पुण्यबन्धके कारण है। यहां ऐमा विशेष जानना जो इस दुःपमकालमें विकलत्रय जीवनिकी उत्पत्ति बहुत है अर पुष्पनिमें वेंद्री तेंद्री चौदेंद्री पंचेंद्री त्रसजीव प्रगट नेत्रनिके गोचर दौड़ते देखिये है पुष्पनिकू पात्रमें भ्रुडलाफ देखिये तो हजारों जीव फिरते दौड़ते नजर आवै हैं अर पुष्पनिमें त्रसजीव तो बहुत ही हैं अर वादर निगोदजीव अनन्त हैं अर चैत्रमासमें तथा वर्षाऋतुमें त्रसजीव बहुत उपजैं हैं नातैं ज्ञानी धर्मशुद्धि हैं ते तो ममस्त कार्य यत्नाचारतैं करो। जैसैं जीवनिकी विराधना न होय तैसैं करो। चन्द्रि फूलनिके धोवनमें दौड़ते त्रसजीवनिकी बड़ी हिंसा है यातैं हिंसा तो बहुत है अर परिखाम-निमें निशुद्धता अन्य है यातैं पक्षपात छांडि जिनेन्द्रका प्ररूप्या अहिसाधर्म ग्रहण करि जेवा कार्य करो नेता यत्नावाररूप जीव-विराधना टालि करो इस कलिकालमें मगवानका प्ररूप्या नयविभाग तो ममभं नाहीं अर शास्त्रनिमें प्ररूपण किया तिस कथनीकू नयविभागतैं जानैं नाहीं

अर अपनी कल्पनाहीतै पक्ष ग्रहण करि यथेष्ट प्रवर्तै हैं । बहुरि केतेक पक्षपाती भादवांमें दिवसमें तो पूजन नाहीं करै रात्रिमें पूजन करै हैं । बहुत दीपक जोवै नैवेद्य चढ़ावै हैं तिनमें लाखां मच्छर डांस भक्षिका अर हरे पीत श्याम लाल रङ्गके कीट्यां त्रसजीव अनेक रङ्गके छोटी अत्रगाहनाके धारक सामग्री करनेमें चढ़ावनेके थालनिमें वस्त्रनिमें दीपनिके निमित्त दूर-दूरतै आय पड़ि पड़ि मरै हैं प्रत्यक्ष देखै हैं, अपने मुखमें नासिकामें नेत्रनिमें कर्णनिमें धसै हैं उड़ावै हैं मारै हैं तो हू अपनी पक्ष छांडै नाहीं, दिवस छांडि रात्रिमें ही पूजन करै हैं । रात्रिमें तो आरम्भ छांडि बत्ताचार-साहित रहनेकी आज्ञा है धर्मका स्वरूप तो बाह्य जीवदया अर अन्तरङ्गमें रागद्वेषमोहका विप्रत्यक्ष है । जहां जीवहिंसा तहां धर्म नाहीं । अर जहां अभिमानके वश होय एकान्तपक्ष का ग्रहण करि अपना पक्ष पुष्ट करनेकू हिंसाका भय नाहीं करै हैं तहां धर्म नाहीं । बहुरि केतेक एकांती मंडल्य छांडि आठ दिन दश दिन राखै हैं । तिन सामग्रीनिमें प्रत्यक्ष नेत्रनिके गोचर लट काडा विचरै हैं । फलादिक गलि चलितरस होय हैं । तथा नैवेद्यादिकनिकी गन्धतै कीडा कीडीनिके नाला खुल जाय हैं । प्रभावनाके अर्थि अनेक मनुष्य आवै तिन करि खूदि मरि जाय हैं ऐसै प्रत्यक्ष देखते हू अपनी पक्षका अभिमानकी अंधेरी करि नाहीं देखै हैं । रात्रि की बासी सामग्री रखना महान् हिंसाका कारण है । बहुरि अनेक पुराणनिमें अर अनेक श्रावकाचारनिमें अरहन्तकी प्राप्तमाका अष्ट द्रव्यनिकरि पूजन करनेका ही उपदेश है । अर कहूँ अरहन्त प्रतिविंबका स्तवन वन्दनाका कहूँ अभिषेकका वर्णन है । अर प्रतिविंब तदाकार होते किसी ग्रन्थमें हू स्थापनाका वर्णन नाहीं अर अब इस कलिकालमें प्रतिमा विराजमान होते हू स्थापनाही कू प्रधान कहै हैं ।

इस जयपुरमें संवत् १८५० अठारहसै पचासका सालमें अपना मनकी कल्पनातै कोई कीह नव स्थापनाकी प्रवृत्ति रची है तिनमें अरहंत १ सिद्ध २ आचार्य ३ उगध्याय ४ साधु ५ जिनवाणी ६ दशलक्ष्य धर्म ७ षोडश कारण ८ रत्नत्रय ९ ऐसै नव प्रकार स्थापना करै हैं अर ऐसै कहै हैं जो सप्तव्यसनका त्याग अन्यायका त्याग अभिच्यका त्याग जाकै नाहीं होय सो स्थापनासंयुक्त पूजन करै, अन्याय अभिच्यका त्याग जाकै नाहीं होय सो स्थापना मत करो । स्थापनासिहत पूजन तो सप्तव्यसनका अन्याय अभिच्यका त्याग करनेवाला ही करै जाके त्याग नाहीं सो स्थापना करयां विना पूजन करलो स्थापना नाहीं करना । अर स्त्रीनिकू रङ्गीन कपड़ा पहरि स्थापना विना पूजन करना कहै हैं । ऐसै कहनेवालेनिकै साक्षात् जिनेन्द्रका प्रतिविंब मानना नाहीं रखा अर तदाकार चांवलाकी स्थापना हीका विनय करना रखा प्रतिविंबका विनय करना मुख्य नाहीं रखा प्रतिमाका पूजन वंदना स्तवन तो चाहै सो ही करो अर पीत तंदुलांमें स्थापना करना सो उत्तम होय व्यसन अभिच्ययादिक पापरहित होइ तिसहीकै योग्य है । ऐसै पीत अक्षत-निमें स्थापना सो तो मुख्य विनय रखा अर प्रतिमामें पूजनादिक गौण रखा । अर पक्षपाती कहै हैं जिस तीर्थकरकी प्रतिमा होय तिनकै आरै तिनही की पूजा स्तुति करनी अन्य तीर्थकरकी स्तुति

पूजा नहीं करनी अर अन्य तीर्थकरकी पूजा करनी होय तो स्थापना तंदुलादिकतै करके अन्यका पूजन स्तवन करना ऐसा पक्ष करै है ।

तिनकूं इस प्रकार तो विचार किया चाहिये जे समन्तभद्र स्वामी शिवकोटि राजाके प्रत्यक्ष देखते स्वयंभू स्तवन कियो तदि चंद्रप्रभ स्वामीकी प्रतिमा प्रगट भई, तत्र चन्द्रप्रभके सम्मुख अन्य षोडशतीर्थकरनिका स्तवन कैसे किया ? बहुरि एक प्रतिमाके निकट एक हीका स्तवन पढ़ना योग्य होय तो स्वयंभूस्तोत्रका पढ़ना ही नहीं सम्भवै आदिजिनेन्द्रकी प्रतिमा विना भक्तामरस्तोत्र पढ़ना नहीं बनैगा, पार्श्वजिनकी प्रतिमा विना कल्याणमंदिर पढ़ना नहीं बनैगा, पंचपरमेष्ठीकी प्रतिमा विना वा स्थापना विना पंचनमस्कार कैसे पढ़्या जायगा, कायोत्सर्ग जाप्यादिक नहीं बनेगा, वा पंचपरमेष्ठीकी प्रतिमा विना नाम लेमा जाप्य करना सामायिक करना नहीं संभवैगा, तथा अन्यदेशमें नहीं-जान्या मंदिरमें पहली प्रतिमाका निश्चय-विना स्तुति पढ़ना नहीं सम्भवैगा तथा रात्रिका अत्रसर होय छोटी अत्रगाहनाकी प्रतिमा होय तहां पहली चिन्हका निश्चय करै पाछै स्तवनमें प्रवर्त्या जायगा तथा जिस मंदिरमें अनेक प्रतिमा होय तदि जाको स्तवन करै तिसके सम्मुख दृष्टि समस्या हस्त जोड़ वीनती करना सम्भवै अन्य प्रतिमाके सम्मुख नहीं सम्भवै । बहुरि जिस मंदिरमें अनेक प्रतिविंब होय तहां जो एकका स्तवन वंदना किया तदि दूजेका निरादर भया । दूजेका स्तवन किया तदि तीजे चौथे पांचमादिक का भावनिमें निरादर भया तदि भक्ति नष्ट भई । अर जो कहोगे बहुत प्रतिमा होय तहां चौबीसका स्तवन करोगे तो जहां जो बीस ही तथा तेईस ही होय तो पहली एकके चिन्हका आछी तरह निर्णय-करि तितना ही का स्तवन किया जायगा अन्य तीर्थकरनिका स्तवन निकास्या जायगा अर जहां छोटे स्वरूप होय दूर विराजमान होय तथा दृष्टिमन्द होय तहा पांच आदम्याने पूछि स्तवन वंदना करना बनैगा पेटे एकांती मनोक कल्पना करनेवालेके अनेक दोष आवै है ।

बहुरि जो स्थापनाके पक्षपाती स्थापन विना प्रतिमाका पूजन नाहीं करै तो स्तवन वंदना करनैकी योग्यता हू प्रतिमाके नाहीं रही । बहुरि जो पीततन्दुलनिकी अतदाकार स्थापना ही पूज्य है तो तिन पक्षपातीनिके धातुपाषाणका तदाकार प्रतिविंब स्थापन करना निरर्थक है तथा अकृत्रिम चैत्यालयके प्रतिविंब अनादिनिधन स्थापन है तिनमें हू पूज्यपना नाहीं रखा । बहुरि एक प्रतिमाके आगे एकका पूजन होय अन्य तेईसका पूजन करै सो पीतअक्षतनिकी स्थापना करके करै तदि तेईस प्रतिमाका संकल्प पीतअक्षतनिमें भया तदि जयमाल स्तवन पूजनमें अपनी दृष्टि पीतअक्षतनिमें ही रखनी एक प्रतिमामें चौबीसका भय अयोग्य ठहरै, तेईस प्रतिमास्थापनके पुष्प रहै । जो पूजन ही स्थापना विना नाहीं तदि घरमें, वनमें, विदेशमें अरहन्तनिका स्तवन वन्दना हू नाहीं सम्भवै एकांती आगमज्ञानरहित पक्षपाती हैं तिनके कहनेका ठिकाना नाहीं, पापका भय नाहीं;

बहुति पूजन चौबीसका करै शान्तिमें सोलमां तीर्थकरका स्तवन करै । तातैं अनेकान्तका शरण पाय आगमकी आज्ञा विना पक्षका एकांत ठीक नाहीं है ।

ऐसा विशेष जानना—एक तीर्थकरकै हू निरुक्ति द्वारै चौबीसका नाम सम्भवै हैं । तथा एक हजार आठ नाम करि एक तीर्थकरका सौधर्म इन्द्र स्तवन किया है तथा एक तीर्थकरके गुणनिके द्वारै असंख्यात नाम अनन्तकालतैं अनन्त तीर्थकरनिके हो गये हैं अर माता पिताके हू ए ही नाम अर शरीरकी अवगाहना अर वर्णादिक ए हू अनन्तकालमें अनन्त हो गये । तातैं हू एक तीर्थकरमें एकका भी संकल्प अर चौबीसका भी संकल्प संभवै है । अर इस कालमें अन्यमतीनिकी अनेक स्थापना हो गई तातैं इसकालमें तदाकार स्थापनाकी ही मुख्यता है जो अतदाकार स्थापनाकी प्रधानता हो जाय तो चाहै जीहीमें वा अन्यमतीनिकी प्रतिमामें हू अरहन्तकी स्थापनाका संकल्प करने लागि जाय तो मार्ग भ्रष्ट हो जाय । अर प्रतिमाके चिन्ह हैं सो इन्द्र जन्माभिषेक करि मेरुखूं ल्यायो तदि ध्वजामें जो चिन्ह स्थापना किया था सो ही प्रतिमाके चरणचौकीमें नामादिक व्यवहारके अर्थि हैं अर एक अरहन्त परमात्मा स्वरूपकरि एकरूप है अर नामादिककरि अनेक स्वरूप है । सत्यार्थ ज्ञानस्वभाव तथा रत्नत्रयरूपकरि वीतराग भावकरि पंचपरमेष्ठीरूप एक ही प्रतिमा जानना तातैं परमागमकी आज्ञा विना वृथा विकल्प करना शङ्का उपजावनी ठीक नाहीं जिनसूत्रकी आज्ञा सो हू प्रमाण है । बहुति व्यवहारमें पूजनके पंच अंगनिकी प्रवृत्ति देखिये है आह्वानन ॥१॥ स्थापना ॥२॥ संनिधिकरण ॥३॥ पूजन ॥४॥ विसर्जन ॥५॥ सो भावनिके जोड वास्तै आह्वाननादिकनिमें पुष्प क्षेपण करिये है । पुष्पनिक्कूं प्रतिमा नाहीं जानै है । ए तो आह्वाननादिकनिका संकल्पतैं पुष्पांजलि क्षेपण है । पूजनमें पाठ रच्यो होय तो स्थापना करले नाहीं होय तो नाहीं करै । अनेकांतिनिके सर्वथा पक्ष नाहीं भगवान परमात्मा तो सिद्धलोकमें हैं एक प्रदेश भी स्थानतैं चलै नाहीं परन्तु तदाकार प्रतिविंबखूं ध्यान जोडनेके अथि साक्षात् अरहंत सिद्ध आचार्य उपध्याय साधुरूपका प्रतिमामें निश्चय करि प्रतिविंबमें ध्यान पूजन स्तवन करना । बहुति केतेक पक्षपाती कहै हैं जो भगवान् प्रतिविंब विना समाके श्रावक लोकनिमें हजुरी पद तथा स्तोत्र मत पढ़ो । भगवान् परमेष्ठीका ध्यान स्तवन तो सदाकाल परमेष्ठीकूं ध्यानगोचरि करि पढ़ना स्तवन करना योग्य है जो प्रतिमाका सम्मुख विना स्तुतिका हजुरी पद पढ़नेकूं निषेध है तिनके एचनमस्कार पढ़ना स्तवन पढ़ना सामायिक वन्दनाका पढ़ना प्रतिमाका सम्मुख विना नाहीं संभवैगा शास्त्रका व्याख्यानमें नमस्कारके श्लोक पढ़नेका निषेध हो जायगा । तातैं अज्ञानीका कहनेतैं अध्यात्ममें कदाचित् पराङ्मुख होना योग्य नाहीं ।

यहां प्रकरण पाय अकृत्रिम चैत्यालयनिका स्वरूप ध्यानकी शुद्धताके अर्थि श्रीत्रिलोकसारके अनुसार किंचित् लिखिये है । अधोलोकमें सात करोड बहत्तर लाख भवनवासीके भवन हैं तिनमें केतेक भवन असंख्यात योजनके विस्ताररूप हैं । केतेक संख्यात योजनके विस्ताररूप हैं

तिन एक-एक भवनमें असंख्यात भवनवासी देवनिकरि वन्दनीक एक-एक जिन मन्दिर है ऐसैं सात कोड वहित्तर लाख ही जिन मन्दिर हैं । अर मध्यलोकमें पंचमेरुनिमें अस्सी जिन मन्दिर हैं, गजदन्तनि ऊपरि बीस हैं अर कुलाचलनिमें तीस । विजयार्द्धनिपरि एकसौ सत्तर, देवकुरु उत्तर-कुरुमें दश, वहारगिरिनिमें अस्सी । मानुषोत्तर ऊपरि चार, इष्वाकार ऊपरि चार, कुण्डलगिरि ऊपरि चार, रुचिकगिरि ऊपरि चार, नन्दीश्वर द्वीपमें वावन ऐसे मध्यलोकमें चारसैं अठान्न हैं । ऊर्ध्वलोकमें स्वर्गनिमें अहमिद्रलोकमें चौरासी लाख सत्तानवे हजार तेईस हैं । अर व्यंतरनिके असंख्यात जिनमन्दिर हैं अर ज्योतिर्लोकमें असंख्यात जिन मन्दिर हैं ! ऐसैं संख्यारूप जिन-मन्दिर तो आठ कोंडि छप्पन लाख सत्तानवे हजार चारसैं इक्यासी है । अर व्यंतर-ज्योतिषिनिके असंख्यात जिनमन्दिर हैं । अब जिनालयनिका स्वरूप कहिये है—जिनालय तीन प्रकार है उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य । तिनमें उत्कृष्ट जिनमन्दिरकी लम्बाई सौ योजनकी है, चौड़ाई पचास योजन है, ऊंचाई पचहत्तर योजनकी है । अर मध्यम जिनमन्दिर पचास योजन लम्बे, पचास योजन चौड़े, साठा सैंतीस योजन ऊंचे है अर जघन्य जिनमन्दिर पचास योजन लम्बा, साढ़ा बारा योजन चौड़ा पौणाउगणीस योजन ऊंचा है अर समस्तकी नीच जमीनमें आधा आधा योजन की है बहुरि इन जिनमंदिरनिके तीन तीन द्वार हैं तिनमें सन्मुख द्वार तो एक है और पसवाडे दोऊनिके दोय-दोय द्वार हैं तिनमें सन्मुख द्वारका परिमाण ऐसा जानना उत्कृष्ट जिनमंदिरनिके द्वार ऊंचाई सोलह योजनकी है, चौड़ाई आठ योजनकी है । मध्यम मंदिरनिका द्वारकी ऊंचाई आठ योजनकी अर चौड़ाई चार योजनकी है, जघन्य जिनमंदिरनिका द्वारकी ऊंचाई चार योजन की अर चौड़ाई दोय योजनकी है । बहुरि पसवाडनिके दोय दोय छोटे द्वारनिका परिमाण ऐसा जानना, उत्कृष्ट जिनमंदिरका छोटा द्वारकी ऊंचाई चार योजनकी है अर मध्यम जिन-मंदिरका छोटा द्वारकी ऊंचाई चार योजनकी है अर चौड़ाई दोय योजनकी है अर जघन्य जिनमंदिरनिके छोटे द्वार दोय योजन ऊंचे और एक योजन चौड़े हैं । इहां भद्रशालवन नंदवन नंदीश्वरद्वीपमें अर स्वर्गके विमानमें उत्कृष्ट परिमाण सहित जिनालय हैं अर सौमनसवनमें रुचक पर्वतमें कुण्डलगिरि ऊपरि वहारगिरि ऊपरि इष्वाकार ऊपरि मानुषोत्तर ऊपरि कुलाचलनि उपरि-मध्यमप्रमाण लिये जिनमंदिर हैं अर पांडुकवनके जिनालयनिका जघन्य प्रमाण है । बहुरि विजयार्द्ध पर्वतनिके ऊपरि अर जंबू-शाल्मलि इक्षनिविषे जिनमंदिरनिकी लम्बाई एक कोसकी है अवशेष जे भवनवासनिके भवननिमें तथा व्यंतरनिके, ज्योतिषीदेवनिके जिनालय हैं ते यथायोग्य लम्बाई जिनेन्द्र भगवान देखी है तैसे-तैसे प्रमाण लिये है । अब जिनमंदिरनिका बाह्य परिकर सात गाथानिमें कथा है । समस्त जिनभवनके चार तरफ चार चार द्वारनिकरियुक्त मणिमयी तीन कोट हैं । अर द्वारनि होय जानेकी गती-गली पर एक एक मानस्वम्भ हैं अर नव-नव स्तूप हैं अर तीन-तीन कोटका अंतरालके माहीं पहला द्वा

कोटके बीच रत्न है दूसरा तीसरा कोटके बीच ध्वजा है। तीजा कोट अर चैत्यालयके बीच रत्नभूमि है। तिन जिनभवननिविषै एक सौ आठ गर्भगृह हैं। तिन जिनभवननिके मध्य रत्ननिके स्तम्भनिकरि युक्त सुवर्णमय दीप योजन चौड़ा आठ योजन लम्गा चार योजन ऊंचा देवच्छद कहिये मंडप गुम्फज छतिसहित हैं तिसविषै एक सौ आठ गर्भगृह हैं तिन गर्भगृहनिविषै आदि जिनेन्द्रके देह परिमाण उच्चतायुक्त एक सौ आठ जिन प्रतिमा रत्नमय हैं। कैसेक हैं जिन प्रतिमा भिन्न भिन्न सिंहासन छत्रयादि प्रतिहार्यनिकरि सहित हैं। सस्तकविषै जिनके अति नील केश हैं ते केशनिके आकार रत्ननिके पुद्गल परिणमें हैं केश नहीं हैं। बहुरि वज्र जो हीरा तिनमयी दन्तनिके आकार संयुक्त हैं अर विद्रुम जो सूंगा तिस समान रक्त जिनके ओष्ठ हैं। अर नवीन कूपल समान शोभायुक्त रक्त हस्तपादतल हैं श्रीराजवार्तिकमें प्रतिमाका वर्णनमें लोहि-ताच्च मणिकरि व्याप्त अङ्क स्फटिकमणिमय हैं नयन जिनके अर अरिष्ट मणिमय हैं श्याम नेत्रनि की तारका जिनकी अर अंजन मूल मणिमय वाफणी अर भृकुटीकी लता जिनके नीलमणिमय केशनिकरि युक्त ऐसी जिन प्रतिमा हैं दश तालप्रमाण लक्षणादिकरि भरी है। यहां तालका परिमाण बारह अंगुलका है प्रथम जिनेन्द्र ज्यों। जानो कि देखें ही हैं मानो बोले ही हैं। बहुरि एक गर्भगृहविषै बराबर पंक्ति करि खड़े नागकुमारनिके वा यक्षनिके बत्तीस युगल चमर हस्त-निमें तिये हैं।

भावार्थ— एक एक गर्भगृहमें एक एक जिनप्रतिमाके दोऊं तरफ समस्त आभरणकरि भूषित अर श्वेत निर्मल रत्नमय चमर हस्तमें धारण करते नागकुमार वा यक्ष चौंसठ चमर द्वार हैं। ऐसै एक सौ आठ प्रतिमानिके जुदे जुदे प्रतिहार्य एक एक जिनालयमें हैं बहुरि तिन जिन-प्रतिमाके दोऊं पसवाडेन विषै श्रीदेवी अर सरस्वतीदेवी अर सर्वाह यक्ष अर सन्तकुमार यक्ष अर इनके रूपआकार तिष्ठै हैं बहुरि अष्ट प्रकारके मंगल द्रव्य जिनप्रतिमाके निकट शोभै हैं। भ्रारी ॥१॥ कलश ॥२॥ दर्पण ॥३॥ वीजणा ॥४॥ ध्वजा ॥५॥ चमर ॥६॥ छत्र ॥७॥ टोना ॥८॥ ए आठ मंगलद्रव्य हैं ते एक मंगलद्रव्य एक सौ आठ प्रमाण एक एक प्रतिमाके शोभै हैं। अत्र गर्भगृहके बाह्यकी रचनाकू ऐसै जानो—मणिजटित सुवर्णमय पुष्पनिकरि शोभित बना जो देवच्छद तीका अग्रभागके मध्य रूपामयी अर सुवर्णमयी बत्तीस हजार कलस है बहुरि महा-द्वार जो बड़ा द्वार ताके दोऊ पार्श्वनिविषै चौईस हजार धूपके घडे हैं। बहुरि तिस महाद्वारके बाहर दोऊं तरफ आठ हजार मणिमई माला है। तिन मणिमई मालानिके बीच चौईस हजार सुवर्णमय माला है। बहुरि तिस महाद्वारके आगे सन्मुख मुखमण्डप है तिस मुखमण्डपविषै सोलह हजार कलश है अर सोलह हजार सुवर्णमय माला है तिस मुखमण्डपविषै सोलह हजार धूपघट है तिस मुखमण्डपका मध्यविषै ही महान् मिष्ट भणभण शब्द करती मोती अर मणि-निकर निपजी किंकणी जे छोटी घंटी तिनकरि सहित नानाप्रकारके घण्टनिके समूह अनेक रचना



करियुक्त शोभे है। अब जिनमंदिरके छोटे द्वारादिकका स्वरूप कहै है। जिनमन्दिरका दक्षिण उत्तरके पसवाडेनिका मध्यमें प्राप्त जे छोटे द्वार तिसविषै कक्षा विधानतैं समस्त रचना आधी आधी जानना। मणिमाला चार हजार है, धूपघट बारह हजार है। सुवर्णमाला बारह हजार है तिन छोटे द्वारनिके आगैं मुखमण्डप है तिममें सुवर्णके घट आठ हजार है अर सुवर्णमय माला आठ हजार है, आठ हजार धूपघट है, और मुखमण्डपमें जुद्धघटिका अनेक रचना है, बहुरि तिस मन्दिर का पृष्ठभागविषै मणिमाला तो आठ हजार है, अर सुवर्णमाला चौईस हजार है। माला है ते भीतिके चौगिरद लूंबती जाननी। अब मुखमण्डपनिका विस्तारादिका स्वरूप पंद्रह गाथानिमें कक्षा है सो कहिये है—इस मन्दिर के आगैं मुखमण्डप है सो जिन मन्दिरके समान सौ योजन लम्बा पचास योजन चौडा सोलह योजन ऊंचा है। अर तिस मुखमण्डपके आगैं चौकोर प्रदक्षिणमण्डप है सो प्रदक्षिणमण्डप सौ योजन चौडा लम्बा है। सोलह योजनतैं अधिक ऊंचा है तिस प्रदक्षिणमण्डपके आगैं अस्सी योजन चौडा लम्बा अर दोय योजन ऊँ। सुवर्णमय पीठ है। पीठ नाम चोंतरा का जानना। तिस पीठ का मध्यविषै चौकोर चोंसठ योजन चौडा लम्बा अर सोलह योजन ऊंचा स्थानमण्डप है स्थानमण्डप नाम सभामण्डपका है।

बहुरि इस स्थानमण्डपके आगैं चालीस योजन ऊंचा २ स्तूपनिका मणिमय पीठ है सो पाठ चार द्वारनिकरि संयुक्त बारह अंबुज वेदीनिकरि युक्त है। बहुरि तिस पीठके मध्य तीन कटनीकर युक्त चौसठ योजन चौडा लम्बा ऊंचा बहुत रत्नमय जिनधिंनिकरि सहित स्तूप है। तिस ऊपरि जिनधिंन विराजै हैं सो ऐसैं ही नव स्तूप हैं। तिनका ऐसा क्रम करि स्वरूप है तिस स्तूपके आगैं एक हजार योजन चौडा लम्बा गिरदविषै बारह वेदनिकरि संयुक्त सुवर्णमय पीठ है तिस पीठ ऊपरि चार योजन लम्बा अर एक योजन चौडा है स्कंध काहिये पेड़ जिनका अर बहुत मणिमय गिरदविषै तीन कोटिनिकरि संयुक्त अर बारह योजन लम्बी है चार महा शाखा जिनके अर छोटी शाखा अनेक है जाके अर बारह योजन चौडा है शिखर कहिये ऊपरला भाग जिनका, अर नानाप्रकार पान फूल फल संयुक्त है, बहुरि एक लाख चालीस हजार एकसौ बीस वृक्षनिका परिवारसंयुक्त सिद्धार्थ अर चैत्य नामा दोय वृक्ष है। तिन वृक्षनिका मूलविषै जो पीठ है ताके ऊपरि निष्ठते चार दिशानिविषै चार सिद्धनिकी प्रतिमा तो सिद्धार्थवृक्षका मूलविषै है अर चैत्यवृक्षका मूलविषै पीठ है ताके ऊपरि चार अर्हतप्रतिमा विराजमान हैं। बहुरि इन वृक्षानि की पीठ के आगैं पीठ है ताविषै नाना प्रकार वर्णनिकरि युक्त महाध्वजा तिष्ठै है। सोलह योजन ऊंचे एक कोस चौडे ऐसे ध्वजानिके सुवर्णमय स्तम्भ है। तिन स्तम्भनिका अग्रभागविषै मनुष्यनिके नेत्र अर मनकूँ रमणीक ऐसे नाना प्रकारके ध्वजा वस्त्ररूप रत्ननिकरि परिणये है अर तीन छत्र शोभै है। इहां ध्वजानिके वस्त्र नाहीं है। वस्त्रकासा आकार कोमलता नाना रंग ललितता लिये रत्नरूप पुद्गल परिणये हैं तातैं वस्त्र भी रत्नमय जानने। तिस ध्वजापीठके आगैं

जिनमन्दिर है ताकी चारों दिशानिविषै नानाप्रकार पुष्पनिकरि युक्त सौ योजन लम्बे पचास योजन चौडे दश योजन ऊँचे मणिसुवर्णमयवेदीनिकरि संयुक्त चार हृद कहिये द्रह हैं ताके आगै जो मार्गरूपवीथी है गली है ताके दोऊ पार्श्वनिविषै पचास योजन ऊँचे पचास योजन चौडे देवनिके क्रीडा करनेके रत्नमय दोय मन्दिर हैं । बहुरि ताकै तोरण हैं सो मणिमय स्तम्भनिका अग्रभाग विषै स्थित हैं । दोय स्तम्भनिके बीच भीतिरहित मरगोलकासा आकार ताका नाम तोरण है सो तोरण मोतीनिके जाल अर घंटासमूहकरि युक्त है । मोतीनिके जाल अर घंटासमूह तोरणनिकै लम्बै हैं बहुरि सो तोरण पचाम योजन ऊंचा पचीस योजन चौडा है ते तोरण जिनविंवनिके समूह करि रमणीक हैं । जिनविंवनिका आकार तोरणनिमें तिष्ठै है तिस तोरणके आगै स्फटिकमय जो प्रथम कोट ताके अभ्यन्तर कोटके द्वारका दोऊ पार्श्वनिविषै सौ योजन ऊँचे पचास योजन चौडे रत्ननिकरि म्चे दोय मन्दिर है ऐसै कोटपर्यंत वर्णन किया । पूर्वद्वारविषै मंडपादिकका जो परिमाण कया तातें दक्षिणद्वार उत्तरद्वारविषै आधा आधा परिमाण जानना । अन्य वर्णन तीन तरफ समान जानना ।

बहुरि ते चैत्यालय सामायिकादि क्रिया करने का स्थान वंदना-मण्डप अर स्नान करने के स्थान अभिषेक-मण्डप अर नृत्य करनेका स्थान नर्तन-मण्डप अर सङ्गीत साधन करनेके स्थान मङ्गीतमण्डप अर अवलोकन करनेके अवलोकन मण्डप तिनकरि संयुक्त बहुरि क्रीडा करनेके स्थान क्रीडनगृह शास्त्रादिक अभ्यास करनेके स्थान गुणनगृह तिनकरि अर विस्तीर्ण उत्कृष्ट पट्ट चित्रामादि दिखावनेके स्थान पट्टशालादि तिनकरि संयुक्त हैं । अब द्वितीय कोट अर बाह्यकोटके बीच अन्तराल ताका स्वरूप कहै है । सिंह, गज, वृषभ, गरुड, मयूर, चन्द्रमा, सूर्य, हंस, कमल, चक्र इन दशानिका आकारकरि संयुक्त ध्वजा हैं ते जुदी जुदी एकसौ आठ आठ हैं । ऐसै एक हजार अस्सी एक दिशामें है । ऐसै चार दिशानिकै चार हजार तीन सौ बीस मुख्यध्वजा हैं । बहुरि एक एक मुखध्वजाविषै एकसौ आठ जुल्लक छोटी ध्वजा है । आगै दूसरा अर तीसरा कोटके बीच जो अंतराल ताकैविषै अशोक अर सप्तच्छद अर चम्पक अर आम्रमई चार वन हैं । बहुरि यहां सुवर्णमय फूलनिकरि शोभित मरकतमणिमय नानाप्रकार पत्रनिकरि पूर्ण ऐसै कल्पवृक्ष हैं तिनके वैडूर्यमणिमय फल हैं अर मूंगामय डालीकरि युक्त है । ऐसै कल्पवृक्ष भोजनांगआदि भेद लिये दश प्रकार हैं बहुरि तिन चारों वननिविषै चैत्यवृक्ष च्यारि हैं । ते वृक्ष तीन पीठि ऊपरि हैं तीन कोटिकरि युक्त हैं, रत्नमय शाखात्रपुष्पफलकरि युक्त चार वननिके बीच हैं तिन चार चैत्यवृक्षनिके मूलमें दिशानिमें पर्यंकासन सिंहासन छत्र प्रातिहार्यादियुक्त चार जिनेंद्रकी प्रतिमा हैं । बहुरि नन्दादि सोलह बावडी तीन कटनीनिकरि संयुक्त शोभै हैं । बहुरि वनकी भूमिमें द्वारनिमें आवनेका मार्ग रूप जो वीथी तिनका मध्यविषै तीन कोट संयुक्त तीन पीठनि ऊपरि वर्मका विभव-युक्त मस्तकविषै च्यारिदिशानिमें च्यार जिनप्रतिमाक धारण करने मानस्तम्भ हैं । श्री राजवार्तिक-

में कहा है—जिनालयकी महिमा वर्णन करनेकूँ हजार जिह्वाकरि हू समर्थ नहीं होय है अरु सहस्राक्ष जो हजार नेत्रधारक हजार नेत्रनिकूँ विस्तारकरि निरंतर देखे तो हू तृप्तिताकूँ नहीं प्राप्त होय है ऐसैं अप्रमाण महिमाके धारक अकृत्रिम जिनालयका वर्णन त्रिलोकसारनामग्रंथतैं अपने शुभ ध्यानकी सिद्धिके अर्थि वर्णन किया । ऐसैं जिन पूजनका कथन किया ।

अब जिन पूजनका फलमें तो प्रसिद्ध अनेक भये हैं । तथापि पूर्वाचार्यनिकरि प्रसिद्ध फल कहनेकूँ सूत्र कहैं हैं—

अर्हञ्चरणसपर्यामहानुभावं महात्मनामवदत् ।

भेकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे ॥ १२० ॥

अर्थ—राजगृहनाम नगरके विषै जिनेन्द्रके पूजनेका हर्षकरि मत्त कहिये अपना सामर्थ्यकूँ नहीं जानतो जो मीडको सो अरहंतके चरणनिकी पूजाका महाप्रभाव महान्पुरुष जे भव्यजीव तिनकूँ प्रकट करतो हुओ दिखावतो हुओ । याकी कथा ऐसी जाननी—मगधदेशमें राजगृहनगर तिस-विषै राजाश्रेणिक राज्य करै तिस ही नगरके विषै एक नागदत्तनाम श्रेष्ठी ताके भवदत्ता नाम स्त्री सो श्रेष्ठी आर्तपरिणामतैं मर्या । मरिकरि आपकी गृहकी बावडीमें मीडको उपजतो हुओ । एक दिन भवदत्तानाम सेठानी बावड़ी ऊपरि गई तदि ताने देखि मीडकाके पूर्वजन्मको स्मरण हुओ तदि पूर्वलो स्नेहकी यादकरि शब्द करतो उछलि उछलि सेठानीके वस्त्रां ऊपरि चढ़ै । तदि सेठानी वारम्बार वाकों दूरि फेकि दियो तो हू वारम्बार सेठानीका वस्त्रनि परि आवै । तदि सेठानी मीडकानैं दूरि करि अने घर गई । एक दिन सुव्रतनाम अधिजाती मुनिकूँ पूछी भो स्वामिन् ! मैं गृहवापिकामें जाऊँ तदि एक मीडको शब्द करतो करतो वारम्बार हमारे अङ्गपरि आवै इसका सम्बन्ध कशे तदि मुनीश्वर कही थारो भर्ता नागदत्त आर्त परिणामतैं मरि मीडको हुओ ताके जातिस्मरण हुओ रो पूर्व जन्मका स्नेहकरि थारे निरुद्ध आवै है । तदि सेठानी मीडकाकूँ अपना भर्ताको जीव जानिकरि अपने गृहमें ले जाय बहुत सन्मानतैं राख्यो । एक दिन राजा श्रेणिक भगवान वीर जिनेन्द्रका समवसरण वैभार पर्वत ऊपरि आयो जानि राजा वन्दनाके अर्थि नगरमें आनन्द भेरी दिवाई । तदि नगरके भव्यजीव भगवानकी वन्दनाके अर्थि नाना प्रकारके उज्वल-वस्त्र आभरण पहरि पूजनसामग्री हस्तनिमें लेय जय-जय शब्द बरते हर्षतैं नृत्यगानवादित्रादि शब्द सहित चाले सो समस्त नगरमें आनन्द हर्ष व्याप्त होय गयो । तदि मीडको लोकनिका पूजनजनित आनन्दका शब्द श्रवण करि आपके पूजन करनेका बड़ा उत्साह प्रगट भया तदि एक पुष्पक गुप्तमें लेय आनन्दसहित उछलतो हुओ वीरजिनेन्द्रका पूजन के अर्थि चाल्यो अतिभक्तिने ऐसा मिचार नहीं भया जो विपुलाचल पर्वतऊपरि बीस हजार पर्वतनिमहित समवसरण तो कहां, अरु में असमर्थ मीडको वहां कैसे पहुंचंगा, अतिभक्तितैं ऐसा

विचार नहीं रखा । अरु जिन पूजूं ऐसे उत्साहसहित मार्ग में गमन करतो राजाका हस्तीका पाग नीचे भरि सौधर्मस्वर्गत्रिपै महान ऋद्धि की धारक देव हुओ तदि अवधिजानतैं पूजनके भावतैं अपना देवपनामें उत्पाद् जानि मीडकाको चिह्न धारण करि तत्काल वीरजिनेन्द्रका समवसरण में पूजन के अर्थि जाय समस्त जीवनिहूँ पूजन को प्रभाव प्रगट दिखायो । जो तिर्यच मीडक पूजन ताईं पहुंच्यो हू नहीं केवल पूजनके भाव करके ही स्वर्ग लोकमें महर्दिक देव भयो । जिनेन्द्र का पूजन का अचित्य प्रभाव है यतैं गृहचार में बड़ा शरण समस्त परिणामकी विशुद्धता करने वाला एक नित्य पूजन करना ही है । जिनपूजन निर्धन हू करि सके धनाढ्य हू करि सके । जेता आषका सामर्थ्य हो तिस प्रमाण पूजन सामग्री वनि सकै है । बहुरि पूजन करना करवाना करतेहूँ भला जानना सो समस्त पूजन ही है तथा स्तवन वन्दना हू पूजन, एक द्रव्यतैं हू पूजन जैसे अरहन्तके गुणनिमें भक्तिका उज्वलता होय तैसा फल है बहुरि जिन मन्दिर में छत्र चमर-सहित सिंहासन कलश घन्टा इत्यादिक सुवर्णमय रूयामय पीतलमय कासी ताम्रमय अनेक सुन्दर उपकरणनिकरि जेता अपना सामर्थ्य होय तिस प्रमाण जिनमन्दिर को भूषित करि वैयावृत्त करै । बहुरि जीणमन्दिरनिकी सरम्मत उद्धार करना तथा धनाढ्य पुरुष हैं तिनको जिन विवनिकी प्रतिष्ठा करवाना कलश चढावना ये समस्त अरहन्त की वैयावृत्त है ।

बहुरि जिन मन्दिरनिकी टहल करना कोमल पीछीछूँ यत्ना चारतैं भुनारना अभिषेक पूजना विछवाना गाननृत्यवादिवादिनिकरि अरहन्तके गुण गावना सो समस्त अहवैद्यावृत्ति है । मन से बचनसे कायसे धनसे प्रियासे कलासे जैसे अरहन्तके गुणनिमें अनुराग बधै तैसे करना धन पावनेका, देह पावनेका इन्द्रिया पावनेका बल पावनेका ज्ञानपावनेका सफलपणा जिनमन्दिर की टहल वैयावृत्ति करके ही है, जिनमन्दिर की वैयावृत्ति सम्यक्त्व की प्राप्ति करै है तथा सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति करै है, मिथ्याज्ञान मिथ्या श्रद्धान का अभाव करै । स्वाध्याय संयम तप व्रत शील्लादिगुण जिनमन्दिर को सेवनतैं ही होय । नरकतिर्यचादिगतिनि में परिभ्रमणका अभाव होय जिन मन्दिर समान कोऊ उपकार करने वाला जगत में दूजा नहीं । जिनमन्दिरका निमित्ततैं शास्त्र श्रवण पठन करि अनेक श्रोतानिका उपकार होय वक्ताका उपकार होय है । जिनमन्दिर के निमित्ततैं केई जीव कायोःस्वर्ग करै हैं । कोई जाग जपै है कोई रात्रि में जागरण करै हैं केई अनेक प्रकार पूजनकरि प्रभावना करै हैं । केई स्तवन करै हैं । केई तत्वार्थनिकी चर्चा करै हैं । केई प्रोषधोपवास तथा बेला तेला पंचउपवास्यादिकरि बड़ी निर्जरा करै हैं । केई स्वाध्याय करै हैं । केई बीतराग भावना करै हैं केई नाना प्रकार उपकरणनि करि प्रभावना करै हैं । जिनमन्दिरके निमित्ततैं पाप-पुण्य देव-कुदेव धर्म-कुधर्म गुरु-कुगुरुका जानना होय । भक्ष्य अभक्ष्य कार्य अकार्य त्यागने योग्य ग्रहण करने योग्य का ज्ञान हू जिनमन्दिर में प्रवृत्ति करि ही होय है । त्याग व्रत शील संयम भावनाका स्वरूप जानना तथा आचरण करना समस्त जिनमन्दिरके प्रभावतैं होय है ।

जिनमंदिर बराबर कोऊ उपकारी नहीं है । जिनमंदिर अशरणिकूं शरण है । ऐसे परोपकार करनेवाला जिनमंदिरकूं जानि याका वैयावृत्य करो । ऐसैं वैयावृत्यमें जिनपूजाका वैयावृत्य कहा ।

अब वैयावृत्यके पंच अतिचार कहनेकूं सूत्र कहैं हैं—

हरितपिधाननिधाने ह्यनादरास्मरणमत्सरत्वानि ।

वैयावृत्यस्यैते व्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते ॥१२१॥

अर्थ—वैयावृत्य जो दान ताके ये पांच अतीचार त्यागने योग्य हैं । हरितपिधान, हरितनिधान अनादर, अस्मरण मत्सरत्व । जो ब्रतोनिकूं देने योग्य आहारपान औपधि है ताकूं हरित जो कमलका पत्र वा पातल पान इत्यादि सचित्तकरि ढक्या हुवा देना सो हरितपिधान नाम अतीचार है ॥ १ ॥ बहुरि हरित जो वनस्पतिके पत्रादिक ऊपरि धरद्या हुआ भोजन देना सो हरितनिधान नाम अतीचार है ॥ २ ॥ बहुरि दानकूं अनादरतैं अविनयतैं प्रियवचनादि-रहित देना सो अनादरनाम अतीचार है ॥ ३ ॥ बहुरि पात्रकूं भोजनादिक देनेके अर्थि स्थापनकरि अन्यकायमें लमि भूलि जाना तथा देनेयोग्य द्रव्यकूं तथा विधिकूं भूलि जाना सो अस्मरण नाम अतीचार है ॥ ४ ॥ बहुरि अन्य दातारतैं ईर्ष्याकरि देना सो मत्सरत्व नाम दोष है ॥ ५ ॥ ऐसे दान जो वैयावृत्य ताके पंच अतीचार टालि महाविनयतैं शुद्ध दान करो ।

इति श्रीस्वामिसंमतभद्राचार्यविरचित रत्नकरण्डश्रावका-

चरविषै शिखाव्रतनिका वर्णन करि चतुर्थ

अधिकार समाप्त भया ॥४॥



अब श्रीपरमगुरुनिका प्रसादकरि परमागमकी आज्ञाप्रमाण भावनानामा महाधिकार लिखिए है । समस्त धर्मका मूल भावना है । भावनातै ही परिणामनिकी उज्ज्वलता होय है । भावनात मिथ्यादर्शन का अभाव होय है । भावनातै व्रतनिमें दृढ़ परिणाम होय है । भावनातै वीतरागता की वृद्धि होय है । भावनातै अशुभ ध्यानका अभाव होय शुभध्यानकी वृद्धि होय है । भावनातै आत्मा का अनुभव होय है । इत्यादिक हजारों गुणनिकूँ उपजावनेवाली भावना जानि भावना-कूँ एक क्षण हू मति छाँडो । अब प्रथम ही पंच व्रतनिकी पञ्चीस भावना जानहू । अहिंसा अणुव्रत धारण करता पुरुष के पांच भावना विस्मरण नाहीं होय है । मनके विषे अन्यायके विषयनिके भोगनेकी वांछाका अभावकरि दुष्टसंकल्पनिकूँ छाँडि अपनी उच्चताकूँ नाहीं चाहना अन्यजीवनिके विघ्न इष्टवियोग, मानभंगादि तिरस्कार, धनकी हानि, रागादिक नाहीं चाहना सो मनोगुप्ति है ॥१॥ हास्यके वचन विवादके वचन, अभिमानके वचन नाहीं कहना तथा कलह के अपयशके कारण वचन नाहीं कहना सो वचन गुप्ति है ॥ २ ॥ बहुरि त्रसजीवनिकी विराधना टालिकरि हरिततृण कर्दमदिककूँ छाँडि देखि शोधि गमन करना तथा चढ़ना उतरना उलंघना, बड़ा यत्नतै अपना सामर्थ्यप्रमाण ऐसा करना जैसे अपना हस्त पादादि अंग-उपांगनि में वेदना नाहीं उपजै अन्य जीवके बाधा नाहीं होय तैसे हलन-चलन धीरतातै करना सो ईर्या समति है ॥३॥ जो वस्तु अन्न पान वस्त्र आसन शय्या काष्ठ पाषाण मृत्तिकाके तथा पीतल कांसी लोहसुवर्ण रूपा इत्यादिकके वासन पात्र तथा घृतादि रस इत्यादिक गृहस्थके परिग्रह है तिनकूँ यतनतै उठावना मेलना जैसे अन्य जीवनिका घात नाहीं होय अपने अङ्गमें पड़ने गिरने करि पीड़ा नाहीं उपजै उजाड़ बिगाड़ होनेतै आपकै अन्यकै संक्लेश नाहीं उपजै तैसे धरना मेलना हिंसाका कारण तथा हानिका कारण जो घसीटना सो नाहीं करै ताकै आदान-निक्षेपणसमिति नाम भावना होय है ॥४॥ बहुरि गृहस्थ जो भोजनपान करै सो अभ्यंतर तो द्रव्य क्षेत्र काल भावकी योग्यता अयोग्यता विचार करै । योग्य देखि करै । अर बाह्य दिवसमें उद्योतमें नयनतै अवलोकन करि बारम्बार शोधि धीरपनातै आसादिककूँ मुखमें देय भक्षण करै । गृद्धितातै विना विचारयां विना शोष्यां भोजन नाहीं करै सो आलोकितपानभोजन नाम भावना है ॥५॥ ऐसै अहिंसा अणुव्रतकी पाँच भावना कहीं । सो निरन्तर नाहीं भूलना ।

अब सत्य अणुव्रतकी पंच भावना कहिये—क्रोधत्याग, लोभत्याग, भीरुत्वत्याग, हास्यत्याग, अनुवीचीभाषण ये पाँच भावना सत्यअणुव्रतकी हैं । जो सत्यअणुव्रत धारै सो क्रोध करनेका त्याग करै ऐसा विचारै जो क्रोधी होय वचन बोलै है ताकै सत्य कहना नाहीं बनै है यातै क्रोध त्यागै ही सत्य रहै । अर जो कर्मके उदयतै गृहस्थ के कोऊ बाह्य विपरीत निमित्त मिलनेत क्रोध उपजि आवै तो ऐसा चिंतवन करै जो मेरे परिणाममें क्रोधजनित तातई उपजि आई

है तातैं मोक्कूँ अब मौन ग्रहण ही करना, अब वचन नाहीं बोलना । जो वचनकूँ रोक्कूँगा तो कषाय विसंवाद नाहीं बर्धैगा । हमारा क्षमादिगुण हू नाहीं विगडैगा । तातैं मेरे हृदय में क्रोध-जनित अग्निका उपशम नाहीं होय तितने वचनकी प्रवृत्ति नाहीं करनी । ऐसा दृढ विचार करै ताके सत्यकी क्रोधत्यागभावना होय है ॥ १ ॥ लोभके निमित्ततैं सत्य वचन नाहीं प्रवर्तै है । तातैं अन्यायका लोभ छांडना सो लोभत्यागभावना है ॥ २ ॥ बहुरि भयके दश होय ताके सत्यवचन नाहीं होय तातैं भयका त्याग भये सत्य होय है ॥ ३ ॥ बहुरि हास्यमें सत्य नाहीं कह्या जाय है । यातैं सत्यअणुव्रती हास्यकूँ हू दूरहीतैं छांडै है ॥ ४ ॥ बहुरि जिनसूत्रसूँ विरुद्ध-वचन नाहीं कहै । जिनसूत्रके अनुकूल वचन बोलना सो अनुवीचीभाषण नाम भावना है ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो अपने सत्यअणुव्रत पालन किया चाहैगा सो क्रोधके कारणनिकूँ रोक्कै है । जाके वास्ते अनेक असत्यमें प्रवर्तना होय ऐसा लोभकूँ हू छांडि देगा अर जातैं धर्मविरुद्ध लोकविरुद्ध वचनमें प्रवृत्ति होजाय ऐसा धन विगडनेका शरीर विगडनेका भय नाहीं करेगा । अर जो अपना सत्यवादीपनाकी रक्षा किया चाहैगा सो अन्यका हास्य कदाचित् नाहीं करैगा । अर जिनसूत्रसूँ विरुद्ध वचन कदाचित् नाहीं कहैगा ।

अब अचौर्यअणुव्रतकी पांच भावना कहिये है । शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष्यशुद्धि, सधर्माविसम्वाद ए पांच भावना अचौर्यव्रत की हैं । यातैं अचौर्यअणुव्रतका धारक गृहस्थ हू पांच भावना निरन्तर भावता रहै । व्यसनी मनुष्य तथा दुष्ट मनुष्य तीव्रकषायी कलहका करनेवाला पुरुषनिकरि शून्य मकान होय तहां बसनेका भाव राखै । जातैं तीव्रकषायी दुष्टनिके नजीक बसने में परिणामकी शुद्धता नष्ट होजाय दुर्ध्यान प्रकट होजाय तातैं पापीनिकरि शून्य मकानमें बसना सो ही शून्यागार भावना है ॥ १ ॥ बहुरि जिस मकानमें अन्य दूजाका भगडा नाहीं होय तहां निराकुल बसना सो विमोचितावास है ॥ २ ॥ बहुरि अन्यके मकानमें आप जवरीतैं नाहीं धंस बैठना सो परोपरोधाकरण भावना है ॥ ३ ॥ बहुरि अन्याय अभक्ष्यकूँ त्यागि भोगांतरायका क्षयोपशमके अधीन मिल्या जो रस-नीरस भोजन तामें समता धारि लालसारहित भोजन करना सो भैक्ष्यशुद्धि भावना है ॥ ४ ॥ साधर्मी पुरुषमें वादविसंवाद नाहीं करना सो सधर्माविसंवादभावना है ॥ ५ ॥ ऐसै अचौर्याणुव्रत के धारकनिकूँ पांच भावना भावने योग्य हैं ।

अब ब्रह्मचर्यव्रतकी पांच भावना कहै हैं—स्त्रीरागकथाश्रवणत्याग, स्त्रीनिके मनोहर अंग देखने का त्याग, पूर्वकालमें भोग भोगे तिनका स्मरण करने का त्याग, पुष्टरसका भोजन तथा शन्द्रियोंमें दर्प उपजावनेवाला भोजनका त्याग, अर अपने शरीरके संस्कारका त्याग, ये पांच

भावना ब्राह्मचर्यव्रतकी है । अन्यकी स्त्रीनिकी राग उपजावनेवाली कथा त्यागकी भावना करै ॥१॥ तथा अन्यकी स्त्रीनिके स्तन, जघन, मुख, नेत्रादिक रूपकूँ रागभावतै देखनेका त्याग करै ॥२॥ चण्डरि आपके अणुव्रत धारण हुआ तिस पहली अव्रती होय भोग भोगे थे तिन भोगनिकूँ याद नाहीं करना सो तीजी भावना है ॥४॥ बहुरि हृष्ट पुष्ट कामोद्दीपक करनेवाला भोजनका त्याग सो चौथी भावना है ॥४॥ बहुरि अपने शरीरकूँ अंजन, मंजन, अतर, फुलेलादि कामके विकार करनेवाले आभरण वस्त्रादिका त्याग करनेकी भावना करना सो स्वशरीरसंस्कारत्याग नामा पंचमी भावना है ॥५॥ ऐसे ब्रह्मचर्य नामा अणुव्रतके धारक गृहस्थकूँ पंच भावना भावने योग्य है ।

अब परिग्रहत्यागकी पंच भावना कहै हैं,—जो परिग्रहपरिमाण नामा अणुव्रत धारण करै सो गृहस्थ बहुत पापबन्ध के कारण अन्यायरूप अभक्ष्यनिका तो यावत् जीवन त्याग करै अर अन्तरायकर्मके क्षयोपशम-प्रमाण प्राप्त भये जे पंचेन्द्रियनिके विषय तिनमें संतोष धारणकरि मनोज्ञविषयनिमें अतिराग नाहीं करै अर अति आसक्त नाहीं होय । अर अमनोज्ञ असुहावने मिलै तिनमें द्वेष नाहीं करै, क्लेश नाहीं करै । अर अन्य जीवनिके सुन्दर विषयभोग देखि लालसा नाहीं करना सो परिग्रहपरिमाण अणुव्रतकी पंच भावना है । बहुरि पंच पापनिका महानिन्द्य-पना है ताकी भावनाकूँ हू भावना योग्य है । ये हिंसादिक पंच पाप हैं तिनतै इस लोकमें महा-दुःखकरि अपना नाश है अर परलोकमें घोर दुःख अनेक भवनिमें जानि पापनिताँ भयभीत होय दूरहीतै त्यागना । हिंसा करनेवाला निरंतर भयवान् रहै है । अर जाकूँ मारै ताकै अनेक भवनि पर्यंत वैर का संस्कार चल्या जाय है जाकूँ मारे ताका स्त्री पुत्र पौत्र मित्र कुटुम्बी वैर लेवै है । तिर्यचनि ऊपरि भी लाठी पत्थर शस्त्र चाबुक चलावे ताका वैर तिर्यच हू नाहीं छाँड़ै है । हाथी, घोडा, सर्प ऊंट बहुत दिन पर्यंत वैर धारण करि बदला लेवै हैं, मारै हैं । जगतमें निन्द्य होय हैं पापी कहावै हैं । सर्वमें प्रतीति जाती रहै है । तथा जाकूँ मारै वे आप-कूँ मार ले है । राजाका तीव्र दण्ड भोगै है । हस्त पाद नाक छेद्या जाय है । राजा सर्वस्व हरण करै है । महा अपयश गर्दभारोहणादिक तीव्र दण्ड भोगि नरकादि कुगतिनिमें बहुत काल नाना ताड़न, मारन, छेदन, भेदन, शूलीरोहण, वैतरणीमें मज्जनादि असंख्यात दुःख भोगिता तिर्यच मनुष्यमें तीव्ररोग दारिद्र अपमानादिक भोगता असंख्यात अनन्त भव दुःखका पात्र होय है ।

बहुरि जो अन्य जीवको घात तो नाहीं करै है अर अभिमान क्रोध करि अपने शरीरका बलकरि अन्य मनुष्य-तिर्यचनिकूँ तथा बालककूँ स्त्रीकूँ लात धमूका चांटनितै मारै हैं तथा



लाठी चाबुक वेतनितै मारै हैं, त्रास देवै हैं । ते हू इस लोकमें राक्षसकी ज्यों भयंकर उद्वेग करने वाला महा अर्पयश पाय दुर्गतिका पात्र होय हैं । बहुरि जो निर्दयपरिणामी होय करके विकल-त्रयादिकका कषायके वश होय घोर आरम्भादिक करि घात करै हैं तथा बिना प्रयोजन वनस्पति-का छेदन तथा पृथिवी जल अग्निकायके जीवनिकी अज्ञानभावतै तथा प्रमादतै विराधना करै हैं ते इस लोकमें ही सन्निपात आमघात पक्षाघात संग्रहणी अतिसार वात पित्त कफ खांगी कोठ खाज पांव फोड़ा आदीठ वाला विष कण्टकादि रोगनितै घोर दुःख भोग नाना दुर्गतिनि में रोग अर दारिद्र इष्ट वियोगादिक घोर दुखनिका पात्र होय हैं । यातै हिंसातै इस लोक में घोरदुःखरूप फल जानि हिंसाका त्याग ही सर्व प्रकारकरि करना श्रेष्ठ हैं । बहुरि जो जीवनिकी दयाकरि युक्त होय समस्त जीवनिक् अमयदान देहै । अपने परिणामनितै जीवमात्रकी विराधना नाहीं चाहता यत्नाचाररूप प्रवृत्तता प्रमाद छांड़ि अहिंसा धर्मकू नाहीं भूलै है तिसकी महिमा इहां ही देव करै हैं, पूज्य होय है, समस्त पापनितै रहित होय स्वर्गलोकमें महद्विक देवपना पाय मनुष्यलोकमें विदेहादिक उत्तम क्षेत्रमें महा प्रभावका धारक होय निर्वाण गमन करै ।

अब असत्यवचनका स्वरूप केवल दोषरूप ही है सो प्रगट विचार करहू । असत्य-वादीकी प्रतीति नाहीं रहै है । माता, पिता, पुत्र मित्र स्त्रीनिके हू याकी प्रतीति नाहीं विश्वास नाहीं आवै है तदि अन्य के याका श्रद्धान कैसे होय ? जातै जगतमें जेता व्यवहार है तेता वचनके द्वारै है । जो वचन बिगाड्या सो अपना समस्त व्यवहार बिगाड्या । धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ वचनकरि प्रवृत्तै हैं जाका वचन ही निघ भया ताका चारू पुरुषार्थ निघ होय हैं । असत्यवादी समस्तकै अप्रिय होय है । याकै मायाचार होय ही असत्यके अर कपटके अविना-भावीपना है । कुवचन बोलना, चुगली करना, अर विकथा आत्मप्रशंसा, परकी निंदा ये असत्य-का परिवार है । असत्यवादी इसही लोकमें जिह्वाछेद सर्वस्वहरण तथा जिह्वाके रोगकरि नष्ट होना इत्यादिक घोर दुःखनिकू प्राप्त होय है । अपवादकू पावै है । परलोकमें नरकादिकनिमें परिभ्रमण, तिर्यचगतिमें वचनरहितपना तथा गूंगा बहिरा अंधा दरिद्री रोगीपना पावै है । तथा भूर्खपना वचनकलारहितपना होय है । तथा जगतमें दीनताका विलाप करतो फिरै है तो हू कोऊ श्रवण ही नाहीं करै तातै असत्यवचनका त्याग ही श्रेष्ठ है । अर सत्यके प्रभावतै देवलोकमें गमन, स्वर्गका महद्विकपना होय है । समस्त जगतके आदरनै योग्य वचन होय तथा समस्त उत्तम शास्त्रनिका पारगामी होय । कविपना होय वाग्मीपना होय अनेक जीवनिका उपकार होय जाकी आज्ञा लाखों मनुष्य अंगीकार करै ऐसा सत्यवचनका फल है । जो पूर्वजन्ममें वचनको उज्ज्वलता धारी है ताका वचन श्रवण करनेका लाखों मनुष्य अभिलाष करै हैं जो हमसू बोलै तो हम कृतार्थ हो जावें ये समस्त सत्यवचनका प्रभाव है ।

अथ चोरीके दोषनिकी भावना कहिये है। चोर मनुष्य समस्तके भय उपजावनेवाला होय है माता हू चोरी करनेवाले पुत्रका बड़ा भय करै है तथा हितू वांधवादिक कोऊ चोरका संसर्ग नहीं चाहै हैं याका संसर्गतै कलंक चढि जायगा कोऊ राजाकी आपदा आजायगी। तथा हमारा कुछ ले जायगा ऐसा भय नाही छांडै हैं। चोर समस्तमें नीचा होजाय है, चोरकै काहूके मारनेकी दया नाही होय है, असत्य कपट छल अनेक चोरनिके निश्चयतै होय ही है चोर पापीनिमें महापापी है। चोरका कोऊ सहाई नाही होय है। पिता माता स्त्री पुत्रादिक समस्त कुटुम्ब चोर की लार नाही लागे हैं। धीज प्रतीति सब जाती रहै है। कोऊ स्थानदान नाही देवै है। चोर जानि समस्त मारने लागि जाय है। राजानिकरि तीव्र मारन ताडन हस्त नासिका छेदन मारन दंड होय है। वंदीखानाकू बहुत दीर्घकाल सेवन करि अपवाद पाय मरणकरि घोरनरककी वेदना भोगता असंख्यात अनंतकाल तिर्यचनिमें भूख प्यास ताडन मारन लादन घसीटनादि असंख्यात भवनिमें पावै है। मनुष्य होय तो महानीच दरिद्री रोगी वियोगी घोर लुधा तृषा मारन बंधन चोरीके कलंकादि सहित निरादरका दुःख भोगता पैड पैडमें याचना करता घोर दुःख भोगनेका संतान चल्या जाय है। यातै चोरीका दूरहीतै परिहार करो। अपने पुण्य पाप के अनुकूल जे विषय मिले हैं तिनमें सतोष धारणकरि अन्य के धनमें स्वप्नहूमें वांछा मति करो। परका धन पुण्य विना आवनेका हू नाही। पूर्व जन्ममें कुपात्र दान किया कुतप किया तातै परका धन हाथ लागि जाय तो हू कै दिन भोगेगा। महासंकलेशतै अल्पआयु भोग दुर्गतिनिमें जाय प्राप्त होयगा। यातै चोरीकाहू दूरहीतै त्याग करना श्रेष्ठ है। जिनके परधनमें इच्छा नाही है। अपना पुण्यपाप के अनुकूल मिल्या तिसमें संतोष धारणकरि अन्यायका धनमें कदाचित् चित्त नाही चलावै हैं तिनका इसलोकमें हू यश है प्रतीति है समस्तमें आदर होय है। जाका परिणाम परधनमें नाही अपने उपार्जन कियाहीमें मंदरागी है तिनके एक हू क्लेश नाही आवै अशुभ कर्म का बंध नाही होय है समस्त जगत अपना धन दीजै है परलोकमें देवलोककी अपरिमाण विभूति असंख्यात कालपर्यंत भोगि मनुष्यनिमें राजाधिराज मंडलेश्वर चक्रवर्तीनिका विभव भोगि क्रमतै निर्वाणकू प्राप्त होय है। यातै भगवान वीतरागका धर्म धारण करि अन्यायका धनका त्याग करि रहना ही श्रेष्ठ है।

अथ कुशीलके दोषनिकी भावना चिंतवनकरि विरक्त हो जाना योग्य है। कुशीलपुरुष है सो कामका मदकरि उन्मत्त हुआ मदोन्मत्त हस्तीकी ज्यों विचरै है। स्त्रीनिके रागकरि ठिग्या हुआ दोऊ लोकका विचाररहित कार्य-अकार्यकू नाही जाने है। भद्व्य-अभद्व्य योग्य-अयोग्यका विचाररहित होय है। पाप-पुण्यकू नाही देखे है। प्रत्यक्त आपदा अपयश होता दीखै है तो हू

कामकी अंधेरीतैं नाहीं देखै है । कामसारखी दृजी अन्धेरी त्रै लोकमें नाहीं है । कामकरि आच्छा-  
दित मनुष्यपर्यायमें हू पशुसमान है । पशुमें अर कामांधमें भेद नाहीं है । कामकरि अंध हुआ  
वनादिकमें तिर्यच कटिकटि मरि जाय है मनुष्य जन्ममें हू मरि जाय है अर मार ले है । कामांधके  
धर्म अधर्मका विचार नाहीं रहै है । लोकलाज मूलतैं नष्ट हो जाय है । परस्त्री-लंपटनिकूं  
अनेक ओछे आदमी मार लेवै हैं । राजदिकनिकरि लिंगच्छेदन सर्वस्वहरणादि दंडनिकूं प्राप्त होय  
हैं मरि करि नरकादि दुर्गतिनिमें परिभ्रमण करि तिर्यच-मनुष्यनिमें घोर दुःख भोगता नीच चांडाल  
चमार धीवरनिमें महादरिद्री महाक्रूरुप कोठी अंगहीन आंश्रो लूलो पागलो कूबडो इत्यादि नीच  
मनुष्यनिमें उपजिकरि नरक बहुरि तिर्यच बहुरि कुमानुष नपुंसकादि भवनिमें दुःख भोगे हैं ।  
ताते कुशीलका त्याग ही श्रेष्ठ है । बहुरि शीलवंत पुरुष स्वर्ग लोकमें कोट्यां अपछराने सेव्यमान  
हुआ असंख्यात कालपर्यंत भोग भोगता मनुष्यनिमें प्रधान मनुष्य होय अनुक्रमतैं मोक्षका पात्र  
हाय है ।

अब परिग्रहकी ममताका दोष चितवनकरि परिग्रहतैं विरागी होना श्रेष्ठ है । परिग्रहकी  
ममता समस्त पंचपापनिमें प्रवृत्ति करावे है । परिग्रहकरि तृप्ति नाहीं आवै है । जैसे ईंधन  
करि अग्नि बधै है तैसे तृष्णारूप अग्निकरि निरंतर बधै है । अर परिग्रहके उपार्जनमें रक्षणमें  
अर नाशमें महान् दुःखित होय है । परिग्रहकी ममताका धारक धर्म अधर्मका जीवन-मरणका  
विचार रहित होय है परिग्रहकी ममता हिंसा असत्य चोरी कुशील अभक्ष्य बहु आरम्भ कलह वैर  
ईर्ष्या भय शोक सन्ताप इत्यादिक हजारों दोषनिमें प्रवृत्ति करावै है । संसारमें जेता बन्धन अर  
पराधीनता अर कपाय अर दुःख है तितना परिग्रहतैं है अर परिग्रहका त्यागना है सो बड़ा  
भागका उतारना है । परिग्रहका त्यागी निर्बंध है । परिग्रहत्यागका फल स्वर्गमुक्ति है यातैं परि-  
ग्रहका त्याग ही समस्त कल्याणका मूल है ऐसै हिंसा असत्य चोरी कुशील परिग्रहनिमें दोष है  
तिनकी भावना भावनी ।

बहुरि ये पंचपाप दुःख ही है ऐसी भावना राखना हिंसादिक दुःखका कारण है तातैं  
हिंसदिक पंच पाप है ते दुःख ही हैं । हिंसादिक दुःखका कारणनिमें कार्यका उपचार किया है  
नार्गे पंचपापनिकूं दुःख ही कइथा है । जैसे बध बन्धन पीडन मोक्ष अप्रिय है तैसे ही समस्त  
अन्य प्राणीनिकूं ह अप्रिय हैं जैसे भूठ कटुक कठोर वचन मोक्ष कोऊ कहै ताके श्रवण करनेतैं  
हमारे अतितीव्र दुःख उपजै है तम अन्य जीवनिके ह कटुकवचन असत्यवचन दुःख उपजावै हैं  
जैसे भोग इष्टवस्तु कोऊ चोर ले जाय तो मेरे महादुःख होय है तैसे अन्यजीवनिके ह धन  
हस्तेरा दुःख होय है जैसे हमारी स्त्रीका कोऊ तिरस्कार करे तिसकरि हमारे तीव्र मानसिक पीडा

होय है तैसँ अन्य जीवनिके हू अपनी माता बहण पुत्री स्त्रीके व्यभिचारकूँ श्रवणकरि देखने करि अति दुःख होय है । जैसे धन-धान्य वस्त्रादिक नहिँ मिलनेतँ तथा प्राप्त हुआ ताकूँ नष्ट होनेतँ वांछा रत्ना शोक भयकरि अपने दुःखितपना होय है तैसँ परिग्रहकी वांछातँ तथा परिग्रहके नष्ट होने तँ समस्तजीवनिके दुःख होय है तातँ हिंसादिक पापनितँ विरक्त होना ही जीव का कल्याण है ।

यहां कोऊ कहै कोमल अंगकी धारक स्त्रीनिके अङ्गके स्पर्शन तँ रतिसुख उपजता देखिये है, दुःखरूप कैसँ कखा ।

उत्तर—इन्द्रियनिका विषयनितँ उपज्या सुख सुख नहिँ है भ्रांतितँ सुखरूप दीखै है पहली विषयनिकी चाहरूप महावेदना उपजै है वेदना उपजै तब ताके दूर करनेको चाहै जैसे देहमें चाम मांस रुधिर है ते सब विकारतँ क्लृपणानै प्राप्त हो जाय जब खाजि उत्कटताकूँ प्राप्त होय तब नखनितँ ठीकरीतँ पत्थरतँ अपना शरीरकूँ खुजावै है । गात्रकूँ छेदने रगडनेतँ रुधिर-करि लिप्त हुआ हू अत्यन्त खुजायकरि दुःखहीकूँ सुख मानै है तैसँ मैथुनका सेवनहारा हू मोहतँ दुःखहीकूँ सुख मानै है तथा मनुष्य तिर्यच असुर सुरेन्द्रादिक समस्त ही जीव अपने देहकी साथि उपजी इन्द्रियां तिनकरि उपज्या जो विषयनिकी चाह रूप आताप ताका दुःख सहनेकूँ असमर्थ भया महानिध विषयनिमें अति लालसा करि भ्रंभापात लेवै है । अग्निकरि तप्तयमान लोहेका गोलाकी ज्यों इन्द्रियनिका ताप करि तप्तयमान जो आत्मा ताके विषयनिमें अतितृष्णातँ उपज्या अति दुःखरूप वेगके सहनेकूँ असमर्थ भया विषयनिमें पड़ै है । जैसे कोऊ पुरुष च्यारों तरफ अग्निकी ज्वालातँ बलता अग्निके आतापकूँ नहिँ सहि सकता विष्ठाका भरधा महा दुर्गंध अति ऊंडा खाडामें जाय पड़ै है तिस विष्ठामें मस्तकपर्यंत डूवि ताकूँ ही तापरहित सुख मानि मरण करै है । तैसँ ही संमारी जीव स्पर्शन इन्द्रिय का विषयकी चाहरूप आतापके सहनेकूँ असमर्थ हुआ स्त्रीनिका दुर्गन्ध मलीन देहमें डूवि कामको आतापरहित सुख मानता अति तृष्णातँ उपज्या तीव्र दुःखकूँ भोगता मरण करि संसार में नष्ट हो जाय है ।

तथा इस जीवकै ये इन्द्रियां तो आताप दुःख करनेवाली महाव्याधि है अर ये विषय हैं ते किंचित् काल दाहकी उपशमताका कारण विपरीत अपथ्य औषधि हैं । जिनकरि विषय-निकी चाहरूप दाह बधता चल्या जाय है घटै नहिँ है भ्रमतँ इलाज मानै है जिनकै इन्द्रियां जीवती तिष्ठै हैं तिनके स्वाभाविक ही दुःख है, दुःख नहिँ होय तो विषयनिमें उछलि उछलि कैसँ पड़ै सो देखिये ही है कपट की हथिनी का शरीरका स्पर्शके अर्थि वनका हस्ती स्पर्शता इन्द्रिय की आतापकरि खाडामें पडि घोर बन्धनकूँ भोगे है, बहुरि जलकी चंचल मछली

रसना इन्द्रियके वसि होय धीवरकरि पसारया कांटामें फंसकरि प्राणरहित होय है । घ्राण-इन्द्रिय-का आतापका मारया भ्रमर है सो संकोचके सन्मुख कमल'का गंधकू' ग्रहण करता कमलमें प्राणरहित होय है । नेत्रइन्द्रियजनित सन्ताप कू' नाहीं सहि सकता पतङ्ग जीव रूपका लोभी दीपककी ज्वालामें भस्म होय है । कर्ण-इन्द्रियजनित श्रवण करनेकी तृष्णाका आतापकू' नाहीं सहनेकू' समर्थ ऐसा हिरण शिकारीकरि गायया रागमें अचेत होय मारया जाय है । ऐसैं दुर्निवार इन्द्रियनिकी वेदनाके वश पड़े जीव ते निकट ही है मरण जिनमें ऐसे विषयनिविषै यतन करै है । इन्द्रियजनित आतापतुल्य त्रैलोक्यमें आताप नाहीं है जैसे इन्द्रियनिका विषयनिकी चाहका आताप है तैसा आताप अग्नि में नाहीं है, शस्त्रका नाहीं है, विषका नाहीं है, इन्द्रियनिका आताप सहनेकू' असमर्थ भये विषयनिके अर्थि अग्निमें बलैं है शस्त्रनिके सन्मुख होय मरै हैं, विषभक्षण करै हैं धर्मकू' लोपैं हैं माता पिता गुरु उपाध्यायकू' विषयनिका रोकनेवाला जाण मारि डारै हैं । इस संसारमें इन्द्रियनितें केवल दुःख ही है जिनकें इन्द्रियरहित अतीन्द्रिय केवलज्ञान है तिनहीके निराकुलता लिये ज्ञानानंद सुख है यातैं जे इन्द्रियांके अधीन हैं ताकें स्वाभाविक दुःख ही है, जो स्वाभाविक दुःख नाहीं होय तो विषयनिमें प्रवृत्ति कैसे करै ? जाके शीतज्वर मिटि गया सो अग्नि तैं तापना नाहीं चाहैगा, जाके दाहज्वर मिटि गया सो कांज्याका सींचना नाहीं चाहैगा, जाके नेत्ररोग मिटि गया सो खपरधा अंजनादिक नेत्रनिमें डारधा नाहीं चाहैगा, जाके कर्णका शूल मिट गया सो कर्णमें बकराका मूत्रादिक नाहीं डारैगा, जाके ब्रणघाव मिटि गया सो मल्लिम पट्टी नाहीं करैगा । तैसे ही जाके इन्द्रियजनित वेदना नाहीं ताके विषयनिमें प्रवृत्ति कदाचित् नाहीं होयगी । लुधावेदना विना भोजन कौन करै, तृषावेदना विना जल कौन पीवै, गरमी की बाधा विना शीतल पवन कौन चाहै, शीतकी बाधाविना रुई का भरधा वस्त्र तथा रोमका वस्त्र कौन ओढ़ै । तातैं ए समस्त विषय-वेदनाके इलाजके हैं इन विषयनितैं किंचित् काल वेदना घटि जाय ताकू' अज्ञानी सुख मानै हैं सो सुख वास्तवमें सुख नहीं हैं सुख तो यो है जहां वेदना नाहीं उपजै है । अनाकुलता-लक्षण स्वाधीन अनन्त ज्ञान है सो ही सुख है अन्य नाहीं हैं ऐसैं निश्चय जानहु । ऐसैं हिसादिकनिकू' दुःखरूप ही चिंतवन करनेकी भावना भावयो योग्य है ।

अब श्रावककू' मैत्र्यादिक च्यारि भावना भावने योग्य हैं तिनकू' कहै हैं—एकेन्द्रियादिक समस्त प्राणीविष मैत्रीभावना भावै जो कोऊ प्राणीनिकै दुःखकी उत्पत्ति मति होहु ऐसा अभिलाष रखना सो मैत्री भावना है । अर जे सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्र तप इत्यादिकनिकरि अधिक होय तिनमें प्रमोद भावना करना । प्रमोद नाम हर्षका आनन्दका है सो गुणनिकरि

अधिककूँ देखि परिणाममें ऐसा हर्ष उपजै जैसे जन्म दारिद्री निधीनिकूँ पाय हर्ष करै । गुणवन्तनिकूँ देखतां प्रमाण हर्षका रोमांच होना तथा मुखकी प्रसन्नता करि नेत्रनिका प्रफुल्लित होना हृदयमें आह्लादन स्तुतिभाषण नामकीर्तनादि करि अंतर्गत भक्तिका प्रगट करना सो प्रमोद भावना है । बहुरि असातावेदनीकर्मका उदयकरि रोगदारिद्रादिकरि पीडित जे क्लेश सहित प्राणी तथा इन्द्रियनिकरि विकल आंधा बहिरा लूला तथा अनाथ विदेशी तथा अति वृद्ध बाल तथा विधवा इत्यादिक दुःखित प्राणीनिके दुःख मेटनेका अभिप्राय सो कारुण्य भावना है । बहुरि जे धर्मरहित तीव्रकपायी हठग्राही उपदेश देनेके अयोग्य विपरीतज्ञानी, धर्मद्रोही, दुष्ट-अभिप्रायी, निर्दयी तिनविषै रागद्वेषका अभावरूप माध्यस्थ भावना करना ।

भावार्थ—समस्त प्राणीनिके दुःखका अभाव चाहना सो मैत्री भावना है । बहुरि गुणनिकरि अधिक होय तिन पुरुषनिकूँ देखि करि, श्रवणकरि महान् हर्षका उपजावना सो प्रमोद भावना है । दुःखित देखि उपकार बुद्धिका उपजना सो कारुण्य भावना है । बहुरि हठग्राही निर्दयी अभिमानिनिमें रागद्वेषरहित रहना सो माध्यस्थ भावना है । ऐसै धर्मके धारक श्रावकनिकूँ मैत्र्यादि च्यारि भावना भावना योग्य है । बहुरि गृहस्थनिकूँ जगत्का स्वभाव अर कायका स्वभाव हूँ चिंतवन करना योग्य है जगत्का स्वभाव चिंतवन करनेतै संसार परिभ्रमणका भय उपजै है अर देहका स्वभावरूप चिंतवन करनेतै रागभावका अभाव होय है यो जगत् कहिये लोक है सो अनादिनिधन है अर्द्धमृदंग ऊपरि एक मृदंग धरिये ऐसा ब्योड मृदंगसा आकार है । चौदह राजू ऊँचा है दक्षिण उत्तर सर्वत्र सात राजू चौडा है अर पूर्व-पश्चिम नीचै सात राजू है ऊपरि क्रमतै घटता-घटता सात राजू ऊँचा जाय एक राजू चौडा रखा है फेरि ऊपरि क्रमतै बधता-बधता साढा तीन राजू ऊँचा गया तहाँ पाँच राजू चौडा है । फिर क्रमतै घट्या है सो साढा तीन राजू ऊँचा गया लोकका अन्तमें एक राजू चौडा है ऐसे पूर्व-पश्चिम क्रमतै घटती बढ़ती ऊँचाई जाननी । ऐसे आकारका धारक लोकका एक राजू चौडा एक राजू लम्बा एक राजू ऊँचा विभाग कल्पना करिये तो तीनसै तियालीस खण्ड होय हैं इस लोकरूप क्षेत्रमे अनन्तान्तकाल परिभ्रमण करते व्यतीत भये सो ऐसा कोऊ पुद्गल नाहीं रखा जो शरीरादिकरूप नाहीं धारण किया अर तीनसै तियालीस राजू प्रमाण क्षेत्रमें ऐसा कोऊ एक प्रदेश हूँ बाकी नाहीं रखा जहां अनन्तानन्तवार इस जीवने जन्म नाहीं धरया अर मरण नाहीं किया । अर उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, कालका बीस कोड़ाकोडी सागरमें ऐसा कोऊ एक कालका समय हूँ नाहीं रखा जिसमे यो जीव जन्म-मरण नाहीं किया । अर नरक तिर्यच मनुष्य देव इन चार गतिनिमें जघन्य आयुकूँ लेय उत्कृष्ट आयुपर्यंत समयोत्तर ऐसा कोऊ पर्याय बाकी नाहीं रखा जाकूँ अनन्तवार नाहीं

पाया । वहुरि ज्ञानावरणादिक समस्तकर्मनिकी मिथ्यादृष्टिके बन्ध होने योग्य जघन्यस्थिति तो अंतः कोटाकोटि सागर परिमाण है अर उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय अन्तराय इन चार कर्मनिका तीस कोटाकोटी सागर की है अर मोहनीयकर्मकी उत्कृष्टस्थिति सत्तर कोटाकोटी सागर प्रमाण है अर नामकर्म अर गोत्रकर्मकी उत्कृष्टस्थिति बीस कोटाकोटी सागर प्रमाण है अर आयुर्कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीससागरकी है । सो जघन्य स्थितिकूं आदि लेय समय-समयकरि उत्कृष्टस्थिति वृद्धि पर्यंत जो कर्मनिकी स्थिति है तिन समस्त स्थितिनिके एक स्थानकूं असंख्यातलोक प्रमाण कषायनिके स्थान कारण हैं ते कषायनिके एक-एक स्थान अनन्तवार संसारी जीवकै भये हैं तातैं ऐसा परिभ्रमणरूप जगतमें जीव है ते नानाभेदरूप चतुर्गतिमें परिभ्रमण करता निरन्तर दुःख भोगे है । कोऊ जीव निश्चल नाहीं है जलका बुदबुदातुल्य जीवन अथिर है, अर भोगसम्पदा मेघपटलवत् विनाशीक है, राज्य धन-सम्पदा इन्द्रधनुषवत् क्षणभंगर है । इस संसारमें प्राणी अनन्तानन्त परिवर्तन करैं हैं ऐसैं संसारका सत्यार्थस्वरूप चिंतवन करनेतैं संसारपरिभ्रमणतैं भय उपजै है ।

वहुरि कायका चिंतवन करिये है यो मनुष्य शरीर है सो रोगरूप सर्पनिको विल है अनित्य है दुःखका कारण है अपवित्र निःसार है कोटि यत्न करते-करते हू विनसि जाय है यो शरीर धोवते-धोवते मैलकूं निरन्तर उगलै है सुगंध अतर फुलेल लगाते-लगाते दुर्गंध बमै है पोषते-पोषते बल नाहीं धारै है सुखतैं राखते-राखते अपना नाहीं होय है, भूषित करते-करते विडरूप दिन-दिन होय है सुधारतां सुधारतां दिन-दिन भयानकता धारै हैं सुख देतां-देतां दुःखी हुआ जाय है मन्त्रते-मन्त्रते निरन्तर भयभीत रहै है दीक्षारूप होतां-होतां हू साधुनिका मार्गकूं दूषित करै है, शिचा देते-देते गुणनिमें नाहीं रमै है, दुःख भोगते-भोगते हू कषायनिका उपशमभावकूं प्राप्त नाहीं होय है, रोकते-रोकते हू पापहीमें प्रवर्तन करै है प्रेरणा करते-करते हू धर्मकूं नाहीं धारण करै है मर्दन करते-करते हू दिन-दिन कठोर कर्कश होता जाय है रुक्त करते-करते आमकूं धारै है तैलादिक रमावते-रमावते हू वासकूं प्राप्त होय हैं चंदनादिकतैं सींचते-सींचते हू पित्तकरि जलै है । सोपाण करते-करते हू कफकूं गलै है । पूछतां-पूछतां कोढ़ादिक रोगतैं मिलै है चामडा-करि बंध्या है तो हू चीण होता चल्या जाय है रक्षा करते-करते हू कालका मुखमें प्रवेश करै है । शरीरका ऐसा निच स्वभाव चिंतवन करनेतैं शरीरमें राग भाव नष्ट होय जाय है यातैं जगत्का स्वभाव अर काय का स्वभाव संवेग जो संसारतैं भय अर वैराग्यके अर्थि चिंतवन करना श्रेष्ठ है ।

वहुरि षोडश कारण भावना हू श्रावकके भावने योग्य हैं षोडशकारण भावनाका फल तीर्थकरपना है इमहीकरि तीर्थकरप्रकृतिका बंध अत्रती सम्यग्दृष्टि हूकै होय अर देशत्रती श्रावकहूके होय अर

प्रमत्तसंयत हूके होय है सर्वोत्कृष्ट पुण्यप्रकृति तीर्थकरि प्रकृति है इसतैं अधिक पुण्यप्रकृति त्रैलोक्यमें नाहीं है । उक्तं च गोमट्टसारे कर्मकांडे—

पठमुवसमिये सम्मे सेसतिये अविरदादि चत्तारि ।

तिथ्यरबंधपारंभया एरा केवलिदुगंते ॥ ६३ ॥

अर्थ—तीर्थकर प्रकृतिके बन्धका आरम्भ कर्मभूमिका मनुष्य पुरुषलिंगधारीहीके होय है अन्य तीन गतिमें आरम्भ नाहीं होय । अर केवली तथा श्रुतकेवलीके चरणारविंदकैं समीप ही होय केवली श्रुतकेवलीका निकट विना तीर्थकर प्रकृतिका बन्धके योग्य भावनाकी विशुद्धता नाहीं होय है । अर तीर्थकरप्रकृतिका बन्ध प्रथमोपशमसम्यक्त्व में होय तथा शेषत्रिक जो द्वितीयोपशम तथा क्षयोपशम तथा क्षायिक इन चार सम्यक्त्वमें कोऊ एकमें होय है इस तीर्थकरप्रकृतिबंधके कारण षोडशकारणभावना हैं ये भावना समस्त पापका क्षय करनेवाली भावनिके मलकू' विध्वंस करनेवाली श्रवण पठन करते संसारके बंध छेदनेवाली निरंतर भावने योग्य हैं ।

अब यहाँ षोडशभावनाकी षोडश जयमाला पढि महान् पुण्य उपार्जन करिये है तिनही का अर्थकू' भावनिकी विशुद्धता अर अशुभ भावनिका नाशके अर्थ लिखिए है ।

अथ समुच्चयजयमालका अर्थ प्रथमही लिखिये है—हे संसारसमुद्रतैं तारनेवाला, कुमतिकू' निवारण करनेवाला हे तीर्थकर-स्वलब्धिकू' धारण करनेवाला, हे शिव ! जो निर्वाणका कारण, हे षोडशकारण ! मैं तिहारे ताई' नमस्कार करके तेरा स्तवन करू' हूँ अर मेरी शक्तिकू' प्रगट करू' हूँ ।

भावार्थ—षोडशकारण भावना जाकैं हो जाय सो नियमसू' तीर्थकर हो जाय संसार-समुद्रकू' तिरै ही ऐसा नियम है । बहुरि षोडशकारण भावना जाकैं होय ताकैं कुगति नाहीं होय, केई तो विदेहक्षेत्रनिविषै गृहाचारमें षोडशकारण भावना केवलीके अथवा श्रुतकेवलीके निकट भाय उसी भव में तपकल्याण ज्ञानकल्याण निर्वाणकल्याण देवनिकरि पाय निर्वाणकू' प्राप्त होय है । अर केई पूर्व जन्ममें केवली श्रुतकेवलीके निकट भावना भाय सौधर्म स्वर्गकू' आदि लेय सर्वार्थ-सिद्धि पर्यंतअहमिंद्र उपजि करि फिर तीर्थकर होय निर्वाण पावै हैं । कोई पूर्वजन्ममें मिथ्यात्व के परिणाममें नरकका आयु बन्ध किया फिर केवली श्रुतकेवलीका शरण पाय सम्यक्त्व ग्रहण-करि षोडशकारण भावना भाय नरक जाय नरकतैं निकसि तीर्थकर होय निर्वाणकू' प्राप्त होय हैं । पूर्वजन्ममें षोडशकारण भावना करि तीर्थकरप्रकृति बांधै है ताकैं पंच कल्याणकी महिमा होय है अर जो विदेहनिमें गृहस्थपनामें तीर्थकर प्रकृति बांधै सो उसही भवमें तप ज्ञान निर्वाण



तीन कल्याणनिर्मेन्द्रादिकरि पूजन पाय निर्वाणकूँ प्राप्त होय हैं । केई विदेहक्षेत्रनिर्मे मुनिके व्रत धरयां पाछै केवलीके निकट षोडशकारण भावना भाय उसी भवमें तीर्थकर होय ज्ञान, निर्वाण दोय कल्याणकी पूजाको प्राप्त होय हैं । तप कल्याण ताकै पहले ही भया तातें नाहीं होय है । जाकै तीर्थकरप्रकृतिका बन्ध होय जाय सो भवनत्रिक देवनिर्मे अन्य मनुष्य तिर्यचनिर्मे भोगभूमिमें स्त्री नपुंसक एकेन्द्रिय विकल-चतुष्कादि पर्यायनिर्मे नाहीं उपजै है अर तीसरी पृथ्वीतै नीचे नाहीं उपजै है याही तै षोडशकारण भावना कुगतिका निवारण करनेवाली है । बहुरि षोडशकारण भावना हुआ पाछै तीजे भव निर्वाण होय ही, तातै शिवका कारण है अर तीर्थकरत्व ऋद्धि षोडशकारणतै ही उपजै है तातै हे षोडशकारणभावना ! मैं तुम्हें नमस्कारकरि धारो स्तवन करूँ हूँ ।

हे भव्यजीवो ! इस दुर्लभ मनुष्यजन्ममें पञ्चीस दोषरहित दर्शनविशुद्धता नाम भावना भावहु । सम्यग्दर्शनके नष्ट करनेवाले दोषनिकूँ त्यागना सोही सम्यग्दर्शनकी उज्ज्वलता है । तीन मूढता, अष्ट मद, छह अनायतन शंकादि अष्ट दोष ये सत्यार्थ श्रद्धानकूँ मलीन करनेवाले पञ्चीस दोष हैं तिनका दूरहीतै त्याग करो । बहुरि चार प्रकारका विनय जैसे भगवान्का परमागममें कथा तैसै दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, उपचारविनय ये चार प्रकार विनय जिनशासनका मूल भगवान् जिनेन्द्र कथा है । जहां चारप्रकार विनय नाहीं है तहां जिनेन्द्रधर्मकी प्रवृत्ति ही नाहीं तातै जिनशासनका मूल विनयरूप ही रहना योग्य है । बहुरि अतीचाररहित शील कूँ पालहु । शीलकूँ मलीन नाहीं करना सो उज्ज्वलशील मोक्षके मार्गमें बड़ा सहाई है जाके उज्ज्वलशील है ताके इन्द्रिय विषयकषाय परिग्रहादिक मोक्षमार्गमें विस्त नाहीं कर सकै हैं । इस दुर्लभ मनुष्यजन्मविषै क्षण-क्षणमें ज्ञानोपयोगरूपहीर हो सम्यग्ज्ञान विना एक क्षण हू व्यतीत मत करो अन्य जे संकल्प-विकल्प संसारमें डबोवनेवाले हैं तिनका दूरहीतै परित्याग करो । बहुरि धर्मानुराग करि संसार-देह भोगनितै विरागत्तरूप संवेग भावना मनके माहीं चितवन करते रहो जातै समस्त-विषयनिर्मे अनुरागका अभाव होय धर्ममें अर धर्मका फलमें अनुरागरूप प्रवर्तन दृढ़ होय । बहुरि अतरंगमें आत्माके घातक लोभादिके चार कषायनिका अभाव करि अपनी शक्तिप्रमाण सुपात्रनिके रत्नत्रयगुणमें अनुराग करि आहारादिक चार प्रकार का दानमें प्रवृत्ति करो । बहुरि दोय प्रकार अंतरंग बहिरंग परिग्रहमें आसक्तता छांड़ि समस्त विषयनिकी इच्छाका अभावकरि अतिशयकरि दुर्धर तपकूँ शक्तिप्रमाण अंगीकार करो । बहुरि चित्तके विषै रागादिक दोषनिका निराकरणकरि परम वीतरागत्तरूप साधुसमाधि धारण करो । बहुरि संसारके दुःख आपदाका निराकरण करनेवाला वैयावृत्य दशप्रकार करहु । बहुरि अरहंतके गुणनिर्मे अनुरागरूप भक्तिकूँ धारण करता

अरहंतके नामादिकका ध्यान करि अरहंतभक्तिकूँ धारण करो । बहुरि पंच प्रकार आचारकूँ आप आचरण करावे अर दीक्षा शिक्षा देनेमें निपुण धर्मके स्तम्भ ऐसे आचार्यपरमेष्ठीके गुणनिमें अनु- राग धरना सो आचार्यभक्ति है । बहुरि ज्ञानमें प्रवृत्ति करावनेवाले निरन्तर सम्यग्ज्ञानका पठन आप करै अन्य शिष्यनिकूँ पढ़ावनेमें उद्यमी, चारि अनुयोगविद्योके पारगाभी वा अंग-पूर्वादि श्रुत- के धारक उपाध्याय परमेष्ठी की बहुभक्ति धारण करना सो बहुश्रुतभक्ति नाम भावना है ।

बहुरि जिनशासनका पुष्ट करनेवाला अर संशयादिक अन्धकार दूर करनेकूँ सूर्यसमान जो भगवान्का अनेकान्तरूप आगम ताके पठनमें, श्रवणमें, प्रवर्तनमें चिंतवन में, भक्तिकरि प्रवर्तन करना सो प्रवचनभक्ति भावना भावहू । बहुरि अवश्य करने योग्य षट् आवश्यक हैं ते अशुभ- कर्मके आस्रवकूँ रोकि महान् निर्जरा करनेवाले हैं अशरणनिकूँ शरण हैं ऐसे आवश्यकनिकूँ एकाग्रचित्तकरि धारहू इनकी भावना निरन्तर भावहू । बहुरि जिनमार्गकी प्रभावनामें नित्य परि- वर्तन करो जिनमार्ग की प्रभावना धन्यपुरुषनिकरि प्रवर्तै है । अनेक पुरुषनिकी वीतरागधर्ममें प्रवृत्ति अर कुमार्गका अभाव प्रभावना करके ही होय है । बहुरि धर्ममें धर्मात्मा पुरुषनिमें तथा धर्मके आयतनमें, परमागमके अनेकान्तरूप वाक्यनिमें परमप्रीति करना सो वात्सल्य भावना है यो वात्सल्य अंग है सो समस्तअंगनिमें प्रधान है दुद्धर मोह तथा मानका नाश करनेवाला है ऐसे निर्वाणके सुखकी देनेवाली ये षोडशकारण भावनानिकूँ जो भव्य स्थिरचित्तकरि भावै है चिंतन करै है जाके आत्मामें रचि जाय है सो समस्त जीवनिका हितरूप तीर्थकरपनों पाय पंचम- गति जो निर्वाण ताही प्राप्त होय है । ऐसै षोडशकारण की समुच्चयरूप भावना समाप्त करी ।

अब दर्शनविशुद्धि नाम प्रथम अंगकी भावना वर्णन करिये है—हे भव्यजीव हो ! जो यो मनुष्यजन्म पाय याकूँ सुफल किया चाहो हो तो सम्यग्दर्शनकी विशुद्धता करहू । यो सम्यग्दर्शन समस्त धर्मका मूल है सम्यक्त्व- विना श्रावकधर्म हू नहीं होय, मुनिधर्म हू नहीं होय, सम्यग्दर्शनविना ज्ञान है सो कुज्ञान है चारित्र कुचारित्र है, तप है सो कुतप है । सम्यग्दर्शन विना यो जीव अनन्तानन्तकाल परिभ्रमण किया है अब जो चतुर्गति संसारपरि- भ्रमणसूँ भयवान् होकर जन्मजरामरणतै छूट्या चाहो हो अर अनन्त अविनाशी सुखमय आत्माकूँ इच्छो हो तो अन्य समस्त परद्रव्यनिमें अभिलाषा छाँडि सम्यग्दर्शनहीकी उज्ज्वलता करहू ।

कैसीक है दर्शनविशुद्धता निर्वाणके सुखकी कारण है दुर्गतिका निराकरण करनेवाली हे विनयसंपन्नतादिक पन्द्रहकारणनिका मूलकारण है, दर्शनविशुद्धता नहीं होय तो अन्य पन्द्रह- भावना नहीं होय हैं यातै संसारका दुःखरूप अंधकारके नाश करनेकूँ सूर्य समान है, भव्य- निकूँ परम शरण है ऐसी दर्शनविशुद्धता नाम भावना भावहू । जैसे स्वपरद्रव्यका भेदज्ञान

उज्ज्वल होय तैसें यत्न करहू । यो जीव अनादिकालत मिथ्यात्वनाम कर्मके वशि होय आपका स्वरूपकी अर परकी पहिचान ही नाहीं करी, जैसे पर्यायकर्मके उदयतै पर्याय पावै तैसी पर्यायकू ही अपना स्वरूप जानता अपना सत्यार्थरूपका ज्ञानमें अन्ध हो आपके स्वरूपतै भ्रष्ट हुआ चतुर्गतिमें भ्रमण करै है देवकुदेवकू जानै नाहीं धर्मकुधर्मकू जानै नाहीं सुगुरु कुगुरुकू जानै नाहीं । बहुरि पुण्यका पापका, इस लोकका परलोकका, त्यागनेयोग्य ग्रहणकरनेयोग्य, भक्ष्य-अभक्ष्यका, सत्संगका कुसंगका, शास्त्रका कुशास्त्रका विचाररहित कर्मका. उदयके रसमें एकरूप भया अपना हित अहितकू नाहीं पहिचानता परद्रव्यनिमें लालसारूप होय सदाकाल बलेशित होय रखा है । कोऊ अकस्मात् काललाब्धिके प्रभावतै उत्तमकुलादिकमें जिनेन्द्रधर्म पाया है यातै वीतरागसर्वज्ञका अनेकांतरूप परमागमके प्रसादतै प्रमाणनयनिचोपनिताँ निर्णय करि परीक्षाका प्रधानी होय वीतरागी सम्यग्ज्ञानी गुरुनिके प्रसादतै ऐसा निश्चय भया जो एक जाननेवाला ज्ञायकरूप अविनाशी, अखंड, चेतनालक्षण, देहादिक समस्त परद्रव्यनिताँ भिन्न मैं आत्मा हूँ देह जाति कुल रूप नाम इत्यादिक मौताँ अत्यन्त भिन्न हैं अर राग द्वेष काम क्रोध मद लोभादिक कर्मके उदयतै उपजे मेरे ज्ञायकस्वभावमें विकार है जैसें स्फटिकमणि तो आप स्वच्छ श्वेत स्वभाव है तिस में डाकके संसर्गतै काला पीला हरथा लाल अनेक रङ्गरूपके दीखै है तैसें मैं आत्मा स्वच्छ ज्ञायकभाव हूँ, निर्विकार टंकोत्कीर्ण हूँ मोहकर्मजनित रागद्वेषादिक यामें भ्रलकै हैं ते मेरे रूप नाहीं पर हैं ऐसें तो अपने स्वरूपका निश्चय हुवा

बहुरि सर्वज्ञ वीतराग परम हितोपदेशक अर क्षुधा तृषा जन्म जरा मरण रोग शोक भय विस्मय राग द्वेष निद्रा स्वेद मद मोह चिंता खेद अरति इन अष्टादश दोषनिका अत्यन्त अभाव जाकै भया अर अनन्तज्ञान अनन्तदर्शन अनन्तवीर्य अनन्तसुख इत्यादिक अनन्त आत्मीक अविनाशी गुण जाकै प्रगट भए सो ही आप्त हमारे वंदन स्तवन पूजन करने योग्य हैं । अन्य कामी क्रोधी लोभी मोही स्त्रीनिमें आसक्त शस्त्रादिक ग्रहण किये, कर्मके अधीन इन्द्रिय ज्ञानके धारक सर्वज्ञतारहित हैं सो मेरे वन्दन स्तवन पूजने योग्य नाहीं । जो चोरनिमें शिरोमणि अर जारनिमें शिरोमणि है सो कैसें आराधने योग्य होय । बहुरि सर्वज्ञवीतरागका उपदेश्या अर प्रत्यक्ष अनुमानादिकरि जामें सर्वथा बाधा नाहीं आवै अर समस्त छहकायके जीवनिकी हिंसारहित धर्मका उपदेशक आत्माका उद्धारक अनेकांतरूप वस्तुकू साक्षात् प्रगट करनेवाला ही आगम है सो पढ़ने पढ़ावने, श्रवण करने, श्रद्धान करने वंदने योग्य है । अर जे रागी द्वेषीनिकरि प्ररूपण किये अर विषयानुराग अर कपायके बधावनेवारे जिनमें हिंसाके करनेका उपदेश है ऐसे प्रत्यक्ष अनुमानक्षरि बाधित एकांतरूप शास्त्र श्रवणपढ़ने योग्य नाहीं वन्दनायोग्य नाहीं हैं । बहुरि विषय-

निकी वांछांका अर कषायका अर आरम्भपरिग्रहका जाकै अत्यन्त अभाव भया, केवल आत्माकी उज्ज्वलता करनेमें उद्यमी, ध्यान स्वाध्यायमें अत्यन्त लीन, स्वाधीन कर्मबंधजनित दुःख सुखमें साम्यभावके धारक, जीवन मरण, लाभ अलाभ स्तवन निंदनेमें रागद्वेषरहित उपसर्गपरी-पहनिके सहनेमें अकम्प धैर्यके धारक परमनिर्ग्रन्थ दिगम्बर गुरु ही बंदन स्तवन करनेयोग्य हैं अन्य आरम्भी कषायी विषयानुरागी कुगुरु कदाचित् स्तवन वन्दन करने योग्य नहीं हैं । बहुरि जीवदया ही धर्म है हिंसा कदाचित् धर्म नहीं जो कदाचित् सूर्यका उदय पश्चिमदिशा में होजाय अर अग्नि शीतल होजाय अर सर्पका मुखमें अमृत होजाय अर मेरु चलि जाय अर पृथ्वी उलट-पलट होजाय तो हू हिंसामें तो धर्म कदाचित् नहीं होय । ऐसा दृढ श्रद्धान सम्यग्दृष्टिके होय है जाकै अपने आत्माके अनुभवनमें अर सर्वज्ञ वीतरागरूप आत्मके स्वरूपमें अर निर्ग्रन्थ विषयकषायरहित गुरुमें अर अनेकांतस्वरूप आगममें अर दयारूप धर्मके शंकाका अभाव सो निःशंकित अंग है सम्यग्दृष्टि यामें कदाचित् शंका नहीं करै है ।

बहुरि सम्यग्दृष्टि है सो धर्मसेवनकरि विषयनिकी वांछा नहीं करै है जातैं सम्यग्दृष्टि-कूँ इन्द्र अहमिन्द्रलोकके विषै हू महान वेदनारूप विनाशीक पापका बीज दीखै है अर धर्मका फल अनन्त अविनाशी स्वाधीन सुखकरि युक्त मोक्ष दीखै है तातैं जैसे बहुमून्य रत्न छांडि कांचखण्डकूँ जौहरी नहीं ग्रहण करै है तैसें जाकूँ सांचा आत्मीक अविनाशी बाधारहित सुख दीख्या सो झूठा बाधासहित विषयनिका सुखमें कैसें वांछा करै ? तातैं सम्यग्दृष्टि वांछारहित ही होय है । अर जो अव्रती सम्यग्दृष्टिके वर्तमानकालमें आजीविकादिकनिमें तथा स्थानादिकपरिग्रहमें वेदनाके अभावमें जो वांछा होय है सो वर्तमानकालकी वेदना सहनेकी असामर्थ्यतैं वेदनाका इलाजमात्र चाहै है । जैसे रोगी कडवी औषधितैं अति विरक्त होय है तो हू वेदनाका दुःख नहीं सह्या जाय तातैं कडवी औषधि वसन विरेचनादिकका कारण हू ग्रहण करै है, दुर्गंध तैलादिक हू लगावै है अन्तरङ्गमें औषधितैं अनुराग नहीं है तैसें सम्यग्दृष्टि निर्वाछक है तो हू वर्तमानके दुःख मेटनेकूँ योग्य न्यायके विषयनिकी वांछा करै है । अर जिनके प्रत्याख्यान-अप्रत्याख्यानवरणकषायका अभाव भया ते अपना सो खंड होय तो हू विषयवांछा नहीं करै है यातैं सम्यग्दृष्टिके निःकांचित गुण होय ही है ।

बहुरि सम्यग्दृष्टि अशुभ कर्मके उदयतैं प्राप्त भई अशुभ सामग्री तिसमें ग्लानि नहीं करै, परिणाम नहीं बिगाडै है मैं पूर्व जैसा कर्म वांध्या तैसा भोजन पान स्त्री पुत्र दरिद्र संपदा आपदाकूँ प्राप्त भया हू तथा अन्य किसीकूँ रोगी दरिद्री हीन नीच मर्लान देखि परिणाम नहीं बिगाडै है, पापकी सामग्री जानि कलुषता नहीं करै है तथा मलमूत्र कर्दमादि

द्रव्यकूँ देखि अर भयङ्कर रमशान वनादि क्षेत्रकूँ देखि, भयरूप दुःखदायी कालकूँ देखि, दुष्टपना कडवापना इत्यादिक वस्तुका स्वभावकूँ देखि अपना निर्विचिकित्सित अंग सम्यग्दृष्टिके होय ही है ।

बहुरि खोटे शास्त्रनितै तथा व्यन्तरादिक देवनिकृत विक्रियातै तथा मणि मन्त्र औषधादिकनिके प्रभावतै अनेक वस्तुनिके विपरीत स्वभाव देखि सत्यार्थ धर्मतै चलायमान नाहीं होना सो सम्यग्दर्शनका अमूढदृष्टि गुण है तो सम्यग्दृष्टिके होय ही है ।

बहुरि सम्यग्दृष्टि अन्य जीवनिके अज्ञानतै अशक्ततातै लगे हुए दोष देखि आच्छादन करै है जो संसारी जीव ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय कर्मके वशि होय अपना स्वभाव भूल रहे हैं कर्मके आधीन असत्य परधनहरण कुशीलादि पापनि में प्रवृत्ति करै हैं जे पापनितै दूर वतै हैं ते धन्य हैं । बहुरि कोऊ धर्मात्मा पुरुष (नामी पुरुष) पापके उदयतै चूकि जाय ताकूँ देखि ऐसा विचारै जो यो दोष प्रगट होसी तो अन्य धर्मात्मा अर जिनधर्मकी बड़ी निन्दा होसी या जानि दोष आच्छादन करै, अर अपना गुण होय ताकी प्रशंसा का इच्छुक नाहीं होय हैं सो यो उपगूहनगुण सम्यक्त्वको है इन गुणनितै पवित्र उज्ज्वल दर्शनविशुद्धिता नाम भावना होय है ।

बहुरि जा धर्मसहित पुरुषका परिणाम कदाचित् रोगकी वेदनाकरि धर्मतै चलि जाय तथा दारिद्र करि चलि जाय तथा उपसर्ग परीपहनिकरि चलि जाय तथा असहायताकरि तथा अहारपानका निरोधकरि परिणाम धर्मतै शिथिल हो जाय ताकूँ उपदेशकरि धर्ममें स्थम्भन करै । भो ज्ञानी भो धर्मके धारक ! तुम सचेत होहू कैसे कायरता धारणकरि धर्ममें शिथिल भये हो, जो रोगकी वेदनातै धर्मतै चिगो हो कैसे भूलो हो यो असातावेदनीकर्म अपना अवसर पाय उदयमें आय गया है अब जो कायर होय दीनताकरि रुदनविलापादि करते भोगोगे तो कर्म नाहीं छाड़ेगा कर्मके दया नाहीं होय है और धीरपनातै भोगोगे तो कर्म नाहीं छाड़ेगा कोऊ देवदानव मन्त्रतन्त्र औषधादिक तथा मंत्री, पुत्र, मित्र, बांधव सेवक सुभटादिक उदयमें आया कर्म हरनेकूँ समर्थ है नाहीं, यो तुम अर्च्छातरु समझो हो । अब इस वेदनामें कायर होय अपना धर्म अर यज्ञ अर परलोक इनकूँ कर्म पिगाटो हो अर उनकूँ विगाड़ि स्वच्छंद चेष्टा विलापादि करनेतै वेदना नाहीं घटै है ज्यों ज्यों कायर होवोगे त्यों त्यों वेदना दुःख बढ़ेगा । तातै अब साहस धारण करि परमधर्मका शरण प्रार्थ करो । संसारमें नरकके तथा तिर्यचनिके जुधा तृषा रोग सन्ताप ताडन मारन शीत उष्मादिक रोग दुःख अत्यंतकाल पर्यन्त अनेक बार अनन्तभव धारण करि भोगे ये तुम्हारे पहा दुःख है अल्प कालमें निर्जर्ग गा, अर रोग वेदना देहकूँ मारिगा तुम्हारा चेतनस्वरूप आत्मा

कू' नाही मारैगा अर देहका मारना अवश्य होयगा जो देह धारण किया ताकै अवश्यभावी मरण है सो अब सचेत होहू यो कर्मका जीतवाको अवसर है अब भगवान् पंच परमेष्ठीका शरण ग्रहणकरि अपना अजर अमर अखंड ज्ञाता दृष्टा स्वरूपका ग्रहण करो ऐसा अवसर फेरि मिलना दुर्लभ है इत्यादिक धर्मका उपदेश देय धर्ममें दृढ़ करना अर अनित्य अशरणादि भावनाका ग्रहण शीघ्र करावना, त्याग व्रतादिक छाडि दिये होय तो फिर ग्रहण करावना तथा शरीरका मर्दनादिक करि दुःख दूरि करना अर कोऊ टहल करनेवाला नाही होय तो आप टहल करना अन्य साधर्मीनिका मेल मिला देना आहार पान औषधादिकर स्थितिकरण करना तथा मलमूत्र कफादिक होय तो धोवना पूंछना इत्यादि करि स्थिर करना, दारिद्रकरि चलायमान होय तिनका भोजनपानादिककरि आजीविकादिक लगाय देने करि, उपसर्ग परीषहादिक दूर करनेकरि सत्यार्थ-धर्ममें स्थापन करना सो स्थितिकरण अंग सम्यग्दृष्टिके होय है ।

बहुरि वात्सल्यनामगुण सम्यग्दृष्टिके होय है संसारी जीवनीकी प्रीति तो अपने स्त्रीपुत्रादिकनिमें तथा इन्द्रियनिके विषयभोगनिमें धनके उपार्जनमें बहुत रहै है जाकै स्त्री पुत्र धन परि-ग्रह विषयादिकनिक्कू' संसारपरिभ्रमणके कारण जानि अतरंगमें विरागता धारण करि जाकी धर्मात्तामें रत्नत्रयके धारक मुनि अर्जिका श्रावक श्राविकामें वा धर्मके आयतननिमें अत्यन्त प्रीति होय ताक सम्यग्दर्शनका वात्सल्यअंग होय है ।

बहुरि जो अपने मनकरि वचनकरि कायकरि धनकरि दानकरि व्रतकरि तपकरि भक्ति-करि रत्नत्रयका भाव प्रगट करै सो मार्ग-प्रभावना अंग है । याका विशेष प्रभावना अंगकी भावनामें वर्णन करियेगा । ऐसै सम्यग्दर्शनके अष्टअंग धारण करनेतै इन गुणनिका प्रतिपत्ती शंका-कांक्षादिक दोषनिका अभावकरि दर्शनविशुद्धता होय है । बहुरि लोकमूढता देवमूढता गुरुमूढताका परिणामनिक्कू' छांड़ि श्रद्धानक्कू' उज्ज्वल करना ।

अब लोकमूढताका स्वरूप ऐसा है जो मृतकनिका हाड नखादिक गंगामें पहुँचानेमें मुक्ति भई मानै है तथा गंगाजलक्कू' उत्तम मानना तथा गंगास्नानमें अन्य नदीके स्नानमें नदीकी लहर लेनेमें धर्म मानना तथा मृतक भर्ताके साथ जीवती स्त्री तथा दासी अग्निमें दग्ध होजाय ताक्कू' सती मानि पूजना, मर्याक्कू' पितर मानि पूजना, पितरनिक्कू' पातडीमें स्थापन करि पहरना तथा सूर्यचन्द्र मंगलादिक ग्रहनिक्कू' सुवर्ण रूपाका बनाय गलेमें पहरना तथा ग्रहनिका दोष दूरि करनेक्कू' दान देना संक्रांति व्यतिपात सोमोती अमावसी मानि दान करना सूर्य-चन्द्रमाका ग्रहणका निमित्ततै स्नान करना, डाभक्कू' शुद्ध मानना, हस्तीके दंतनिक्कू' शुद्ध मानना कूवा पूजना सूर्य-चन्द्रमाक्कू' अर्घ्य देना देहली पूजना मूशलक्कू' पूजना छींकक्कू' पूजना, विनायक नामकरि गणेश पूजना,

तथा दीपककी जोतिकूँ पूजना तथा देवताकी बोलारी बोलना जहूला चोटी रखना देवताकी भेटके करारतँ अपना सन्तानादिककूँ जीवित मानना सन्तानकूँ देवता का दिया मानना तथा अपने लाभ वास्ते तथा कार्यसिद्धि वास्ते ऐसी वीनती करै जो मेरे एता लाभ होजाय तथा सन्तानका राग मिटि जाय तथा सन्तान होजाय वा वैरी का नाश होजाय तो मैं आपके छत्र चढाऊँ इतना धन भेट करुँ ऐसा करार करै है देवताकूँ सौँक (रिश्वत) देय कार्यकी सिद्धि के वास्ते वाँछै है । तथा रात-जगा करना कुलदेवकूँ पूजना शीतलाकूँ पूजना, लक्ष्मीकूँ पूजना, सोना रूपाकूँ पूजना पशुनिकूँ पूजना अन्नकूँ जलकूँ पूजना, शस्त्रकूँ वृत्तकूँ पूजना, अग्नि देव मानि पूजना सो लोकमूढता मिथ्यादर्शनका प्रभावतँ श्रद्धानके विपरीतपना है सो त्यागने योग्य है ।

बहुरि देव-कुदेवका विचाररहित होय कामी क्रोधी शस्त्रधारीहूँ ईश्वरपना की बुद्धि करना जो यह भगवान् परमेश्वर हैं समस्त रचना याकी है ये ही कर्त्ता हैं हर्त्ता हैं जो कुछ होय है सो ईश्वरको कियो होय है, समस्त आछी बुरी लोकनिसूँ ईश्वर करावै है ईश्वरका किया विना कछू ही नाहीं होय है, सब ईश्वर की इच्छाके आधीन है शुभकर्म ईश्वर की प्रेरणा विना नाहीं होय है इत्यादिक परिणाम मिथ्यादर्शनके उदयकरि होय सो देवमूढता है ।

बहुरि पाखण्डी हीन-आचारके धारक तथा परिग्रही, लोभी विषयनिका लोलुपीनिकूँ करामाती मानना, वाका वचन सिद्ध मानना तथा ये प्रसन्न होजाय तो हमारा वाँछित सिद्ध हो जाय ये तपस्वी हैं, पूज्य है, महापुरुष हैं, पुराण हैं इत्यादिक विपरीत श्रद्धान करै सो गुरुमूढता है ताँ जिनके परिणामनितँ इन तीनमूढताका लेशमात्र हू नाहीं होय ताँ दर्शनकी विशुद्धता होय है । बहुरि छह अनायतनका त्याग करि दर्शनविशुद्धता होय है कुदेव कुगुरु कुशास्त्र अर इनके सेवन करने वाले ये धर्म के आयतन कहिये स्थान नाहीं ताँ ये अनायतन हैं ।

भावार्थ—जो रागी द्वेषी कामी क्रोधी लोभी शस्त्रादिक सहित मिथ्यात्वकरि सहित हैं तिनमें सम्यक् धर्म नाहीं पाईये ताँ कुदेव हैं ते अनायतन हैं । बहुरि पंचइन्द्रियनिके विषयनिके लोलुपी परिग्रहके धारी आरंभ करनेवाले ऐसे भेषधारी ते गुरु नाहीं, धर्महीन हैं ताँ अनायतन है । बहुरि हिंसाके आरंभकी प्रेरणा करनेवाला रागद्वेषकामादिक दोषनिका बधावनेवाला सर्वथा एकान्तका प्ररूपक शास्त्र हैं ते कुशास्त्र धर्मरहित हैं ताँ अनायतन हैं बहुरि देवी दिहाडी क्षेत्र-पालादिक देवकूँ वंदने वाले अनायतन हैं । बहुरि कुगुरुनिके सेवक हैं भक्तितँ धर्मतँ रहित हैं ते अनायतन हैं बहुरि मिथ्याशास्त्रके पढ़नेवाले अर इनकी सेवाभक्ति करनेवाले एकांती धर्मका स्थान नाहीं ताँ अनायतन हैं ऐसे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र अर इनकी सेवा भक्ति करनेवाले इन छहूनिमें सम्यक् धर्म नाहीं है ऐसा दृढ श्रद्धानकरि दर्शनविशुद्धता होय है ।

बहुरि जातिमद कुलमद ऐश्वर्यमद शासनका मद तपकामद बलका मद विज्ञान मद इन अष्ट मदनिका जाके अत्यन्त अभाव होय है-सम्यग्दृष्टि के सांचा विचार ऐसा है हे आत्मन् ! या उच्च जाति है सो तुम्हारा स्वभाव नाहीं यह तो कर्मका परिणामन है, परकृत है विनाशीक है, कर्मनिके आधीन है । संसारमें अनेक वार अनेक जाति पाई हैं माताकी पचकू जाति कहिये है जीव अनेक वार चांडालीके तथा भीलनीके तथा म्लेच्छणीके चमारीके धोबीनिके नायणिके डूमणिके नटनीके वेश्याके दासीके कलालीके धीवरी इत्यादि मनुष्यनिके गर्भमें उपज्या है तथा सूकरी कूकरी गर्दभी स्यालणी कागली इत्यादिक तिर्यचनिके गर्भमें अनंतवार उपजि उपजि मरथा है अनन्तवार नीचजाति पावै तब एकवार उच्चजाति पावै ऐसे उच्च जाति भी अनंतवार प्राप्त भया संसारमें जातिका, कुलका मद कैसे करिये है स्वर्गका सहद्विकदेव मरि करि एकेन्द्रिय आय उपजै है तथा श्वानादिक निच तिर्यचनिमें उपजै है तथा उत्तम कुलका धारक होय सो चांडालमें जाय उपजै तातें जातिकुलमें अहंकार करना मिथ्यादर्शन है । हे आत्मन् तुम्हारा जातिकुल तो सिद्धनिके समान है तुम आपा भूलि माताका रुधिर पिताका वीर्यतें उपजे जातिकुल में मिथ्या आपा धरि फेर हू अनन्तकाल निगोदवास मति करो । वीतरागका उपदेश ग्रहण किया है तो इम देहकी जातिकू हू संयम शील दया सत्यवचनादिकरि सफल करो जो मैं उत्तम जातिकुल पाय नीचकर्मीनिकैसे हिंसा असत्य परधनहरण कुशीलसेवन अभक्ष्य भक्षणादि अयोग्य आचरण कैसे करूं ? नाहीं करूं ऐसा अहंकार करना योग्य है सम्यग्दृष्टिके कर्मकृत पुद्गलपर्यायमें कदाचित् आत्मबुद्धि नाहीं होय है । बहुरि ऐश्वर्य पाय ताका मद कैसे करिये यो ऐश्वर्य तौ आपा भुलाय बहु आरंभ रागद्वेषादिकमें प्रवृत्ति कराय चतुर्गतिमें परिभ्रमणका कारण है निग्रथपना तीनलोकमें ध्यावने योग्य है पूज्य है। अर यो ऐश्वर्य क्षणभंगुर है बड़े बड़े इंद्र अह मिद्रीनिका पतनसहित है बलभद्र नारायणनिका ऐश्वर्य क्षणमात्रमें नष्ट हो गया अन्य जीवनिका ऐश्वर्य केताक है ऐसैं जानि ऐश्वर्य दोग दिन पाया है तो दुःखित जीवनिका उपकार करो, विनयवान होय दान देहु, परमात्मस्वरूप अपना ऐश्वर्य जानि इस कर्मकृत ऐश्वर्यमें विरक्त होना योग्य है । बहुरि रूपका मद मति करो यो विनाशीक पुद्गलको रूप आत्माका स्वरूप नाहीं विनाशीक है क्षण-क्षणमें नष्ट होय है इस रूपकू रोग वियोग दरिद्र जरा महाक्रूरूप करैगा ऐसा हाडचामका रूपमें रागी होय मद करना बडा अनर्थ है इस आत्माका रूप तो केवलज्ञान है जिसमें लोक अलोक सर्व प्रतिविवित होय हैं तातें चामडाका रूप में आपा छांडि अपना अविनाशी ज्ञानस्वरूपमें आपा धारहू । बहुरि श्रुतका गर्वकू छांडहू आत्मज्ञानरहितका श्रुत निष्फल है, जातें एकादशअंगका ज्ञान सहित होय करके हूं अभव्य संसारहीमें परिभ्रमण करे हें



सम्यग्दर्शन विना अनेक व्याकरण छंद अलंकार काव्य कोपादिक पठना विपरीत धर्ममें अभिमान लोभमें प्रवर्तन कराय संसाररूप अंधकूपमें डुबोवने के अर्थि जानहू । और इस इंद्रियजनित ज्ञान का कहां गर्व है एकक्षणमें वातपित्तकफादिकके घटने बधनेतैं चलायमान हो जाय है अर इंद्रियजनित ज्ञान तो इंद्रियनिका विनाशकी साथ हो विनशैगा अर मिथ्याज्ञान तो ज्यों बंधैगा त्यों खोटे काव्य, खोटी टीकादिकनिकी रचनामें प्रवर्तन कराय अनेक जीवनिक्कं दुराचारमें प्रवर्तन कराय डबोय देगा तातैं श्रुतका मद छांडहू, ज्ञान पाय आत्मविशुद्धता करहू, ज्ञान पाय अज्ञानीकैसे आचरणकरि संसारमें भ्रमण करना योग्य नाहीं । बहुरि सम्यक्त्व विना मिथ्यादृष्टि का तप निष्फल है तपको मद करो हो जो मैं बड़ा तपस्वी हूँ सो मद के प्रभावतैं बुद्धि नष्टकरिकै यो तप दुर्गतिमें परिभ्रमण करावेगा तातैं तपका गर्व करना महा अनर्थ जानि भव्यनिकूँ तपका गर्व करना योग्य नाहीं है । बहुरि जिस बलकरि कर्मरूप वैरीकूँ जीतिये कथा काम क्रोध लोभकूँ जीतिये सो बल तो प्रशंसायोग्य है और देहका बल यौवनका बल ऐश्वर्यका बल पाय अन्य निर्बल अनाथ जीवनिक्कं मारि लेना, धन खोसि लेना जमी जीविका खोसि लेना, कुशील सेवन करना, दुराचारमें प्रवर्तन करावना सो बल तो नरकके घोर दुःख असंख्यातकाल भोगाय तिर्यचगतिमें मारण ताडन लादन करि तथा दुर्वचन तथा लुधा तृषादिकनिके दुःख अनेक पर्यायनिमें भुगताय एकेन्द्रियनिमें समस्तबलरहित असमर्थ करैगा । तातैं बलका मद छांडि क्षमा ग्रहण करि उत्तमतपमें प्रवर्तन करना योग्य है ।

बहुरि जे विज्ञान कहिये अनेक हस्तकला अनेक वचनकला अनेक मनके विकल्प जिनकरि यो आत्मा चतुर्गतिरूप संसारमें परिभ्रमणकरि दुःख भोगै है ते समस्त कुज्ञान है । इस संसारमें खोटीकला चतुरताका बड़ा गर्व है जो हमारा सामर्थ्य ऐसा है तो सांचेकूँ भूठ कर देवै, भूटेकूँ साचा कर देवै, कलंकरहितकूँ कलंकसहित करि देवै, शीलवन्तकूँ दूषित करिदेवै, अदण्डनिकूँ दण्ड देने योग्य करि देवै बहुत दिननिका संचय किया द्रव्यकूँ कड़ा लेवै तथा धर्म छुड़ाय अन्यथा श्रद्धान कराय देव तथा प्राणीनिके वशीकरण तथा अनेक जीवनिका मारण तथा अनेक जलमें गमन करनेके, स्थलमें गमन करनेके, आकाशमें गमन करनेके, अनेक यन्त्र बनाय देवै इत्यादिक कलाचातुर्य है ते सब कुज्ञान हैं याका गर्व नरकके घोर दुःखका कारण है । कलाचतुर्य सम्यक् तो सो है जातैं अपना आत्माकूँ विषयकषायके उलभावतैं सुलभावना तथा लोभनिकूँ हिंसारहित सत्यमार्गमें प्रवर्तावना है ऐसे सत्यार्थवस्तुका स्वरूप समझि जाति, कुल, धन, ऐश्वर्य, रूप विज्ञानादिककूँ कर्मके अधीन जानि इनका मद छांडि दर्शनविशुद्धता करो । ऐसे तीन मूढता अर आठ शङ्कादिकदोष अर पटू अनायतन अर अष्ट मद ऐसे पच्चीस दोषका परिहार करि

सम्यग्दर्शनकी उज्ज्वलता हाथ है ऐसे जानि दर्शनविशुद्धि भावना ही निरन्तर चिंतवन करै अर याहीकूँ ध्यानगोचर करि स्तुति सहित उज्ज्वल अर्घ उतारण करै सो मुक्तिस्त्रीसूँ संबन्ध करै है । ऐसे दर्शनविशुद्धता नाम प्रथम भावना वर्णन करी ॥१॥

अब आगँ विनयसंपन्नता नाम दूजी भावना कहिये हैं—सो विनय पंच प्रकार कहा है दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, तपविनय, उपचारविनय । तहां जो अपने श्रद्धानके शङ्कादिक दोष नाहीं लगावना तथा सम्यग्दर्शनकी विशुद्धताकरि ही अपना जन्म सफल मानना सम्यग्दर्शनके धारकनिमें प्रीति धारना, आत्मा अर परका भेदविज्ञानका अनुभव करना सो दर्शनविनय है । बहुरि सम्यग्ज्ञानके आराधनमें उद्यम करना, सम्यग्ज्ञानकी कथनीमें आदर करना तथा सम्यग्ज्ञान के कारण जे अनेकांत रूप जिनसूत्र तिनके श्रवण पठनमें बहुत उत्साहरूप होना तथा वन्दना स्तवनपूर्वक बहुत आदरतै पढ़ना सो ज्ञानविनय है तथा ज्ञानके आराधक ज्ञानीजनोंका तथा जिनागमके पुस्तकनिका संयोगका बड़ा लाभ मानना, सत्कार स्तवन आदरादिक करना सो ज्ञान विनय है । बहुरि अपनी शक्तिप्रमाण चारित्र धारणमें हर्ष करना, दिनदिन चारित्रकी उज्ज्वलता के अर्थि विषयकषायनिकूँ घटावना तथा चारित्रके धारकनिके गुणनिमें अनुराग स्तवन आदर करना सो चारित्र विनय है । बहुरि इच्छाकूँ रोकि मिले हुए विषयनिमें संतोष धारणकरि ध्यानस्वाध्यायमें उद्यमी होय कामके जीतनेकूँ अर इन्द्रियनिके प्रवृत्तिमें रोकनेकूँ अनशनादिक तपमें उद्यम करना सो तपविनय है । बहुरि इन च्यारि आराधनाका उपदेशकरि मोक्षमार्गमें प्रवर्तन करावनेवाले हैं तथा जिनके स्मरण करनेतै परिणामनिका मल दूर होय विशुद्धता प्रगट हो जाय ऐसे पंच परमेष्ठीके नामकी स्थापनाका विनय वंदना स्तवन करना सो उपचारविनय है । अन्य हू उपचारविनयका बहुत भेद है अभिमानकूँ छाड़ि अष्टमदका अत्यंत अभाव जाकै होय कठोरता छूटि कोमलता जाकै प्रगट होय ताकै नम्रपना प्रगट होय है ताकै सत्यार्थ ऐसा विचार है यो धन यौवन जीवन क्षणभंगुर है कर्मके अधीन है, कोऊ जीव हमतै क्लेशित मत होहू, सकल सम्बन्ध वियोगसहित है, इहां केते काल रहूँगा समेय-समय कालके सन्मुख अखंड गमन करूँ हूं, कोऊ वस्तुका सम्बन्ध थिर नाहीं है इहां विनय धर्म ही भगवान् मनुष्य जन्मका सार कहा है यो विनय संसाररूप वृक्षके दग्ध करनेकूँ अग्नि है यो विनय है सो त्रैलोक्यवर्ती जीवनिके मनकी उज्ज्वलता करने वाला है अर विनय है सो समस्त जिनशासनको मूल है विनयरहितके जिनेन्द्रकी शिचा ग्रहण नाहीं होय है विनयरहित जीव समस्त दोषनिका पात्र है विनय है सो मिथ्याश्रद्धानके छेदनेकूँ मूल है विनय-विना मनुष्यरूप चामडाको वृक्ष मानरूप अग्नि करि भस्म होय है अर मानकषाय करिके यहां ही घोर दुःख सहै है अर परलोकमें निंघ जाति कुलरूप बुद्धिहीन बलहीन उपजै है जे अभिमानी

यहां किंचित् वचनमात्र हू नार्हीं सहैं हैं ते तिर्यचगतिमें नासिकामें मूंजका जेवड़ाका बन्धन लादन मारण लात ठोकरांका घात चामडाका मरमस्थानमें घात परार्धीन हुआ भोगै है तथा चांडालनिके मलीन घरमें बन्धनतैं बन्ध रहै हैं जिन ऊपरि मलादि निघ वस्तु लादिये हैं और इसलोकमें हू अभिमानीके समस्त लोक वैरी हो जाय हैं अभिमानीकूं समस्त निदैं हैं महाअपयश प्रगट हो जाय है समस्त लोग अभिमानीका पतन चाहैं मानकषायतैं क्राध प्रगट होय कपट विस्तारै अतिलोभ करै दुर्वचननिमें प्रवर्तन करै । लोकमें जेती अनीति है तितनी मानकषाय-तैं होय है, पर-धन-हरणादिक हू अपने अभिमान पुष्ट करनेकूं करै है, यातैं इस जीवका बड़ा वैरी मानकषाय हैं यातैं विनय गुणमें महान आदरकरि अपनां दोऊ लोक उज्ज्वल करो सो विनय देवको शास्त्रको गुरुनिको मन वचन कायतैं प्रत्यक्ष करो अर परोक्ष हू करो । तहाँ देव जो भगवान अरहंत समवशरण विभूतिसहित गंधकुटीके मध्य सिंहासन ऊपरि अंतरीक्ष विराजमान चौसठ चमरनिकरि वीज्यमान छत्रत्रयादिक प्रतिहार्यनिकरि विभूषित कोटिस्वर्यसमान उद्योतका धारक परमौदारिक देहमें तिष्ठता द्वादश सभाकरि सेवित दिव्यध्वनिकरि अनेक जीवनिका उपकार करनेवाले अरहंतको चितवनकरि ध्यान करना सो मनकरि परोक्षविनय है । याका विनयपूर्वक स्तवन करना सो वचनकरि परोक्षविनय है । अंजुली जोडि मस्तक चढाय नमस्कार करना सो कायकरि परोक्षविनय है । बहुरि जो जिनेन्द्रकी प्रतिविंवकी परमशांत मुद्रकाकूं प्रत्यक्ष नेत्रनिदैं अवलोकनिकरि महाआनन्दतैं मनमें ध्यायकरि आपकूं कृतकृत्य मानना सो मनकरि प्रत्यक्षविनय है । जिनेन्द्रका प्रतिविंवके सन्मुख होय स्तवन करना सो प्रत्यक्ष वचनविनय है । अंजली मस्तक चढाय वन्दना करना तथा भूमिमें अंजलीसहित मस्तक गोडानिका स्पर्शनकरि नमस्कार करना सो कायकरि प्रत्यक्षविनय है । तथा सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा जिनेन्द्रका नामका स्मरण, ध्यान, वन्दना स्तवन करना सो समस्त परोक्षविनय है । ऐसैं देवका विनय नमस्त अशुभकर्मनिका नाश करनेवाला कहा है ।

बहुरि जो निग्रंथ वीतरागी मुनीश्वरनिकूं प्रत्यक्ष देखि खड़ा होना आनन्दसहित गन्मुख जाना, स्तवन करना, वन्दना करना, गुरुनिकूं आगैकरि पाछै चलना कदाचित् बराबर पनना होय तो गुरुनिके त्राम तरफ चलना गुरुनिकूं अपने दक्षिणभागमें करिकै चालना बैठना, गुरुनिकूं विद्यमान होते आप उपदेश नार्हीं करना, कोऊ प्रश्न करै तो गुरुनिके होते आप उत्तर नार्हीं देना, अर गुरुनिकी इच्छा होय तो गुरुनिकी इच्छाके अनुकूल उत्तर देना, गुरुनिके होते उन्न आसन नार्हीं बैठना अर गुरु व्याख्यान उपदेशादिक करै ताकूं अंजुली जोडि मस्तक चढाय नमस्कार करना, गुरुनिका गुणनिमें अनुराग करि आज्ञाके अनुकूल प्रवर्तन

करना अरु गुरु दूर क्षेत्रमें होय तो बाकी जो आज्ञा होय तैसे वर्तन करना दूरहीतै गुरुनिका घ्यात स्तवन नमस्कारादि विनय करना सो गुरुनिका विनय है ।

बहुरि शास्त्रका विनय करना बड़ा आदरतै पठन श्रवण करना, द्रव्य क्षेत्र काल भावकू देखि व्याख्यानादि करना, शास्त्रका कक्षा व्रत संयमादिक आपतै नहीं बनि सकै तो आज्ञाका उन्लहान नाही करना, सूत्रकी आज्ञा होय तिस प्रमाण ही कहना तथा जो सूत्रकी आज्ञा होय ताकू एकरुचित्तै श्रवण करना, अन्य कथा नहीं करना, आदरपूर्वक मौनतै श्रवण करना अरु जो संशय होय तो संशय दूर करनेकू विनय पूर्वक अल्प अक्षरनिकरि जैसे सभाके अरु लोकनिकै अरु बचनाके चोभ नहीं उपजै तैसे विनयपूर्वक श्रन करना उत्तरकू आदरतै अंगीकार करना सो शास्त्रका विनय है तथा शास्त्रकू उच्च आसनपर धरि नीचा बैठना प्रशंसा स्तवन करना इत्यादिक शास्त्रका विनय करना ऐसे देव गुरु शास्त्रका विनय है सो धर्मका भूल है ।

बहुरि जो रागद्वेषकरि आत्माका घात जैसे नहीं होय तैसे प्रवर्तन करना सो आत्माका विनय है, जातै ऐसा विचारै हैं अरु यो मेरो जीव चतुर्गतिमें मति परिभ्रमण करो, अरु मेरा आत्मा मिथ्यात्व कषाय अविनयादिककरि संसार परिभ्रमणके दुःख मति प्राप्त होहू ऐमे चिंतवन करता मिथ्यात्व कषाय अविनयादिककरि आत्माका ज्ञानादिक गुण घात नहीं करना सो आत्माका विनय है । याहीकू निश्चय विनय कहिये है यह तो परमार्थ विनय कहा ।

अत्र यहां ऐसा विशेष जानना जाके मान कषाय घटि जाय ताहीके व्यवहारविनय है कोऊ जीवका मौतै अपमान मति होहू जो अन्यका सन्मान करैगा सो आपहू सन्मानकू प्राप्त होयगा जो अन्यका अपमान करैगा सो आपहू अपमानकू प्राप्त होय है जो समस्तकू मिष्टचवन बोलना सो विनय है किसी जीवकू तिरस्कार नहीं करना सोहू विनय ही है । अपने घर आया ताका यथायोग्य सत्कार करना किसीकू सन्मुख जाय न्यावना किसीकू उठि खड़ा होना एक हस्तकू माथै चढवाना किसीकू आइए ३ इत्यादिक तीन वार कही अङ्गीकार करना कोऊकू आदरकरि नजीक बैठाना किसीकू आसनदान देना किसीको आवो बैठो, किसीके शरीरकी कुशलता पूछना तथा हम आपके हैं हमकू आज्ञा करिये भोजनपान करिये, यह आपहीका गृह है ये गृह आपके आवनेतै उच्च भया है आपकी कृपा हमारे पर सनातनतै है ऐसे व्यवहार विनय हैं । तथा कोऊकू हस्त उठाय माथै चढवाना एता ही विनय हैं और हू दान सन्मान कुशल पूछना रोगी दुःखीका वयावृत्य करना सो भी विनयवान ही के होय हैं । दुःखित मनुष्य तिर्यचनिकू विश्वास देना, दुःख श्रवण करना अपना सामर्थ्य प्रमाण उपकार करना नहीं बननेका होय तो धीरता संतोषादिकका उपदेश देना ऐसे व्यवहारविनय हैं । सो

परमार्थविनयका करण हैं, यशकूँ उपजावै हैं धर्मकी प्रभावना करै है । मिथ्यदृष्टिका हू अपमान नाहीं करना मिष्टवचन बोलना यथायोग्य आदर सत्कार करना योही विनय है । महापापी द्रोही दुराचारीकूँ हू कुवचन नाहीं कहना, एकेन्द्रय विकलेन्द्रियादिक तथा सर्पादिक दुष्ट जीव तिनकी विराधना नाहीं करना याकी रक्षा करि प्रवर्तना सोही ज्ञानका विनय है अन्यधर्मीनिका मंदिर प्रतिमादिकतै वैर करि निंदा नाहीं करना ऐसा परमार्थ व्यवहार दोऊ प्रकारके विनयको धारणकरि गृहस्थकूँ प्रवर्तन करना योग्य हैं । देखो सकलसंगका परित्यागी वीतरागी मुनीश्वरहूकूँ कोऊ मिथ्यादृष्टि वन्दना करै हैं ताकूँ आशीर्वाद देवै हैं चांडाल भील धीवरादिक अधमजाति हू वन्दना करै ताकूँ पापक्षयोस्तु इत्यादिक आशीर्वाद दे हैं तातैं विनयअंग धारण करो हो तो बाल अज्ञान धर्मरहितका तथा नीच अधम जाति होय ताका हू विनय नाहीं करो तो हू तिरस्कार निंदा कदाचित् करना उचित नाहीं हैं इस मनुष्यजन्मका मण्डन विनय ही हैं विनय विना मनुष्यजन्मकी एक घड़ी भी हमारे मति जावो ऐसे भगवान् गणधरदेव कहै हैं ऐसा विनयगुणकी महिमा जानि याका महान अर्थ उतारण करो । हे विनयसंपन्नता अंग हमारे हृदय में तू ही निरन्तर वास करि, तेरे प्रसादतैं अब मेरा आत्मा कदा-चित् अष्टमदनिकरि अभिमानकूँ मति प्राप्त होहू ऐसे विनयसंपन्नता नाम अङ्गकी दूर्जी भावना वर्णन करी ॥ २ ॥

अब तीसरी शीलव्रतेष्वनतीचार भावना कहै हैं—शीलव्रतेष्वनतीचारका ऐसा अर्थ राज-वातिकमें कहा है अहिंसादिक पंचव्रत अर इन व्रतनिका पालनके अर्थि क्रोधादिकषायका वर्जनादि-रूपेः शीलविषै जो मनवचनकायकी निर्दोष प्रवृत्ति सो शीलव्रतेष्वनतीचारभावना है । शीलनाम आत्मा का स्वभावका है आत्मस्वभाव का नाश करनेवाला हिंसादिक पांच पाप हैं तिनमें कामसेवन नाम एकही पाप हिंसादिक समस्तपापनिकूँ पुष्ट करै है अर क्रोधादिकषायनिकी तीव्रता करै है तातैं यहाँ जयमालामें ब्रह्मचर्यकी ही प्रधानताकरि वर्णन करिये है जो शील दुर्गतिके दुःखका हरनेवाला है स्वर्गादिक शुभगतिका कारण है तपव्रतसंयमका जीवन है शीलविना तप करना, व्रत धरना, संयम पालना, मृतकका अङ्ग समान देखने मात्र है कार्यकारी नाहीं तैसे शीलरहित तपव्रतसंयम धर्मकी निंदा करावनेवाला है ऐसा जानि शील नाम धर्मका अङ्गकूँ पालन करहू अर चंचल मनरूप पत्नीकूँ दमो, अतिचाररहित शुद्धशीलकूँ पुष्ट करो, धर्मरूपवनके विध्वंस करने-वाला मनरूप मदोन्मत्त हस्तीकूँ रोको चलायमान हुआ मनरूप हस्ती महान् अनर्थ करै है हस्ती मदवान होय तदि ठाणमेंतैं निकलि भागै है अर मनरूपहस्ती कामकरि उन्मत्त होय तब समभाररूपी टागैतैं निकलि भागै हैं तथा कुलकी मर्यादा सन्तोषादि छांड़ि निकसै है मदोन्मत्त-

हस्ती तो सांकल तोडि विचरै है, हस्ती तो मार्गमें चलावनेवाला महावतकू' नाखै है अर कामी-का मन सम्यग्धर्मके मार्गमें प्रवर्तवनेवाला ज्ञानकू' छाड़ै है। हस्ती तो अ'कुशकू' नाहीं मानै है अर मनरूप हस्ती गुरुनिके शिक्षाकारी वचनकू' नाहीं मानै है। हस्ती तो महाफल अर छायाका देवेवाला वृक्षकू' उखाडि पटकै है अर कामकरि व्याप्त मन है सो स्वर्गमोक्षरूप फलका देनेवाला अर यशरूप सुगंधकू' विस्तारता सकल विषयांकी आतापकू' हरनेवाला ब्रह्मचर्यरूप वृक्षकू' उखाडि डालै है हस्ती तो मल कर्दमादिक दूर करनेवाला सरोवरमें स्नानकरि मस्तक ऊपरि धूल नाखता धूलिरजसू' ब्रीड़ा करै है अर कामकरि व्याप्त मन सिद्धांतरूप सरोवरमें अवगाहनकरि अनेक अज्ञानरूप मैलकू' धोय करके हू पापरूप धूलितै क्रीड़ा करै है। हस्ती तो कर्णनिकी चपलताकू' धारण करै है अर कामसंयुक्त मन पांचू' इन्द्रियनिका विषयनिमें चंचलता धारण करै है हस्ती तो हस्तिनीमें रति करै है कामसंयुक्त मन कुबुद्धिरूप हस्तिनीमें रचै है, हस्ती हू स्वच्छंद डोलै मन हू स्वच्छंद डोलै, हस्ती तो मदकरिके मत्त है कामीका मन रूपादिक अष्टमदकरि मत्त है हस्तीके नजीक तो कोऊ पथिक नाहीं आवै दूर भागि जाय अर कामकरि उन्मत्तके नजीक कोऊ एक हू गुण नाहीं रहै है यातैं इस कामकरि उन्मत्त मनरूप हस्तीकू' वैराग्यरूप स्तम्भकै बांधो, यो खुल्यो हुवो महा अनर्थ करैगा। यो काम अनंग है याकै अङ्ग नाहीं है यो तो मनसिज है मनहीमें याका जन्म है ज्ञानकू' मथन करनेवाला है याहीतैं याकू' मनमथ कहिये है। संवरको अरि कहिये वैरी है यातैं संवरारि कहिये है कामतैं खोटा दर्ष जो गर्व सो उपजै है यातैं याकू' कंदर्प कहिये हैं। याकरि अनेक मनुष्य तिर्यंच परस्पर विरोधकरि मरि जाय हैं यातैं याकू' मार कहिये है याहीतैं मनुष्यनिमें अन्य इन्द्रियनिके भोग तो प्रगट है अर कामके अंगहू ढके हुए हैं कामके अङ्गका नामहू उत्तमपुरुष हैं ते नाहीं उच्चारण करै हैं। यो समान अन्य पाप नाहीं है धर्मनै अष्ट करनेवाला काम है यो काम हरिहरब्रह्मादिकनिकू' अष्टकरि आपके आधीन किये है, याहीतैं समस्त जगतकू' जीतनेवाला एक काम है याका विजय करनेवाला मोहकू' सहज ही जीतै है, याहीतैं कामके परिहारके अर्थि मनुष्यनीं तथा देवांगना तथा तिर्यंचनी इनका संसर्ग संगति कामवि-कारके उपजावनेवाली दूरहीतैं परिहार करो।

स्त्रीनिमें मनवचनकायकरि रागका त्याग करो आप कुशीलके मार्गमें नाहीं चलना अन्यकू' कुशीलके मार्गका उपदेश मति करो अन्य कोऊ कशीलके मार्गमें प्रवर्तन करें, तिनकी अनुमोदना भय जीव नाहीं करै है बालिका स्त्रीकू' देखि पुत्रीवत् निर्विकार बुद्धि करो अर यौवनरूप करींद्र ऊपरि चढ़ी, लावण्य जो सौन्दर्यरूप जलमें जाका सब अंग इवि रह्या ऐसी रूपवती स्त्रीमें बहिणवत् निर्विकार बुद्धि करहू अर वाकू' सन्मान दान मति करो। वचनकरि आलाप

मति करो शीलवान् हैं तिनकी दृष्टि स्त्रीनिमें प्राप्ति होती ही मुद्रित हो जाय है स्त्रीनिमें वचनालाप करैगा स्त्रीके अंगनिका अवलोकन करैगा ताके शीलका भंग अवश्य-होयगा । तातैं जो गृहस्थ है ताकैं तो एक अपनी स्त्रीविना अन्य स्त्रीनिकी संगति तथा अवलोकन वचनालापकरि परिहार अर अन्य स्त्रीनि की कथाका स्वप्नहूमें विचार नाही रहै है अर एकांतमें माता बहन-पुत्रीकी सङ्गति हू नाही करै है, मुनीश्वर तो समस्त स्त्रीमात्रका सम्बन्ध नाही करै हैं, स्त्रीनिमें उपदेश नाही करै है जातैं स्त्रीका नाम ही प्रगट दोषनिकूँ कहै हैं । स्त्री समान इस जीवकूँ नष्ट करनेवाला अन्य कोऊ अरि कहिये वैरी नाही तातैं उत्तम पुरुष याकूँ नारी कहै हैं, दोषनिकूँ प्रत्यक्ष देखते-देखते आच्छादन करै तातैं याका नाम स्त्री हैं, यांका देखनेकरि पुरुषको पतन हो जाय तातैं याका नाम पत्नी हैं, कुमरण करनेका कारण हैं तातैं याका नाम कुमारी हैं, याकी सङ्गतिकरि पौरुषबुद्धिबलादिक नष्ट होजाय यातैं याका नाम अवला हैं । संसारके बन्धका कारण हैं यातैं याका नाम बधू हैं कुटिलता मायाचारका स्वभाव धारै हैं यातैं याका नाम वामा हैं याका नेत्रनिमें कुटलता बसै है यातैं याका नाम वामलोचना है । शीलवंतकूँ इंद्र नमस्कार करै हैं शीलवान पुरुष रत्नरूप धन लेय कामादिक लुटेरानिका भयरहित निर्वाणपुरी प्रति गमन करै हैं शीलकरि भूषित रूपरहित होय तथा मलीन होय रोगादिककरि व्याप्त होजाय तो हू अपना संसर्गकरि समस्त सभानिवासीनिकूँ मोहित करै है सुखित करै हैं । अर शीलरहित व्यभिचारी रूपकरि कामदेव समान हैं तो हू लोकनिमें थुथकार करिये हैं जातैं याका नाम ही कुशील है शील नाम स्वभावका है कामी मनुष्यका शील जो आत्माका स्वभाव सो खोटा हो जाय है यातैं याकूँ कुशील कहिये हैं । बहुरि कामी मनुष्य धर्मतैं आत्माका स्वभावतैं व्यवहारकी शुद्धतातैं चलि जाय हैं यातैं याकूँ व्यभिचारी कहिये हैं या समान जगमें कुकर्म नाही तातैं कामकूँ कुकर्म कहिये हैं । यातैं मनुष्य पशुके समान होजाय यातैं याकूँ पशुकर्म कहिये हैं ब्रह्म जो आत्मा ताका ज्ञानदर्शनादिस्वभाव ताका घात यातैं होय हैं तातैं याकूँ अब्रह्म कहिये हैं जातैं कुशीलीकी संगतितैं कुशीली होय जाय हैं जो शीलकी रक्षा करी सो ही क्षांति तप व्रत संयम समस्त पाल्या । बहुरि जो अपना स्वभावतैं नाही चलायमान होना ताकूँ मुनीश्वर शील कहै हैं, शीलनामका गुण समस्त गुणनिमें बड़ा है, शीलकरिसहित पुरुषका तो थोरा हू व्रत तप प्रचुर फलकूँ फलैं है अर शीलविना बहुत हू तप व्रत हैं सो निष्फल है । इस प्रकार जानि अपने आत्मामें शीलकी शुद्धताके अर्थि शीलहीकूँ नित्य पूजहु । यो शीलव्रत मनुष्यजन्महीमें हैं अन्यगति में नाही हैं तातैं जन्म सफल किया चाहो हो तो शीलकी ही उज्ज्वलता करो ऐसैं शीलव्रतेष्वनतीचार नाम तीसरी भावना वर्णन करो ॥ ३ ॥

अब अभीक्षणज्ञानोपयोग नाम चौथी भावनाका वर्णन करै है । मो आत्मन्, यो मनुष्य-जन्म पाय निरन्तर ज्ञानाभ्यास ही करो ज्ञानका अभ्यास विना एकक्षण हू व्यतीत मति करो ज्ञानके अस्यासविना मनुष्य पशुसमान हैं यातै योग्यकालमें जिनआगमको पाठ करो, अर समभाव होय तदि ध्यान करो अर शास्त्रनिके अर्थ का चिंतवन करो, अर बहुत ज्ञानी गुरुजन तिनमें नम्रता बन्दना विनयादिक करो अर धर्म श्रवण करने के इच्छुककू धर्मका उपदेश करो याहीकू अभीक्षणज्ञानोपयोग कहै हैं । इस अभीक्षणज्ञानोपयोगनाम गुणका अष्टद्रव्यनितै पूजन करकै याका अर्घ उतारन करो और पुष्पनिकी अंजुलि अग्रभागविषै क्षेपण करो । इहां ज्ञानोपयोग है सो चैतन्यकी परिणति है याहीतै क्षणक्षणमें निरन्तर चैतन्यकी भावना करना । मेरे अनादिकालतै काम क्रोध अभिमान लोभादिक संग लगि रहै हैं इनका संस्कार अनादितै मेरे चैतन्यरूपमें धुलि रहे हैं अब ऐसी भावना होहु जो भगवानके परमागमका सेवनका प्रभावतै मेरा अत्मा राग-द्वेषादिकतै भिन्न अपना ज्ञायकस्वभावरूपहीमें ठहरि जाय अर रागादिकनिके वशीभूत नाहीं होय सो ही मेरी आत्माका हित है । अथवा नवीन शिष्यनिके आगे श्रुतका अर्थ ऐसा प्रकाश करना जो संशयादिक रहित शिष्यनिका हृदयमें यथावत् स्वपर पदार्थका स्वरूप प्रगट हो जाय, पाप पुण्यका स्वरूप, लोक-अलोकका स्वरूप, मुनि-श्रावक का धर्मको सत्यार्थ निर्णय हो जाय तैसै ज्ञानाभ्यास करना । तथा अपने चित्तमें संसारभोगदेहतै विरक्तता चिंतवन करना । संसार-देह भौगनिका यथार्थ स्वरूपका चिंतवन करनेतै रागद्वेषमोह ज्ञानकू विपरीत नाहीं करि सकै हैं ।

समस्त द्रव्यनिमें एक मिल्या हुआ हू आत्माका भिन्न अनुभव होय सो ही ज्ञानोपयोग है, ज्ञानाभ्यास करके विषयनिकी वांछा नष्ट होय है कषायनिका अभाव होय है माया मिथ्यात्व निदान तीन शल्य ज्ञानके अभ्यास करि नष्ट होय हैं । ज्ञानके अभ्यास हीतै मन स्थिर होय है, ज्ञानके अभ्यास करके ही अनेक प्रकारके विकल्प नष्ट होय हैं, ज्ञानाभ्यास करके धर्म ध्यानमें शुक्लध्यानमें अचल होय तिष्ठै है ज्ञानाभ्यासतै ही व्रत-संयमसे चलायमान नाहीं होय है, ज्ञानाभ्यास करके ही जिनेंद्रका शासन आज्ञा (प्रवर्तै) है अशुभकर्मका नाश हू ज्ञानाभ्यास करके ही होय, प्रभावना हू जिन धर्मका ज्ञानके अभ्यास करके ही होय, ज्ञानका अभ्यासतै लोकनिका हृदयमेंतै पूर्वसंचय किया ऐसा पाप ऋण नष्ट हो जाय है, अज्ञानी घोर तपकरि कोटि पूर्वमें जिस कर्मकू खिपावै तिस कर्मकू ज्ञानी अन्तर्मुहूर्तमें खिपावै है जिनधर्मका स्थंभ ज्ञानका अभ्यास ही है । ज्ञान हीके प्रभावतै समस्त विषयनिकी वांछारहित होय संतोष धारण करिये हैं ज्ञानहीतै उचमत्तमादि गुण प्रगट होय हैं, ज्ञानाभ्यासतै ही भक्ष्य अभक्ष्य योग्य अयोग्य त्यागने योग्य ग्रहण करने योग्यका विचार होय है ज्ञान विना परमार्थ अर व्यवहार दोरु नष्ट हो



जाय है ज्ञानरहित राजपुत्रहू का निरादर होय है ।

ज्ञान समान कोरु धन नहीं है, ज्ञानका दान समान कोरु दान नहीं है, दुःखित जीवकूँ सुखितकूँ सदा ज्ञान ही शरण है ज्ञान ही स्वदेशमें अन्य देशमें आदर करावनेवाला परम धन है ज्ञान धन है सो किसी करि चोरया जाय नहीं, किसीकूँ दिये घटै नहीं, ज्ञान ही सम्यग्दर्शन उपजावै है ज्ञानहीतै मोक्ष होय है, सम्यग्ज्ञान आत्माका अविनाशी स्वाधीन धन है । ज्ञानविना संसारसमुद्रमें डूबतेकूँ हस्ताबलंवन देय कौन रक्षा करे, विद्या विना आभूषणमात्रतै ही सत्पुरुष-निके आदरने योग्य होय नहीं है, निर्धनकै परमनिधान प्राप्त करानेवाला एक सम्यग्ज्ञान ही है । यातै हे भव्यजीवो ! भगवान् करुणानिधान वीतराग गुरु तुमकूँ या शिक्षा करै हैं अपनी आत्माकूँ सम्यग्ज्ञानके अभ्यासहीमें लगावा अर मिथ्यादृष्टिनिकरि प्ररूप्या मिथ्याज्ञानका दूरहोतै परिहार करो सम्यक् मिथ्याकी परित्या करि ग्रहण करो अपना संतानकूँ पढावो, अन्यजन-निकूँ विद्याका अभ्यास करावो । जे धनवान होय अपने धनकूँ सफल करया चाहो तो पढने पढाने-वालेकूँ आजीविकादिक देयकरि थिरता करावो पुस्तक लिखाय देवो विद्या पढनेवालेकूँ देवो पुस्तकनिकूँ शुद्ध करो करावो पठन पाठनके अर्थ स्थान देवो निरंतर पठन श्रवणमें ही मनुष्य जन्मका काल व्यतीत करो यो अवसर व्यतीत होतो चल्या जाय है, जेते आयु काय इंद्रियां बुद्धि बन रही हैं तेते मनुष्य जन्मकी एक घड़ी हूँ सम्यग्ज्ञानविना मति खोवो, ज्ञानरूप धन परलोकमें हू लार जायगा । इस अभीक्षणज्ञानोपयोगकी महिमा कोट जिह्वानिकरि हू वर्णन नहीं करी जाय है । याहीतै ज्ञानोपयोगकी परमशरणके अर्थ गृहस्थ धनसहित होय सो भावना भाय अर अर्थ उतारण करै । अर गृहकै त्यागी होय ते निरन्तर भावनाभावो । ऐसै अभीक्षणज्ञानोपयोग नाम चौथी भावना वर्णन करी ॥ ४ ॥

अव पंचमी संवेग भावनाका वर्णन करै हैं—जो संसार देह भोगनितै विरक्तपना सो संवेग है तथा धर्ममें अर धर्मका फलमें अनुराग सो संवेग है अथवा संसार देह भोगनितै विरक्त होय करि धर्ममें अनुराग करना सो संवेग है । संसारमें जिस पुत्रसूँ राग करिये है सो जन्म लेते ही स्त्रीका यौवन सौंदर्यादिक विगाडै अर जन्म हुए पाछै बड़ी आकुलता करि बड़ा कष्ट करि धनका खरचकरि पुत्रकूँ वधाइये है अर रोगादिकनिका बड़ा जाबता अर क्षण-क्षणमें बड़ी सावधानीतै महामोही महारागी ग्लानिरहित होय बड़ा कष्ट सहिकरि बड़ा करिये है बड़ा होय तदि आछा भोजन आछा आभरण आछा स्थानकूँ हठात् ग्रहण करे है अर जो मूर्ख होय व्य-सनी होय तीव्रकपायी होय तो रात्रिदिन क्लेश होनेका परिमाण नहीं कहनेमें आवै है पुत्रके मोहतै परिग्रहमें बड़ी मूर्च्छा बधै है, अर समर्थ होजाय अर अपनी आज्ञामें मंद होय तो महा

आतंरूप हुआ मरणपर्यंत क्लेश नहीं छाँडै है, अर जो पिताकू अपना कार्य करनेवाला समझे जेते प्राति करै है असमर्थ होजाय तासूँ राग नहीं करै, धनरहितका निरादर करै है यातँ पुत्रका स्वरूपकूँ समझि राग त्यगि परमधर्मसूँ राग करो । पुत्रके अर्थि अन्यायतँ धनादिपरिग्रहके ग्रहणका परित्याग करो । बहुरि स्त्री हू मोहनाम ठिगकी महापाशी है ममता उपजानेवाली है तृष्णाकूँ वधावनेवाली है स्त्रीमें तीव्रराग है सो धर्ममें प्रवृत्तिका नाश करै है लोभकूँ अत्यन्त वधावै है परिग्रहमें मूर्च्छा वधावै है ध्यान स्वाध्यायमें विघ्न करै है विषयनिमें अंध करनेवाली है क्रोधादि च्यारो कषायनिकी तीव्रता करनेवाली है संयमका घात करनेवाली है कलहको मूल है दुर्ध्यानको स्थान है मरण विगाडनेवाली है इत्यादिक दोषनिका मूलकारण जानि स्त्रीके संगमें रागभाव छाँडि वीतराग धर्मसूँ अपना संबन्ध करो । बहुरि कलिकालके मित्र हू विषयनिमें उलभावनहारे समस्त व्यसननिमें सहकारी हैं, धनवान देखें हैं तिनतँ अनेक प्रकार मित्रता करै हैं निर्धनतँ कोऊ संभाषण हू नहीं करै है, तातँ भो ज्ञानी जन हो, जो संसार-पतनको भय है तो अन्य समस्ततँ मित्रता छाँडि परधर्ममें अनुराग करो अर संसार निरंतर जन्म-मरण रूप है । जन्मदिनतँ ही मरणके सन्मुख निरंतर प्रयाण करै है अनंतानंतकाल जन्म मरण करते भया तातँ पंच परिवर्तनरूप संसारतँ विरागता भावो ।

अर ये पंचइन्द्रियनिके विषय हैं ते आत्माका स्वरूपकूँ भुलावने वाले हैं, तृष्णाके वधावनेवाले हैं, अतृप्तिताके करनेवाले हैं विषयनिकीसी आताप त्रैलोक्यमें अन्य नहीं है विषय हैं ते नरकादिकुगतिके कारण हैं धर्मतँ पराङ्मुख करै हैं कषायनिकूँ वधावने वाले है, अपना कल्याण चाहें तिनकूँ दूरहीतँ त्यागनेयोग्य है ज्ञानकूँ विपरीत करने वाले हैं, विषके समान मारनेवाले हैं अर अग्निसमान दाहके उपजानेवाले हैं तातँ विषयनितँ राग छोडना ही परमकल्याण है । अर शरीर है सो रोगनिका स्थान है महामलीन दुर्गंध सप्तधातुमय है, मलमूत्रादिककरि भरचा है वातपित्तकफमय है, पवनके आधारतँ हलन चलनादिक करै है सासता चुधातृपाकी वेदना उपजावै है समस्त अशुचिताका पुंजहै दिन दिन जीर्ण होता चल्या जाय है, कोटिनि उपाय करके हू रक्षा क्रिया हुआ मरणकूँ प्राप्त होय है ऐसा देहतँ विरागता ही श्रेष्ठ है ऐसे पुत्र मित्र कलत्र संसार भोग शरीरका दुःख करनेवाला स्वरूप जानि विराग भावकूँ प्राप्त होना सो संवेग है । संवेग भावनाकूँ निरन्तर चिंतवन करना ही श्रेष्ठ है यातँ मेरे हृदयमें निरन्तर संवेग भावना तिष्ठो ऐसा चिंतवन करते संसारदेहभोगनितँ विरक्तता होय तदि परम धर्ममें अनुराग होय है । धर्म-शब्दका अर्थ ऐसा जानना जो वस्तुका स्वभाव है सो धर्म है तथा उत्तमक्षमादि दशलक्षणरूप धर्म है तथा रत्नत्रयरूप धर्म है तथा जीवनिका दयारूप धर्म है । ऐसे पर्यायबुद्धि शिष्यनिके

समभावनेके अर्थि धर्मशब्दकूँ च्यार प्रकारकरि वर्णन किया है तो हू वस्तु जो आत्मा ताका स्वभाव ही दशलक्षण है जमादि दशप्रकार आत्मा का ही स्वभाव है अर सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्रि हू आत्मतैँ भिन्न नाहीं है अर दया है सो हू आत्माहीका स्वभाव है सो ऐसा जिनेन्द्रकरि कछा आत्माका स्वभावरूप दशलक्षणधर्ममें जो अनुराग सो संवेग धर्म है अर कपटरहित रत्नत्रयधर्म में अनुराग करना सो संवेग धर्म है तथा मुनीश्वरनिका अर श्रावकाका धर्ममें अनुराग सो संवेग है तथा जीवनिकी रक्षा करनेरूप जीवनिकी दयामें परिणाम होना सो भगवान संवेग कछा है अथवा वस्तु जो आत्मा ताका स्वभाव केवल ज्ञान केवलदर्शन है तिस स्वभावमें लीन होना सो प्रशंसा करने योग्य संवेग है जातैँ धर्ममें अनुराग परिणाम सो संवेग है, तथा धर्मका फलकूँ अत्यन्त-भिष्ट जानना सो संवेग है । ये तीर्थकरपना चक्रवर्ती होना नारायण प्रतिनारायण बलभद्रादिक उपजना सो धर्म ही का फल है तथा वाधारहित केवली होना तथा स्वर्गादिकनिमें महान ऋद्धिका धारक देव होना तथा इंद्र होना तथा अनुत्तरादिक विमानमें अहमिंद्र होना सो समस्त पूर्व जन्ममें आराधन किया धर्मका ही फल है ।

बहुरि और हू जो भोगभूमि आदिकमें उपजना राजसंपदा पावना अखंड ऐश्वर्य पावना, अनेक देशनिमें आज्ञाप्रवर्तन प्रचुर धनसंपदा पावना, रूपकी अधिकता पावनी, बलकी अधिकता चतुरता, महान् पंडितपना, सर्व लोकमें मान्यता, निर्मल यशकी विख्यातता बुद्धिकी उज्ज्वलता, आज्ञाकारी धर्मात्मा कुटुम्बका संयोग होना, सत्पुरुषनिकी संगति मिलना, रोगरहित होना, दीर्घआयु इन्द्रियनिकी उज्ज्वलता, न्यायमार्गमें प्रवर्तना, वचनकी मिष्टता इत्यादिक उत्तमसामग्रीका पावना है सो हू कोऊ धर्ममें प्रीति करी है तथा धर्मात्मानिका सेवन किया है धर्मकी तथा धर्मात्मानिकी प्रशंसा की है ताका फल है, कल्पवृक्ष चिंतामणि समस्त धर्मात्माके द्वारे खड़े जानहू । धर्मके फलकी महिमा कोऊ कोटि जिह्वानिकरि कहनेकूँ समर्थ नहीं होइये है । ऐसे धर्मके फलकूँ त्रैलोक्यमें उत्कृष्ट जानै व ताके संवेगभावना होय है । बहुरि धर्मसहित सधर्मीनिकूँ देखि आनन्द उपजना तथा धर्मकी कथनी में आनन्दमय होना और भोगनितैँ विरक्त होना सो संवेग नामा पंचम अंग है, याकूँ आत्माका हित समझि याकी निरंतर भावना भावो अर भावनाके आनन्दकरि सहित होय याकी प्राप्तिके अर्थि याका महा अर्थ उतारण करो । ऐसैँ संवेगनामा पंचम भावना वर्णन करी ॥५॥

अब शक्तिप्रमाणत्याग भावना वर्णन करिये है । त्यागनाम भावना प्रशंसायोग्य मनुष्यजन्मका मण्डन है । अपने हृदयमें त्यागभाव रचनेके अर्थि अनेक उत्सवरूप वादित्रनिकूँ वजाय याका महान अर्थ उतारण करो । बाह्य आभ्यन्तर दोय प्रकारका परिग्रहतैँ ममता छाडिनेकरि

त्यागधर्म होय है । अंतरंगपरिग्रह चौदह प्रकार है ऐसे जानना । जाणया विना ग्रहण त्याग वृथा है । मिथ्यात्व, अर स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदरूप परिणाम सो वेदपरिग्रह है । हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसे चौदह प्रकार अंतरंग परिग्रह जानना । तहाँ जो शरीरादिक परद्रव्यनिमें आत्मबुद्धि करना सो मिथ्यात्व नाम परिग्रह है । यद्यपि जो वस्तु है सो अपना द्रव्य अपना गुण अपना पर्याय है सो ही अपना स्वरूप हैं । जैसे स्वर्णनाम द्रव्य है सुवर्णके पीतादिक गुण हैं कुण्डलादि पर्याय हैं सो समस्त सुवर्ण ही है यातें सुवर्ण अन्यवस्तुका नाहीं अन्य वस्तु सुवर्णका नाहीं सुवर्ण है सो सुवर्ण हीका है अन्य वस्तुका कोऊ हुआ नाहीं, होहै नाहीं, होगया नाहीं, अपनास्वरूप है सो ही आपका है ऐसैं आत्मा है सो आत्माहीका है, आत्माका अन्य कोऊ ही द्रव्य नाहीं है । अब जो देहकूँ आपा मानै है जो मैं गोरा, मैं सावला, मैं राजा, मैं रङ्क, मैं स्वामी, मैं सेवक, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, मैं वृद्ध, मैं बाल, मैं बलवान, मैं निर्बल, मैं मनुष्य, मैं तिर्यच इत्यादिक कर्मकृत विनाशीक परद्रव्यकृत पर्यायमें आत्मबुद्धि करना सो ही मिथ्यात्वनाम परिग्रह है । मिथ्यादर्शनतैं ही मेरा गृह, मेरा पुत्र, मेरा राज मैं ऊँच मैं नीच इत्यादिक मानि समस्त परपदार्थनिमें आत्मबुद्धि करै है पुद्गलका नाशकूँ अपना नाश मानै है याके बन्धनेतैं अपना बंधना घटनेतैं घटना मानि पर्यायमें आत्मबुद्धिकरि अनादिकालतैं आपा भूलि रह्या है यातैं समस्त परिग्रहमें आत्मबुद्धिका मूल मिथ्यात्वनामपरिग्रह है जाकै मिथ्याज्ञान नाहीं सो परद्रव्यनिमें 'हमारा' ऐसैं कहता हुआ हू परद्रव्यनिमें कदाचित् आपा नाहीं मानै है ।

बहुरि वेदके उदयतैं स्त्री पुरुषनिमें जो कामसेवनके परिणाम होय है तिस काममें तन्मय होय कामके भावकूँ आत्मभाव मानना सो वेदपरिग्रह है । काम तो वीर्यादिकका प्रेरथा देहका विकार इसकूँ अपना स्वरूप जानै सो वेदपरिग्रह है । बहुरि धन ऐश्वर्य पुत्र स्त्री आभरणादि परद्रव्यादिकमें आसक्तता सो रागपरिग्रह है अन्यका विभव परिवार ऐश्वर्य पाण्डित्यादिक देखि वैरभाव करना सो द्वेषपरिग्रह है हास्यमें आसक्त होना सो हास्यपरिग्रह है अपना मरण होनेतैं मित्रनिका परिग्रहादिकनिकरि वियोग होनेतैं निरन्तर भयवान रहना सो भयपरिग्रह है । पंच-इंद्रियनिकरि वाञ्छित भोग-उपभोगके भोगनिमें लीन हो जाना सो रति परिग्रह है । अनिष्टवस्तुका संयोगमें परिणामनिका संक्लेशरूप होना सो अरतिपरिग्रह है अपना इष्ट स्त्रीपुत्रमित्रधनजीविका-दिकका वियोग होते तिनका संयोगकी वाञ्छा करके संक्लेशरूप होना सो शोक परिग्रह है । बहुरि घृणावान पुद्गलनिके देखनेतैं श्रवणतैं चित्तवनतैं स्पर्शनतैं परिणाममें ग्लानि उपजना सो जुगुप्सा नाम परिग्रह है । अथवा अन्यका उदय देखि परिणाममें क्लेशित होना सुहावे नाहीं सो जुगुप्सा

परिग्रह है। बहुरि परिणाममें रोषकरि तप्त होना सो क्रोध परिग्रह है बहुरि उच्च कुल जाति धन ऐश्वर्य रूप बल ज्ञान बुद्धि इनकरि आपकू अधिक जानि मद करना तथा परकू घाटि जानि निरादर करना, कठोर परिणाम रखना सो मान परिग्रह है। अनेक कपटछलादिककरि वक्रपरिणाम रखना सो माया परिग्रह है। परद्रव्यनिके ग्रहणमें तृष्णा सो लोभ परिग्रह है। ऐसैं सांसारिक भ्रमण-के कारण आत्माके ज्ञानादिक गुणनिके घातक चौदह प्रकार अन्तरंगपरिग्रह हैं अर इनहीं मूच्छाके कारण धनधान्यक्षेत्रसुवर्णादिक स्त्रीपुत्रादि चेतन अचेतन बाह्य परिग्रह हैं ऐसे अन्तरंग बहिरंग दौय प्रकारके परिग्रहके त्यागनेतैं त्याग धर्म होय है। यद्यपि बाह्यपरिग्रहरहित तो दरिद्री मनुष्य स्वभाव हीतैं होय है परन्तु अभ्यंतर परिग्रहका त्याग बहुत दुर्लभ है। यातैं दौय प्रकार परिग्रहका एक देशत्याग तो श्रावकके होय है अर सकलत्याग मुनीश्वरनिके होय है बहुरि कपायनि का त्यागतैं त्यागधर्म होय। बहुरि इन्द्रियनिकू विषयनितैं रोकनेकरि त्याग होय है। बहुरि रसनिका त्यागकरि त्यागधर्म होय है जातैं रसना इन्द्रियकी लोलुपता जीतनेतैं समस्त पापनिका त्याग सहज होय है। बहुरि जिनेन्द्रका परमागमका अध्ययन करना अन्यकू अध्ययन करावना शास्त्रनिकू लिखाय देना शोधना शुधावना सो परम उपकार करनेवाला त्यागधर्म होय है। बहुरि मनके दुष्टविकल्पनिका अभाव करना, दुष्टविकल्पनिके कारण छांडि चारि अनुयोगकी चरचामें चित्त लगावना सो त्यागधर्म है। बहुरि मोहका नाश करनेवाला धर्मका उपदेश श्रावकनिकू देना सो महापुण्यका उपजानेवाला त्यागधर्म है, वीतरागधर्मका उपदेशतैं अनेकप्राणीनिका परिणाम पापतैं भयभीत होय है धर्मके प्रभावकू अनेक प्राणी प्राप्त होय हैं। बहुरि उत्तम मध्यम जघन्य ऐसैं तीन प्रकारके पात्रनिकू भक्तिकरि युक्त होय आहारदान देना, प्रासुक औषधि देना, ज्ञानके उपकरण सिद्धान्त के पढनेयोग्य पुस्तकका दान देना, मुनिके योग्य तथा श्रावकके योग्य वस्तिका दान देना, गुणनिके धारकनिकू तपकी वृद्धि करनेवाला, स्वाध्यायमें लीन करने वाला, ध्यानको वृद्धिका कारण आहारादिक चारि प्रकारका दान परमभक्तितैं विकसितचित्त हुआ अपना जन्मकू कृतार्थ मानता गृहाचारकू सफल मानता बड़ा आदरतैं पात्रदान करो। पात्रदान होना महाभाग्यतैं जिनका भला होना है तिनके होय है पात्रका लाभ होना ही दुर्लभ है अर भक्तिसहित पात्रदान होय जाय ताकी महिमा कहनेकू कौन समर्थ है। बहुरि लुधा-तृषाकरि जो पीडित होय तथा रोगी होय दरिद्री होय वृद्ध होय दीन होय तिनकू अचुकंपाकरि दान-देना सो समस्त त्यागधर्म है त्यागहीतैं मनुष्यजन्म सफल है, त्यागहीतैं धन-धान्यादिक पावना सफल है, त्याग विना गृहस्थका गृह है सो श्मशान समान है, अर गृहस्थीका स्वामी पुरुष मृतक ममान है अर स्त्री-पुत्रादिक गृहपत्नी समान है सो याका धनरूप मांस चूंटी-चूंटी खाय है। एतैं त्याग भावना वर्णन करी ॥६॥

अत्र शक्तिप्रमाणतप भावना अंगीकार करना । क्योंकि यो शरीर दुःखको कारण है । अनेक दुःख यो शरीर उपजावै है अर यो शरीर अनित्य है, अस्थिर है अशुचि है, कृतघ्नवत् है, कोट्यां उपकार करता हू जैसे कृतघ्न अपना नाही होय है तैसे देहके नाना उपकार सेवा करता हू अपना नाही होय है यातै यथेष्टविधि करि याकूँ पुष्ट करना योग्य नाही, कृश करने योग्य है, तो हू यो गुण-रत्ननिके संचयको कारण है । शरीर विना रत्नत्रयधर्म नाही होय है, सेवक की ज्यों योग्य भोजन देय यथाशक्ति जिनेन्द्रका मार्गतै विरोधरहित कायक्लेशादि तप करना योग्य है । तप विना इन्द्रियनिकी विषयनिमें लोलुपता घटै नाही, तप विना त्रैलोक्यका जीतने-वाला कामकूँ नष्ट करनेकूँ समर्थता होय नाही, तप विना आत्माकूँ अचेत करनेवाली निद्रा जीती जाय नाही अर तप विना शरीरका सुखिया स्वभाव मिटै नाही, जो तपके प्रभावतै शरीरकूँ साधि राख्या होय तो लुधा तृषा शीत उष्णादिक परीषह आये कायरता उपजै नाही, संयमधर्मतै चला-यमान होय नाही तप है सो कर्मकी निर्जराका कारण है । तातै तप ही करना श्रेष्ठ है । अपनी शक्तिकूँ नाही छिपाय करिकै जैसे जिनेन्द्रके मार्गतै विरोधरहित होय तैसे तप करो, तपनाम सुमट का सहाय विना ये अपना श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप धनकूँ काम क्रोध प्रमादादिक लुटेरे एक क्षण में लूटि लेवेंगे तदि रत्नत्रयसंपदाकरि रहित चतुर्गतिरूप संसारमें दीर्घकाल भ्रमण करोगे, याहीतै जैसे वात पित्त कफ ये त्रिदोष विपरीत होय रोगादिक नाही उपजावै तैसे तप करना उचित है । समस्ततै प्रधान तप तो दिग्म्बरपणा है । कैसा है दिग्म्बरपणा जो घरकी ममतारूप पासीकूँ छेदि देहका समस्त सुखियापणा छाडि अपना शरीरतै शीत उष्ण तांबडा वर्षा पवन डांस मच्छर मच्छिकादिकनिकी बाधाके जीतनेकूँ सम्मुख होय कोपीनादिक समस्त वस्त्रादिकको त्यागकरि दश-दिशाखरही जामें वस्त्र हैं ऐसा दिग्म्बरपणा धारण करना सो अतिशयरूप तप जानना । जाका स्वरूपकूँ देखते श्रवण करते बडे बडे शूरवीर कंपायमान हो जाय हैं तातै भो शक्तिकूँ प्रगट-करनेमाले हो जो संसारके बंधनसे छूट्या चाहो हो तो जिनेश्वरसंबंधी दीक्षा धारण करो जातै अङ्गका सुखियापणा नष्ट होय उपसर्ग-परीषह सहनेमें कायरताका अभाव होय सो तप है । जातै स्वर्गलोककी रंभा अर तिलोत्तमा हू अपने हावभाव-विलासविभ्रमादिककरि मनकूँ कामका विकार सहित नाही कर सकै ऐसा कामकूँ नष्ट करै सो तप है । जो दौय प्रकारके परिग्रहमें इच्छाका अभाव हो जाय सो तप है, तप तो वही है जो निर्जनवन अर पर्वतनिका भयंकर गुफा जहां भूत-राक्षसादिकनिके अनेक विकार प्रवतै अर सिंह-व्याघ्रादिकनिके भयङ्कर प्रचार होय रहें अर कोट्यां वृक्षनिकरि अन्धकार होय रखा अर जहां सर्प अजगर रीछ चीता इत्यादिक भयङ्कर दुष्टतिर्यचनिका संचार होय रखा ऐसे महा विषमस्थाननिमें भयरहित हुआ ध्यान-स्वाध्यायमें निराकुल हुवा तिष्ठै सो तप है । जो आहारका लाभ-अलाभमें समभावके धारक मीठा खाटा कडुवा कषायला ठंडा ताता सरस नीरस भोजन जलादिकमें लालसाररहित संतोपरूप अमृतका पान

करते आनन्दमें तिष्ठै सो तप है । जो दुष्ट देव, दुष्ट मनुष्य, दुष्ट तिर्यचनिकरि किये घोर उपसर्ग-  
निकूँ आवते कायरता छाँडि कंपायमान नाहीं होना सो तप है जातैं चिरकालका संचय किया  
कर्म निर्जरै सो तप है । बहुरि जो कुवचन कहनेवाले ताडन मारन अग्निमें ज्वालनादि उपद्रव करने-  
वालेमें द्वेषबुद्धिकरि क्लृप परिणाम नाहीं करना, अर स्तुति-जनादि करनेवालेमें राग भावका नाहीं  
उपजना सो तप है । बहुरि पंच महाव्रतनिका अर पंच समितिका पालन अर पंच इन्द्रियनिका निरोध  
करना अर छह आवश्यकका समय समय करना, अपने मस्तकके डाढी-मूँछके केशनिकूँ अपने  
हस्ततैं उपासका दिनमें उपाडना, दोय महीना पूर्ण भए उत्कृष्ट लोंच है मध्यम तीन महीने गये  
लोंच करै जघन्य चार महीने गये लोंच करै है सो लोंच करना हू तप है अन्य भेषीनिकी ज्यों  
रोजीना केश नाहीं उपाडै है, शीतकाल ग्रीष्मकाल वर्षाकालमें नग्न रहना अर स्नानका नाहीं  
करना अर भूमिशयनकरि अल्पकाल निद्रा लेना, दन्तनिकूँ अंगुलीकरि हू नाहीं धोवना अर एक  
वार भोजन खडा भोजन, रसनीरस स्वादकूँ छाँडि भोजन करै ऐसे अट्ठाईस मूलगुण अखंड  
पालना सो बड़ा तप है इन मूलगुणनिके प्रभावतैं घातियाकर्मनिका नाशकरि केवलज्ञानकूँ प्राप्त  
होय मुक्त हो जाय है । यातैं भो ज्ञानीजन हो, धर्मको अङ्ग यो तप है याकी निर्विघ्न प्राप्तिके अर्थ  
याहीका स्तवन पूजनादिककरि याका महाअर्घ उतारण करो । यातैं दूरि अर अत्यन्त परोक्ष हू मोक्ष  
तुम्हारे अतिनिकटताकूँ प्राप्त होय है ऐसैं शक्तिवस्त्यागनामा सप्तमी भावनाका वर्णन  
किया ॥७॥

साधुसमाधिनामा अष्टमी भावनाकूँ कहै हैं । जैसे भंडारमें लागी हुई अग्नि कूँ गृहस्थ है  
सो अपना उपकारक वस्तुका नाश जानि अग्नि कूँ बुकाइये है; क्योंकि अनेक वस्तुकी रक्षा  
होना बहुत उपकारक है तैसें अनेक व्रत-शीलादि अनेक गुणनिकरि सहित जो व्रती संयमी तिनके  
कोऊ कारणतैं विघ्न प्रगट होतैं विघ्न कूँ दूरिकरि व्रत शीलकी रक्षा करना सो साधुसमाधि है  
अथवा गृहस्थके अपने परिणामकूँ विगाडनेवाला मरण आ जाय उपसर्ग आ जाय, रोग आ  
जाय इष्टविद्योग हो जाय, अनिष्टसंयोग आ जाय तदि भयकूँ नाहीं प्राप्त होना सो साधुसमाधि  
है । म्म्यजानी ऐसा विचार करै हैं हे आत्मन् ! तुम अखंड अविनाशी ज्ञान-दर्शनस्वभाव हो  
तुम्हारा मरण नाहीं, जो उपज्या है सो विनशैगा, पर्यायका विनाश है चैतन्य द्रव्यका विनाश  
नाहीं हे पांच इन्द्रिय अर मनबल वचनबल कायबल आयुबल अर उस्वास ये दशप्राण हैं इनका  
नाशकूँ मरण कहिये है तुम्हारा ज्ञानदर्शन सुखसत्ता इत्यादिक भावप्राण हैं तिनका कदाचित् नाश  
नाहीं है तातैं देहका नाशकूँ अपना नाश मानना सो मिथ्याज्ञान है ।

भो ज्ञानिन् ! हजारों कृमिनिकरि भरया हाडमांसमय दुर्गंध विनाशीक देहका नाश होतै  
तुम्हारे कहा भया है तुम तो अविनाशी ज्ञानमय हो । यो सृष्ट्यु है सो बड़ा उपकारी मित्र है जो

गल्या सञ्चा देहमेंतैँ काढि तुमकूँ देवादिकनिका उत्तमदेह धारण करावै है मरण मित्र नाहीं होता तो इस देहमें केते काल बसता अर रोगका अर दुःखनिका भरचा देहतैँ कौन निकासता अर समाधिमरणादिकरि आत्माका उद्धार कैसेँ होता ? अर व्रततपसंयमका उत्तम फल मृत्युनाम मित्रका उपकार विना कैसेँ पावता, अर पापतैँ कौन भयभीत होता, अर मृत्युरूप कल्पवृक्षविना चारि आराधनाका शरण ग्रहण कराय संसाररूप कर्दमतैँ कौन काढता ? तातैँ संसारमें जिनका चित्त आसक्त है अर देहकूँ अपना रूप जानै है तिनके मरणका भय है । सम्यग्दृष्टि देहतैँ अपना स्वरूपकूँ भिन्न जानि भयकूँ प्राप्त नाहीं होय है तिनके साधुसमाधि होय है अर जो मरणके अवसरमें कदाचित् रोग-दुःखादिक आवै हैँ सो हू सम्यग्दृष्टिके देहसँ ममत्व छुडावनेके अर्थि हैँ अर त्याग संयमादिकके सम्मुख करनेके अर्थि हैँ, प्रमादकूँ छुडाय सम्यग्दर्शनादिक चारि आराधनामें दृढताके अर्थि है । अर ज्ञानी विचारै हैँ जो जन्म धरया हैँ सो अवश्य मरैगा जो कायर होहंगा तो मरण नाहीं छांडैगा अर धीर होय रहंगा तो मरण नाहीं छांडैगा तातैँ दुर्गति का कारण जो कायरतातैँ मरण त्राकूँ धिक्कार होह । अब ऐसा साहसतैँ मरूँ जो देह मरि जाय अर मेरा ज्ञानदर्शनस्वरूपका मरण नाहीं होय ऐसेँ मरण करना उचित हैँ तातैँ उत्साहसहित सम्यग्दृष्टिके मरणका भय नाहीं सो साधुसमाधि है ।

बहुरि देवकृत मनुष्यकृत तिर्यचकृत उपसर्गकूँ होते जाके भय नाहीं होय पूवँ उपजाया कर्मकी निजरा ही मानै हैँ ताकैँ साधुसमाधि है । बहुरि रोगका भयकूँ नाहीं प्राप्त होय हैँ जातैँ ज्ञानी तो अपना देहकूँ ही महारोग मानै हैँ जातैँ निरन्तर क्षुधा-तृषादिक घोर रोगकूँ उपजावने वाला शरीर हैँ बहुरि यो मनुष्य शरीर हैँ सो वातपित्तकफादिक त्रिदोषमय हैँ असातावेदनीय कर्मके उदयतैँ त्रिदोषकी घटती बढतीतैँ ज्वर कांस स्वास अतिसार उदरशूल शिरशूल नेत्रका विकार वातादिपीडा होते ज्ञानी ऐसा विचार करै हैँ जो यो रोग मेरे उत्पन्न भया हैँ सो याकूँ असातावेदनीयकर्मको उदय तो अंतरंग कारण हैँ अर द्रव्य क्षेत्र-कालादि बहिरंग कारण हैँ सो कर्मके उदयकूँ उपशम हुआ रोगका नाश होयगा असाताका प्रबल उदयकूँ होते बाह्य औषधादिक ही रोग मेटनेकूँ समर्थ नाहीं हैँ अर असाताकर्मके हरनेकूँ कोऊ देव दानव मन्त्र-तंत्र औषधादिक समर्थ हैँ नाहीं, यातैँ अब संक्लेशकूँ छांडि समता ग्रहण करना अर बाह्य औषधादिक हैँ तेँ असाताके मन्द उदय होतैँ सहकारी कारण हैँ असाताका प्रबल उदय होतैँ औषधादिक बाह्यकरण रोग मेटनेकूँ समर्थ नाहीं हैँ ऐसा विचारि असाताकर्मके नाशका कारण परम-समता धारणकरि संक्लेशरहित होय सहना, कायर नाहीं होना सो ही साधुसमाधि है । बहुरि इष्टका वियोग होतैँ अर अनिष्टका संयोग होतैँ ज्ञानकी दृढतातैँ जो भयकूँ प्राप्त नाहीं होना सो साधुसमाधि है । पुरुष जन्मजरामरणकरि भयवान हैँ अर सम्यग्दर्शनादि गुणनिकरि सहित हैँ सो पर्यायका अन्तकालमें आराधनाका शरणसहित अर भय करि रहित देहादिक समस्तपरद्रव्य-



निमें ममतारहित हुआ व्रतसंयमसहित समाधिमरणकी वांछा करै है ।

इस संसारमें परिभ्रमण करता अनन्तानन्तकाल व्यतीत भया समस्त सप्ताम अनेकवार पाया परन्तु सम्यक्समाधिमरणकूं नाहीं प्राप्त भया हूं जो समाधिमरण एक वार हू होता तो जन्ममरणका पात्र नाहीं होता । संसारपरिभ्रमण करता मैं भव-भवमें एक नवीन नवीन देह धारण किये, ऐसा कौन देह है जो मैं नाहीं धारण किया अब इस वर्तमान देहमें कहा ममत्व करूं अर मेरे भव-भवमें अनेक स्वजन कुटुम्बजनका हू सम्बन्ध भया है अब ही स्वजन नाहीं मिले हैं यतैं कौन कौन स्वजनमें राग करूं अर मेरे भव-भवमें अनेक वार राजऋद्धि हू उपजी अब मैं इस तुच्छ सम्पदामें ममता कहा करूं गा, भव-भवमें मेरे अनेक माता पिता हू पालना करने वाले हो गये अब ही नाहीं भये हैं । बहुरि मेरे भव-भवमें नारीपणा हू भया अर मेरे भव-भवमें कामकी तीव्रलम्पटतासहित नपुंसकपणा हू भया अर मेरे भव-भवमें अनेकवार पुरुपपणा हू भया तो हू वेदके अभिमानकरि नष्ट होता फिरया अर भव-भवमें अनेक जातिके दुःखकूं प्राप्त भया ऐसा संसारमें कोऊ दुःख नाहीं है जो मैं अनेकवार नाहीं पाया, अर ऐसा कोऊ इन्द्रियजनित सुख हू नाहीं है जो मैं अनेकवार नहीं पाया, अर अनेकवार नरकमें नारकी होय असंख्यातकालपर्यंत प्रमाणरहित नानाप्रकारके दुःख भोगे अर अनेक भव तिर्यंचनिके प्राप्त होय असंख्यात अनंतवार जन्ममरण करता अनेकप्रकारके दुःख भोगता वारम्बार परिभ्रमण किया । अनेकवार धर्मवासना-रहित मिथ्यादृष्टि मनुष्य हू भया । अर अनेकवार देवलोकनिमें हू प्राप्त भया अर अनेक भवनिमें जिनेन्द्रकूं पूज्या अनेक भवनिमें गुरुवन्दना हू करी अनेक भवनिमें मिथ्यादृष्टि हुआ कपटतैं आत्मनिंदाहू करी अनेक भवनिमें दुर्द्धर तप हू धारण किया । अनेक भवनिमें भगवानका समवशरण हू में संचार किया अर अनेक भवनिमें श्रुतज्ञानके अङ्गनिका हू पठन-पाठनादिक अभ्यास किया तथापि अनन्तकाल भव-निवासी ही रखा । यद्यपि जिनेन्द्रकूं पूजना गुरुनिकी वंदना तथा आत्मनिंदा करना तथा दुर्द्धर तपश्चरण करना समवशरणमें जावना, श्रुतनिके अङ्गनिका अभ्यास करना इत्यादिक ये कार्य प्रशंसायोग्य हैं, पापका विनाशक हैं, पुण्यका कारण हैं तो हू सम्यग्दर्शन विना अकृतार्थ हैं । संसारपरिभ्रमणकूं नाहीं रोकि सकें हैं । सम्यग्दर्शन विना समस्त क्रिया पुण्यका बन्ध करनेवाली है सम्यग्दर्शन सहित होय तदि संसारको छेद करै । सो ही आत्मानुशासनमें कहा है—

समबोधश्चतपसां पापाणस्येव गौरवं पुंसः ।

पूज्यं महामणेरिव तदेव सम्यक्त्वसंयुक्तम् ॥१॥

अर्थ—पुरुषके समभाव अर ज्ञान अर चारित्र अर तप इनको महानपणी पापाणका मदानपणाके तुल्य है, अर ये ही जे समबोध चरित्र अर तप जो सम्यक्त्व सहित होंय तो

महामणिकी ज्यों पूज्य हो जाय ।

भावार्थ— जगतमें मणि है सो हू पाषाण है अर अन्य भाभड़ा पत्थर है सो हू पाषाण है परन्तु पाषाण तो मण दिय मण हू बांधि ले जाय बेचै तो हू क पीसो उपजै तातैं एक दिन हू पेट नाहीं भरै । अर मणि केई रती हू ले जाय बेचै तो हजारों रुपया उपजै समस्त जन्मका दारिद्र नष्ट होजाय । तैसैं समभाव अर शास्त्रनिका ज्ञान अर चारित्रधारण अर घोर तपश्चरण ये सम्यक्त्व विना बहुत काल धारण करै तो राज्यसम्पदा पावै तथा मन्दकषायके प्रभावतैं देवलोकमें जाय उपजै फिर चयकरि एकइंद्रियादिक पर्यायनिमें परिभ्रमण करै । अर जो सम्यक्त्वसहित होय तो संसारपरिभ्रमणका नाशकरि मुक्त होजाय तातैं सम्यक्त्व विना मिथ्यादृष्टि है सो जिनकू पूजो वा गुरुवंदना करो समवशरणमें जावो श्रुतका अभ्यास करो तप करो तो हू अनन्तकाल संसारवास ही करैगा, इस तीन भवमें सुख दुःखकी समस्त सामग्री यो जीव अनंतवार पाई कोऊ हू दुर्लभ नाहीं एक साधुसमाधि जो रत्नत्रयका लब्धिकू निर्विघ्न परलोकताई ले जाना है सो रत्नत्रयसहित हुआ देहकू छांडै है तिनके साधुसमाधि होय ताका पावना ही दुर्लभ है । साधुसमाधि है सो चतुर्गतिनिमें परिभ्रमणके दुःखका अभावकरि निश्चल स्वाधीन अनंत सुखकू प्राप्त करै है । जो पुरुष साधुसमाधि भावनाकू निर्विघ्न प्राप्त होनेके अर्थि इस भावनाकू भावता याका महान अर्थ उतारण करै है सो ही शीघ्र संसारसमुद्रकू तिरि अष्टगुणनिका धारक सिद्ध होय है ऐसैं साधुसमाधिनामा अष्टमी भावना वर्णन करी ॥८॥

अब वैद्यावृत्तिनामा नवमी भावना वर्णन करिये है । कोठा अर उदरकी जो व्यथा आमवात, संग्रहणी, कठोदर, सफोदर, नेत्रशूल, कर्णशूल, शिरःशूल, दन्तशूल, तथा ज्वर, कास, स्वास, जरा इत्यादिक रोगनिकरि पीडित जे मुनि तथा श्रावक तिनकू निर्दोष आहार औषधि वस्तिकादिक करि सेवा करना, तिनकी शुश्रूषा करना, विनय करना, आदर करना, दुःख दूर करनेमें यत्न करना, सो समस्त वैद्यावृत्त्य है । जे तपकरि तप्त होय अर रोग करि युक्त जिनका शरीर होय तिनके वेदना देखकर तिनके अर्थि प्रासुक औषधि तथा पथ्यादिककरि रोगका उपशम करना, सो नवम वैद्यावृत्त्य नाम गुण है । वैद्यावृत्त्य मुनीश्वरनिके दश भेद करि दश प्रकार हैं । आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैच्य, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञ इन दश प्रकार के मुनीश्वरनिके परस्पर वैद्यावृत्त्य होय है कायकी चेष्टा करि वा अन्य द्रव्यकरि दुःखवेदनादिक दूर करनेमें व्यापार करिये, प्रवर्तन करिये सो वैद्यावृत्त्य है, इन दश प्रकारके मुनिनिका ऐसा स्वरूप जानना जिनतैं स्वर्ग मोक्षके सुखके बीज जे व्रत तिननैं आदरसहित ग्रहण करिकै भव्यजीव अपने हितके अर्थि आचरण किये ते सम्यग्ज्ञानादि गुणनिके धारक आचार्य हैं ।

भावार्थ— जिनतैं मोक्षके स्वर्गके साधक व्रत आचरण करिये ते आचार्य हैं । जिनका

समीपकूँ प्राप्त होय आगमकूँ अध्ययन करिये ते व्रत शील-श्रुतके आधार ऐसे उपाध्याय हैं । महान् अनशनादितपमें तिष्ठें ते तपस्वी हैं, जे श्रुतके शिष्यमें तत्पर निरन्तर व्रतनिकी भावनामें तत्पर ते शैच्य हैं । रोगादिककरि जाका शरीर क्लेशित होय सो ग्लान है, वृद्ध मुनिनिकी परिपाटीका होय सो गण है, आपकूँ दीक्षा देनेवाला आचार्यका शिष्य होय सो कुल है । च्यारि प्रकारके मुनिका समूह सो संघ है, चिरकालका दाक्षित होय सो साधु है जो पण्डितपणाकरि वक्ता पणाकरि ऊँचे कुलकरि लोकनिमें मान्य होय धर्मका गुरु कुलका गौरवपणाका उत्पन्न करने वाला होय सो मनोज्ञ है । अथवा असंयतसम्यग्दृष्टि हूँ संसार का अभावरूपपणातैं मनोज्ञ है इन दश प्रकारके मुनिनिकै रोग आजाय परीषहनिकरि खेदित होय तथा श्रद्धानादि बिगडि मिथ्यात्वादिक प्राप्त होय जाय तो प्रासुक औषधि भोजनपान योग्यस्थान आसन काष्ठफलक तृणादिकनिका संस्तरादिकनिकारि अर पुस्तक पीछिकादिक धर्मोपकरणकरि जो प्रतिकार उपकार करिये तथा सम्यक्त्वमें फेरि स्थापन करिये इत्यादि उपकार सो वैयावृत्त्य है । अर जो बाह्य भोजनपान औषधादिक नाहीं सम्भवते होय तो अपने कायकरके कफ तथा नाशिकामल मूत्रादिक दूर करनेकरि तथा उनके अनुकूल आचरण करनेकरि वैयावृत्त्य होय है । इस वैयावृत्त्य में समयका स्थापन ग्लानिकी अभाव अर प्रवचनमें वात्सल्यपणो अर सनाथपणो इत्यादि अनेक गुण प्रकट होय हैं । वैयावृत्त्य ही परम धर्म है । वैयावृत्त्य नाहीं होय तो मोक्षमार्ग बिगडि जाय । आचार्यादिक हैं ते शिष्य मुनि तथा रोगी इत्यादिकका वैयावृत्त्य करनेतैं बहुत विशुद्धता उच्चताकूँ प्राप्त होय हैं । ऐसे ही श्रावकादिक मुनिका वैयावृत्त्य करै तथा श्रावक श्राविका करै । औषधिदानकरि वैयावृत्त्य करै । अर भक्तिपूर्वक युक्तिकरि देहका आधार आहारदानकरि वैयावृत्त्य करै अर कर्मके उदयतैं दोष लागि गया होय ताका हांकना तथा श्रद्धानक्षं चलायमान भया होय ताकूँ सम्यग्दर्शन ग्रहण कराना तथा जिनेन्द्रके मार्गसं चलि गया होय ताकूँ मार्गमें स्थापन करना इत्यादिक उपकारकरि वैयावृत्त्य है । बहुरि जो आचार्यादि गुरु शिष्यकूँ श्रुतका अंग पढावै तथा व्रत संयमादिक की शुद्धिकौ उपदेश करै सो शिष्यका वैयावृत्त्य है अर शिष्यहूँ गुरुनिकी आज्ञाप्रमाण प्रवर्तता गुरुनिका चरणनिका सेवन करै सो आचार्यका वैयावृत्त्य है । बहुरि अपना चैतन्यस्वरूप आत्माकूँ रागद्वेषादिक दोषनिकारि लिप्त नाहीं होने देना सो अपने आत्माका वैयावृत्त्य है तथा अपने आत्माकूँ भगवान्के परमागममें लगाय देना तथा दशलक्षणरूप धर्ममें लीन होना सो आत्मवैयावृत्त्य है । काम क्रोध लोभादिकके अर्थ अर इन्द्रियनिके विषयनिके आधीन नाहीं होना सो अपना आत्माका वैयावृत्त्य है । बहुरि इहां औरहूँ विशेष जानना जो रोगी मुनिका तथा गुरुनिका प्रातःकाल अर अथरणे शयन आसन कमंडलु पीछी पुस्तक नेत्रनिषं देखि मयूरपिच्छिकातैं शोधना तथा अशक्त रोगी मुनिका आहार औषधकरि संयमके योग्य उपचार करना तथा शूद्र ग्रन्थके याचनेकरि, धर्मका उपदेशकरि परिणामकूँ धर्ममें लीन करना तथा उठावना

वैठावना मल-मूत्र करवाना क्लोट लिवाना इत्यादिकरि वैयावृत्य करै तथा कोऊ साधु मार्गकरि खेदित होय तथा भील म्नेत्र दुष्टराजा दुष्टतिर्यचनिकरि उपद्रवरूप हुआ होय दुर्भिक्ष मारी व्याधि इत्यादिक उपद्रवकरि पीडा होनेतैं परिणाम कायर भया होय ताकूँ स्थान देय कुशल पूछि करि आदरकरि सिद्धान्ततैं शिचाकरि स्थितीकरण करना सो वैयावृत्य है ।

बहुरि जो समर्थ होय करकेहूँ अपना बलवीर्यकूँ छिपाय वैयावृत्य नाहीं करै है सो धर्मरहित है । तीर्थंकरनिकी आज्ञा भङ्ग करी श्रुतकरि उपदेशया धर्मकी विराधना करी आचार विगाढ्या प्रभावना-नष्ट करी धर्मात्माकी आपदाहमें उपकार नाहीं किया तदि धर्मतैं पराड्मुख भया अर जाके ऐसा परिणाम होय जो अहो मोह अग्निकरि दग्ध होता जगतमें एक दिगम्बर मुनि ज्ञानरूप जलकरि मोहरूप अग्निकूँ बुझाय आत्मकल्याणकूँ करै हैं धन्य हैं, जे कामकूँ मारि रागद्वेषका परिहारकरि इन्द्रियनिकूँ जीत आत्माके हितमें उद्यमी भए हैं ये लोकोत्तर गुणनिके धारक हैं मेरे ऐसे गुणवंतनिका चरणनिका ही शरण होहू ऐसे गुणनिमें परिणाम वैयावृत्यतैं ही होय हैं । अर जैसे जैसे गुणनिमें परिणाम बधै तैसें तैसें श्रद्धान बधै है । श्रद्धान बधै तदि धर्ममें प्रीति बधै तदि धर्मके नायक अरहन्तादिक पंच परमेष्ठीके गुणनिमें अनुरागरूप भक्ति बधै है । कैमीक भक्ति होय है जो मायाचार-रहित मिथ्याज्ञानरहित भोगनिकी वांछारहित अर मेरुकी ज्यों निष्कंय अचल ऐसी जिनभक्ति जाकै होय ताके संसारके परिभ्रमणका भय नाहीं रहै है सो भक्ति धर्मात्माकी वैयावृत्यतैं होय है । बहुरि पंच महाव्रतनिकरि युक्त अर कषाय करि रहित रागद्वेषका जीतनेवाला श्रुतज्ञानरूप रत्ननिका निधान ऐसा पात्रका लाभ वैयावृत्य करनेवालेके होय है जो रत्नत्रयधारीका वैयावृत्य किया सो रत्नत्रयसूँ अपना जोड बांधि आपकूँ अर अन्यकूँ मोक्षमार्गमें स्थापै है । बहुरि वैयावृत्य अन्तरंग बहिरंग दोऊ तपनिमें प्रधान, कर्मकी निर्जराका प्रधान कारण है जो आचार्यको वैयावृत्य कीयो सो समस्त संघको सर्व धर्मको वैयावृत्य कीयो भगवानकी आज्ञा पाली अर आपके अर परके संयमकी रक्षा शुभध्यानकी वृद्धि अर इन्द्रियनिका निग्रह किया रत्नत्रयकी रक्षा अर अतिशयरूप दान दीया, निर्विचिकित्सा गुणकूँ प्रगट दिखाया जिनेन्द्रधर्मकी प्रभावना करी, धन खरच देना सुलभ है रोगीकी टहल करना दुर्लभ है अन्यका औगुण ढकना, गुण प्रकट करना इत्यादिक गुणनिके प्रभावतैं तीर्थंकर नाम प्रकृतिका बन्ध करै है यो वैयावृत्य जगतमें उत्तम ऐसी जिनेन्द्रकी शिचा है जो कोऊ आवक वा साधु वैयावृत्य करै है सो सर्वोत्कृष्ट निर्वाणकूँ पावै है । बहुरि जो अपना सामर्थ्यप्रमाण छःकायकी जीवनिकी रक्षामें सावधान है ताके समस्त प्राणीनिका वैयावृत्य होय है ऐसे वैयावृत्य नाम नवमी भावना वर्णन करी ॥६॥

अब अरहन्तभक्ति नाम दशमी भावना वर्णन करै हैं । जो मनवचनकाय करिकें जिन ऐसे दोय अक्षर सदाकाल स्मरण करै है सो अरहन्तभक्ति है ।

भावार्थ—अरहन्तके गुणनिमें अनुराग सो अरहन्तभक्ति हैं जो पूर्वजन्ममें पौडशकारण भावना भाई है सो तीर्थकर होय अरहन्त होय है ताकै तो पौडशकारण नाम भावनातैं उपजाया अद्भुत पुण्य ताके प्रभावतैं गर्भमें आवनेके छह महीने पहली इन्द्रकी आज्ञातैं कुवेर है सो वारह-योजन लम्बी, नवयोजन चौड़ी रत्नमय नगरी रचै है तिसकै मध्य राजाके रहनेका महलनिका वर्णन अर नगरीकी रचना अर बड़े द्वार अर कोट खाई पडकोट इत्यादिक रत्नमई जो कुवेर रचै है ताकी मडिमा तो कोऊ हजार जिहानिकरि वर्णन करनेकूँ समर्थ नाहीं है तहां तीर्थकरकी माताका गर्भका शोधना अर रुचकद्वीपादिकमें निवास करनेवाली छप्पन कुमारिका देवी माताकी नाना प्रकारकी सेवा करनेमें सावधान होय हैं अर गर्भके आवनेके छह महीना पहली प्रभात मध्याह्न अर अपराह्न एक-एक कालमें आकाशतैं साढा तीनकोटि रत्ननिकी वर्षा कुवेर करै है अर पाछैं गर्भमें आवतैं ही इन्द्रादिक च्यारि निकायके देवनिका आसन कम्पायमान होनेतैं च्यारि-प्रकारके देव आय नगरकी प्रदक्षिणा देय मातापिताकी पूजा सत्कारादिकरि अपने स्थान जाय हैं अर भगवान तीर्थकर स्फटिकमणिका पिटारासमान मलादिरहित माताका गर्भमें तिष्ठै हैं अर कमलवासिनी छह देवी अर छप्पन रुचिकद्वीपमें बसनेवाली अर और अनेक देवी माताकी सेवा करै हैं अर नव महीना पूर्ण होतैं उचित अवसरमें जन्म होते ही च्यारों निकायके देवनिका आसन कम्पायमान होना अर वादित्रनिका अकस्मात् वाजनेतैं जिनेन्द्रका जन्म जानि बड़ा हर्ष सै सौधर्म नामा इंद्र लक्ष्मण प्रमाण ऐरावत हस्ती ऊपरि चढि अपना सौधर्म स्वर्गका इकतीसमा पटलमें अठारमां श्रेणीवद्ध नाम विमानतैं असंख्यातदेव अपने परिकरनिकरि सहित साढा वारा कोडिजातिका वादित्रनिकी मिष्टध्वनि अर असंख्यात देवनिका जयजयकार शब्द अर अनेक ध्वजा अर उत्सवसामग्री अर कोट्यां अप्सरानिका नृत्यादिक उत्सव अर कोट्यां गंधर्वदेवनिका गावने करि सहित असंख्यात योजन ऊंचा इहांतैं इन्द्रका रहनेका पटल अर असंख्यातयोजन तिर्यक् दक्षिणदिशामें है तहां ते जंबूद्वीपपर्यंत असंख्यातयोजन उत्सव करते आय नगरकी प्रदक्षिणा देय इन्द्राणी प्रद्वतिगृहमें जाय माताकूँ मायानिद्राके वशिकरि वियोग के दुःख के भयतैं अपनी देवत्वशक्तितैं तहां बालक और रचि तीर्थकरकूँ बड़ी भक्तितैं ल्याय इन्द्रकूँ सौंपे है तिसकालमें देखतां इंद्र तृप्तकूँ नाहीं प्राप्त होता हजार नेत्र रचिकरि देखै है फिर तहां ईशाना दिक स्वर्गनिके इंद्र अर भवनवासी व्यन्तर ज्योति पीनिके इंद्रादिक असंख्यात देव अपनी अपनी सेना वाहन परिवार सहित आवैं हैं तहां सौधर्म इंद्र ऐरावत हस्ती ऊपरि चढ्या भगवानकूँ गोदमें लेय चालै, तहां ईशानइंद्र छत्र धारण करै अर सनत्कुमार महेन्द्र चमर धारते अन्य असंख्यात अपने-अपने नियोगमें सावधान बड़ा उत्सवतैं मेरुगिरिका पांडुकवनमें पांडुकशिला ऊपरि अकृत्रिम सिंहासन है तिस ऊपरि जिनेन्द्रकूँ पधराय अर पांडुकवनतैं क्षीरसमुद्र पर्यंत दौऊ तरफ देवोंकी पंक्ति बंध जाय है सो क्षीरसमुद्र मेरुकी भूतितैं पांच कोड दश लाख साढा गुणचास हजार योजन

परै है तिस अवसर में मेरुकी चूलिकातैं दोऊ तरफ मुकट कुंडल हार कंकणादि अद्भुत रत्ननि के आभरण पहरे देवनिकी पंक्ति मेरुकी चूलिकातैं चारसमुद्र पर्यंत श्रेणी बंधे हैं अर हाथूं हाथ कलश सोपै है तहां दोऊ तरफ इंद्रके खड़े रहनेके अन्य दोय छोटे सिंहांसनऊपरि सौधर्म ईशान इंद्र कलश लेय अभिषेक एक हजार आठ कलशनिकारि करै है तिन कलशनिका मुख एक योजनका, उदर चारि योजन चौडा, आठ योजन ऊंचा तिन कलशनितैं निकसी धारा भगवानके वज्रमय शरीर ऊपरि पुष्पनि की वर्षा समान वाधा नाहीं करै है अर पाछे इंद्राणी कोमल वस्त्रतैं पूंछ अपना जन्मकूं कृतार्थ मानती स्वर्गतैं ल्याये रतनमय समस्त आभरण वस्त्र पहगावैं हैं । तहां अनेकदेव अनेक उत्सव विस्तारे हैं तिनकूं लिखनेकूं कोऊ समर्थ नाहीं । फिर मेरुंगरितैं पूर्ववत् उत्सव करते जिनेंद्रकूं ल्याय माताकूं समर्पण कर इंद्र वहां तांडवनृत्यादिक जो उत्सव करै है तिन समस्त उत्सवनिकूं कोऊ असंख्यातकालपर्यंत कोटि जिह्वानिकारि वर्णन करनेकूं समर्थ नाहीं है । जिनेंद्र जन्मतैं ही तार्थकर प्रकृतिके उदयके प्रभावतैं दश अतिशय जन्मते लिये ही उपजै है । पसेवरद्वित शरीर होय, मल मूत्र कफादिक रहितपना, अर शरीरमें दुग्धवर्ण रुधिर, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रमृपभनाराच संहनन, अद्भुत अप्रमाणरूप, महासुगंधशरीर, अप्रमाणवल, एक हजार आठ लक्षण, प्रियहितमधुरवचन ये समस्त पूर्वजन्ममें षोडशकारण भावना भाई ताका प्रभाव है । बहुरि इन्द्र अंगुष्ठमें स्थाप्या अमृत ताकूं पान करता माताका स्तनमें उपज्या दुग्धपान नाहीं करै हैं फिर अपनी अवस्थाके समान बने देवकुमारनिमें क्रीडा करते वृद्धिकूं प्राप्त होय हैं अर स्वर्गलोकतैं आये आभरण वस्त्र भोजनादिक मनोवांछित देव लीयैं सासता रात्रिदिन हाजिर रहै हैं पृथ्वीलोकका भोजन आभरण वस्त्रादिक नाहीं अङ्गीकर करै हैं स्वर्गतैं आये ही भोगैं हैं । बहुरि कुमारकाल व्यतीत करि इंद्रादिकनिकारि कीये अद्भुत उत्साह करि भक्तिपूर्वक पिताकरि समर्पण कीया राज्य भोगि अवसर पाय संसार देह भोगनितैं विरागता उपजै तदि अनित्यादि बारह भावना भावतेही लौकांतिकदेव आय वंदना स्तवनरूप सम्बोधनादिक करै हैं अर जिनेन्द्रका विराग भाव होतेही चारि निकायके इंद्रादिकदेव अपने आसन कम्पायमान होनेतैं जिनेन्द्रके तपका अवसर अवधि-ज्ञानतैं जानि बड़े उत्सवतैं आय अभिषेककरि देवलोकके वस्त्राभरणतैं भक्तितैं भूषित करि, रत्नमयी पालकी रचि, जिनेन्द्रकूं चढाय अप्रमाण उत्सव अर जयजयकार शब्दसहित तपके योग्य वनमें जाय उतारै तहां वस्त्र आभरण समस्त त्यागै देव अधर मेलि मस्तक चढ़ावैं अर पंचसुष्टी लोंच मिद्धनिकूं नमस्कारकरि करै तदि केशनिकूं महा उत्तम जाणि इंद्र रत्नके पात्रमें धारणकरि चौरसमुद्रमें बड़ी भक्तितैं चोपै है । जिनेंद्र केतेक कालमें तपके प्रभावतैं शुक्लध्यानके प्रभावतैं चपक-च्छेणीमें घातियाकर्मनिका नाश करि केवलज्ञानकूं उत्पन्न करै हैं तदि अरहन्तपना प्रगट होय है तदि केवलज्ञान रूप नेत्रकरि भूत भविष्यत् वर्तमान त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यनिकी अनन्तानन्त परिणतिसहित अनुक्रमतैं एक समयमें युगपत् समस्तकूं जानै हैं देखै हैं । तदि न्यारि निकायके

देव ज्ञानकल्याणकी पूजा स्तवन करि भगवानका उपदेशके अर्थि समवसरण अनेक रत्नमय रचै हैं तिस समवसरणकी विभूतिका वर्णन कौन कर सकै ? पृथ्वीतैं पांच हजार धनुष ऊंचा जाके बीस हजार पैडी ती ऊपरि इंद्रनीलमणिमय गोल भूमि वारह योजन प्रमाण तिस ऊपरि अप्रमाण-महिमासहित समवसरण रचना है। जहां समवसरण रचना होय है अर भगवानका विहार होय है तहां अन्धेनिकूँ दीखने लागि जाय, वहरे श्रवण करने लागि जांय, लूले चालने लागि जांय हैं, गूँगे बोलने लागि जांय हैं, वीतरागकी अद्भुत महिमा है। जाके धूलिशालादिक रत्नमय कोट मानस्तंभ अर वावड्या अर जलकी खातिका अर पुष्पवाडी फिर रत्नमय कोट दरवाजे नाखशाला उपवन वेदी भूमि फिर कोट फिर कल्पवृक्षनिका वन रत्नमयस्तूप फिर महलनिकी भूमि फिर स्फटिकका कोटमें देवच्छद नाम एक योजनका मंडप सर्व तरफ द्वादश समा तिनकरि सेवित रत्नमय तीन कटनी गंधकुटीमें सिंहासन ऊपरि च्यारि अंगुल अंतरीक्ष विराजमान भगवान अरहत हैं जिनकी अदंतज्ञान अनंतदर्शन अनंतवीर्य अनंतसुखमयी अंतरंग विभूतिकी महिमा कहनेकूँ च्यारि ज्ञानके धारक गणधर समर्थ नाहीं, अन्य कौन कहि सकै। अर समवसरणकी विभूति ही वचनके अगोचर है अर गंधकुटी तीसरा कटणी ऊपरि है तहां चउसठि चमर वत्तीस युगल देवनिके मुकुट कुंडल हार कडा भुजवंधादिक समस्त आभरण पहिरे ढालि रहै हैं तीन छत्र अद्भुत कांतिके धारक जिनकी कांतितैं सूर्य चन्द्रमा मदज्योति भासै हैं अर जिनकी देहका प्रभामंडलको चक्र बंध रखा जाकरि समवसरणमें रात्रिदिनको भेद नाहीं रहै है सदा दिवस ही प्रवतै है अर महामुगंध त्रैलोक्यमें ऐसा सुगंध और नाहीं ऐसी गंधकुटीके ऊपर देवनिकरि रच्या अशोकवृक्षकूँ देखते ही सपस्त लोकनिका शोक नष्ट होय जाय अर कल्पवृक्षनिके पुष्पनिकी वर्षा आकाशतैं होय है अर आकाशमें साढावाराकोटि जातिके वादिकनिकी ऐसी मधुर ध्वनि होय है जिनके श्रवणमात्रतैं क्षुधातृपादिक समस्त रोग वेदना नष्ट हो जाय है अर रत्नजडित सिंहासन सूर्य की कांतिकूँ जातै हैं।

बहुरि जिनेन्द्रकी दिव्यध्वनिकी अद्भुत महिमा त्रैलोक्यवती जीवनिकै परम उपकार करनेवाली मोहअंधकारका नाश करै है अर समस्त जीव अपनी अपनी भाषामें शब्द अर्थ ग्रहण करै हैं अर समस्त जीवनिके संशय नाहीं रहै है स्वर्ग-मोक्षका मार्गकूँ प्रगट करै हैं दिव्यध्वनिकी महिमा वचन द्वारा गणधर इंद्रादिक कहनेकूँ समर्थ नाहीं हैं जिनके समवसरणमें सिंह अर गज, व्याघ्र अर गौ, मार्जारी अर हंस इत्यादिक जातिविरोधी जीव वैरबुद्धि छांडि परस्पर मित्रताकूँ प्राप्त होय हैं। वीतरागताकी अद्भुत महिमा है जिनके असखयात देव जयजयकार शब्द करै हैं जिनके निकटताकूँ पाय करिकै देवनिकरि रचे कलश भारी दर्पण ध्वजा ठोंगो छत्र चमर वीजणा ये अचेतन द्रव्यहूँ लोकमें मंगलताकूँ प्राप्त होय हैं। अर केवलज्ञान उत्पन्न भये पीछे दश अतिशय प्रगट होय हैं। चारों तरफ सौ सौ योजन सुभिक्षता,

अर आकाशगमन, भूमिका स्पर्श नहीं करै, अर कोऊ प्राणीका वध नहीं होय, अर भोजनका अभाव अर उपमर्गका अभाव अर चतुर्मुख दीखै, अर ममस्त विद्याका ईश्वरपना, छायाारहितपणा अर नेत्र टिमकारै नहीं, अर केश नख वधेँ नहीं ये दश अतिशय वातियाकर्मका नाशतैँ स्वयं प्रगट होय हैं । अर तीर्थकर प्रकृतिका प्रभावतैँ चौदह अतिशय देवनिकरि किये होय हैं । अष्टमागधी भाषा, समस्त जनसमूहमें मैत्रीभाव, समस्त ऋतुके फूल फल पत्रादिकसहित वृक्ष होय हैं, पृथ्वी दर्पणममान रत्नमयी तृण-कंदक-रज-रहित होय है, शीतल मंद सुगंध पवन चलै है, ममस्त जनोके आनन्द प्रगट होय है. अनुकूल पवन सुगंध जलकी वृष्टिकरि भूमि रजरहित होय है चरण धरैँ तड़ां सात आगे मान पाछैँ एक बीच ऐसे पंदरा पंदराकरि दोयसौ पचीस कमल देव रचैँ हैं, आकाश निर्मल, दिशा निर्मल, च्यार निकायके देवनिकरि जयजय शब्द, एक हजार आरांकरिसहित किरणनिका धारक अपना उद्योतकरि सूर्यमण्डलकूँ तिरस्कार करता धर्मचक्र आगे चालैँ, अष्ट मङ्गलद्रव्य ये चौदह देवकृत अतिशय प्रगट होय हैं । लुधा तृषा जन्म जरा मरण रोग शोक भय विस्मय राग द्वेष मोह अरति चिंता स्वेद खेद मद निद्रा इन अष्टादश द्वेषनिकरि रहित अरहत तिनको वंदना स्तवन ध्यान करो । या अरहंतभक्ति संसारसमुद्रका तारनेवाली निरन्तर चितवन करो । सुखका करनेवाला अरहंत ताका स्तवन करो याका गुणनिके आश्रय तो अनंत नाम हैं । अर भक्तिका भरया इंद्र भगवान्का एक हजार आठ नामकरि स्तवन किया है अर जे अल्प सामर्थ्यके धारक हैं ते हू अपनी शक्तिप्रमाण पूजन स्तवन नमस्कार ध्यान करो । अरहंत-भक्ति संसारसमुद्रको तारनेवाली है सम्यग्दर्शनमें अरहंतभक्तिमें नामभेद है अर अर्थभेद नहीं है । अरहंतभक्ति नरकादिगतिकूँ हरनेवाली है या भक्तिको पूजन स्तवनकरि अर्घ उतार करैँ हैं सो देवांका सुख फिर मनुष्यका सुख भोगि अविनाशी सुखका धारक अक्षय अविनाशी सुखकूँ प्राप्त होय हैं ऐसे अरहंतभक्ति नाम दशमी भावना वर्णन करी ॥१०॥

अब आचार्य भक्ति नाम ग्यारमीभावना वर्णन करैँ हैं सोही गुरुभक्ति है धन्यभाग जिनका होय तिनके वीतराग गुरुनिके गुणानिमें अनुराग होय है धन्यपुरुषनिके मस्तक ऊपरि गुरुनिकी आज्ञा प्रवतैँ है आचार्य हैं सो अनेक गुणनिकी खानि हैं श्रेष्ठतपका धारक हैं यातैँ इनका गुण मनविषैँ धारणकरि पूजिये अर्घ उतारण करिए पुष्पाजलि अग्रभागमें क्षेपिये जो मेरे ऐसे गुरु नका चरणनिका शरणा ही होहू । कैसेक हैं आचार्य जिनके अनशनादिक वारह ठकारका उज्ज्वल तपनिमें निरंतर उद्यम है अर छह आवश्यक क्रियामें सावधान हैं अर पंचाचारके धारक हैं अर दशलक्षधर्म रूप है परिणति जिनकी अर मनवचनकायकी गुप्तिकरि सहित हैं ऐसे छत्तीसगुणनिकरि युक्त आचार्य होय हैं अर सम्यग्दर्शनाचारकूँ निर्दोष धारैँ हैं अर सम्यग्ज्ञानकी शुद्धताकरि युक्त हैं अर त्रयोदशप्रकार चारित्रकी शुद्धताके धारक अर तपश्चरणमें उत्साहयुक्त अर अपने वीर्यकूँ नहीं छिपावते चाईस परीषदनिके जीतनेमें सन्नर्थ ऐसे निरंतर पंच आचारके धारक हैं



अंतरङ्ग बहिरङ्ग ग्रंथकरि रहित, निर्ग्रथ मार्गके गमन करनेमें तत्पर हैं अर उपवास वेला तेला पंचोपवास पक्षोपवास मासोपवास करनेमें तत्पर हैं अर निर्जनवनमें अर पर्वतनिके दराडे अर गुफानिके स्थानमें निश्चल शुभध्यानमें मनकूँ धारै हैं अर शिष्यनिकी योग्यताकूँ आञ्जी रीतिहूँ जानि दीक्षा देनेमें अर शिक्षा करनेमें निपुण हैं अर युक्तितैं नव प्रकार नयके जाननेवाले हैं अर अपनी कायसूँ ममत्व छांडि रात्रिदिन तिष्ठै हैं संसारकूपमें पतन हो जानेतैं भयवान हैं मनवचन-कायकी शुद्धतायुक्त नासिकाका अग्रमें स्थापित किये हैं नेत्रयुगल जिन्हूँने ऐसे आचार्यकूँ समस्त अङ्गनिकूँ पृथ्वीमें नमाय मस्तक धारि वंदना करिये । तिन आचार्यनिका चरणनिकरि स्पर्श भई पवित्र रजकूँ अष्टद्रव्यनि करि पूजिये सो संसार परिभ्रमणाका क्लेश पीडाकूँ नष्ट करनेवाली आचार्य-भक्ति है ।

अब यहां ऐसा विशेष जानना जो आचार्य हैं सो समस्तधर्मके नायक हैं आचार्यनिके आधार समस्त धर्म है यातैं एते गुणनिके धारक ही आचार्य होय वड़ा राजानिका वा राजके मन्त्रीनिका वा महान श्रेष्ठीनिका कुलमें उपज्या होय अर जाके स्वरूपकूँ देखते ही शांत परिणाम हो जाय ऐसा मनोहररूपका धारक होय जिनका उच्च आचार जगतमें प्रसिद्ध होय, पूर्वे गृहचारामें भी कदे हीण आचार निंद्य व्यवहार नाहीं किया होय अर वर्तमान भोगसम्पदा छांडि विरक्तताकूँ प्राप्त भया होय अर लौकिक व्यवहार अर परमार्थके ज्ञाता होय अर बुद्धिकी प्रबलता अर तपकी प्रबलता का धारक होय अर संघके अन्य मुनीश्वरनितैं ऐसा तप नाहीं बनि सकै तैसा तपका धारक होय, बहुत कालका दीक्षित होय, बहुत काल गुरुनिका चरणसेवन किया होय, वचनका अतिशय-सहित होय जिनका वचन-श्रवण करतैं ही धर्ममें दृढता अर सशयका अभाव अर संसार देहभोग-नतैं विरागता जाके निश्चल होय सिद्धांतसूत्रके अर्थका पारगामी होय इन्द्रियनिका दमनकरि इस लोक परलोकमन्त्री भोगविलासरहित देहादिकमें निर्ममत्व होय, महाधीर होय, उपसर्ग-परीपहनिकरि कदाचित् जाका चित्त चलायमान नाहीं होय । जो आचार्य ही चलि जाय तो सकल संघ भ्रष्ट होजाय धर्मका लोप होजाय, स्वमत परमतका ज्ञाता होय अनेकान्त-विद्यामें क्रीडा करनेवाला होय, अन्यके प्रश्नादिकतैं कायरतारहित तत्काल उत्तर देनेवाला होय एकान्तपत्नकूँ खण्डन करि सत्यार्थधर्मकूँ स्थापन करनेका जाका सामर्थ्य होय, धर्मकी प्रभावना करनेमें उद्यमी होय, गुरुनिके निकट प्रायश्चित्तादिकसूत्र पढ़ि छत्तीस गुणनिका धारक होय है सो समस्त संघकी साखिहूँ गुरुनिकरि दिया आचार्य पद प्राप्त होय । एते गुणनिका धारक होय तिसहीकूँ आचार्यपना होय है । एते गुणनि विना आचार्य होय तो धर्म तीर्थका लोप होजाय उन्मागकी प्रवृत्ति होजाय समस्त संघ स्वेच्छाचारी होजाय, सूत्रकी परिपाटी अर आचारकी परिपाटी टूटि जाय । बहुरि आचार्यपना के अन्य अष्ट गुण हैं तिनका धारक होय । आचारवान्, आधारवान्, व्यवहारवान्, प्रकर्ता, अपायोपायविदर्शी, अवपीडक, अपरिस्रावी,

निर्यापक, ए आठ गुण हैं । तिनमें पंचप्रकारका आचार धारण करै ताकूँ आचारवान कहिये । जावादिकतत्व भगवान सर्वज्ञ वीतराग दिव्य निरावरण ज्ञानकरि प्रत्यक्ष देखि कथा तिनमें श्रद्धान-  
रूप परिणति सो दर्शनाचार है । स्वपरतत्त्वनिक्कूँ निर्वाध आत्म अर आत्मानुभव करि जानना-  
रूप प्रवृत्ति सो ज्ञानाचार है । हिंसादिक पंच पापनिका अभावरूप प्रवृत्ति सो चारित्राचार है ।  
अंतरङ्ग बहिरङ्ग तममें प्रवृत्ति सो तपाचार है । परीषहादिक आए अपनी शक्तिकूँ नाहीं छिपाय  
धीरतारूप प्रवृत्ति सो वीर्याचार है तथा औरहु दशप्रकार स्थितिकल्पादिक आचारमें तत्पर हो समिति-  
गुप्त्यादिकनिका कथन करिए तो बहुत कथन बधि जाय । पंचप्रकार आचार आप निर्दोष आचरै  
अर अन्य शिष्यादिकनिकूँ आचरण करावनेमें उद्यमी होय सो आचाय है आप हीणाचारी  
होय सो शिष्यनिकूँ शुद्ध आचरण नाहीं कराय सकै हीणाचारी होय सो आहार विहार उपकरण  
वस्तिका अशुद्ध ग्रहण कराय दे अर आपही आचारहीण होय सो शुद्ध उपदेश नाहीं करि सकै  
तातैं तातैं आचाय आचारवान ही होय ॥ १ ॥ बहुरि जाके जिनेन्द्रका प्ररूप्या च्यार अनुयोग  
का आधार हो स्याद्वाद विद्याका पारगामी होय, शब्दविद्या सिद्धान्तविद्याका पागामी होय,  
प्रमाण नय निक्षेपकरि स्वानुभवकरि भले प्रकार तत्त्वनिका निर्णय किया होय सो आधारवान है ।  
जाके श्रुतका आधार नाहीं सो अन्य शिष्यनिका संशय तथा एकांतरूप हठ तथा मिथ्याचरणकूँ  
निराकरण नाहीं करि सक । बहुरि अनंतानन्तकालतैं परिभ्रमण करता जीवके अतिदुर्लभ मनुष्य-  
जन्मका पावना तामें ह उत्तम देश जानि कुल, इंद्रियपूर्णता, दीर्घायु, सत्संगति, श्रद्धान, ज्ञान  
आचारण ये उत्तरोत्तर दुर्लभ संयोग पाय तो अल्पज्ञानी गुरुके निकट बसनेवाला शिष्य सो  
सत्यार्थ उपदेश नाहीं पावनेतैं यथार्थ आपका स्वरूप नाहीं पाय संशयरूप हो जाय तथा मोक्ष-  
मार्गकूँ अतिदूर अतिकठिन जानि रत्नत्रयमार्गझु चलि जाय तथा सत्यार्थ उपदेश विना विषय-  
कपायनिमें उरझा मनकूँ निकासनेमें समर्थ नाहीं होय तथा रोगकृत वेदनामें तथा घोर उपसर्ग-  
परीषहनितैं चल्या हुआ परिणामकूँ श्रुतका अतिशयरूप उपदेशविना थांभनेकूँ समर्थ नाहीं होय  
है । बहुरि मरण आजाय तदि संन्यासका अवसरमें आहार-पानका त्यागका यथाअवसर देशकाल  
सहाय सामथ्यका क्रमकूँ समझे विना शिष्यका परिणाम चलि जाय वा आत्तध्यान होजाय तो  
सुगति विगडि जाय, धर्मका अपवाद हो जाय, अन्य मुनि धर्ममें शिथिल होजाय, तो बड़ा अनर्थ  
है तथा यो मनुष्य आहारमय है आहारतैं जोवै है आहारहीकी निरंतर बांझा करै है अर जब  
रोगके बशतैं तथा त्याग करनेतैं आहार छूटि जाय तदि दुःखकरि ज्ञान-चारित्रमें शिथिल होय,  
धर्मध्यानरहित हो जाय तो बहुश्रुत गुरु ऐसा उपदेश करै जाकरि जुधा तृपाकी वेदनारहित होय  
उपदेशरूप अमृतकरि सींचा हुआ समस्त क्लेशरहित भया धर्मध्यानमें लीन होजाय है । जुधा तृपा  
रोगादिककी वेदनासहित शिष्यकूँ धर्मका उपदेशरूप अमृतका पान अर शिष्यरूप भोजनकरि  
ज्ञानसहित गुरुही वेदनारहित करै बहुश्रुतीका आधारविना धर्म रहै नाहीं तातैं आधारवान आचार्य

होय ताहीका शरण ग्रहण करना योग्य है । बहुरि जो शिष्य वेदनाकरि दुःखित होय ताके हस्त पाद् मस्तकका दावना स्पर्शनादि करना, मिष्टवचन कहना इत्यादिककरि दुःख दूर करै तथा पूर्व जे अनेक साधु घोरपरीषह सहकरि आत्मकल्याण क्रिया तिनकी कथाके कहनेकरि तथा देहते भिन्न आत्माका अनुभव करावनेकरि वेदनारहित करै । तथा भो मुने ! अब दुःखमें धैर्य धारण करो संसारमें कौन-कौन दुःख नहीं भोगे ? अब वीतरागका शरण ग्रहण करोगे तो दुःखनिका नाश करि कल्याणकू प्राप्त होवोगे इत्यादिक बहुत प्रकार कहि मार्गस्यं नहीं चलने देवै तातें आधारवान गुरुनिर्हाका शरण योग्य है ॥ २ ॥

बहुरि जो व्यवहार प्रायश्चित्तसूत्रनिका ज्ञाता होय जातें प्रायश्चित्तसूत्र आचार्य होने योग्य होय तिमहीकू पढ़ावै हैं औरनिके पढ़ने योग्य नहीं । जो जिनआगमका ज्ञाता अर महा-धैर्यवान प्रबलबुद्धिका धारक होय सो प्रायश्चित्त देवै हैं अर द्रव्य क्षेत्र काल भाव, क्रिया, परिणाम, उत्साह, संहनन, पर्याय जो दीक्षाका काल अर शास्त्रज्ञान पुरुषार्थोदिक आञ्जी रीति जाणि रागद्वेषरहित होय सो प्रायश्चित्त देवै है ।

भावार्थः— जामें ऐसी प्रवीणता होय जो याकू' ऐसा प्रायश्चित्त दिये याका परिणाम उज्वल होयगा अर दोषका अभाव होयगा व्रतनिमें दृढता होयगी ऐसा ज्ञाता होय जाके आहार की योग्यता अयोग्यताका ज्ञान होय तथा या क्षेत्रमें ऐसा प्रायश्चित्त का निर्वाह होयगा वा या क्षेत्रमें निर्वाह नहीं होयगा तथा इस क्षेत्रमें वात पित्त कफ शीत उष्णताकी अधिकत है कि हीनता है कि समपना है अथवा इस क्षेत्रमें मिथ्यादृष्टिनिकी अधिकता है कि मंदता है तथा धर्मात्मानि की हीनता अधिकताकू जाणि प्रायश्चित्तका निर्वाह देखै बहुरि शीत उष्ण वर्षा कालकू तथा अवसर्पिणी उत्सर्पिणीका तृतीय चतुर्थ पंचम कालादिकके आधीन प्रायश्चित्तका निर्वाह देखै बहुरि परिणाम देखै तथा तश्चरणमें याके तीव्र उत्साह है कि मंद है ताकू' देखै । बहुरि संहननकी हीनता अधिकता तथा बलकी मरुता तीव्रता देखै तथा ये बहुत कालका दक्षित है कि नवीन दीक्षित है तथा सदनशील है कि कायर है सो देखै, तथा बाल युवा वृद्ध अवस्थाकू देखे बहुरि आगमका ज्ञाता है कि मंदज्ञानी है सो देखै, तथा पुरुषार्थी है कि निरुद्यमी है इत्यादिकका चाता होय प्रायश्चित्त देवै । जैसे दोषरूप फिर आचार नहीं करै अर पूर्वकृत दोष दूर होय तें सूत्रके अनुकूल प्रायश्चित्त देवै जो गुरुनिके निकट प्रायश्चित्तसूत्र शब्दतें अर्थतें पढ़या नाहीं औरनिकू प्रायश्चित्त देवै हैं सो संसाररूप कर्ममें डूवै है अर अपयशकू उपार्जन करै हैं तथा उन्मार्गका उपदेशकरि सम्पक् मार्गका नाशकरि मिथ्यादृष्टि होय है । जो पते गुणका धारक होय ताकू' प्रायश्चित्तसूत्र पढाय गुरु श्रपना आचार्यपद दे है जो महाकुलमें उपन्या व्यवहार परमाथका ज्ञाता होय कोऊ कालमेंहु अपने मूलगुणनिमें अतीचार नाहीं

लगाया होय, च्यारि अनुयोगसमुद्रका पारगामी होय, धर्यवान होय कुलवान होय, परीषह जीतनेमें समर्थन होय देवनिकरि कीया उपसर्गतेहू जो चलायमान नाही होय, वक्तापना की शक्तिया धारक होय, वादीप्रतिवादीनिके जीतनेमें समर्थ होय प्रियनिते अत्यन्त विरक्त होय, बहुतकाल गुरुकुल सेया हाय, सर्व संघके मान्य होय, पहिले ही समस्त संघ जाकू आचार्यपनाकी योग्यता जागै सोही गुरुनिका दिया प्रायश्चित्तसूत्रका ज्ञाता होय आचार्यपना पावै सो प्रायश्चित्त देवे । एते गुणनिविना जैसे मूढ़ वैद्य देश काल प्रकृत्यादिक नाही जानै तो रोगी हू मारै है तैसे व्यवहार सूत्ररहित मूढ़ गुणसयुक्त होय है । संघमें कोऊ रोगी होय वा वृद्ध होय अशक्त होय कोऊ बाल होय कोऊ संन्यास धारण किया होय तिनकी वैयावृत्यमें युक्त किये जे मुनि ते टहल करै ही परन्तु आप आचार्य हू संघ मुनीश्वरनिमें जो अशक्त होजाय ताका उठावना बैठावना शयन करावना तथा मलमूत्रकफादिक तथा राधिरुधिरादिक शरीरतै दूर करना धोवना उठावना, प्रासुकभूमिमें स्थापना, धर्मोपदेश देना, धर्मग्रहण करावना, इत्यादिक आदरपूर्वक भक्तिते वैयावृत्य करै तिनकू देखि समस्त संघके मुनि वैयावृत्यमें साधन होय विचारै है अहो धन्य है ये गुरु भगवान् परमेष्ठी करुणानिधान जिनके धर्मात्माने वात्सल्य है हम निघ है आलसी होय रहे है हमकू होते हू सेवा करै है यह हमारा प्रमादीपना धिकारने योग्य है बन्धका कारण है ऐमा विचार समस्त संघ वैयावृत्य में उद्यमी होय है । जो आचार्य आप प्रमादी होय तो सकल संघ वात्सल्यरहित होजाय यातै आचार्यका कर्तृत्वगुण मुख्य है समस्त संघको वैयावृत्य करनेका जाका सामर्थ्य होय सो आचार्य होय है कोऊ हीणाचारी ताकू शुद्ध आचार ग्रहण करावै कोऊ मन्दज्ञानी होय तिनकू समझाय चारित्रमें लगावै केइनिक् प्रायश्चित्त देय शुद्ध करै, कोऊकू धर्मोपदेश देय दृढ़ता करै । धन्य है ! आचार्य जिनके शरणे प्राप्त हो गया तिनकू मोक्षमार्गमें लगाय उद्धार करै है यातै आचार्यका प्रकर्त्ता नामा गुण प्रधान है ॥४॥

बहुरि अपायोपायविदर्शी नामा पांचमो गुण है कोऊ साधु क्षुधा तृषा रोग वेदनाकरि पीडित हुआ क्लेशित परिणामरूप हो जाय तथा तीव्र रागद्वेषरूप होजाय तथा लज्जाकरि भयकरि यथावत आलोचना नाही करै तथा रत्नत्रयमें उत्साह रहित होजाय धर्म शिथिल हो जाय ताकू अपाय मानि रत्नत्रयका नाश अर उपाय रत्नत्रयकी रक्षानिका प्रगट गुण दोष ऐसा दिखवै जो रत्नत्रयका नाश होनेतै कंपायपान हो जाय अर रत्नत्रयका नाशतै अपना नाश अर नरकादि कुगतिमें पतन साक्षात् दिखवै अर रत्नत्रयकी रक्षातै संसारतै उद्धार होय अनंत सुखकी प्राप्ति होय सो अपायोपायविदर्शी नाम गुणका धारक आचार्य होय है इहां उपदेश दिखाये कथन बहुत होजाय तातै नाही लिख्या ॥ ५ ॥

अथ अवपीडक नाम छठा गुण कहिये है कोऊ मुनि रत्नत्रय धारण करके

हू लज्जाकरि भयकरि अभिमानगौर वादिकरि अपनी आलोचना यथावत् शुद्ध नहीं करै तो आचार्य ताकूँ स्नेहकी भरी कर्णानिहूँ मिष्ट अर हृदयमें प्रवेश करनेवाली शिवा करै जो हे मुने ! बहुत दुर्लभ रत्नत्रयका लाभ ताकूँ मायाचारकरि नष्ट मति करो । माता पिता समान गुरुनिके निकट अपने दोष प्रगट करनेमें कहा लज्जा है । अर वात्सल्यके धारक गुरु हू अपने शिष्यके दोष प्रगट करि शिष्यका अर धर्मका अर्पवाद नहीं करावै हैं तातैं शल्य दूरि करि आलोचना करो । जैमैं रत्नत्रयकी शुद्धता अर तपश्चरणका निर्वाह होयगा तैसें द्रव्य क्षेत्र काल भावके अनुसार प्रायश्चित्त तुमकूँ दिया जायगा तातैं भय त्यागि आलोचना निर्दोष करहू । ऐसे स्नेह रूप वचन करिके जोहू माया शल्य नहीं त्यागै तो तेजका धारक आचार्य शिष्यकी शल्यकूँ जवरीतैं निकासै जिस काल आचार्य शिष्यकूँ पूछै हैं जो हे मुने ! ये दोष ऐसे ही हैं सत्यार्थ कहो ताद उनके तेज तपके प्रभावतैं जैसे सिंहकूँ देखते ही स्याल खाया हुआ मांसकूँ तत्काल उगलै है तथा ऐसे महान प्रचण्ड तेजस्वी राजा अरार्थीकूँ पूछै तदि तत्काल सत्य कहता ही वरै तैमैं शिष्यहू मायाशल्यकूँ निकासै है अर मायाचार नहीं छाँडे तो गुरु तिरस्कारके वचन हू कहै हैं हे मुने ! हमारे संघतैं निकस जाहु, हमकरि तुम्हारे कहा प्रयोजन है जो अपना शरीरादिकका मेल धोया चाहैगा सो निर्मल जलके भरे सरोवरकूँ प्राप्त होयगा, जो अपना महान रोगकूँ दूरि किया चाहैगा सो प्रवाण वैद्यकूँ प्राप्त होयगा तैसें जो रत्नत्रय रूप परमधर्मका अती-चार दूरि करि उज्ज्वलता किया चाहैगा सो गुरुनिका आश्रय करेगा तुम्हारे रत्नत्रयकी शुद्धता करनेमें आदर नहीं तातैं ये मुनिपणा व्रत धारण, नग्न होय जुधादि परीषह सहनेकी विडम्बनाकरि कहा साध्य है संवर निर्जरा तो कषायनिके जीतनेतैं है, मायाकषायका ही त्याग नहीं किया तदि व्रत संयम मौन धारण वृथा है, नग्नता अर परीषह सहनता मायाचारीका वृथा है, तिर्यच हू परिग्रहरहित नग्न रहै ही है यातैं तुम दूर भव्य हो हमारे बंदनेयोग्य नहीं हो । अर तुम्हारे परिणाम ऐसे हैं जो हमारा दोष प्रगट होय तो हम निव्य होय जावें हमारा उच्चपणा घटि जाय सो मानना बंधका कारण है श्रमण तो स्तुति निंदामें समानपरिणामी होय है ऐसे गुरु कठोर वचन कहि करिके हू मायाचारादिका अभाव करावै । कैसा होय अवपीडक आचार्य जो बलवान होय उपमर्ग परीषह आये कायर नहीं होय, प्रतापवान होय जाका वचन कौऊ उल्लंघन करने ममर्थ नहीं होय अर प्रभाववान होय जाकूँ देखतेप्रमाण दोषका धारक साधु कांपने लागि जाय जाकूँ बड़े बड़े विद्याके धारक नम्रीभूत होय बंदना करै जाकी उज्ज्वल कीर्ति विख्यात होय जाकी कीर्ति सनता ही जाके गुणनिमें दृढ़ श्रद्धा हो जाय, जाका वचन जगतमें देख्या विना ही दूरदेश-निमें प्रमाण करै मिहकी ज्यों निर्भय होय ऐसा अवपीडक गुणका धारक गुरु होय सो जैसे शिष्य का हित होय तैमें उपकार करै है । जैसे बालकका हितने चिंतवन करती माता रुदन करता हू बालककूँ दावकरि मुख फाडि जवरीतैं घृत-दुग्धादि पान करावै है । ऐसे शिष्यका हितकूँ

चितवन करता आचार्य हू मायाशल्यसहित क्षपकका बलात्कार करि दोष दूर करै है अथवा कटुक औषधि ज्यों पश्चात् हित करै है । जो जिह्वाकरिके मिष्ट बोले अर शिष्यकूँ दोषतैं नाहीं छुड़ावै सो गुरु भला नाहीं । अर जो आचरण करि ताडनाहू करि दोषनितै भिन्न करै है सो गुरु पूजने योग्य है यातैं अवपीडकगुणका धारक ही आचार्य होय है ॥ ६ ॥

अब अपरिस्रावी गुणकूँ कहें हैं जो शिष्य गुरुनिक्कूँ दोष आलोचना करै सो दोष अन्यकूँ गुरु प्रकाश नाहीं करै । जैसे तप्तयमान लोहकरि पीया जल सो बाह्य प्रकट नाहीं होय तैसें शिष्यकरि श्रवण किया दोष आचार्यहू किसीकूँ नाहीं जणावै है सोही अपरिस्रावी नाम गुण है । शिष्य तो गुरुका विश्वास करकै कहै अर गुरु जो शिष्यका दोष प्रकट करै अन्यकूँ जनावै तो वह गुरु नाहीं, अधम है विश्वासघाती है । कोऊ शिष्य अपना दोषकी प्रकटता जानि दुःखित होय आत्मघात करै है व क्रोधी होय रत्नत्रयका त्याग करै है तथा गुरुकी दुष्टता जानि अन्य सबमें जाय तथा जैसे हमारी अवज्ञा करी तैसें तुम्हारी हू अवज्ञा करैगा ऐसें समस्त संघमें घोषणा प्रगट होय, समस्तसंघ आचार्यनिका प्रतीतिरहित होजाय, आचार्य सबके त्याज्य होजाय इत्यादिक बहुत दोष आवैं । बहुत कहे कथनी बधि जाय तातैं अपरिस्रावी गुणका धारक ही आचार्य योग्य है ॥७॥

अब आचार्य निर्यापक होय जैमें नावकूँ खेवटिया समस्त उपद्रवनिक्कूँ टालि नावकूँ पार उतारि ले जाय तैसें आचार्यहू शिष्यकूँ अनेक विघ्नसूँ बचाय संसार समुद्रसे पार करै सो निर्यापक है ॥८॥ ऐसे आचारवान ॥१॥ आधारवान ॥२॥ व्यवहारवान ॥३॥ प्रकर्ता ॥४॥ अपायोपायविदर्शी ॥५॥ अवपीडक ॥६॥ अपरिस्रावी ॥७॥ निर्यापक ॥८॥ यह आचार्यनिके अष्टगुणकूँ धारण करतेनिके गुणनिमें अनुराग सो आचार्यभक्ति है ऐसें आचार्यनिके गुणनिक्कूँ स्मरण करके आचार्यनिका स्तवन वदना करता जो पुरुष अर्घ उतारण करै है सो पापरूप संसारकी परिपाटीकूँ नष्टकरि अन्वयसुखकूँ प्राप्त होय है ऐसें वीतराग गुरु कहै हैं । ऐसे आचार्य-भक्ति वर्णन करो ॥ ११ ॥

अब बहुश्रुतभक्ति नाम वारमी भावनाकूँ कहें हैं । जो अंग-पूर्वादिकका ज्ञाता तथा च्यार अनुयोगनिका पारगामी जो निरन्तर आप परमागमकूँ पढै अन्य शिष्यनिक्कूँ पढावै ते बहुश्रुती हैं । तथा जिनके श्रुतज्ञान ही दिव्यनेत्र है आ अना अर परका हित करनें प्रवर्तते अर अपने जिनसिद्धान्त अर अन्य एकांतीनिके सिद्धान्तनिका विस्तारतैं जानने वाले स्याद्वादरूप परम विद्या के धारक तिनकी जो भक्ति सो बहुश्रुतभक्ति है बहुश्रुतीकी महिमा कौन कहनेकूँ समर्थ है जे निरन्तर श्रुतज्ञानको दान करै हैं ऐसे उपाध्याय तिनकी भक्ति विनयकरि सहित करै हैं ते शास्त्र-रूप समुद्रका पारगामी होय हैं । जे अङ्ग पूर्व प्रकीर्णक जिनेन्द्र वर्णन किये तिन समस्त जिनागमकूँ

निरन्तर पढ़ै पढ़ावै ते बहुश्रुती हैं । इहां प्रथम आचारांग तामें अठारह हजार पदनिमें मुनिधर्मका वर्णन है ॥ १ ॥ सूत्रकृताङ्गका छत्तीस हजार पद है तिनमें जिनेन्द्रके श्रुतके आराधन करनेकी विनयक्रियाका वर्णन है ॥२॥ स्थानांगका व्यालीस हजार पदनिमें पट्द्रव्यनिका एकादि अनेक स्थानका वर्णन है ॥ ३ ॥ समवायगि एक लाख चौपठि हजार पदनिमें है तिनमें जीवादिक पदार्थनिका द्रव्य क्षेत्र काल भागके आश्रित समानता वर्णन है ॥ ४ ॥ व्याख्या प्रज्ञप्ति अंगके दोय लक्ष अट्ठाईस हजार पदनिमें जीवका अस्ति-नास्ति इत्यादि गणधरनि करि कीये साठि हजार पदनिका वर्णन है ॥५॥ ज्ञातधर्मकथांगके पांच लक्ष छपन हजार पदनिमें गणधर-निकरि कीये प्रश्ननिके अनुसार जीवादिकनिका स्वभावका वर्णन है ॥६॥ उपासकाध्ययन नाम अङ्गके ग्यारह लक्ष सत्तर हजार पदनिमें श्रावकके व्रत शील आचारि क्रियाका तथा याका मन्त्रनिका उपदेशका वर्णन है । ७॥ अन्तकृतदशांगके तेईस लक्ष अट्ठाईस हजार पदनिमें एक एक तीर्थकरके तीर्थमें दश दश मुनीश्वर उपसर्गसहित निर्वाण प्राप्त भये तिनका कथन है ॥८॥ अनुत्तरोपपादक-दशांगके वाणवै लक्ष चौवालीस हजार पदनिमें एक एक तीर्थकरके तीर्थमें दश दश मुनीश्वर महा भयङ्कर घोर उपसर्ग सहि देवनितैं पूजा पाय विजयादिक अनुत्तर विमाननिमें उपजे तिनका वर्णन है ॥९॥ प्रश्नव्याकरण नाम अङ्गके त्र्यानवै लक्ष षोडश सहस्र पदनिमें नष्ट मुष्टि लाभ अलाभ सुख-दुःख जीवित मरणादिकके प्रश्नका वर्णन है ॥१०॥ विपाकसूत्रांगके एककोटि चौरासी लक्ष पदनिमें कर्मनिका उदय उदीरणा सत्ताका वर्णन है ॥११॥ अर दृष्टिवाद नाम चारम अङ्गका पांच भेद है परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व, चूलिका । तिनमें परिकर्मकाहू पांच भेद हैं तिनमें चंद्रप्रज्ञप्ति के छइ लक्ष पांच हजार पदनिमें चंद्रमाका आयु गति अर कलाकी हानिवृद्धि अर देवीविभव परिवारा-दिकका वर्णन है ॥११॥ अर सूर्यप्रज्ञप्तिके पांच लक्ष तीन हजार पदनिमें सूर्यका आयु गति विभवा-दिकका वर्णन है ॥१२॥ जंबूद्वीपप्रज्ञप्तिके तीन लक्ष पचीस हजार पदनिमें जंबूद्वीपसम्बन्धी क्षेत्र कुलाचल ब्रह नदी इत्यादिकनिका निरूपण है ॥१३॥ द्वीपसागरप्रज्ञप्तिके वावन लक्ष छत्तीस हजार पदनिमें असंख्यात द्वीप-समुद्रनिका अर मध्यलोकके त्रिनभवननिका अर भगवती व्यंतर ज्योतिष्क देवनिके निवासनिका वर्णन है ॥१४॥ व्याख्याप्रज्ञप्तिके चौरासी लक्ष छपन हजार पदनिमें जीव पुद्गलादि द्रव्यका निरूपण है ॥१५॥ ऐसे पंच प्रकार परिकर्म कहे । अर दृष्टिवाद अङ्गका दूजा भेद सूत्रके अट्ठासी लक्ष पदनिमें जीव अस्तिरूप ही है नास्तिरूप ही है कर्त्ता ही है भोक्ता ही है इत्यादि एकांतवादकरि कल्पित जीवका स्वरूपका वर्णन है ॥१६॥ बहुरि प्रथमानुयोगके पांच-हजार पदनिमें त्रैसठि महापुरुषनिके चरित्रका वर्णन है ॥१७॥ अर दृष्टिवादअङ्गका चतुर्थभेदमें चादहपूर्व है तिनमें उत्पादपूर्वके एककोटि पदनिमें जीवादिक द्रव्यनिका उत्पादादि स्वभावका निरूपण है ॥१८॥ अग्रायणीपूर्वके छिनवैकोटि पदनिमें द्वादशांग का सारभूत सप्त तत्त्व नव पदार्थ पट्द्रव्य सातसं मुनय दुर्नयादिकका स्वरूपका वर्णन है ॥१९॥ वीर्यानुवादके सप्तलक्ष पदनिमें मानवीर्य, परवीर्य, कामवीर्य, कालवीर्य, भाववीर्य, तपोवीर्यादि समस्त द्रव्यगुण पर्यायनिका

वीर्यका निरूपण है ॥३॥ अस्तिनास्तिप्रवाद नाम पुत्रके साठि लक्ष पदनिमें जीवादि द्रव्यनिका स्वद्रव्यादिचतुष्टयकी अपेक्षा अस्ति और परद्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा नास्ति इत्यादिक सप्त भङ्गादिक तथा नित्य अनित्य एक अनेकादिकनिका विरोधरहित वर्णन है । ४॥ ज्ञानप्रवाद पूर्वके एक घाटि कोटि पदनिमें मति श्रुति अविधि मनःपर्यय केवल ये पांच ज्ञान अर कुमति कुश्रुत विभङ्ग ये तीन अज्ञान इनका स्वरूप संख्या विषय फलनिके आश्रय प्रमाणपना अप्रमाणपनाका वर्णन है ॥५॥ सन्धप्रवादपूर्वके छह अधिक एककोटि पदनिमें वचनगुप्ति अर वचनके संस्कार-कारण अर द्वादश भाषा अर बहुत प्रकार असत्य अर दश प्रकारके सत्यका वर्णन है ॥६॥ आत्मप्रवादपूर्वके छब्बीस कोटि पदनिमें आत्मा जीव है कर्ता है भोक्ता है प्राणी है वक्ता है पुद्गल है वेद है विष्णु है स्वयंभू है शरीर-मान वक्ता शक्ता जन्तु मानी मायी वियोगी असंकुट क्षेत्रज्ञ इत्यादि स्वरूपका वर्णन है ॥७॥ कर्मप्रवादपूर्वके एककोटि अस्सी लाख पदनिमें कर्मनिका बंध उदय उदीरणा सत्त्व उत्कर्षण उपशमन संक्रमण निधत्ति निकाचितादि अवस्था अर ईर्यापथ तपस्या अधःकर्मादिकनिका वर्णन है । ८ । प्रत्याख्यानपूर्वके चौरासी लक्ष पदनिमें नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भावनिकूं आश्रय करि पुरुषनिका संहनन अर बलादिकनिके अनुसार प्रमाणीक काल वा अप्रमाणीक काल लिये त्याग अर पापसहित वस्तुतैं निराला होना अर उपवास की भावना अर पंचसमिति अर तीनगुप्तिका वर्णन है ॥९॥ त्रिद्यानुवादके एककोटि दशलक्ष पदनिमें अंगुष्ठप्रसेनादिक सातसै अल्पविद्या अर रोहिणी आदि पांचसै महाविद्यानिका स्वरूप सामर्थ्य अर इनका साधन मंत्र तंत्र पूजा-विधानका अर सिद्ध भई तिनका फलका अर अन्तरिक्ष भौम अङ्ग स्वर स्वप्न लक्षण व्यंजन छिन्न ये अष्टप्रकार निमित्तज्ञानका वर्णन है ॥१०॥ कल्याणानुवादपूर्वके छब्बीसकोटि पदनिमें तीर्थकर चक्रधर बलदेव प्रतिवासुदेवादिकनिका गर्भ-कल्याणादिक महाउत्सवनिका अर इन पदनिका कारण षोडश भावना वा तपविशेष आचरणादिकनिका अर चंद्रमा सूर्य ग्रह नक्षत्रनिका गमन तथा ग्रहण शकुनादिकके फलका वर्णन है ॥११॥ प्राणप्रवाद पूर्वके तेरहकोटि पदनिमें कायाकी चिकित्साका अष्टांग आयुर्वेद जो वैद्यविद्या ताका भूतकर्मका अर जांगलिका अर इला पिंगलादिक स्वासोच्छ्वासका अर गतिके अनुसार दशप्राणनिके उपकारक द्रव्यनिका वर्णन है ॥१२॥ क्रियाविशालके नवकोटि पदनिमें संगीतशास्त्र छंद अलंकार बहतरि रुता अर स्त्रीके चोसठिगुण अर शिल्पादिज्ञान अर चौरासी गर्भाधानादि क्रिया अर एकसौ आठ सप्तगदर्शनादिक्रिया अर पच्चीस देववंदनादिक नित्य नैमित्तिक क्रियाका वर्णन है ॥१३॥ त्रैलोक्यत्रिंदुसारपूर्व के साढ़ा चारह कोटि पदनिमें त्रैलोक्यको स्वरूप, छब्बीस परिकर्म अष्ट व्यवहार, व्यारि, बीज, मोक्षका स्वरूप मोक्षगमनका कारण क्रिया अर मोक्षसुखका वर्णन है । १४ ॥ ऐसे विन्याणवै कोडि पचासलाख पांच पदनिमें चौदह पूर्व वर्णन क्रिया । अथ दृष्टिवादांगको पांचवों भेद चूलिका पांच प्रकार है एक एक चूलिका के दोय कोटि नव लक्ष निवासी



हजार दोय सै पद है तिनमें जलगताचूलिका में जलका स्तम्भन जलमें गमन, अग्निका स्तम्भन भक्षण अग्निऊरि आसन अग्निमें प्रवेशनादिकका कारण मन्त्रतन्त्र तपश्चरणका वर्णन है ॥१॥ अर स्थलगता-चूलिकामें मेरु कुलाचलादिकनिमें भूमिमें प्रवेश करनेकू अर शीघ्रगमनके कारण मन्त्रतन्त्र तपश्चरण का वर्णन है ॥२॥ अर मायागताचूलिकामें मायारूप इंद्रजालादि विक्रिया मंत्रतंत्र तपश्चरणादिकका वर्णन है ॥३॥ आकाशागतचूलिकामें आकाशगमनका कारण तंत्र तन्त्र तपश्चरणादिका वर्णन है ॥४॥ रूपगताचूलिकामें सिंह हस्ती तुरङ्ग मनुष्य वृक्ष हरिण शशा बलध व्याघ्रादिकनिके रूप पलटनेके कारण मन्त्र तन्त्र तपश्चरणका वर्णन है तथा चित्राम माटी पापाण काष्ठादिक इनका खोदना तथा धातुवाद रसवाद खान्यवादादिककी रचनाके अर्थ हैं ॥ ५ ॥ पंचचूलिकाके दशकोटि गुणाचास लाख छयालीस हजार पद हैं । इहां ऐसा जानना समस्त द्वादशाङ्गके एक घाटि एकठी प्रमाण अक्षर हैं । १८४४६७४४०७३७०६५५१६१५ एते अपुनरुक्त अक्षर हैं एक वार आया अक्षर दूगरां नाहीं आवै इनमें चौसठि संयोग ताई अक्षर हैं अर आगममें कथा ऐसा मध्यमपदका प्रमाण सोलामै चोंतीस कोडि तीयासी लक्ष सात हजार आठसौ अठासी १६३४८३०७=८८अपुनरुक्त अक्षर हैं इन अक्षरनिका प्रमाणका भाग दीए एकसौ वारा कोटि तियासी लक्ष अठावन हजार पांचपद आए तिनमें समस्त द्वादशाङ्ग है और अवशेष अक्षर आठकोटि एक लक्ष आठ हजार एकसौ पचेतरि अङ्क रहे ८०१०=१७५ इन अक्षरनिका पूर्ण एकपद होय नाहीं ताँ इनकू अंगवाह्य कथा । तिन अक्षरनिका सामायिक आदि चौदह प्रकीर्णक हैं ।

सामायिक नाम प्रकीर्णकमें मिथ्यात्व कपायादिकके क्लेशका अभावरूप नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेदतैं छहभेद रूप सामायिकका वर्णन है ॥ १ ॥ बहुरि चोंतीस अतिशय अष्टप्रातिहार्य परमौशरिक दिव्य देह समवशरण सभा धर्मोपदेशादिक तीर्थकरनिका माहात्म्यका प्रकाशरूप स्तवन प्रकीर्णक है ॥ २ ॥ एक तीर्थकरके आत्मन रूप चैत्यालय प्रतिमाका स्तवन रूप प्रकीर्णक है ॥ ३ ॥ बहुरि पूर्वकृत प्रमादजनित दोषका निराकरणके अर्थि दैवसिक, रात्रिक पात्रिक, चातुर्मासिक, सांत्सरिक ऐर्याधिक, उत्तमार्थ ऐसे सप्त प्रकार प्रतिक्रमणका जामें वर्णन ऐसा प्रतिक्रमण नाम प्रकीर्णक है ॥४॥ बहुरि सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तप उपचार स्वरूप पंच-प्रकार विनयका वर्णनरूप विनय नाम प्रकीर्णक है ॥५॥ बहुरि नवदेवतानिकी वन्दनाके अर्थि तीन प्रदक्षिणा चतुःशिरोनति तीन शुद्धता द्वादश आवर्त इत्यादिक नित्य-नैमित्तिकक्रियाका जामें वर्णन ऐसा कृतिकर्म प्रकीर्णक है ॥६॥ बहुरि जामें साधुका आचारके गोचर आहारकी शुद्धताका वर्णन रूप दश वैकालिक प्रकीर्णक है ॥७॥ बहुरि च्यार प्रकार उपसर्ग तथा बाईस परीपहनिके महनेके विधान अर इनके फलका वर्णन रूप उत्तराध्ययनप्रकीर्णक है ॥८॥ बहुरि साधुके योग्य आचरणका विधान अयोग्यसेवनका प्रायश्चित्तका वर्णन रूप कल्पव्यवहार नाम प्रकीर्णक है ॥९॥ बहुरि द्रव्य क्षेत्र काल भावके आश्रय साधुकू ये योग्य हैं ये अयोग्य हैं ऐसा विभागका वर्णनरूप

कल्पाकल्प नाम प्रकीर्णक है ॥१६॥ बहुरि उत्कृष्ट संहननादिसंयुक्त द्रव्य क्षेत्र काल भावके प्रभावतै उत्कृष्टचर्याकरि नर्तते ऐसै जिनकल्पी साधुनिके योग्य त्रिकालयोगादि आचरणका अर स्थविरकल्पीनिका दीक्षा शिक्षा गण पोषण आत्मरसंस्कार सल्लेखना अर उत्कृष्टस्थानगत उत्कृष्ट-आराधनाका वर्णनरूप महाकल्प नाम प्रकीर्णक है ॥१७॥ जामें भवन व्यन्तर ज्योतिष्क तथा कल्पवासीनिके विमाननिमें उत्पत्तिका कारण दान पूजा तपश्चरण अकामनिर्जरा सम्यक्त्व संयमादिकका विधान तिनके उपजनेका स्थान वैभवका वर्णनरूप पुण्डरीक नाम प्रकीर्णक है ॥१८॥ बहुरि महद्विक देवनिमें इन्द्र प्रतीन्द्रादिकनिमें उत्पत्तिका कारण तपोविशेषादिक आचरणका कहने-वाला महापुण्डरीक प्रकीर्णक है । १९ । जामें प्रमादघ्नं उपज्या दोषनिका त्यागरूप निषिद्धका प्रकीर्णक है ॥१९॥ जैसा द्वादशांग सूत्रका ज्ञान है सो तपका प्रभावतै उपजै है सो आर पढ़ै है अन्यकी बुद्धिप्रमाण शिष्यनिकुं पढावै है तिन बहुश्रुतनिकी भक्ति है सो हू बहुश्रुतभक्ति है जो गुणनिमें अनुराग करना ताकुं भक्ति कहिये है जो शास्त्रनिमें अनुरागकरि पढ़ै तथा शास्त्रके अर्थकुं अन्यकुं कहै जो धनकुं लगाय शास्त्रनिका लिखावै तथा अपने हस्तकरि शास्त्र लिखै तथा हीन अधिक अक्षरकुं मात्राकुं शोधन करै तथा पढ़नेवालेनिकुं शास्त्र लिखाय देवै तथा व्याख्यान करै पढ़ावने वचावनेवालेनिकी आजीविकाकी थिरताकरि शास्त्रनिके ज्ञानाभ्यासका प्रवर्तन करावै साध्याय करनेके अर्थि निराकुल स्थान देवै सो ज्ञानावरण कर्मके नाश करनेवाली बहुश्रुतभक्ति है । बहुरि बहुमूल्य वस्त्रनिमें पूठा लगाय पट्टमय डोरि करि शास्त्रनिकुं बांधै जो देखने श्रवण पठन करनेवालेनिका मनकुं रञ्जायमान करै सो समस्त बहुश्रुतभक्ति है । बहुरि सुवर्णकरि मनोहर गढ़े भये अर पंचप्रकार रत्ननिकरि जटित सैकडा पुष्पनिकरि शास्त्रकी सारभूत पूजा करै सो श्रुतभक्ति संशयादिकरहित सम्यग्ज्ञान उपजाय अनुक्रमतै कैवलज्ञान उपजावै है, जो पुण्य अपने मनकुं इन्द्रियनिके विषयनिमें रोकि अर बारम्बार श्रुतदेवताका गुण स्मरण करके भली विधिमें बनाया पवित्र अर्घ्य श्रुतदेवताका उतारै है सो समस्त श्रुतका पारगामी होय केवलज्ञान उपजाय निर्वाणकुं प्राप्त होय है । ऐसे बहुश्रुतभक्ति नाम बारभी भावना वर्णन करी सो निरन्तर भावो ॥१२॥

अथ प्रवचनभक्तिनाम तेरसी भावनाकुं वर्णन करै हैं । प्रवचन नाम जिनेंद्र सर्वज्ञ चीतरागकरि प्ररूपण किया आत्मका है । जिसमें षट्द्रव्यनिका पञ्चास्तिकायका सप्ततत्त्वनिका नवपदार्थनिका वर्णन है अर कर्मनिकी प्रकृतीनिका नाश करनेका वर्णन सो आगम है जाका प्रदेश बहुत होय ताकी अस्तिकाय संज्ञा है । अर गुणपर्यायनिकुं प्राप्त निरन्तर होय तातै द्रव्य संज्ञा है वस्तुपनाकरि निश्चय करिये तातै पदार्थसंज्ञा है स्वभावरूपपनातै तत्त्वसंज्ञा है सो इनकी विशेष कथनी आगे प्रकरण पाय कइसी । जैसे अंगकारसंगुप्त महलमें दीपक हस्तमें लेकर समस्त पदार्थ देखिये है तैसै त्रैलोक्यरूप मन्दिरमें प्रवचनरूप दीपककरि सूक्ष्म स्थूल मूर्तिल

अमूर्तीक पदार्थ देखिये है। प्रवचनरूप ही नेत्रनिकरि मुनीश्वरनि चेतनादि गुणनिके धारक समस्तद्रव्यनिका अवलोकन करै जिनेंद्रके परमागमकू योग्यकालमें बहुत विनयतैं पढिये सो प्रवचन भक्ति है। कैसाक है प्रवचन जामें पटद्रव्य सप्ततत्त्व नवपदार्थनिका भेद समस्तगुणपर्यायनिका वर्णन है जामें भूतकाल अनन्त भया अर भविष्यत् अनन्त होयगा अर वतमान तिनका स्वरूप वर्णन है। जामें अधोलोकको सप्त पृथ्वी अर नारकीनिका बसनेका उत्पत्ति होनेका स्थाननिकू अर आयु काय वेदना गत्यादिक समस्तका अर भवनवासी देवनिका सातकरोड बहत्तरलाखभवननिका अर तिनका आयु काय विभव विक्रिया भोगादिकनिका अधोलोकमें वर्णन किया है। जामें मध्यलोक सम्बन्धी असंख्यात द्वीप समुद्रनिका अर तिनमें मेरु कुलाचल नदी द्रहादिकनिका अर कर्मभूमिके विदेहादिक क्षेत्रनिका अर भोगभूमिका अर छिनवै अन्तर्द्वीपसम्बन्धी मनुष्यनिका अर कमभूमिके भोगभूमिके मनुष्यनिका कर्तव्यका अर आयु काय सुख दुःखादिकनिका अर तिर्यंचनिका व्यंतरनिके निवास विभव परिवार आयु काय सामर्थ्य विक्रियाका वर्णन है। तथा मध्यलाकमें ज्योतिष्कदेव हैं तिनके विमान विभव परिवार आयु कायादिकका तथा सूर्य चन्द्रमा ग्रह नक्षत्रनिका चारक्षेत्रगत संयोगादिकका वर्णन है। बहुरि ऊर्ध्वलोकके त्रैसठपटलनिका स्वर्गके अहमिंद्रके पटलनिका इन्द्रादिक देवनिका विभव परिवार आयु काय शक्ति गति सुखादिकका वर्णन है। ऐसैं सर्वज्ञकरि प्रत्यक्ष देखा त्रिलोकवर्ती समस्त द्रव्यनिके उत्पाद व्यय ध्रौव्यपना समस्त प्रवचनमें वर्णन किया है। बहुरि कर्मनिकी प्रकृतिनिका बंध होने का उदयका सत्वका संक्रमणादिकनिका समस्त वर्णन आगममें है। बहुरि संसारतैं उद्धार करने वाला रत्नत्रयका स्वरूप प्राप्त होनेका उपाय परमागमहीमें है बहुरि गृहस्थपणां श्रावकधर्मका जघन्य मध्यम उत्कृष्ट चर्याका तथा श्रवकनिके व्रत संयमादिक व्यवहार परमार्थरूप प्रवृत्तिका वर्णन प्रवचनतैंही जानिये है बहुरि गृहका त्यागी मुनीनिके महाव्रतादि अट्टाईस मूलगुण अर चौरासीलाख उत्तरगुण अर स्वाध्याय ध्यान आहार विहार सामायिकादि चारित्र चर्याका धर्मयधन शुक्लध्यानादिकका सल्लेखनामरणका समस्तचर्याका वर्णन प्रवचनमें है। बहुरि चौदह गुणस्थाननिका स्वरूप तथा चौदह जीवसामानिका अर चौदहमार्गणानिका वर्णन प्रवचनतैं जानिये है तथा जीवनिके एकसो साढानिन्यानवै लक्ष कुलकांड अर चौगमीलाख जातिका योनिस्थान प्रवचनहीतैं जानिये है तथा च्यार अनुयोग च्यार शिक्षाव्रत तीनगुणव्रत आगमतैं ही जानिये है। तथा च्यार गतीनिका भेद अर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रका स्वरूप भगवानका प्ररूप्या आगमहीतैं जानिये है। बहुरि द्वादश तप अर द्वादश अङ्ग अर चौदह पूर्व चौदह प्रकीर्ण कनिका स्वरूप प्रवचनहीतैं जानिये है। बहुरि उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालकी फिरणि अर यामें छह छह भेदरूप कालमें पदाथका परिणतिका भेदनिका स्वरूप आगमतैं जानिये है। बहुरि कुल कर चक्रघर बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव इत्यादिकनिकी उत्पत्ति प्रवृत्ति धर्म तीर्थका प्रवर्तन चक्री

का साम्राज्य वामुदेवादिक्रनिके विभव परिवार ऐश्वर्यादिक आगमहीतै जानिये है । बहुरि जीवा-  
दिक द्रव्यनिका प्रभाव आगमहीतै जानिये है जातै आगमकूँ भक्तिपूर्वक सेवनविना मनुष्यजन्ममें  
ह पशु समान है भगवान सर्वज्ञ वीतराग समस्त लोक अलोककूँ अनंतानन्त भूत भविष्यत वर्त-  
मान कालवर्ती पर्यायनिकरि संयुक्त एक समयमें युगपत् क्रमरहित हस्तकी रेखावत् प्रत्यक्ष जान्या  
देख्या ताकरि प्ररूपण किया स्वरूपकूँ सप्तऋद्धि चार ज्ञानधारी गणधरदेव द्वादशांगरूप रचना  
प्रगट करी । इहां ऐसा विशेष जानना जो देवाधिदेव परमपूज्य धर्मतीर्थके प्रवर्तन करनेवाले  
अनन्तज्ञान अनन्तदर्शन अनन्तरीर्य अनन्तमुखरूप अन्तरंगलक्ष्मी अर समवशरणादि बहिरंग-  
लक्ष्मीकरि मंडित अर इन्द्रादिक असंख्यात देवनिके समूहकरि वंदनीक चौंतीस अतिशय अष्ट  
प्रातिहार्यादिक अनुपम ऋद्धिकरि सहित अर लुधा तृषादिक अष्टादश दोषरहित समस्त जीवनिका  
परमोपकारक अर लोकअलोकके अनंतगुण पर्यायनिका क्रमरहित युगपत् ज्ञानका धारक अर  
अनंतशक्तिका धारक संसारमें ह्वते प्राणीनिकूँ स्तावलम्बन देनेवाला समस्त जीवनिका दयालु  
परमात्मा परमेश्वर परमब्रह्म परमेष्ठी स्वयंभू शिव अजर अमर अरहंतानि नामकरि विख्यात  
अशरण प्राणीनिकूँ परमशरण अन्तका परमौदारिक देहमें तिष्ठता, गणधरादिक मुनीश्वरनिकरि  
वंदनीक है चरण जिनका अर कण्ठ तालुवो ओष्ठ जिह्वादिक चलनहलनरहित इच्छाविना अनेक  
प्राणीनिका पुण्यके प्रभावतै उपज्या अर आर्य अनार्य समस्त देशके प्राणीनिका ग्रहणमें आवता  
समस्त पापका घातक दिव्यध्वनिकरि भव्य जीवनिका मोह अन्धकारकूँ नष्ट करता चमरनिकरि  
वीज्यमान छत्रत्रयादिक प्रातिहार्यके धारक रत्नमयसिंहासन अर चार अंगुल अंतरीक्ष विराजमान  
भगवान सकलपूज्य परमभट्टारक श्रीवर्धमानदेवाधिदेव मोक्षमार्गके प्रकाशनेके अर्थि समस्तपदार्थ-  
निका स्वरूप सातिशय दिव्यध्वनिकरि प्रगट किया तिस अवसरमें निकटवर्ती निग्रंथ ऋषीश्वर-  
निकरि वंदनीक सप्तऋद्धिसमृद्ध च्यारि ज्ञानके धारक श्रीगौतम नाम गणधरदेवकोष्ठबुद्धि आदिक  
ऋद्धिके प्रभावतै भगवानभाषित अर्थकूँ नाहीं विस्मरण होता भगवानभाषित अर्थकूँ धारणकरि  
द्वादशांगरूप रचना रची ।

जब चतुर्थ कालका तीन वर्ष साढा आठ महीना बार्का रह्या तदि श्रीवर्धमानस्वामी निर्वाण  
गये पाछै गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बूस्वामी ए तीन केवलीब सठ वर्ष पर्यंत केवलज्ञानकरि  
समस्त प्ररूपणा करी । पाछै केवलज्ञानका अभाव भया । ता पाछै अनुक्रमकरि विष्णु, नंदिमित्र,  
अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु ये पांच मुनि द्वादशांगके धारक श्रुतकेवली भए तिनका एकसौ वर्ष  
का अवसर क्रमतै भया तिनके अवसरमें भगवान केवलीतुल्य पदार्थनिका ज्ञान अर प्ररूपणा  
रही । बहुरि विशाखाचार्य, प्रोष्ठिलाचार्य, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिपेण, विजय,  
बुद्धिमान, गंगदेव, धर्मसेन ये दश पूर्वके धारक एकादश परम निग्रंथ मुनीश्वर अनुक्रमतै एक  
सौ तीयासी वर्षमें भये ते हू यथावत् प्ररूपणा करी । बहुरि नक्षत्र, जयपाल, पांडुनाम, ध्रुवसेन

कंमाचार्य ये पांच महामुनि एकादशांग विद्याका परगामी अनुक्रमतें दोय यां बीस वर्षमें भये तेह यथावत प्ररूपणा करी । बहुरि सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु, महायश, लोहाचार्य ये पंच महामुनि एक प्रथमअङ्गका पारगामी एकसौ अठारा वर्षमें अनुक्रमतें भये । ऐसैं भगवान वीरजिनेन्द्रकू निर्वाण गये पाछैं छहसौ तिरासी वर्ष पर्यंत अङ्गका ज्ञान रखा पाछैं ऐसे कालके निमित्ततैं बुद्धि-वीर्यादिककी मन्दा होते श्री कुन्दकुन्दादि अनेक मुनि निग्रथ वीतरागी अङ्गके वस्तुनिका ज्ञानी होते भए तथा उमास्वामी भये ऐसे पापतैं भयभीत ज्ञानविज्ञानसम्पन्न परमसंजमगुणभण्डित गुरु निका पारिपाटीतैं श्रुतका अव्युच्छिन्न अर्थके धारक वीतरागीनिकी परम्परा चली आई तिनमें की कुन्दकुन्दस्वामी समयसार प्रवचनसार पंचास्तिकाय रयणसार अष्टबाहुडकू आदि लेय अनेक ग्रन्थ रचे ते अवार प्रत्यक्ष वांचने पढ़नेमें आवैं हैं । इन ग्रन्थनिका जो विनयपूर्वक आराधन से प्रवचन भक्ति है ।

बहुरि दश अध्यायरूप तत्त्वार्थसूत्र श्री उमास्वामी रच्या तिस तत्त्वार्थसूत्र ऊपरि सवार्थ-सिद्धि नाम टीका पूज्यपाद स्वामी रची है । अर तत्त्वार्थसूत्र ऊपर ही राजवार्तिक सोलह हजार श्लोकनिमें श्री अलङ्कदेव रच्या अर श्लोकवार्तिक बीस हजार श्लोकनिमें विद्यानन्दिस्वामी रच्या अर गन्धहस्ती नाम महाभाष्य चौरासी हजार श्लोकनिमें समन्तभद्रस्वामी बड़ी टीका रची सो अवार इस अवसरमें मिले है, नाहीं अर गन्धहस्तिमहाभाष्य को आदि मंगलाचरण एकसौ पन्द्रह श्लोकनिमें देवागमस्तोत्र किया ताकी आठसौ श्लोकनिमें टीका अष्टशती तो अकलङ्कदेव रची अर देवागम अष्टशती ऊपरि आप्तमीमांसा नामा जाकूँ अष्टसहस्री कहिए सो आठ हजार श्लोकनि में विद्यानन्दिजी रची तिस अष्टसहस्री ऊपरि सोलहहजार टिप्पणी है अर विद्यानन्दि स्वामी कृत आप्तकी परीक्षारूप तीनहजार श्लोकनिमें आप्तपरीक्षा नाम ग्रन्थ है तथा परीक्षामुल्ल माणिक्यनन्दि रच्या अर याकी बड़ी टीका प्रभाचन्द्रआचार्य प्रमेयकमलभारण्ड वाराहजार श्लोकनिमें रची अर छोटी टीका प्रमेयचन्द्रिका अनन्तवीर्यनाम आचार्य रची । अर अकलंकदेव कृत लघुयत्री ऊपरि न्यायमुकुद चन्द्रोदय सोलह जार श्लोकनिमें प्रभाचन्द्रनाम आचार्य रच्या तथा और हू न्यायके केई ग्रन्थ प्रमाणपरीक्षा, प्रमाणनिर्णय प्रमाणमीमांसा तथा बालावबोधन्याय-दीपिका इत्यादिक जिनधर्मके स्तंभ द्रव्यनिका प्रमाणकरि निर्णय करते अनेकान्तका भरया हुआ द्रव्यानुयोगग्रन्थ जयवन्ते प्रवतैं हैं । अर करणानुयोगका गोम्मटसार लङ्घिसार क्षणसाार त्रिलोकसारदि अनेक ग्रन्थ हैं तथा चरणानुयोगके मूलाचार आचारसार रत्नकरण्डश्रावका चार भगवती आराधना स्मामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा आत्मानुशासन पञ्चनन्दिपच्चीसी इत्यादिक अनेक ग्रन्थ हैं तथा जैनेन्द्रव्याकरण अनेकान्तका भरया है तथा प्रथमानुपयोगके जिनसेनाचार्यकृत आदिपुराण तथा गुणभद्राचार्यकृत उत्तरपुराण इत्यादिक जिनैन्द्रके परमागमके अनुसार उपदेशी ग्रन्थ तथा पुराण चरित्र आचारके अनेक ग्रन्थ हैं तिनकूँ बड़ी भक्तितैं पठन करना तथा श्रवण

करना तथा व्याख्यान करना तथा वन्दना करना और लिखना लिखवाना शोधना सो समस्त प्रवचनभक्ति है मेरे शास्त्रका अभ्यासमें दिन जो जाय सो धन्य है। परमागमका अभ्यास बिना हमारे जो काल जाय सो व्यथा है। स्वाध्याय बिना शुभ ध्यान नहीं होय, शास्त्र का अभ्यास बिना पापस्य नहीं छूटै, कषायनिकी मन्दता नहीं होय, शास्त्रका सेवन बिना संसार देह भोगनितै-विरागता नहीं उपजै है। समस्त व्यवहारकी उज्ज्वलता परमार्थका विचार आगमका सेवनतैही होय है, श्रुतका सेवनतै जगतमें मान्यता उच्चता उज्ज्वलता आदर सत्कारक प्राप्त होय है, सम्यग्ज्ञान ही परमबंधव हैं, उत्कृष्ट धन है, परममित्र है, सम्यग्ज्ञान अविनाशी धन है स्वदेशमें, परदेशमें, सुख अवस्थामें, दुःखमें आपदामें, सम्पदामें, परमशरणभूत सम्यग्ज्ञान ही है। स्वाधीन अविनाशी धन ज्ञान ही है यातै शास्त्रनिकै अर्थ ही का सेवन करना। अपनी आत्माकू नित्य ज्ञानदान करो अपनी सन्तानकू तथा शिष्यनिकू ज्ञानदान ही करो। ज्ञानदान देने समान कोटिधनका दान नहीं है धन तो मद उपजावै है विषयनिमें-उरभावै दुर्ध्यान करै, संसाररूप अन्धकूपमें डबोवे, तातै ज्ञानदान समान दान नहीं। एक श्लोक अर्धश्लोक एक पद मात्रहूका जो नित्य अभ्यास करै तो शास्त्रार्थका पारगामी होजाय। विद्या है सो परमदेवता है जो माता पिता ज्ञानाभ्यास करावै हैं ते कोट्यां धन दिया। जे सम्यग्ज्ञानके दाता गुरु हैं-तिनका उपकार समान त्रैलोक्यमें कोऊ उपकारक नहीं अर जो ज्ञानके देनेवाला गुरुका उपकारकू लोपै है तिस समान कृतघ्नी नहीं पापी नहीं। ज्ञानका अभ्यास बिना व्यवहार परमार्थ दोउनमें मूढ है यातै प्रवचन-भक्ति ही परमकल्याण है। प्रवचनका सेवनबिना मनुष्य पशुसमान है। या प्रवचनभक्ति हजारां दोषनिका नाश करनेवाली है याका भक्तिपूर्वक अर्घ उत्तारण करो याहीतै सम्यग्दर्शनकी उज्ज्वलता होय है। ऐसे प्रवचनभक्ति नामा तेरमी भावना वर्णन करी ॥१३॥

अब आवश्यकपरिहाणि नाम चौदमी भावना वर्णन करै हैं। अवश्य करनेयोग्य होय ताकू आवश्यक कहिये है। आवश्यकनिकी जो हानि नहीं करनेका चिंतवन सो आवश्यकपरिहाणि नाम भावना है। अथवा इंद्रियनिके वश नहीं सो अवश्य कहिये अवश्यजे मुनि तिनकी जो क्रिया सो आवश्यक है आवश्यककी हानि नहीं करना सो आवश्यकपरिहाणि कहिये। ते आवश्यक छह प्रकार हैं। सामायिक, स्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय कायोत्सर्ग ये छह आवश्यक हैं सो कहिये हैं। जो देहतै भिन्न ज्ञानमय ही जाके देह ऐसा परमात्मास्वरूप कर्मरहित चैतन्यमात्र शुद्ध जीवकू एकाप्रकार ध्यावता मुनि है सो सर्वोत्कृष्ट निर्वाणकू प्राप्त होय है अर जो विकल्परहित शुद्ध आत्मके गुणनिमें आपका मन नहीं तिष्ठै तो तपस्वी मुनि षट् आवश्यक-क्रिया हैं तिनको पुष्ट करो अङ्गीकार करो अर आवते अशुभकर्मके आसवकू निराकरण करो टालो प्रथम तो सुन्दर असुन्दर वस्तुमें तथा शुभ अशुभ कर्मके उदयमें राग-द्वेष मति करो तथा तथा आहार वस्त्रिकादिकनिका लाभमें वा अलाभमें समभाव करो जातै स्तुतिमें निंदामें, आदरमें

अनादरमें, पाषाणमें रत्नमें, जीवनमें, मरणमें रागद्वेषरहित परिणाम होना सों समभाव है। जातें साम्यभावके धारक हैं ते बाह्य पुद्गलनिकूँ अचेतन अरु आपतें भिन्न अरु अपने आत्मस्वभावमें हानि वृद्धिके अकर्ता जानि रागद्वेष छांडै है अरु आपकूँ शुद्ध ज्ञाता दृष्टारूप अनुभव करता रागद्वेषादिविकार रहित तिष्ठै है ताके साम्यभाव होय है सोही सामायिक है। बहुरि भगवान् जिनेन्द्रके अनेक नामनिकरि स्तवन करना सो स्तवन नाम आवश्यक है। जो कर्मरूप वैरीकूँ आप जीते तातें 'जिन' हो, अरु अपने स्वरूपमें आपकरि आप तिष्ठो हो तातें स्वयंभू हो, अरु केवलज्ञानरूप नेत्रकरि त्रिकालवर्ती पदार्थनिकूँ जानो हो तातें त्रिलोचन हो, अरु आप मोहरूप अन्धसुरकूँ मार्या तातें अन्धकांतक हो, आप घातियाकर्म रूप अर्धवैरीनिका नाश करके ही अद्वितीय ईश्वरपना पाया तातें अर्धनारीश्वर हो, आप शिवपद जो निर्वाणपद तामें वसे तातें आप शिव हो, पापरूप वैरीका संहार करो हो तातें आप हर हो, लोकमें सुखका कर्ता तातें आप शंकर हो, शं जो परम आनन्दरूप सुख तामें उपजे तातें संभव हो, वृक्ष जो धर्म ताकरि दिपो हो तातें आप वृषभ हो, अरु जगतके सकल प्राणीनिमें गुणनिकरि बड़े तातें जगज्ज्येष्ठ हो, क जो सुख ताकरि समस्त जीवनिकी पालना करो तातें आप कपाली हो, केवलज्ञानकरि समस्त लोक अलोक में व्याप्त हो रहे तातें आप विष्णु हो, अरु जन्मजरामरणरूप त्रिपुरकूँ मार्या तातें आप त्रिपुरांतक हो ऐसैं एकहजार आठ नामकरि आपका स्तवन इन्द्र किया है। अरु गुणनिकी अपेक्षा आपका अनन्त नाम है। ऐसैं भावनिमें गुणचित्तवनकरि जो चौबीस तीर्थकरनिका स्तवन करै है सो स्तवन नाम आवश्यक है ॥२॥ बहुरि चतुर्विंशति तीर्थकरनिमेंतैं एक तीर्थकरकी वा अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधुनिमेंतैं एककूँ मुख्यकरि स्तुति करना सो वन्दना आवश्यक है ॥३॥ बहुरि जो समस्त दिनमें प्रमादके वश होय तथा कषायनिके वश होय वा विषयनिमें रागद्वेषी होय कोऊ एकेन्द्रियादिक जीवनिका घात किया तथा अनर्थक प्रवर्तन किया वा सदोष-भोजन किया वा किसी जीवका प्राण पीडित किया तथा कर्कश कठोर मिथ्या वचन कह्या वा किसीकी निन्दा अपवाद किया वा अपनी प्रशंसा करी वा स्त्रीकथा भोजनकथा देशकथा राज्यकथा करी, तथा अदत्तधन ग्रहण किया वा परका धनमें लालसा करी तथा परकी स्त्रीमें राग किया तथा धनपरिग्रहादिकमें लालसा करी ते समस्त पाप खोटे किये बंधके करण किये, अरु ऐसा पापरूप परिणाम-निष्ठ भगवान् पंच परमगुरु हमारी रक्षा करहु, अरु ए परिणाम मिथ्या होहु, पंच परमेष्ठीके प्रसादतैं हमारे पापरूप परिणाम मति होहु ऐसे भावनिकी शुद्धतावास्ते कायोत्सर्गकरि पंच नमस्कारके नव जाप्य करै। ऐसे समस्त दिनकी प्रवृत्तिकूँ संध्याकाल चित्तवनकरि पापपरिणामनिकूँ निन्दना सो दैवसिक प्रतिक्रमण है। अरु रात्रिसम्बन्धी पापका दूरिकरनेके अर्थ प्रभात प्रतिक्रमण करना सो रात्रिक प्रतिक्रमण है। बहुरि मार्गमें चालनेमें दोष लग्या ताकी शुद्धिका जो प्रतिक्रमण सो ऐर्याथिक प्रतिक्रमण है, एक पक्षके दोष निराकरणके अर्थ पाक्षिक प्रतिक्रमण है, च्यार

महीनेके दोष निराकरणके अर्थ प्रतिक्रमण करना- चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है, एक वर्षके दोष निराकरणके अर्थ सांवत्सरिक प्रतिक्रमण है, समस्त पर्यायके कालका दोष निराकरणके अर्थ अंत्यसंन्यासमरणकी आदिमें प्रतिक्रमण है सो उक्तमाथे प्रतिक्रमण है ऐसैं सप्त प्रकार प्रतिक्रमण है तिनमें गृहस्थकूँ संध्या अरु पूजात तो अपना नफा टोटा अवश्य देखना योग्य है। इहां जो सौ पचास रुपयाका व्यवहार करनेवालाहू आथणनै ठिगाई जिताई देखै है तो इस मनुष्य जन्मकी एक एक घड़ी कोटिधनमें दुर्लभ, गयां पाछैं नाहीं मिलै है याका विचार हू अवश्य करना, जो आज मेरे परमेष्ठीका पूजनमें स्तवनमें केता काल गया अरु स्वाध्यायमें पंचपरमगुरुके शास्त्रश्रवण में तत्त्वार्थकी चर्चामें धर्मात्माकी वैयावृत्तिमें केता काल गया अरु घरके आरम्भमें कषायमें तथा विकथा करनेमें, विसंवादमें, भोजनादिकमें वा अन्य इन्द्रियनिके विषयनिमें, प्रमादमें, निद्रामें, शरीरके संस्कारमें, हिंसादिक पंच पापनिमें केता काल गया है ऐसा चिंतवनकरि पापमें बहुत प्रवृत्ति भई होय तो आपकूँ धिक्कार देय पापबंधके कारणनिकूँ घटाया धर्म कार्यमें आत्माकूँ युक्त करना योग्य है। पंचमकालमें प्रतिक्रमण ही परमागममें धर्म कहा है। आत्माका हित अहित का विचारमें निरन्तर उद्यमी रहना योग्य है। यो प्रतिक्रमण आत्माकी बड़ी सावधानी करनेवाला है अरु पूर्वले किये पापकी निर्जरा करै हैं ॥४॥ बहुरि आगामी कालमें आपके आस्रवके रोकनेके अर्थ पापनिका त्याग करना जो आगे में ऐसा पाप कबहूँ मन वचन कायसों नाहीं करूंगा सो प्रत्याख्यान नाम आवश्यक है सुगतिका कारण है ॥५॥ बहुरि च्यार अंगुलके अन्तरालै दोऊ पग बरोबर करि खड़ा रहै दोऊ हस्तनिकूँ लंबायमानकरि देहसों ममता छांड़ि नासिकाका अग्रमें दृष्टि धारि देहतैं भिन्न शुद्ध आत्माकी भावना करना सो कायोत्सर्ग है। निश्चल पद्मासनतैं हू होय अरु खड़ा देहकरि हू होय दोऊनिमें शुद्ध ध्यानका अवलम्बनतैं सफल है ॥६॥ ए छह आवश्यक परमधर्मरूप हैं इनकूँ पूजि पुष्पांजलि क्षेपि अर्थ उतारण करना योग्य है। बहुरि ए छह आवश्यक परमागममें छह छह प्रकार कहा है। नाम स्थापना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव करि षट्प्रकार जानना। शुभ अशुभ नामकूँ श्रवणकरि राग-द्वेष नाहीं करना सो नाम सामायिक है। कोऊ स्थापना प्रमाणादिककरि सुन्दर है, कोऊ प्रमाणादिककरि हीनाधिककरि असुन्दर है तिनके विषै राग द्वेषका अभाव सो स्थापना सामायिक है। सुवर्ण, रूपा रत्न मोती इत्यादिक अरु मृत्तिका काष्ठ पाषाण कंटक छार भस्म धूल इत्यादिकनिमें रागद्वेष रहित सम देखना सो द्रव्य-सामायिक है। महल उखनादि रमणीक, श्मशानादिक अरमणीक क्षेत्रमें राग-द्वेष छांडना सो क्षेत्रसामायिक है, हिम शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा शरत ये ऋतु अरु रात्रि दिवस अरु शुक्ल अक्षय कृष्णपक्ष इत्यादिक काल विषै रागद्वेषको वर्जन सो काल सामायिक है। अरु समस्त जीवनके दुःख मति होहू ऐसा मैत्रीभावकरि अशुभ परिणामनिका अभाव करना सो भावसामायिक है; ऐसैं छह प्रकार सामायिक कहा। अब छह प्रकार स्तवन कहै हैं चतुर्विंशति तीर्थकरनिका अर्थ सहित



एकहजार आठ नामकरि स्तवन करना सो नामस्तवन है अर कृत्रिम अकृत्रिम अपरिमाण तीर्थकर अर हंतनिके प्रतिबिंबनिका स्तवन सो स्थापना स्तवन है अर समवसरणस्थित काल देह-प्रमा, प्रातिहार्यादिकनिकरि स्तवन सो द्रव्यस्तवन है। अर कैलाश संमेदाचल ऊर्जयंत (गिरनार) पावापुर चंपापुरादि निर्वाण क्षेत्रनिका तथा समवसरणमें धर्मोपदेशक क्षेत्रका स्तवन सो क्षेत्र स्तवन है। अर स्वर्गावतरण जन्म, तप, ज्ञान निर्वाणकल्याणके कालका स्तवन सो काल-स्तवन है, अर केवलज्ञानादि अदंतचतुष्टयभावका स्तवन सो भावस्तवन है ऐसे छह प्रकार स्तवन कथा। ये तीर्थकर वा सिद्ध तथा आचार्य उपाध्याय साधु इनमें एक-एकको नामका उच्चारण करना सो नामवंदना है अर अरहंत सिद्ध आचार्यादिकनिमें एकका प्रतिबिंबादिककी वंदना सो स्थापना वंदना है। तिनके शरीरकी वंदना सो द्रव्यवंदना है। अरहंत सिद्ध आचार्यादिकनिकरि व्याप्त जो क्षेत्र ताकी वंदना सो क्षेत्रवंदना है। तिन ही पंचपरमगुरुनिमें कोऊ एक करि व्याप्त जो काल ताकी वंदना सो कालवंदना है। ये तीर्थकरका वा सिद्धका वा आचार्यका वा उपाध्याय का वा साधुके आत्मगुणानिकुं वंदना करना सो भाववंदना है। ऐसे छह प्रकार वंदना कही।

अब छह प्रकार प्रतिक्रमण कहै हैं। अयोग्य नामके उच्चारणमें कृतकारितअनुमोदनारूप मन वचन कायतैं उपज्या दोषका निराकरणके अर्थ प्रतिक्रमण करना सो नामप्रतिक्रमण है। कोऊ शुभ अशुभ स्थापनाका निमित्ततैं मनवचनकायतैं उपज्या दोषतैं आत्माकू निवृत्त करना सो स्थापनाप्रतिक्रमण है। अर द्रव्य जो आहार पुस्तक औषधादिकके निमित्ततैं मनवचनकायतैं उपज्या दोषका निराकरणके अर्थ द्रव्यप्रतिक्रमण है। क्षेत्रमें गमनस्थानादिकके निमित्ततैं उपज्या अशुभपरिणामजनित दोषनिका निराकरणके अर्थ क्षेत्रप्रतिक्रमण है। अर दिवस रात्रि पक्ष ऋतु शीत उष्ण वर्षाकाल इनके निमित्ततैं उपज्या अतीचारका दूर करनेकू प्रतिक्रमण करना सो काल-प्रतिक्रमण है। अर रागद्वेषादिभावनिमें उपज्या दोषके दूर करनेकू भावप्रतिक्रमण कहै हैं। बहुरि अयोग्य पापके कारण के नामउच्चारण करनेका त्याग सो नामप्रत्याख्यान है अर अयोग्य मिथ्यात्वादिकके प्रवर्तवनेवाली स्थापना करनेका त्याग सो स्थापना है। पापबंधका कारण सदोष द्रव्य वा तपके निमित्त निर्दोष द्रव्यकाहू मनवचनकाय करि त्याग सो द्रव्यप्रत्याख्यान है। बहुरि असंजमका कारण क्षेत्रका त्याग सो क्षेत्रप्रत्याख्यान है। असंजमका कारण कालका त्याग सो काल प्रत्याख्यान है। मिथ्यात्व असंजम कषायादिकनिका त्याग सो भावप्रत्याख्यान है। ऐसे छह प्रकार प्रत्याख्यान वर्णन किया। अब छह प्रकार कायोत्सर्गकू कहै हैं। पापके कारण कठोर कटुक नामादिकतैं उपज्या दोषका दूर करनेके अर्थ कायोत्सर्ग करना सो नाम कायोत्सर्ग है। पाप रूप स्थापनाका द्वारकरि आया अतीचार दूर करनेकू कायोत्सर्ग करना सो स्थापनाकायोत्सर्ग है। सदोषद्रव्यके सेवनतैं तथा सदोष क्षेत्र-कालके सेवनतैं संयोगतैं उपज्या दोष दूर करनेकू कायो-

त्सर्ग करना सो द्रव्यक्षेत्रकालकायोत्सर्ग है । मिथ्यात्व असंयमादिक भावनिकरि कीया दोष दूर करनेकूँ कायोत्सर्ग करना सो भाव-कायोत्सर्ग है । ऐसे छह प्रकार छह आवश्यक वर्णन किये-। अब गृहस्थके और हूँ छह प्रकारके आवश्यक हैं । भगवान जिनेन्द्रका नित्यपूजन करना, निग्रंथ गुरुनिका सेवन, स्तवन चितवन नित्य करना, अर जिनेन्द्रके प्ररूपे आगमका नित्य स्वाध्याय करना, इन्द्रियनिकूँ विषयनितैँ रोकना छहकाय जीवनकी दया पालना सो संयम है, शक्ति प्रमाण नित्य तन करना, शक्ति प्रमाण नित्य दान देना ये षट्प्रकारहूँ आवश्यक गृहस्थकूँ नित्य-नियमतैँ अंगीकार करना योग्य है । ऐसे समस्त पापका नाश करने वाली भावनिकूँ उज्ज्वल करनेवाली आवश्यकनिकी हानिका अभावरूप चौदमी भावना वर्णन करी ॥ १४ ॥

अब सन्मार्ग प्रभावना नाम पंद्रमी भावना वर्णन करैँ हैं । इहां सन्मार्ग जो मोक्षका सत्यार्थमार्ग ताका प्रभाव प्रगट करना सो मार्ग प्रभावना है । सो सन्मार्ग रत्नत्रय है रत्नत्रय आत्माका स्वभाव है वाकूँ मिथ्यात्व राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ ये अनादितैँ मलीन विपरीत करि राख्या है अब परमागमका शरण पाय मोकूँ मिथ्यात्वादिक दोषनिकूँ दूरिकर रत्नत्रयस्वभावकूँ उज्ज्वल करनी । यो मनुष्यजन्म अर इन्द्रियपूर्णाता अर-ज्ञानशक्ति अर परमागमका शरण अर साधर्मीनिका समागम अर रोगादिकरि रहितपना अर अति क्लेशरहित जीविका इत्यादिक पुण्यरूप सामग्री पायकरके हूँ जो आत्माकूँ मिथ्यात्वकषायविषयादिकतैँ नाहीं छुडाया तो अनन्तानन्त दुःखनिका भरया संसारसमुद्रतैँ मेरा निकसना अनन्तकालहूँ में नाहीं होयगा । जो सामग्री अवार मिली है सो अनन्तकालमेंहूँ अति दुर्लभ है अर अन्तरङ्ग बहिरङ्ग सकलसामग्री पाय करके हूँ जो आत्माका प्रभाव नाहीं प्रगट करूँगा तो अचानक काल आय समस्त संयोग नष्ट कर देगा तातैँ अब में रागद्वेष मोह दूरकरि जैसेँ मेरा शुद्ध वीतरागस्वरूप अनुभवगोचर होय तैसेँ ध्यान स्वाध्यायमें तत्पर होना । बहुरि बाह्यप्रवृत्ति भी मेरी उज्ज्वलकरि अन्तर्गतधर्मका प्रभाव प्रगटकरि मार्गप्रभावना करना जाकूँ देखि अनेक जीवनिके हृदयमें धर्मकी महिमा प्रवेश करि जाय । जिनेन्द्रका उत्सव ऐसा करना जाकूँ देखि हजारों लोकनिका भाव जिनेन्द्रके जन्मकल्याणसमय जैसेँ इन्द्रादिक देव अभिषेककरि अपना जन्म सफल किया तैसेँ जयजयकार शब्दकरि हजारों स्तवनका उच्चारणकरि लोक आपकूँ कृतार्थ मान तन मन प्रफुल्लित हो जाय तैसेँ अभिषेककरि प्रभावना करना तथा जिनेन्द्रकी बड़ी भक्ति अर बड़ी विनय अर निश्चल ध्यानकरि ऐसे पूजन करो जाकूँ करते देखते अर शुद्धभक्तिके पाठ पढ़ते तथा श्रवण करते हर्षके अंकुरे प्रगट होय आनन्द हृदयमें नाहीं समावता बाह्य उज्ज्वलने लग जाय जिनकूँ देखि मिथ्या-दृष्टिनिका हूँ ऐसा परिणाम हो जाय अहो जैनीनिकी भक्ति आश्चर्यरूप है जामें ये निर्दोष उत्तम उज्ज्वल प्रमाणीक सामग्री अर ये उज्ज्वल सुवर्णके रूपाके तथा कांशा पीतलमय मनोहर पूजनके पात्र अर ये भक्तिके रसकार भरे अर्थसहित कर्णनिकूँ अमृतरूप सींचते शुद्ध अक्षरनिका उच्चारण

अर एकाग्ररूप विनय सहित शब्दनिके अनुकूल उज्ज्वल द्रव्यका चढ़ावना अर ये परमशांतमुद्रा-रूप वीतरागके प्रतिविंब प्रातिहार्यानिकरि भूषितका पूजना स्तवन करना नमस्कार, करना धन्य पुरुषनिकरि होय है। धन्य इनका मनवचनकाय अर धन इनका धन जो निर्वाँछक होय ऐसे सन्मार्गमें लगावैं हैं। ऐसा प्रभाव व्याप्त हो जाय। अर देखनेतैं अर श्रवण करनेतैं निकटभव्यनि के आनन्दके अभ्रुपात झरने लगि जाय। भक्ति ही संसारसमुद्रमें डूबतेनिकूँ हस्तावलम्बन देनेवाली है हमारे भव-भवमें जिनेंद्रकी भक्ति ही शरण होइ ऐसा जिनेंद्रका नित्य पूजन करना तथा अष्टाहिक पर्व में तथा षोडशकारण दशलक्षण रत्नत्रयपर्वमें समस्त पापके आरम्भ छाँडि जिन पूजन करना आनन्दसहित नृत्य करना, वर्णनिकूँ प्रिय ऐसे वादित्र बजावना तथा स्वर ताल मूर्छनादिसहित जिनेंद्रके गुण गावनेतैं समस्त सन्मार्ग प्रभावना है। सो जिनके हृदय में सत्यार्थ धर्म बसे है तिनके प्रभावना होय है। बहुरि जिनेंद्रके प्ररूपे चार अनुयोगनिके सिद्धान्तनिका ऐसा व्याख्यान करना जाकूँ श्रवण करनेतैं एकान्तका हठ नष्ट होय, अनेकान्त हृदयमें रचि जाय, पापनिताँ कांपने लगि जाय व्यसन छूटि जाय, दयारूपधर्ममें पूर्वर्तन होजाय अभक्ष्यभक्षणका त्याग होजाय ऐसा व्याख्यान करना जाके श्रवण करनेतैं हजारि मनुष्यनिके कुदेव कुगुरु कुधर्मके आराधनका त्याग होयकै अर वीतराग देव दयारूप धर्म, आरम्भ-परिग्रहरहित गुरुनिके आराधनमें दृढ श्रद्धान होजाय तथा ऐसा व्याख्यान करना जो श्रवणकरि बहुत मनुष्य रात्रिभोजन अयोग्य भोजन, अन्यायका विषय, परधनमें राग छाँडि व्रतनिमें शीलमें संयमभावमें सन्तोषभावमें लीन होय जाय। तथा ऐसा उपदेश करना जाकरि देहादिक परद्रव्यनिताँ भिन्न अपने आत्माका अनुभव होना, पर्यायमें आषा छूटना, जीव अजीवादिक द्रव्यनिका प्रमाणनयनिक्षेपनिकरि निर्णय होय संशयरहित द्रव्यगुणपर्यायनिका सत्यार्थ स्वरूप प्रगट हो जाना मिथ्या अन्धकार दूर होना ऐसा आगमका व्याख्यानतैं सन्मार्गकी प्रभावना होय है। बहुरि घोर तपश्चरण करना जो कायरनिकरि नाहीं धारण किया जाय ऐसैं तपकरि प्रभावना होय है। क्योंकि विषयानुराग छाँडि निर्वाँछक होनेकरि आत्माका प्रभाव भी प्रकट होय है अर धर्मका मार्ग भी तपहीतैं दिपै है। जो तप ही दुर्गतिका मार्गका नष्ट करनेवाला है। तप विना कामादिक विषय ज्ञानकूँ वारित्रकूँ नष्ट करि देहैं, तपके प्रभावतैं कामका क्षय होय (सनाइन्द्रियकी चपलता नष्ट होय लालसाका अभाव होय है) यातैं रत्नत्रयकी प्रभावना तपहीतैं दृढ़ होय है। बहुरि जिनेंद्रका प्रतिविंबकी प्रतिष्ठा करना जिनेंद्रका मन्दिर करावना यातैं सन्मार्गकी प्रभावना है जातैं प्रतिष्ठा करावनेकरि जहां ताँई जिनविंब रहैगा तहां ताँई दर्शन स्तवन पूजनादिकरि अनेक भव्य पुण्य उपार्जन करेंगे अर जिनमन्दिर करावेंगे तिन गृहस्थनिका ही धन पावना सफन होयगा। पूजन रात्रिजागरण शास्त्रनिका व्याख्यान श्रवण पठन, जिनेंद्रका स्तवन सामायिक प्रतिक्रमण अनशनादिक तप नृत्य गान भजन उत्सव जिनमन्दिर होय तदि ही होय जिनमन्दिर विना धर्मका समस्त समागम होय ही नाहीं

यातैं बहुत कहा लिखिये अपना परका परम उपकारका मूल प्रतिष्ठा करना अर मन्दिर करवाना है उत्कृष्टधर्मका मार्ग तो समस्त परिग्रह छांडि वीतरागता अंगीकार करना है परन्तु जाके प्रत्याख्यान वा अप्रत्याख्यान नाम कषायका उपशम भया नाही तातैं गृहसम्पदा छांडी जाय नाही अर धनसम्पदा बहुत होय तो प्रथम तो जिनका आप अन्यायसुं धन लिया होय ताके निकट जाय क्षमा ग्रहण कराय उनका धन लौटा देना, बहुरि धन बहुत होय तदि नहीन धन उपार्जनका त्याग करना, बहुरि तीव्ररागके बधावनेवाले इन्द्रियनिके विषयानकी लालसा छांडि करि संवररूप होना, फिर जो धन है तामेंसुं अपने मित्र हितू पुत्री बहण भूवा बन्धुजननिमें जे निधन रोगी दुःखित होंय तिनको वा अनाथ विधवा होंय तिनको यथायोग्य देय संतोषित करना, बहुरि अपने आश्रित सेवकादिक वा समीप बसनेवाले तिनको यथायोग्य सन्तोषित करकैं बहुरि पुत्रको स्त्रीको विभागादिक निरालो करि पीछैं जो द्रव्य होय ताकूँ जिनविवके करवानेमें वा जिनविवकी प्रतिष्ठा करवानेमें तथा जिनेन्द्रके धर्मका आधार सिद्धान्तनिके लिखावनेमें कृपणता छांडि उदार मनतैं परके उपकार करनेकी बुद्धितैं धन लगावै है तिस समान कोऊ प्रभावना नाही है अर जे मंदिर-प्रतिष्ठा तो करावैगा अर अनीतिकरि परधन राखि भेलैगा, अन्यायका धनकूँ ग्रहण करेगा, तो ताकी समस्त प्रभावना नष्ट हो जायगी। तथा प्रतिष्ठा करावनेवाला मंदिर करावनेवाला खोटा बनिज व्यवहार करै तथा हिंसादिक महापापनिमें निंद्य अयोग्य वचननिमें तथा तीव्रलोभमें प्रवतैं, कुशील में प्रवतैं तथा अतिकृपणताकरि परिणाममें संक्लेशरूप हुआ धनकूँ खरच करै तो समस्त प्रभावना नष्ट हो जाय यातैं प्रतिष्ठाका करानेवाला, मंदिर करावनेवालाकी बाह्य प्रवृत्ति भी शुद्ध होय है ताका प्रभावना होय है तथा शिखर कलश घटा चढावने करि क्षुद्रवंटिका बांधनेकरि प्रभावना करै तथा मंदिरनिमें चंदोवा घन्टा सिंहासनादि उत्तम उपकरण चढावनेकरि अर स्वाध्यायमें प्रवृत्ति इत्यादिकरि प्रभावना दुःखका नाश करनेवाली होय है प्रभावना शुद्ध आचरण करि होय है यातैं जिनवचनका श्रद्धानी होय सो धर्मकी प्रभावना ही करै जैनीनिका गाढा प्रेम देखि मिथ्यादृष्टीनिकैं हृदयमें हू बड़ी महिमा दीखै जैनीनिका धर्म जो पूरण जातै हू अमर्त्यभक्षण नाही करै हैं, तीव्ररोग वेदना आवतैंहू रात्रिमें औषधि जलादिकका पान नाही करै है, धन अभिमानादिक नष्ट होतैं हू असत्य वचनादि नाही बोलै हैं, महाआपदा आवतैं हू परधनमें चित्त नाही चलावै हैं। अपना पूरण जातैं हू अन्य जीवका घात नाही करै हैं तथा शीलका दृढता परिग्रहपरिमाणता परमसंतोष धारण करनेतैं आत्मप्रभावना होय अर मार्गकी प्रभावना हू होय तातैं समस्त धन जाते हू अर पूरण जातैं हू अपने निमित्ततैं धर्मकी निन्दा हास्य कदाचित् नाही करावै ताके सन्मार्ग प्रभावना अंग होय है। इस प्रभावनाकी महिमा कोटि जिह्वानितैं वर्णन करनेको कोऊ समर्थ नाही है यातैं भी भव्यजन हो त्रिलोकमें पूज्य जो प्रभावनाअङ्ग ताकूँ दृढ़ धारण करि याहींकूँ भक्ति करि पूजे याका महाअर्घ उतारण करो जो प्रभावनाकूँ दृढ़ धारण करै है

सो इन्द्रादिक देवनिकरि पूज्य तीर्थकर होय है ऐसे सन्मार्गप्रभावनानामा चंद्रमी भावना वर्णन करी ॥१५॥

अब प्रवचनवत्सलत्व नाम सोलमी भावना वर्णन करै हैं । प्रवचन जो देव गुरु धर्म इनमें जो वात्सल्य कहिये प्रीतिभाव सो प्रवचनवत्सलत्व नाम कहिये है । जे चारित्र्यगुणयुक्त हैं शीलके धारक हैं परम साम्यभावकरि सहित बाईसपरीषहनिके सहनेवाले देहमें निर्ममत्व समस्त विषय-बांछारहित आत्महितमें उद्यमी परके उपकार करनेमें सावधान ऐसे साधुजननिके गुणनिमें प्रीतिरूपपरिणाम सो वात्सल्य है तथा व्रतनिके धारक अर पापस्य भयभीत न्यायमार्गी धर्ममें अनुरागके धारक मंदकपायी संतोषी ऐसे श्रावक तथा श्राविका तिनके गुणनिमें तिनकी संगतिमें अनुराग धारण करना सो वात्सल्य है तथा जे स्त्रीपर्यायमें व्रतनिकी हृदकू प्राप्त भये अर समस्त गृहादिक परिग्रह छांडि कुटुम्बका ममत्व तजि देहमें निर्ममत्वता धार पंच इन्द्रियनिके विषय त्यागि एकवस्त्रमात्र परिग्रहकू अवलम्बनकरि भूमिशयन क्षुधा तथा शीतउष्णादि परिषहनिके सहनेकार संयमसहित ध्यान स्वाध्याय सामायिकादिक आवश्यकनिकरि युक्त अजिकाकी दीवा ग्रहणकरि संयमसहित काल व्यतीत करै हैं तिनके गुणनिमें अनुराग सो वात्सल्यभाव है तथा मुनीश्वरनिकी ज्यों वनमें निवास करते बाईस परीषह सहते उत्तम क्षमादि धर्मके धारक देहमें निर्ममत्व आपके निमित्त किया औषध अन्न-पानादि नाहीं ग्रहण करते एक वस्त्र कोपीन विना समस्त परिग्रहके त्यागी उत्तम श्रावकनिके गुणनिमें अनुराग वात्सल्य है तथा देव गुरु धर्मका सत्यार्थ स्वरूपकू जानि दृढभद्वानी धर्ममें रुचिके धारक अत्रतसम्यग्दृष्टिमें वात्सल्यता करहु । इम संसारमें अपने स्त्रीपुत्र कुटुम्बादिकनिमें तथा देहमें इन्द्रियनिके विषयनिके साधकनिमें अनादिते अति अनुरागी होय.याहीके अर्थि कटें हैं । मरें हैं अन्य को मारें हैं, ऐसा क्रोड मोहका अद्भुत माहात्म्य है । ते धन्य पुरुष है जे सम्यग्ज्ञानते मोहकू नष्टकरि आत्माके गुणनिमें धान्मन्यता करै है संसारी तो धनका लालसाकरि अति आकुल भए धर्ममें वात्सल्यता त्यागें है अर संसारिनिके धन बधे है तदि अतितृष्णा बधे है । समस्त धर्मका मार्ग भूल जाय धर्मान्मनिमें दूरहीते धान्मन्यता त्यागें है रात्रि-दिन धनमंपदाके बंधावनेमें ऐसा अनुराग बधे है लासनिका धन हो जाय तो कोटनिमें बांछा करता आरम्भ परिग्रहकू बंधावता पापनिमें प्रवीणता बंधावता धर्म में बल्यन्य नियमते छांटे है जहां दानादिकनिमें परोपकारमें धन लगावता दाम्प्य तहां दूरहीते टालि

ताकूँ नीचा मानै है तातैँ भी आत्मन् हितके बाँझक हो धनसंपदाकूँ महामदकी उपजावनेवाली जानि अर देहकूँ अस्थिर दुखदाई जानि कुटुम्बकूँ महाबंधन मानि इनकूँ प्रीति छाँडि अपने आत्माकूँ वात्सल्य करो । धर्मात्मामें, ब्रतीनिमें, स्वाध्यायमें, जिनपूजनमें वात्सल्यता करो । जे सम्यक्चारित्ररूप आभरणकरि भूषित साधुजन हैं तिनको स्तवन करै हैं गौरव करै है तिनके वात्सल्यनाम गुण है सो सुगतिकूँ प्राप्त करै है कुगतिका नाश करै है, वात्सल्यगुण के प्रभाव करके ही समस्त द्वादशांग विद्या सिद्ध होय है जातैँ सिद्धान्तसूत्रमें अर सिद्धान्तका उपदेश करनेवाला उपाध्यायमें सांची भक्तिके प्रभावतें श्रुतज्ञानावरणकर्मका रस सूक जाय है तदि सकल विद्या सिद्ध होय है । वात्सल्यगुणके धारककूँ देव नमस्कार करै है अर वात्सल्य करके ही अठारह प्रकार बुद्धि ऋद्धि अर आकाशगामिनी विक्रिया ऋद्धि दीय प्रकार चारणऋद्धि अनेक प्रकार अर अष्ट प्रकार विक्रियाऋद्धि तीन प्रकार बलऋद्धि, सप्तप्रकार तपऋद्धि, छहप्रकार रसऋद्धि, छहप्रकार औषधऋद्धि, दीयप्रकार क्षत्रऋद्धि इत्यादि अनेक शक्ति प्रकट होय हैं । यहां ऋद्धिनिका स्वरूप कहिये तो कथनी बधि जाय तातैँ नाहीं लिख्या है अर्थप्रकाशिकादिनिमें लिख्या है तहातैँ जानना ।

वात्सल्य करके ही मन्दबुद्धिनिकै हू मतिज्ञान श्रुतज्ञान विस्तीर्ण होय हैं वात्सल्यके प्रभावतें पापका प्रवेश नाहीं होय है वात्सल्यकर के तप हू भूषित होय है तपमें उत्साह बिना तप निरर्थक है । यो जिनेन्द्रको मार्ग वात्सल्य करिही शोभाकूँ प्राप्त होय है । वात्सल्यकरिही शुभ ध्यान बुद्धिकूँ प्राप्त होय है वात्सल्यतैँ ही सम्यग्दर्शन निर्दोष होय है । वात्सल्य करके ही दान दिया कृतार्थ होय है । पात्रमें प्रीति बिना तथा देनेमें प्रीति बिना दान निंदाका कारण है । जिनवाणीमें वात्सल्य जाके होयगा ताहीके प्रशंसा योग्य सांचा अर्थ उद्योतरूप होयगा जाके जिनवाणी में वात्सल्य नाहीं, विनय नाहीं ताकूँ यथावत् अर्थ नाहीं दीखैगा विपरीत ग्रहण करैगा इस मनुष्य जन्मका मण्डन वात्सल्य ही है वात्सल्यरहित बहुत मनोज्ञ आभरण वस्त्र धारण करणा हू पद-पदमें निव होय है । अर इस लोकका कार्य जो यशको उपार्जन, धर्मको उपार्जन धनको उपार्जन सो वात्सल्य हीतैँ होय है । अर परलोक जो स्वर्गलोकमें महर्द्धिक देवपना सो हू वात्सल्यहीतैँ होय है, वात्सल्य बिना इस लोकका समस्त कार्य नष्ट हो जाय, परलोकमें देवादिगति नाहीं पावै है । बहुरि अर्हतदेव निग्रंथगुरु स्याद्वादरूप परमागम दयारूप धर्ममें वात्सल्य है सो संसारपरिभ्रमणका नाशकरि निर्वाणकूँ प्राप्त करै है तथा वात्सल्यतैँ ही जिनमन्दिरका वैश्यावृत्य जिनसिद्धान्तका सेवन साधमीनिका वैश्यावृत्य तथा धर्ममें अनुराग दान देनेमें प्रीति ये समस्तगुण वात्सल्यतैँ ही होय हैं जे षट्कायके जीवनिमें वात्सल्य किया है ते ही त्रैलोक्यमें अतिशय रूप तीर्थकर प्रकृतिका उपार्जन करै हैं यातैँ जे कल्याणके इच्छुक हैं ते भगवान जिनेन्द्रका उपदेशया वात्सल्यगुणकी महिमा जानि षोडशमा अंग जो वात्सल्य ताका स्तवनकरि पूजनकरि याका महान अर्घ उतारण करै हैं । सो दर्शनकी विशुद्धता पाय बहुरि तप

आचरणकरि अहमिद्रादि देवलोककू प्राप्त होय फिर जगतका उद्धारक तीर्थकर होय निर्वाण कू प्राप्त होय है। षोडश कारण धर्मकी महिमा अचित्य है जातैं त्रैलोक्यमें आश्चर्यकारी अनुपम विभवके धारक तीर्थकर होय हैं। ऐसे षोडश भावना संक्षेप-विस्ताररूप वर्णन किया ॥१६॥

अब धर्मका स्वरूप दशलक्षण रूप है इन चिह्निकरि अन्तर्गत धर्म जानिये है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य ए दश धर्मके लक्षण हैं। जार्त धर्म तो वस्तुका स्वभावहीकू कहिये है लोकमें जेते पदाथ हैं तितने अपने स्वभावकू कदाचित् नाहीं छांडै हैं। जो स्वभावका नाश हो जाय तो वस्तुका अभाव होय, सो होय नाहीं आत्मा नाम वस्तुका स्वभाव क्षमादिक रूप है अर क्रोधादिक कर्मजनित उपाधि हैं आवरण हैं। क्रोध नाम धर्मका अभाव होय तदि क्षमा नाम आत्माका स्वभाव स्वयमेव रहै है ऐसैं ही मानका अभावतैं मार्दवगुण अर मायाके अभावतैं आर्जवगुण लोभके अभावतैं शौचगुण इत्यादिक आत्माके गुण हैं ते कर्मके अभावतैं स्वयमेव प्रगट होय हैं तातैं ये उत्तम क्षमादिक आत्माका स्वभाव हैं मोहनीय कर्मके भेद क्रोधादिक कषायनिकरि अनादिका आच्छादित होय रहै हैं कषायके अभावतैं क्षमादिक स्वाभाविक आत्माका गुण उघडै है। अब उत्तम क्षमागुणकू वर्णन करै हैं—

क्रोध वैरीका जीतना सो ही उत्तम क्षमा है कैसाक है क्रोध वैरी इस जीवके निवास करने का स्थान जे संयमभाव सन्तोषभाव निराकुलताभाव ताकू दग्ध करनेकू अग्नि समान सम्यग्दर्शनादिरूप रत्ननिका भंडारकू दग्ध करै है यशकू नष्ट करै है अपयशरूप कालिमाकू बधवै है धर्म, अधर्मका विचार नष्ट होय जाय है क्रोधीके अपना मन वचन काय आपके वश नाहीं रहै है। बहुत कालहूकी प्रीतिकू क्षणमात्रमें विगाडि महान वैर उत्पन्न करै है क्रोधरूप राक्षसके वश होय सो असत्य वचन लोकनिध भाल-चाण्डालादिकनिके बोलनेयोग्य वचन बोलै है। क्रोधी समस्त धर्म लोपै है, क्रोधी होय तत्र पिताने मारिं नाखै माताकू पुत्रकू स्त्रीकू बालककू स्वामीकू सेवककू मित्रकू मारि प्राणग्रहित करै है। अर तीव्रक्रोधी आपका हू विषतैं शस्त्रतैं मरण करै है ऊंचे मकान तथा पर्वनादिकतैं पतन करै है, कूपमें पडै है, क्रोधीकी कौऊ प्रकार प्रतीति नाहीं जाननी। क्रोधी है सो यमराजतुल्य है, क्रोधी होय सो प्रथम तो अपना ज्ञानदर्शन क्षमादिक गुणनिकू घातै है पीछे कर्मके वशतैं अन्यका घात होय वा नाहीं होय, क्रोधके प्रभावतैं महातपस्वी, दिगम्बरमुनि धर्मतैं भ्रष्ट होय नरक गये हैं। यो क्रोध है सो दाऊ लोकका नाश करै है, महापापबन्ध कराय नरक पहुंचावै है, बुद्धि भ्रष्ट करै है, निर्दया करदे है अन्यकृत उपकारकू भुलाय कृतघ्न करै है तातैं क्रोधसंगन पाप नाहीं, इम ले कमें क्रोधादिक कषाय-समान अपना घात करनेवाला अन्य नाहीं है। जो लोकमें प्रथम जान है महाभाग्य है जिनका कौऊ लोक

सुधारना है तिनहीके क्षमा नाम गुण प्रगट होय है । क्षमा जो पृथ्वी ताकी ज्यों सहनेका स्वभाव होय सो क्षमा है । अरु सम्यक् स्वरूपकूँ हित अहितकूँ समझकरि जो असमर्थनिकरि किया हू उपद्रवनिक्कूँ आप समर्थ होय करके रागद्वेषरहित हुआ सहै है, विकारी नहीं होय है ताकूँ उत्तम-क्षमा कहिये है । इहां उत्तम शब्द सम्यग्ज्ञानसहित होनेकूँ कहा है । उत्तमक्षमा त्रैलोक्यमें सार है उत्तमक्षमा रांसारममुद्रत ताग्नेवाली है उत्तमक्षमा है सो रत्नत्रयकूँ धारण करनेवाली है उत्तमक्षमा दुर्गतिके दुःखनिक्कूँ हरनेवाली है जाके क्षमा होय ताके नरक अरु तिर्यंच दोऊ गतिनि में गमन नहीं होय है उत्तमक्षमाकी लार अनेकगुणनिका समूह प्रगट होय हैं मुनीश्वरनिक्कूँ तो अति प्यारी उत्तमक्षमा है उत्तमक्षमाका लाभकूँ ज्ञानीजन चिंतामणिरत्न मानै है अरु उत्तमक्षमा ही मनकी उज्ज्वलता करै है क्षमागुण विना मनकी उज्ज्वलता अरु स्थिरता कदाचित् ही नहीं होय है, वाञ्छित सिद्ध करनेवाली एक क्षमा ही है । इहां क्रोधके जीतनेकी भावना ऐसी जाननी—कोऊ आपकूँ दुर्वचनादिकरि दुःखित करै गाली दे चोर कहै अन्यायी, पापी, दुराचारी, दुष्ट, नीच वा दोगलो चण्डाल पापी कृतघ्नी ऐमें अनेक दुर्वचन कहै तो ज्ञानी ऐसी भावना करै जो याका में अपराध किया है कि नहीं किया है ? जो मैं याका अपराध किया तथा रागद्वेष मोहका वशतें कोई बातकरि दुखाया है तदि मैं अपराधी हूं मोकूँ गाली देना धिक्कार देना नीच, चोर, कपटी, अधर्मी कहना न्याय है मोकूँ इस सिवाय भी दण्ड देना सो भी ठोक है, मैं अपराध किया है मोकूँ गाली सुनि रोष नहीं करना ही उचित है । अपराधीकूँ नरकमें दण्ड भोगना पड़ै है तातें मेरा निमित्तकूँ याके दुःख भया तदि क्लेशित होय दुर्वचन कहै है ऐसा विचारकरि क्लेशित नहीं होय क्षमा ही करै है । अरु जो दुर्वचन कहनेवाला मन्दकपायी होय तो आप जाय क्षमा ग्रहण करावनेकूँ कहै भो कृपालु ! मैं अज्ञानी प्रमादके वश वा कपायके वश होय आरका चित्तकूँ दुखाया सो अब मैं अपराध माफ कराऊँ हूं आगानै ऐसा काय चूककरि नहीं करुंगा, एकवार चूकि जाय ताकी चूककूँ महत्पुरुष माफ करै हैं अरु जो आपला न्याय रहित तीव्रकपाय होय तो वास्तु अपराध माफ करावनेको जाय नहीं कालांतरमें क्रोध उपशांत हुआ पाछे माफ करावै । अरु जो आप अपराध नहीं किया अरु ईर्ष्याभावतें केवल दुष्टताँ आर्थकूँ दुर्वचन कहै तथा अनेक दोष लगावै तो ज्ञानी किचित्सक्लेश नहीं करै, ऐसा विचारै जो मैं याका धन हरचा होय तथा जमीन जायगा खोसी होय, तथा याकी जीविका बिगाडी होय चुगली खाई होय तथा याका दोष कहणादि करके जो मैं अपराध किया होय तो मोकूँ पश्चात्ताप करना उचित है अरु जो मैं अपराध नहीं किया तदि मैं कूँ कुछ फिकर नहीं करना, यो दुर्वचन कहै है सो नामकूँ कहै है तथा कुलकूँ कहै है सो नाम मेरा स्वरूप नहीं, जाति-कुलादि मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो ज्ञायक हू जाकूँ कहै सो मैं नहीं । मैं हूँ ताकूँ वचन पहुँचै नहीं तातें मोकूँ क्षमा ग्रहण करना ही श्रेष्ठ है । बहुरि जो यो दुर्वचन कहै है सो मुख याका, अभिप्राय याका,



जिह्वा दंत ओष्ठ याका अर शब्द अर पुद्गल याका परिणामनिकरि शब्द उपज्या जाहूँ श्रवण-  
 करि मैं जो विकारकूँ प्राप्त होऊँ तो या मेरी बड़ी अज्ञानता है । बहुरि जो ईर्ष्यावान दुष्ट पुरुष  
 मोकूँ गाली देहै सो स्वभावकरि देखिये तो गाली कुछ वस्तु ही नहीं है मेरे कहां हू गाली  
 लगी नहीं दीखै है अस्तुमें देने लेनेका व्यवहार ज्ञानी होय सो कैसे संकल्प करै । बहुरि जो  
 मोकूँ चोर कहै अन्यायी कपटी अधर्मी इत्यादिक कहै तत्रां ऐसा चिंतवन करै 'जो हे आत्मन्  
 तू अनेकवार चोर हुआ, अनेक जन्ममें व्यभिचारी, जुआरी, अभच्यभही, भील, चांडाल, चमार,  
 गोला, बांदा, शूकर, गधा इत्यादिक तिर्यंच तथा अधर्मी पापी कृतघनी होय होय आया अर  
 संसारमें भ्रमण करता अनेकवार होऊँगा अब तो कूकर शूकर चोर चांडाल, कहै ताकूँ श्रवणकरि  
 तोकूँ क्लेशित होना बड़ा अनर्थ है अथवा ये दुष्टजन दुर्वचन कहै है सो याको अपराध नहीं  
 हमारा बांध्या पूर्वजन्मकृत कर्मका उदय है सो याके दुर्वचन कहनेके द्वारकरि हमारे कर्मकी  
 निर्जरा होय है सो हमारे बड़ा लाभ है इनका यह हू उपकार है जां ये दुर्वचन कइनेवाले अपना  
 पुण्यका समूहका तो दोष कहनेकरि नाश करै हैं अर मेरे किये पापकूँ दूरि करै हैं ऐसे उपकारीतैं  
 जो मैं रोप करूँ तो मो समान कोऊ अधम नहीं है । बहुरि यो तो मोकूँ दुर्वचन ही कइया है ।  
 मारया तो नहीं, रोपकरि मारने लागि जाय है क्रोधी तो अपने पुत्र पुत्री स्त्री बालादिककूँ मारै  
 है सो मोकूँ मारया नहीं यो भी लाभ है अर जो दुष्ट आसकूँ मारै तो ऐसा विचारै जो मोकूँ  
 मारया ही, प्राणरहित तो नहीं किया दुष्ट तो आपका मरण नहीं गिन करके भी अन्यकूँ मारै  
 है यो भी मेरे लाभ है । अर जो प्राणरहित करै तो ऐसा विचारै एक वार मरणो ही छो कर्मका  
 ऋण चुक्यो । हम यहां ही कर्मके ऋणरहित भये हमारा धर्म तो नहीं नष्ट भया । प्राणधारण  
 तो धर्महीतैं सफल है ये द्रव्यप्राण तो पुद्गलमय हैं मेरा ज्ञान दर्शन क्षमादिधर्म ये भावप्राण हैं  
 इनका घात क्रोधकरि नहीं भया इम समान मेरे लाभ नहीं है । बहुरि जो कल्याणरूप कार्य हैं  
 तिनमें अनेक विघ्न आवै ही हैं जो मेरे विघ्न आया सो ठीक ही है । मैं तो अब समभावकूँ  
 आश्रय करूँ अर जो उपद्रव आवते मैं क्षमाछांडि विकारकूँ प्राप्त हूँगा तो मोकूँ देखि अन्य  
 मंदज्ञानी तथा कायर त्यागी तपस्वी धर्मतैं शिथिल हो जायंगे तो मेरा जन्म केवल अन्यके  
 क्लेशके अर्थि ही भया । तथा मैं नीतरागधर्म धारण करके हू क्रोधी विकारी दुर्वचन होऊँ तो  
 मोकूँ देखि अन्य हू क्रोधमें प्रवर्तने लागि जाय तदि धर्मकी मर्यादा भङ्गकरि पापकी परिपाटी  
 चलाने वाला मैं ही प्रधान भया तातैं क्षमागुण प्राण जाते हू धन अमिमान होते हू मोकूँ छांडना  
 उचित नहीं । बहुरि पूर्वे मैं अशुभकर्म उपजाया ताका फल मैं ही भोगूँगा अन्य जे जन है ते  
 तो निमित्तमात्र हैं इनके निमित्ततैं पाप उदय नहीं आता तो अन्यके निमित्ततैं आता । उदयमें  
 आया कर्म तो फल दिये विना टलता नहीं । बहुरि ये लौकिक अज्ञानी मेरेविषै क्रोधित होय  
 दुर्वचनादिक करि उपद्रव करै हैं अर जो मैं भी यातैं दुर्वचनादिककरि उत्तर करूँ तो मैं तत्त्वज्ञानी

अर ये अज्ञानी दोऊ समान भया हमार तन्वज्ञानीपना निगर्थक भया न्यायमार्गतैं उदयमें आया मेरा पापकर्म ताकूँ सन्मुख होते कौन विवेकी अपना आत्माकूँ क्रोधादिकनिके वश करै । भो आत्मन् ! पूर्वे वांध्या जो असाताकर्म ताका अत्र उदय आया ताकूँ इलाजरहित अरोक जानि करके समभावनिताैं सहो जो क्लेशित होय भो तोगे तो असाताकूँ तो भोगोहीगे अर नवीन बहुत असाताका बंध और करोगे तातैं होनहार दुःखतैं निःशंकित होय समभावतैं ही सहो ये दुष्टजन बहुत हैं अपना मामर्थ्य करके मेरे रोपरूप अग्निकूँ प्रज्वलितकरि मेरा समभावरूप संपदाकूँ दग्ध किया चाहैं हैं अत्र यहां जो असावधान होय क्षमाकूँ छांड दूंगा तो अवश्य ही साम्यभाव नष्ट करकै धर्म अर अपना यशका नाश करने वाला होय जाऊंगा तातैं दुष्टनिका संसर्गमें सावधान रहना उचित है । ज्ञानी मनुष्य तो नाहीं सह्या जाय ऐमा क्लेशकूँ उत्पन्न होते हू पूर्वकर्मका नाश होना जानि हर्षित ही होय है, जो वचनकंटकनिकरि वेध्या जो मैं क्षमा छांड दूंगा तो क्रोधी अर मैं समान भया । अर जो वैरी नानाप्रकारका दुर्वचन मारण पीडन करकैं मेरा इलाज नाहीं करै तो मैं संचय क्रिये अशुभकर्म तिनतैं कैसे छूटता ? तातैं वैरी हू हमार उपकार ही किया है । अथवा तातैं विवेकी होय जो जिनआगमके प्रमादतैं साम्यभावका अभ्यास किया ताकी परीक्षा लेनेकूँ ये वैरीरूप परीक्षा स्थान प्रगट भया है सो मेरे भावनिकी परीक्षा करी, ये परीक्षा करनेको ही कर्म उदय भये हैं जो समभावकी मर्यादाकूँ भेदकरि जो मैं वैरीनिमें रोष करूँ तो ज्ञाननेत्रका धारक हूं मैं समभावकूँ नाहीं प्राप्त होय क्रोधरूप अग्निमें भस्म होय जाऊँ । मैं वीतरागके मार्गमें प्रवर्तन करने वाला संसारकी स्थिति छेदनेमें उद्यमी अर मेरा ही चित्त जो द्रोहकूँ प्राप्त हो जाय तो संसारके मार्गमें प्रवर्तते मिथ्यादृष्टीनिके समान मैं हू भया । अर जो दुष्ट जननिकूँ न्याय धर्मरूप मार्ग समझाया अर क्षमा ग्रहण कराया जो नाहीं समझै अर क्षमा ग्रहण न करै तो ज्ञानीजन वाखूँ रोष नाहीं करै । जैसे विष दूर करनेवाला वैद्य कोऊका विष दूर करनेकूँ अनेक औषधादि देय विष दूर करचा चाहे अर वाका जहर दूरि नाहीं होय तो वैद्य आप जहर नाहीं खाय है जो याका विष दूर नाहीं भया तो मैं हू विष भक्षणकरि मरूँ ऐसा न्याय नाहीं है तसैं ज्ञानीजनहू दुष्टजनकी पहली दुष्टताकी जाति गिछानै जो यो दुष्टता छांडैगा वा नाहीं छांडैगा वा अधिक दुष्टता धारैगा, ऐसा विचारि जो विपरीत परिणामता देखि ताकूँ तो उपदेश ही नाहीं देना अर कुछ समझने लायक योग्यता दीखै तो न्याय वचन हितमितरूप कहना । अर दुष्टता नाहीं छांडै तो आप क्रोधी नाहीं होना जो यो मोकूँ दुर्वचनादि उपद्रवकरि नाहीं कम्पायमान करै तो मैं उपशम भावकरि धर्मका शरण कैसें ग्रहण करता तातैं जो मोकूँ पीडा करनेवाला है सो मोकूँ पापतैं भयभीस करि धर्मसूँ सम्बन्ध कराया है तातैं पीडा करनेवालाहू मेरा प्रमादीपना छुडाव बड़ा उपकार किया है । बहुरि जगतमें केतेक उपकारी तो ऐसे हैं जो अन्यजनके सुख होनेके निमित्त अपना शरीरकूँ छांडै हैं अर धनकूँ छांडै हैं तो मेरे दुर्वचन न्धनादिक सहनेमें कहा

जायगा मोक्षं दुर्वचन कहे ही अन्यके सुख हो जाय तो मेरे क्या हानि है ? बहुरि जो अपनेकूं पीडा करनेवालेतैं रोष नहीं करूं तो वैरी के पुण्यका नाश होय है अर मेरे आत्माके हितकी सिद्धि होय है अर पीडा करनेवालेतैं रोष करूं तो मेरा आत्माका हितका नाश होय दुःगति होय यातैं प्राणनिका नाश होते हू दुष्टनि प्रति क्षमा करना ही एक हित सत्पुरुष कहैं हैं तातैं आत्म-कल्याणकी सिद्धिके अर्थि क्षमा ही ग्रहण करूं । अथवा दुष्टनिकरि दुर्वचनादिक पीडां करनेतैं मेरे जो क्षमा प्रगट भई है सो मेरे पुण्यका उदयतैं या परीक्षाभूमि प्रगट भई है जो में इतना कालतैं वीतरागका धर्म धारण किया सो अब क्रोधादिकके निमित्ततैं साम्यभाव रखा कि नहीं रखा ऐसी परीक्षा करूं । बहुरि मोई साम्यभाव प्रशंसा-योग्य है अर सो ही कल्याणका कारण है जो मारनेके इच्छुक निर्दयीनिकरि मलीन नहीं किया गया । बहुरि चिरवालेतैं अभ्यास किया शास्त्र करके अर स्वभाव करके कहा साध्य है जो प्रयोजन पढ़्यां व्यर्थ हो जाय है धैय वो ही प्रशंसा योग्य है जो दुष्टनिके कुचचनादि होते नहीं छूटै दृढ़ रहे उपद्रव आये पिना तो समस्त जन सत्य शौच क्षमाके धारक बन रहे हैं जैसे चन्दनवृक्षकूं कुल्हाडा काटै तो हू कुल्हाड़ेका मुखकूं सुगन्ध ही करै तैसे जाकी प्रवृत्ति होय सोही सिद्धिकूं साध्या है । बहुरि अन्यकरि किया उसर्गतैं वा स्वयमेव आया उपसर्ग तिनकरि जाका चित्त कलुषित नहीं होय सो अविनाशी सम्पदाकूं प्राप्त होय है । अज्ञानी हैं ते अपने भावनिकरि पूर्व किया पापकर्म ताके अर्थि तो नहीं रोष करैं अर जो कर्मके फल देनेके बाह्यनिमित्त तिनि प्रति क्रोध करे हैं जिस कर्मका नाशतैं मेरा संसारका संताप नष्ट होजाय सो कर्म स्वयमेव भोग्या तो मेरे वाञ्छित सिद्ध भया । बहुरि यो संसाररूप बन अनन्त संक्लेशनिकरि भरया है इसमें बसनेवालाके नानाप्रकारके दुःख नहीं सहने योग्य हैं कहा ? संसारमें तो दुःख ही है जो इस संसारमें सम्यग्ज्ञान विवेककरि रहित अर जिनसिद्धांततैं द्वेष करने वाले अर महानिर्दयी अर परलोकका हितके अर्थि जिनके बुद्धि नहीं अर क्रोधरूप अधिकरि प्रज्वलित अर दुष्टताकरि सहित विषयनिकरि लोलुपताकरि अन्ध हठग्राही महाअभिमानी कृतधर्मी ऐसे बहुत दुष्टजन नहीं होते तो उज्ज्वल बुद्धिके धारक स-पुरुष व्रत तपश्चरणकरि मोक्षके अर्थि उद्यम कैसे करते ? ऐसे क्रोधी दुर्वचनके बोलनेहारे हठग्राही अन्यायमार्गीनिकी अधिकता देखि करके ही सत्पुरुष वीतरागी भये हैं अर जो में बड़े पुण्यके प्रभावतैं परमात्माका स्वरूपका ज्ञाता भयो अर सर्वज्ञकरि उपदेश्या पदार्थनिकूं हू निर्णयरूप जाएया अर संसारके परिभ्रमणादिकतैं भयभीत होय वीतरागमार्गमें हू प्रवर्तन किया । अब हू जो क्रोधके वश हूंगा तो मेरा ज्ञान चारित्र्य समस्त निष्फल होयगा अर धर्मका अपयश करावनवारा हाय दुर्गतिका पात्र हूंगा । बहुरि और हू पद्मनाभिसृनि कथा है जो मूर्खजनकरि वाया पीडा अर क्रोधके वचन अर हास्य अर अपमानादिक होने हू जो उत्तमपुरुषनिका मन विकारकूं प्राप्त नहीं होय ताकूं उत्तमक्षमा कदिये हे मो क्षमा मोक्षमार्गमें प्रवर्तते पुरुषके परम महायत्नाकूं प्राप्त होय है । विवेकी चित्तन

करै है हम तो रागद्वेषादि मलरहित उज्ज्वल मनकरि तिष्ठं अन्यलोक हमकूँ खोटा कहो तथा भला कहो हमकूँ कहा प्रयोजन हे ? वीतरागधर्मके धारकानकूँ तो अपने आत्माका शुद्धपना साधने योग्य है । जो हमारा परिणाम दोषरहित है अर कोऊ हितू हमकूँ भला कहा तो भला नहीं हो जावेंगे, अर हमारा परिणाम दोषरहित है अर कोऊ हमकूँ वैरबुद्धितैँ खोटा कहा तो हम खोटा नहीं हो जावेंगे फल तो अपनी जैसी चेष्टा आचरण होयगा तैसा प्राप्त होयगा । जैसे कोऊ कांचकूँ रत्न कह दिया अर रत्नकूँ कांच कह दिया तो हू मोल तो रत्नका ही पावैगा कांचखण्डका बहुत धन कौन देवै । बहुरि दुष्टजन है ताका तो स्वभाव परके दोष कहा हू नहीं होय तो हू परके दोष कहाँ विना सुखकूँ प्राप्त नाहीं होय तातैं दुष्टजन हैं सो मेरे माहीं अविद्यमान हू दोष लोकमें घर-घरमें समस्त मनुष्यनिप्रति प्रगटकरि सुखी होहू अर जो धनका अर्थी है सो मेरा सर्वस्व ग्रहणकरि सुखी होहू अर जो वैरी प्राणहरणका अर्थी है सो शीघ्र ही प्राण हरो अर स्थानको अर्थी है सो स्थान हरो में मध्यस्थ हूँ, रागद्वेषरहित हूँ, समस्त जगतके प्राणी मेरे निमित्ततैं तो सुखरूप तिष्ठो मेरे निमित्ततैं किसी प्राणीके कोऊ प्रकार दुःख मति हं हू या मैं घोषणाकरि कहूँ हूँ क्योंकि मेरा जीवना तो आयुर्कर्मके आधीन, अर धनका अर स्थानका जावना रहना पापपुण्यके आधीन है । हमारे किसी अन्य जीवसे वैर विरोध नाहीं है, समस्तके प्रति क्षमा है । बहुरि हे आत्मन् ! जे मिथ्यादृष्टि अर दुष्टतासहित अर हित-अहितका विवेकरहित मूढ ऐसे मनुष्यनिकरि किया जे दुर्वचनदिक उपद्रवनिनैं अस्थिर हुआ बाधाकूँ मानि-क्लेशित होय रखा है सो तीनों लोकका चूडामणि भगवान वातराज है ताहि नाहीं जान्या कहा ? तथा वीतरागका धर्मकी उपासना नाहीं कीई कहा ? तथा लोकनिक्कूँ मुख नाहीं जान्या कहा ? मोही मिथ्यादृष्टि मूढनिके ज्ञान तो विपरीत ही होय है कर्मनिक्के वसि है तातैं इनमें क्षमा ही ग्रहण करना योग्य है । क्षमा है सो इसलोकमें परमशरण है माताकी ज्यों रत्ना करनेवाली है बहुत कहा कहिये जिनधर्मका मूल-क्षमा है पाके आधार सकलगुण हैं, कर्मनिर्जराको कारण है, हजारों उपद्रव दूर करनेवाली है । यातैं धन जाते, जीवितव्य जाते हू क्षमाकूँ छांडना योग्य नाहीं । कोऊ दुष्टताकरि आपकूँ प्राणरहित करै तिस कालमें हू कटुवचन मति कइो जो मारने वालेकूँ भी अन्तर्गत वैर छांडि ऐसे कइो जो आर तो हमारे रक्षक-ही हो परन्तु हमारा मरण आय पहुँच्या तदि आर कहाँ कगो हमारे पाप कर्मका उदय आय गया तो हू हमारा बड़ा भाग्य है जो आर सरीखे महान् पुरुषनिके हस्तादिकतैं हमारा मरण होय । अर जो हम सरीखा अपराधीकूँ-आप दण्ड नाहीं दिये तो मार्ग मलीन हो जाय अर हम अपराधको फल नरक तिर्यच गतिमें आगे भोगते सो आर हमकूँ ऋणरहित किया । मैं आपसूँ वैर विरोध मन वचन कायतैं छांडि क्षमा ग्रहण करूँ हूँ अर आप भी मेरे अपराधको दण्ड देय क्षमा ग्रहण करो । मैं रोगादिक कष्टकूँ भोगि करिकैं अति दुःखतैं मरण करतो सो धर्मका शरणसूँ ऋणरहित होय

सज्जनकी कृपासहित मरण करस्युं ऐसैं मारनेवालेसुं हू वैर त्यागि समभाव करना सो उत्तमत्तमा है । ऐसैं उत्तमत्तमा नामा धर्मकूँ कहा ॥१॥

अब उत्तमार्दव नाम गुणकूँ कहै हैं—मार्दवका स्वरूप ऐसा हैं जो मानकषायकरि आत्मामें कठोरता होय है सो कठोरताका अभाव होनेतैं जो कोमलता होय सो मार्दवनाम आत्माका गुण है अर जो आत्माका अर मानकषायका भेदकूँ अनुभवकरि मान मदका छांडना सो उत्तमार्दव नाम गुण है । मानकषाय तो संसारका बधावनेवाला है अर मार्दव संसारपरिभ्रमणका नाश करनेवाला है । यो मार्दवगुण दयाधर्मका कारण है अभिमानीकैं दयाधर्मका मूलहीतैं अभाव जानना कठोर परिणामी तो निर्दयी होय है मार्दवगुण समस्तके हित करनेवाला है । जिनके मार्दवगुण है तिनहीका व्रत पालना संयम धारणा ज्ञानका आभ्यास करना सफल है अभिमानीका निष्फल है । मार्दवनाम गुण मानकषायका नाश करनेवाला है अर पंचइंद्रिय अर मनकूँ दंड देनेवाला है । मार्दवधर्मके प्रसादतैं चित्तरूप भूमिमें करुणारूप बेल नवीन फैलै हैं, मार्दव करके ही जिनेन्द्रभगवानमें तथा शास्त्रनिमें भक्ति का प्रकाश होय है । मद सहित के जिनेंद्रके गुणनिमें अनुराग नहीं होय है मार्दवगुणकरि कुमतिज्ञानके प्रसारका नाश होय है कुमति नहीं फैलै है अभिमानी के अनेक कुबुद्धि उपजै है मार्दव गुणकरि बड़ा विनय प्रवतै हैं, मार्दव करकै बहृत कालका वैरी हू वैर छाडे हैं । मान घटै तदि परिणामनिकी उज्ज्वलता होय । कोमल परिणाम करके ही दोऊ लोककी सिद्धि होय, कोमल परिणामीकूँ इस लोक में सुयश होय हैं परलोकमें देवलोककी प्राप्ति होय । कोमल परिणाम करकैं ही अंतरंग बहिरंग तप भूषित होय हैं, अभिमानीका तप हू निदवे योग्य हैं, कोमलपरिणामीतैं तीन जगतके लोकनिका मन रंजायमान होय है, मार्दव करकैं जिनेंद्र का शामन जानिये है, मार्दव करकैं अपना परका स्वरूप अनुभव करिये हैं, कठोर-परिणामीके आपापरका विवेक नहीं होय है, मार्दव करके समस्त दोषनिका नाश होय है, मार्दवपरिणाम संसारसमुद्रतैं पार करै हैं । यातैं मार्दवपरिणामकूँ सम्पददर्शनका अंग जानि निर्मल मार्दवधर्म का स्तवन करो ससारीजीवनिके अनादिकालका विध्यादर्शनका उदय होय रहा हैं ताका उदयकरि पर्यायबुद्धि हुआ जातिकूँ, कुलकूँ, विद्याकूँ, ऐश्वर्यकूँ रूपकूँ तपकूँ, धनकूँ, अपना स्वरूप मानि इनका गर्वरूप होय रहा है । ताकूँये ज्ञान नहीं हैं जो ये जातिकुलादिक समस्त कर्मका उदयके अधीन पुद्गलके विकार हैं विनाशीक हैं में अविनाशी ज्ञानस्वभाव अमूर्तीक हूं में अनादिकालतैं अनेक जाति कुल बल ऐश्वर्यादिक पाय पाय छाडे हैं में अब कौनमें आपा धारूँ समस्त धन यौवन इंद्रियजनित ज्ञानादिक विनाशीक है, क्षणभंगुर है, इनका गर्व करना संसारपरिभ्रमणका कारण है । इस मंनारमें स्वर्गलोकका महाऋद्धिका धारक देव मरि करि एक समयमें एकोंद्रिय आय उपजै है तथा कूकर शूकर चांडालादिक पर्यायकूँ प्राप्त होय है तथा चक्रवर्ती नवनिधि चौदह रत्ननिका धारक एकसमयमें मरि मप्तम नरकका नारकी होजाय है तथा बलभद्र नारायण

का ऐश्वर्य नष्ट हो गया अन्यकी कहा कथा है ? जिनकी हजारों देव सेवा करें तथा तिनके पुण्य का क्षय होते कोऊ एक मनुष्य पानी देवनेवाला हू नाहीं रह्या, अन्यपुण्य-रहित जीव कैसे मदो-म्भक्त बन रहे हैं । बहुरि जे उत्तम ज्ञानकरि जगतमें प्रधान हैं अर उत्तम तपश्चरण करनेमें उद्यमी हैं अर उत्तम दानी हैं ते हू अपने आत्माकूँ अतिनीचा मानै हैं तिनके मार्दवधर्म होय है ।

विनयवानपना मदरहितपना समस्त धर्मका मूल है समस्त सम्यग्ज्ञानादि गुणको आधार है जो सम्यग्दर्शनादि गुणनिका लाभ चाहो हो अर अपना उज्ज्वल यश चाहो अर वैरका अभाव चाहो हो तो मदनिक्कूँ त्यागि कोमलपना ग्रहण करो, मद नष्ट हुवा विद्वयादिक गुण वचनकी मिष्टता पूज्यपुरुषनिका सत्कार दान सन्मान एक हू गुण नाहीं प्राप्त होयगा । अभिमानीका विना अपराध समस्त वैरी होजाय हैं अभिमानीकी समस्त निन्दा करै हैं अभिमानीका समस्त लोक पतन होना चाहें हैं । स्वामी हू अभिमानी सेवककूँ त्यागै है, अभिमानीकूँ गुरुजन विद्या देनेमें उत्साहरहित होय है, अपना सेवक पराङ्मुख होजाय, मित्र भाई हितू पडौसी याका पतन ही चाहै हैं, पिता गुरु उपाध्याय तो पुत्रकूँ शिष्यकूँ विनयवन्त देखकरि ही आनन्दित होय हैं । अवि-नयी अभिमानी पुत्र वा शिष्य बड़े पुरुषके मनहूकूँ संतापित करै है जातैं पुत्रका तथा शिष्यका तथा सेवकका तो ये ही धर्म है जो नवीन कार्य करना होय सो पिता गुरु स्वामीकूँ जनाय करि करै, आज्ञा मांगि करै तथा आज्ञाको अवसर नाहीं मिलै तो अवसर देखि शीघ्र ही जनावै यो ही विनय है या ही भक्ति है । जाका मस्तक ऊपरि गुरु विराजै ते धन्य-भाग हैं, विनयवन्त मद-रहित पुरुष हैं ते समस्त कार्य गुरुनिको जनाय दे हैं, धन्य हैं जे इस कलिकालमें मदरहित कोमल परिणामकरि समस्त लोकमें प्रवतैं हैं । उत्तम पुरुष हैं ते बालकमें, वृद्धमें, निर्धनमें, रोगीनिमें, बुद्धिरहित मूर्खनिमें, तथा जातिकुलादिहीनमें हू यथायोग्य प्रियवचन आदर सत्कार स्थानदान कदाचित् नाहीं चूकैं हैं, प्रिय वचन ही कहैं, उत्तम पुरुष उद्धतताका वस्त्र आभरण नाहीं पहें उद्धतपणाका परके अपमानका कारण देन-स्नेन विवाहादि व्यग्रहार कार्य नाहीं करें हैं, उद्धत होय अभिमानीपनका चालना बैठना भांकना बोलना दूरहीतैं छांडे ताकैं लोकमें पूज्य मार्दवगुण होय है । धन पावना, रूप पावना, ज्ञान पावना, विद्याकलाचतुराई पावना, ऐश्वर्य पावना, बलपावना जाति-कुलादि उत्तमगुण जगन्मान्यता पावना तिनका सफल है जो उद्धततरहित, अभिमानरहित, नम्र-तासहित, विनयसहित, प्रवतैं हैं अपने मनमें आपकूँ सबतैं लघु मानता कर्मके परवस जानै है सो कैसे गर्व करै ? नाहीं करै है । भव्यजन हो सम्यग्दर्शनका अङ्ग इस मार्दव अंगकूँ जाणि चित्तके विश्र ध्यान करो, स्तवन करो । ऐसैं मार्दवधर्मको वर्णन कियो । २॥

अब आर्जवधर्मकूँ वर्णन करै हैं—धर्मका श्रेष्ठ लक्षण आर्जव है । आर्जव नाम सरलता का है, मनवचनकायकी कुटिलताका अभाव सो आर्जव है । आर्जव धर्म है सो पापका खंडन

करनेवाला है अर सुख उपजानेवाला है । ताँ कुटिलता छाँडि कर्मका लय करनेवाला आर्जव-धर्म धारण करो । कुटिलता है सो अशुभकर्मका बंध करनेवाली है, जगतमें अतिनिघ है याँ आत्माका हितका इच्छुकनिकूँ आर्जवधर्मका अवलम्बन करना उचित है जैसा आपके चित्तमें चितवन करिये तैसा ही अन्यकूँ कहना अर तैसा ही बाह्यकरि प्रवर्तन करिये सो सुखका संचय करनेवाला आर्जवधर्म करिये है । मायाचाररूप शल्य मनतँ निकालो उज्ज्वल पवित्र आर्जवधर्मका विचार करो, मायाचारीका व्रत तप संयम समस्त निरर्थक है, आर्जवधर्म निर्वाणके मार्गका सहाई है । जहाँ कुटिलवचन नाहीं बोले तहाँ आर्जवधर्म प्राप्त होय है । यो आर्जवधर्म है सो दर्शनज्ञानचारित्रको अखंडस्वरूप है अर अतींद्रिय सुखका पिटारा है आर्जवधर्मका अभावकरि अतींद्रिय अविनाशी सुखकूँ प्राप्त होय है, संसाररूप समुद्रके तरनेकूँ जिहाज रूप आर्जव ही है । मायाचार जान्या जाय तदि प्रीतिका भङ्ग होय है जैसे काँजीतँ दुग्ध फटि जाय है अर मायाचारी अपना कपटकूँ बहुत छिपावते हू प्रगट हुयां विना नाहीं रहे । परर्जवनिकी चुगली करै वा दोष प्रकाशै ते आपही प्रगट हो जाय हैं मायाचार करना है सो अपनी प्रतीतिका विगाड़ना है धर्मका विगाड़ना है मायाचारीका समस्त हितू विना किये वैरी होय हैं जो व्रती होय त्यागी तपस्वी होय अर जाका कपट एक वार किया हू प्रगट हो जाय ताकूँ समस्त लोक अधर्मी मानि कोऊ प्रतीति नाहीं करै है कपटीकी माता हू प्रतीति नाहीं करै है, कपटी तो मित्रद्रोही स्वामिद्रोही धर्मद्रोही कृतघ्नी है अर यो जिनेन्द्रको धर्म तो कपटरहित छलरहित है जैसे वांका म्यानमें घुषो खड्ग प्रवेश नाहीं करै तैसेँ कपटकरि वक्ररिणामीका हृदयमें जिनेन्द्रका आर्जव कहिये सरल धर्म प्रवेश नाहीं कर सकै है । कपटीका दोऊ लोक नष्ट हो जाय है याँ जो यश चाहो हो, धर्म चाहो हो प्रतीति चाहो हो तो मायाचारका त्यागकरि आर्जवधर्म धारण करो कपटरहितकी वैरी हू प्रशंसा करै हैं, कपटरहित सरलचित्त जो अपराध भी किया होय तौ दण्ड देने योग्य नाहीं है आर्जवधर्मका धारक तो परमात्माका अनुभवमे संकल्प करै है, कयाय जीतनेका सतोष धारनेका संकल्प करै है, जगतके छलनिका दूरहीतँ परिहार करै है आत्माकूँ असहाय चैतन्यमात्र जानै है जो धन मन्मदा कुटुम्बादिककूँ अपनावै सो ही कपट छलकरि टिगाई करै, ताँ जो आत्माकूँ संसार परिभ्रमणतँ छुटाय परद्रव्यनितँ आपकूँ भिन्न अमहाय जानै सो धन जीवितव्यके अर्थ कपट कदाचित् नाहीं करै ताँ जो आत्माकूँ संसारपरिभ्रमणतँ छुटाय चाहो तो मायाचारका परिहार करि आर्जवधर्म धारण करो । एमें आर्जवधर्मका वर्णन किया । ३॥

समस्त सुखका कारण सत्य ही है सत्यतै ही मनुष्यजन्म भूषित होय है, सत्य करके समस्त पुण्य-कर्म उज्ज्वल होय हैं, जे पुण्यके ऊँचे कार्य करिये हैं तिनकी उज्ज्वलता सत्य विना नहीं होय है, सत्यकरि समस्तपुण्यनिका समूह महिमाकूँ प्राप्त होय है, सत्यका प्रभावकरि देव हैं ते सेवा करें हैं, सत्य करकै ही अणुव्रत महाव्रत होय हैं, सत्यविना व्रत संजम नष्ट होजाय है, सत्यकरि समस्त आपदाको नाश होय है यातैं जो वचन बोलो सो अपना परका हितरूप कहो प्रमाणीक कहो कोऊकै दुःख उपजे ऐसा वचन मति कहो परजीवनिकै बाधाकारी सत्य हू मति कहो, गर्वरहित कहो, परमात्माको अस्तित्व कहनेवाला वचन कहो नास्तिकनिके वचन पापपुण्यका स्वर्ग-नरकका अभाव कहनेवाला वचन मति कहो । यहां ऐसा परमागमका उपदेश जानना यो जीव अनंतानंतकाल तो निगोदमें हीरंखा तहां वचनरूप कर्मवर्गणा ही ग्रहण नहीं करी क्योंकि पृथ्वीकाय अप्काय तेजकाय वायुकाय वनस्पतिकाय इनके मध्य अनन्तकाल असंख्यातकाल रह्यो तहां तो जिह्वा इन्द्रिय ही नहीं पाई बोलनेकी शक्ति ही नहीं पाई । अर जो विकल-चतुष्कमें उपज्या तथा पंचेन्द्रियतिर्यंचनिमें उपज्या तहां जिह्वा इन्द्रिय पाई तो हू अक्षरस्वरूप शब्द उच्चारण करनेका सामर्थ्य नहीं भया एक मनुष्यपनामें वचन बोलनेकी शक्ति प्रगट होय है । ऐसा दुर्लभ वचनकूँ असत्य बोलि बिगाड़ देना सो बड़ा अनर्थ है, मनुष्यजन्मकी महिमा तो एक वचनहीतै है, नेत्र कर्ण जिह्वा नासिका तो ढोर तिर्यंचके हू होय है खावना पीवना कामभोगादिक पुण्य-पापके अनुकूल ढोरनिकूँ हू प्राप्त होय हैं । आभरण वस्त्रादिक कूकरा वानरा गधा घोड़ा ऊँट बलध इत्यादिकनिकूँ हू मिलै हैं परन्तु वचन कहनेकी शक्ति, श्रवण करनेकी शक्ति तथा उत्तर देनेकी शक्ति तथा पढने पढ़ावनेका कारण वचन तो मनुष्यजन्ममें ही है अर मनुष्यजन्म पाय जो वचन बिगाड़ि दिया सो समस्त जन्म बिगाड़ि दिया बहुरि मनुष्यजन्ममें जो लेना देना कहना सुनना धीज प्रतीत धर्म-कर्म प्रीति-वैर इत्यादिक जे प्रवृत्तिरूप अर निवृत्तिरूप कार्य हैं ते वचनके अधीन हैं अर वचनकूँ ही दूषित कर दिया तदि समस्त मनुष्यजन्मका व्यवहार बिगाड़ दूषित कर दिया । तातैं प्राण जाते हू अपना वचनकूँ दूषित मत करो । बहुरि परमागममें कक्षा जो च्यारि प्रकारका असत्यवचन ताका त्याग करो । जो विद्यमान अर्थका निषेध करना सो प्रथम असत्य है जैसे कर्मभूमिका मनुष्य तिर्यंचका अकालमृत्यु नहीं होय ऐसा वचन असत्य है जातैं देव नारकी तथा भोगभूमिका मनुष्य-तिर्यंचका तो आयुकी स्थिति पूर्ण भयां ही मरण है नीच आयु नहीं छिदै है जितनी स्थिति चांधी तितनी भोग करकैही मरण करै हैं अर कर्मभूमिका मनुष्यतिर्यंचनिका आयु है सो विषका भक्षणकरि तथा ताडन मारण छेदन बन्धनादिक वेदनाकरि तथा रोगकी तीव्र वेदनाकरि तथा देहतैं रुधिर का नाश होनेकरि तथा दुष्ट मनुष्य दुष्ट तिर्यंच भयंकर देवकरि उपज्या भयकरि तथा वज्रपातादिक का स्वचक्र परचक्रादिकके भयकरि तथा शस्त्रका घातकरि तथा पर्वतादिकतैं पतनकरि तथा अग्नि



पवन जल कलह विसंवादादिकतै उपज्या क्लेशकरि तथा स्वास उस्वासका धूमादिकतै रुकनेकरि तथा आहारपानादिका निरोधकरि आयुंका नाश होय है । आयुकी दीर्घस्थिति हू विषभक्षण, रक्त-क्षय, भय, शस्त्रघात, संक्लेश, स्वासोच्छ्वास निरोधकरि अन्न-पानका अभावकरि तत्काल नाशकू प्राप्त होय ही है ।

केते लोक कहै हैं आयु पूरी हुआ बिना मरण नाहीं होय ताका उत्तर करै हैं जो बाह्य निमित्तसू आयु नाहीं छिदै तो विषभक्षणतै कौन परान्मुख होता अर विष खानेवालेकू उकाली काहेकू देते अर शस्त्रघात करनेवालेतै काहेकू भयकरि भागते अर सर्प सिंह व्याघ्र हस्ती तथा दुष्ट मनुष्य तिर्यचादिकनिकू दूरहीतै काहेकू छाड़ते अर नदी समुद्र कूप वावड़ीमें तथा अग्नि की ज्वालामें पड़नेतै कौन भय करता, अर रोगका इलाज काहेकू करते तातै बहुत कहनेकरि कहा जो आयुघात होनेका बहिरङ्ग कारण मिल जाय तो आयुका घात हो जाय यह निश्चय है । बहुरि आयुवर्मकी ज्यों अन्य हू कर्म बहिरङ्ग कारण मिले उदय आवै ही हैं समस्त जीवनिके पापकर्म पुण्यकर्म सत्तामें विद्यमान हैं बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल भावादि परिपूर्ण सामग्री मिले कर्म अपना रस देवै ही है बाह्य निमित्त नाहीं मिलै तो उदयमें नाहीं आवै तथा रस दिया बिना ही निर्जै है बहुरि जो असद्भूतकू प्रगट करना सो दूजा असत्य है जैसे देवनिकै अकालमृत्यु कहना देवनिकू भोजन ग्रासादिरूप करना कहे वा देवनिकू मांसभक्षी कहना तथा मनुष्यनिके देवकामसेवन तथा देवांगनातै मनुष्यक कामसेवन इत्यादिक कहना दूजा असत्य है । बहुरि वस्तुका स्वरूपकू अन्य विपरीत स्वरूप कइना सो तीसरा असत्य है । बहुरि गर्हितवचन कहना सो चौथा असत्य वचन है । गर्हित वचनका तीन भेद हैं गर्हित, सावध, अप्रिय ।

तिनमें पैशून्य, हास्य, कर्कश, असमंजस, प्रकल्पित इत्यादिक अन्य हू सूत्रविरुद्ध वचन सो गर्हितवचन हैं । तिनमें जो परके विद्यमान तथ अविद्यमान दोषनिकू पीठ पाछै कहना तथा परका धनका विनाश जीविकाका विनाश प्राणनिका नाश जिस वचनतै होजाय तथा जगतमें निंध्य होजाय अपवाद होजाय ऐसा वचन कहना सो गर्हित नाम असत्यवचन है । बहुरि हास्य लीला मंड वचन तथा श्रवण करनेवालेनिके अशुभ राग उपजावनेवाले वचन सो हास्यनामा गर्हित वचन हैं । बहुरि अन्यकू कहै तू डांड है तू मूर्ख है अज्ञानी है मूढ़ है इत्यादिक कर्कश वचन हैं । बहुरि देश जानके योग्य नाहीं जातै आपके अन्यके महामंताप उपजै सो असमंजसवचन है । बहुरि प्रयोजनरहित टीटपनातै वक्तवाद करना सो प्रकल्पित वचन है ।

बहुरि जिय वचनकरि प्राणीनिका घान होजाय देशमें उग्रव होजाय देश लुटि जाय तथा देश वा सामंजसके मरुत पर होजाय तथा ग्राममें अग्नि लगी जाय, घर बल जाय, लनमें अग्नि लगजाय तथा कन्दरि मंशरुद मृद प्रगट होजाय तथा बिगाड करि मरि जाय तथा मारि जाय, वैर बंध जाय तथा एहकापके नीरनिके पानका प्राग्भ होजाय महाहिंगामें प्रशुति होजाय सो मारवचन है

तथा परहूँ चोर कहना, व्यभिचारी कहना सो समस्त सावधवचन दुर्गतिके कारण त्यागने योग्य हैं । अब अप्रियवचन त्यागने योग्य प्राण जाते हू नहीं कहना अप्रियवचनके भेद ऐसे जानने— कर्कश कटुक, परुषा, निष्ठुरा, परकोपनी, मध्यकृषा, अभिमानिनी, अनयंकरी, छेदंकरी, भूत-वधकरी ये महापापके करनेवाली महानिघ दश भाषा सत्यवादी त्याग करै हैं । तू मूर्ख है बलद है टोर है, रे मूर्ख तू कहा समझै इत्यादिक कर्कशा भाषा है । बहुरि तू कुजाति है नीच जाति है, अधर्मी महापापी है तू स्पर्शन करनेयोग्य नहीं तेरा मुख देख्यां बडा अनर्थ है इत्यादिक उद्वेग करनेवाला कटुक भाषा है । तू आचारभ्रष्ट है भ्रष्टाचारी है महादुष्ट है इत्यादिक मर्म छेदनेवाली परुषाभाषा है । तोहूँ मार नाखिस्यूँ थारो नाक काटिस्यूँ, थारै डाह लगास्यूँ, थारो मस्तक काटिस्यूँ तनै खाय जास्यूँ इत्यादिक निष्ठुरा भाषा है । रे निर्लज्ज वर्णाशंकर तेरा जातिकुल आचारका ठिकाना नहीं, तेरा कहा तप, तू कुशील है, तू हंसने योग्य है, महानिघ है, अभच्य-भक्षण करनेवाला है तेरा नाम लियां कुल लज्जित होय है इत्यादिक परकोपनी भाषा है । बहुरि जिस वचनके सुनते ही हाडनिकी शक्ति नष्ट हो जाय सो मध्यकृषा भाषा है । बहुरि लोकनिमें अपना गुण प्रगट करना परके दोष कइना अरना कुल जाति रूप बल विज्ञानादिक मद लिये जो बंधन बोलना सो अभिमानिनी भाषा है । बहुरि शीलखंडन करनेवाली अर विद्वेष करनेवाली अनयंकरी भाषा है । बहुरि जो वीर्य शील गुणादिकनिके निर्मूल करनेवाली, असत्यदोष प्रगट करनेवाली, जगतमें भूँठा कलंक प्रगट करनेवाली, छेदंकरी भाषा है । जिस वचनकरि अशुभ वेदना प्रगट होजाय वा प्राणनिका नाश करनेवाली भूतवधकरी भाषा है । ए दश प्रकार निघवचन त्यागने योग्य हैं । बहुरि स्त्रीनिके हावभाव विलास-विभ्रमरूप क्रीडा व्यभिचारादिकनिकी कथा कामके जगानेवाली, ब्रह्मचर्यका नाश करनेवाली स्त्रीनिकी कथा तथा भोजनपानमें राग करावने-वाली भोजनकी कथा तथा रौद्रकर्म करावनेवाली राजकथा तथा चोरीनिकी कथा तथा मिथ्यादृष्टि कुलिंगीनिकी कथा तथा धन उपार्जन करनेकी कथा तथा वैरी दुष्टनिके तिरस्कार करनेकी कथा तथा हिंसाहूँ पुष्ट करनेवाली वेद स्मृति पुराणादिक कुशास्त्रनिकी कथा कहनेयोग्य नहीं, पापका आस्रवको कारण अप्रिय भाषा त्यागने योग्य है । भो ज्ञानी हो ये चार प्रकारकी निघ-भाषा हास्यकरि क्रोधकरि लोभकरि मदकरि भयकरि द्वेषकरि कदाचित् मति कहो आपका परका हितरूपही ही वचन बोलो इस जीवकै जैसा सुख हितरूप अर्थसंपुक्त मिष्ट वचन करै है निराकुल करै है आताप हरै है तैसा सुखकारी आताप हरनेवाली चन्द्रकान्तिमणि जल चंदन मुक्ताफलादिक कोऊ पदार्थ नहीं । अर जहां अपने बोलनेत धर्मकी रक्षा होती होय प्राणीनिका उपकार होता होय तहां बिना पूछै हू बोलना, अर जहां आपका अन्यका हित नहीं होय तहां मौनसहित ही रहना उचित है ।

बहुरि सत्य वचनतैं सकलविद्या सिद्ध होय हैं जहां विद्या देनेवाला सत्यवादी होय अर सीखनेवाला हू सत्यवादी होय ताके सकल विद्या सिद्ध होय कर्मकी निर्जरा होय सत्यका प्रभाव से अग्नि जल विष सिंह सर्प दुष्ट देव मनुष्यादिक बाधा नहीं कर सकै हैं । सत्यका प्रभावतैं देवता वशीभूत होय है प्रीति प्रतीति दृढ़ होय है, सत्यवादी मातासमान विश्वास करने-योग्य है, गुरुका ज्यों पूज्य होय है, मित्र ज्यों प्रिय होय है उज्ज्वल यशकूं प्राप्त होय हैं, तपसंयमादि समस्त सत्यवचनतैं सोहै हैं । जैसे विष मिलनेकरि मिष्टभोजनका नाश होय, अन्याय-करि धर्मका यशका नाश होय तैसें असत्यवचनतैं अहिंसादि सकलगुणनिका नाश होय है तथा असत्यवचनतैं अप्रतीति, अकीर्ति अपवाद, अपने वा अन्यके संक्लेश, अरति कलह वैर, शोक, बध, बन्धन, मरण, जिह्वाछेद, सर्वस्वहरण, वन्दीग्रहमें प्रवेश, दुर्ध्यान अपमृत्यु, व्रत तप शील संयमका नाश, नरकादि दुर्गतिमें गमन भगवानकी आज्ञाको भङ्ग, परमागमतैं परान्मुखता, घोरपाप का आस्रव इत्यादि हजारों दोष प्रगट होय हैं । यातैं भो ज्ञानीजन हो लोकमें प्रिय हित मधुर वचन बहुत भरथा है, सुन्दर शब्दकी कमी नहीं फिर निंद्यवचन क्यों बोलो हो ? रे तू इत्यादिक नीच पुरुषनिके बोलनेके वचन प्राण जातैं हू मति कहो अधमपना अर उत्तमपना तो वचनहीतैं जाणया जाय है, नीचनिके बोलनेके निंद्यवचनकूं छांड़ि प्रिय हित मधुर पथ्य धर्मसहित वचन कहो जे अन्यकूं दुःखका देनेवाला वचन कहैं हैं तथा भूँठा कलंक लगावैं हैं तिनके पापतैं इहांही बुद्धि अष्ट होय है जिह्वा गलि जाय अंधा होजाय पग नष्ट होजाय दुर्ध्यानतैं मरि नरक तिर्यंचादि कुगतिका पात्र होय है । अर सत्यका प्रभावतैं इहां उज्ज्वल यश वचनकी सिद्धि द्वादशाङ्गादि श्रुतका ज्ञान पाय फिर इन्द्रादिक महर्द्विक देव होय तीर्थकरादि उत्तम पद पाय निर्वाण जाय है यातैं उक्त सत्यधर्महीकूं धारण करो ऐसें सत्यनामा धर्मका वर्णन किया ॥४॥

अब शौचधर्मका स्वरूप वर्णन करिये हैं—शौच नाम पवित्रता उज्ज्वलताका है जो बहिरात्मा देहकी उज्ज्वलता स्नानादिक करनेकूं शौच कहैं हैं सो सप्त धातुमय काय मलप्रत्रको भरथा जलतैं धोया शुचिपनाकूं प्राप्त नाहीं होय है जैसे मलका बनाया घट मलका भरथा जलतैं शुद्धि नाहीं होय तैसें शरीर हू उज्ज्वल जलतैं शुद्ध नाहीं होय, शुचि मानना बृथा है । बहुरि शौचधर्म तो आत्माकूं उज्ज्वल किए होय आत्मा लोभकरि हिंसाकरि अत्यन्त मलीन होय रसा है सो आत्माके लोभमलका अभाव भये शुचिता होय है जो अपने आत्माकूं देहतैं भिन्न ज्ञानापयोग दर्शनोपयोगमय अखंड अविनाशी जन्मजरामरण रहित तीनलोकवर्ती समस्तपदार्थनि का प्रकाशक सदा काल अनुभव करै है ध्यावै है ताकै शौचधर्म होय है । बहुरि मनकूं मायाचार लोभादिक रहित उज्ज्वल करना ताकै शौचधर्म होय है जाका मन काम लोभादिकरि मलीन होय ताकै शौचधर्म नाहीं होय है । धनकी गृद्धिता जो अतिलम्पटना ताका त्यागतैं शौचधर्म होय है । बहुरि परिग्रहको ममताकूं छांड़ि इन्द्रियनिका विषयनिको त्यागकरि

तपश्चरणका मार्गमें प्रवर्तन करना सो शौचधर्म है। बहुरि ब्रह्मचर्य धारण करना सो शौचधर्म है बहुरि अष्टमदकरि रहित विनयवानचना सो शौचधर्म है, अभिमानी मदसहित होय सो महामलीन है ताकै शौचधर्म कैसै होय। बहुरि वीतराग सर्वज्ञका परमागम अनुभव करनेकरि अन्तर्गत मिथ्यात्व कषायदिक मलका धोवना सो शौचधर्म है। उत्तम गुणनिका अनुमोदनाकरि शौचधर्म होय है। परिणामनिमें उत्तम पुरुषनिका गुणनिका चिंतवनकरि आत्मा उज्ज्वल होय है कषाय मलका अभावकरि उत्तम शौचधर्म होय है। आत्माकूँ पापकरि लिप्त नाहीं होने देना सो शौचधर्म है जो समभाव सन्तोषभावरूप जलकरि तीव्र लोभरूप मलका पुत्रकूँ धोवै है अर भोजनमें अति लंपटता रहित है, ताकै निर्मल शौचधर्म होय है जातै भोजनका लंपटी अति अधर्मी है अर अखाद्यस्तुकूँ भी खाय है, हीनाचारी होय है भोजनका लम्पटीके लज्जा नष्ट होजाय है जातै संसारमें जिह्वाइन्द्रिय अर उपस्थइन्द्रियके वशीभूत भये जीव आपा भूलि नरकके, तिर्यचगतिके कारण महानिघ परिणामनिकूँ प्राप्त होय है। संसारमें परधनकी वांछा परस्त्रीकी वांछा अर अतिलम्पटता ही परिणामकूँ मलीन करने वाली है इनकी वांछातै रहित होय अपने आत्माकूँ संसार पतवतै रक्षा करो ! आत्माकी मलीनता तो जीवहिंसातै अर परधन परस्त्रीकी वांछातै है जे परस्त्री परधनका इच्छुक अर जीवघातके करनेवाले हैं ते कोटि तीर्थनिमें स्नान करो समस्त तीर्थनिकी बंदना करो तथा कोटि दान करो, कोटि वर्ष तप करो, समस्त शास्त्रनिका पठन-पाठन करो तो हू उनकै शुद्धता कदाचित नाहीं होय। अभक्ष्य-भक्षण करनेवालेनिका अर अन्यायका विषय तथा धनके भोगने वालेनिका परिणाम ऐसे मलीन हैं जो कोटि वार धर्मका उद्देश अर समस्त सिद्धान्तनिकी शिक्षा बहुत वर्ष श्रवण करते हू कदाचित् हृदयमें प्रवेश नाहीं करै है सो देखिये है जिनकूँ पचास वरस शास्त्र श्रवण करते भये हैं तोहू धर्मका स्वरूपका ज्ञान जिनकूँ नाहीं है सो समस्त अन्याय धन अर अभक्ष्य भक्षणका फल है तातै जो अपनी आत्माका शौच चाहो हो तो अन्यायका धन मति ग्रहण करो अर अभक्ष्य भक्षण मतिकरो, परस्त्रीकी अभिलाषा मति करो। बहुरि परमात्माके ध्यानतै शौच है अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्यागतै शौचधर्म है। जे पंचपापनिमें प्रवर्तनेवाले हैं ते सदाकाल मलीन हैं, जे परके उपकारकूँ लोपै हैं ते कृतघ्नी सदा मलीन हैं, गुरुद्रोही, धर्मद्रोही, स्वामिद्रोही, मित्रद्रोही उपकारकूँ लोपनेवाले हैं, तिनके पापका संतान अपख्यात भवनिमें कोटि तीर्थनिमें स्नानकरि दानकरि दूर नाहीं होय है विश्वासघाती सदा मलीन है, यातै भगवान्के परमागमकी आज्ञा प्रमाण शुद्ध सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्रकरि आत्माकूँ शुचि करो, क्रोधादि कषायका निग्रह करि उत्तमत्तमादि गुण धारण करि उज्ज्वल करो समस्त व्यवहार कपट रहित उज्ज्वल करो, परका विभ्रम ऐश्वर्य उज्ज्वल यश उत्तम विद्यादिक प्रभाव देखि अदेखसका भावरूप मलीनता छांडि शौचधर्म अङ्गीकार करो, परका पुण्यका उदय देखि विपादी मति होहू इस मनुष्यपर्यायकूँ तथा इन्द्रिय ज्ञान बल आयु

संपदादिकनिष्कं अनित्य क्षणभंगुर जानि एकाग्र चित्तकरि अपने स्वरूपमें दृष्टि धारि अशुभ-  
भावनिका अभावकरि आत्माकूं शुचि करो । शौच ही मोक्षका मार्ग है, शौच ही मोक्षका दाता  
है । ऐसैं शौच नाम पंचम धर्मको वर्णन कियो ॥५॥

अत्र संयम नाम धर्म का स्वरूप कहिये है - संयमका ऐसा लक्षण जानना जो अहिंसा  
कहिये हिंसाको त्याग दयारूप रहना हित मित प्रिय सत्य वचन बोलना, परके धनमें बांछाका  
अभाव करना कुशीलका छांडना परिग्रह त्यागना ए पांच व्रत हैं तिनमें पंचपायनिका एक देश  
त्याग सो अणुव्रत है, सकल त्याग सो महाव्रत है इन पंचव्रतनिष्कं दृढ धारण करना अर पंच-  
समितिका पालना; तिनमें गमनकी शुद्धता ईर्यासमिति है, वचनकी शुद्धता सो भाषासमिति है,  
निर्दोष शुद्ध भोजन करना सो ऐषणा समिति है, शरीर, उपकरणआदक नेत्रनितैं देखि सोधि  
उठावना धारना सो आदाननिक्षेपणा समिति है मलमूत्र कफादिक मल्लनिष्कं अन्य जीवनिके ग्लानि  
दुःख बाधादिक नाहीं उपजै ऐसे क्षेत्रमें क्षेपना सो प्रतिष्ठापनासमिति है इन पंच समितिनिका  
पालना अर क्रोध मान माया लोभ इन च्यार कषायनिका निग्रह करना अर मनवचनकायकी  
अशुभ प्रवृत्ति ए दण्ड हैं इन तीन दण्डनिका त्याग अर विषयनिमें दौड़ती पंच इन्द्रियनिष्कं वश  
करना जीतना सो संयम है ।

भावार्थ—पंचव्रतनिका धारण पंच समितिका पालन कषायनिका निग्रह दण्डनिका त्याग  
इन्द्रियनिका विजयकूं जिनेन्द्रके परमाणममें संयम कहा है । सो संयम बहुत दुर्लभ है जिनके  
पूर्वके बांधे अशुभकर्मनिका अतिमदयना होते मनुष्य-जन्म, उत्तमदेश उत्तमकुल, उत्तमजाति,  
इन्द्रियपरिपूर्णता, नीरोगता, कषायनिकी मंदता होय अर उत्तमसंगति अर जिनेन्द्रका आगमनिका  
सेवन अर सांचे गुरुनिका संयोग सम्पद्दर्शनादि अनेक दुर्लभ सामग्रीका संयोग होय तदि संसार  
देह भोगनितैं अति विरक्तताके धारक मनुष्यकै अपत्याख्यानानावरणका क्षयोपशमतै तो देशसंयम  
होय अर जाकै अपत्याख्यान अर प्रत्याख्यान दोऊ कषायनिका क्षयोपशम होय ताके सकलसंयम  
होय है, तातैं संयम पावना महादुर्लभ है । नरकगतिमें तिर्यचगतिमें देवगतिमें तो संयम होय नाहीं,  
कोऊ तिर्यचकै देशव्रत अपनी पर्यायमाफिरु कदाचित् होय है अर मनुष्यपर्यायमें भी नीचकुलादिमें  
अधमदेशनिमें इन्द्रियविकल अज्ञानी रोगी दरिद्री अन्यायमार्गी विषयानुरागी तीव्रकषायी निघ-  
कर्मी मिथ्यादृष्टीनिकै संयम कदाचित् नाही होय है, तातैं संयमका पावना अतिदुर्लभ है, ऐसे  
दुर्लभ संयमकूं हू पाय कोऊ मूढबुद्धि विषयनिका लोलुपी होय छांडै है तो अनन्तकाल जन्म  
मरण कृता संसारमें परिभ्रमण करै है । जो संयम पाय छांडै है संयमकूं विगाडै है ताके  
अनन्तकाल निगोदमें परिभ्रमण, व्रतस्थावरनिमें भ्रमण करना होय सुगति नाहीं होय । संयम  
पाय विगाडने ममान अन्य अनर्थ नाहीं है विषयनिका लोभी होय करि जो संयमकूं विगाडै है

जो एक कौडीमें चितामणिरत्न बेचै है तथा ईंधनके अर्थि कल्पवृक्षकूँ छेदै है । विषयनिका सुख है सो सुख नहीं, सुखाभास है, क्षणभंगुर है नरकनिके घोर दुःखनिका कारण है, किपाकफल जैसे जिहाका स्पर्शनात्र मिष्ट लागै है पाछै घोर दुःख महादाह सताप देय मरणकूँ प्राप्त करै है तैसें भोग किंविन्मात्र काल तो अज्ञानी जीवनिक्कूँ भ्रमतेँ सुख-सा भासै है फिर अनन्तकाल अनन्त-भयनिमें घोर दुःखका भोगना है यातेँ संयमकी परम रक्षा करो । पांच इन्द्रियनिक्कूँ विषयनिके संबधतेँ रोकनेतेँ संयम होय है, कषायनिका खंडनकरि संयम होय है, दुद्धर तपसा धारणकरि संयम होय है, रमनिका त्यागकरि संयम होय है, मनके प्रसारके रोकनिकरि संयम होय है, महान कायबलेशनिके सहने करि संयम होय है, उपवानादिक अनशन तपकरि संयम होय है, मनमें परिग्रहकी लालसा का त्यागकरि संयम होय है, त्रम-स्थायर जीवनिकी रक्षा करना सो ही संयम है, मनके विकल्पनि के रोकनेकरि तथा प्रमादतेँ वचनकी प्रवृत्तिके रोकनेकरि संयम होय है । शरीरके अंग-उपांगनिका प्रवर्तनकूँ रोकनेकरि संयम होय है । बहुत गमनके रोकनेकरि संयम होय है । बहुरि दयारूप परिणामकरि संयम होय है, परमार्थका विचार करके तथा परमात्माका ध्यान करके संयम होय है । संयम करके ही सम्यग्दर्शन पुष्ट होय संयम ही मोक्षका मार्ग है, संयमविना मनुष्यभव शून्य है, गुणरहित है, संयमविना यो जीव दुर्गतिनिक्कूँ प्राप्त भया, संयमविना देहका धारणा, बुद्धिका पावना, ज्ञानका आराधना करना समस्त बृथा है, संयमविना दीक्षा धारणा व्रत धारणा मूंड मुडावना, नग्न रहना भेष धारणा ये समस्त बृथा हैं । जातेँ संयम दोय प्रकार है— इन्द्रियमयम अर प्राणिसंयम—जाकी इन्द्रियां विषयनितेँ नहीं रुकीं अर जाके छहकायके जीवनिकी विराधना नहीं टली ताके बाह्य परीषह सहना, तपश्चरणा करना, दीक्षा लेना बृथा है । संसारमें दुखित जीवनिक्कूँ संयमविना कौऊ अन्य शरण नहीं है । ज्ञानीजन तो ऐसी भावना भावै हैं जो संयमविना मनुष्य जन्मकी एक घटिका हू मति जावो, संयमविना आयु निष्फल है, यो संयम है सो इम भवमें अर परभवमें शरण है, दुर्गतिरूप सरोवर के शोषण करनेकूँ स्वयं है, संयम करके ही भमारूप विषम वैरीका नाश होय । संसार-परिभ्रमणका नाश संयम विना नहीं होय । ऐसा नियम है जो अंतरंगमें कषायनिकरि आत्माकूँ मलीन नहीं होन देहें अर बाह्य यत्नाचारी हुआ प्रमादरहित प्रवर्तै है ताके संयम होय है । ऐसे संयमधर्मका वर्णन किया ॥६॥

अब तपधर्मका वर्णन करे हैं,—इच्छाका निरोध करना सो तप है तप चार आराधनानिमें प्रधान है जैसे सुवर्णकूँ तपावने-करि सोला ताव लगे समस्त मल छांडि करके शुद्ध होय है तैसेँ आत्मा हू द्वादश प्रकार तपके प्रभाकरि कर्म-मल-रहित शुद्ध होय है । अज्ञानी मिथ्यादृष्टि तो देहकूँ पंच अग्निकरि तपावै में तथा अनेक प्रकार कायके क्लेशकूँ तप कहें हैं सो तप नहीं है । काय कूँ दग्ध किये अर मार लिये कहा होय ? मिथ्यादृष्टि ज्ञानपूर्वक आत्माकूँ कर्मबधतेँ छुडावना नहीं जानै है । कर्मकलंक रहित आत्मा तो भेदज्ञानपूर्वक अपने आत्माका स्वभावकूँ

अर रागद्वेष मोहादिरूप मैलकूँ भिन्न देखै है जैसेँ रागद्वेष मोहरूप मल भिन्न हो जाय अर शुद्ध ज्ञान दर्शनमय आत्मा भिन्न होजाय सो तप हैं याहीतैं कहैं हैं मनुष्य-भव पाय जो स्व-पर तत्त्वकूँ जाण्या हैं तो मनसहित पंच इन्द्रियनिकूँ रोकि विषयनितैं विरक्त होय समस्त परिग्रहकूँ छांडि बंध करनेवाली रागद्वेषमई प्रवृत्तिकूँ छांडि पापका आलम्बन छूटनेके अर्थि ममता नष्ट करनेकूँ वनमें जाय तप करिये । ऐसा तप धन्य पुरुषनिके होय है संसारी जीव के ममता रूप बड़ी फांसी हैं सो ममतारूप जालमें फंसा हुआ घोर कर्मकूँ करता महापापका बन्धकरि रोगादिकका तीव्रवेदना अर स्त्री-पुत्रादि समस्त कुटुम्बका तथा परिग्रहका वियोगादिकतैं उपज्या तीव्र आतर्ध्यानतैं मरण पाय दुर्गतिनिके घोर दुःखनि कूँ जाय प्राप्त होय है । तपोवनकूँ प्राप्त होना दुर्लभ है तप तो कोऊ महाभाग्य पुरुष .पनितैं विरक्त होय समस्त स्त्री-पुत्र-धनादिक परिग्रहतैं ममत्व छांडि परम धर्मके धारक वीतराग निर्ग्रथ गुरुनिका चरण-निका शरण पावै है अर गुरुनिको पायकरि जाकै अशुभ कर्मका उदय अति मन्द होय, सम्यक्त्व-रूप सूर्यको उदय प्रगट होय संसार-विषय भोगनितैं विरक्तता जाकै उपजी होय सो तप संयम ग्रहण करै है. अर जो ऐसा दुर्द्धर तपकूँ धारण करकै हू कोऊ पापी विषयनिकी बांछाकरि विगाडै ताके अनन्तानन्त कालमें फिर तप नाहीं प्राप्त होय है । यातैं मनुष्यभव पाय तत्त्वनिका स्वरूप जानि मनसहित पंच इन्द्रियनिकूँ रोकि वैराग्यरूप होय समस्त संगकूँ छांडि वनमें एकाकी ध्यानमें लीन हुआ तिष्ठै सो तप है ।

जहां परिग्रहमें ममता नष्ट होय बांछारहित तिष्ठना तथा प्रचण्ड कामका खण्डन करना सो बड़ा तप है । जहां नग्न दिगम्बररूप धारि शीतकी, पवनकी, आतापकी, वर्षाकी तथा डांस माछर मत्तिका मधुमत्तिका सर्प पिच्छू इत्यादिकतैं उपजी-घोरवेदनाकूँ कोरे अङ्गपरि सहना सो तप है, अर जो निर्जन पर्वतनिका निर्जन गुफानिमें, भयङ्कर पर्वतनिके दराडेनिमें तथा सिंह व्याघ्र रीछ ल्याली चीता हस्तीनिकरि व्याप्त घोर वनमें निवास करना सो तप है । तथा दुष्ट वैरी म्लेच्छ चोर शिकारी मनुष्य अर दुष्ट व्यंतरादिक देवनिकृत घोर उपसर्गनितैं कम्पायमान नाहीं होना धीर-वीरपनातैं कायरता छांडि वैर विरोध छांडि समताभावतैं परमात्माका ध्यानमें लीन हुआ सहना सो तप है । बहुरि समस्त जीवनिकूँ उलम्बानेवाले रागद्वेषनिकूँ जीतना, नष्ट करना सो तप है । बहुरि यो याचनारहित भिक्षाके अवसरमें श्रावकका घरमें नवधा भक्तिकरि हस्तमें धरया खारा अलुणा कड़वा खाटा लूखा चीकना रस नीरस तिसमें लोलुपता अर संक्लेशर हत निर्दोष प्रासुक आहार एकवार भक्षण करना सो तप है । बहुरि जो पंचसमितिका पालना अर मनवचनकायकूँ चलायमान नाहीं करना, अपना रागद्वेषरहित आत्मानुभव करना सो तप है । जो स्व-पर तत्त्वकी कथनीका च्यार अनुयोगका अभ्यासकरि धर्मसहित काल व्यतीत करना सो तप है । बहुरि अभिमान छांडि विनयरूप प्रवर्तना, कपट छांडि मरल परिणाम धारना, क्रोध छांडि जमा ग्रहण

करना, लोभ त्याग निर्वाच्छक होना सो तप हैं । जाकरि कर्मका समूहका नाशकरि आत्मा स्वाधीन होजाय सो तप है । जो श्रुतका अर्थका प्रकाश करना, व्याख्यान करना, आप निरंतर अभ्यास करै, अन्यकूँ अभ्यास करावै सो तप है । तपस्वीनिका देवनिका इन्द्र स्तवन करै, भक्ति का प्रकाश करै, तपकरि केवलज्ञान उत्पन्न होय है तपका अचित्य प्रभाव है तपके मांहि परिणाम होना अति दुर्लभ है । नरक तिर्यच देवनिकें तपकी योग्यता ही नाहीं, एक मनुष्यगतिमें होय मनुष्यमें हूँ उत्तम कुल जाति बल बुद्धि इन्द्रियनिकी पूर्णता जाके होय तथा विषयनिकी लालसा जाके नष्ट भई ताके होय है । तप द्वादश प्रकार है जाकी जैसी शक्ति होय तिसप्रमाण धारण करो । बालक करो, वृद्ध करो घनाढ्य करो निर्धन करो, बलवान् करो, निर्बल करो, सहायसहित होय सो करो, सहायरहित होय सो करो, भगवान्को प्ररूप्या तप किसीकै हूँ करनेकूँ अशक्य नाहीं है । जैसे वायुपित्तकफादिका प्रकोप नाहीं होय, रोगकी वृद्धि नाहीं होय, जैसे शरीर रत्नत्रयको सहकारी बन्यौ रहै तैसे अपना संहनन बल वीर्य देखि तप करो । तथा देश काल आहारकी योग्यता देखि तप करो जैसे तपमें उत्साह बधती रहै, परिणामनिमें उज्वलता बधती जाय, तैसे तप करो । तथा जो इच्छाका निरोधकरि विषयनिमें राग घटावना सो तप है । तप ही जीवका कल्याण है, तप ही कामकूँ निद्राकूँ प्रमादकूँ नष्ट करनेवाला है यातें मद छांडि बारह प्रकार तपमें जैसा जैसा करनेकूँ सामर्थ्य होय तैसा ही तप करो । सो बारह प्रकार तपकूँ आगे न्यारो लिखेंगे । ऐसे तपधर्मकूँ वर्णन किया ॥७॥

अत्र त्यागधर्मका वर्णन करै हैं । त्याग ऐसे जानना जो धन संपदादि परिग्रहकूँ कर्मका उदयजनित परार्थीन, अर विनाशीक अर अभिमानको उपजावनेवाली तृष्णाकूँ बधावनेवाली रागद्वेषकी तीव्रता कानेवाली, आरम्भकी तीव्रता करनेवाली, हिंसादिक पंच पापनिका मूल जानि उत्तमपुरुष याकूँ अङ्गीकार ही नाहीं किया ते धन्य हैं । जो कोई याकूँ अङ्गीकार करि याकूँ हलाहल-विषप्रमान जानि जागी तृष्णकी ज्यों त्याग किया तिनकी अचित्यमहिमा है । अर केई जीवनिके तीव्र रागभाव मन्द हुआ नाहीं यातें मकल त्यागनेकूँ समथ नाहीं अर सरागधर्ममें रुचि धारै हैं अर पापतें भयभीत हैं ते इम धर्मकूँ उत्तम पात्रनिके उपकारके अर्थि दानमें लगावै हैं अर जे धर्मके सेवन करने वाले निर्धन जन हैं तिनके अन्न-वस्त्रादिककरि उपकार करनेमें धन लगावै हैं तथा धर्मके आयतन जिनमन्दिरादिकनिमें जिनसिद्धांत लिखाय देनेमें तथा उपकरणमें पूजादिक प्रभावनामें लगावै है तथा दुःखित दरिद्री रोगीनिके उपकारमें तन मन धन करुणावान होय लगावै हैं ते धन जीतव्यकूँ सफल करै हैं । दान है सो धर्मका अङ्ग है यातें अपनी शक्ति-प्रमाण भक्तिकरि गुणनिके धारक उज्वलपात्रनिको दान देना है स. परलोककूँ जीवनें महान् सुखसामग्रीकूँ लेजावै है सो निर्विघ्न स्वर्गकूँ तथा भोगभूमिकूँ प्राप्त करानेवाला जानो । दानकी महिमा तो अज्ञानी बालगोपाल हूँ कहै हैं, जो पूर्व दान दिया है सो नानाप्रकार सुखसामग्री



पाई है, अर देगा सो पावैगा । तातैं जो सुख-संपदाका अर्थी होय सो दान ही में अनुराग करो । अर जे दान करनेमें निरुद्यमी हैं ते इहांहू तीव्र आर्तपरिणामतैं मरि सर्पादिक दुष्ट तिर्यंगति पाय नरक निगोदकू जाय प्राप्त होय हैं धन कहा लार जायसी ? धन पावना तो दानहांतैं सफल है । दानरहितका धन घोर दुःखनिकी परिपार्टीका कारण है अर इहां हू कृपण घोरनिदाकू पावै हैं, कृपणका नाम भी लोक नाहीं कहै है कृपण सूमका नामकू लोग अमङ्गल मानै हैं जामें औगुण दोष हू होय तो दानीका दोष ठकि जाय है । दानीका दोष दूर भांगै है, दानकरि ही निर्मल कीर्ति, जगमें विख्यात होय है । देनेकरि वैरी वैर छांडै है अपना हित करनेवाला मित्र होजाय है, जगतमें दान बड़ा है, थोड़ासा दान हू सत्यार्थ भक्तिकरि करने वाला भोगभूमिका तीन पल्यपर्यंत भोग भोगि देवलोकमें जाय है देना ही जगतमें ऊंचा है, दान देना विनय संयुक्त स्नेहका वचनकरि सहित होय देना, अर दानी हैं ते ऐसा अभिमान नाहीं करै हैं जो हम इसका उपकार करै हैं । दानी तो पात्र कू अपना महाउपकार करनेवाला मानै हैं जो लोभ रूप अन्धकूममें पडनेका उपकार पात्र विना कौन करै, पात्रविना लोभीनिका लोभ नाहीं छूटता अर पात्रविना संभारके उद्धार करनेवाला दान कैसें बगता । यातैं धर्मात्मा जननिके तो पात्रके मिलने समान अर दानके देने समान अन्य कोऊ आनन्द नाहीं है, बढ़ापना धनाढ्यपना ज्ञानीपना पाया है तो दानमें ही उद्यम करो । छह-कायके जीवनिकू अभयदान देहु, अभन्यका त्यागकरि, बहु आरम्भके घटावनेकरि देखि सोधि भेलना धरना, यत्नाचारविना निर्दयी होय नाहीं प्रवर्तना । किसी प्राणीमात्रकू मनवचनकापतैं दुःखित मति करो । दुःखनिकी करुणा ही करो, यो ही गृहस्थके अभयदान है यातैं संसारमें जन्म मरण रागी शोक दारिद्र्य वियोगादिक संतासका पात्र नाहीं होओगे ।

बहुरि संसारके बधावनेवले हिंसाकू पुण्ड करनेवाले तथा मिथ्याधर्मकी प्ररूपणा करनेवाले तथा युद्धशास्त्र शृंगारशास्त्र मायाचारके शास्त्र वैद्यकशास्त्र रस रसायण मंत्र-जंत्र मारण वशीकरणादिकशास्त्र महापापके प्ररूपक हैं इनकू अति दूरतैं ही त्यागि भगवान् वीतराग सर्वज्ञका कक्षा दयाधर्मकू प्ररूपणा करनेवाला स्याद्वादिरूप अनेकांतको प्रकाश करनेवाले नयप्रमाणकरि तत्त्वार्थकी प्ररूपणा करनेवाले शास्त्रनिङ्ग अग्ने आत्माकू पढने-पढावने करि आत्माका उद्धारके अर्थि अपने अर्थि दान करो । अपनी संतानकू ज्ञानदान करो तथा अन्य धर्मबुद्धि धर्मके रोचक इच्छुक तिनकू शास्त्रदान करो, ज्ञानके इच्छुक हैं ते ज्ञानदानके अर्थि पाठशाला स्थापन करै हैं जातैं धर्मका स्तंभ ज्ञान ही है जहां ज्ञानदान होयगा तहां धर्म रहैगा, यातैं ज्ञानदानमें प्रवर्तन करो । ज्ञानदानके प्रभावतैं निर्मल केवलज्ञ नकू पावै है । बहुरि रोगका नाश करनेवाला प्रामुक औषधिका दान करो । औषधदान बडा उपकारक है अर रोगीकू सीधा तैयार औषधि मिलै है ताका बडा आनन्द है अर निर्धन होय तथा जाके टड्कत करनेवाला नाहीं होय, ताकू

औषध जो करी हुई तय्यार मिल जाय तो निधीनिका लाभ-समान मानै है औषध लेय नीरोग होय है सो समस्त व्रत तग संयम पालै है ज्ञानका अभ्यास करै है । औषधदान है तांके वात्सल्य-गुण स्थितिकरणचगुण निर्विक्रित्सगुण इत्यादिक अनेक गुण प्रगट होय हैं, औषधिदानके प्रभावतै रोगरहित देवनिका वैक्रियिक देह पावै है । बहुरि आहारदान-समस्तदाननिमें प्रधान है प्राणीका जीवनशक्ति बल बुद्धि ये समस्त गुण अहारविना नष्ट होजाय हैं । आहार दिया सो प्राणीकूँ जीवन बुद्धि शक्ति समस्त दीना । आहारदानतै ही मुनि श्रावकका सकलधर्म प्रवर्तै है आहारविना मार्गभ्रष्ट होजाय, आहार है सो समस्त रोगका नाश करनेवाला है जो आहारदान दे है सो मिथ्यादृष्टि हू भोगभूमिमें कल्पवृत्तनिका दशांग भोगकूँ असंख्यातकाल भोगै और बुधा-तृषादिकरुणी वाधारहित हुआ आंचलाप्रमाण तीन दिनके आंतरै भोजन करै । समस्त दुःखक्लेश-रहित असंख्यातवर्ष सुख भोगि देवलोकनिमें जाय उयजै है । यातै धनकूँ पाय च्यार प्रकारके दान देनेमें प्रवर्तन करो । अर जो निर्धन है सो हू अपना भोजनमेंतै जेता बनै तेता दान करो, आपकूँ आधा भोजन मिलै ती तैहू ग्रास दोय ग्रास दुःखित बुभुक्षित दीन दरिद्रीनिके अर्ण देवो । बहुरि मिष्टवचन बोलनेका बड़ा दान है, आइर-सन्कार विनय करना स्थान देना कुशल पूछना ये महादान हैं । बहुरि दुष्ट विकल्पनिका त्याग करो पापनिमें प्रवृत्तिका त्याग करो चार कृपायनिका त्याग करो विकथा करनेका त्याग करो, परके दोष सत्य, असत्य, कदाचित मति कहे । बहुरि अत्यायका धन ग्रहण करनेका दूरहीतै त्याग करो । भो ज्ञानीजन हो ! जो अपना हितके इच्छुक हो तो दुखितजननिकूँ तो दान करो, अर समर्थदर्शन समग्ज्ञानादि गुणनिके धारकनिका महाविनय-सन्मान करो, समस्त जीवनमें कृष्णा करो मिथ्यादर्शनका त्याग करो, रागद्वेषमोहके धारक कुदेव अर आरम्भ परिग्रहके धारक भेषधारी अर हिंसाके भेषक रागद्वेषकूँ पुष्ट करनेवाले मिथ्यादृष्टि-निके शास्त्र इनकूँ वदना स्तवन प्रशंसा करनेका त्याग करो; क्रोध मान माया लोभ इनके निग्रह करनेमें बड़ा उद्यम करो, क्लेश करनेके कारण अप्रिय वचन गालीके वचन अपमानके वचन मदसहित वचन कदाचित् मति कहे । इत्यादिक जो परके दुःखके कारण तथा अपना यशकूँ नष्ट करनेवाला धर्मकूँ नष्ट करनेवाला मन वचन कायके प्रवर्तनका त्याग करो ऐसे त्यागधर्मका संक्षेप वर्णन किया ॥८॥

अब आकिंचन्यधर्मका स्वरूप कहिये है, — जो अपना ज्ञान-दर्शनमय स्वरूप विना अन्य किंचिन्मात्र हू हमारा नाहीं है, मैं किमो अन्यद्रव्य नाहीं है, ऐसा अनुभवनकूँ आकिंचन्य कहिये है । भो आत्मन् ! अपना आत्माकूँ देहतै भिन्न अर ज्ञानमय अन्य द्रव्यकी उपमारहित अर स्पर्शरसगंधवर्णरहित अर अपना स्वाधीन ज्ञानानंदसुखकरि पूर्ण परम अतीन्द्रिय भयरहित ऐसा अनुभव करो ।

भावाय — यह देह है सो मैं नहीं, देह तो रस रुधिर हाड मांस चामय जड़ अचेतन है। मैं इस देहमें अत्यन्त भिन्न हूँ, ये ब्राह्मण क्षत्रियादिक जाति-कुल देहके हैं मेरे ये नहीं हैं स्त्री पुरुष नपु सक लिंग देहके हैं मेरे नहीं, यो गोरामना सांवालापना राजापना रेङ्कपना स्वामिपना सेवकपना पण्डितपना भूर्खपणा इत्यादि समस्त रचना कर्मका उदयजनित देहके हैं मैं तो ज्ञायक हूँ ये देहका सम्बन्धी मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप अन्य द्रव्यका उपमारहित है, ताता ठंडा नरम कठोर लूखा चीकना हलका भारी अष्ट प्रकार स्पर्श हैं ते हमारा रूप नहीं, पुद्गल के रूप हैं। ये खाटा मोठा कडुवा कसायला चिरपरा पच प्रकार रस, अर सुगंध दुर्गंध दीय प्रकारका गंध अर काला पीला हरा स्वेत रक्त ये पंच वर्ण मेरा स्वरूप नहीं, पुद्गलका है। मेरा स्वभाव तो सुखकरि परिपूर्ण हैं परन्तु कर्मके आधीन दुखकरि व्याप्त होय रखा हूँ मेरा स्वरूप इन्द्रियरहित अतीन्द्रिय है इन्द्रियां पुद्गलमय कर्मकरि की हुई हैं मैं समस्त भयरहित अविनाशी अखंड आदि-अंतरहित शुद्ध ज्ञानस्वभाव हूँ परन्तु अनादिकालतैं जैसे सुवर्ण अर पाषाण मिल रखा है तैसे, तथा क्षीर-नीर ज्यों कर्मनि करि अनादिकाल तैं मिल रखा हूँ तिनमें मेह तिनमें मिथ्यात्वनाम कर्मका उदयकरि अपना स्वरूपका ज्ञान रहित होय देहादिक परद्रव्यनिकु आपका स्वरूप जानि अनंतकालमें परिभ्रमण किया। अब कोऊ किंचित् आवरणदिकके दूर होनेतैं श्रीगुरुनिका उपदेश्या परमागमके प्रसातैं अपना अर परका स्वरूपका ज्ञान भया है जैसे रत्ननिका व्यापारी जेडे हुए पंच वर्ण रत्ननिके आभारणनिमें गुरुकी कृपातैं अर निरन्तर अभ्यासतैं मिल्या हुआ हूँ डाकका रंग अर माणिक्यका रंगकू अर तोलकू अर मोलकू भिन्न भिन्न जाने है तैसे परमागमका निरन्तर अभ्यासतैं मेरा ज्ञान स्वभावमें मिल्या हुआ राग द्वेष मोह कामादिक मेलकू भिन्न जाण्या है अर मेरा ज्ञायक स्वभावकू भिन्न जाण्या है तातैं अब जैसे रागद्वेषमोहादिक भावकर्मनिमें अर कर्मनिके उदयतैं उपजे। वनाशीक शरीर परिवार धन संपदादि परिग्रहमें ममता बुद्धि मेरे जैसे फिर अन्य जन्ममें हूँ नहीं उपजे तैमें आकिंचन्य लोभकू। या आकिंचन्य भावना अनादिकालतैं नहीं उपजी, समस्त पर्यायनिकू अयनी रूप मान्या तथा रागद्वेषमोहक्रोधकामादिक भाव कर्मकृत विकार थे तिनकू आपरूप अनुभवकरि विपरीत भावनिते घोर कर्मबंधकू कोया अर मैं आकिंचन्य भावनामें विघ्नका नाश करनेवाला पंच परमगुरुनिका शरणतैं आकिंचन्य ही निर्विघ्न चाहूँ हूँ और त्रैलोक्यमें कोऊ अत्यवस्तुकू नहीं बांछूँ हूँ। यो आकिंचन्यपणा ही संसारसमुद्रतैं तारणकू जिहाज होहू। जो परिग्रहकू मश्वंध जानि छांडना सो आकिंचन्य है, आकिंचन्यपणा जाके होय है ताके परिग्रहमें बांछा नहीं रहै है आत्मध्यानमें लीनता होय है, देहादिकनिमें बाह्यवेषमें आपो नहीं रहै है, अर अपना स्वरूप जो रत्नत्रय तामें प्रवृत्ति होय है, इन्द्रियनिके विषयनिमें दौड़ता मन रुकि जाय हूँ देहमें स्नेह छूटि जाय सांसारिक देवनिका सुख, इद्र अहंमिद्र चक्रवर्ती-निका सुख हूँ दुख दीखै है इनमें। बांछा कैसे करै। परिग्रह रत्न सुवर्ण राज्य ऐश्वर्य स्त्री

पुत्रादिकनिकूँ जीर्णतृणमें जैमें ममतारहित छांडनेमें विचार नहीं तैसैं परिग्रह छांडै है । आकि-  
चन्य तो परम वीतरागपणा हं जिनकै संसारको अंत आ गयो तिनकै होय है । जाके आकिचन्यपणा  
होय ताकै परमार्थ जो शुद्ध आत्मा ताका विचारनेकी शक्ति प्रगट होय ही, अर पंचपरमेष्ठीमें  
भक्ति होय ही, अर दुष्ट विकल्पनिका नाश होय ही, अर इष्ट अनिष्ट भोजनमें रागद्वेष नष्ट हो जाय  
है, केवल उदररूप खाडा भरना, अन्य रस नीरस भोजनमें विचार जाता रहै है, समस्त धर्मनिमें  
प्रधान धर्म आकिचन्य ही मोक्षका निकट समागम करावनेवाला है । अनादिकालतैं जेते सिद्ध भए  
हैं ते आकिचन्यतैं ही भये हैं अर आगैं जां जो तीर्थकरादि- सिद्ध होंगे ते आकिचन्यपणा हीतैं  
होंगे । यद्यपि आकिचन्यधर्म प्रधानकरि साधुजननिकै ही होय है तथापि एकदेश धर्मका धारक  
गृहस्थ उम धर्मके ग्रहण करनेकी इच्छा करै है अर गृहाचारमें मंदरागी होय अतिविरक्त होय है  
प्रमाणीक परिग्रह धारै है, आगामी बांछारहित है, अन्यायका धन परिग्रह कदाचित् ग्रहण नहीं,  
करै है अल्प परिग्रहमें अति संतोपी होय रहै है परिग्रहकूँ दुःखका देनेवाला अर अत्यंत अस्थिर  
मानै है ताकै ही आकिचन्यभावना होय है । ऐसैं आकिचन्यधर्मका वर्णन किया ॥६॥

अब उत्तमब्रह्मचर्यका स्वरूप कहिए है—समस्त विषयनिमें अनुराग छांड करकै ब्रह्म जो  
ज्ञायकस्वभाव आत्मा तामें जो चर्या कहिये प्रवृत्ति सो ब्रह्मचर्य है । भो ज्ञानीजन हो, यो ब्रह्म-  
चर्य नाम व्रत बड़ो दुद्धर है हरेक बापडा विषयनिके बस हुआ आत्मज्ञान रहित है ते याकूँ  
धारवेकूँ समर्थ नहीं हैं जे मनुष्यनिमें देवके समान हैं ते धरवेकूँ समर्थ हैं अन्य रक  
विषयनिकी लालसाके धारक ब्रह्मचर्य धारनेकूँ समर्थ नहीं हैं । यो ब्रह्मचर्यव्रत महा-  
दुद्धर है, जाके ब्रह्मचर्य होय ताकै समस्त इन्द्रिय अर कषायनिका जीतना सुलभ है । भो भव्य  
हो स्त्रीनिका सुखमें रागी जो मनरूप मदोन्मत्त हस्ती ताकूँ वैराग्यभावनामें रोक करकै, अर विष-  
योंकी आशाका अभाव करकै दुद्धर ब्रह्मचर्य धारण करो । यो काम है सो चित्तव्य भूमिमें  
उपजै है याकी पीडाकरि नहीं करने योग्य ऐसे पाप करै है यातैं यो काम मनकूँ मथन करै  
है मनका ज्ञानकूँ नष्ट करै है याहीतैं याकूँ मनमथ कहिये है । ज्ञान नष्ट हो जाय तदि ही स्त्री-  
निका महादुर्गंध निघ शरीरकूँ रागी हुआ सेवै है । अर कामकरि अंध हो जाय तदि महाअनीतिकूँ  
प्राप्त होय अपनी परकी नारीका विचार ही नहीं करै है । 'जो इस अन्यायतैं में इहां ही मारा  
जाऊ गा, राजाका तीव्रदण्ड होयगा, यश मलीन होयगा धर्म अष्ट होजाऊंगा, सत्यार्थबुद्धि नष्ट  
हो जायगी । मरणकरि नरकनिमें घोर दुःख असंख्यातकाल पर्यंत भोगि फिर असंख्यात तिर्यं-  
निके दुःखरूप अनेकभव पाय कुमानुषनिमें अंधा लूला कूवडा दरिद्री इन्द्रियविकल बहरा गूंगा  
चांडाल भील चमारनिके नीचकुलमें उपजि फिर त्रस-स्थावरनिमें अनन्तकाल परिभ्रमण करूंगा ।  
ऐसा सत्य विचार कामीके नहीं उपजै है । इस कामके नाम ही जगतके जीवनिकूँ प्रगट  
करै हैं । कं कहिये खोटा दर्प अर्थात् गर्व उपजावै तातैं कंदर्प कहिये है । अति कामना जो बांछा

उपजाय दुःखित करै तातैं याकूँ काम कहिये है । याकरि अनेक तिर्यचनिके तथा मनुष्यनि के भवनिमें लड़ि-लड़ि करिये तातैं मार कहिये हैं । संवरको वैरी तातैं संवरारि कहिये । ब्रह्म जो तप संयम तातैं सुवृत्ति कहिये चलायमान करै तातैं ब्रह्मसू कहिये इत्यादिक अनेक दोषनिकूँ नाम ही कहै हैं या जानि मनवचनकायतैं अनुरागकरि ब्रह्मचर्य व्रत पालो । ब्रह्मचर्यकरि सहित ही संमारके पार जावोगे ब्रह्मचर्य विना व्रत तप समस्त असार है ब्रह्मचर्य विना सकल कायकलेश निष्फल हैं । बाह्य जो स्पर्शनइन्द्रियका सुखतैं विरक्त होय, अभ्यन्तर परमात्मस्वरूप आत्मा ताकी उज्वलता देखहु जैसे अपना आत्मा कामके रागकरि मलीन नाहीं होय तसैं यत्न करो । ब्रह्मचर्यकरि ही दोऊ लोक भूषित होय है । बहुरि जो शीलकी रक्षा चाहो हो अर उज्ज्वल यश चाहो हो अर धर्म चाहो हो अर अपनी प्रतिष्ठा चाहो हो तो चित्तमें परमात्मकी शिक्षा इस प्रकार धारण करो स्त्रीनिकी कथा मति श्रवण करो, मति कहो स्त्रीनिका राग-रंग कुतूहल चेष्टा मति देखो, ये मेला देखना परिणाम बिगाड़ै है । व्यभिचारी पुरुषनिकी मङ्गलिका त्याग करना, भांग जरदा मादकवस्तु भक्षण नाहीं करना, तांबूल तथा पुष्पमाला अतर फुलेलादि शालभङ्ग व्रतभङ्गके कारण दूरतैं टालो गीतनृत्यादि कामोदीपनके कारणनिका परिहार करो, रात्रिभक्षण टालो, विकार करनेका कारण लोकविरुद्ध वस्त्र आभरण मति पहरो, एकांतमें कोऊ ही स्त्रीमात्र का संसर्ग मति करो रसनाइन्द्रिय की लम्पटता छाँड़ो जिह्वाकी लम्पटताकी लार हजारों दोष आवै हैं यातैं समस्त ऊंचापणो यश धर्म नष्ट हो जाय है जिह्वा इन्द्रियका लंपटीके सन्तोष नष्ट होजाय समभावकूँ स्वप्नमें हू नाहीं जानै किया वैरी होय है अर परलोकमें अतिनीच लोकव्यवहार भ्रष्ट होजाय ब्रह्मचर्य भङ्ग होजाय यातैं आत्माके हितका इच्छक एक ब्रह्मचर्यकी ही रक्षा करो । ऐसैं धर्मके दशलक्षण सर्वज्ञ भगवान् कहै हैं । जाके ये दस चिन्ह प्रगट होय ताके धर्म उत्तमन्नपादिकनिके घातक धर्मके वैरी क्रोधादिक हैं तिनतैं अनेक दोष उपजैं हैं तिनकी भावना करो अर क्षमादिकनिके अनेक गुण हैं तिनकी भावना बारम्बार सदैव भावो । जो क्षमा है सो अपना प्राणनिकी रक्षा है, धनकी रक्षा है, यशकी रक्षा है, धर्मकी रक्षा है व्रतशीलसंयमसत्यकी रक्षा एक क्षमाते ही है, कलहके घोरदुःखनें अपनी रक्षा एक क्षमा ही करै है, समस्त उपद्रव तथा वैरतैं क्षमा ही रक्षा करै है, बहुरि क्रोध है सो धर्म अर्थ काममोक्षका मूलतैं नाश करै है अपना प्राणनिका नाश करै है, क्रोधतैं प्रचण्ड रौद्रध्यान प्रगट होय है, क्रोधी एक क्षणमात्रमें आप मरि जाय है, कुवामें वावड़ीमें तालाव नदी समुद्रमें डूबि मरै है, शस्त्रघात विषभक्षण भंभापातादि अनेक कुकर्मकरि आत्मघात करै है । अन्यके मारनेकी क्रोधीके दया नाहीं होय सो अपने पिता कूँ पुत्रकूँ आताकूँ मित्रकूँ स्वामीकूँ सेवककूँ गुरुकूँ एक क्षणमात्रमें मारै है । क्रोधी घोर नरक का पात्र हैं, क्रोधी महा भयङ्कर हैं समस्तधर्मका नाश करनेवाला हैं । क्रोधीके सत्यवचन नाहीं होय हैं, आपकूँ अर धर्मकूँ अर समभावकूँ दग्ध करनेवाला कुवचनरूप अग्निकूँ उगलै हैं,

क्रोधी होय सो धर्मात्मा संयमी शीलवान मुनि अर श्रावकनिकू चोरी अन्यायके भूठे दोष कलङ्क लगाय दूषित करै हैं। क्रोधके प्रभातें ज्ञान कुज्ञान होय है, आचारण विपरीत हो जाय भ्रद्धान भ्रष्ट होजाय है, अन्यायमें प्रवृत्ति होजाय है, नीतिका नाश होय हैं, अति हठी होय विपरीत मार्गका प्रवर्तक होय हैं, धर्म अधर्म उपकार अपकारका विचाररहित कृतघ्नी होय है। यातैं वीतरागधर्मके अर्थी हो तो क्रोधभावकू कदाचित् प्राप्त मति होहू। बहुरि मार्दव जो कठोरता-रहित कोमल परिणामी जीव में गुरुनिका बड़ा अनुराग वतैं हैं मार्दव परिणामीकू साधुपुरुष हू साधु माने हैं, तातैं कठोरतारहित पुरुष ही ज्ञानका पात्र होय हैं, मानरहित कोमल परिणामीकू जैसा गुण ग्रहण कराया चाहैं तथा जैसी कला सिखाया चाहैं तैसी कला गुण प्राप्त हो जाय हैं, समस्त धर्मका मूल समस्त विद्याका मूल विनय है। विनयवान समस्तके प्रिय होय है अन्य गुण जामे नाहीं होय सो पुरुष हू विनयतैं मान्य होय है विनय परम आभूषण हैं। कोमल परिणामी में ही दया वैसे हैं मार्दवतैं स्वर्गलोककी अभ्युदय सम्पदा निर्वाणकी अविनाशीक सम्पदा प्राप्त होय है। अर कठोर परिणामीकू दूरहीतैं त्याग्या चाहैं हैं जैसैं पाषाणमें जल नाहीं प्रवेश करै तैसैं सद्गुरुनिका उद्देश कठोर पुरुषका हृदयमें प्रवेश नाहीं करै है जातैं जो पाषाण काष्ठादिक हू नरमाई लिए होय ताका तो बाल-बालमात्र हू जहां घड़या चाहैं छीलिया चाहैं तहां बालमात्र ही उतारि आवे तदि जैसी स्वरत मूरत बनाया चाहैं तैसैं ही बने है। अर कोमलतारहितमें जहां टांची लगावे तहां चिड़क उतरि दूरि पड़े शिल्पीका अभिप्राय माफिक घड़ाईमें नाहीं आवै तैसैं कठोर परिणामीकू यथायत् शिक्षा नाहीं लागै, अभिमानीका समस्त लोक विना किया वैरी होय हैं, पर-लोकमें अतिनीच तिर्यच अर मनुष्यनिमें असंख्यातकाल नाना तिरस्कारका पात्र होय है। यातैं कठोरता त्यागि मार्दवभावना ही निरन्तर धारण करो।

बहुरि कपट समस्त अनर्थनिका मूल है प्रीति अर प्रतीतिका नाश करनेवाला है, कपटी में असत्य छल निर्दयता विश्वासघातादि समस्त दोष वसैं हैं, कपटीमें गुण नाहीं समस्त दोष-हीं दोष वास करै हैं। मायाचारी यहां अपयशकू पाय तिर्यच नरकादिक गतिनिमें असंख्यात काल भ्रमण करै है। मायाचाररहित आर्जवधर्मका धारणमें समस्त गुण वसैं हैं समस्त लोकनिकू प्रीतिका अर प्रतीतिका कारण होय है परलोकमें देवनिकरि पूज्य इन्द्र प्रतीद्रादिक होय हैं यातैं सरलपरिणाम ही आत्माका हित है। बहुरि सत्यवादीमें समस्त गुण विष्टै हैं सदाकाल कपटादि-दोषरहित जगतमें मान्यताकू हू प्राप्त होय है अर परलोकमें अनेक देव-मनुष्यादिक जाकी आज्ञा मस्तक ऊपर धरैं हैं। अर असत्यवादी इहां ही अपवाद निन्दा करने योग्य होय है। समस्त के अप्रतीतिका कारण है बांधव-मित्रादिक हू अवज्ञा करि छांडै हैं राजानिकरि जिह्वाछेद सर्वस्व-हरणदिक दण्ड पावै हैं अर परलोकमें तिर्यचगतिमें वचन-रहित एकेन्द्रिय विकलत्रयादि असंख्यात पर्याय धारैं हैं यातैं सत्यधर्मका धारण ही श्रेष्ठ है।

बहुरि जाका शुचि आचरण होय सो ही जगतमें पूज्य है, शुचि नाम पवित्रता उज्ज्वलताका है जाकी आहार-ग्रहारादिक समस्त प्रवृत्ति हिंसारहित अर हिंसाका भय तैं यत्नाचारसहित होय अर अन्यके धनमें अन्यकी स्त्रीमें कदाचित् स्वप्नमें बांछा नाहीं होय सो ही उज्ज्वल आचरणको धारक है तिसकूँ ही जगत् पूज्य मानै है । निलो भीका समस्त लेक विश्वास करै है सो ही लोकमें उत्तम है उर्ध्वलोकका पात्र है, लोभरहितका बड़ा उज्ज्वल यश प्रगटै है । लोभी महामलीन समस्त दोषनिका पात्र है निंदकर्ममें लोभीकी प्रीति होय है लोभीके ग्राह्य-अग्राह्य खाद्य-अखाद्य कृत्य-अकृत्यका विचार ही नाहीं होय है, इहां हू लोकमें निन्दा धर्मतै पराड मुखता निर्दयता प्रकट देखिये है, लोभी धर्म अर्थ कामकूँ नष्टकरि कुमरणकरि दुर्गति जाय है लोभीका हृदयमें गुण अवकाश नाहीं पावै है इस लोकमें परलोकमें लोभीकूँ अचित्य क्लेश दुःख प्राप्त होय है यातैं शौचधर्मका धारण ही श्रेष्ठ है । बहुरि संयम ही आत्माका हित है इसलोकमें संयमका धारक समस्त लोकनिके वन्दनेयोग्य होय है, समस्त पापनिकरि नाहीं लिपै है याकी इसलोकमें परलोकमें अचित्यमहिमा है अर असंयमी है सो प्राणनिका घात अर विषयनिमें अनुरागकरि अशुभकर्मका बन्ध करै है यातैं संयम धर्म ही जीवका हित है । बहुरि तप है सो कर्मका संवर निर्जरा करनेका प्रधान कारण है, तप ही आत्माकूँ कर्ममलरहित करै, तपका प्रभावतैं यहां ही अनेक ऋद्धि प्रकट होय हैं, तपका अचित्यप्रभाव है, तप बिना कामकूँ निद्राकूँ कौन मारै, तप बिना बांछाकूँ कौन मारै ? इन्द्रियनिके विषयनिको मारनेमें तप ही समर्थ है, आशारूप पिशाचणी तपहीतैं मारी जाय है, कामका विजय तपहीतैं होय है तपका साधन करनेवाला परीपह उपसर्ग आवते हू रत्नत्रयधर्मतैं नाहीं छूटै यातैं तपधर्म ही धारण करना उचित है तपबिना संसारतैं छूटना नाहीं है, जातैं चक्रीपनाका हू राज्य छांडि तप धारै सो त्रैलोक्यमें वन्दनेयोग्य पूज्य होय है अर तपकूँ छांडि राज्य ग्रहण करै सो अतिनिंद्य थुथुकार करने योग्य होय, तृणतैं हू लघु होय । यातैं त्रैलोक्यमें तप-समान महान् अन्य नाहीं ।

बहुरि परिग्रहसमान भार नाहीं, जेते दुःख दुर्घ्यान क्लेश वैर वियोग शोक भय अपमान हैं ते समस्त परिग्रहके इच्छुककै हैं जैसे जैमें परिग्रहतैं परिणाम निराला होय तैसें तैसें खेदराहित होय है । जैमें बडा भारकरि दुःखित पुरुष भाररहित होय तदि सुखित होय, तैसें परिग्रहकी वासना मिटै सुखित होय है समस्त दुःख अर समस्त पापनिका उपजावनेका स्थान ये परिग्रह है । जैसे नदीनिकरि समुद्र वृत्त नाहीं होय अर ईधनकरि अग्नि वृत्त नाहीं होय है । आशारूप खाडा बडा अगाध है जाका तत्तस्पर्श नाहीं ज्यों ज्यों यामें धरो न्यों त्यों खाडा बढता जाय, जो आशारूप खाडा निधिनिर्तै नाहीं भरे सो अन्यसंपदातैं कैमें भरै । अर ज्यों ज्यों परिग्रहकी आशाका त्याग करो त्यों न्यों भगतो चल्वा जाय तातैं ममन्त दुःख दूरि कर्नेकूँ त्याग ही समर्थ है । परागर्हित अन्तर्गद बहिर्गद बंधनरहित अनन्तमुक्तके धारक होहूगे । परिग्रहके बंधनमें बंधे जीव

परिग्रह त्यागतै ही छूटि मुक्त होय तातै त्यागधर्म धारण ही श्रेष्ठ है । बहुरि हे आत्मन् ! यो देह अर स्त्री पुत्र धन धान्य राज्य ऐश्वर्यादिकनिमें एक परमाणुमात्र ह तुम्हारा नाहीं है, पुद्गलद्रव्य हैं, जड हैं, विनाशीक हैं, अचेतन हैं, इन परद्रव्यनिमें 'अहं' ऐसा संकल्प तीव्र दर्शन-मोहकर्मका उदय विना कौन करवै ? इस परद्रव्यमें आत्मसंकल्प मेरे कदाचित् मति होहू में अकिंचन हूं । या आकिंचन्यभावेना के प्रभावतै कर्मका लेपरहित यहा ही समस्त बंधरहित हुआ तिष्ठै है साक्षात् निर्वाणका कारण आकिंचन्यधर्म ही धारण करो ।

बहुरि कुशील महापाप है संसार-परिभ्रमणका बीज है ब्रह्मचर्यके पालनेवालेतै हिसादिक पापनिका प्रचार दूर भागै है समस्त गुणनिकी संपदा यामें वसै है जितेंद्रियता प्रकट होय है ब्रह्मचर्यतै कुल-जात्यादि भूषित होय है, परलोकमें अनेक ऋद्धिका धारक महद्दिक देव होय है । ऐसै भगवान अरहंत देवाधिदेवके मुखारविंदतै प्रगट हूआ दशलक्षण धर्म आत्माका स्वभाव है, पर वस्तु नाहीं है, क्रोधादिक कर्मजनित उपाधि दूर होतै स्वयमेव आत्माका स्वभाव प्रगट होय है, क्रोधके अभावतै क्षमागुण प्रगट होय, मानके अभावतै मार्दवगुण प्रगट होय है, मायाके अभावतै आर्जवगुण प्रगट होय है, लोभके अभावतै शौचधर्म प्रगट होय है, असत्यके अभावतै सत्यधर्म प्रगट होय है कर्षायनिके अभावतै संयमगुण प्रगट होय है, इच्छाके अभावतै तपगुण प्रगट होय है, परमें ममताके अभावतै त्यागधर्म प्रगट होय है परद्रव्यनितै भिन्न अपने आत्मानुभव होनेतै आकिंचन्यधर्म प्रगट होय है, वेदनिके अभावतै आत्मस्वरूपमें प्रवृत्तितै ब्रह्मचर्यधर्म प्रगट होय है । यो दश प्रकार धर्म आत्माका स्वभाव है यो धर्म किसीतै खोस्या खुसै नाहीं, लूटया लुटै नाहीं, चोर चोरि सकै नाहीं, राजाका लूट्या लुटै, नाहीं स्वदेशमें परदेशमें सदा याका स्वरूप छूटै नाहीं किसीका विगाड्या विगडै नाहीं, धनकरि मोल आवै नाहीं, आकाशमें पातालमें दिशामें पहाड़में, जलमें, तीर्थमें, मन्दिरमें कहीं धरया नाहीं, आत्माका निजस्वभाव है याका लाभ सम्यग्ज्ञान श्रद्धानतै होय है अर ऐसा सुगम है जो बालक वृद्ध युवा धनवान् निर्धन बलवान् निर्बल सहायसहित असहाय रोगी निरोगी समस्तके धारण करनेमें आवनेयोग्य स्वाधीन है धर्मके धारनेमें कुछ खेद क्लेश अपमान भय विषाद कलह शोक दुःख कदाचित् है नाहीं, दुर्लभ है नाहीं, बोझ उठावना नाहीं, दूरदेश जावना नाहीं, जुधा तृपा शीत उष्णताकी वेदनाका आवना नाहीं, किसीका विसम्वाद भगड़ा है नाहीं, अत्यन्त सुगम समस्त क्लेश दुःखरहित स्वाधीन आत्माका ही सत्यपरिणामन है । यातै समस्त संसार-परिभ्रमणतै छूटि अनन्तज्ञान दर्शन सुख धारक सिद्ध अवस्था याका फल है । ऐसै दशलक्षण धर्मको संक्षेप करि वर्णन कियो ।

अव शल्यनिका जाकै अभाव होय सो त्रती होय है शल्यसहितके त्रत कदाचित् नाहीं होय, यातै तीन शल्यका स्वरूप श्रावककू हू जाण्या चाहिये । निदानशल्य, मायाशल्य, मिथ्या-



दर्शनशल्य ये तीनों ही शल्य व्रतके घात करनेवाली हैं । तिन तीन शल्यमें निदान है सो तीन-प्रकार है एक प्रशस्तनिदान, अप्रशस्तनिदान, भोगार्थनिदान । ये तीनप्रकार ही निदान संसारका कारण हैं इहां निदान नाम आगामी वांछाका है, तिनमें जो संयम धारनेके अर्थि उत्तमकुल उत्तमसंहनन बलवीर्य शुभसंगति तथा बन्धुजननिकी धर्ममें सहायता उज्ज्वलबुद्धि आदिकूँ चाहना सो प्रशस्तनिदान है । बहुरि अभिमानके अर्थि उत्तमकुल जाति भली बुद्धि प्रबलशक्ति तथा आचार्यपना गणधरपना तीर्थकरपना इत्यादि अपनी आज्ञा तथा आदर उच्चता प्रवर्तनेके अर्थि चाह करना सो अप्रशस्तनिदान है तथा क्रोधी होय अन्यके मारनेके अर्थि वांछा करना परके स्त्री पुत्र राज्य ऐश्वर्यका नाशके अर्थि वांछा करना सो हूँ अप्रशस्तनिदान है । बहुरि जो संयम धारणकरि घोरतपश्चरणकरि ताका फल इन्द्रियनिका विषय राज्य ऐश्वर्य तथा देवपना तथा अनेक अप्सरानिका स्वामिपना तथा जातिकुलमें उच्चपना तथा चक्रीपना चाहना सो भोगके अर्थि निदान जानना । यो निदान दीर्घकाल संसारपरिभ्रमण करावनेवाला जानना । संयमका प्रभावकरि समस्त कर्मका नाशकरि अतीन्द्रिय अविनाशी निर्वाणका अनन्त सुख पाइये है । तिस संयमकूँ पालि भोगनिकी वांछा करै है सो एक कौड़ीमें चिन्तामणिरत्नकूँ बेचै है तथा अपनी रत्ननिकी भरी समुद्रमें दौड़ती नावकूँ ईंधनके अर्थि तोड़ै है तथा मणिमय हारकूँ सूतके अर्थि तोड़ै है तथा गोशीर जो चन्दन ताकूँ भस्मके अर्थि दग्ध करै है । जो वांछा करै है ताके पुण्य हूँ नष्ट होजाय, अरं पापका बन्ध होजाय है । पुण्यका बन्धतो निर्वाञ्छक भावतै होय है सम्यग्दृष्टी तो भोगनिकी वांछारहित है, सम्यग्दृष्टीकूँ तो इन्द्र-अहमिंद्रलोकका सुख है सो सुखाभास विनाशाक पराधीनताकरि दुःखरूप दीखै है वाकूँ तो आत्मीक स्वाधीन अतीन्द्रिय सुखका अनुभव है । यातै इन्द्रियजनित आतापतै महाक्लेशका भर्या तृष्णारूप आतापकूँ बधावता विषयनिके आधीनकूँ कैसेँ सुख मानै ? जैसेँ जो अमृत आस्वादन क्रिया सो कदुक महादुर्गंध आताप उपजावनेवाली कड़वी खलिकूँ कैसेँ वांछा करै ? सम्यग्दृष्टीकी तो ऐसी वांछा है—

दुःखस्वयकम्मस्वयसमाहिमरणं च बोहिलाहो य ।

एयं पत्थेदब्बं णपत्थनीयं तदो अरणं ॥१॥

अर्थ—हमारे शरीर धारणादिक जन्म मरण लुधा तृषादिक दुःखनिको क्षय होहु, आत्म-गुणकूँ नष्टकरनेवाला मोहनीय ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मको क्षय होहु तथा इस पर्यायमें च्यार आराधनाका धारणसहित समाधिमरण होहु, बोधि जो रत्नत्रय ताका लाभ होहु । सम्यग्दृष्टीके ऐसी ही प्रार्थना करने योग्य है । इनतै अन्य इस भवमें परभवमें प्रार्थना करने योग्य नहीं है । संसारमें परिभ्रमण करता जीव उच्चकुल नीचकुल राज्य ऐश्वर्य धनाढ्यता निर्धनता दीनता रोगी पना नीरोगपना रूपवानपना धिरूपपना बलवानपना निर्वलपना परिहृतपना मूर्खपना स्वामीपना

सेवकपना राजापना रङ्गपना गुणवानपना निर्गुणपना अनन्तानन्त बार पाया है अर छांडया है तातैं इस बलेशरूप संयोग-वियोगरूप संसारमें सम्यग्दृष्टि निदान कैसे करै ? इस संसारमें अनन्त पर्याय दुःखरूप पावे तदि एक पर्याय इन्द्रियजनित सुखकी पावे फिर अनन्तवार दुःखकी पावै सो ऐसे परिवर्तन करते इन्द्र-जनित सुख ह अनन्तवार पाया ।

अब सम्यग्दृष्टी इन्द्रियनिके सुखकी कैसे बांछा करै ? इस संसारमें स्वयंभूरमणसमुद्रका समस्त जलप्रमाण तो दुःख हैं अर एक बालकी अणीके जल लागै ताका अनन्तभाग करिये तिनमें एक भाग प्रमाण इन्द्रियजनित सुख हैं इसतैं कैसे तृप्ति होयगी ? अर भोगनिका त्याग तथा इष्ट सम्पदाका संयोगका जेता सुख हैं तिसतैं अमंख्यातगुणा वियोगकालमें दुःख है । अर संयोग होय ताका वियोग नियमसं होयगा जैसे शहदकरि लिप्त खड्गकी धाराकूं जो जिह्वाकरि चाटै ताके स्पर्शमात्र मिष्टताका सुख अर जिह्वा कटि पड़े ताका महादुःख, तैमें विषयनिके संयोगका सुख जानो । तथा जैसे कृपाकफल दीखनेमें सुन्दर खावनेमें मिष्ट हैं पीछैं प्राणनिका नाश करै है तथा जहरतैं मिल्या मोदक खातां तो मीठा परिपाक कालमें प्राणनिका महादुःखतैं नाश करनेवाला हैं तैसें भोग-जनित सुख जानहु । बहुरि जैसे कोऊ पुरुष कने बहुत धन होय अल्पमोल लीया चाहै तो बहुत धनके साटै थोरा धन मिल जाय अर आप कने अल्प धन होय अर वाका मोल बहुत चाहै तो नाही मिलै । तैसें जो स्वर्गकी सम्पदा पावनेयोग्य पुण्यबन्ध किया होय अर पीछैं निदान करनेतैं अपना अधिक पुण्य होय ताकूं घाति तुच्छ सम्पदा जाय पावै हैं पाछैं संसारपरि-भ्रमण याका फल हैं । जैसे सूतकी लंबी डोरीकरि बंधा पत्नी दूर उड़ि गया ह उसी स्थानकूं प्राप्त होय हैं जातैं दूर उड़ि चल्या तो कहा पग तो सूत की डोरीतैं बांधा हैं, जाय नाही सकेगा । तैसें निदान करनेवाला अति दूर स्वर्गादिकमें महर्दिकदेव हुआ ह संसार ही में परिभ्रमण करेगा देवलोक जाय करके ह निदानके प्रभावतैं एकेंद्रिय तिर्यचनि में तथा पंचेन्द्रियतिर्यचनिमें तथा मनुष्यमें आय पापसंचय करि दीर्घकाल परिभ्रमण करै है । अथवा जैसे ऋणसहित पुरुष करार करि बन्दीगृहतैं छूटकरि अपने घरमें सुखसं आय बस्या तो ह करार पूर्ण भये फिर बन्दीगृहमें जाय बसै तैसें निदानकरि सहित पुरुष ह तप संयमतैं पुण्य उपजाय स्वर्गलोक जाय करके ह आयु पूर्ण भये स्वर्गतैं चय संसारहीमें परिभ्रमण करै है । यहां ऐसा जानना जो मुनिर्पनामें वा श्रावक-पनामें मन्द-ऋषायके प्रभावतैं वा तपश्चरणके प्रभावतैं अहमिन्द्रनिमें तथा स्वर्गमें उपजनेका पुण्यसंचय किया होय अर पाछैं भोगनिकी बांछादिकरूप निदान करै तो भवनत्रिकादिक अशुभदेवनिमें जाय उपजै अर जाके पुण्य अधिक होय अर अल्प पुण्यका फलके योग्य निदान करै तो अल्प पुण्यवाला देव मनुष्य जाय उपजै, अधिक पुण्यवाला देव मनुष्यनिमें नाही उपजै । जो निर्वाणका तथा स्वर्गादिक-निके सुखका देनेवाला मुनि श्रावकका उत्तमधर्म धारणकरि निदानतैं विगाड़ै है सो ई धनके अर्थ कल्पवृक्षकूं छेद है । ऐसें निदानशल्यका दोष वर्णन किया ।

अब मायाशून्यका दोष कौन वर्णन करि सके । पूर्व मायाचारके दोष कहे ही है, मायाचारीका व्रत शील संयम समस्त भ्रष्ट है जो भगवान् जिनेन्द्रका प्रख्यात धर्म धारण करो अरु आत्माक' दुर्गतिके द्रव्यें रचा करी चाहो हो तो कोटि उपदेशनिका सार एक उपदेश यह है जो मायाशून्यक' हृदयमेंसे निकाम हो, यश अरु धर्म दोऊनिका नाश करनेवाला मायाचार न्याग सरलता अज्ञाकार करो । बहुरि मिथ्यात्वका पूर्व वर्णन किया सो समस्त संसारपरिभ्रमणका बीज है मिथ्यात्वके प्रभावत' अनन्तानन्त परिचर्तन किया मिथ्यात्वविपक्क' उगल्यां विना सत्यधर्म प्रवेश ही नहीं करै, मिथ्यात्वशून्य शीघ्र ही त्यागो । माया मिथ्या निदान इन तीन शून्यका अभाव हुआ विना मुनिका श्रावकका धर्म कदाचित् नहीं होय, निःशून्य ही व्रतो होय है । बहुरि दृष्ट मनुष्यनिका संगम मति करो, जिनकी संगतितें पापमें ग्लानि जाती रहै पापमें प्रवृत्ति होय तिनका प्रसंग कदाचित् मति करो, जुआरी चोर छली परस्त्री-लंपट जिह्वा-इन्द्रियका लोलुपी, कुलके आचारतैं भ्रष्ट विश्वासवाती मित्रद्रोही गुरुद्रोही धर्मद्रोही अपयशके भयरहित निर्लज्ज पापक्रियामें निपुण व्यसनी असत्यवादी असन्तोषी अतिलोभी अतिनिर्दयी कर्कशपरिणामी कलहप्रिय विसंवादी वा कुचाल प्रचण्ड परिणामी अतिक्रोधी परलोकका अभास कहनेवाला नास्तिक पापके भयरहित तीव्र मूर्च्छाका धारक अभव्यका भक्तक वेश्यासक्त मद्यपायी नीचकर्मि इत्यादिकनिकी संगति मति करो । जो श्रावकधर्मकी रचा किया चाहो हो, जो अपना हित चाहो हो तो अग्निसमान विपससान कुसंग जानि दूरतैं ही छांडो । जातैं जैसाका संसर्ग करोगे तिममें ही प्रीति होयगी, अरु प्रीति जामें होय ताका विश्वास होय, विश्वास्तैं तन्मयता होय है तातैं जैसी संगति करोगे तैसा हो जावोगे जातैं अचेतन मृत्तिका हू संसर्गतैं सुगन्ध दुर्गन्ध होय है तो चेतन मनुष्य संगतिकरि परके गुणरूप कैसैं नहीं परिणमैगा । जो जैसेकी मित्रता करै है सो तैसा ही होय है दुर्जनकी संगतिकरि सज्जन हू अपनी सज्जनता छांडि दुजन हो जाय है जैसे शीतल हू जल अग्निकी संगतितैं अपना शीतल-स्वभाव छांडि तप्तपनेनें प्राप्त होय है । उत्तमपुरुष हू अधमकी संगति पाय अधमताकू प्राप्त होय है जैसे देवताके मस्तक चढनेवाली सुगंध पुष्पनिकी माला हू मृतकका हृदयका संसर्गकरि स्पर्शने-योग्य नहीं रहै है दृष्टकी संगतितैं त्यागी संयमी पुरुष हू दोषसहित शंका करिये है जैसे कलालका हस्तमें दुग्धका घडा हू मदिराकी शंका उपजावै है तथा कलालका घरमें दुग्धपान करता हू ब्राह्मण लोकनिकै मदिरा पीवनेकी शंका उपजावै है लोक तो परके छिद्र देखनेवाले हैं परके दोष कहनेमें आमक्त हैं, जो तुम दृष्टनिकी दुराचारीनिकी संगति करोगे तो तुम लोकनिदानें प्राप्त होय धर्मका अपवाद करावोगे तातैं कुसंग मति करो । खोटे मनुष्यकी संगतितैं निर्दोष हू दोष-सहित मिथ्यामार्गी शीघ्र होय है जातैं मिथ्यात्वका अरु कषायनिका परिचय तो अनादिकालका है अरु वीतरागभाव कदाचित् कोई महाकष्टतैं उपज्या सो कुसङ्ग पाय चणमात्रमें जाता रहैगा

अनादिकालका मोहकर्म बड़ा प्रबल है । याका उदयतैं विषय-कषायनिमें विना सिखाया स्वयमेव प्रवतैं है, फिर कुसंगतितैं तो पवनकी सङ्गतितैं अग्निका ज्यों अति प्रज्वलित होय है यातैं कुसंग छांडि शुभ सङ्गति करो, सञ्जनिकी सङ्गतितैं दुष्ट हू अपना दोषकूं छांडै हैं । बहुरि सत्संगतितैं निर्गुण पुरुष हू जगतकै मान्य होय है जैसे निर्गंध हू पुष्प देवतानिका संगतितैं लोक मस्तकविषैं चढावैं हैं । यद्यपि कोऊकै धर्ममें प्रीति नाहीं है अर परीपह सहनेमें अर इन्द्रियनिके विषय त्यागनेमें अतिपराड् मुखपना है तोह संयमी त्यागी ब्रती पुरुषनिकी संगति रहनेके प्रभावतैं लज्जाकरि भयकरि अभिमानकरि अन्यायके विषय-कषायतैं विरक्त होय ही है, अर जो प्रकृतिकरि ही मन्दकषायी धर्मानुरागी पापतैं भयभीत होय अर ताकूं उत्तमसंगति मिलै ताकैं परमधर्मका ग्रहण होय संसारके पारकूं पावै ही है । बहुरि जिनतैं सम्यक् धर्मकी प्रवृत्ति होय जिनकी संगतितैं अनेक जन विषय-कषायतैं विरक्त होय त्याग संयम तपमें लीन हो जांय ऐसा न्यायमार्गी धर्मचर्याका धारक धर्मात्मा एक पुरुषकरि ही जगत भूपित है कृतार्थ है । धर्मरहित विषयी कषायी बहुतकरि कहा साध्य है ? कल्पवृत्त तो एक ही समस्त वेदना-रहित करि वांछित सुख दे है अर विषके बहुत वृत्त केवल मूच्छा सन्ताप मरणके कारण करि कहा साध्य है ? इसलोकमें जो अनर्थ पैदा होय सो कुसंगतैं होय है, कुसंग विना ज्वारी चोर परस्त्रीलम्पट वेश्यासक्त अभच्यभक्षक मद्यपायी नाहीं होय, बड़े-बड़े अनर्थ दोष कुसङ्गतैं ही होय हैं यातैं दोऊ लोकमें अपना हित चाहो हो तो कुसङ्ग मति करो । प्रत्यक्ष देखिये है जे उत्तम कुल उत्तम उज्ज्वलधर्म पाया है फिर हू कुदेव कुगुरु कुधर्म पाखण्डीनिकी उपासना करैं हैं, भांग पीवैं हैं जरदा खाय हैं बहुरि हुक्का पीवैं हैं, रात्रिभक्षण करे हैं वेश्याकी ठच्छिट खाय है जुग्रा खेले हैं, चोरी करैं हैं, चुगली करैं हैं परधन परस्त्रीकी ओर तृष्णा करे हैं, जिह्वाइन्द्रियके लोलुगी हैं निर्दय परिणामी कुवचन बोलनेमें रक्त, परविध्न-सन्तोषी सत्सङ्गति विना कुसङ्गतैं ही होय है । महा पुण्याधिकारी मनुष्य होय है सो इस विषम कलिकालमें कुसङ्ग छांडि शुभ सङ्गति पावै है । अर जो जिनेंद्रधर्म धारण किया हैं तो अपनी प्रशंसा अर परकी निन्दा मति करो । जो अपने मुखतैं अपनी प्रशंसा करैं हैं सो अपने यशका नाश करैं हैं, अभिमानी, मदवान विना अपनी प्रशंसा अन्य नाहीं करैं है, अपनी प्रशंसा करता पुरुष तृण-समान लघु होय है अवज्ञा-योग्य होय है, विद्यमान हू गुण अपने मुखतैं कहि गुणरहित होय दोषनिका पात्र होय है नामें और कछू हू दोष नाहीं होय ताकै बड़ा भारी दोष आपकी प्रशंसा करना है । अपने मुखतैं अपना प्रशंसा नाहीं करना सो बड़ा गुण है अपना गुणकी प्रशंसा नाहीं करता पुरुषका विद्यमान गुण नाशकूं नाहीं प्राप्त होय हैं जैसे अपना तेजकी नाहीं प्रशंसा करता सूर्यका तेज जगतमें विख्यात होय है । आपमें गुण नाहीं अर आपकी प्रशंसा करता पुरुषकै गुण वानपना प्रगट नाहीं होय है जैसे स्त्रीको ज्यों हाभभाव विलासविभ्रम शृङ्गार अञ्जन वस्त्रादिक धारण कर स्त्रीकी ज्यों आचरण करता नपुंसक स्त्री नाहीं होयगा, नपुंसक ही रहैगा । आपमें

गुण विद्यमान हू होय अर कोऊ कीर्तन करै प्रशंसा करै तदि उत्तम पुरुष तो अपनी कीर्ति श्रवण-करि लोकनिमें लज्जाकूँ प्राप्त होय है, सत्पुरुषनिक्कूँ अपनी कीर्ति नहीं रुचै है । अपनी कीर्ति श्रवणकरि अतिलज्जित हुवा आत्मनिंदा करै है जो मैं संसारी अनेक दोषनिकरि भर्या मेरी प्रशंसाकरि लोक मेरे ऊपरि बड़ा भार आरोपण करै हैं प्रशंसायोग्य तो वे हैं जे आत्माको परम-विशुद्धताके इच्छुक होय मोह काम क्रोधादिकका विजयकूँ प्राप्त भये हैं, हम संसारी रागद्वेषकरि व्याप्त इन्द्रियनिके विषयनिकरि तर्जित, परिग्रहासक्त अतिनिंदने योग्य हैं, जिनके एक घड़ी हू प्रमादीपनातैं धर्मरहित व्यतीत होय हैं ते जगतमें महामूढ हैं, निंघ हैं । यो मनुष्यजन्म अतिदुर्लभ, अर जामें जिनधर्मका पावना अतिदुर्लभतर । ऐसे अवसरमें भी जे धर्म छांडि विषयनिमें रचै है ते अपने गृहमें उपज्या कल्पवृक्षकूँ काटि विषका वृक्ष लगावै हैं तथा चिंतामणिरत्नकूँ काक उडावनेकूँ चेपै है तथा चिन्तामणिरत्नकूँ कांचका खण्डमें बेचै है । इस मनुष्यजन्मकी एक एक घड़ी कोटि धनमें दुर्लभ सो वृथा जाय है लोकनिकी कथामें तथा लोकनिकी रागद्वेषपरिणति देखि में हू कषायसहित हुवा दुर्ध्यानतैं मनुष्यजन्म व्यतीत करूं हूं सो मुक्त-समान निन्दने योग्य अन्य नहीं इत्यादिक अपनी निंदा गर्हा करता उत्तम पुरुषकूँ अपनी प्रशंसा कैसें रुचै, नहीं रुचै, आपकूँ नीचा देखै है । जो वचनकरि अपनी प्रशंसा करै सो नीचगोत्र नामा कर्मका बन्ध करै है अर इहां लोकनिमें महानिंघ होय है । सत्पुरुष अपने गुण आप प्रगट नहीं करै तो हू उज्ज्वल आचरणकरि जगतमें गुण विख्यात होय हैं जैसें चन्द्रमाका उद्योत अर शीतलपना अर आल्हादक-पना बिना कस्या जगतमें विख्यात होय है ।

बहुरि परकी निंदा कदाचित् मति करो, परकी निंदा करनेसमान जगामें दोष नहीं है । परकी निंदा महावैरका कारण है दुर्ध्यानका कारण है कलहका कारण है भयका कारण है दुःखका तथा पश्चात्तापका तथा शोकका तथा विसंवादका तथा अप्रतीतिका कारण है जगतमें निंदा होय है परकी निंदा करनेवाला अपना धर्म अर यश अर बडापनाका अत्यन्त नाश करै है जे परके दोष प्रगट करि आप निर्दोष बर्या चाहै हैं सो परकूँ औषधि भक्षण करनेतैं अपना नीरोगपना चाहै हैं । कोटि दोषनिका शिरोमणि एक अन्यकी निंदा करना है यातैं जो जिनेंद्रका धर्म धारण करो हो तो परके दोष मति कहो सत्पुरुष तो परके दोष देखि आप लज्जित होय है अर परका दोषकूँ अपनां सामर्थ्य प्रमाण ठाकै है, जैसें अपना अपवादका भय करै तैसें परके अपवाद होनेका बड़ा भय करै है जो संसारी जीवनिके ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मका उदय प्रवृत्त है जाकरि जीव अज्ञानकूँ प्राप्त होय रहे हैं अर मोहनीयकर्मके उदयतैं रागी दोषा कामी क्रोधी लोभी मानी कपटी होय रहे हैं भयवान शोकवान ग्लानिवान रतिके वश अरतिके वशीभूत होय नाना विकाररूप कुचेष्टा करै हैं जैसें मदिरा पीय परवश हो आपा भूलै है तथा धतूरा खाय उन्मत्त चेष्टा करता परवश हुवा

आपा-भूलि निग्रचेष्टा करै है तथा जैसे वातपित्तकरि उन्मत्त भया परवश बकवाद करै है तैसे संसारी जीव विषय कषायके वश होय निग्र चेष्टा करै है । इनकी तो करुणा धारि दोषनिर्ते छुड़ाऊं निन्दा अपवाद कैसे करूं, परका अपवादकरि अनेक निग्र पर्याय दुर्गतिनिमें तिरस्कार पाया है । सम्यग्दृष्टी तो नित्य ही ऐसी प्रार्थना करै है जो मेरे परके दोष कहनेमें मौन होहू. मेरा समस्त जीवनि प्रति गुणरूप वचन ही प्रवर्तो, जिनधर्मी तो गुणग्राही ही होय है मिथ्यादृष्टीनिके तीव्र कषायीनिके मिथ्या आचरण देखि वैर-बुद्धि करि निन्दा नहीं करै है, जो याका अपवाद होय तो अच्छा है ऐसा अभिप्राय नहीं धारै है, दोषनिकूँ मिथ्यात्वकूँ अनंतकाल दुःखनिका देनेवाला जानि करुणाबुद्धितै मन्दकषायी जीवनिकूँ गुण-दोष, हानि-बुद्धिका स्वरूप दिखावै है ।

बहुरि निद्रा आलस्य प्रमादका विजय करो । निद्रा समस्त धर्मका अभाव करै है, जाकेँ निद्राका विजय नहीं हुवा ताकेँ छह आवश्यक स्वाध्याय ध्यान जाप्य समस्त उत्तम कार्य नष्ट हो जाय हैं । मुनीश्वरनिके तो तप ही निद्राका विजयके अर्थि है । निद्रा है सो दर्शनावरणका उदयजनित सर्वघाती है, आत्माकूँ अचेतन करै है, जो निद्राकूँ नहीं जीती ताकेँ समस्त हितरूप कार्य नष्ट हो जायगा । शास्त्र-पठन करैगा अथवा जिन-सूत्रका श्रवण करैगा अर निद्रा ऊँघ आजायगी तदि श्रवण करना नहीं होयगा, जिनसूत्रके श्रवण-पठनमें अरुचि होजायगी, ध्यान-सामायिक करते निद्रा आजायगी तदि ध्यान जाप्य सामायिक आत्मध्यान भावना समस्त नष्ट हो जायगी । निद्रामें एकेन्द्रीसमान होय है समस्त-ज्ञानकूँ निद्रा नष्ट करि देय है, अबुद्धिपूर्वक अनेक विकल्प आत्मामें उपजै हैं बुद्धिपूर्वक आत्माका हित होनेकी भावनाका अभाव होय है । दिवसमें निद्रातै दर्शनावरणकर्मका आस्रव होय है । मुनीश्वर तो प्रहर रात्रि गये पाछै खेद प्रमादादि दूर करनेकूँ मध्यमरात्रिके दोय प्रहरमें शयन करै, सो अल्प निद्रा लेय फिर जाग्रत हुआ द्वादश-भावनादिका चिन्तवन करै है फिर क्षणमात्र निद्रा आवै फिर जाग्रत होय धर्मध्यान करता रहै हैं । अर जो कदाचित् सुहृत्प्रमाण भी निद्रामें अचेत होजाय तो निद्राके जीतनेके अर्थि उपवास दोय-उपवास तीन चार पाँच इत्यादिक उपवास तथा रसपरित्यागादिक महान् अनशनादिक तपकरि निद्राका अभाव करै हैं । निद्राके जीतनेकूँ अर कामके जीतनेकी सावधानीके अर्थि अनशनादि तप निरन्तर आचरै हैं । निद्रामें तो समस्त परिणामनिकी सावधानीको अर वचन कायकी सावधानी को अभाव होय है । जाकूँ उत्तम मनुष्यजन्म अर उत्तमधर्मका नाशकरि एकेन्द्रीसमान होय मनुष्यआयुकूँ पूर्ण करना होय तो बहुत निद्रा ले है । दिवसमें निद्रा ले ताका तो व्रत संयम ही गलि जाय है, खेद आलस्यादिक दूर करनेकूँ रात्रिविषै अल्पनिद्रा ग्रहण करै हैं, निद्रा आलस्यादिक तो जीवका अंतर्गत महावैरी है निद्रामें हेय उपादेय, कार्य-अकार्य, हित-अहित, योग्य अयोग्यका विचार-रहित होय है, निद्रा जीते विना इस लोकहीके समस्त कार्य नष्ट हो जाय तदि

परमार्थरूप कार्य कैसें बनें । यातें जो विद्या विनय तप संयम स्वाध्याय ध्यान जाप्यकी सिद्धि चाहो हो तो निद्राकूं जीति खेद ग्लानिके दूर करनेकूं अल्पनिद्रा ग्रहण करो ।

अब अष्ट शुद्धिका वर्णन करें हैं । यद्यपि ये अष्ट शुद्धि तो मुनीश्वर परमवीतरागी साधुनिके होय हैं तथापि साधुपना धारण करनेका वांछक अर साधुका धर्ममें भावना भावनेका इच्छुक जो गृहस्थ ताकूं अष्टशुद्धि जाननेयोग्य हैं । भावशुद्धि, कायशुद्धि, विनयशुद्धि, ईर्याशुद्धि, भिन्नाशुद्धि, प्रतिष्ठानाशुद्धि, शयनासनशुद्धि वाक्यशुद्धि ये अष्टप्रकार शुद्धि हैं तिनमें मोहनीयकर्मका क्षयोपशमतें उपजी जो मोक्षमार्गमें रुचि ताकरि परिणामनिमें ऐसी उज्ज्वलता होय जो रत्नत्रय ही मार्ग है, अन्य है सो संसारमें उल्लासनेवाला कुमार्ग है, आत्माका हित मोक्ष है सो मोक्ष कर्मके बन्धन-रहित है अर कर्मबन्धनका छूटना रत्नत्रयतें ही है ऐसा दृढ़ श्रद्धान-ज्ञानतें उपजी संसारदेहभोगनिमें विरागतरूप समस्तरागद्वेषादि मलरहित उज्ज्वलता सो भावशुद्धि है । जातें भावनिमेंतें विषयनिकी इच्छा रागद्वेषादि उपद्रव, मिथ्यात्वरूप महामल दूरे हुआ विना मुनिका आचार तथा श्रावकका आचार प्रकाशकूं प्राप्त नाहीं होय है । जैसें अतिशुद्ध भीति ऊपरि चित्राम उघड़े है कर्दमादिकरि लिप्त भूमि ऊपरि अतिचतुर हू चित्रकार सुन्दर रंगावली नाहीं कर सकै है तैसें मिथ्यात्व कषायादिकरि लिप्त पुरुषके हू सम्यग्ज्ञान चारित्र नाहीं होय है । ऐसें भावशुद्धता कही ।

साधुनिके कायशुद्धि कैसें होय सो कहिए है । जाते आवरण जो सूतके रेशमके सणके घासके रोमके चामके वृत्तनिके बल्कलके वस्त्रादिक आच्छादन तथा भस्मादिक लगावनेकरि रहित हैं, वहुरि समस्त आभरणादिकरहित अर स्नानगंधलेपनादि संस्काररहित जैसें रेत धूलि पसेव तृणादि शरीर उपरि आय चिपकै तिनका संस्काररहित अर नासिका नेत्र ललाट ओष्ठ भृकुटि मस्तकस्कंध हस्त अंगुली इत्यादिकनिका हलावनेके विकाररहित अर सर्वत्र क्रियामें यत्नाचारसहित प्रशममुख की मूर्तिकूं दिखावै ही है कहा मानूं ऐसा कायकूं होते संते आपके परतें भय नाहीं होय है अर परके आपतें भय नाहीं होय है ऐसी कायकी विशुद्धिता साधुनिके ही होय है । अर श्रावक हू एक-देश शुद्धताका धारक जे वस्त्राभरण पहरे हैं ते ऐसे पहरे जिनकरि आपके तथा परके काम नाहीं उपजै, अभिमान नाहीं उपजै, भय नाहीं उपजै । लोकनिके मान्य अपना पदस्थके योग्य तथा अवस्थाके योग्य पहरणा तथा अंगकी चेष्टा नेत्रनिकरि अवलोकन वचनका कहना, बैठना, सोवना, चलना, रागादि, अभिमानादि दोपरहित प्रवर्तन करना सो कायशुद्धि होय है ।

अब विनयशुद्धिता ऐसी जानो अरहंतादिक परमगुरुनिकी यथायोग्य पूजामें लीनता अर सम्यग्ज्ञानादिकमें यथाविधि भक्तिकरि युक्त रहना, अर सर्वकाल गुरुनिके अनुकूल प्रवर्तना, अर प्रश्न करनेमें, स्वाध्यायमें, वाचनामें, कथनीमें, चीनती करनेमें निपुणपना तथा देशकालभावनिकूं जानि निपुणताकरि आचार्यादिकनिके अनुकूल प्रवर्तना आचरण करना सो विनयशुद्धता है

विनय है सोही समस्त चारित्र संपदाको मूल है, विनय ही पुरुषका आभूषण है, विनय ही संसार-समुद्र तिरनेकूँ नाव है याहीतैँ गृहस्थ है सो मनकरि, वचनकरि, कायकरि प्रत्यक्ष परोक्ष विनय-हीकूँ धारण करो सो आगैँ तपके कथनमें हू वर्णन करसी ।

अब साधुनिके ईर्यापथशुद्धता ऐसी जानहूँ नानाप्रकारके जीवनिके स्थान अर जीवनिके उत्पत्तिरूप योनि अर जे जे जीवनिके रहनेके आश्रय तिनके जाननेकरि उपज्या यत्नाचार तातें जीवाँके पीडाकूँ दूरहीतैँ त्यागके गमन करैँ हैं बहुरि अपना ज्ञान अर सूर्यका प्रकाशकरि नेत्रादिक हन्द्रियनिका प्रकाश करि देखा हुवा मार्गमें गमन करैँ हैं अर मार्गमें उतावला शीघ्र गमन अर विलंब करता गमन अर संभ्रमकरि गमन विस्मयरूप आश्चर्यसहित गमन अर क्रीडा करता गमन अर शरीरकूँ विकारसहित करता गमन अर दिशानिकूँ अवलोकन करता गमन, यह गमनके दोष हैं इन दोषनिकरि रहित चार हस्तप्रमाण भूमिको अग्रभागविषैँ देख अनेक मनुष्य गाडा गाडी बलद गर्दमादिक अनेक जिस मार्गकरि गमन किया होय अर प्रातःकालकी पवन मार्गकूँ स्पर्शन कीया होय तथा सूर्यकी किरणनिका संचार जिस मार्गमें भया होय तिस मार्गमें दिवसविषैँ गमन करे तिस साधुके ईर्यासमिति होय है । ईर्यासमितिकूँ होते संते ही संयम प्रतिष्ठित होय है जैसे सुनीति होते ही विभव होय है । अर याहोका एकदेश धर्म अंगीकार करता गृहस्थकूँ -हू ईर्यापथ की शुद्धतारूप गमन करनेकी भावना राखणा अर अपनी शक्तिप्रमाण मार्गमें कीडा-क्रीडी हरित अंकुर घास दूब कर्दम नील इत्यादिकूँ टालि दया-परिणामतैँ गमन करना उचित है । अर देखि शोधकरि गमन करना गृहस्थकैँ हू खाडामें पडनेकी ठोकर लागनेकी सर्पादिक दुष्टजीवनिकी बाधा नाहीं होय है जिनेद्रकी आज्ञाका पालन होय है ।

अब मुनीश्वरनिके भिन्नाशुद्धता वर्णन करैँ हैं—साधु जब वनतें भिन्ना वास्तैँ नगर ग्रामा-दिकमें जाय तदि देशकी रीतितैँ कालकूँ जानि अर नगर-ग्रामादिककूँ उपद्रवरहित जानिकरि जाय है । जो अग्निका उपद्रव तथा परचक्रका उपद्रव तथा राजादि महंत पुरुषनिके मरणाका उपद्रव होय तथा धर्ममें उपद्रव जानैँ तो भिन्नाकूँ नाहीं जाय है । तथा महान हिंसा होती जानैँ तो नाहीं जाय जिसकालमें चाकीनिका मूमलनिका बहुत शब्द होते मंद रहि जाय तथा अनेक भेषधारी भिन्ना लेय आवते होय तिस कालमें मल सूत्रकी बाधा होय तो बाधा मेटि पाछैँ पीछैँतैँ अपना अंगका आगला पीछला भागकूँ शोध करि कमंडलु पीछी लेय करके गमन करैँ । मार्गमें अतिशीघ्र गमन नाहीं करैँ है, विलम्ब करते गमन नाहीं करैँ किसीसूँ मार्गमें वचनालाप नाहीं करैँ, मार्गमें वनकी भूमिकी नगर ग्रामादिककी शोभा नाहीं देखैँ, जहां कलह विसंवाद कौतुक नृत्य गीतादिक होम तिनकूँ दूर छांडि गमन करैँ मार्गमें दुष्टतिर्यंच दुष्टमनुष्य उन्मत्तमनुष्य तथा स्त्री तथा पत्र फल कर्दमादिक जिस भूमिमें होय ताकूँ दूरहीतैँ छांडि गमन करैँ है ।

आचारांगसूत्रमें कहा देशकाल ताके जाननेमें निपुण अर मार्गमें गमन करता दातारका



चितवन नहीं करै जो मोकूँ कौन दोतार भोजन देगा तथा मोकूँ शीघ्र भोजन मिलै तो अच्छा है तथा मिष्ट भोजनका लाभ वा लवणादिकका लाभ तथा उष्णभोजन शीतभोजन स्वादिष्ट वेस्वाद इत्यादिक भोजनका विकल्प नहीं करै, अन्तरायकर्मके क्षयोपशमके आधीन लाभ-अलाभकूँ जानि, भोजनका लाभमें अलाभमें, मानमें अपमानमें मनकी वृत्तिकूँ समान करता, धर्मध्यानरूप चितवन करता, चार आराधनाका शरणसहित जुधातृषादिक वेदनाका चितवन नहीं करता भिक्षाके अर्थ गमन करै हैं, लोकाभिन्न कुलमें गमन नहीं करै है तथा ऐसे उत्तमकुलके गृहनिमें हू प्रवेश नहीं करै है जहां दानशाला होय, जहां विवाहादिक होय मृतक का स्रतक होय, गान-गीत होरहे हों, नृत्यके वादित्र ब्रजनेका समाज होरखा होय, रुदन होरखा होय, अनेक भिक्षाके अर्थ भेले होरहे हों, कलह विसंवाद धू तक्कीडादि होरहे हों, क्वाड़ जुड़े हों, जावतेकूँ कोऊ मनै करता होय, घोड़ा हाथी ऊंट बलध इत्यादि मार्गमें खड़े हों वा बंधि रहे हों तथा अनेक मनुष्यनिका संघट्ट होरखा होय तथा सकड़े मार्गमें बहुत लोकनिका सकड़ाईतें आवना जावना होय तथा नाभितें अधिक नीचे द्वार करि जाना होय अर गोडेनितें ऊंची भूमिका उल्लंघन होय ऐसैं गृहनिमें तो साधु भोजनके अर्थ प्रवेशहू नहीं करै है, चन्द्रमाकी चांदनी ज्यों धनाढ्य निर्धनादि समस्त गृहनिमें जाय हैं दीन अनाथ निध कर्मकरि जीविका करने वाले इत्यादि अयोग्य गृहनिकूँ छांडि भिक्षा के अर्थ गृहनिमें जहां ताई अन्य भिक्षुनिका तथा हरेक जनके आवनेका आड नहीं तहां ताई जाय आशीर्वादादिक धर्मलाभादिक मुखतैं कहैं नहीं, हंकारा भृकुटी समस्या करै नहीं, उदरका कृशपना दिखावै नहीं हस्ततैं याचनाकी समस्या करै नहीं, दातारके देखनेकूँ भोजनके देखनेकूँ ऊंचा तथा दिशविदिशामाहि अवलोकन करै नहीं खडा रहै नहीं, विजलीके चमत्कावत् अर्द्ध अंगणमें जाय बहुडै हैं, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ ऐसैं आदरपूर्वक तीनवार उच्चारणकरि खड़ा राखै तो खड़ा रहै, एकवार निकसे पाछें फिर उस गृहमें प्रवेश करै नहीं फिर अन्य गृहमें प्रवेश करै अन्तराय हो जाय तो अन्य गृहमें हू नहीं जाय, पाछा वनहीकूँ जाय है । दीनता रहित याचनारहित प्रासुक आहार आचारांगमें कक्षा तिसप्रमाण छियालिस दोष चौदह मल बत्तीस अन्तरायरहित भोजन अंगीकारकरि प्राणनिकी रक्षामात्र फल अंगीकार करता सुन्दर रसमें नीरसमें लाभमें अलाभमें समान सन्तोषी होय सो भिक्षा है । इस भिक्षाकी शुद्धताकरि चारित्रकी उज्ज्वल संपदा प्राप्त होय है जैसे साधुपुरुषनिकी सेवा करि गुणनि की संपदा होय है ।

अथ या भिक्षा मुनीश्वरनिके पंच प्रकार होय है—गोचरवृत्ति, अक्षप्रक्षरणवृत्ति, उदगग्निप्रशमनवृत्ति, आमरीवृत्ति, गर्वपूरणवृत्ति ऐसैं पंच प्रकार आहारमें माधुनिकी प्रवृत्ति जाननी ।

जैम लीला विहार चम्प आभरण आदि रहित रूप याचनकरि युक्त स्त्रीका लाया घामकूँ गरु पर है तिम स्त्रीका अंगनिका गौरव तथा आभरण चम्पकूँ नहीं अवलोकन करै हैं केवन

घास चरनेका प्रयोजन है तैसेँ साधु हूँ दातारका रूप आभरणादि सौंदर्यकूँ नाहीं अबलोकन करता नवधा भक्तिकरि प्रतिग्रहपूर्वक हस्तमें धारण किया ग्रासकूँ भक्षण करै है सो गोचरीवृत्ति है । अथवा जैसेँ गऊ वनके नाना स्थाननिमें तिष्ठती तृणकूँ जैसेँ लाभ हो जाय तैसेँ भक्षण करै हैं वनकी शोभा वृत्तनिकी शोभा देखने में परिणाम नाहीं धरै है तैसेँ साधु हूँ गृहस्थनिके घरमें जाय तदि गृहस्थका महल मकान शय्या आसनादिकनिके देखनेमें तथा सुवर्णके रूपाके कांसाके पीतलके मृत्तिकाके पात्रादिकनिके देखनेमें परिणाम नाहीं करै है तथा अनेक भोजन परिवारके देखनेमें परिणाम नाहीं लगावते केवल अपने हस्तमें धर्या ग्रासकूँ भक्षण करनेमें दृष्टि राखै हैं, परिकर-जननिके कोमल ललित रूप वेष विलासनिके देखनेमें वांछारहित भये शुष्क तथा गीला आहार ताकूँ नाहीं देखता गौका ज्यों भोजन करै तातें गोचरीवृत्ति वा गवेषणा कहिये है ।

जैसेँ वणिक् रत्ननिका भर्या गाडाकूँ घृतादिकतें वांगि धुरके घृत लगाय अपने वांछित देशांतरकूँ लेजाय तैसेँ साधु हूँ गुणरत्ननिकरि भर्या देहरूप गाडाकूँ भिक्षा भोजन देय अपने वांछित समाधिरूप पत्तनकूँ प्राप्त करै है यातें अक्षप्रक्षणावृत्ति है ।

बहुरि जैसेँ अनेक वस्त्र आभरणादिकनिकरि भर्या भण्डारविषै उठी अग्निकूँ शुचि अशुचि जलतें बुझाय अपनी वस्तुनिकी गृहस्थी रक्षा करै है तैसेँ साधु हूँ उदररूप भण्डारमें उपजीतु धातुपाकरुप अग्निकूँ सुन्दर असुन्दर भोजनतें बुझावै हैं सो उदराग्निप्रशमनवृत्ति है ।

बहुरि जैसेँ भ्रमर पुष्पकूँ किञ्चिन्मात्र वाधा नाहीं करता पुष्पकी गंध हरै है तैसेँ साधु हूँ दातारके किंचित् वाधा नाहीं होय तैसेँ भोजन करे सो भ्रमराहारवृत्ति है ।

बहुरि जैसेँ गृहस्थका गृहमें गत जो खाडा हो गया तो ताकूँ धूलि पाषाणादिकतें पूर्ण करै है तैसेँ साधु हूँ उदररूप खाडाकूँ रस नीरस भोजनकरि भरै तातें गत पूरणवृत्ति कहिये है । ऐसेँ पंचवृत्तिकरि भोजन करता साधुकूँ भिक्षाशुद्धि होय है ।

श्रावक हूँ अन्याय छांडि बहुत हिंसाके कारण व्यवहार छांडि कर्मके दियेमें संतोष धारण करि अन्यके पीडा दुःख नाहीं करि न्यायके वित्तकूँ मद, विषाद, दीनता-रहित दानकूँ विभागकरि भोगै है तथा अन्नद्वयादिक सदोष भोजनका परिहार करि दिवस में भोगांतराय लाभांतरायका क्षयोपशम-प्रमाण रस नीरस मिल्या तामें कुटुम्बका विभाग तथा दानका विभागकरि भोजनादिक करै गृहस्थके लालसा गृह्यतारहित ही भोजनकी शुद्धता है । बहुरि संयमी है सो अपना शरीर का नख केश कफ नासिका मलमूत्रपुरीषादिकनिकूँ देशकाल जानि विरोधरहित जिवनिके वाधा न होय, परके परिणाम मलीन नाहीं होय ऐसेँ क्षेत्रमें खेपै ताके प्रतिष्ठापनशुद्धि होय है अर गृहस्थ है सो हूँ अपना देहका मल तथा जल कजोड भस्म मृत्तिका पाषाण काष्ठादिक जतनतें छेपै जैसेँ छोटे बड़े जीवनिकी विराधना नाहीं होय, किसीके साथ कलह विसंवाद नाहीं होय, आपका धंगमें वाधा नाहीं आवै, अन्य जननि के ग्लानि नाहीं उपजै तैसेँ क्षेपण करना । बहुरि-शयना-

सनशुद्धता साधुका प्रधान आचरण है। जहां स्त्री नपुंसक चोर मद्यपायी शिकारी इत्यादिक पपी जनोंका आर-जारस्थान ( आने जानेका स्थान ) नहीं होय, जहां शृंगार शरीर-विकार उज्ज्वल आभरण धारती स्त्री विचरै तथा वेश्यानिका क्रीडावन वाग गीत नृत्य वादित्रकरि व्याप्त ऐसे स्थानका दूरहीतै परिहारकरि तिष्ठै हैं, अकृत्रिम पर्वतनिकी गुफां वृक्षाका कोटर तिनमें तथा कृत्रिम शून्य गृहादिक, आपके अर्थ नहीं किया आरम्भरहित ऐसे स्थाननिमें तथा शुद्ध भूमिमें शयन आसन करै है। अर गृहस्थ भी विषयनिके विकाररहित स्त्री नपुंसक दुष्ट कलह विसंवाद विकथादिरहित परिणामनिकी उज्ज्वलता जहां नहीं विगडै ऐसे स्थानमें शयन आसन करै, स्थान के दोषतै परिणाममें दुर्ध्यान रहै, दुष्ट चिंतवन होय, तातै अपनी जीविकादिकका न्यायमार्गतै साधन करकै अर स्थान शयन निराकुल स्थानहीमें करै है।

बहुरि साधु है सो पृथ्वीकायिकादिक जीवनिकी विराधनाकी प्रेरणारहित कठोर कटुकादिक पग-पीडा का कारण वचनरहित, व्रत शील संयम उपदेशरूप वचन कहता, हितमित मधुर मनोहर वचन कहै सो वाक्य शुद्धता है। गृहस्थ भी जेता वाक्य कहै सो विवेकसहित कहै लोक-विरुद्ध धर्म-विरुद्ध हिंसाका प्रेरक असत्य कटुक कर्कशादिक कदाचित् नहीं कहै है। ऐसै अष्ट प्रकार शुद्धता संयमीनिकी है। गृहस्थ अष्ट शुद्धताकूं चिंतवन करता रहै, भावना राखै तो बहुत पापनिर्तै लिप्त नहीं होय, धर्मभावनाकी वृद्धि होय।

अब तपभावना हू गृहस्थकूं भावने योग्य है यद्यपि तपकी प्रधानता मुनीश्वरनिकै है तथापि गृहस्थ हू तपभावना भावता रहै तो रोगादिक कष्ट आये चलायमान नहीं होय। इन्द्रियनिकी विकलताकूं जीतै, वृद्धअवस्थामें जराकरि बुद्धि चलित नहीं होय, खानपानमें विकलताका अभ्रात्र होय, संतोषवृत्ति प्रगट होय दीनताका अभाव होय, लोकमें यश उज्ज्वल होय, परलोकमें स्वर्गकी प्राप्ति होय तातै तप ही करना उचित है। सो तप दोय प्रकार है एक बाह्य एक अभ्यंतर तिनमें बाह्य तपका छह भेद हैं अनशन, अवमौर्दर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशयनासन, कायक्लेश ऐसे छह प्रकार बाह्य तप है। तिनमें अनशन तपका स्वरूप कहिये हे—अनशन जो भोजन ताका त्याग करिये सो अनशनतप है जो दुष्टफलकी अपेक्षा रहित होय करै सो अनशनतप है, जो इहां यशके वास्तै करै, विख्यातता वास्तै करै जगतके लोकनिर्तै पूजा नमस्कारादि वास्तै वा मंत्र साधना वास्तै करै ऋद्धि संपदा वैरीनिकी धात, परलोकमें राज्यसंपदा वास्तै करै, कषायतै वैरतै करै, दुःखित हुआ अपना घात वास्तै करै सो अनशनतप सम्यक् नहीं, केवल संसारपरिभ्रमणका कारण है। जो इन्द्रियनिकी विषयनिमें लालसा घटावनेके अर्थ तथा छहकायके जीवनिकी दया अर्थ रागभावके घटानेके अर्थ निद्राके जीतनेके अर्थ कर्मकी निर्जराके अर्थ ध्यानकी सिद्धिके अर्थ देहका सुखियापनाको मेटनेके अर्थ जो उपवासादि करै सो अनशनतप है। सो अनशनतप दोय प्रकारका है—एक तो कालकी मर्यादाकरि है, एक यावज्जीव है। एक दिन

में दोय वार भोजन होय है तिनमें एक वार भोजन करना एक वारका भोजनका त्याग करना सो अनशन है अर पहिले दिन एक वार भोजनकरि एक वारका त्याग अर दूसरे दिनके दोय भोजनका त्याग अर पारणाके दिन एक भोजनका त्यागकरि एकवार जीमना सो च्यार भोजनका त्यागरूप चतुर्थ है याहीकूँ उपवास कहिये है अर ल्ह भोजनका त्याग ताहि दोय उपवास कहिये है, अष्ट भोजनका त्यागकूँ तेला, दश भोजनका त्यागकूँ चोला इत्यादि, ऐसै कालकी मर्यादारूप अनशन-तप जानना । अर आयुका अन्तमें यावज्जीव भोजन त्यागना सो यावज्जीव अनशन है । इन्द्रियनि का उपशमके अर्थ भगवान् उपवास कथा है तातैं इन्द्रियनिक्कूँ जीतनेवाला मुनि भोजन करता ह उपवासीक जानना । अर जो उपवास करता इन्द्रियनिक्कूँ विषयनितैं नाहीं रोके है आरंभ करै है कषायरूप प्रवर्ते है ताका अनशनतप निष्फल होय है कर्मकी निर्जरा नाहीं करै है ऐसा अन-शनतपका स्वरूप कथा । सो जैसे वात पित्त कफादिक विकारकूँ प्राप्त नाहीं होय, रोगका उपशम होय, उत्साह बधता जाय तैसे अपना परिणामकी विशुद्धताकी वृद्धि चाहता देशके अनुकूल कालके अनुकूल आहारपनाकी योग्यताके अनुकूल, कुटुम्बादिका सहायके अनुकूल, संहनन-प्रमाण जैसे देह नाहीं विगडै तैसे श्रावकनिक्कूँ ह शक्तिप्रमाण अनशनतप अंगीकार करना ही श्रेष्ठ है ॥ १ ॥

अब अवमौर्दर्यतपका स्वरूप ऐसा जानना—अबम कहिये ऊन उदर जामें होय सो अब-मौर्दर्य कहिये । जेता प्रमाणरूप ओदनादिकतैं उदर भरिये तितना प्रमाणतैं ऊन भोजन करिये सो अवमौर्दर्यतप है, अवमौर्दर्यतपतैं इन्द्रियनिका संयम होय है, भोजनकी गृद्धिताका अभाव होय है, अल्प आहार करनेतैं वात पित्त कफ प्रकोपकूँ प्राप्त नाहीं होय है, रोगनिका उपशम होय है, निद्रा आलस्यका जीतना होय है, स्वाध्यायमें सामायिकमें, कायोत्सर्गमें ध्यानमें खेद नाहीं होय, सुखकरि ध्यान स्वाध्याय आवश्यकदिक होय है । अवमौर्दर्य करनेतैं उपवासका खेद गरमी नाहीं व्यापै है उपवास सुखसूँ होय है । जातैं बहुत भोजन करै तदि आवश्यक ध्यान कायोत्सर्ग सुखतैं नाहीं होय, आलस्य निद्रा प्रबल हो जाय, तृषाका प्रकोप होय है, गरमी आ-ताप रोग बधै है, यातैं इन्द्रियांकी लालसादि घटानेकूँ, मनके रोकनेकूँ, ज्ञानी मुनि तो, अद्ध भोजन चतुर्थभाग भोजन तथा एक ग्रास वा दोय ग्रास इत्यादिक एक ग्रास घाटि पर्यंत अवमौर्दर्य-तपका भेद करैं हैं अर जो मिष्टभोजनका लाभके अर्थ वा कीर्ति प्रशंसा होनेके अर्थ अल्प भोजन करै सो अवमौर्दर्यतप नाहीं है । अवमौर्दर्य तो भोजनमें लालसा घटानेके अर्थ है गृहस्थ श्रावक कूँ ह अन्तरायकर्मका ज्योपशमप्रमाण प्राप्त हुवा भोजनतैं संतोषकरि भोजनमें लालसा छाडि इच्छाका निरोधके अर्थ अवमौर्दर्यतप करना श्रेष्ठ है ।

अब वृचिपरिसंख्यान नाम तप मुनीश्वरनिकै होय है सो कहै हैं । मुनीश्वर भोजनकूँ जावतां प्रतिज्ञा करै जो आज एक घरमें जावना वा दोय तीन पांच सात घरनिका प्रमाणकरि

जाय, तथा आज सूधे मार्गमें ही मिलै तश्चा वक्र मार्गमें ही तथा ऐसा दातार ऐसा भोजन तथा ऐसा पात्रमें ऐसी विधितै मिलै तो ग्रहण काना अन्यप्रकार नाहीं करना ऐसी कठिनकठिन प्रतिज्ञाकर भोजन के अर्थ गमन करै ताकै वृत्तिपरिसंख्यान तप होय है । यो दुर्द्धरतप मुनीश्वरनितै ही होय है, अन्य गृहस्थ धारण करनेकूँ समर्थ नाहीं होय है । अर गृहस्थ हैं सो हू वीतराग गुरुनिके प्रसादतै ऐसी प्रतिज्ञा धारै हैं जो मैं जिनेन्द्रधर्म पाय उज्ज्वल धर्मका घात जामें नाहीं होय ऐसी रीति ही जीविका करूं, जामें श्रद्धान ज्ञान व्रत नष्ट हो जाय सो जीविका नाहीं करूं । बहुत हिंसा भूँठ मायाचारकरि सहित ऐसी सेवा नाहीं करूं, छोटे पापके वणिज व्यवहार नाहीं करूं, उज्ज्वल वणिज बहुत आरम्भ-रहित, कपट-रहित, असत्य-रहित, जो जीविका होय सो ही मोकूँ करना अन्य नाहीं करना इत्यादि आजीविका नियम करै । तथा एता धन एता परिग्रह एता वस्त्रतै भोग-उपभोग करना तथा रोगादिक होजाय तो एती औषध ही भक्षण करूं, इन औषधनितै अन्य भक्षण नाहीं करूं तथा आज मेरे गृहमें तैयार भोजन पावैगा सो ही भक्षण करूँगा, मैं मुखतै कइ करि कराऊँ नाहीं, मंगाऊँ नाहीं । तथा आज मेरे गृहमें मेरा घरका प्रास लीये पहली एक वार जो पात्रमें घाल देगा सो ही भोजन करूँगा, फेर मांगूँ नाहीं इत्यादिक इच्छाका रोकने अर्थ गृहस्थ प्रतिज्ञा करै है ।

अव रसपरित्यागतपका ऐसा स्वरूप है दुग्ध, दही, घृत, लवण, गुड़, तेल ये छह प्रकारके रस हैं जिनमें जिह्वादिक इन्द्रियनिकूँ दमनके अर्थ, मनकी लोलुपता मेटनेके अर्थ, कामके जीतनेके अर्थ, निद्राके घटावनेके अर्थ, संयमके अर्थ, रसनिका त्याग करना, कदे एक रसका त्याग, कदे दोय तीनका त्याग, कदे छह रसनिका त्याग करना सो रसपरित्याग तप है । संसारी जीव मिष्टरसादि भक्षण करनेके लोलुपी होय अभक्ष्यभक्षण करै हैं, लज्जा छाँडै हैं व्रत तप बिगाडै-हैं, भोजनकी लोलुपतातै शूद्रादिकनिके अयोग्य कुलमें भोजन करै हैं, दीन हुवा तरसै हैं, रसादिक भक्षण करनेकूँ लडै हैं, मरै हैं, पडै हैं बहुधाकरि रसनिके लोभी हुये भ्रष्ट हो रहे हैं कोऊ धन्य पुरुषनिके रसरूप भोजन करनेकी लालसा नाहीं रहै है । उत्तम गृहस्थ है सो प्रथम ही नाना प्रकारके वृत मिष्ट रसादिकनिके लालसाका त्यागकरि जो अपने गृहमें खारा अलूणा लूणा सचिककण इत्यादिक जो स्वाभाविक कर्म विधि मिलाय दे ताकूँ सन्तोष सहित भक्षण करै हैं । अर रसरूप भोजनकी कथा स्वप्नामें हूँ नाहीं करै है, रसनिकी लंपटता दोऊ लोकमें भ्रष्ट करने-वाली है तातै लालसा छूटनेके अर्थ इन्द्रियनिकूँ वशीभूत मरनेके अर्थ परम संवर अर निर्जराके अर्थ, दीनताका अभावके अर्थ सन्तोष धारणके अर्थ रसपरित्याग नामा तप ही श्रेष्ठ है ।

अव त्रिविक्तशयनासन नामा तपका ऐसा स्वरूप जानना — शूना गृह एकांतस्थान विकल त्रयादि जीवनिकी बाधरहित स्त्री-नपुंसक असंयमीनिका आर-जाररहित स्थानमें वा पर्वतनिकी गुफा वन खंडादिकनिके ध्यान अध्ययन करना, शयन-आसन करना सो त्रिविक्तशयनासन तप है ।

जाते एकांतमें तिष्ठता साधुके हिंसाका अभाव, ममत्वका अभाव विकथाको अभाव होय है काम का अभाव होय, ध्यान अध्ययनकी सिद्धि होय है, दूजाको प्रसंग होय तत्र वचनालाप होय तदि ध्यानतें चलायमानता होय, रागभावकी वृद्धि होय तातें संयमी एकांतमें ही शयन आसन करै है। अर गृहस्थ घर्मात्मा भी पापसूँ भयभीत होय अरना गृहचारके आजीविकादि कार्य न्यायमार्गतें अल्प आरम्भादिकरूप पापकार्यतें भयभीत हुआ तथा शरीरके स्नान-भोजनादिक कार्य करके एकांत मकान अपने गृहमें वा जिनमन्दिरमें वा धर्मशालामें वा वनके चैत्यालयादिकनिमें साधुमी लोकनिकी संगतिमें धर्मचर्चा करता, स्वाध्याय करता, जिनागमका पठन-पाठन, व्याख्यान करता, जिनागम श्रवण करता पंचनमस्कारका स्मरण करता दिन-रात्रि व्यतीत करै, स्त्रीकथा हाजकथा भोजनकथा देशकथा कदाचित् हू नहीं करता काल व्यतीत करै है। तथा कामविकारका वधावनेवाला रागका उपजावनेवाला शय्यासनका परिहार करै गृहस्थकै हू विविक्तशयनासन निर्जराको कारण है।

बहुरि मुनीश्वरनिके कायक्लेश नामा बड़ा तप है जो एक आसनकरि बैठना, एक पर्वचाडे शयन करना, मौन धारण करना तथा ग्रीष्मऋतुमें पर्वतनिके शिखर शिलातलनि ऊपरि सूर्यके संमुख कायोत्सर्गादिक धारण करि ग्रीष्मका घोर आताप तप्तवनादिककी घोर वेदना होते हू धर्मध्यानमें, बारह भावनाका चिंतवनमें परिणामकूँ स्थिरकरि परिणामकूँ क्लेशरूप नहीं होने दे है। तथा वर्षाऋतुमें वृक्षके नीचे योग-धारण करते घोर अन्धकारकी भरी रात्रिमें अखण्ड धाररूप वर्षता मेघकरि धरती आकाश जलमय होरहा होय अर वृक्षनिमें एकट्टा जल होय बहुत स्थूल धार पड़ती होय अर विजलीनिकी भूकंभकाहट अर घोरगर्जना अर बज्रघातनिका पड़ना तिस अवसरमें धन्य मुनि आच्छादनरहित नग्न अङ्ग ऊपरि घोर वेदना भोगते हू संक्लेशरहित धर्मध्यान शुक्लध्यानसुँ जुडे हुये तिष्ठै हैं सो समस्त वीतरागताकी महिमा है। तथा शीत ऋतुमें नदीके तीर वा चौहटे नग्न अङ्ग ऊपरि बरफका पड़ना महान् घोरशीतलपवनका चलना तिस अवसरमें दुखरहित धर्मध्यानतें शीतकालकी रात्रि व्यतीत करै हैं तथा दुष्ट जीवनिकरि किया घोर उपद्रवनिक्कूँ भोगि समभाव रखना सो कायक्लेशतप है सो परवश दुख आए चलायमान नहीं होनेके अर्थ तथा देह-जनित सुखकी अभिलाषाका अभावके अर्थ रोगनितें चलायमान नहीं होनेके अर्थ, भयके जीतनेके अर्थ, परीषह सहनेके अर्थ, कर्मकी निर्जराके अर्थ कायक्लेश तप धारण करै हैं अर गृहस्थके आतापनयोगादिक नहीं होय। यो तप तो दिगम्बर साधुनितें ही होय, गृहस्थ है सो आपन चलायकरि कायक्लेश करै नहीं, अर सामायिकादिकके अवसरमें ही आय जाय तो चलायमान होय नहीं, अर कर्मके उदयतें अपनी रक्षा करते हू शीतञ्जर दाहञ्जर वातशूलादिक आजाय व दुष्टवैरी धर्मद्रोही म्लेच्छादिक आय उपद्रव करै वा वन्दीगृहादिकमें रोकदे वा ताडन मारन करै तो गृहस्थ है सो मुनीश्वरनिका कायक्लेश तपकी भावनाकरि समभावनिकरि सहै, कायरता धारण

नाहीं करै दारिद्र्यका दुःखजनित क्षुधातृषा शीतउष्णादिककी वेदना कर्मके उदयतै आवै तहाँ कायर नाहीं होय, धर्मके शरणतै सहना सो ही कायक्लेश है मुनीश्वर तो ऐसा कायक्लेशतप उत्साहकरि धारण करै हैं। हम कायक्लेशतै अतिदूरि वर्तै हैं तो हू असाता कर्मका उदयकरि दुःख आय गया तो भयवान हुआ कौन छाँड़ेगा अब जो धैर्य धारणकरि सहूंगा तो कर्म रस देय जरूर निर्जरेगा अर कायरता करूंगा क्लेश करूंगा तोह भोगना पड़ेगा, कर्मका उदयके दया है नाहीं, कायर होय दुख करनेतै उदयमें आया सो भी भोगूंगा अर यातै बहुत गुणा आगानै बन्ध करूंगा, तातै जिनेन्द्रका वचनांका शरण ग्रहण करकै कर्मका उदयमें धैर्य धारण करना ही श्रेष्ठ है। अर गृहस्थके अन्तरायकर्मका उदय आवै है तदि उदरभर भोजन हू पूरा नाहीं मिलै वा घृतादिक रस नाहीं मिलै, अतिअल्प मिलै तदि वह अल्पमें संतोषित रहै, परका विभव देखि वांछा नाहीं करै समभाव रूप रहै तो सहज ही कायक्लेश तप होय है, बड़ी निर्जरा करै है ऐसै छहप्रकारका बाह्यतप कह्या। बाह्य अन्यके प्रत्यक्ष जाननेमें आवै बाह्य भोजनादिकके त्यागतै होय वा अन्य गृहस्थ परमती हू थारलै तातै याकू बाह्य तप कह्या तथा जैसे अग्नि बहुत संचय किया तृणादिककू दग्ध करै तैसे पूर्वसंचित कर्मकू दग्ध करै है तातै तप कह्या। तथा शरीर इन्द्रियनिकू संतापितकरि विषयादिकनिमें मग्न नाहीं होने दे तातै तप कहिये, तथा जैसे तपाया हुआ सुवर्ण पाषाण है सो कीटिको छाँडि शुद्ध सुवर्ण हो जाय है तैसे आत्मा याके प्रभावतै कर्ममलरहित होजाय तातै याकू भगवान तप कह्या है।

अब छह प्रकार अभ्यन्तरतप है सो कहिये है—प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान ऐसै छह प्रकार हैं। इनमें प्रायश्चित्तका नव भेद और संख्यात असंख्यात भेद हैं सो इहां आलोचनादिकका कथन लिखे कथनी बहुत होजाय तातै संक्षेप कहिये है। जो धर्मात्मा हैं सो अपने व्रतधर्ममें कदाचित् दोषरूप आचरण नाहीं करै, ताकू मनवचनकायकरि भला नाहीं कहै अर जो कदाचित् प्रमादकरि भूलकरि दोष लागि जाय तो निर्दोष साधुके निकट जाय सरलपरिणामतै दशदोषरहित आलोचना करकै जो गुरुनिकरि दिया प्रायश्चित्त ताहि परमश्रद्धातै आदरपूर्वक ग्रहण करै हृदयमें ऐसी शंका नाहीं करै जो मोकू बहुत प्रायश्चित्त दिया वा अन्य प्रायश्चित्त दिया। प्रमादतै एक वार दोष लागि गया ताकू प्रायश्चित्त लेय दूरि किया फिर ऐसी सावधानी राखै जो अपना शतखंड होजाय तो हू फिर दोष नाहीं लगने देवै ताके प्रायश्चित्त लेना सफल होय है। वहुरि प्रायश्चित्त लेवै सो अनेक गुणनिका धारक सिद्धांत-रहस्यका पारगामी प्रशांत मनका धारक अपरिस्रावीगुणका धारक; जैसे तप्तलोहका गोला जल पीगया ताका फिर बाहिर प्रकाश नाहीं तैसे जो शिष्यकरि आलोचना किया दोषका कदाचित् प्रकटना बाह्य नाहीं करनेवाला देशकालका ज्ञाता, एकान्तमें तिष्ठता पूर्व कह्या आचार्यनिके अनेक गुण तिनका धारक तिनके निकट अंजुली जोडि महाविनयपूर्वक बालक ज्यों सरलचित्त होय आत्मनिंदा करता

आलोचना करै है । बहुरि जैसेँ रुधिरसूँ लिप्त वस्त्र रुधिर कर नाहीं धुवै, कर्दम कर्दमकरि नाहीं धुवै तैसेँ दोषनिकरिसहित साधु हू शिष्यकूँ निर्दोष नाहीं करि सकै है । जैसेँ मूढ़वैद्य रोगीका विपरीत इलाजकरि प्राणरहित करै तैसेँ अज्ञानी गुरु हू शिष्यकूँ संसारसमुद्रमें डुबोय दे है, तातैं निर्दोष-गुरु प्रायश्चित्त देय शुद्ध करै संयमी पुरुष तो एकगुरु एकशिष्य दो ही एकान्तमें आलोचना करै, आर्यिकादिक प्रकट प्रकाशस्थानमें एकगुरु होय एकगणिनी आर्यिका होय एक दोष लाग्यो होय सो होय ऐसेँ तीन होय । जो लज्जातै वा तिरस्कार वा प्रायश्चित्तका भयतै वा अभिमानतै दोषकूँ शुद्ध नाहीं करै तो जैसेँ लाभ अर खरचका ज्ञानरहित वार्षिककी ज्यों कर्मरूप ऋणवान होय भ्रष्ट होय है आलोचनाविना महान हू अंगीकार किया हुआ तप वाञ्छित फल नाहीं देवै है अर आलोचना करकैहू गुरुका दीया प्रायश्चित्त नाहीं करै तो वैद्यका कक्षा औषधकूँ नाहीं भक्षण करता रोगीकी ज्यों शुद्ध नाहीं होय है वा हलादिककरि नाहीं सुधारया क्षेत्रमें धान्यवत् महाफल नाहीं फलै है अथवा जैसेँ विना मज्जन किया दर्पणमें रूपका ज्यों चित्तकी शुद्धता विना आत्मामें चारित्रकी उज्ज्वलता नाहीं भासै है अर इस कलिकालके प्रभावकरि निर्दोष गुरु प्रायश्चित्त देनेवाले दीखै नाहीं । जो आप ही अनेक पापनिकरि लिप्त सो अन्यकूँ कैसेँ शुद्ध करै रुधिरसूँ रुधिर कैसेँ धोवै ? सो ही आत्मानुशासनजीमें कहा है,—

कलौ दण्डो नीतिः स च नृपतिभिस्ते नृपतयो

नयन्त्यर्थार्थं तं न च धनमदोऽस्त्याश्रमवताम् ।

नतानामाचार्या न हि नतिरताः साधुचरिता—

स्तपस्थेषु श्रीमन्मणय इव जाताः प्रविरलाः ॥१४६॥

अर्थ—कोऊ शिष्य गुणभद्र स्वामीसूँ पूछ्या - जो हे स्वामिन्, इस कालमें तपस्वी मुनिनिविषै हू सत्य आचरण के धारक अत्यन्त विरले रह गये ताका कारण कहा है ? ताका उत्तर देनेरूप काव्य कहा । ताका अर्थ लिखिये है—इस कलिकालमें नीति मार्ग है सो दण्ड है, दंडका भय विना न्यायमार्गमें कोऊ स्वयं नाहीं प्रवतै है । अर दंड है सो राजानिकरि दिया जाय, क्योंकि कलिकालमें जोरावर विना अन्य सधर्मीनिकरि तथा वृद्धपुरुषनिकरि तथा लोकनिकरि दिया दंड कोऊ ग्रहण करै नाहीं, कोऊ कहा माने नाहीं, तातैं बलवान राजा कर दिया दण्ड ही ग्रहण करै । अर इस कलिकालमें राजा ऐसे होने लगे जातैं धन आवता देखें ताकूँ दण्ड देवै, निर्धननिकूँ दण्ड नाहीं देवै, अर आश्रमवान् संयमी तिनके कुछ धन नाहीं तातैं संयम लेयकरि कुमार्ग चालै तिनके राजाका दण्ड तो है नाहीं जातैं कुमार्गतै रुकै, अर आचार्यनिका शिष्यनिमें अनुराग हो गया जो आपकूँ नमि जाय ताकूँ दण्ड दे नाहीं अपना संप्रदाय बधावने का अर्थ जो आपकूँ



नमोऽस्तु नमस्कार करले ताकूँ अपना जानि दण्ड देवे नाहीं । तदि दण्डका भयरहित घृत्रविरुद्ध आचरण करने लागि जाय । तातें कलिकाल वि तपस्वी जननिमें ह सत्य आचारके धारक अति विरले देखिये हैं, केवल भेषधारी ही बहुत दीखै हैं । तातें प्रायश्चित्त नाम ही कल्याणका कारण है तातें गृहस्थनिकै प्रायश्चित्तकी प्रवृत्ति कैसें होय ? तातें परमेष्ठी का प्रतिबिम्बके सन्मुख होय करके ही अपना अपराधकूँ आलोचनाकरि ऐसा यत्न करना जो फेर अपराध स्वप्नमें ह नाहीं बने ।

अब विनयनाम दूजा अभ्यंतर तप है ताका पांच भेद हैं—दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, तपविनय, उपचारविनय । तहां जे पदार्थनिका श्रद्धानविषै शङ्कादिदोषरहित निःशंकरहना सो दर्शनविनय है । सम्यग्दर्शन परिणाम होनेमें हर्ष अर सम्यक्त्वकी विशुद्धतामें उद्यमी रहना सम्यग्दृष्टीनिका संगम चाहना, सम्यक्त्वके परिणामकी भावना भावना, मिथ्याधर्मकी प्रशंसा नाहीं करेना, मिथ्यादृष्टीनिका तप ज्ञान दानकी प्रशंसा नाहीं करना; क्योंकि मिथ्यादृष्टिका आचरण है सो इसलोक परलोकमें यश विख्यातता, विषयसुख धन संपदाकी चाहपूर्वक आत्मज्ञानरहित है, बंधको कारण है यातें प्रमाण नाहीं । अर वीतराग सर्वज्ञने पदार्थनिका स्वरूप कसां है सो प्रमाण है यो दर्शनविनय है । बहुरि ज्ञानविनय ऐसा है जो आलस्य-रहित विज्ञेपरहित विषयकषाय मलरहित शुद्ध मन करके देशकालकी विशुद्धताका विधानमें विचक्षण पुरुष बहुत सन्यातैं यथाशक्ति मोक्षका अर्थी हुवा वीतराग सर्वज्ञकरि प्ररूपण क्रिया परमागमका ज्ञानग्रहण अभ्यास स्मरणादि करना सो ज्ञानविनय जानना । ज्ञानका अभ्यास ही जीवका हित है, ज्ञानविना पशु समान है मनुष्याचार ही ज्ञानका सेवनतैं है, कामसेवन, भद्रणादिक इन्द्रियविषय तो तिर्यचके हू होय हैं । ज्ञानविनयका धारक निरन्तर सम्यग्ज्ञान हीकी वांछा करै है, ज्ञानहीके लाभकूँ परमनिधानका-लाभ मानै है । यो ज्ञानविनय मद्भानिर्जरा को कारण है जाके ज्ञानविनय होय ताके ज्ञानका धारकनिका विनय विशेषता करि होय है । अब चारित्रविनयका स्वरूप कहैं हैं ज्ञानदर्शनवान पुरुषके पंचाचारका श्रवण करतां प्रमाण समस्त शरीरमें रोमांच प्रगट होय अन्तरंगमें भक्तिका प्रगट होना अर कषाय विषयनिका निग्रहरूप परमशांतभावके प्रसादतैं मस्तक-ऊपरि अंजुलि करणादिकरि भावनितैं चारित्ररूप अपना होना सो चारित्रविनय है । बहुरि जाके भावनिमें संसारका दुःख छेदनेवाला आत्माकूँ बाधाराहित सुखकूँ प्राप्त करनेवाला विषय कषाय रोग उपद्रवका जीतनेवाला एक तपही परम शरण दीखै है ताके तपभावना होय है, ताहीके तपका विनय होय है तपस्वीनिकूँ उच्च सर्वोत्कृष्ट समझना तपस्वीनिकी सेवा भक्ति वैयावृत्य स्तुति करना सो तपविनय है, शक्तिप्रमाण इन्द्रियनिका निग्रहकरि देश-कालकी योग्यता प्रमाण अनशनादितपमें उद्यमी होय धारण करना सो समस्त तप विनय है । अब उपचारविनय ऐसा जानना जो आचार्यादिक पूज्य पुरुषनिकूँ देखतप्रमाण उठि

खड़ा होना सप्त पग सम्मुख जावना अंजुलि मस्तक चढावना उनकू आगेकरि आप पाछें गमन करना, पठन पाठन तपश्चरण आतापनयोगादिक, सिद्धान्तका नवीन अभ्यासका ग्रहण विहार वंदनादिक समस्तकार्य गुरुनिको जग्याय करना, गुरुनिके होते ऊंचासन छांडना सो समस्त उपचारविनय है। तथा आचार्यादिक परोक्ष होंय तो मनवचनकायकी शुद्धतापूर्वक नमस्कार करना, अंजुली करना, गुणनिका स्मरण करना, गुणनिका कीर्तन करना जो बाकी आज्ञा धारण करी ताका पालना, सो समस्त उपचारविनय है। विनयके प्रभावतैं सम्यग्ज्ञानका लाभ होय है अनेक विद्या सिद्ध होय है मदका अभाव होय है आचारकी उज्ज्वलता होय है सम्यक् आराधना होय है यशकी उज्ज्वलता होय है, कर्मकी निर्जरा होय है।

बहुरि अन्य साधमीनिका, शिष्यनिका, मंदज्ञानके धारकहूका यथायोग्य विनय करना मिथ्यादृष्टिनिका हृ तिरस्कार नाहीं करना, मिष्टवचन आदरपूर्वक बोलना, संतोष करनेवाला दुःख दूर करनेवाला वचन कहना सो ही विनय है। उद्धतचेष्टा दोऊ लोक नष्ट करै है। बहुरि उपचारविनय मन वचन कायके मार्गकरि अनेक प्रकार होय है गुरुनिका तथा सम्यग्दर्शनादिगुणनिके धारकनिका शय्याका स्थान, बैठकका स्थान, शोधना आसनतैं नीचा बैठना, नीचा स्थानमें शयन करना, अनुकूल पादस्पर्शन करना, दुःख रोग आजाय तो शरीरकी टहल करके अपना जन्म सफल मानना, पूंय पुरुषनिके निकट धूकना नाहीं, आलस्य नाहीं लेना, उवासी नाहीं लेना, अंगुलादिक भंजन नाहीं करना, हास्य नाहीं करना, पांव नाहीं पसारणा, हस्तताल नाहीं देना अंगका विकार, भ्रुकुटीका विकार, अङ्गका संस्कार नाहीं करना। विनयवान है सो उच्चस्थानमें स्थित रह वंदना नाहीं करै, जठै जठै संयमी तिष्ठै, तठै तठै वन्दना करै जो आवते संयमीनिकू देखि खड़ा होना, आसन त्याग करना, वन्दना करना तिनकैं ही विनय है जो गुरुनिकी आज्ञा हमकू होय तिस प्रमाण अंगीकार करना तो हमारे समान कोऊ पुण्यवान विरले हैं विनयरहितके शील संयम विद्या समस्त निष्फल है विनयका प्रभावतैं क्रोध मान वैरादिक समस्त दोषनिका अभाव होय है विनय विना संसार-सम्बन्धी लक्ष्मी सौभाग्य, यश, मित्रता गुणग्रहण सरलता मान्यता समस्त नष्ट होय है तातैं साधुनिकू अर गृहस्थनिकू समस्त धर्मका मूल विनय ही धारण करना श्रेष्ठ है।

अब वैयावृत्यतप हू, जिनकैं गुणनिमें प्रीति, धर्ममें श्रद्धान धर्मात्तामैं वात्सल्य, निर्विचिकित्सादिगुण होय तिनहीके होय है कृतघ्नके आचार्यादिकनिका वैयावृत्यमें परिणाम नाहीं होय है दशप्रकारके साधुनिका वैयावृत्य आगममें कछा है। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैच्य, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञ इन साधुनिका दशप्रकार वैयावृत्य कछा है। तिनमेंतैं जिनके सम्यग्ज्ञानादिकगुणनिकू तथा स्वर्ग-मोक्षके सुखरूप अमृतका वीज व्रत संयम अपना हितके अर्थ

आचरण करें ते आचार्य हैं तिनका अपना कायकरि तथा अन्य क्षेत्र शय्या आसनादि करि सेवा करिये सो आचार्यवैयावृत्त्य है । आचार्यनिका वैयावृत्त्य है सो समस्तसंघकी वैयावृत्त्य है समस्त संघ समस्त धर्म आचार्यनिके प्रभावतैं प्रवर्तैं है । बहुरि जिन व्रतशीलके धारकनिका समीपकूं प्राप्त होय परमागमका अध्ययन पठन करिये सो उपाध्याय हैं । महान् अनशनादितपमें प्रवर्तन करैं ते तपस्वी हैं । श्रुतज्ञानके शिक्षणमें तथा व्रतशील भावनामें निरन्तर तत्पर होय ते शौच्य हैं । रोगादिककरि क्लेशित जिनका शरीर होय ते ग्लान हैं । वृद्ध मुनिनिकी संतति सो गण है ; आपको दीक्षा देनेवाला आचार्यनिका शिष्य होय सो कुल कहिये है । च्यार प्रकारके मुनीश्वरनिका समुदाय सो मंड है । बहुत कालका दीक्षित होय सो साधु है ।

लोकमें पण्डितपणाकरि मान्य होय तथा वक्तृत्वगुणकरि मान्य होय महा कुलीनपनाकरि लोकनिमें मान्य होय सो मनोज्ञ है जातैं प्रवचनका धर्मका गौरवपणा प्रकट होय है ऐसैं दशप्रकारके मुनीनिकें कदाचित् शरीरमें व्याधि प्रगट होय जाय, तथा परीषह आजाय तथा विथ्यात्वादिकनिका भावनिमें उदय हो जाय तो प्रासुक औषधि भोजन पान वस्तिका संस्तरणादिकरि धर्मोपदेशकरि श्रद्धानकी दृढ़ता करावनेकरि पुस्तकपिच्छिकाकमंडलादि धर्मोपकरणनिका दानकरि इलाज करना, धर्ममें दृढ़ता करावना, संतोष धैर्यादि धारण करावना, वीतरागताका बधावना सो वैयावृत्त्य है । बाह्य औषधि भोजन-पानादिक द्रव्यका असंभ्रम होतैं अपना कायकरि कफ नासिका मल मूत्र पुरीषादिक दूर करना, रात्रि-जागरण करना, सो वैयावृत्त्य तप परमनिर्जराका कारण है । तिनमें केतेक उपकार तो मुनीश्वरनिका मुनीश्वर ही करैं हैं उठावना, बैठवना शयन करावना, कलोट लिवावना, हस्तपादादिकनिका पसारना समेटना, उपदेश देना, कफमलादि दूर करना, धैर्य धारण करावना मुनीश्वरनिका मुनीश्वर ही करैं हैं अर केतेक प्रासुक औषधि आहार पान उपकरणादिकनिकरि गृहस्थ धर्मात्मा श्रावकतैं ही बनै है, गृहस्थ है सो साधुनिका वैयावृत्त्य करै अर आर्जिकाका वैयावृत्त्य करै तथा करुणाबुद्धिकरि दुःखित रोगी बेवारिस बाल वृद्ध पराश्रोन बन्दीगृहमें पडेनिका करुणाबुद्धितैं उपकार करै तथा माता पिता विद्यागुरु स्वामी मित्रादिकनिका उपकार स्मरणकरि कृतघ्नता छांडि सेवा सन्मान दान प्रशसादिकरि आदर सन्मानादिकरि सुख उत्पन्न करै, दुःख होय ताकूं दूर करै, अपनी शक्तिप्रमाण दानसन्मानकरि वैयावृत्त्य करै ताकै वैयावृत्त्यतप महानिर्जरा करै है । वैयावृत्त्यतैं ग्लानिको अभाव होय है, प्रवचनमें वात्सल्यता होय है आचार्यादिक अनेक वात्सल्यके स्थान हैं तिनमें कोऊको भी वैयावृत्त्य वनि जाय ताहीकरि समस्त कल्याणकूं प्राप्त होजाय है ।

अब स्वाध्याय नामा तपकूं वर्णन करैं हैं—स्वाध्याय पंचप्रकार है—वांचना, बूछना, च्नुप्रेक्षा, आम्नाय, धर्मोपदेश ऐसे पंचप्रकार स्वाध्याय है । निर्दोष ग्रन्थ कहिये पाठ तथा आगमका अर्थ तथा पाठ अर अर्थ दोऊ इनकूं पात्र मनुष्यनैं पढ़ावना जनावना समझावना सो

वाचनास्वाध्याय है जातें परमागमका शब्द पढावने समान अर्थ समझावने समान कोऊ अपना परका उपकार है नाहीं । तथा परमागमको पढाय योग्य शिष्यकू प्रवीण करना है सो धर्मका स्तंभ खड़ा करना है जातें जिनधर्म तो शास्त्रज्ञानतैं ही है प्रतिमा अर मन्दिर तो मुखतैं बोलैं नाहीं साक्षात् बोलता देवसमान हितमें प्रेरणा करनेवाला अर अहिततैं रक्षा करनेवाला भगवान सर्वज्ञका परमागम ही है । तातैं शास्त्र पढावनेमें पढनेमें परम उद्यमी रहना । बहुरि अपना संशयका नाशके अर्थ बहुज्ञानीसू विनयपूर्वक प्रश्न करना, जातैं प्रश्नकरि संशय दूर क्रिये विना ज्ञान सम्यक् प्रकट नाहीं होय यातैं पूछना है, अथवा आप जो आगमका शब्द अर्थ समझ राख्या होय सो बहुज्ञानीनिके मुखतैं श्रवण करले तो बहुत ज्ञान दृढ होजाय, ज्ञानकी शिथिलता दूर होजाय तातैं बहुज्ञानीनितैं प्रश्न करना अथवा आप संक्षेप समझया होय ताकू विस्तारतैं जाननेके अर्थ बड़ी विनयतैं सम्यग्ज्ञानीनितैं प्रश्न करना । अपनी उच्चता तथा अपना पंडितपना दिखावनेके अर्थि तथा परका तिरस्कार करनेके अर्थि तथा परका हास्यके अर्थ सम्यग्दृष्टी प्रश्न नाहीं करै हैं । शब्दमें हू प्रश्न करै अर्थमें हू प्रश्न करै तथा शब्द अर्थ दोऊनिकू हू प्रश्नादिककरि निर्णय करना सो पृच्छना नामा स्वाध्याय है ।

बहुरि परमागमका जाण्या हुआ शब्द अर्थकू अपना हृदयमें धारणकरि बारम्बार मनकरि अभ्यास करना चिंतवन करना तथा आगममें आज मैं पठन-श्रवण किया तिसमें ये दोष मेरे त्यागने योग्य हैं ये गुण मेरे ग्रहण करने योग्य हैं ये हमारे स्वरूपतैं अन्य द्रव्यलोक-क्षेत्रादिक जानने योग्य ही हैं ऐसे मनकरि बारम्बार चिंतवन करना सो अनुप्रेक्षा नाम स्वाध्याय है । यातैं अशुभभावनिका नाश होय है शुभधर्मध्यान प्रकट होय है । बहुरि अतिशीघ्रतातैं पढना वा अतिविलंबित पढना इत्यादिक वचनके दोष टालि धैर्य महित एक एक अक्षरकी स्पष्टता सहित अर्थका प्रकाशसहित पढना पाठ करना मिष्टस्वरतैं उच्चारण करना तथा सिद्धांतकी परिपाटीतैं आगमतैं विरोधरहित लोकविरुद्धतारहित पढना सो आमनाय नामा स्वाध्याय है । बहुरि लौकिकप्रयोजन लाभ पूजा अभिमान मदादिकनिकू छाडि उन्मार्गके दूर करनेकू, सन्मार्ग दिखावनेकू संशय निराकरण करनेकू, अपूर्व पदार्थ प्रगट करनेकू, धर्मका उद्योत होनेकू मोहअंधकार दूर करनेकू, संसार देह भोगनितैं लोकनिकू, विरक्त करनेकू, विषयानुराग तथा कषाय घटावनेकू, अज्ञान निराकरण करनेकू, भेदविज्ञान प्रगट करनेकू, पापक्रियातैं भयभीत होनेकू भव्यनिकू धर्म कथनीका उपदेश करना सो धर्मोपदेश नाम स्वाध्याय है । जहां अनेक भव्यजीवनिको धर्मका उपदेश देना होय है तहां मनवचनकाय समस्त धर्मके स्वरूपमें लीन हो जाय हैं अर ऐसा अभिप्राय उपदेश दाताका होय है जो कोऊ रीति अनेकांतधर्मका यथावतस्वरूप श्रोतानिका हृदयमें प्रवेश करै कोऊ प्रकार संसार-देह-भोगनिमें राग घटै, कोऊ प्रकार भेद विज्ञान प्रगट होय, ऐसा अभिप्राय जाका होय सो मत्यार्थ धर्मका उपदेश करै है ।

जाका आत्मा धर्ममें रचि जायगा सो ही अन्य श्रोतानिकूँ धर्ममें रचावैगा । धर्मोपदेश देने-वालाके आत्मानुशासनमें ऐसे गुण कहे हैं जाकी बुद्धि त्रिकालत्रिपयी होय जो पाछली अनेकरीति परमागमतेँ नहीं जानै सो यथावत् वस्तुका स्वरूप नहीं कहि सकै है, जाकूँ वर्तमान वस्तुका स्वरूपका ज्ञान नहीं होय सो विरुद्ध कथनी करदे, जाकूँ आगानै परिपाकका ज्ञान नहीं होय सो श्रयोग्य कह दे, यातैँ वक्ता होय सो बुद्धिका बलतैँ आगमका बलतैँ लौकिकरीति प्रत्यक्ष देखनेतैँ त्रिकालकी रीति जानै ।

बहुरि समस्त शास्त्र जे च्यार अनुयोगके शास्त्र तिनका रहस्यका जाननेवाला होय जो च्यार अनुयोगनिका रहस्य नहीं जानै अर वक्तापना करै तो श्रोतानिकूँ यथावत् नहीं समझाय सकै जातैँ प्रमाणका कथन आजाय नयनिका तथा निक्षेपनिका तथा गुणस्थान मार्गणास्थानका तथा तीनलोकका तथा कर्मप्रकृतनिका तथा आचारका कथन आजाय तो जाएया विना यथावत् निःशंक संशयरहित नहीं व्याख्यान कर सकै । यातैँ समस्त शास्त्रनिका रहस्यका ज्ञाता होय । बहुरि लोकरीतिका ज्ञाता होय, जो लौकिकरचनमें मूढ होय सो लोकविरुद्ध व्याख्यान करै । बहुरि जाकैँ भोजन वस्त्र स्थान धन अभिमानकी आशा बांझा होय सो वक्ता यथार्थ व्याख्यान नहीं करै लोकनिकूँ रंजायमान किया चाहै, लोभीके सत्यार्थ वक्तापनो नहीं होय है । बहुरि जाकी बुद्धि तत्काल उत्तर देनेवाली होय जो वक्ताकूँ तत्काल उत्तर नहीं उपजै तो सभामें दोष होजाय, वक्ताको दृढ़प्रतीति सभानिवासीनिके नहीं आवै । बहुरि वक्ता होय सो मंदकषायी होय मंदकषायीविना लोभीका कपटीका क्रोधीका अभिमानीका दिया उपदेश कोऊ अंगीकार नहीं करै है, बहुरि वक्ता ऐसा होय जो श्रोतानिका प्रश्न हुआ पहले ही उत्तरकूँ दिखावनेवाला होय जो थै या कहो तो या है, अर या कहो तो या है । इसप्रकार व्याख्यान ही ऐसा करै जो श्रोतानिकूँ प्रश्न नहीं उपजि सकै, अगाऊ ही प्रश्नका माग मुद्रित करता व्याख्यान करै । जो बहुत प्रश्न होजाय तो सभामें क्षोभ मचि जाय बहुरि प्रबल प्रश्न हू कोऊ आय करै तो सहनशील होय क्रोधित नहीं होय जो प्रश्न श्रवणकरि क्रोधित होजाय तो कोऊ प्रश्न नहीं कर सकै । बहुरि जामें प्रभुत्वगुण होय जातैँ जाकूँ आपतैँ ऊंचा जानै ताहीकी शिक्षा ग्रहण करै, दीनकी नीचकी शिक्षा कौन ग्रहण करै, यातैँ यामें जगतके मान्य प्रभुत्वगुण होय, बहुरि परके मनका हरनेवाला होय जो समस्तके प्रिय होय । जो मनकूँ अप्रिय होय ताकी शिक्षा ग्रहण नहीं होय है ।

बहुरि जाकूँ आप आछीरीति आगमतेँ वा गुरुपरिपाटीतैँ नीका समझ लिया होय ताकूँ हाँ व्याख्यान करै जाकूँ आप ही पूरा नहीं समझा होय सो अन्यकूँ कैसेँ उद्योत करेगा, दीपक आप प्रकाशरूप हैं सो ही घटपटादिकनिकूँ प्रकाश है बहुरि जाकी प्रवृत्ति व्यवहारमें परमार्थमें धर्ममें लेनेमें देनेमें बोलनेमें विणजादिक जीविकामें, भोजन वस्त्रादिकनिमें उज्ज्वल यशसहित होय सो हाँ वक्ता होय जाकी प्रवृत्ति मलीन हो ताकैँ वक्तापना सोहै नहीं, मलीन होजाय सो जगतमें मान्य

नाहीं रहै । बहुरि जाकी अन्य लोकनिके ज्ञान उपजावनेमें परिणति होय, जाकी अन्यके समभावने में परिणति नाहीं होय सो काहेकूँ कहै । बहुरि रत्नत्रयमार्गके प्रवर्तवनेमें जाके उद्यय होय सो ही धर्मकथाका वक्ता होय, इसमें अन्य लौकिक प्रयोजन है ही नाहीं । बहुरि जाकी बड़ा ज्ञानीजन स्तुति करता होय, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी जाकी प्रशंसा करै ताका वचन जगतके दृढ श्रद्धानमें आजाप है । बहुरि उद्धतताकरि रहित होय, जातैं उद्धत होय सो समस्तके अप्रिय होय है । बहुरि लोकीति, देशकाल, श्रोतानिकी सुष्ठुता दुष्टता, प्रवीणता मूढता, शक्तता अशक्ततादिक समस्त जानि ऐसो उपदेश करै जो समस्त जन बड़ा आदरतैं ग्रहण करै, लौकिक ज्ञाता विना यथायोग्य उपदेश नाहीं होय । बहुरि कोमलतागुण जामें होय, कठोर परिणामीका कठोर वचन आदरने योग्य नाहीं होय जातैं श्रोता श्रवण करनेतैं परान्मुख होजाय है बहुरि जाके वक्तापनाकरि धन भोगादिककी वांछा नाहीं । बहुरि जाका मुखतैं अक्षर स्पष्ट उच्चारण होय, स्पष्ट अक्षर विना ममभ्रमें आवै नाहीं । बहुरि मिष्ट अक्षर होय, जातैं श्रोता जाने कि कर्णनिके द्वारकरि समस्त अङ्गनिकूँ अमृतकरि सींच दिया बहुरि श्रोताजन जाका स्वामित्व समझे । बहुरि सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्र वात्मल्यादि अनेक गुणनिका निधान होय ऐसे वक्तापनके अनेकगुणनिकरि सहित होय सो धर्मकथाका वक्ता होय । सो ऐसे गुणनिका धारक वक्ताको उपदेश कोऊ महाभाग्य पुण्यवान जननिकूँ मिले है । सम्यग्देशनालब्धिका पावना अनन्तकालमें हू दुर्लभ है ! बहुरि धर्मोपदेश हू मिले तो योग्य श्रोतापना विना धर्म ग्रहण नाहीं होय है जैसे योग्यपात्र विना वस्तु ठहरै नाहीं, अयोग्यपात्रमें धरै तो पात्रका अर वस्तुका दोऊनिका नाश होय है तैसे योग्य श्रोतापनाविना हू धर्मका उपदेश ठहरै नाहीं याहातैं श्रोताका लक्षण हू संक्षेपतैं ऐसे जानना ।

प्रथम तो भय होय जो उपदेश देते हू सम्यक्श्रद्धानादिक ग्रहण करनेयोग्य नाहीं होय ताकूँ उपदेश वृथा है । बहुरि मेरा कल्याण कहा है, मेरा हित कहा है ऐसा जाके सासता विचार होय जाके अपना हितकी वांछा नाहीं सो विना प्रयोजन धर्म कथा काहेको श्रवण करै, वे तो विषयका लाभ जातैं सधै ताकी वांछा करै हैं । बहुरि दुःखतैं अत्यन्त भयभीत होय जो मेरे अर नरकतिर्यचादिक पर्यायका दुःख मति होहू ऐसैं जाके भय नाहीं होय सो पाप छांडिवाका विषय-कषाय त्यागिवाका शास्त्र काहेकूँ श्रवण करै तातैं दुःखतैं भयभीत होय । बहुरि सुखका इच्छुक होय जाके कर्णइन्द्रिया नाहीं होय, कर्ण विगड़ गये होंय तो काहेतैं श्रवण करै । बहुरि जाके धर्मकथा श्रवण करनेकी इच्छा होय, इच्छा विना परिपूर्ण श्रवण होय नाहीं । अर इच्छा भी होय अर प्रमाद आलस कुसङ्गकरि श्रवण नाहीं करै तो इच्छा वृथा है अर जो श्रवण हू करे, अर ये गुरु ऐसे कहै हैं एती सावधानतारूप ग्रहण विना श्रवण वृथा है । अर ग्रहण हू होय अर जो धारण नाहीं होय, श्रवण करते ही विस्मरण होजाय तो ग्रहण करना वृथा है । बहुरि जो विचारपूर्वक प्रश्न-उत्तरकरि निर्णय नाहीं करै तो

श्रवणमें संशयादिक ही रहै तदि कैसें आत्म-हितके सन्मुख होय । बहुरि श्रोता है सो ऐसा धर्मकूं श्रवण करै जो दयामय होय अर सुवका करनेवाला होय अर युक्तिमें प्रमाण नयतैं जामें बाधा नाहीं आवै अर भगवान सर्वज्ञवीतरागके आगमतें प्रवर्त्या होय ऐसा धर्मकूं श्रवणकरि वारम्बार विचारकरि ग्रहण करै जो विचार-रहित होय मिथ्यात्वरूप हिंसाका कारण धर्म ग्रहण करले तो दुःख करनेवाला नरकादिकमें प्राप्त करै अर जामें युक्तिमें तथा सर्वज्ञवीतरागके आगमतें बाधा आजाय सो धर्म नाहीं है, अधर्म है; यातैं श्रवण करनेयोग्य नाहीं, हठग्रहादिक-दोषरहित होय हठग्राहीकूं शिखा लगै नाहीं इत्यादिक अनेकगुणनिका धारक होय सो श्रोता धर्मका उपदेश श्रवणकरि आत्मकल्याण करै है ।

अब इहां प्रकरण पाय श्रोतानिकी केतीक जाति दृष्टांतकरि कहै हैं केतेक श्रोता मृत्तिकाका स्वभाव लिए हैं जैसें मृत्तिका पानी पड़े जब तो नरम हो जाय पाछें कठोर होय तैसें धर्मश्रवण करते भावनिमें भीज जाय पाछै कठोर होय है । केतेक चालनी जैसें कण छांड़ि तुष ग्रहण करै तैसें धर्मकथामें सारगुण तो छांड दे अर औगुण ग्रहण करै हैं ते चालनीवत् जानना । बहुरि केतेक भैंसातुल्य श्रोता होय हैं जैसें उज्ज्वलजलका भरा सरोवरमें भैंसा प्रवेशकरि समस्त सरोवरकूं कर्दममय करै तैसें समस्त सभाके लोकनिका परिणाम मलीन करै हैं । बहुरि केतेक हंसतुल्य श्रोता हैं जैसें हंस जल-दुग्धका भेदकरि दुग्ध ग्रहण करै तैसें निःसार छांड़ि आत्महित ग्रहण करै हैं । बहुरि केतेक श्रोता सूत्रातुल्य हैं जिनकूं राम बुलावो तो राम बोलैं अर अन्य सिखावो तो अन्य बोलैं, जाकूं रामका हू ज्ञान नाहीं अर रहीमका हू ज्ञान नाहीं । तैसें पापपुण्यका विचार-रहित जो पढ़ावो सो ग्रहण करै विचार-रहित अपना-स्वरूप परस्वरूपका ज्ञान-रहित सूत्रापक्षीसमान श्रोता होय हैं । बहुरि केतेक मार्जारसमान श्रोता हैं जैसें मार्जार सूता हू अपना शिकारकी तरफ जाग्रत रहै तैसें कोऊ श्रोता अपना विषय कषाय वाणीमें छल ग्रहण करता तिष्ठै हैं । बहुरि कोऊ बगुला जातिका श्रोता ध्यानीसा बन्या रहै अपना विषय कषायकूं ग्रहण करै है । बहुरि कोऊ डांससमान श्रोता होय हैं बकराकूं वारम्बार बाधा उपजावै हैं । बहुरि कोऊ बकरा-जातिका श्रोता जैसें बकराकूं अंतर फुल्लेल सुगन्ध पान करावते हू दुर्गन्ध ही प्रगट करै है तैसें उज्ज्वलधर्म श्रवण करकै हू पापही उगलै है । बहुरि कोऊ जलौकासमान श्रोता है जैसें जौककूं स्तन ऊपर लगावै तो हू मलिन रुधिर ही ग्रहण करै । कोऊ फूटा घटसमान श्रोता है धर्मश्रवण करता हू चित्तमें लेशमात्र भी धारण नाहीं करै है । कोऊ सर्पसमान श्रोता है जो दुग्ध-मिश्रीकूं पान करावते हू प्रबल-जहर बधै है । कोऊ गाय समान उत्तमश्रोता है जो तृण भक्षणकरि दुग्ध दे है । बहुरि कोऊ पाषाणकी शिलासमान; जाकूं बहुत धर्मोपदेश देते हू हृदयमें प्रवेश नाहीं करै है । कोऊ कसौटी समान श्रोता परीक्षाप्रधानी हैं, कोऊ ताखड़ीकी डांडी समान घाट-बाध जानै हैं । ऐसे श्रोतानिका उत्तम मध्यम अधम अनेक जाति है जाका जैसा स्वभाव है तैसा

धर्मका उपदेश परिणाम है ऐसे धर्मोपदेश नाम स्वाध्यायका प्रकरणमें धक्का श्रोताका लक्षण कहा है । ऐसे पंच प्रकार स्वाध्याय वर्णन किया । स्वाध्याय करनेतें बुद्धि तो अतिशयवान होय है अभिप्राय उज्ज्वल होय है, जिनधर्मकी स्थिति दृढ़ होय है, संशयका अभाव होय है, परवादीको शंकाका अभाव होय है, परम धर्मानुराग होय है, तपकी वृद्धि होय है, आचारकी उज्ज्वलता होय है, अतीचारका अभाव होय, पापक्रियाका परिहार होय, कुधर्ममें रागका अभाव होय है, परमेष्ठीमें अतिशयरूप भक्ति होय, सम्यग्दर्शन प्रकट होय है, संसार-देह-भोगनिर्ते विरागता होय, कषायोंकी मन्दता होय, दयाभावकी वृद्धि होय, शुभ ध्यान होय आर्तारौद्रका अभाव होय, जगतके मान्य होय, उज्ज्वल यश प्रकट होय, दुर्गतिका अभाव होय, स्वर्गके उत्तम सुख तथा निर्वाणका अतीन्द्रिय सुखकी प्राप्ति होय इत्यादि अनेक गुणनिका उत्पन्न करनेवाला ज्ञान वीतराग सर्वज्ञका प्रकाशया आगमका अभ्यास विना मनुष्य जन्म व्यतीत मति करो । ऐसे स्वाध्यायनामा अंतरंग तपका पांच प्रकार स्वरूप कहा ।

अत्र कायोत्सर्ग नाम तपका स्वरूप कहिये हैं—जो बाह्य अभ्यंतर उपधिको त्याग सो कायोत्सर्ग है जो शरीर धन धान्यादिकको त्याग सो बाह्य उपधित्याग है अर अभ्यंतर मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा वेद परिणामनिका अभाव सो अभ्यंतर उपधित्याग है । बहुरि बाह्यत्यागमें अहारादिकका हू त्याग है संन्यासका अवसरमें आयुकी पूर्णता होय तहां यावज्जीव त्याग है सो आगै क्रमते सल्लेखनामें वर्णन करसी । ताते इहां विशेष नहीं लिखा है ।

अत्र ध्यान नामा तप छटा है ताकूं वर्णन करिये है—सो याका ऐसा स्वरूप जानना । जो एक पदार्थके सन्मुख चित्तमनका रुक जाना ध्यान है सो ध्यान उत्तम सहननवालेके अंतमुर्तत रहै है । एकाग्र चित्तमनका रुक जाना अंतमुर्तत अधिक काल उत्तम सहननवालेके भी नहीं रहै है । वज्रवृषभनाराचसहनन, वज्रानाराचसहनन, नाराचमहनन ये तीन उत्तम सहनन हैं । उत्तम सहननवालेके ही मुख्यपनाकरि चित्तका रुकना होय है । जो संसारमें गमन, भोजन, शयन, अध्ययनादिक अनेक क्रिया हैं तिनमें नियमरहित वर्ते है तहां ध्यान नहीं जानना । जहां एकके सन्मुख होय चित्तका रुकना सो ध्यान है । अर जहां एकाग्रता नहीं तहां भावना है । इहां प्रशस्त संकल्पते तो शुभ ध्यान है अर अप्रशस्त कल्पनाते अशुभ ध्यान है । तिनमें शुभ ध्यान दोय प्रकार है एक धर्मध्यान, एक शुल्कध्यान । अर अशुभध्यान हू दोय प्रकार है एक आर्तध्यान, दूजा रौद्रध्यान । ऐसे ध्यान च्यार प्रकार है । तिनमें अशुभ ध्यान तो विना यत्न ही जीवनिके होय है जाते अशुभ ध्यानका संस्कार तो जीवनिके अनादिकालते चला आवै है । कोऊ शास्त्र भी अशुभ ध्यान सिखावनेका नहीं है, विना शिवा ही जीवनिके होय है । अशुभ ध्यानका अभाव भये शुभध्यान होय है । ताते अशुभ ध्यानका अभावके अर्थ प्रथम च्यार प्रकारका आर्त-



ध्यानकूँ प्ररूपण करिये है— एक अनिष्टसंयोगज दूजा इष्टवियोगज, रोगजनित, निदानजनित, ए चार प्रकारका आर्तध्यान है। ऋत जो दुःख तातँ उपजै सो आर्तध्यान है जो अनिष्ट वस्तुका संयोगतँ महादुःख उपजै तिस अवसरमें जो चितवन सो अनिष्टसंयोगज आर्तध्यान होय है। जो अपना शरीरका नाश करनेवाले तथा धनका नाश करनेवाले तथा आजीविकाकूँ विगाडनेवाले तथा अपने स्वजन-मित्रादिके नाश करनेवाले ऐसे दुष्ट बैरी तथा दुष्ट राजा तथा राजाका दुष्ट अधिकारी तथा अपना दुष्ट पडोसीनिका संयोग मिलना तथा रोगी शरीर घोर दरिद्र नीचजाति नीचकुलमें जन्म, निर्बलता, असमर्थता, अंगहीनता इत्यादिक पावना, तथा सिंह व्याघ्र सर्प स्वान मूसा तथा अग्नि जलादिक तथा दुष्ट राक्षसादिकनिका संयोग मिलना, तथा दुष्ट बांधव तथा दुष्ट कलत्र पुत्रादिकनिका संयोग बड़ा अनिष्ट है इनका संयोगका दुःखमें जो संक्लेशरूप परिणाम होय इनका वियोगके अर्थ चितवन होना सो अनिष्टसंयोगज नामा आर्तध्यान है। जातँ अति शीत अति उष्णता अति वर्षा डांस मांछर कीडी ऊटकरण दुष्टनिफे दुर्घचन श्रवणकरि चितवनकरि स्मरणकरि परिणाममें बडी पीडा उपजै है अनिष्टका संयोगतँ दिवसमें रात्रिमें घर बारँ कोऊ स्थानमें कोऊ कालमें क्लेशनाहीं मिटै है तातँ आर्तपरिणामतँ घोर कर्मका बन्ध होय है सो समस्त अनिष्ट संयोगज आर्तध्यानका प्रथम भेद है। याकूँ परिणाममें नाहीं होने दे है तिन सम्यग्दृष्टीनिके बहुत कर्मकी निर्जरा है। जो ज्ञानी महासत्पुरुष हैं ते अनिष्टके संयोगमें आर्तकूँ नाहीं प्राप्त होय हैं। ऐसा चितवन करै हैं जो हे आत्मन् ! ये तेरे जो अनिष्ट दुःख देनेवाली मामग्री उपज्जी है सो समस्त तेरा उपार्जन किया पापकर्मका फल है कोऊ अन्यकूँ दूषण नाहीं है अन्यकूँ अपना घात करनेवाला मति जानो। जो पूर्वे परका धन हर्या है, अन्याय किया है, अन्य निबलनिकूँ सन्ताप उपजाया है, अन्यके कलङ्क लगाया है, मिथ्याधर्मकी शिखा करी है शीतवन्त त्यागी तन्स्वीनिकूँ दूषण लगाया है, खोटा मार्ग चलाया है, विकथामें रच्या है, अन्याय विषय सेये हैं निर्माल्य देवद्रव्य खाया है, ते कर्म अवसर पाय उदय आया है। अब याका उदयमें दुःखित क्लेशित होय भोगोगे त नवीन अधिक पापका बन्ध और करोगे। अर दुःखित हुवा कर्म नाहीं छाँडैगा अर अधिक दुःख वधैगा बुद्धि नष्ट हो जायगी, धर्मका लेशहू नाहीं रहैगा, पापका बन्ध दृढ़ होयगा तातँ अब धैर्य धारण करि समभावनितँ सहो। अर जो संक्लेशरहित ममभावनितँ सहोगे तो शीघ्र ही पापकर्मका नाश होयगा, यातँ परिणाममें ऐसा चितवन करो जो मेरे बड़ा लाभ है जो कर्म इस अवसरमें उदय आय रसदेय निर्जरै है मेरे यह बड़ा लाभ है जो जिनधर्म धारण होरहा है इस अवसरमें बडी समतासुं कर्मका प्रहारकूँ सहि कर्मके ऋणरहित होस्युं, जो यो कर्म अन्य अवसरमें उदय आवतो यातँ अधिक बन्धकरि असंख्यात भवनिमें याका उन्मत्तगर्त नाहीं छूटतो। ऐसा विचार हू करो जो ये अनिष्टके संयोग जर्म मोक्ष अनिष्ट मार्ग हैं तमें अन्य जीवनिके हू बाधा करनेवाला है, तातँ में अब किसी

अन्य जीवके अयोग्य वचनकरि अर अयत्नाचाररूप कायकरि अन्य जीवनिके दुख हानि होनेके चिंतवनकरि कदाचित् दुख करनेकी वांछा नहीं करूं। अर ये इस अवसरमें जो मेरे अनिष्ट संयोग मिले हैं तिनतैं असंख्यातगुणे नरक तिर्यंचपर्यायमें तथा मनुष्यपर्यायमें अनेक वार भोगे हैं अनेक दुर्वचन भोगे हैं अनेक मारनिकरि नित्य दुख भोगे हैं, अनेक जन्म दारिद्र भोग्या है। वहुरि वीर्य लादनेका दुख, मर्मस्थानमें मारनेका दुख, हस्त पग नासिका छेदनेका दुख, नेत्र उपाडनेका दुख, लुधाका, तृषाका, शीतका, उष्णताका, तावडामें पडा रहनेका पवन का दुष्टजीवनिकरि खात्रनेका चिरकाल पर्यंत वन्दीगृहमें पराधीन पडनेका, हस्त पांव नाक छेदने का, वन्धनेका घोर दुःख भोगे हैं तथा अनेक वार अग्निमें दग्ध होय बन्या हूं मरया हूं अनेक वार जलमें डूबि मरया कर्दममें फंमि मरया इसप्रकार तिर्यंचनिमें, मनुष्यनिमें उपजि अनिष्टका संयोग अनन्त वार भोग्या है, नरकगतिका तो दुख प्रत्यवज्ञानी जाननेकूं समर्थ हैं अन्य नहीं। इस संसारमें वास करैगा जेतें तो अनिष्ट संयोग ही रहैगा तातैं में पापकर्मकरि पंचमकालका मनुष्य भया हूं यामें अनिष्टके संयोगकर भय कहा है। यामें जो अनन्तकालमें जाका लाभ दुर्लभ ऐसा धर्मरूप परम निधान पाया इसका लाभका आनन्दकरि मोकूं अनिष्टसंयोगजनित दुखका अभावकरि परक समता भानतैं कर्मका उदयकूं जीतना योग्य है। ऐसे अनिष्टसंयोगजनित आर्त-ध्यानका अभाव करना।

अब आर्तध्यानका दूजा भेद इष्टवियोगज है। इष्टके वियोगतैं बडी आर्ति उपजै है जो अपने चित्तकूं आनन्द देनेवाला अनेक सुखनिकूं उपजावनेवाला ऐसा पुत्रका मरण होजाय वा आज्ञाकारिणी स्त्रीका वियोग होजाय, तथा प्राणिसमान मित्रका वियोग होजाय, वा बहुत-संपदा राज्य ऐश्वर्य भोगनिका देनेवाला स्वामीका वियोग हो जाय, तथा सुखतैं जीवनेकी कारण आजीविका नष्ट होजाय, तथा राज्यका भंग, पदस्थका भंग, संपदाका भग होजाय, तथा सुखतैं विश्राम करनेका कारण जायगा गृह स्थान नष्ट होजाय, वा सौभाग्य यश नष्ट होजाय, प्रीतिके करनेवाले भोग नष्ट होजाय, सो समस्त इष्टका वियोग है ऐसे इष्टके वियोग होते जो शोक भ्रम भय मूर्च्छादिक होना वारम्बार तिनका संयोगके अर्थ चिंतवन करना, रुदन करना, दुखमें अचेत हुवा विलाप करना, वारम्बार पीडित होना, हाहाकार करना, सो तिर्यंचगतिमें गमनका कारण इष्टवियोगज नाम आर्तध्यान है। इष्टके वियोगतैं बड़े-बड़े शूरवीरनिका धैर्य छूटि जाय है, महान पुरुष दीन होजाय है, हृदय फटि जाय है, मरणकर जाय है, उन्मत्त वावला होजाय है, कूप वावडीमें जाय पडै है, ऊंचे मकानतैं तथा पर्वततैं पडि मरै है, विषका भक्षण करै है शस्त्रादिककरि आत्मघात करै है, इस इष्टके वियोगकी आर्तिसमान कोऊ आर्ति नहीं है, इष्टवियोग की आर्तिकरि दोऊ लोक नष्ट होजाय हैं, कोऊ उत्तम पुरुष संसार देह भोगनितैं विरक्त श्रद्धानी सम्यग्ज्ञानी वीतराग सर्वज्ञके वचननिका अवलम्बन करनेवाला, वस्तुका सत्यार्थ स्वरूपकूं जानने-

वाला पुरुष ही इष्टका वियोगजनित दुःखकूँ जीतै हैं ते पुरुष ऐसी भावना करै हैं जो हे आत्मन् संसारमें जेते तेरे संयोग भया है तिनका नियमतै वियोग होयगा । वियोगके रोकनेकूँ कोऊ देवता इद्र मंत्र जंत्र औषधि सेना बल परिकर बुद्धि मित्र धन संपदा कोऊ समर्थ नाहीं है । इस अपना देहका ही वियोग अवश्य होयगा तदि इस देहका संबंधीनिकी कहा कथा है ? जो ये स्त्री पुत्र पुत्री माता पितादिकूँ अपना मानि प्रीति करै है सो तेरा संबंध इनके आत्मातै नाहीं है, जो ये मुख ऊपर चामडा वा दुर्गंध नाशिका तथा चामडाके नेत्र इनके विषै मोहबुद्धिकरि परस्पर अपना समान राग करै है सो इनका तो अग्निमें एकदिन भस्म होना हैं, तुम्हारा चामडाका अर इनका चामडाका अनन्त कालमें हूँ कैसेँ संबन्ध मिलैगा ? जिनका संयोग भया है तिनका नियमतै वियोग होयगा । माताका पिताका, प्यारी स्त्रीका सपूत पुत्रका आताका राज्यका ऐश्वर्यका धन-संपदाका महल मकानका देश नगर ग्रामका मित्रनिका स्वामीका सेवकका अवश्य वियोग होयगा । तातै इष्टका वियोगकी आर्ति करि अशुभ बंध मति करो । जो ये तुम्हारे इष्ट हैं तो तुमकूँ दुःख उपजावनेकूँ कैसेँ जतन करै ? तातै जो सम्यग्ज्ञानी हो तो परम धर्मरूप भावकूँ इष्ट मानो, जातै संसारके दुखतै छूटना होय । अर ये स्त्री पुत्र कुटुम्ब धन परिग्रहादिक इष्ट नाहीं हैं जो ममता उपजा पाप कर्ममें इन्द्रियनिके विषयनिमें प्रवृत्ति करावै, अनीतिमें प्रवर्तय दुर्गति पहुंचावै ते काहेका इष्ट ? इष्ट तो परम हितरूप धर्ममें प्रवर्तन करानेवाले धर्मात्मा गुरुजन हैं वा साधर्मी हैं अन्य नाहीं, ये कुटुम्बके जन तो तुम्हारे पुण्यका उदयतै धन संपदा है तेते सब अपने इष्ट दीखै हैं विना धन कोऊ अपना इष्ट मानै नाहीं । अर धन है सो पुण्यके आधीन है तातै पुण्यके प्रभावकूँ ही इष्ट मानो । जो पुण्यका उदय आवै तो स्वर्गलोककी महान् इष्ट सामग्री असंख्यात देवांकरि वदनीक इन्द्रपना, अर महाप्रेमकी भरी हुई हजारों देवांगना, अद्भुत भोग सामग्री मिलै है । अर पापका उदयतै अपना घना प्यारा पुत्र तथा यत्नतै पाल्या देहादिक ही घोर दुखके देनेवाले वैरी होजाय हैं । अर संसारमें अनन्त जीवनितै अनेक नाते भए एती माताका दुग्ध पिया है जाका एक एक बूँद एकट्ठा करिये तो अनन्त समुद्र भरि जांय, अर एते देह धारण करि छांटे हैं जो एक देहका एक एक रोम ध्वङ्गे करिये तो सुमेरु समान अनन्त ढेर हो जांय, अर एते कुटुम्बके तोकूँ रोये, अर कुटुम्बीनिके अथि तू गोया, जो अश्रुपात इकठा करिये तो अनन्त समुद्र भरि जांय । तातै सत्यार्थ विचार करो कौन-कौन से इष्टके वियोग गिनोगे, अनेक इष्ट ग्रहण करि छांटे हैं । बहुरि इष्ट विद्यमान हैं तिनकूँ हूँ छांड़नेका अवसर सन्मुख जरूर आया, अवसरका ठिकाना नाहीं कौन प्रकार आवैगी ? मृत्यु तो प्राप्त हुआ विना किसीकूँ नाहीं रहै, ममस्त इष्ट सामग्री जो थानै दीखै है अर जामें राग करो ही तिनतै वियोग होनेका अवसर अचानक आया जानो । जिनमें ममता धरि फसि रहे हो अर जिनके निमित्त पांच प्रकारके पाप कर्म हो ते अवश्य विहुरैंगे, अर ममस्त सामग्री है सो कोऊ हूँ वियोगके दिन कुछ करनेकूँ

समर्थ नहीं है । तातैं तिर्यचगतिका कारण इष्टवियोग में क्लेश मति करो । अर ऐसी भावना करो जो यो शरीर है सो जलमें बुदबुदावत् है जलमें विनष्ट होयगा । अर या लक्ष्मी इंद्रजालकी रचना तुल्य है, अर ये स्त्री-पुत्र कुटुम्बादिक हैं ते प्रचण्ड पवनका घातकरि प्रेरित समुद्रकी कल्लोलवत् चलायमान हैं, अर विषयनिका सुख संध्याकालका बादलांका रागवत् विनाशीक है । तातैं इनका वियोगमें शोक करना वृथा है । जो देह धारण है ताकै दुःख अर मरण तो अवश्य प्राप्त होयहीगा तातैं दुखका अर मरणका भय छांडि करि ऐसा उपाय चिंतवन करो जो देहका धारण करनेकाही अभाव होजाय । अर हे आत्मन् किसी देव दानव मंत्र तंत्र औषध दिकनिकरि नहीं रुकै ऐसा कर्मका वश करिकै जो अपने इष्टका मरण होते जो शोक करि दुर्घ्यान करना है सो उन्मत्त वावलाको आचरण है । जातैं शोक किये रुदन विलाप किये कौन करुणाकरि जिवाय देगा, शोककरि कुछभी सिद्ध नहीं, केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष समस्त नष्ट होयगा । जो कोऊ उपज्या है सो मरणके अर्थ ही उपज्या है । ज्यों समय व्यतीत होय है त्यों मरण का दिन नजीक आवै है । जैसे वृक्षके पृष्प फल पत्र उदय भये हैं ते पतन ही करै हैं तैसे कुलरूप वृक्षमें माता पिता पुत्र पौत्र जे उपजै हैं ते विनसैहींगे, यामें शोक करना वृथा है । या भवितव्यता है सो दुर्लभ्य है, पूर्वे उपार्जन किया कर्मके उदय आये पाछे फल नहीं रुकै है । अब जो उदयके आधीन इष्ट वस्तुका नाश भया, ताका विलापकरि शोक करै है सो अंधकारमें नृत्यका आरम्भ करै है, कौन देखैगा ? पूर्वे उपार्जन किया कर्मका उदयका अवसरमें जाका आयुका अंत आयगा, तथा वियोगका अवसर आगया तिस कालमें ताकूँ कौन रोकैगा ? तातैं दुःख छांडि परम धर्ममें यत्न करो । प्रथम तो जे धनका उपार्जनके अर्थ परिग्रह वधावनेके अर्थ, बहुत जीवनेके अर्थ, महासंक्लेश दुर्घ्यान करै हैं ते महामूढ हैं । बांझा किये क्लेशित भये पुण्यका उदय विना कैसे प्राप्त होयगा । अर जो आपका इष्ट मर गया, ताकूँ दग्धकरि दिया अर एक एक परमाणु धूम्रादिक भस्म होय उड गये, ताके प्राप्तिके अर्थ जो शोक करै तिस समान सुख और कौन देखिये ? इस जगतकूँ इंद्रजाल-समान प्रत्यक्ष देखता हू शोक कैसे करे है । जो मरणको वियोग को हानिको जो दिन आजाय ताकूँ एक क्षण हू टालनेकूँ कोऊ इन्द्र जिनेन्द्र समर्थ नहीं हैं । ऐसे जानता हू जो रुदन विलाप करै है सो निर्जनवनमें बहुत पुकारकरि रोवै है, कौन दया करैगा पूर्वोपार्जित कर्म अचेतन है बाकै दया है नहीं । जो अपना इष्ट वस्तु विनाशि जाय, ताका तो शोक करना उचित है जो शोक कियेतैं वस्तेका लाभ होजाय, तथा आपके सुख होय, तथा जगतमें बड़ा यश कीर्तन होजाय, तथा धर्मका उपार्जन होजाय, तो इष्टके वियोगका शोक हू करना ठीक है । अर जो कुछ भी लाभ नहीं होय, अर केवल शोकतैं धर्मका नाश होय, बुद्धिका नाश होय, शरीरका नाश होय, इन्द्रियां नष्ट होय । नेत्रनिकी जोति नष्ट होय, प्रकट घोर दुःख होय, परलोकमें दुर्गति होय, अन्य श्रवण करनेवालेनिके क्लेश होय, आपके रोगकी उत्पत्ति

होय. बलवीर्यका नाश होय, व्यवहार परमार्थ दोऊंका नाश होय. धीरता नष्ट होय, ज्ञान नष्ट होय इत्यादिक अनेक दुःखनिका कारण शोक है तातैं तिर्यचगतिमें अनेक जन्म उपार्जन करने-वाला इष्टवियोगज नाम आर्तध्यान कदाचित् मति करो ।

बहुरि जो इष्टका वियोग है सो पापका फल है सो अब याका शोक कीये कहा होइगा ? पापकर्मके नाश करनेमें यत्न करो, जो फिर इष्टवियोगादिकके दुखका पात्र नाहीं होवोगे । जो इष्ट वियोगकरि दुखरूप क्लेशित होरहे हैं सो ऐसा असाता कर्मका बन्ध करै हैं जो आगतै संख्यात असंख्यात भव-पर्यंत दुःखकी परिपाटीतैं नाहीं छूटेगा । जो यो क्षण-क्षणमें आयु नष्ट होय है सो काल-मुखमें प्रवेश है । कोऊ ऐसा अनन्त कालमें न हुआ न होसी, जो देह धारण-करि मरणकूं नाहीं प्राप्त होय ? सूर्य चन्द्रमादिक देवता तथा पत्नी ये तो आकाश ही में विचरें हैं, अर मनुष्य तिर्यचादिक पृथ्वीमें ही विचरें मच्छ-कच्छादिक जलहीमें विचरें । अर यो काल स्वर्ग में नरकमें आकाशमें पातालमें जलमें थलमें सर्वत्र विचरै है । यातैं कौन उवारै है ? जो दिन निरन्तर व्यतीत होय है सो आयुका बड़ा बड़ा खंड प्रत्यक्ष टूटता चल्या जाय है । सागर-निका जिनका आयु ऐसा अणिमादिक हजारों ऋद्धिके धारक जिनका असंख्यात देव सेवा करै, तिनका ही विनाश होय है तो कीटसमान मनुष्य कैसे स्थिर रहैगा ? जिस पवनतैं पहाड़ उडि गये तातैं तृणपुञ्ज कैसे ठहरैगा ? ऐसा चिंतवनकरि इष्टका वियोग होतैं आर्तध्यान कदाचित् मति करो । ऐसे इष्टवियोग आर्तध्यानका अर याके जीतनेकी भावनाका वर्णन कीया ।

अब रोगजनित आर्तध्यानका स्वरूप कहिये है—इस शरीरमें रोग आय उपजै है तदां जो रोगका नाश होनेके अर्थ वारम्बार संक्लेशरूप परिणाम होय सो रोगजनित आर्तध्यान है जो काम स्वाभ ज्वर वात पित्त कफ उदरशूल मस्तकशूल नेत्रशूल कर्णशूल दन्तशूल जलोदर स्फोदर कोठ खाज दाद सग्रहणी कठोदर अतीसार इत्यादिक प्राणनिका नाश करनेवाला घोर वेदना देनेवाले रोगनिका उदयकरि घोर दुःख उपजै है, रोगनिकी पीडाकरि एकस्वास भी लेणा महा-संकटतैं होय है, वैद्या ऊभा वा शयन करता कहां हूं परिणाममें थिरता नाहीं लेने दे है । तिस अवसरमें परिणामनिमें बड़ा दुःखकरि उज्ज्या पीडाचिंतवन नाम आर्तध्यान होय है । या रोग-जनित वेदना ऐसी है जो बड़े बड़े कोटीभट महाशूरशिर अनेक शस्त्रनिके सन्मुख होय घात खानेवाले शूरीरनिका हू धैर्य चलायमान होजाय है, बड़े बड़े त्यागी तपस्वी परीपहनिके सहने-वालेनिका हू धैर्य चलायमान करदं है ऐसा रोग वेदनाजनित आर्तध्यानके जीतनेका सामर्थ्य बड़ा दुर्घर है, रोगजनित वेदनामें आर्तपरिणामका जीतना भगवान् जिनेन्द्रका शरणातैं जानो । मोटा शरणविना पैसा दुर्गर वेदनामें धैर्य नाहीं रहता है; तातैं ही जानी सर्वज्ञका शरण ग्रहण-करि चिंतवन करै है जो हे आत्मन्, यह भयानक घोर असातकर्म उदय आया है अब जो यामें मिलाप करोगे तो दुख कौन दूर करैगा, अर तउफडाहट करोगे तो ये वेदना छांडनेकी नाहीं ।

धीर होय भोगोगे तो भोगोगे, अर कायर होय भोगोगे तो भोगोगे । रोग देहमें देहकूँ मारैगा ? तुम्हारा आत्माकूँ नहीं मारैगा । तुम्हारा आत्मा तो ज्ञायकस्वभाव अविनाशी है परन्तु इस देहके फंदेमें आय फंसया सो अब धैर्य धारण करि कायरता छांडो । जो इस संसारमें कोटनि रोगका उदय तथा ताडन मारणादि त्रास नरकमें भोगा, अर तिर्यचगतिमें प्रत्यक्ष घोर दुख रोगनितैँ उपज्या देखो हो ? औरसैँ तो भाग भी जाय, परन्तु कर्मसैँ नहीं भाग सकोगे । यो कर्ममय शरीर तुम्हारा एक एक प्रदेशकूँ अनन्त कर्मके परिमाणुनि करि बांधि अपने आधीन करि राख्या है सो कैसेँ भागने देगा ? अर जो कर्म है सो तो मरण किये हूँ नहीं छांडैगा । देह छूटैगा कर्म तो अन्य देह धारोगे तहां हूँ लार ही रहैगा । रोगमें जे धैर्य धारण करैँ हैं तिनके कर्मकी बड़ी निर्जरा होय है । बहुरि ऐसा हूँ विचार करो । जो मुनीश्वर तो ग्रीष्ममें आतापकी वेदना अर शीत ऋतुमें शीत वेदना कर्मनिके जीतने वास्ते बड़ा उत्साहधरि सहैँ हैं, तुम्हारे कर्म आप ही उदय आया तो यामें शूरपणो अङ्गोकार करि कर्मकूँ जीतो । अर ऐसा हूँ देखो जो केतेक मनुष्य निर्धन हैं अर एकाकी हैं स्थानरहित हैं खान पान मिलैँ नहीं हैं, अर कोऊ पूछनेवाला नहीं, कोऊका सहाय नहीं, अर शरीरमें उपराऊपरि रोगनिका क्लेश आवैँ है, कोऊ पाणी पावनेवाला हूँ नहीं, ताका विलाप कौन सुनैँ ? ऐसा दुखका धारक अज्ञानी हूँ आपकूँ असहाय एकाकी निर्धन समझि आपकी आप भोगैँ है तुम्हारे तो शयन करनेकूँ स्थान है, खानेकूँ भोजन है, रोगीकी औषधि है, ताता ठण्डा समस्त सामग्री है चाकरी करनेवाला सेवक है स्त्री है पुत्र है मित्र है, मलमूत्रादिक धोवनेवाला है, अब तोकूँ समभावतैँ वेदना सहना, कायरता छांडना, धैर्य धारि आर्त छांडना ही योग्य है । धर्मधारणका ये ही फल है जिनके कोऊ प्रकार सहाय नहीं, सो हूँ धैर्य धारण करैँ हैं तो हे आत्मन् ये जिनधर्म धारण करकैँ हूँ अर कर्मके उदयकूँ अरोक समझ करि कैसेँ कायरता धारो हो अर बन्दीगृहमें घोर रोगवेदना भोगते केतेक मरैँ हैं, तथा तिर्यचमें घोर रोगकी वेदना अर रोगी हुवा निर्जनवनमें पडना, कर्दम में फंसना, तावडामें शीतमें पड्या रहना, पंड्याकूँ अनेक जीव काटि काटि खावना इत्यादिक घोर वेदना संसारमें भोगिये है । संसार तो दुखहीका भरचा है, ऐसा कौन रोग है जो संसारमें अनेक वार नहीं भोग्या, तातैँ रोगमें जिनधर्म ही शरण है, जिनेन्द्रका वचनहीकूँ जन्म-मरण जर-रोगके नाश करनेवाला जानहु । अन्य औषधि इलाज साताकर्मके सहायतैँ असाताकूँ मन्द होते उपकार करैँ है असाताका प्रबल उदयमें समस्त उपायनिकूँ निष्फल जानि अशुभ कर्मके नाशका कारण परम समताभाव ही धारण करना श्रेष्ठ है । ऐसैँ रोगजनित आर्तध्यानके जीतने की भावना कही ।

अब निदान नामक चतुर्थ आर्तध्यानका स्वरूप वर्णन करैँ हैं—जो देवनिके भोगनिकी बांझा करना तथा अपसरानिका नृत्यादिक देवनेकी बांझा कर्ना अपना सौभाग्य चाहना अर्थात्

रूप चाहना, अखंड ऐश्वर्यसंयुक्त राज्य विभूतिकी वांछा करना, सुन्दर महल मकान रमनेकूँ चाहना, रूपवती स्त्रीका कोमल सुकुमार अंगोंका स्पर्श चाहना, शय्या आसन आभरण वस्त्र सुगन्ध मिष्ट वांछित भोजन चाहना नाना रससहित क्रीडा-विहार चाहना, वैरीनिका तिरस्कार, वैरीनिका मरण चाहना, अपने वांछित विभूति चाहना, समस्त जगतके मध्य अपनी उच्चता चाहना, अपनी आज्ञावारैँ तिनका विजय चाहना; तिरस्कार चाहना सद्का पुष्टकरनेवाली, समस्त पण्डितनिकूँ तिरस्कार करनेवाली विद्या चाहना, राजनीतिकूँ अपने आधीन चाहना, आजीविका की वृद्धि चाहना, परके कुटुम्बका संपदाका नाश चाहना, अपने कुटुम्बकी वृद्धि, धनका लाभ चाहना, अपना दीर्घकाल जीवित चाहना, अपना वचनकी सिद्धिका चाहना, अपना कपट-भूठ में गोप्यता चाहना, अन्य जीवनिका आपतैँ न्यूनता चाहना, आपकी समस्तके मध्य उच्चता चाहना, समस्त भोगनिकी वांछा अपना निरोगपना, अपने अद्भुत रूप संपदा आज्ञाकारी पुत्र चतुर सेवक इत्यादिकी जो आगामी वांछा करना सो निदान आर्तध्यान है। संसार परिभ्रमण का कारण पुण्यका नाश करनेवाला जानि कदाचित् निदान मति करो जातैँ वांछा तो पापका बन्ध है। भोगनिकी अभिलाषा अर अपना अभिमानकी पुष्टता चाहना है सो अपना संचय किया पुण्यका नाश करैँ है जातैँ निर्वाछक परिणाम हीतैँ पुण्यबन्ध होय है। जातैँ अपनी उच्चता की वांछा अर विषययिनिका लोभ तीव्रकषायी पर्यायबुद्धि विना कौन करैँ ? अर ये विषय हैं अर ये अभिमान हैं ते केते दिन रहैँगा अनन्तानन्त पुरुष पृथ्वीमें संपदावान, बलवान, रूपवान विद्यावान प्रलयकूँ प्राप्त होय गये, यह काल अचानक ग्रसैँगा, एते काल भोग कहा कीया ? ये भोग अतृप्तिताके करने वाले हैं, दुर्गति लेजानेवाले हैं, चाह कीये कदाचित् प्राप्त हू नहीं होय हैं; असंख्यात जीव चाहकी दाहके मारे बलैँ हैं। मरण निकट आजाय तहांहू चाह ही है उपजैँ चाहकरि जगत बलैँ है। जगतजीवनिकैँ ऐसी तृष्णा है जो त्रैलोक्यका राज्यसे भी तृप्तिता नहीं आवैँ, तो देखो कौन-कौनके समस्त लोकका राज्य आवैँगा ? या खाक-समान अचेतन धनसंपदा है, या करि आत्माकैँ कहा साध्य है ? लोकमें संपदा परिग्रह-अभिमान महादुःखदायी है अपनी अविनाशिक ज्ञानकी संपदा सुखसंपदा स्वाधीनताकूँ प्राप्त होनेका यत्न करो। संतोष-समान सुख नहीं, संतोष-समान तप नहीं। मिले विषयनिमें संतोष-धारिकरि कांछारहित तिष्ठैँ हैं तिनकैँ बड़ा तप है, कर्मकी निर्जरा करैँ हैं। अर वांछा करैँ हैं तिनकूँ कहा मिलैँ है ? अनंतानंत जीव विषय-कषायनिकी प्राप्तिकूँ तरसते तरसते मरि दुर्गति चले जाय हैं, तातैँ जो जिनेन्द्रधर्म तुम्हारे हृदयमें सत्यार्थ रच्या है तो गई वस्तु तांकूँ चितवन मति करो, अर आगामीकी वांछा मति करो, अर वर्तमान कालमें जो कर्मका शुभ अशुभ रस उदय आया ताकूँ रागद्वेषरहित हुआ भोगो जो यह शुभ-अशुभ का संयोग है सो हमारा स्वभाव नहीं, कर्मका उदय है, ऐसा निश्चयकरि आगामी वांछाका अभाव करि निदाननाम आर्तध्यानकूँ जीतो। ऐसैँ चार प्रकार

आर्तध्यानका स्वरूप कहा । याका उपजना छट्टे गुणस्थानपर्यंत है । निदान नाम आर्तध्याः पंचम गुणस्थानपर्यंत ही होय है, निदान छट्टा गुणस्थानमें नाहीं होय है । यो आर्तध्यान कृष्ण नील कापोत तीन जो अशुभ-लेश्या तिनके बलकरि उपजै है पापरूप अग्निके बधावनेकूं ईंधन समान है, यो आर्तध्यान अनादिकाल का अशुभसंस्कारतैं विना-यत्न ही उपजै है, याका फल अनंत दुःखनिकर व्याप्त तिर्यचगतिमें परिभ्रमण है । चायोपशमिकभाव है, याका अन्तमुर्हूर्त-काल है, जाका हृदयमें आर्तध्यान होय है ताका बाह्य शरीर ऊपरि ऐसे चिह्न होय हैं—शोक शंका भय प्रमाद कलह चिंता भ्रम भ्रांति उन्माद चारम्बार निद्रा, अंगमें जडता श्रम मूर्च्छा इत्यादि चिह्न प्रकटैं हैं । ऐसैं आर्तध्यानका स्वरूप कहा ।

अब आगे चार प्रकारका रौद्रध्यान त्यागने योग्य है तिनका स्वरूप दिखावै हैं—  
हिंसानंद, मृपानंद स्तेयानंद, परिग्रहानंद, ये चार प्रकारके रौद्रध्यान हैं । तिनमें प्रथम हिंसानंद का ऐसा स्वरूप जोनना—जो प्राणीनिका समूहका आषकरि वा अन्यकरि घात होते जो हर्षका उपजना सो हिंसानन्द रौद्रध्यान है । जाकै हिंसाके कारण विषयनिमें अनुराग होय, जलयंत्र बन्धावनेमें तलाव बावडी कूवा नहरि नदी नाले खुदावनेमें अनुराग होय, तथावन कटनेमें बाग-बगीचा लगनेमें सड़क खुदनेमें बांध-बधनेमें अनुराग होय, तथा ग्राम दग्ध करनेमें, गूह दग्ध होनेमें पर्वत कटनेमें अनुराग तथा युद्ध होनेमें, परधनके विध्वंस होनेमें, दारूके ख्याल छूटनेमें, धाडामें लूटिमें अनुराग, तथा जलचर स्थलचर नभचरनिकी शिकार करनेमें जीवनिके मारने जीवनिके पकड़नेमें बन्दीगृह देनेमें अनुराग सो समस्त हिंसानंद रौद्रध्यान है । रौद्रध्यानीका निरन्तर निर्दयस्वभाव होय है अर क्रोधस्वभावकरि प्रज्वलित रहै है । मदकरि उद्धत पाप-बुद्धि पापमें प्रवीणतायुक्त है, परलोककी नास्ति, धर्म कर्मकी नास्ति माननेवाला है, रौद्रध्यानीके पापकर्ममें महानिपुणताकरि अनेक बुद्धि अगाऊ खडी हाजरी दे है । अर पापके उपदेशमें बडी निपुणता है, अर नास्तिकमतके स्थापनमें बडी निपुणता, अर हिंसाके कार्यमें रागकी अधिकता, निर्दयिनिकी संगतिमें निरन्तर बसना सो समस्त हिंसानंद है । बहुरि जिनतैं अपना विषय कषाय पुष्ट नाहीं होय, तिनमें ऐसा चिंतवन करै— इनका घात कौन उपाय करि होय, इनके मारनेमें कौनकै अनुराग है, इनकूं मूलतैं विध्वंस करनेमें कौनके निपुणता है, वा ये केतेक दिननिमें कैसैं मारे जांयगे, ये मारे जांयगे तदि ब्राह्मणनिकूं मनोवांछित भोजन कराऊंगा, तथा देवतानिका पूजन आराधना करूंगा तथा वैरीनिका नाशके अर्थि धन देय जाप करावना, दुर्गापाठ करावना, तथा अपने मस्तक डाढीका चौर नाहीं करावना, केश बधावना, इत्यादिक परिणामनिमें संक्लेश धारना सो समस्त हिंसानंद है । तथा जलके स्थलके विकलत्रय आकाशचारी जीवनिके मारनेमें बलि देनेमें, बांधनेमें, छेदनेमें जाकै बड़ा यत्न तथा जीवनिके नख नेत्र चाम उपाडनेमें, जीवनिके लडावनेमें बड़ा अनुराग जाकै होय ताकै हिंसानंद है । याकी जीत याकी हार, याका तिरस्कार



याका मरण, याकै धनका नाश याकै स्त्री पुत्रका मरण वियोग होह, ऐसा चितवन तथा इनके श्रवण करनेमें देखनेमें स्मरणमें अनुराग सो हिंसानंद है । बहुरि ऐसा विकल्प करै है जो कहा करूं, मेरी शक्ति नाहीं, कोऊ जवर मेरा सहाई नाहीं वो कौनसा दिन उदयकारी आवै, जो नाना त्रास देय मेरा पूर्वला शत्रुनिकूं मारूं, वा जो मेरा सामर्थ्य इहां नाहीं होसी तो परलोक ताईं मारस्यूं, तथा परका निरन्तर अपकार चाहै, अर परके विघ्न आजाय, हानि वियोग अपमान होजाय तदि बड़ा हर्ष मानना सो समस्त हिंसानन्द नाम रौद्रध्यान है । ऐसैं अनेक प्रकारके हिंसाके विकल्प करना सो हिंसानन्द है । बहुरि हिंसानन्दके बाह्य चिन्ह हैं जो हिंसाके उपकरण खड्ग छुरी कटारी इत्यादिक शस्त्र ग्रहण करना, शस्त्रनितैं मारने विदारनेके दाव घात चितवन करना, मारनेकी कलामें निपुणता रचना, हिंसक जीवनिका पालना, हिंसक चीता कूकरा शिकरा (वाज) इत्यादिक जीवनिकूं निकट राखना, सो सब हिंसानन्दके बाह्य चिन्ह हैं ।

अब मृषानन्द नाम रौद्रध्यानका दूसरा भेद ऐसा जानना जिनका मन असत्यकी कल्पना करनेमें निपुण होय अर ऐसा चितवन करै, तथा ऐसा कोऊ जाल खड़ा करै, जो लोकनिको बश करि धन ग्रहण करै, वा ऐसा विद्याका लाभ दिखावै, वा रसायणका लाभ दिखावै, वा मन्त्रका व्यंतरनिका तथा इंद्रजालकी विद्याका ऐसा चमत्कार दिखावै, जो ये लोक अपने आधीन होजाय, आप भूलि हमारै आधीन होजाय, तदि मेरी वचनकला सफल है । तथा पापी परलोकका भयरहित होय अपना पण्डितपणके बलतैं कल्पित शास्त्र बणाय जगतूं विपरीत धर्म दिखावना हिंसादिक आरंभमें यज्ञादिकमें धर्म बतावना रागी द्वेषी देवतानितैं वाञ्छित कार्यकी सिद्धि बतावना, देवतानिकूं मांसभक्षी मद्यपायी बतावना, देवतानिके बकरा भैंसा इत्यादिक जीव मारि चढ़ावनेकरि वाञ्छित कार्य सिद्ध होय, वैरीनिका विध्वंस होय, राज्यादिकनिकी लक्ष्मी दृढ़ होय, इत्यादिक खोटे शास्त्र रचना, परिग्रही आरम्भीनिकूं पापमें प्रवर्तन करावना, अर देवतानिके प्रसन्न करने वालेनिकूं मोक्षमार्गी बतावना, इत्यादिक बहुत खोटे धर्मशास्त्र रचना तथा राग वधावनेवाली कामके पुष्ट करनेवाली तथा राजकथा भोजनकथा स्त्रीकथा देशकथा करनेमें श्रवणमें आनन्द मानना, परके भूठे सांचे दोष कहनेमें अपनी बड़ाई करनेमें आनन्द मानना सो मृषानंद है तथा असत्यका सामर्थ्यतैं भूठेनिकूं सांचे दिखाना सांचेनिकूं भूठे दिखाना, सदोषनिकूं निर्दोष कहना, निर्दोषनिकूं दोषसहित कहना तथा ऐसा विचार जो ये लोक मूर्ख हैं ज्ञान-विचार-रहित हैं इनकूं वचनकी प्रवीणतातैं अनर्थ कार्यानिमें प्रवर्तन कराय भ्रष्ट करदेस्यूं धनसंपदा राखि लेस्यूं यामें संशय नाहीं, इत्यादिक अनेक असत्यका संकल्प करना सो नरकगतिका कारण मृषानन्द नामा दूजा रौद्रध्यान जानना ।

अब तीजा चौर्यानन्द नाम रौद्रध्यानका ऐसा स्वरूप जानना—जो चोरीका उपदेशमें सत्परपणा तथा चोरी करनेकी कालमें निपुणपणा सो चौर्यानन्द है । तथा जो परधन हरनेके अर्थ रात्रिदिन चितवन करना, अर चोरी करि धन न्याय बड़ा हर्ष मानना तथा अन्य कोऊ

चोरी करि धन उपार्जन किया होय ताकूँ देखि विचारै जो देखो याकै एता धन हाथ लागि गया मेरे परका धन कैसे हाथ आवै कौन उपाय करे, कौनका महाय लेवै, कैसे धिजावै, कोऊ ऐसा पुण्य कव उदय आवै जो कोऊ गिरवा पड्या भून्या धन हमारै हाथ लागि जाय, अन्य कोऊ चोरीकरि मोकूँ सौंपि जाय, वा चोरका माल हमारे अल्प मोलमें आ जाय, तथा बहुत मोलके रत्न सुवर्णादिक मोकूँ भूलि चूकि बेचि जाय सो बडा लाभ है। अथवा कोई अज्ञान तथा बालक मोकूँ बहुत मोलकी वस्तु दे जाय, ऐसा चिंतवन करना सो चौर्यानन्द है। वा ये रत्नक मर जाय, वा धनका धनी मर जाय, तो धन हमारे रहि जाये ऐसा चिंतवन स्तेयानन्द है। अथवा कोऊ बलवानका सैन्याका सहाय लेयकै वा बहुत प्रकार उपाय करकै इहां बहुत कालका संचय किया धन ग्रहण करूँ, वा कोई मायाचारकरि वचनकला करि पुरुषार्थकरि प्राणनिका संकल्पकरि तथा इनकूँ मार करि याका धन ग्रहण करूँ, तदि मेरा पुरुषार्थ सफल है। इत्यादिक चौर्यानन्द रौद्रध्यान है सो नरकगतिका कारण है।

अब परिग्रहानन्द रौद्रध्यानका स्वरूप कहै हैं—जो बहुत परिग्रहका वधावनेके अर्थि अर बहुत आरम्भके अर्थि जो चिंतवन करिये सो परिग्रहानन्द रौद्रध्यान है। जो विषयनिमें राग तथा अभिमानके वशि हुवा विचार करै जो ऐसा महल मकान रहनेकूँ हमारै बनि जाय वा कोऊ हमारा भाग्य फल जाय तो नाना चित्रशाला सुवर्णके स्तंभ सांकलमें हींडनेके हिंडोले वा नाना ऋतुके केई महल वा कोट कांगुरे गढ़ तोप बड़े दरवाजे ऐसे सुन्दर वाणऊं जो मेरे आंगणकी विभूति देखि लोकनिके आश्चर्य उपजै, तथा अनेक वाग लगाऊं, वागनिमें अनेक महल तथा जलके जन्त्र फवारे चादरि नदीनिका धोरा कुण्ड बावडी रूप द्रह नाना जलक्रीडाके स्थान कामक्रीडाके भोजन करनेके नाट्यगृहनिके स्थान वणै तदि मेरे मनोवांछित सफल है नाना ऋतुके फल फूल हमारे आगै नजर करै तथा मेरे महल मकानमें सुवर्णमय रूपामय वस्त्रमय ऐसी सामग्री अन्य मनुष्य निके नाही देखियै ऐसी प्राप्ति होय तदि मैं धन्य हूं, अथवा मेरे शरीरका अद्भुत रूप देखनेकूँ हजारों स्त्रियां पुरुष अति अभिलाषा करै तथा अपने नखस्यूं नेय शिख पर्यंत हीरानिके आभरनिका जोड, पन्नाके माणिक्यके इन्द्रलीनमणिके मोतीनिके बहुमूल्य आभरणनिका चाहना, अर इस संपदानै भूषित करनेवाले महान कोमल बहुमूल्य वस्त्रनिका चाहना नाना प्रकारके सुवर्णमय रत्नमय रूपामय उपकरण नाना प्रकारकी वांछा करना, तथा कोमल सुकुमारांगी रूगलावण्य करि देवांगनानिकूँ जीतनेवाली शीलवती प्रिय हित वचन सहित प्रेमकी भरी स्त्रीनिका संगम चाहना, आज्ञाकारी शूरवीर धनवान विद्यावान विनयवान यशस्वी ऐसे पुत्रका चाहना, अपने मन समान वांछित कार्यके साधनेवाले महाचतुरतायुक्त प्रवीण स्वामिभक्त ऐसे सेवकनिका, समस्त लोकनितै अधिक ऐश्वर्य परिवार विभूति होनेका चिंतवन करि आनन्द मानना, तथा आपके जैसे जैसे धन सम्पदा बधै ताका आनन्द मानना सो

परिग्रहानन्द है। अथवा अपने गृहमें सुवर्णका कांशा पीतल लोहका तामाका पापाणका काष्ठका चीनीका काचका माटीका कागदका वस्त्रका जो जो कोऊ परिग्रह वधै, कोऊ दे जाय, वा किसी का रहि, जाय, वा धनकरि खरीद होय आ जाय तिस परिग्रहकू देख वा चितवनकरि हर्षका वधावना, आनन्द मानना, परिग्रह वधनेतैं आपकू उंचा मानना सो समस्त परिग्रहानन्द रौद्र-ध्यान है। तथा ऐसा चितवन करै जो कोऊका जमीन जायगां मेरे आ जाय वा इसकी जीविका मेरे आजाय तथा याकै आगैं कोऊ कार्य करनेलायक नाहीं है जो यो मरण करि जाय तो मेरा ही याकी जीविकामें वा संपदामें अधिकार हो जाय, याकै बालक पुत्र असमर्थ स्त्रीनिका तिरस्कार करि में एकाकी निष्कण्टक सम्पदा भोगूँ ऐसी अभिलाषा करना परिग्रहानन्द है। तथा परके राज्यसम्पदा धन जमीन जायगां तथा आजीविका तथा सुन्दर परिग्रह सुन्दर स्त्री आभरण हस्ती घोटकादिक जवरीतैं खोस लेनेकी बुद्धिका, शरीरका तथा सहाईनिका तथा कपट भूठ उपाय पुरुषार्थ इत्यादिक बल पावनेका अपने बड़ा आनन्द मानना सो समस्त परिग्रहानन्द रौद्र-ध्यान है। या रौद्रध्यान अनेक बार नरकमें प्राप्त करनेवाला तथा अनन्तवार तिर्यचनिके घोर दुःखनिका तथा अनेक कुमानुपनिके भवनिमें घोर दारिद्र्य घोर रोगका उपजावनेवाला जानि याका दूरहीतैं त्याग करो। यो रौद्रध्यान कृष्णलेश्याका बलसहित है पंचमगुण स्थानपर्यंत होय है परन्तु सम्यग्दृष्टी अव्रतीके तथा श्रावकव्रतके धारक गृहस्थनिके नरकादिकका कारण रौद्रध्यान नाहीं होय है। कोऊ कालमें ऐसा होय है जो अपना पुत्र-पुत्रीका विवाह करनेका तथा अपना मकान रहनेका बननावना तथा न्यायमार्गतैं जीविकामें लाभ होनेका कार्यानिका चितवनमें हू हिंसा होय है इनकू पापका कारण खोटा जानि आत्मनिन्दा करै है तो हू अपना आरम्भ कार्यमें कदाचित् किंचित् हर्ष होय ही है, अपने न्यायमार्गका प्रमाणीक परिग्रह प्राप्त भये हर्ष होय ही है, तथा अपना धनकू चोरादिक नाहीं हरण करि सकै तातैं अपनी रक्षा वास्ते भूठ कपट करतो हू अन्य जीविका प्राण धनादिक हरनेमें प्रवृत्ति नाहीं करै है, अपनी रक्षाके अर्थ कपटको आडी ढाल करै है, अन्यका घातके अर्थ कपट भूठकी तरवार नाहीं करै है। तातैं श्रावकके नरकादिक कुगतिका कारण ऐसा रौद्रध्यानका भाव नाहीं होय है। रौद्रध्यानीके ये बाह्य लक्षण हैं स्वभावहीतैं क्रूरता, परकू कठोर दण्ड देना निर्दयीपना, अति कपटीपना, समस्तके दोष ग्रहण करना इत्यादिक भाव होय हैं। अर बाह्य रक्त्नेत्र करना भृकुटी चढ़ावना भयानक आकृति, वचन में दुष्टता इत्यादिक बाह्य चिन्ह हैं न्यौपशमभाव है, अंतर्गृहृत काल है, पाछैं अन्य अन्य हो जाय हैं। ऐसै चार प्रकार आर्तध्यान चार प्रकार रौद्रध्यानकू त्यागैं तदि धर्मध्यान होय। इनकू त्यागे विना धर्मध्यानकी वासना अनादितैं भई नाहीं, तातैं धर्मका अर्थीनिकू दोऊ दुर्घ्यानका स्वरूप समझि अपने आत्मामें ऐसे आर्त रौद्रध्यानके ऐसे भाव कदाचित् मत होने दो। अत्र धर्मध्यानका स्वरूप वर्णन करिये है—इहां यो धर्मध्यान है सो कोऊ सम्यग्दृष्टीके

होय है, कोऊ विरला महान् पुरुष रागद्वेषमोहरूप पाशीकूँ छेदि परम उद्यमी हुआ बड़ा यत्नतैं धर्मध्यानकूँ कदाचित् प्राप्त होय है जैसेँ सूता बैठा चालता खान पान करता विषयनिकूँ भोगता कषायनिमें प्रवर्ततेके हू विना यत्न ही आर्त-रौद्रध्यान होय है तैसेँ धर्मध्यान नाहीं होय है धर्म-ध्यानका अर्थी केतेक स्थान परिणामकूँ विगाड़नेवाले हैं तिनका परिहार करै है जातैं स्थानके निमित्ततैं परिणाम शुभ अशुभ होय है तातैं परिणामकूँ विगाड़नेवाले स्थानका दूरहीतैं परिहार करो । खोटे स्थानमें परिणाम खोटे हो जांय हैं जो दुष्ट हिंसक पापकर्म करनेवाले पापकर्म तैं जीविका करनेवाले तीव्र कषायी नास्तिकमती धर्मके द्रोही जहां तिष्ठते होय तहां परिणाम क्लेशित हो जांय, तथा जहां दुष्ट राजा होय राजाके दुष्ट मन्त्री होय, पाखण्डी मिथ्यादृष्टी भेषधारीनिका अधिक होय, तहां धर्मध्यानमें परिणाम नाहीं लगै हैं । बहुरि जहां प्रजा ऊपरि परचक्रादिकका उपद्रव होय, दुर्भिक्ष मारी इत्यादिकरि प्रजा उपद्रवसहित होय, बहुरि जहां वेश्यानिका संचार होय व्यभिचारिणीनिका संकेत-स्थान होय, आचरणभ्रष्ट भेषधारीनिका स्थान होय, जहां रसकर्म रसायणके कर्म प्रवर्तते होय, मारण उच्चाटन विद्याके साधक होय, जहां हिंसादिक पापकर्मके उपदेशक कामशास्त्र तथा युद्धशास्त्र कपटी घूर्तनिकी प्ररूपी खोटीकथाके शास्त्रके प्ररूपणा करते होय, तथा जहां घूतक्रीड़ा करनेवाले मद्यपान करनेवाले व्यभिचारी भांड हूंम चारण भाटनिकरि युक्त होय, जहां चांडाल धीवर शिकारी वा कसायी इत्यादिक दुष्टनिका संचार होय, तथा दुष्ट तपस्विनी तथा स्त्रीनिका परिचार होय, नपुंसकनिका भमागम होय, दीन याचक रोगी विकल अङ्गके धारक आंधे लूले बधिर पीडाके शब्द करनेवाले होय, जहां शिकार करनेवाले हिंसक जीव कलह कामके धारक पशु मनुष्यादिक तिष्ठते होय, जहां जीवनिनै बिल बांधी कण्टक तृण विषम पाषाण टीकरे हाड मांस रुचिर मल मूत्र पंचेन्द्रिय जीवनिके कलेवर कर्दमादिकरि दूषित स्थान होय, जहां दुर्गंध आवता होय कूकरा बिलाव श्याल कागला घूघू इत्यादिक दुष्टजीव होय और हू शुभपरिणामके विगाड़नेवाले ध्यानकूँ नष्ट करनेवाले स्थान दूरहीतैं त्यागने योग्य हैं । जातैं खोटे स्थानके योगतैं अवश्य परिणाम विगडैं हैं तातैं जो शुभध्यानके इच्छुक होयते खोटे स्थाननिमें स्वप्नविषै हू वास मति करो । याहीतैं धर्मध्यानके अर्थ सुन्दर मनकूँ प्यारा शीत उष्ण आताप वर्षा अतिपवनका वाधारहित डांस मांछर अन्य विकलत्रयादिकनिकी वाधा रहित शुद्ध भूमि तथा शिलातल तथा काष्ठका फलक होय तिन ऊपरि तिष्ठ करि शून्य गृह पुरातन बाग वनके जिनमन्दिर वा अपने घृहमें निराकुल एकांत स्थान वाधा-रहित होय, रागद्वेषादिकके उपजावनेकरि रहित, कोलाहल शब्दरहित, नृत्य गीत वादित्रादि रहित होय, कलह विसंवादादि रहित, हिंसारहित स्थान हैं धर्मध्यानके इच्छुक होय निश्चल तिष्ठो । जातैं धर्मध्यानमें स्थान की शुद्धता आसनकी दृढता प्रधान कारण है । जाका आसन दोय प्रहार हू दृढ़ नाहीं होय ताकै सेवा कृषि बाणिज्यादिक ही विगडि जाय तो धर्मध्यान आसनकी दृढता विना कैसेँ बने । बहुरि

नीन जे उत्तमसंहनन तिनके धारकनिकै ही ध्यानमें दृढता होय है जिनका वज्रमयसंहनन है अर महाबल पराक्रमके धारक हैं अर जे देवमनुष्यनिकै घोर उपसर्गतें बलायमान नहीं होय जाका आसन मन दृढ़ होय सो तो जैसा स्थान वा आसन होय तिसहीतैं ध्यान करि सकै है। अर जे हीन संहननके धारक हैं तिनकूं तो स्थानकी शुद्धता अर आसनकी शुद्धता अवश्य देखि धर्मध्यानमें प्रवर्तन करना श्रेष्ठ है। जिनका चित्त संसार देह भोगनितैं विरक्त होय, चित्तमें विक्षिप्तता नहीं होय, संशयरहित आत्मज्ञानी अध्यात्मरसमें भीजि निश्चल होय, ताकै स्थान का हू नियम नहीं है। जे चारित्र-ज्ञान-संयुक्त हैं, अर जितेन्द्रिय हैं, ते अनेक अवस्थायें ध्यान की सिद्धिकूं प्राप्त भये हैं। धर्मध्यानीके ऐसा चितवन होय है अहो बडा अनर्थ है जो मैं अनंत गुणनिका धारक हूं संसाररूप वनमें अनादिकालका कर्मरूपी वैरीनिकरि समस्तपनातैं ठिग्या गया हूं, अहो मैं अज्ञानभावतैं कर्मके उदयतैं भये रागद्वेषमोह तिनकूं अपना स्वरूप जानि घोर दुःखरूप संसारमें परिभ्रमण कीया, अब मेरे कोऊ कर्मके उपशमतैं परम उपकारक जिनेन्द्रिका परमागमके उपदेशके लाभतैं रागरूप ज्वर नष्ट भया, अर मोहनिद्राके दूर होनेतैं स्वभाव का अर परभावका जाणपणाका लाभ भया है अब इस अवसरमें शुद्धध्यानरूप खड्ग करि जो कर्म नाश करल्युं तो स्वाधीनताकूं पाय दुःखनिका पात्र नहीं होऊं। जो अज्ञानरूप अन्धकारकूं आत्मज्ञानरूप सूर्यके उद्योतकरि अब हू दूर नहीं करूं तो अन्य कौन पर्यायमें दूर करूंगा। समस्त जगतके देखनेका एक अद्वितीय नेत्र मेरा आत्मा है ताकूं हू अब अविद्यारूप पिशाचके प्रेरे विषय कषाय मुद्रित करैं हैं। ये इन्द्रियविषय अर कषाय मोकूं हित-अहितके अवलोकन-रहित करनेवाले हैं मैं इन ठगनिके वशीभूत हुवा भूलि गया हूं। अहो ये प्राप्त होते रमणीक अर अन्तमें अति नीरस ऐसे पंचेन्द्रियनिके विषयनितैं परम ज्योतिस्वरूप जगतमें महान् परमात्मस्वरूप आत्मा हू टिग्यो गयो है। मैं अर परमात्मा दोऊं ज्ञानलोचन हैं अर परमात्म स्वरूपकी प्राप्तिके अर्थि मेरे स्वरूपके जाननेकी इच्छा करूं, परमात्माके तो आत्मगुण प्रकट है अर मेरे कर्मनिकरि दवि रहे हैं हमारे अर परमात्माके गुणनिकरि भेद नहीं है, शक्ति व्यक्तिकृत भेद है। अर ये कर्मजनित दाह हैं ते जेतके मैं ज्ञानसमुद्रमें गरक नहीं होहूं तितने मेरे संताप दुःख करैं हैं। बहुरि नारक तिर्यच मनुष्य देव ये कर्मके उदयजनित पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, मैं सिद्धस्वरूप निर्विकार स्वाधीन सुखरूप हूं, मैं अनन्त-ज्ञान अनन्तदर्शन अनन्तवीर्य अनन्तसुखरूप हूं, सो अब मोहरूप विपके बृत्तकूं नहीं उपाहूं कहा ? अब मैं मेरा सामर्थ्यकूं ग्रहण करि अपना स्वरूपमें अचल होय सकल वाञ्छारहित हुवो मोहरूप विपवृत्तकूं उपाडस्युं। अब मोकूं मेरा स्वरूप ही निश्चय करना जातैं मेरे मांदि फंसी हुई अनादिकी मोहरूप पासी है ताके छेदनेका उपाय करूं जो अपना स्वरूपकूं ही नहीं जानै सो परमात्माकूं कर्म जानै ? तातैं जानीनिकूं प्रथम अपना स्वरूपहीका निश्चय करना योग्य है

जो अपना स्वरूपकूँ ही नहीं जानैगा ताकी अपने स्वरूपमें स्थिति कैसेँ होयगी, अर अनादिका पुद्गलमें एक होय रखा है ऐसा आत्माकूँ भिन्न कैसेँ करुंगा, अर देहतैँ आत्माका भेदविज्ञान हुवा विना आत्माका लाभ कैसेँ होयगा, आत्माका लाभ विना अनंतज्ञानादिक आत्मगुणनिका जानना हू नहीं होय तदि आत्मलाभकी कहा कथा ? तातैँ मोक्षाभिलाषीनिकूँ समस्त पुद्गलकी पर्यायनिकरि भिन्न एक आत्मस्वरूपका ही निश्चय करना श्रेष्ठ है ।

इहां आत्मा तीन प्रकार करि तिष्ठै है बहिरात्मा, अन्तरात्मा परमात्मा । तिनमें जाकै वाह्य शरीरादिक पुद्गलकी पर्यायनिमें आत्मबुद्धि है सो बहिरात्मा है । जाकी चेतना मोहनिद्राकरि अस्त हो गई, पर्यायहीकूँ अपना स्वरूप जानै है, इन्द्रियद्वारनिकरि निरन्तर प्रवर्तन करै है, अपना स्वरूपकी सत्यार्थ पहिचान जाकै नहीं है देहहीकूँ आत्मा मानै है, देवपर्यायमें आपकूँ देव नरकपर्यायमें आपकूँ नारकी, तिर्यच पर्यायमें आपकूँ तिर्यच, मनुष्यपर्यायमें आपकूँ मनुष्य जाणि पर्यायके व्यवहारमें तन्मय होय रखा है पर्याय तो कर्मकृत पुद्गलमय प्रत्यक्ष ज्ञानरूप आत्मातैँ भिन्न दीखै है तो हू कर्मजनित उदयमें आपा धारि पर्यायमें तन्मय हो रखा है । मैं गौरा हूं, मैं सांवला हूं, मैं अन्य वर्ण हूं, मैं राजा हूं, मैं सेवक हूं, मैं बलवान हूं, मैं निर्बल हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्री हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं मारनेवाला हूं, जिवावनेवाला हूं, धनाढ्य हूं, दातार हूं, त्यागी हूं, गृहस्त्री हूं, मुनि हूं, तपस्वी हूं, दीन हूं, अनाथ हूं, समर्थ हूं, असमर्थ हूं, कर्ता हूं, अकर्ता हूं, बलवान हूं कुरूप हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, नपुंसक हूं, पण्डित हूं, मूर्ख हूं, इत्यादिक कर्मके उदयजनित पर पुद्गलनिकी विनाशीक पर्यायनिमें आत्मबुद्धि जाकै होय सो बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि है । जो शरीरमें आत्मबुद्धि है सो इहां हू शरीरका सम्बन्धी जो स्त्री पुत्र मित्र शत्रु इत्यादिक तिनमें राग द्वेष मोह क्लेशादि उपजाय आर्त रौद्रपरिणामतैँ मरण कराय संसारमें अनंतकाल जन्म मरण करावै है । तथा पुद्गलकी पर्यायमें आत्मबुद्धि है सो पुद्गलमें जडरूप एकेन्द्रियनिमें अनन्त काल भ्रमण करावै है तातैँ अब बहिरात्मबुद्धिकूँ छाडि अन्तरात्मपना अवलंबनकरि परमात्मपना पावनेमें यत्न करो । जे जे या जगतमें रूप देखनेमें आवैँ हैं ते ते समस्त अपने आत्मा हू स्वभावतैँ भिन्न हैं, परद्रव्य हैं, जड हैं, अचेतत हैं, मैं ज्ञानस्वरूप हूं, इन्द्रियनिके ग्रहणमें नहीं आऊं, अपना अनुभव करि साक्षात् प्रत्यक्ष हूं, अब कौनसूँ वचनालाप करूं अर अन्य जननिकरि मैं समझावने योग्य हूं तथा अन्य जननिकूँ मैं सम्बोधन करूं ऐसा विकल्प हू भ्रम है जातैँ अपने अर परके आत्माकूँ जाने विना कौनकूँ समझावैँ अर कौन समझैँ जातैँ मैं तो समस्त विकल्परहित ज्ञाता हूं जो अपना स्वरूपकूँ जो आपरूप ग्रहण करैँ अर आपतैँ अन्यकूँ आत्मरूप ग्रहण नहीं करैँ ऐसा निर्विकल्प विज्ञानमय केवल स्वसंवेदनगोचर हूं । अंतरात्मा विचारैँ है जैसेँ सांकलमें सर्पकी बुद्धि हो जाय तदि भयभीत होय मरचा इत्यादिक भयतैँ भागवो पडवो

त्वयादिक क्रियातै ह भ्रम होय है तैसे हमारे ह पूर्वकालमें शरीरादिकमें अपनी आत्माकी बुद्धि-  
 करि शरीरादिकका नाशमें अपना नाश जाणि बहुत विपरीत क्रियामें प्रवर्तन भया । अर जैसे  
 सांकलमें सर्पका भ्रम नष्ट भया सांकलकू सांकल जानै तदि भ्रमरूप क्रियाका अभाव होय तैसे  
 मेरे शरीरमें आत्माका भ्रम नष्ट होतें अब आचरणमें ह भ्रमका अभाव भया, जाका ज्ञान विना  
 में छतो अर जाका ज्ञान होते जाग्रत भया, सो चैतन्यमय में हूं इम ज्ञानज्योतिमय अपने स्वरूपक  
 देखता जो मैं ताकै रागद्वेष नष्ट हुआ है तिसका कारणकरि मेरे कोऊ वैरी नाहीं, अर कोऊ  
 प्रिय नाहीं । वैरी मित्र तो ज्ञानमें रागद्वेष विकारतैं दीखैं हैं । जो मेरा ज्ञायक आत्मस्वरूपक  
 नाहीं जानै सो मेरे वैरी, अर प्रिय नाहीं हैं । अर जो साक्षात् मेरा स्वरूप देख्या सो ह मेरा  
 वैरी अर मित्र नाहीं है । अब मेरा स्वरूपका ज्ञाता जो मैं ताकू पूर्वला पूर्वला समस्त आचरण  
 स्वप्नवत् इन्द्रजालवत् भासै है । अहो ज्ञानी पुरुषनिका अलौकिक वृतांत कौन वर्णन करि सकै ।  
 जहां अज्ञानी प्रवर्तनकरि कर्मका बन्ध करै हैं तहां ही ज्ञानी प्रवर्तनकरि कर्मबन्धनितैं छूटै हैं  
 जगतके पदार्थ तो समस्त जैसे हैं तैसे ही हैं और प्रकार नाहीं, परन्तु अज्ञानी विपर्ययरूप संकल्प करि  
 रागी द्वेषी मोही हुआ घोर बन्धकू प्राप्त होय है ज्ञानी पदार्थनिका सत्यस्वरूप जानि परमसाम्य  
 वीतरागी हुआ प्रवर्तता निजंरा करै है अर जो मैं पूवें दुःखनिकरि व्याप्त संसारवनमें विरजाल  
 क्लेशित भया हूं सो केवल अपना अर परका भेदविज्ञान विना भया हूं सो समस्त पदार्थनिका  
 प्रकाश करनेवाला भेद विज्ञानरूप दीपककू प्रज्वलित होते ह यो मूढ लोक संसाररूप कर्ममें  
 क्यों दूबे हैं । यो अपना स्वरूप है सो आपके मांही आप करकैं प्रकट अनुभवमें आवै है याकू  
 छांड़ि अन्यमें आपके जाननेकू वृथा खेद करै है । अज्ञानीके इहां जो जो परवस्तु प्रतिके अर्थि  
 हैं सो समस्त आपदाका स्थान हैं, अर जो आनन्दका स्थान हैं तातैं भय करै है, अज्ञानभावका  
 कोऊ ऐसा ही प्रभाव है । बन्धका कारण तो पदार्थके ज्ञानमें भ्रम है अर भ्रमरहित भाव है सो  
 मोक्षका कारण है । जो बन्ध है सो परका सम्बन्धतैं है अर परद्रव्यतैं भेदका अग्यास करि मोक्ष  
 है, जो इन्द्रियनिकू विषयनितैं रोकि चणमात्र ह अपने आत्मामें रोकै है सो परमेष्ठीका स्वरूपक  
 स्मरण करै है जो सिद्धात्मा है—सो मैं हूं, जो मैं हूं सो परमेश्वर है यातैं मेरा रूपतैं अन्य  
 मेरे उपासना करने योग्य नाहीं, अर मैं कोऊ अन्यके उपासना करनेयोग्य नाहीं, जो भ्रमरहित  
 होय दहतैं भिन्न आत्माकू नाहीं जानै है सो तीव्र तप करतो ह कर्मके बन्धनतैं नाहीं छूटै है  
 अर जो भेदविज्ञानरूप अमृतकरि आनन्दित है सो बहुत तप करतो ह शरीरतैं उपजे क्लेशनिकरि  
 भेदतैं नाहीं प्राप्त होय है जाको चित्त रागद्वेषादिक मलगहित निर्मल है सो हो अपने स्वरूपक  
 मग्यर जानै है अन्य कोऊ हेतुकरि जानै नाहीं । अपने चित्तकू विकल्परहित करना है सो ही  
 परम नष्ट है अर अनेक विद्वानि उगि उपद्रित करना है सो अनर्थ है तातैं मग्यकृत्यकी निद्रिके  
 अर्थि चित्तकू विद्वानदिन रने । जो अज्ञानकरि उपद्रित चित्त है सो अपने स्वरूपतैं छूटि जाय

है, अरु भेदविज्ञान-वासितचित्त है सो परमात्मतत्त्व साक्षात् देखै है। जो उत्तमपुरुषनिका मन मोह कर्मके वशतैं कदाचित् रागादिककरि तिरस्कृत होजाय तो आत्मतत्त्वके चिंतवनमें युक्तकरि रागादिकनिको तिरस्कार करै अज्ञानी आत्मा जिस कायमें रागी होरहा है तिम कायतैं अपनी बुद्धिके बल करि उलटो फेरयो हुवो चिदानन्दमय निज स्वरूपमें युक्त कीयो हुयो कायमें प्रीति छांडै है। जो अपना आत्मज्ञानके भ्रमतैं उपज्या दुःख सो आत्मज्ञानकरि ही नष्ट होय है आत्मज्ञानरहित संसारी जीवके परिभ्रमण बहुत तपकरि नाहीं छेद्या जाय है बहिरात्मा है सो आषके रूप आयु बल धनादिकनिकी संपदा वांछे है, अरु अन्तरात्मा है सो आयु बल वित्तादिकनितैं अपना छूटना चाहै है। अज्ञानी है सो पुद्गलादिकमें आपकी बुद्धिकरि अपने बांधै है, अरु अन्तरात्मा है सो अपने स्वरूपमें आत्मबुद्धि करि बंधनेते छूटै है। अज्ञानी है सो तीन लिंग जे पुरुष स्त्री नपुंसकरूप शरीरकूं आत्मा जानै, अरु सम्यग्ज्ञानी है सो आपकूं तीन लिङ्गका संगरहित जानै है। बहुत कालतैं अभ्यास किया अरु ओछी तरह निर्णय किया हू विज्ञान अनादिकालका विभ्रमतैं शीघ्र ही छूटि जाय है। जो यो मोकूं दीखै है सो अचेतन है अरु जो चेतन है सो मेरे देखनेमें आवै नाहीं तातैं अचेतन पदार्थनिमें रागभाव करना वृथा है यातैं मोकूं स्वानुभव-प्रत्यक्ष आत्मा ही का आश्रय करना। अज्ञानी है सो बाह्य पदार्थनिमें त्याग ग्रहण करै है अरु ज्ञानी है सो अंतरङ्गमें रागादिक पर भावनिकूं त्यागि आत्मभावकूं ग्रहण करै है। ज्ञानी है सो वचनतैं अरु कायतैं भिन्न करके आत्माको अभ्यास मन करिकैं करै है, अरु अन्य-विषयभोगनिका कर्म है सो कोऊ वचनतैं करै है कोऊ कायतैं करै है, सांसारिक कार्यनिमें मन नाहीं लगावै है, अज्ञानीके तो विश्वासको अरु आनन्दको स्थान यो जगत् है अरु ज्ञानीके इस जगत्में कहां विश्वास, अरु कहां आनन्द, अपना स्वभावमेंही आनन्द अरु विश्वास है। ज्ञानी है सो तो आत्मज्ञान विना अन्य कार्यकूं हृदयमें धारण नाहीं करै है, अरु लौकिक कार्यके वशतैं जो कुछ करै है सो अनादररूप भयो वचनतैं करै वा कायतैं करै, मन नाहीं लगावै है। जो ये इन्द्रिय विषयनिका रूप है ते मेरा रूपतैं विलक्षण है, मेरा रूप तो आनन्दकरि परिपूर्ण ज्ञान ज्यो तिमय है, ज्ञानीके तो जाकरि भ्रांति दूर होय अपनी स्थिति अपने आत्मरूपमें हो जाय सो ही जानने योग्य है सो ही कहने योग्य है, सो ही श्रवण करने योग्य है, सो ही चिंतवन करनेयोग्य है, इन इन्द्रियनिके विषयनिमें इस आत्माका हित कोऊ प्रकार हू नाही है तो हू बहिरात्मा अज्ञानी इन विषयनिमें ही प्रीति करै है, जो कहा हुआ आत्मतत्त्वकूं नाहीं कष्टाकी-ज्यों अंगीकार करै है तिस अज्ञानीके प्रति कहनेका उद्यम वृथा है। अज्ञानीके आत्माका प्रकाश नाहीं, तातैं परद्रव्यनिमें ही संतुष्ट होय रखा है अरु ज्ञानी है सो बाहिर वस्तुनिमें भ्रमरहित अपना स्वरूपमें ही संतुष्ट है, जितने मन वचन कायकूं अपना स्वरूप मानै है तितने संसार-परिभ्रमण ही है, देहादिकनितैं भेदविज्ञानतैं संसारका अभाव है। वस्त्र



जीर्ण होय वा रक्त होय वा श्वेत होय वा दृढ़ होय तो आत्मा जीर्ण रक्तादिरूप नहीं होय, तैस ही देहकूँ जीर्णादिक होते आत्मा जीर्णादिक नहीं होय है, अज्ञानी है सो प्रत्यक्ष इस शरीरकूँ विच्छुरता मिलता परिमाणनिका समूह रचनारूप देखे है तोहू याकूँ आत्मा जानै है अनादिका ऐसा भ्रम है। ये दृढ स्थूल दीर्घ शीर्ण जीर्ण हलका भारी ए धर्म पुद्गलके हैं इनि पुद्गलनिके धर्मकरि संबंधकूँ नहीं प्राप्त होता आत्मा है सो केवलज्ञानस्वरूप है, इहां संसारमें मनुष्यनिका संसर्ग होय तदि वचनकी प्रवृत्ति होय, वचन प्रवृत्त तदि मन चलायमान होय, मन चलै तदि भ्रम होय ये उत्तरोत्तर कारण हैं, तातैं ज्ञानी जन लोकनिका संसर्ग ही छांटे है। अज्ञानी बहिरात्मा हैं सो अपना निवास नगरमें ग्राममें पर्वत वनादिकनिमें जानै है, अर ज्ञानी तो अंतरात्मा है सो अपना निवास अपने मांहि ही भ्रमरहित मानै है। शरीरमें आत्माकूँ जानना सो देह धारण करनेकी परिपाटीका कारण है, अर अपने स्वरूपमें आपका जानना है सो अन्य शरीरके छूटनेका कारण है। यो आत्मा आप ही अपने मोक्ष करै है अर आप ही विपर्ययरूप भया अपने संसार करै है तातैं अपना गुरु हू आप ही है अर वैरी हू आप ही है अन्य तो बाह्य निमित्तमात्र है। अंतरात्मा जो है सो आत्मातैं कायकूँ भिन्न जानि अर कायतैं आत्माकूँ भिन्न जानि इस कायकूँ मलका भरथा वस्त्र ज्यों निःशङ्क त्यागै है, शरीरतैं भिन्न आत्माकूँ जानै है श्रवण करै है मुखतैं कहै तो हू भेदविज्ञानके अभ्यासमें लीन नहीं होय तितने शरीरकी ममतातैं नहीं छूटै है। अपने आत्माकूँ शरीरतैं भिन्न ऐसैं भावो जैसैं फेरि देहकरि संगम स्वप्नहूमें नहीं होय, स्वप्नमें हू देहतैं भिन्न ही आत्माका अनुभव होय पुरुषनिके जो व्रतनिका अर अव्रतका व्यवहार है सो शुभ अशुभ बंधका कारण है। अर मोक्ष है सो बंधका अभाव रूप हैं, यातैं व्रतादिक क्रिया है ते हू पूर्व अवस्थामें है प्रथम असंयम भावकूँ त्यागि संयममें लीन होना। अर जब शुद्धात्मभाव परम वीतरागरूपमें अवस्थित होजाय तग संयमभाव कहां रहै ? ये जाति अर मुनि श्रावकका लिंग ये भी दोऊ शरीरके आश्रय वतैं हैं, अर शरीरात्मक ही संसार है तातैं ज्ञानी हैं सो जाति अर लिङ्गमें हू अपना आपा त्यागै है। जाकै देहमें आत्मबुद्धि है सो पुरुष जागतो हू पढ़तो हू संसारतैं नहीं छूटै है। अर अपने आत्मामें आपका निश्चय जाकै है सो शयन करता वा असावधान हू संसारतैं छूटै है। ज्ञानी आपकूँ सिद्धस्वरूप आराधना करि सिद्धपनाकूँ प्राप्त होय है जैसैं बत्ती आप दीपकसं युक्त होय आप दीपक हो जाय है यो आत्मा है सो आपका आत्माका आराधना करि परमात्मा होजाय है। जैसैं वृत्त आपतैं घसिकरि अग्नि होय है तैसैं आत्मा हू परमात्मा भावतैं जुडिकरि सिद्ध हो जाय है। जैसैं कोऊ स्वप्नमें अपना नाश देख्या तो आपका नाश ताहीं भया, तैसैं जागते हू अपना नाश भ्रमतैं मानै है किन्तु आत्माका नाश नहीं है। पर्याय उपजी सो विनस्यां विना रहै नहीं। आत्मस्वरूपका अनुभव विना शरीरकूँ आत्मारूप अनुभव करता अनेक शास्त्र पढता हू संसारतैं नहीं छूटैगा अर अपने स्वरूपमें अपना

अनुभव करता शास्त्रका अभ्यास रहित हू छूट जायगा। अर भी ज्ञानी हो, जो यो सुख अवस्था-  
करि भया हुवा ज्ञान दुख अयां छूटि जायगा, तातैं दुःख अवस्थामें रोग, परीषदादिक अवस्थामें  
हू आत्मज्ञानका दृढ अभ्यास करो, इत्यादि चिंतवनके प्रभावतैं बाह्य शरीरादिकनिमें आत्मबुद्धि-  
रूप जो बहिरात्मबुद्धि ताहि छांड़ि अर अपने अंतर कहिये आत्मरूपमें आपारूप अंतरात्मा होय  
करि परमात्मारूप होनेमें यत्न करो। परमात्मा दोय प्रकार है जो घातिया कर्मनिका नाश करि  
अनंत ज्ञान अनंत वीर्य अनंत सुखरूप स्वाधीन, अठारह दोषनिकरि रहित इन्द्र धरणेंद्र नरेद्रांकरि  
बंधमान, अनेक अतिशयांकरि सहित, सकल जीवनिका उपकारक, दिव्यध्वनिकरि सहित, देवाधि-  
देव परम औदारिक देहमें तिष्ठता अरहंत देव हैं तै सकल परमात्मा हैं। कल नाम शरीरका जो  
जो देहसहित आयुका अंत ताई परमोपदेश देता ऐसा अरहंत हैं सो सकलपरमात्मा है। अर जो  
अष्टकर्मरहित होय सिद्धपरमेष्ठी भये, तिनके कल जो देह सो नष्ट होगया यातैं भगवान् निःकल-  
परमात्मा हैं। सो परमात्मपद इस अनुष्यपर्यायमें रत्नत्रयका आराधनकरि कोऊकै प्राप्त होय है,  
याका बीज बहिरात्मापना छांड़ि अंतरात्मपनामें लीन होना है बहिरात्माकै मिथ्यात्वगुणस्थान ही  
होय है अर अंतरात्मा जो हैं सो चतुर्थ गुणस्थानेकू आदि लेय बारमा गुणस्थानपर्यंत हैं। अर  
परमात्मा जो है सो देहसहित तो तेरवें चौदहवें गुणस्थानमें जानना, अर देहरहित परमात्मा  
सिद्धभगवान् हैं सो गुणस्थानकरि रहित हैं, जातैं गुणस्थान तो मोह अर योग की अपेक्षातैं हैं  
भगवान् सिद्धनिके मोह कर्म भी नहीं अर वचन कायके योगनिका हू अमावा भया, तातैं गुण-  
स्थानसंज्ञा रहित हैं।

अब धर्मध्यानका वर्णन करैं हैं—यो धर्मध्यान है सो सम्यग्दृष्टी विना मिथ्यादृष्टीकै  
नाहीं होय है ऐसा नियम है तातैं चतुर्थ गुणस्थानकू आदि लेय सप्तम गुणस्थान—पर्यंत धर्म-  
ध्यान होय है। सो धर्मध्यान परमागममें चार प्रकार कहा है—आज्ञाविचय, अपायविचय,  
त्रिपाकविचय, संस्थानविचय। तिनमें आज्ञाविचय धर्मध्यानका संक्षेप कहिये है—जो भगवान् सर्वज्ञ  
वीतराग कहा आगमकी प्रमाणतातैं पदार्थनिका निश्चय करना सो आज्ञाविचय धर्मध्यान है।  
जहां उपदेश दाताका अभाव होय, अर कर्मके उदयतैं अपनी बुद्धि मंद होय, अर पदार्थनिकै  
सूक्ष्मपना होय, अर हेतु दृष्टांतका अभाव होय, तहां सर्वज्ञकरि कहा आगमकू प्रमाणकरि ऐसा  
चिंतवन करै—जो यो ही तत्त्व है, या प्रकार ही यो तत्त्व है और नहीं, अन्य प्रकार नहीं,  
सर्वज्ञ वीतराग जिन अन्यथा कहनेवाला नहीं, ऐसैं महत्त पदार्थनिमें श्रद्धानमें अर्थका निश्चय  
करना सो आज्ञाविचय है अथवा सम्यग्दर्शनकरि परिणामनिकी विशुद्धिताका धारक अर  
अपने अर पर मतके पदार्थनिका निर्णयका जाननेवाला ऐसा सम्यग्ज्ञानी सर्वज्ञकरि  
प्ररूपे सूक्ष्म पदार्थनितैं ग्रहणकरि तथा पंच अस्तिकायादि पदार्थनिमें निश्चय करि अन्य  
भव्यनिकू शिखा करै, तथा कथनका व्याख्यानका मार्गमें श्रुतज्ञानका सामर्थ्यतैं अपने  
सिद्धांतमें विरोध नहीं आवै तैसैं अर अन्य एकांतीनिके प्र. पे मिथ्या प्रमाण हेतु नय,

तिनका खण्डन करनेमें समर्थ ऐसे अनेकान्तका ग्रहण करनेमें समर्थ होय, श्रोत निकू पदार्थका स्वरूप ग्रहण करनेमें समर्थन करि श्रुतका व्याख्यान करै । अर तिनका समर्थनके अर्थतर्क नय प्रमाणकू युक्त करनेमें तत्पर ऐसा चिंतवन करनेमें लीनपना सो सर्वज्ञकी आज्ञा प्रकाशनका अर्थीपनातै आज्ञाविचय धर्मध्यान है । तथा जो जिनसिद्धांतमें प्रसिद्ध ऐसा सर्वज्ञकी आज्ञातै वस्तुका स्वरूप चिंतवन करै सो आज्ञाविचय है, जगतमें जो वस्तु है सो अनंत गुण अनंत पर्यायस्वरूप है याहीतै उत्पाद व्यय भ्रौव्यरूप है त्रिकालवर्ती है यातै नित्य है । ऐसी वस्तुका कहनेवाला कोऊ आगमका सूत्रम-वचन अपनी स्थूल बुद्धिकरि ग्रहणमें नाहीं आवै, अर जो हेतुकरि बांधाकू भी नाहीं प्राप्त होय, तहां 'सर्वज्ञकी आज्ञा ऐमें है सर्वज्ञ वीतराग जिन अन्यथा नाहीं कहै' ऐसै प्रमाणरू चिंतवन सो आज्ञाविचय है । अथवा जिनेन्द्रका परम आगमका पठन, श्रवण, चिंतवन, अनुभवन सो समस्त आज्ञाविचय है । जो श्रुत सर्वज्ञ वीतरागकरि कहा हुवा, जाके श्रवणतै रागी द्वेषी शस्त्रधारी देवनिकी उपासनातै पराङ्मुखता हो जाय, अर परिग्रहधारी विषय कषायनिके धारक अनेक भेषधारीनिमें गुरुबुद्धि पूज्यपनाकी बुद्धि नाहीं उपजै, अर हिंसामें प्रवृत्तिरूप धर्म कदाचित् नाहीं दीखै, अर जाके श्रवण पठन चिंतवनतै विषय कषाय देह परिग्रहादिकानितै पराङ्मुखता उपजि आवै, दयाधर्मकी वृद्धि होय जाय, तिस आगमका शब्द अर्थका चिंतवन करना सो आज्ञाविचय धर्मध्यान है । आगम श्रीसर्वज्ञवीतरागका उपदेश है, रत्नत्रय-स्वरूपकू पुष्ट करनेवाला है, अनादिनिधन, समस्त जीवनिके परम शरण है, अनन्तधर्मके धारक पदार्थनिका प्रकाश करनेवाला है, प्रमाण नय निक्षेपनिकरि पदार्थनिका स्पष्ट उद्योत करनेवाला है स्याद्वादरूप याका बीज है । याका शरण नाहीं पाय करके जीव अनादिकालतै चतुर्गतिमें परिभ्रमण किया है, सप्त तत्त्व नव पदार्थ पंचास्तिकायका स्वरूप प्रकाशनेवाला है, द्रव्य गुण पर्यायनिका स्वरूप दिखावनेवाला है, गुणस्थान मार्गणास्थान योनि कुलकोडिति करि जीवका प्ररूपण करनेवाला है, आसन्न बंध उदय उदीरणा संताका प्ररूपण करनेवाला है, समस्त लोक अलोकका प्रकाशक है, अनेक शब्दनिकी रचनारूप अंगेप्रकीर्णकादिक रत्ननिकरि रत्नाकरवत् गम्भीर है, एकांत विद्याके मदकरि उन्मत्त मिथ्यादृष्टिनिका मद नष्ट करनेवाला है, मिथ्यात्वरूप अन्धकारके दूर करनेकू सूर्य है, रागरूप सर्पका विष उतारनेकू गारुडी विद्या है, समस्त अंतरंग पापमल धोवनेकू पवित्र तीर्थ है, समस्त वस्तुकी परीक्षा करनेकू समर्थ है, योगीश्वरनिका तीजा नेत्र है, सतापरूप ज्वरका घातक है इन्द्र अहमिद्र गणधर मुनीन्द्रनिकरि सेवित ज्ञानीकू परम अक्षयनिधान आशा बांछा भयका नाश करनेवाला आत्मीक सुखरूप अमृतके प्रकट करनेकू चन्द्रमाका उदय है, अक्षय अविनाशी जीवका निज धन है, मुक्तिकू प्रयाण करतेके प्रधान गमनका ढोल है । विनय न्याय इन्द्रिय-दमन, शील संयम संतोषादि गुणनिकू उत्पन्न करनेवाला है । ऐसा परमागम का चिंतवन ध्यान अनुभवन सो आज्ञाविचय धर्मध्यान है ऐसै आज्ञाविचय धर्मध्यान कहा ।

अब अपायविचय धर्मध्यानका ऐसा स्वरूप जानना— तहां एक तो मिथ्यात्वका योगतै

सन्मार्गका अपाय कहिये नाशका चितवन करना जो—सन्मार्ग कहिये मोक्षमार्ग ताका अभाव करनेवाला मिथ्यात्व ही है ऐसा चितवन सो अपायविचय है। मिथ्यादर्शनकरि जिनके ज्ञाननेत्र ढकि रहे हैं, तिनका आचार विनयादिक समस्त कार्य हैं वे संसारके बधावनेके अर्थि हैं, क्योंकि मिथ्यादृष्टीके अन्धकी ज्यों विपरीत ज्ञानकी बहुलता है; यातैं जैसे बलवान हू जन्मका अन्धा भला मार्गतेँ छूटे हुवे सत्यमार्गका उपदेश करनेवालाकरि नाही चलाया हुवा नीचा ऊँचा पर्वत अर-विषमपाषाण अर कठोर ठूँठ भाड खाडा नाला कंटकनिकरि व्याप्त विषम पृथ्वीमें पड्या हुवा हलन चलन क्रिया करता हू उपदेश दाता विना मार्गमें गमन करनेकूँ नाही समर्थ होय है, तैसेँ सर्वज्ञका कृपा मार्गतेँ पराङ्मुख जीव मोक्षका अर्थि है तो हू सन्मार्गका ज्ञान विना संसारमें अतिदूर ही परिभ्रमण करै है ऐसेँ सन्मार्गका नाश चितवन करना अपायविचय धर्मध्यान है। अथवा कुमार्गके प्रवर्तनका अभाव तथा नाशका चितवन करना सो हू अपायविचय है। अहो ये विपरीत ज्ञान श्रद्धानके धारक मिथ्यादृष्टी कुत्रादीनिकरि उपदेश्या कुमार्गतेँ ये प्राणी कैसेँ उवरै, अथवा इन प्राणीनिके कुदेव कुधर्म कुगुरुनिका सेवनितैँ कैसेँ निरालापणों होय, ऐसा चितवन करना सो अपायविचय है। अथवा पापका कारणमें कायका प्रवर्तन वचनका प्रवर्तन मनमें भावना का अभावका चितवन सो अपायविचय धर्मध्यान है, अथवा जामें उपायसहित कर्मनिका नाश चितवन करिये ताकूँ ज्ञानीजन अपायविचय कहैँ हैं। श्रीसर्वज्ञ भगवानकरि कृपा जो रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग ताहि नाही प्राप्त होय करकेँ संसाररूप वनविषैँ प्राणी चिरकालतेँ नष्ट हो रहे हैं, जिनेश्वरका उपदेशरूप जिहाज नाही प्राप्त होय करकेँ वापडे प्राणी संसारसमुद्रविषैँ निरन्तर डबक डूबा होता दुःखनिकूँ भोगै है। महान कष्टरूप अग्निकरि दग्ध होता संसाररूप वनविषैँ भ्रमण करता हू मैं सम्यग्ज्ञानरूप समुद्रका तटकूँ प्राप्त भया हूँ जो अब सम्यग्ज्ञानका शिखरकूँ प्राप्त होय यातैं चिगूँगा तो संसाररूप अन्धकूपके मध्य मेरा पतन कौन रोकेगा ? अनादिके भ्रमतेँ उपजे मिथ्यात्व अविरत कषायादिक कर्मबन्धके कारण मेरे दुर्निवार हैं, यद्यपि मैं तो शुद्ध हूँ दर्शन ज्ञानमय निर्मल नेत्रका धारक सिद्धस्वरूप हूँ तो हू तिन कर्मनिकरि खंडन किया मैं चिरकालतेँ संसाररूप कर्दममें खेद-खिन्न भया हूँ; एक तरफ तो नाताप्रकार कर्मका सैन्य है, अर एक तरफ मैं एकाकी आत्मा हूँ ऐसा वैसीनिका संकटमें मोकूँ सावधान प्रमादरहित तिष्ठवो योग्य है। जो अब प्रमादी होय रहूँगा तो कर्म मेरा ज्ञानदर्शन स्वरूपकूँ घातकरि एकेन्द्रियादिरूप पर्यायमें जड़ अचेतन करि देगा। अब प्रबल ध्यानरूप अग्निकरि मेरे आत्मातेँ कर्ममलकूँ नष्टकरि पाषाणमेंतेँ सुवर्णकी ज्यों शुद्ध कव करूँगा, मेरे प्राप्त होनेयोग्य सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्ररूप मेरा स्वभाव ही है अन्य परभाव पर ही हैं, स्वयमेव मोतैँ भिन्न हूँ मैं कौन स्वरूप हूँ, मेरे कौन कारणतेँ कर्मका आस्रव होय है ? कैसेँ कर्म बंधै है। कैसेँ कर्म निर्ज-रैगा ? अर २ क्ति तो कहा है ? अर मुक्तिका स्वरूप कहा है, अर मुक्तिका वाधारहित निराकुल-

तालिङ्गण ऐसा स्वभावतः उपज्या—सुख मेरे कौन उपायकरि होय ? मेरा स्वरूपका ज्ञान हीतें सकल भुवनत्रयका ज्ञान होय है । जातें सर्वज्ञ सर्वदर्शी मेरा स्वभाव ही कर्ममलकू दूर भये मेरे मांहि प्रगट होय है । जेते-जेते काल मेरे वाह्य वस्तुनिकरि सम्बन्ध है तितने-तितने काल मेरी स्थिति मेरा स्वभावमें स्वप्नमें भी दुर्घट है यातें वाह्य पदार्थनितें भेदविज्ञानतें भिन्न होनेरूप ही उपाय करूँ । ऐसैं अपायविचय नाम धर्मध्यानका दूजा भेद वर्णन किया ।

अथ विपाकविचय नाम तीजा भेदकू निरूपण करै है - ज्ञानावरणादिक कर्मका उदयकू आपतें भिन्न चितवन करै सो विपाक विचय है । भावार्थ—अनादिकालतें नरकादिगतिमें उपजि नारकी तिर्यच मनुष्यादिक पर्याय धरना, इन्द्रियनिका पावना शरीरादि धारण करना रूप रस गंध स्पर्शादि पावना, संहनन, बल, पराक्रम, राज्यसम्पदा विभव परिवारादिक समस्त कर्मका उदयजनित है, मेरा स्वरूपतें भिन्न हैं- मेरा स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है, अविनाशी अखण्ड है, कर्म के उदयजनित परिणतितें भिन्न है, जेते संयोग हैं ते कर्मजनित हैं यातें कर्मके उदयजनित परिणतितें आपकू जुदा अवलोकनिकरि कर्मके उदयजनित राग-द्वेष जीवन-मरणादिकतें हू आपकू भिन्न अवलोकन करै सो विपाकविचय है । पूर्वकालमें बंध किया कर्म द्रव्य क्षेत्र काल भावका संयोग पाय विचित्र रस दे है । कर्मकी मूलप्रकृति आठ है अर आठका एकसौ अठ-तालीस भेद हैं अर एक एक का असंख्यात लोकमात्र भेद है सो समस्त एकेन्द्रियादिक जीवनिके भिन्न भिन्न उदय देखिये है । सामान्यकरि जीव ज्ञान स्वभाव है, स्वरका जाननेवाला है, असंख्यात प्रदेशी है, कर्मजनित देहप्रमाण है सुखदुःखका भोक्ता है । तथापि कर्मका बंध अपने भिन्न भिन्न परिणामनिकरि अनेक प्रकार बंध किया है तिस कर्मका रस हू उदयकालमें जुदा-जुदा देखिये है । समस्त जीवनिके प्रकृतिरूप लाभ अलाभ, सुख दुःख, राग-द्वेष, पुण्य पाप, संयोग वियोग, आयु काय, बुद्धि, बल, पराक्रम इच्छा इत्यादिक एक एक जीवके कर्मके उदय के अनुसार भिन्न भिन्न देखिये है, अन्य किसीतें नाहीं मिलै है यातें नाना जीवनिके नाना प्रकार उदयकी जाति देखि राग-द्वेषके वश मति होहू । जैसे वनमें विहार करता पुरुष वनमें लासां कोट्यां वृक्ष बेलि छोटे बड़े अनेक देखै हैं कौन कौनमें राग-द्वेष करै कोऊ ऊंचा वृक्ष है कोऊ नीचा है कोऊ गम्भीर छाया सहित है कोऊ अन्य है कोऊ फूल फलसहित है, कोऊ निष्फल है, कोऊ कडवा है, कोऊ मीठा है, कोऊ चिरपग है कोऊ जहरका भर्या है कोऊ अमृत समान है कोऊ कांटाकरि सहित कोऊ रहित, कोऊ बक्र है कोऊ सरल है, कोऊ जीर्ण है कोऊ नवीन है, कोऊ सुगन्ध कोऊ दुर्गन्ध इत्यादिक समस्त रचना पूर्वकर्मके संस्कारतें एकेन्द्रियजीवनिके भी उदय देखिये है काटिये है फाडिये है कतरिये है छीलिये है रांधिये है छौकिये है बालिये है चांधिये है रगडिये है घमीटिये है चींधिये है गालिये है सुखाईये है पीसिये है बांधिये है मोडिये है इत्यादिक एकेन्द्रिय वनस्पतिमें हू कर्मका उदयकी नाना जाति देखि अपने वा अन्यके पुण्य

पापका उदयकी नाना तरंग देखि साम्यभाव धारण करो, हर्ष विषाद मति करो । कर्मका उदय की लहरि समय समयमें भिन्न भिन्न है जो भगवान् सर्वज्ञ वीतराग जिस क्षेत्रमें जिस कालमें जिस प्रकार देख्या है सो ही प्रमाण है तैसे ही कर्मके उदयकू अपना स्वभावतै भिन्न जानो नानाजीव पुद्गलनिका रचना तथा संयोग-वियोगादिक देखि राग-द्वेषरहित परम साम्यभाव धारण करो ज्यूं पूर्व बन्ध किया कर्मकी निर्जरा हो जाय, नवीन बन्ध नाहीं होय, ऐसे तपके प्रकरणमें विपाकविचय नाम धर्म ध्यानका वर्णन किया ।

अत्र संस्थानविचय चौथा धर्म ध्यानका वर्णन करिये है—यो अनन्तानन्त सर्व आकाश है सो आपके आधार आप है तिसके अत्यन्त मध्यविषै जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल जेता आकाशका क्षेत्रमें तिष्ठै सो लोक है । सो लोक किसीका किया नाहीं है अनादिनिधन है । अब इहां कोई अन्यवादी कहै—जो इस जगतका कर्ता कोऊ ईश्वर है, जातै कर्ता विना कोऊ ही सत् रूप वस्तु होय नाहीं । ताकूं पूछिये जो—किया विना कोऊ ही सत् रूप वस्तु नाहीं है, तो ईश्वरकू कौनने किया ? ईश्वर हू सत् वस्तु है ईश्वरकू करनेवाला कू कहा चाहिये ? अर जो कहोगे याका कर्ता हू अन्य है, तो वाकूं कौन किया ? वाका अन्य कर्ता कहोगे तो वाकूं कौन किया ऐसै अनवस्था नाम दोष आवैगा । बहुरि और पूछै हैं जो पहली सृष्टि बाहिर ईश्वर कहां था ? अर कौन स्थानमें ईश्वर तिष्ठि जगतकू रच्या । अर ईश्वर आप जगतविना निराधार बहुत कालतै विद्यमान आपतो कहां तिष्ठै था, अर इस जगतकू रचि कहां स्थापन किया ? अर इस जगतकू किसीके आधार कहोगे, तो वे कौनके आधार हैं ? उसका अन्य आधार हैं ? उसका अन्य आधार कहोगे तो उस अन्यका कौन आधार है ? ऐसै अनवस्था दोष आवैगा । अर जो या कहोगे निराधारमें अनादिनिधनमें तर्क नाहीं तो सृष्टिका हू कर्तागणा कहना वयै नाहीं । जैना ता सनक्ष उदार्थनिकू ही अनादिनिधन कहै हैं । जाके मतमें सृष्टिका कर्ता मानै हैं ताके ही दोष आवैगा । बहुरि जगत नानारूप है ताकूं एकरूप ईश्वर करनेमें कैसें समर्थ होय ? बहुरि ईश्वर शरीर-रहित अमूर्तीक है, अमूर्तीकतै शरीरादिक मूर्तीक कैसें उपजाया जाय, अमूर्तीकतै मूर्तीक कैसें होय ? बहुरि उपकरण सामग्री विना लोककू काहेतै रच्या ? जातै उपादानकारण विना कोऊ वस्तुकी रचना बनती नाहीं देखिये है, जैसें मृत्तिकाविना समर्थ हू कुम्भकार घटकी रचना करनेकू समर्थ नाहीं होय है । अर जो या कहोगे ईश्वर है सो पहली सामग्री बणाय पाछै जगतकू रच्या । तो पूछिये उस सामग्रीकू काहेतै रची, ऐसै अनवस्थादोष आवैगा । अर जो या कहोगे जो जगतके रचनेयोग्य सामग्री तो स्वभावही तै विना किये सिद्ध है तो लोकहूकू स्वतः सिद्ध माननेका प्रसङ्ग आवैगा । बहुरि जो या कहोगे—ईश्वर समर्थ है सो सामग्री विना ही इच्छामात्रकरि लोककू रचै है तो ऐसे इच्छामात्र युक्तिकरि-रहित तुम्हारा कहना कौनके श्रद्धान करनेयोग्य होय ? इच्छामात्र करनेकी और हू कल्पना करो तो तुमकू कौन रोकै है इच्छा-

मात्र कहा तहां विचार काहेका रखा ? बहुरि ईश्वर कृतार्थ है कृतकृत्य है, कि अकृतकृत्य है ? जो कृतार्थ है जाके करने योग्य कोऊ कार्य बाकी रखा, तो जगतके रचनेकी इच्छा ईश्वरके कैसे उपजी ? अर जो अकृतार्थ कहोगे तो अकृतार्थ होगया सो समस्त जगतके रचनेकू कुम्भकारकी ज्यों समर्थ नाही होयगा । जातैं अकृतार्थ कुम्भकार एक घटकू रचि आपकू कृतार्थ मानै समस्त जगतका रचना कर तो अकृतार्थ बनैगा नाही तैसे ईश्वरकू अकृतार्थ मानो हो तो एक एक वस्तुकू करि खेदित क्लेशत होता अनन्त पदार्थनिकू कैसे पूर्ण करैगा ? तातैं हू जगतका कर्तापना ईश्वरके नाही सम्भवै है । बहुरि ईश्वरकू अमूर्तीक कहैं हैं, अर निःक्रिय कहैं है, अर सर्वव्यापी कहैं हैं, सो ऐसा ईश्वर जगतकू कैसे रचै ? जातैं अमूर्तीकतैं तो मूर्तीक व्यापी समस्त जगतमें उत्पन्न होय नाही । अर जो निःक्रिय कहिये क्रिया-रहित होय ताकैं रचनेकी क्रिया कैसे बने । बहुरि जो व्याप रखा तोके लोककी रचना कैसे बनै ? समस्त लोकमें अनादिहीका व्याप्त हो रखा है । बहुरि ईश्वरकू विक्रियारहित निर्विकारी कहै ताके रचनेके अर्थ विकारी होना नाही सम्भवै है ।

बहुरि ईश्वर सृष्टिकू रची सो कहा फल चाहता रची ? ईश्वर तो कृतार्थ है कृतकृत्य है ताकैं धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थनिमें कुछ करना बाकी नाही रखा, तदि सृष्टिकू रचि कहा फल चाह्या ? प्रयोजन विना तो मूर्ख हू नाही प्रवतैं है ? अर जो यह कहोगे ईश्वरके सृष्टि रचनेमें उसका प्रयोजन तो नाही, विना प्रयोजन ही रचे है । तो अनर्थरूप कार्य करनेका प्रसङ्ग आया ? अर जो कहोगे ईश्वरके या क्रीड़ा है तो बड़ा मोहका संतान आया ? क्रीड़ा तो अज्ञानी मोही बालक करै है वा पहले दुःखित होय सो क्रीड़ा करि दिन व्यतीत करै अपना दुःखका भुलावनेकू क्रीड़ा करै । बहुरि जो ईश्वर जगतकू रच्या तो समस्त पदार्थनिकू उज्ज्वल सुखकारी मनोहर रूपवान ही काहेकू नाही रचे, जगतमें केई दरिद्री केई रोगी केई कुरूप केई कुबुद्धि केई नीच जाति ऐसे काहेकू रचे ? अर विषादिक कंटकादि मल-मूत्रादिक दुर्गंधादिक काहेकू बनाये ? तथा दुष्ट म्लेच्छ भील सर्पादिक चांडालादिक क्यों रचे ? जगतमें भी देखिये है जो महाबुद्धिमान् चतुर होय सो बहुत सुन्दर ही बनाया चाहै, अपना किया कार्यकू बिगाडया तो नाही चाहै । यातैं ईश्वर है सो बुद्धिमान् अर समर्थ अर स्वाधीन होय भ्लानिरूप भयानक दुःखदायक विडरूप कैसे करी सो कहो ? अर जो या कहोगे प्राणी जैसे कर्मका उपार्जन किया तैसे उनके शरीरादिक सकल सामग्री रची तो ईश्वरपना कहां रखा ? जैसे कोलीकू महीन सूत दिया तब महीन वस्त्र बुन दिया, मोटा दिया तो मोटा बुन दिया, ईश्वरपना नाही रखा । अर और हू पूछिये है संसारमें प्राणी भले वा खोटे कर्म करैं हैं तो ईश्वरके अभिप्रायतैं ईश्वरके कराये करैं हैं कि ईश्वरके अभिप्राय विना अपनी जवरीतैं करैं हैं ? सो कहो जो ईश्वरकी इच्छातैं करैं हैं तो ईश्वर होय करके अपनी प्रजातैं खोटे कृत्य कैसे करावै है ? अपना सन्तानकू दुरा-

चारी किया कोऊ चाहै नहीं । अर जो ईश्वरकी इच्छा विना ही करै है तो ईश्वरकै ईश्वरपना अर कर्तापना कहां रखा ? जगत स्वयं ही कर्मादिक कार्यके कर्ता भये । बहुरि कहोगे जो कार्य तो होय है सो जैसा कर्म किया तैसा ही होय है परन्तु ईश्वरके निमित्ततै होय है तो ऐसे सिद्ध वस्तुके विना कारण ईश्वरका क्रियपना वृथा क्यों कहो हो ? असत्यकूँ पुष्ट करना बड़ा अनर्थ है । बहुरि पूछै है जो ईश्वर समस्त प्राणीनिमें वात्सल्य करै है अर जगतके अनुग्रह करनेकूँ जगकूँ रचै है तो समस्त सृष्टिकूँ सुखमयी उपद्रव-रहित रची चाहिये, दुःखमय वियोगमय दरिद्रमय रंकमय कैसै रची ? ऐसै ईश्वरपना रखा नाही । अर जो कहोगे जो ईश्वरके भक्त थे तिनकूँ सुखी किये, दुष्टिनकूँ दुःखी किये । तो पूछिये है ईश्वर होय आप दुष्ट कैसै रचे ? अपना भक्त ही रचने थे म्लेच्छादिक अपने द्रोहीनिकूँ काहेकूँ बनाये ? जो कहोगे ईश्वरकूँ पहले ठीक नाही था फिर दुष्ट देखे तदि तिनकूँ दण्ड दिया तो ईश्वरके अज्ञानीपना प्रगट भया अज्ञानीकी कीनी सृष्टि भई । बहुरि पूछै है ईश्वर जगतकूँ रचै है सो जगत पहले विद्यमान है ताकूँ रचै है कि अत्यन्त असतकूँ रचै है ? जो विद्यमानकूँ ही रचै है तो पहली ही तो सतरूप विद्यमान था उसकूँ कहा रचैगा ? अर अत्यन्त असतकूँ रचै है तो आकाशका पुष्पकी रचना समान अवस्तु ठहरया । बहुरि ईश्वरकूँ मुक्त कहो हो तो मुक्त करनेमें उदासीन है वाकै सृष्टि रचनेका अभि-प्राय कैसै होय ? करने करावनेकी चिन्ता मुक्तकै सम्भव नाही । अर जो ईश्वर संसारी है तो अपने समान है उसका किया समस्त जगत कैसै उत्पन्न होय ? तातै तुम्हारा यह सृष्टिका ईश्वरकृत्य कहना कुछ ही नाही रखा । बहुरि पहली तो जगतकूँ आप रच्या, अर पाछै आप ही संहार किया, ताकै महान अधर्म भया । अर जो कहोगे दैत्यादिक दुष्ट बहुत इकट्ठे भये तिनके मारनेकूँ प्रलयकालमें संहार करै है तो दैत्यादिक दुष्ट पहली रचै ही क्यों ? अर पहली आपकूँ ज्ञान नाही था जो ये दुष्ट हो जायंगे, तो ईश्वरकै बड़ा अज्ञानीपना भया जो अपने किये का फल नाही पहिचान्या ? अर महादुःखितपना भया, जो नवीन रचना करवो करै; अर चूकि वणि जाय तदि मारता फिरै है, हेरता फिरै है, अर दुःखका मारया आप छिपता फिरै, अर दुष्टिनकूँ मारनै अर्थि हजारों उपाय सहाय भेष शस्त्रादिक सामग्रीका चितवन करता महाक्लेशतै जन्म पूरा करै है । ऐसे ईश्वरके तो अज्ञान राग द्वेष मोहादिक बहुत दोष दीखै हैं तातै मिथ्य-दृष्टीनिके रचे असत्य शास्त्रनिकरि उपज्या क्लेशकूँ छांडि बीतराग सर्वज्ञका कथा अनादिनिधन स्वतःसिद्ध लोकका स्वरूप जाणि श्रद्धान करो । ये छह द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अनादिनिधन हैं, कोऊ असतकूँ सत करनेकूँ समर्थ नाही । जातै जो सत् वस्तु है ताका कदाचित् नाश नाही, अर असतका उत्पाद नाही । ये उत्पाद विनाश है ते पर्यायार्थिक नयतै कहिये है । जेतने चेतन अचेतन पदार्थ हैं ते द्रव्यपनाकरि कदे ही नाही विनाशै हैं, नाही उपजै हैं । समय-समय पूर्व पर्यायका नाश अर उत्तरपर्यायका उत्पाद होय रखा है, द्रव्य धौव्य है,



उपजै नहीं, उपजना विनशना पर्यायका एकरूप रहै नहीं, द्रव्यनिका नाश कदे नहीं, छह-द्रव्यका समुदाय ही लोक है अन्य वस्तुरूप लोक नहीं है।

अब इस संस्थानविचय धर्मध्यानविषै द्वादश भावना निरंतर चिंतवन करने योग्य है। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्त, अशुचि, आसन्न, संवर; निर्जरा, लोक, बोधि-दुर्लभ, धर्म ये द्वादश भावनाके नाम कहे। इनका स्वभाव भगवान तीर्थकर हू चिंतवनकरि संसार देह भोगनितै विरक्त भये हैं तातैं ये भावना वैराग्यकी माता हैं, समस्त जीवनिके हित करने वाली हैं अनेक दुःखनिकरि व्याप्त संसारी जीवनिके ये भावना ही भला उत्तम शरण हैं। दुःख-रूप अग्निकरि तप्तमान जीवनिकू शीतल पद्मवनका मध्यमें निवाससमान हैं, परमार्थ मार्गके दिखावनेवाली हैं तत्त्वनिका निर्णय करावनेवाली हैं सम्यक्त्वकू उपजावनेवाली हैं अशुभ ध्यान के नष्ट करनेवाली हैं। इन द्वादश भावना समान इस जीवका अन्य हित नहीं है, द्वादशांगको सार है, यातैं द्वादशभावना भावसहित इस संस्थानविचय धर्मध्यानमें चिंतवन करो।

अब अनित्यभावनाका ऐसा चिंतवन है—देव मनुष्य तिर्यक् ये समस्त देखते देखते जलका बुदबुदावत् वा भागका पुंजवत् विनाशीक हैं, देखते देखते विलायमान होते चले जाय हैं, अर ये समस्तऋद्धिसंपदा परिकर स्वप्नके समान हैं ऐसैं विनशैं हैं जैसैं स्वप्नमें देख्या फेरि नहीं देखिये है। इस जगतमें धन यौवन जीवन परिवार समस्त क्षणभंगुर हैं अर संसारी मिथ्या दृष्टी जीव इनहीकू अपना स्वरूप अपना हित जाणि रहे हैं अपने स्वरूपकी पहिचान होय तो परकू अपना कैसें मानैं ? समस्त इन्द्रियजनित सौख्य जो ये दृष्टगोचर हैं ते इन्द्रधनुषके रंग-समान देखते देखते विलाय जाय हैं, यौवनका जोश संध्याकालकी लालीसमान क्षण क्षणमें विनशैं है। यातैं ये मेरा ग्राम, मेरा राज्य, मेरा गृह, मेरा धन, मेरा कुटुम्ब ऐसा विकल्प करना महामोहका प्रभाव है। जे जे पदार्थ नेत्रनितैं दीखैं हैं ते ते समस्त विलाय जायंगे, अर इनकू देखने जानने वाली इन्द्रियां हैं ते अवश्य नष्ट होयंगी, तातैं आत्माके हितमें शीघ्र सी उद्यम करो। जैसैं एक नावमें अनेक देशके अनेक जातिके मनुष्य शामिल होय बैठैं हैं पाछैं तीरपर जाय नाना देशनिप्रति गमन करैं हैं तैसैं कुलरूप नावमें अनेक गतिनितैं आये प्राणी शामिल आय वसे हैं पाछैं आयु पूर्ण भये अपने अपने कर्मके अनुसार व्पारों गतिमें जाय प्राप्त होय है। अर जिस देहके सम्वन्धतैं स्त्री पुत्र मित्र वांध्यादिकनिकू मानि रागी होय रहे हो सो देह अग्नि में भस्म होयगी, वा माटीमें लीन होगया तथा जीव खाथगा तो विष्टा वा कृमिकलेवररूप होय एक एक परमाणु जमीन आकाशमें अनन्त विभागरूप होय विखरि जायंगे फिर कहां मिलैगा तातैं इनका सम्वन्ध फिर नहीं प्राप्त होयगा ऐसा निश्चय जानि स्त्री पुत्र मित्र कुटुम्बादिकमें ममता धारि धर्म विगाड़ना बड़ा अनर्थ है। बहुरि जिस पुत्र स्त्री भ्राता मित्र स्वामी सेवकादिकनि के शामिल रहि मुसस्युं जीवन चाहो हो ते समस्त कुटुम्बके लोग शरदकालके वादलेनिकी

ज्यों बिखरि जायंगे, ये सम्बन्ध अवार दीखै है सो बना नहीं रहैगा, शीघ्र ही बिखरैगा ऐसा नियम जानो । बहुरि जिस राज्यके अर्थ, वा जमीनके अर्थ, तथा हाट हवेली मकान तथा आजीवकाके अर्थ, हिंसा असत्य कपट छलकी प्रवृत्ति करो हो, भौलेनिकूँ ठिगो हो, जोरावर होय निर्बलनिकूँ मारि खोसो हो, तिन समस्त परिग्रहका सम्बन्ध तुम्हारै शीघ्र विनशैगा अल्प जीवन के निमित्त नरक तिर्यच गतिका अनन्त कालपर्यंत अनन्त दुःखनिका संतान ग्रहण मति करो । डूँका स्वामीपनाका अभिमानकरि अनेक विलाय गये अर अनेक प्रत्यक्ष विनशते देखो हो, यातँ अत्र तो ममता छांडि अन्यायका परिहार करि अपनी आत्माके कल्याण होनेके कार्यमें प्रवर्तन करो । बंधु मित्र पुत्र कुटुम्बादिक सहित वसना है सो जैसेँ ग्रीष्मऋतुमें चार मार्गनिके बीच एक वृक्षकी छायामें अनेक देशके पथिक विश्राम लेय अपने अपने स्थान जाय हैं तैसेँ कुलरूप वृक्षकी छायामें ठहरि कर्मके अनुकूल अनेक गतिनिमें चले जाय हैं । बहुरि जिनसेँ अपनी प्रीति मानो हो सो हू एक मतलबके नाहीं हैं नेत्रनिका रागकी ज्यों क्षणमात्रमें प्रीतिका राग नष्ट होय है । बहुरि जैसेँ एक वृक्षविषै पत्ती पूर्वे संकेत किये विना ही आय बसेँ हैं तैसेँ कुटुम्बके जन संकेत विना ही कर्मके वशतँ भेले होय बिखरै हैं । ये समस्त धन सम्पदा आज्ञा ऐश्वर्य राज्य इन्द्रियनिके विषयनिकी सामग्री देखते देखते अवश्य वियोगनै प्राप्त होयंगे यौवन मध्यान्हकी छाया की ज्यों ढलि जायगा, थिर नाहीं रहैगा, चन्द्रमा सूर्य ग्रह नक्षत्रादिक तो अस्त होय फिर उदय होय हैं अर हिम वसन्तादिक ऋतु हू जाय जाय फिर फिर आवै हैं परन्तु गई इन्द्रिय यौवन आयु कायादिक फिर उलटे नाहीं आवै हैं जैसेँ पर्वततँ पडती नदीकी तरङ्ग अरोक चली जाय है तैसेँ आयु क्षण-क्षणमें अरोक व्यतीत होय है । अर जिस देहके आधीन जीवना है तिस देहकूँ जरजैंग करती जरा समय समय आवै है । कैमीक है जरा, यौवनरूप वृक्षके दग्ध करनेकूँ दावाग्निसमान है, सौभाग्यरूप पुष्पनिकूँ ओलानिकी वृष्टि है, स्त्रीनिकी प्रीतिरूप हरणीकूँ व्याघ्र समान है ज्ञाननेत्रके मूँदनेकूँ वृष्टिसमान है, तपस्वरूप कमलके वनकूँ हिमानीसमान है, दीनता उत्पन्न करने की माता है, तिरस्कार बधावनेकूँ धाई समान है, उच्छ्राव घटावनेकूँ तिरस्कार है रूपधनके चोरनेवाली बलकूँ नष्ट करनेवाली जंघागल विगाड़नेवाली आलस्य बधावनेवाली स्मृति नष्ट करने वाली या जरा है, मौतके मिलावनेकी दूती ऐसी जराके प्राप्त होते हू अपना आत्महितकूँ विस्मरण होय स्थिर हो रहे हो सो बड़ा अनर्थ है चारम्बार मनुष्यजन्मादिक सामग्री नाहीं मिलेगी । बहुरि जेतें नेत्रादिक इन्द्रियनिका तेज है सो क्षण क्षणमें नष्ट होय है समस्त संयोग वियोगरूप जानहु इनि इन्द्रियनिके विषयनिमें राग करि कौन कौन नष्ट नाहीं भये ? यह समस्त विषय भी विलाय जायगा, अर इन्द्रिय हू नष्ट होजायंगी, कौनके अर्थ आत्महित छांडि घोर पापरूप दुर्ध्यान करो हो ? विषयनिमें रागकरि अधिक अधिक लीन हो रहे हो, यह समस्त विषय तुम्हारा हृदयमें तीव्र दाह उपजाय विनशैंगे । इम शरीरको रोगनिकारे निरंतर व्याप्त जानहु, अर जीवनिकूँ

मरणकरि व्याप्त जानहु, ऐश्वर्य विनाशके सन्मुख जानहु, ये संयोग हैं तिनका नियमसू' वियोग होयगा । ये समस्त विषय हैं ते आत्माके स्वरूपकू' भुलावनेवाले हैं इनमें रात्रि तीन लोक नष्ट होय गया । जो विषयनिके सेवनेतैं सुख चाहना है सो जीवनके अर्थि विष पीवना है, तथा शीतल होनेके अर्थि अग्निमें प्रवेश करना है तथा मिष्ट भोजनके अर्थि जहरके वृक्षकू' सींचना है । ये विषय महा मोहमदके उपजावनेवाले हैं इनू'का राग छांडि आत्माका कल्याण होनेमें यत्न करो, अचानक मरण आवैगा, फिर मनुष्यजन्म यो जिनेन्द्रको धर्म गयां पाछैं मिलना अनन्तकालमें दुर्लभ है, जैसे नदीकी तरङ्ग निरन्तर चली जाय है - उलटी नाहीं आवै है, तैसें आयु कायरूप बल लावण्य इन्द्रियशक्ति गये हुवे नाहीं बाहुडेगे । - अर जो ये प्यारे स्त्री पुत्रादिक दृष्टिगोचर दीखै हैं तिनका संयोग नाहीं बरया रहैगा, स्वप्नका संयोग समान जानहु, इनके अर्थि अनीति पाप छांडि शीघ्र व्रत संयमादिक धारण करो । यो जगत इन्द्र-जालवत लोकनिके भ्रम उपजावनेवाला है, इस संसारमें धन यौवन जीवन स्वजन परजनका समागममें जीव अन्ध हो रखा है सो धनसम्पदा चक्रवर्तीनिके स्थिर नाहीं रही है तो अन्य पुण्यहीननिके कैसें स्थिर रहैगी ? अर यौवन है सो जराकरि नष्ट होयगा । जीवना मरणसहित है, स्वजन परजन वियोगके सन्मुख हैं, कौनमें स्थिरबुद्धि करो हो ? यो देह है ताकू' नित्य स्नान करावो हो, सुगंध लगावो हं, आभरण वस्त्रादिककरि भूषित करो हो, नानाप्रकार भोजनपान करावो हो, वारम्बार याहोका दासपनामें काल व्यतीत करो हो, शय्या आसन काम भोग निद्रा शीत उष्ण अनेक प्रकारकरि याकू' पुष्ट करो हो, अर याका रागतैं ऐसे अंध होरहे हो जो भ्रम्य-अभ्रम्य योग्य-अयोग्य न्याय-अन्यायका विचाररहित होय अपना धर्म बिगाडना, यश विनाशना, मरण होना, नरक जावना निगोदवास करना समस्त नाहीं गिणो हो, सो यो शरीर जलका भरथा काचा घड़ाकी ज्यों शीघ्र विनशैगा, इस देहका उपकार कृतघ्न उपकारकी ज्यों विपरीत फलैगा, सर्पकू' दुग्ध मिश्रीका पान करानेकी ज्यों अपने महादुःख रोग क्लेश दुर्घ्यान असंयम कुमरण नरकमें पतनका कारण निश्चयतैं जानो । इस शरीरकू' ज्यों ज्यों विषयादिककरि पुष्ट करोगे त्यों त्यों आत्माका नाश करनेमें समर्थ होयगा एकदिन भोजन नाहीं दोगा तो बड़ा दुःख देवैगा, जे जे शरीरमें रागी भये हैं ते ते संसारमें नष्ट होय आत्मकार्य बिगाडि अनंतानंतकाल नरक निगोदमें भ्रमें हैं । अर जे या शरीरकू' तप संयममें लगाय कृश-किया तिनूतैं अपना हित किया है । अर ये इन्द्रियां हैं ते ज्यों ज्यों विषयनिकू' भोगैं हैं त्यों त्यों तृष्णा बधावैं हैं । जैसे अग्नि ईंधनकरि तप्त नाहीं होय है - तैसें इन्द्रियां विषयनिकरि तप्त नाहीं होय हैं । एक एक इन्द्रियके विषयकी बांछाकरि बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भ्रष्ट होय नरक जाय पहुंचे, अन्यकी कहा कहिये । इन इन्द्रियनिकू' दुःखदाई पराधीन करलेवाली नरक पहुंचानेवाली जानि इन्द्रियनिका राग छांडि इतकू' वश करो । संसारमें जेते निवकर्म करिये है तेते समस्त इन्द्रियनिके आधीन होय करि ही

करै हैं यातैं इन्द्रियरूप सर्पनिके विपतैं आत्माकी रक्षा ही करो । बहुरि या लक्ष्मी है सो हृदय-भंगुर है, या लक्ष्मी कुञ्जीनमें नाहीं रमै है, धीरमें शूरमें पंडितमें मूर्खमें रूपवानमें कुरूपमें पराक्रमीमें कायरमें धर्मात्मामें अधर्मीमें पापीमें दानीमें कृपणमें कहां हू नाहीं रमै है, या तो पूर्व-जन्ममें पुण्य कीयो ताकी दासी है । कुपात्रदानादिक कुतप करि उपजी हुई प्राणनिकूँ खोटे भोगनिमें कुमार्गमें मदनिमें लगाय दुर्गति पहुंचानेवाली है । इस पंचमकालके मध्य तो कुपात्र-दानकरि कुतपस्याकरि ही लक्ष्मी उपजै है सो बुद्धिकूँ विगाड़ि महादुःखतैं उपजै महादुःखतैं भोगै पापमें लागै वा दान भोग बिना छांडि मरणकरि आर्तध्यानमें तिर्यचगतिमें उपजावै है । यातैं इस लक्ष्मीकूँ तृष्णा बधावनेवाली, मद उपजावनेवाली जानि दुःखित दरिद्रीनिके उपकारमें, धर्मके बधावनेवाले धर्मके आयतननिमें विद्या पढ़ावनेमें वीतरागसिद्धांत लिखावनेमें लगाय सफल करो । न्यायके प्रामाणिक भोगनिमें जैसे धर्म नाहीं विगड़ै तैसें लगावो, या लक्ष्मी जल तरङ्गवत् अस्थिर है, अवसरमें दान उपकार करलो । परलोक लार जायगी नाहीं, अचानक छांडि मरण करोगे । जो निरन्तर या लक्ष्मीकूँ संचय करै है दान भोगनिमें हू नाहीं लगावै है सो आपकूँ आप ठिगै है जे पापके आरम्भकरि लक्ष्मीकूँ संचय करी महाभूर्च्छाकरि उपाजन करी ताकूँ अन्यके हाथ दीनी, वा अन्य देश में व्यापारादिक करि बधावनेके अर्थि स्थापना करी, तथा जमीनमें अतिदूरि गाड़ि मेली अर रात-दिन याहीका चितवन करता दुर्ध्यानतैं मरणकरि दुर्गति जाय पहुंचै है । कृष्णकै लक्ष्मीका रखवालापणा वा दासपणा जानना । दूर जमीनमें गाड़ी लक्ष्मीकूँ तो पाषाणसमान करी, जैसे भूमिमें अन्य पाषाण गडे हैं तैसें लक्ष्मी हू जानों । तथा राजानिका वा दाईयादारनिका, तथा कुटुम्बीनिका कार्य साध्या, आपका देह तो भस्म होय उड़ि जायगा सो प्रत्यक्ष नाहीं दीखै है कहा ? इस लक्ष्मी समान आत्माकूँ ठिगनेवाला कोऊ अन्य नाहीं है । अपना समस्त परमार्थकूँ भूलि लक्ष्मीका लोभका मारया रात्रि और दिन घोर आरम्भ करै, अवसरमें भोजन नाहीं करै है, शीत उष्ण वेदना सहै है, रोगादिकका कष्टकूँ नाहीं जानै है, चिंतावान हुवा रात्रिकूँ निद्रा नाहीं लेवै, है लक्ष्मीका लोभी अपना मरण होनेकूँ नाहीं गिनै है, संग्रामके घोरके संकटमें जय है, समुद्रनिमें जाय है, घोर भयानक वन पर्वतनिमें जाय है, धर्मरहित देशनिमें जाय है, जहां अपना कोऊ जातिका कुलका घरका दीखिये नाहीं ऐसे स्थानमें केवल लक्ष्मीका लोभकरि भ्रमण करता करता मरणकरि दुर्गतिमें जाय पहुंचै है । लोभी नाहीं करनेका, तथा नीच भील चांडालनिके करनेयोग्य कार्यानिकूँ करै है, तातैं अब जिनेन्द्रके धर्मकूँ प्राप्त होय संतोष धारण करि अपना पुण्यके अनुकूल न्यायमार्गतैं प्राप्त हुआ धनकूँ संतोषी हुवा तीव्र राग छांडि न्यायके विषय भोगो । दुखित बुभुक्षित दीन अनाथनिके उपकारके निमित्त दान सन्मानमें लगावो । या लक्ष्मी अनेकनिकूँ ठिगि दुर्गति पहुंचाये है लक्ष्मीका सङ्गमकरि जगतके जीव अचेत हो रहे हैं अर या पुण्य अस्त होते ही अस्त हो जायगी, लक्ष्मीकूँ संग्रहकरि मर

जाना ऐसा फल लक्ष्मीका नहीं है याका फल केवल उपकार करना, धर्मका मार्ग चलावना है, या पापरूप लक्ष्मीकूँ नहीं ग्रहण करै हैं, अरु ग्रहण करके हूँ ममता छाँडि क्षणमात्रमें त्याग दीनी ते हूँ धन्य हैं, ऐसैं बहुत कहा लिखिये । यह धन यौवन जीवन कुटुम्ब सङ्गमकूँ जलके बुदबुदा समान अनित्य जानि आत्माके हितरूप कार्यमें प्रवर्तन करो । ससारके जेते सङ्गम हैं ते ते समस्त विनाशीक हैं ऐसे अनित्यभावना भावो । अरु जो पुत्र पौत्र स्त्री कुटुम्बादिक हैं ते किसीकी लार परलोक गये नहीं, अरु जायंगे नहीं, अपना उपार्जन किया पुण्य पापादिक कर्म लार रहैगा । अरु ये जाति कुल रूपादिक तथा देश नगरादिकनिका समागम देहकी लार ही विनशैगा । तातैं अनित्यभावना क्षणमात्र हूँ विस्मरण मति होहूँ, जातैं परसूँ ममत्व छूटि आत्मकार्यमें प्रवृत्ति होय । ऐसैं अनित्यभावना वर्णन करी ॥१॥

अब अशरणभावना भावहु—इस संसारमें ऐसा कोऊ देव दानव इन्द्र मनुष्य नहीं है जाके ऊपरि यमराजकी फाँसी नहीं परी है । कालकूँ प्राप्त होतैं कोऊ शरण नहीं है, आयु पूर्ण होनेके कालमें इन्द्रका पतन क्षणमात्रमें होय है जाका असंख्यात देव आज्ञाकारी सेवक, अरु हजारों ऋद्धकरि संयुक्त अरु स्वर्गका असंख्यातकालतैं निवास, अरु रोगादिक जुधा तृपादिक उपद्रवरहित शरीर अरु असंख्यात बल पराक्रमका धारक इन्द्र हीका पतन हो जाय, तो अन्य शरण कोऊ है नहीं । जैसे निर्जन वनमें व्याघ्रकरि ग्रहण किया मृगका बच्चाकूँ कोऊ रक्षा करनेकूँ समर्थ नहीं है, तैसेँ मृत्युकरि ग्रहण किया प्राणीकूँ कोऊ रक्षा करनेकूँ समर्थ नहीं है । इस संसारमें पूर्वे अनंतानंत पुरुष प्रलयकूँ प्राप्त हो गये, यहां कौन शरण है ? कोऊ ऐसा औषध मंत्र तंत्र क्रिया देव दानादिक है नहीं जो एक क्षणमात्र हूँ कालतैं रक्षा करै ? जो कोऊ देव देवो वैद्यमन्त्र तन्त्रादिक एक मनुष्यकूँ हूँ मरणतैं रक्षा करता तो मनुष्य अक्षय हो जाते ? तातैं मिथ्याबुद्धिकूँ छाँडि अशरण भावना भावो । मूढलोक ऐसा विचार करै है जो मेरा हितका इलाज नहीं भया, औषध नहीं दी, कोऊ देवताका शरण नहीं ग्रहण किया, विना उपाय मर गया, ऐसैं अपना स्वजन शोच करै है । अरु अपना शोच नहीं करै है जो मैं हूँ यमकी डाढके बीच बैठे हूँ जो काल कोटनि उपायकरि इंद्रनिकरि नहीं रुद्धा, ताकूँ मनुष्यरूप कीड़ा कैसेँ रोकैगा ? जैसेँ परके मरण प्राप्त होते देखिये हैं तैसेँ मेरे हूँ अवश्य प्राप्त होयगा । जैसेँ अन्य जीवनिके स्त्री पुत्रादिक का वियोग देखिये तैसेँ मेरे हूँ वियोगमें कोऊ शरण नहीं । बहुत अशुभ कर्मका उदीरण होते ही बुद्धि नष्ट होय है, प्रबल कर्मका उदय होते एक हूँ उपाय नहीं चलै है, अमृत विष होय परिणाममें है, वृष हूँ शम्भ होय परिणाममें है, अपने निज मित्र वैरी होय परिणाममें है अशुभका-प्रबल उदयके वृद्धि बुद्धि विनाश होय आप ही आपका घात करै है, अरु शुभ कर्मका उदय होय पर मूर्खके हूँ प्रबल बुद्धि प्रकट होय है, विना किये अनेक उपाय सुखकागी आपतैं ही प्रकट होय है, वैरी हूँ मित्र होय परिणाममें है, विष हूँ अमृतमय परिणाममें है । जब पुण्यका उदय होय तब

समस्त उपद्रवकारी वस्तु हू नानाप्रकार सुख करनेवाली होय है तातैं पुण्यकर्म ही शरण है । पापके उदयकरि हस्तमें प्राप्त हुआ हू धन क्षणमात्रमें नष्ट होय है अर पुण्यके उदयतैं अति दूर तिष्ठती वस्तु हू प्राप्त होय है लाभांतरायका क्षयोपशम होय तदि त्रिना यत्न ही निधि रत्न प्रकट होय है । बहुरि पाप उदय होय तत्र सुन्दर आचरण करता होय ताकूँ हू दोष कलङ्क लगै है, अपवाद अवयश होय है, अर यशनामकर्मका उदयकरि समस्त अपवाद दूरि होय, दोष हू गुणरूप परिणमें हैं । संसार है सो पुण्य पापका उदयरूप है परमार्थतैं दोऊ उदयकूँ परका किया आपतैं भिन्न जानि ज्ञायक रहो हर्ष विषाद मति करो । पूर्वै बंध किया सो अग उदय आगया सो अपना किया दूरि होय नाहीं उदय आये पाछैं इलाज नाहीं, कर्मका फल जो जन्म जरा मरण रोग चिन्ता भय वेदना दुःखकूँ प्राप्त होते कोऊ रक्षा करनेवाला मन्त्र तन्त्र देव दानव औषधादिक समर्थ नाहीं होय है । कर्मका उदय आकाश पातालमें कहीं ही नाहीं छोड़े है औषधादिक बाह्य निमित्त हू अशुभकर्मका उदयकूँ मन्द होतैं उपकार करै हैं दुष्ट चोर भील वैरी तथा सिंह व्याघ्र सर्पादिक तौ ग्राममें वनमें मारैं, जलचरादिक जलमें मारै, अर अशुभ कर्मका उदय जलमें स्थलमें वनमें समुद्रमें पहाड़में गढ़में घरमें शय्यामें कुटुम्भमें राजादिक सामंतनिके बीच शस्त्रनिकरि रक्षा करते हू कहां ही नाहीं छांड़े है । इसलोकमें ऐसे स्थान हैं जिनमें सूर्य चन्द्रमाका उद्योत तथा पवन तथा वैक्रियिकऋद्धिधारी हू गमन नाहीं कर सकैं हैं परन्तु कर्मका उदय तो सर्वत्र गमन करै है प्रबल कर्मका उदय होते विद्या मन्त्र बल औषधि पराक्रम निर्जामित्र सामंत हस्ती घोड़ा रथ पियादा गढ़ कोट शस्त्र उपाय साम दाम दण्ड भेदादिक समस्त उपाय शरण नाहीं हैं जैसे उदय होता सूर्यकूँ कौन रोकै तैसे कर्मका उदयकूँ अगोक जानि साम्यभाव की शरण करो तौ अशुभकर्मका निर्जरा होय, आगानै नवीन बंध नाहीं होय, रोग वियोग दरिद्र मरणादि कृतितैं भय छांड़ि परम धैर्य ग्रहण करो । जो अपना वीतराग संतोषभाय परम समताभाव जो ही शरण है अन्य नाहीं, इस जीवका उत्तमत्तमादिक भाव आपकूँ शरण है । क्रोधादिकभाव इसलोक परलोकमें इस जीवका घातक है, इस जीवके कषायानेकी मन्दता इसलोक में हजारों विघ्नोंका नाश करती परम शरण है, परलोकमें नरक तिर्यचगतिमें रक्षा करै है, मंदरूपायीका देवलोकमें तथा उत्तम मनुष्यनिमें उपजना होय है । अर जो पूर्वकर्मका उदयमें श्रात्त रौद्र परिणाम करोगे तो उदीरणाकूँ प्राप्त हुवा कर्मके रोकनेकूँ कोऊ समर्थ है नाहीं, केवल दुर्गतिका कारण नवीन कर्म और बंधेगा । कर्मके उदय आवनैके कारण बाह्य सहकारी क्षेत्र काल भाव मिलै पाछैं कर्मके उदयकूँ इन्द्र जिनेन्द्र मणि मंत्र औषधादिक कोऊ रोकनेकूँ समर्थ है नाहीं, रोगनिका इलाज तो जगतमें औषधादिक देखिये है परन्तु प्रबल कर्मका उदयके रोगनिकूँ औषधादिक समर्थ नाहीं होय है, विपरीत होय परिणमें हैं । इस जीवके असातावेदनीयकर्मका उदय प्रबल होय वा उपशम होय तदि औषधादिक उपकार करै है । क्योंकि मंद

उदयके रोकनेकूँ समर्थ तो अल्पशक्तिका धारक हूँ होय है । प्रवल बलका धारककूँ अल्पशक्तिका धारक रोकनेकूँ समर्थ नहीं होय है । अरु इस पंचमकालमें अल्प ही तो बाह्य द्रव्य क्षेत्रादिक सामग्री है अल्प ही ज्ञानादिक हैं अल्प ही पुरुषार्थ है अरु अशुभका उदय आवनेका बाह्य सामग्रीका सहाय प्रवल है, तातैं अल्प सामग्री अल्प पुरुषार्थतैं प्रवल असाताका उदयकूँ कैसेँ जीतैं ? जैसेँ प्रवल नदीका प्रवाह टाहा उपाडता चल्या आवै, ताकै सन्मुख तिरण-विद्यामें समर्थ हूँ पुरुष तिर नहीं सकै है, नदीका प्रवाहका वेग मंद बहता होय तदि तिरणोकी कलाका धारक तिरकरि पार हो जाय है; तातैं प्रवल कर्मका उदयमें आपकूँ अशरण चितवन करो । यहां पृथ्वी अरु समुद्र दोऊ बड़े हैं सो पृथ्वीके पार होनेकूँ अरु समुद्रके तिरणोकूँ हूँ समर्थ अनेक देखिए है परन्तु कर्मउदयके तिरणोकूँ समर्थ होना नहीं देखिए है । इस संसारमें एक सम्यग्ज्ञान शरण है तथा सम्यग्दर्शन शरण है तथा सम्यक्चारित्र सम्यक्कृत्य संयम शरण है इन चार आराधना विना अनन्तानन्त कालमें कोऊ शरण नहीं है, तथा उत्तम क्षमादिक दशधर्म प्रत्यक्ष इस लोकमें समस्त क्लेश दुःख मरण अपमान हानितैं रक्षा करनेवाला है । इस मंद-कपायका फल तो स्वाधीन सुख, अरु आत्मरक्षा, अरु उज्ज्वल यश क्लेशरहितपना उच्चता इसलोकमें प्रत्यक्ष देखि याका शरण ग्रहण करो । अरु परलोकमें याका फल स्वर्गलोकमें होना है । बहुरि व्यवहारमें चार शरण हैं अरुहंत, सिद्ध, साधु केवलीका प्रकाश्याधर्म; ये शरण जानना जातैं इनका शरण विना आत्मा उज्ज्वलताकूँ नहीं प्राप्त होय है । ऐसेँ अशरण भावना वर्णन करी ॥२॥

अब संसारभावनाका स्वरूप वर्णन करैं हैं—इम संसारमें अनादिकालका मिथ्यात्वके उदय करि अचेत भया जीव जिनेन्द्र सर्वज्ञ वीतरागका प्ररूपण किया सत्यार्थ धर्मकूँ नहीं प्राप्त होय न्याहूँ गतिनिमें परिभ्रमण करै है, संसारमें कर्मरूप दृढ़ बंधनकरि बंधा पराधीन हुवा त्रस स्थावरनिमें निरन्तर घोर दुःख भोगता वारम्बार जन्म मरण करै है । अरु जे जे कर्मका उदय आय रस देहैं तिनके उदयमें आपा धारण करि अज्ञानी जीव अपना स्वरूपकूँ छांडि नवीन नवीन कर्मका बंधकूँ करैं हैं अरु कर्मके बंधके आधीन हुवा प्राणीनिकै ऐसी कोऊ दुःखकी जाति बाकी नहीं रही जो नहीं भोगी, समस्त दुःखनिकूँ अनंतानंत वार भोगते अनंतानतकाल व्यतीत हो गया । ऐसे अनंत परिवर्तन संसारमें इस जीवकै व्यतीत भये हैं ऐसा कोऊ पुद्गल संसारमें नहीं रह्या जाकूँ जीव शरीररूप आहाररूप ग्रहण नहीं किया ? अनन्त जातिके अनन्त पुद्गलनिका शरीर धारया, आहाररूप भोजनपानरूप हूँ किये । तीनसैं तीयालीस घनराजू प्रमाण लोकमें ऐसा कोऊ क्षेत्रकी एक प्रदेश हूँ नहीं है जहां संसारी जीव अनन्तानन्त जन्म मरण नहीं किये, अरु उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालका ऐसा कोऊ एक समय हूँ बाकी नहीं रह्या है जिस समयमें यो जीव अनन्तवार नहीं जन्म्या अरु नहीं मरया, अरु नरक तिर्यच मनुष्य देव इन चारों पर्याय

निमें यो जीव जघन्य आयुतै लेय उत्कृष्ट आयु पर्यन्त समस्त आयु का प्रमाण धारण करि करि अनन्तवार जन्म धारया है। एक अनुदिश अनुत्तरविमाननिमें तो नाहीं उपज्या, क्योंकि उन चौदह विमाननिमें सम्यग्दृष्टि विना अन्यका उत्पाद नाहीं, सम्यग्दृष्टिकै संसारपरिभ्रमण नाहीं है। बहुरि कर्मकी स्थितिवंधके स्थान तथा स्थितिवंधकू कारण असंख्यातलोकप्रमाण कषायाध्यवसाय स्थान तिनकू कारण असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागबंधाध्यवसायस्थान तथा जगतश्रेणीके संख्यातवें भाग योगस्थान ऐमा कोऊ भाव बाकी नाहीं रखा जो संसारीके नाहीं भया। एक सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रके योग्य भाव नाहीं भये अन्य समस्त भाव संसारमें अनन्त वार भये हैं। जिनेंद्रके वचनका अवलंबनरहित पुरुषनिकी मिथ्याज्ञानके प्रभावतै विपरीतबुद्धि अनादिकी हो रही है सो सम्यक्मार्गकू नाहीं ग्रहण करता संसाररूप वनमें नष्ट हुआ निगोदमें जाय प्राप्त होय है। कैसीक है निगोद जातै अनन्तानन्तकालमें हू निकसना अतिकठिन है, अर कदाचित् पृथ्वीकायमें जलकायमें अग्निकायमें पवनकायमें प्रत्येक साधारण वनस्पतिकायमें समस्त ज्ञानकी नष्टतातै जड़रूप हुवा एक स्पर्शनइन्द्रियद्वारै कर्मका उदय के आधीन हुआ आत्मशक्तिरहित जिह्वा घ्राण नेत्र कर्णादि इन्द्रियरहित हुआ दुःखमय दीर्घकाल व्यतीत करै है अर वेन्द्री त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रियरूप विकलत्रयजीव आत्मज्ञानरहित केवल रसनादिक इन्द्रियनिका विषयनिका अतितृष्णाका मारया उछलि उछलि विषयनिके अर्थ पडि पडि मरै है। बहुरि असंख्यातकाल विकलत्रयमें फिर एकेन्द्रियनिमें फिर-फिर बारम्बार अरहटकी घड़ीकी ज्यों नवीन नवीन देह धारण करता चारों गतिनिमें निरन्तर जन्म-मरण जुध-तृषा रोग वियोग संताप भोगता परिभ्रमण अनन्तकालतै करै है याहीका नाम संसार है। जैसे तप्तायमान आधरणमें तन्दुल सर्व तरफ दौड़ता सन्ता सीझै है तैसे संसारी जीव कर्मकरि तप्तायमान हुआ परिभ्रमण करै है। आकाशमें गमन करते पक्षीनिकू अन्य पक्षी मारै हैं, जलमें विचरते मच्छादिकनिकू अन्य मच्छादिक मारै हैं, स्थलमें विचरते मनुष्य पशुआदिकनिकू स्थलचारी सिंह व्याघ्र सर्पादिक दुष्ट तिर्यंच तथा भील म्लेच्छ चोर लुटेरा महानिर्दई मनुष्य पशु मारै हैं। इस संसारमें समस्त स्थाननिमें निरन्तर भयरूप हुआ निरन्तर दुःखमय परिभ्रमण करै हैं, जैसे शिकारीका उपद्रवकरि भयभीत हुआ स्रस्या ( शशक ) फाड़ा हुआ अजगरका मुखकू बिल जानि प्रवेश करै है तैसे अज्ञानी जीव जुधा तृषा काम कोपादिक तथा इन्द्रियनिके विषयनिकी तृष्णाकी आतापकरि संतापित हुआ विषयादिकरूप अजगर का मुखमें प्रवेश करै है, विषय कषायनिमें प्रवेश करना सो ही संसाररूप अजगरका मुख है यामें प्रवेश करि अपने ज्ञान दर्शन सुखसत्तादिक भावप्राणनिकू नाशकरि निगोदमें अचेतनतुल्य हुआ अनन्तवार जन्म मरण करता अनंतानंतकाल व्यतीत करै है तहां आत्मा अभावतुल्य ही है, ज्ञानादिक अभाव भया तदि नष्ट ही भया, निगोदमें अक्षरके अनंतवें भाग ज्ञान है सो सर्वज्ञ करि देख्या है अर त्रसपर्यायमें हू जेते दुःखके प्रकार हैं ते ते दुःख अनंतवार भोगै हें ऐसी कोऊ



दुःखकी जाति बाकी नहीं रही, जो या जीवनै संसारमें नहीं पाई। इस संसारमें जो जीव अनंतपर्याय दुःखमय पावै तदि कोई एक वार इन्द्रियजनित सुखकी पर्याय पावै है सो हू विषय-निका आतापसहित भय शङ्कासंयुक्त अल्पकाल पावै, फिर कोऊ एक पर्याय इन्द्रियजनित सुखकी कदाचित् प्राप्त होय है।

अथ चतुर्गंतिका किञ्चित् स्वरूप परमाणुके अनुसार वितवन् करिये है—नरककी सप्त पृथ्वी हैं तिनमें गुणंचास पटल हैं तिन पटलनिमें चौरासी लाख विल हैं ति-हीकूँ नरक कहिये है, तिनकी वज्रमयभूमि भीति छति है। केई विल-संख्यात योजनके चौड़े लंबे हैं, केई असंख्यात योजनके लंबे चौड़े हैं, तिन एक एक विलनिकी छतिविपै नारकीनिके उत्पत्तिके स्थान हैं, ते छोटे मुखके उष्ट्रमुखके आकारादिक लिये औंथे मुख हैं, तिनमें नारकी उपजि नीचें मस्तक अर ऊंचे पगतें आय वज्राग्निमय पृथ्वीमें पडिकरि जैसेँ जोरतें पड़ी दंडी पडकारि भूपा खाय उछलै है। तैसेँ पृथ्वीमें पडि उछलते लोटते फिरै हैं। कैसी है नरककी भूमि असंख्यात वीछूनिके स्पर्श-नितें असंख्यातगुणी वेदना करनेवाली है। तिन नरकनिके विलनिमें ऊपरिकी च्यार पृथ्वीमें अर पंचपृथ्वीके दोय लक्ष विल ऐसे वीयालीस लाख विलनिमें तो केवल आताप उष्णताकी वेदना है। सो नरककी उष्णताके जणावनेकूँ इहां कोऊ पदार्थ दीखनेमें जाननेमें आवै नहीं, जाकी सदृशता कही जाय ? तो हू भगवानके आगममें ऐसा अनुमान उष्णताका कराया है जो लक्ष योजनप्रमाण मोटा लोहे का गोला छोड़िये तो भूमिकूँ नहि पहुंचतप्रमाण नरकक्षेत्रकी उष्णताकरि रसरूप होय बहि जाय है अर पंचपृथ्वीका तिहाई अर छटी-सातवींका शीतविलनिमें शीतकी ऐसी तीव्र वेदना है जो लक्षयोजनप्रमाण लोहका गोला धरिये तो एकक्षण मात्रमें शीत-करि खंड खंड होय बिखरि जाय है। ऐसी उष्णवेदना अर शीतवेदनाका भरा नरकमें कर्मके वश भये जीव घोर दुःख असंख्यातकाल पर्यंत भोगै हैं आयु पूर्ण भये विना मरणकूँ प्राप्त नहीं होय हैं। ऐसी तो नरकमें घोर शीत उष्णकी वेदना है। अर जुधावेदना ऐसी है जो समस्त जगतके पाषाण मृत्तिकादिक भक्षणा किये हू जुधावेदना नहीं मिटै, पर एक कणमात्र भक्षणाकूँ मिलै नहीं। अर तृषावेदना ऐसी है जो समस्त ममुद्रनिका जल पीवैतो हू तृषाकी वेदना नहीं दूर होय, पर एक वृंदमात्र जल जहां मिलै नहीं, अर कोटयां रोगनिकी घोरवेदना जहां एक ही कालमें उत्पन्न होय है, जहां नश्वीन नारकीकूँ देखि हजारों नारकी महाभयङ्कररूप अनेक आयुधनिकरि सहित मारण्यो, चीरो, फाडो, विदारो ऐसा भयङ्कर शब्द करते चारों तरफतें मारनेकूँ आवै हैं। कैसे हैं नारकी नग्नरूप अतिलूखा भयङ्कर श्यामरूप रक्त पीत वक्रनेत्रनिकरि क्रूर देखते फाटे हैं मुख जिनके, लहलहाट करती विकराल जिह्वाकरि युक्त, करोतसमान तीक्ष्ण वक्र हैं दन्त जिनके, तथा ऊंचे रक्त पीन कठोर केशनिकरि भयानक, तीक्ष्ण नख, महानिर्दयी, हुण्डकसंस्थान के धारक आयकरि केई सुदृगर मुसएडीनिकरि मस्तकका चूर्ण करै हैं तथापि रकीनिका देह जैसेँ जलके

भरे द्रहमें जलकूँ मूसलादिककरि कूटते जल उछलिकरि उसही द्रहमें शामिल आय पड़े है तैसेँ नारकीनिका देह हू खंड खण्डरूप होय उछलि उछलि शामिल आय मिलै है, आयु पूर्ण हुआ विना मरण नाहीं होय है, तरवारनिँ खंड खंड करैँ हैं, करोतनिँ चौरैँ हैं, कुन्हाडेनिँ फोड़ैँ हैं, वसोलेनिँ छीलैँ हैं, भालानिँ बेधैँ हैं, शूलीनिँ पोवैँ हैं, उदरादिक मरमस्थाननिकूँ छेदैँ हैं विदारैँ हैं, नेत्रनिकूँ उपाड़ैँ हैं, भाड़में भूजैँ हैं, कढाहेनिँ रांधेँ हैं, घाणीनिँ पेलैँ हैं, ऐसेँ परस्पर नारकीनिकरि मारण ताडन त्रासण जो नरकमें है सो कोऊ कोटि जिह्वानिकरि कोट्यां वर्यत एक क्षणके दुःख कहनेकूँ समर्थ नाहीं है ।

नरकमें जो दुःखकारी सामग्री है ताका एक क्षण मात्र हू इसलोकमें नाहीं है जहां नरकभूमिकी सामग्री अर नारकीनिका विकरालरूप जो है जैसा कोऊनैँ एक क्षण स्वप्नमें दिखावैँ तो भयकरि प्राणरहित हो जाय । अर नारकीनिकैँ रससामग्री ऐसी कड़वी है इहां कांजीर विष हालाहलमें नाहीं । नारकीनिके देहादिकनिका एक कण यहां आवैँ तो जिनकी कड़वी गंधतैँ यहांके हजारों पंचेन्द्री जीव मरण कर जांय । अर नरककी मृत्तिकाकी दुर्गंध ऐसी है जो सातवां नरककी, मृत्तिकाका एक कण यहां आ जाय तो साढा चौईस कोसके चारू तरफके पंचेन्द्री जीव दुर्गंधतैँ मरण कर जांय । जाँतैँ एक हू एक नरक पटलकी मृत्तिकाकी दुर्गंधमें आध-आध कोसके अधिक अधिक जीव मारणेकी शक्ति है ताँतैँ गुणंचासमां पटलकी मृत्तिकाकी दुर्गंधमें साढा चौईस कोसपर्यंतकी मारणशक्ति कही है । बहुरि नरकमें वैतरणी नदी है ताका जल कैसाक है जाके स्पर्शमात्रतैँ नारकीनिके शरीर फाटि जाय हैं, तिनमें चार विष अग्निमय तप्त तेलके सींचनतैँ हू अपरिमाण वाधाका उपजावने वाला है । अर जहांकी पवन ऐसी है जो यहांके पर्वत स्पर्श होने मात्रतैँ भस्म होय उडि करि जगतमें विखर जांय । अर नरक की वज्राग्निक्कूँ धारण करनेकूँ यहां पृथ्वी पर्वत समुद्र कोऊ समर्थ नाहीं । कहा स्वरूप वर्णन करिये, नारकीनिके शब्द ऐसे भयङ्कर अर कठोर हैं जो यहां श्रवण कर ले तो हस्तीनिके अर सिंहनिके हृदय फाटि जांय, तहां नारकीनिकूँ कर्मरूप रखवाले सागरांपर्यंत नाहीं निकसनैँ दे हैं जहां निरन्तर मार मार सुनिये हैं रोवैँ हैं पकड़ैँ है भागैँ हैं घसीटे हैं चूर्णरूप करैँ हैं अर अंग फिर फिर पारेका ज्यों मिलता चल्या जाय है कोऊ रक्षक नाहीं, दयावान नाहीं, राजा नाहीं, मित्र नाहीं, माता नाहीं, पिता नाहीं पुत्र स्त्रीकुटुम्बादिक नाहीं, केवल पापका भोग है । कोऊ त्रिपवानैँ स्थान नाहीं, कोऊअ अपना दुःख-दरद कहिये सो नाहीं, केवल क्रूरपरिणामी महाभयङ्कर पातकी हैं । जैसेँ इहां दुष्ट श्वानादि तिर्यचनिके देखते प्रमाण्य वैर है तैसेँ नारकीनिके विना कारणही परस्पर वैर है । दुःखतैँ भाग वनमें जाय तहां शाल्मलीवृक्षादिकनिके पत्र शरीरकूँ वसोले कुहाडे-निकी ज्यों काटनेवाले आय पड़े हैं तिनकरि अंग छिदि जाय कटि जाय है । बहुरि वनहीमें वा गुफानिमेंतैँ मिह व्याघ्रादिक निकसिकरि अंगकूँ विदारैँ हैं जहां वज्रमई चूंचनिके धारक गृद्धा-

दिक पक्षी नारकीनिके अङ्गू फाड़ें हैं नेत्रादिक उपाड़ें हैं, उदर फाड़ि आतां काटि ले हैं यद्यपि नरकमें तिर्यच नहीं है तथापि नारकी जीव विक्रिया करि तिर्यचरूप हो जाय हैं नारकीनिके पृथक् जुदा शरीर करनेकी विक्रिया नहीं है एक शरीर ही सिंह व्याघ्र श्वान घूघू काकादिकनिका देह धारण करै है । नारकी शुभ क्रिया चाहें तो हू शुभ नहीं होय, आपकू अन्यकू दुःखदाई ही परिणाम अर देह वेदना विक्रिया करनेकू समर्थ हैं, सुख करनेवाली विक्रिया नहीं होय, परिणाम नहीं होय, देह नहीं होय, वेदना नहीं होय, ऐसा क्षेत्रजनित जीवनिके पापकर्मका उदय है । बहुरि नरकमें नारकीनिके मारनेके नाना आयुध शूली घाण्यां जन्त्र लोहमय ओटावनेके तलनेके रांधनेके नाना दुःखदायी पात्र क्षेत्रके स्वभावतैं ही है जहां सुखदायी सामग्री तो स्वप्नमें हू नहीं है जहां लोहमय पूतली ज्वालाकू उगलती महावेदना सन्ताप करनेवान्ना जिनका अङ्ग ते उच्छलिकरि नारकीनिकू पकड़ें हैं स्पर्शैं हैं तिनका स्पर्श कोटिवीछूनिके स्पर्शमान तथा वज्राग्नि समान तथा विषमय तीक्ष्ण शस्त्रनिका स्पर्शमात्रतैं असंख्यातगुणी वेदना करै है जो नरकनिमें दुःखदायी सामग्री है तिमका स्वभावादिक दिखावनेकू अनुभव करावनेकू समस्त मध्यलोकमें कोऊ वस्तु दीखै नहीं, तथापि उनकी अधिकता दिखावनेकू केतीक वस्तु वर्णन करी है । अर नारकीनिका दुःख तो साक्षात् भगवानका ज्ञान जानै है तथापि नारकी होय भुगतैं तदि यो जीव जानै है । नारकीनिका देह रुधिर मांस हाड चाम आदि सप्तधातुमय नहीं है परन्तु उनके देहके पुद्गल ऊंट श्वान मार्जारदिकनिके सड़े हुये कलेवर तिनतैं असंख्यातगुणे दुर्गंधयुक्त हैं अर असंख्यातगुणे दुर्निरीच्य घृणा करानेवाले हैं जिनका स्वरूप न देखा जाय, न श्रवण किया जाय, न गंध ग्रहण किया जाय, मनुष्यादिक तो देखतप्रमाण दुर्गंधि आवतप्रमाण प्राणरहित हो जाय । पूर्वजन्ममें परिणामनितैं खोटे नरकका आयु बांधि उपजै हैं ते असंख्यातकाल पर्यंत दुःख भोगैं हैं बहुत आरम्भ करनेवाले बहुत परिग्रहमें आसक्त घोर हिंसक परिणामी विश्वासघाती धर्मद्रोही गुरुद्रोही स्वामिद्रोही कृतघ्नी परधन-परस्त्रीके लोलुपी अन्यायमार्गी धर्मात्माकै त्यागीनिकै कलङ्क लगावनेवाले यतीनिका घात करनेवाले ग्रामनिमें घास तृणादिक वृक्षनिमें अग्नि लगानेवाले देवद्रव्य चोरनेवाले तीव्रकषायी अनन्तानुबंधीकषायके धारक कृष्णलेश्याके धारक सुन्दर आहारादि मिलते हू जिहाइन्द्रियकी लोलुपतातैं मांसके भक्षक मद्यपायी वेश्यानुरागी पर-विघ्नसंतोषी लम्पटी तीव्रलोभी दुराचारके धारक मिथ्यात्व अन्याय अभच्यकी प्रशंसा करनेवाले-निका नरक गमन होय है । विषादिक मिलावना, विषादिक उपजानेवाले, वनकटी करावनेवाले वनमें दावाग्नि लगानेवाले जीवनिकू वाडामें बांधि दग्ध करनेवाले हिंसाके तीव्रकर्मकी परिपाटीके चलानेवालेनिका नरक गमन होय है । नरकमें अम्बावरीसादिक दुष्ट असुरकुमार तीसरी पृथ्वी-ताईं जाय लड़ावैं हैं कोऊ नारकीनिकू तीजी पृथ्वीताईं पूर्वले सम्बन्धी देव आय धर्मका उपदेश भी देय है किसीके पूर्वला पापनिकी निंदा भी होय है बड़ा पश्चात्ताप होय है जो म्हानै पूर्वे

सत्पुरुषां शिक्षा घणी ही करी-अरे, अनीति मार्ग मति लागो, बहुत उपदेश भी दिया, परन्तु मैं पापी विषयकपायनिमें मदकरि अन्धा भया शिक्षा ग्रहण नहीं करी अब मैं दैवबल पौरुषबलकरि रहित कहा करूँ ? जे पापी दुराचारी पापमें प्रेरणा करनेवाले व्यमनी अनीतिके पुष्ट करनेवाले हमकूँ नरकमें प्राप्त किये ते पापो न जानिये देह छांडि कहां जायगे हमारी लार कोऊ दीखे नहीं, हमारे धन भोगनेमें विषय सेवनमें सहाई पापके प्रेरक मित्र पुत्र बांधव स्त्री सहायादिक थे अब उनकूँ कहां देखूँ ऐसैं अवधिज्ञानतैं पूर्व जन्ममें दुराचार किये तिनका पश्चात्ताप करता घोर मानसिक दुःखकूँ प्राप्त होय है । केई महाभाग्यकैं सम्यग्दर्शन भी उपजै है परन्तु पर्याय-संबंधी कपाय दुःख स्वयमेव उपजै है आप किसीकूँ नहीं मारया चाहै तो हू कषायनिकी प्रबलता कर्मउदयतैं रुकै नहीं, स्वयमेव हस्तादिक शस्त्ररूप परिणमै हैं ।

नारकीनिके क्षणमात्र विश्राम नहीं निद्रा नहीं, भूमिकै स्पर्शका दुःख ही केवली-भस्य है अतितीव्र कर्मका उदयमें कोऊ शरण नहीं शरणका अर्थी हुवा देखै तहां कोऊ दयावान नहीं ससस्त क्रूर निदयी भयानक उग्रदेहका धारक अङ्गारा समान प्रज्वलित नेत्रनिकरि सहित प्रचण्ड अशुभव्यानके करावनेवाले क्रोधकूँ उपजावनेवाले घोर नारकी हैं तिन नारकीनिके महान् विलाप अरु रुदन मारण त्रासनके घोर शब्द सुनिये हैं अहो जब मैं मनुष्यपनामें स्वाधीन होय आत्म-हित नहीं किया अब दैव पुरुषार्थ दोऊनिके बलकरिरहित कहा करूँ ? पूर्व जे जे निंदकर्म में किये ते ते अब मेरे याद करते ही मरमनिकूँ छेदैं हैं जो दुःख एकनिमेष मात्र नहीं सहा जाय सो यहां सागरांपर्यंत कैसैं पूर्ण करस्युं जिनके अर्थि पापकर्म किये ते सेवक स्त्री पुत्र बांधवनिकूँ यहां कहां देखूँ वे तो धनके विषयनिके भोगनेमें शामिल थे अब इनि दुःखनिमें कहां देखूँ, ऐसैं दुःखनितैं रक्षा करनेवाला एक दयाधर्म ही है सो धर्म में पापी उपार्जन नहीं किया, परिग्रहरूय महापिशाचकरि अचेतन भया या नहीं जानी जो यमराजरूप सिंहकी चपेटतैं एकक्षणमें मरि नारकी जाय उपजूंगा इत्यादिक मनका संतापजनित घोर दुःखनिकूँ प्राप्त होय है । जो पूर्वजन्ममें अन्य प्राणिनिका मांस छेदि खाया है तातैं मेरा मांसकूँ काटि काटि मोकूँ खुवावैं है पूर्व सद्यपान किया, अभक्ष्य खाया, तातैं अनेक नारकी ताम्र-लौहमय गल्या हुआ रस सिंढासीनितैं मुखफाडि पावैं हैं जे परस्त्री लम्पटी थे तिनकूँ बज्राग्निमय पूतला बलात्कार पकडि बहुतकाल आलिंगन करावैं हैं चतुका टिमकारनेमात्रकाल हू सुख है नहीं, जो कदाचित् कोऊ कालमें क्षणमात्र भूलि जाय तो दुष्ट अधर्म असुर प्रेरणा करैं वा परस्पर नारकी प्रेरणा करैं हैं । बहुत कहा कहिये असंख्यात जातिके दुःख असंख्यात काल पर्यन्त नरकमें नारकी भोगैं हैं संसारमें एक धर्म ही इस जीवका उद्धार करने वाला है सो धर्म उपजाया नहीं, तदि नरकमें कौन रक्षा करै, कोऊ धन कुडुम्बादिक जीवकी लार नहीं जाय है अपना भावनितैं उपार्जन किया पाप-पुण्य कर्म ही लार हैं । ये संसारों उपस्थ इन्द्रिय अरु रसनाइन्द्रियके विषयनिके लोलुपी होय नरकादिनिमें

दुःखका पात्र होय हैं ऐसैं तो अनेक बार नरक जाय घोर दुःख भोगैं हैं ।

बहुरि तिर्यचगतिनिमें गया पाछें कुछ भ्रमणका ठिकाना नाहीं दुःखका पार नाहीं, दुःख मय ही है, पृथ्वीकायमें खोदना दग्ध करना कूटना रगड़ना फोड़ना छेड़ना आदि क्रियानितैं कौन रक्षा करै, जलकाय धारण किया तहां औटाया गया बाल्या गया, मसल्या गया मल्या गया पिया गया विषनिमें चारनिमें कटुरनिमें मिलाया गया तप्तलोहादिक धातु पाषाणादिकमें बुझाया गया घोरशब्द करता बलै है पर्वतनिमें पडि शिलानि ऊपरि घोर पछाडा छाये हैं वस्त्रनिमें भरि भरि करि शिलानि ऊपरि पछाडिये है दंडनिकरि कूटिये है जलकायके जीवनिकी कौन दया करै, अग्नि ऊपरि पटकिये ग्रीष्मऋतुमें तप्तभूमि रजादिकऊपरि सींचिये कौऊ दया करै नाहीं, क्योंकि पूर्वजन्ममें दयाधर्म अङ्गीकार किया नाहीं, अब अपनी दया कौन करै । बहुरि अग्निकायमें ह दवाना बुझावना कूटना छेड़ना इत्यादिक घोर दुःख भोगैं है कौन रक्षा करै । बहुरि पवनकाय पाया तहां पर्वतनिकरि कठोर भीतनिकी निरन्तर चोट सहै है अग्निमय चर्ममय धवनकरि धमिये हैं बीजने पंखे वस्त्रनि करि फटकारे खानेकरि वृक्षनिके पछांटेनिकरि पवनकायमें घोरदुःख भोगैं है । बहुरि वनस्पतिकायमें साधारणनिमें तो अनन्तनिका एकका घातमें मरण इत्यादिक दुःख तो ज्ञानी ही जानै है परन्तु प्रत्येकवनस्पतिका दुःख देखी जो काटिये है, छेदिये है, छीलिये है, बनारिये है, रांधये है, चाबिये है, तलिये है, घृत-तेलादिकमें छोंकिये है, बांटिये है, भोभलमें भुलसिये है, घसीटिये है, रगड़िये है, घाणीनिमें पेलिये है, कूटिये हैं इत्यादिक घोर दुःख वनस्पतिकायमें यो जीव पावै है यातैं एकेन्द्रीपर्यायमें बोलनेकूँ जिह्वा नाहीं, देखनेकूँ नेत्र नाहीं, श्रवणकरनेकूँ कर्ण नाहीं, हस्त पादादिक अंग उपाङ्ग नाहीं, कौऊ रक्त नाहीं, असंख्यात अनन्तकालपर्यन्त घोर दुःखमय एकेन्द्रियपनातैं निकसना नाहीं होय है । मिथ्यात्व अन्याय अभव्यादिकरनिके प्रभावकरि जीवका समस्त ज्ञानादिक गुण नष्ट होय है एकेन्द्रियमें किंचितमात्र पर्यायज्ञान रहै है आत्माका समस्त प्रभाव शक्ति सुख नष्ट हो जाय, जड़ अचेतनकी ज्यों होय है, किंचितमात्र ज्ञानकी सत्ता एक स्पर्शनइन्द्रियके द्वारै ज्ञानीनिके जाननेमें आवै है समस्त शक्तिरहित केवल दुःखमय एकेन्द्रियपर्यायमें जन्म-मरण वेदना दुःख भोगैं है ।

बहुरि कदाचिन कौऊ त्रसपर्याय पावै तो विकलचतुष्कमें घोर दुःख भोगैं है लहलहाट करती जिह्वाइन्द्रिका मारयो तीव्र चुधा-तृषामय वेदनाका मारया निरन्तर आहारकूँ हेरता फिरै है लट कीड़ा अपना मुख फाड़ि आहारके निमित्त चपल भये फिरै हैं मक्खिका, मकड़ी, मांछर, डांस चुधाका मारया निरन्तर आहार हेरता फिरै हैं रसनिमें पडै हैं, जलमें अग्निमें पडै हैं पवननिके वा वस्त्रनिके पछांटेनिकरि मरै है तिर्यञ्चनिकी पूंछनितैं, खुरनितैं नाशकूँ प्राप्त होय हैं मनुष्यनिके नखनिकरि हस्त-पादादिकनिके घात करि चियैं हैं, दवैं हैं, मलकफादिकनिमें उलभैं हैं, विकलत्रयकी कौऊ दया करै नाहीं चिडी, कागला चुगि जाय हैं त्रिसमरा सर्प इत्यादिक हेर-हेर मारै पर्वी बड़ी त्रज्मय चूचनिकरि चुगैं हैं चीरैं हैं अग्निमें बालै है इली घुण इत्यादिक

कीटनिकरि भरया हुआ धान्यादिक तिनकूँ दलै हैं, पीसै हैं, ऊखलीनिमें खण्ड खण्ड करै हैं, भाड़निमें भूँने है, राधै हैं तथा बदरीफलादिक फलनिमें शाक पत्रादिकनिमें विदारिये हैं, छीलिये है, कूटिये है, छौंक्रिये है, चाविये है, कोऊ दया नाही करै है । बहुरि मेवेनिके फलनिमें, औषधनिमें, पुष्प पल्लव डाली जड़ बल्कलनिमें तथा मर्यादातै अधिक कालका समस्त भोजन दधि दुग्धादिक रसनिमें बहुत विकलत्रय वा पंचेंद्रिय जीव उपजै हैं ते समस्त खाया जाय, जीव-जन्तु चुगि जाय, अग्निमें बल जाय, कौन दया करै ? बहुरि विकलत्रयकी उत्पत्ति वर्षाऋतुमें सर्वभूमि छा जाय ते टोरनिके पगकरि मनुष्यनिके पगकरि घोड़ेनिके खुरनिकरि रथ बैल गाड़ा गाड़ीनिकरि चिथै हैं कटै हैं पगकहां टूटि पडै हैं माथा कटि जाय, उदर चीरा जाय कौन दया करै ? कोऊ देखै ही नाही ऐसा विकलत्रयरूप तिर्यचनिके नाना दुःखनिकरि मरण होय है । जुधा तृषाकरि शीत उष्णवेदनाकरि वर्षाकी पवनकी, गड़ानिकी बाधाकरि मरण करै है तथा भाटा ठीकरा माटी का ढगला लाकड़ा मल मूत्र तप्तजल अग्नि इत्यादिक पतनतै दबिकरि मरै हैं विकलत्रयजीवनिकी ओर कोऊ देखै तो इनकी दया कोऊ करै नाही । घृत-तेलादिकमें पड़करि दीपक तथा अग्नि इत्यादिकमें पड़ि मरि घोरदुख भोगता फिर उपजि फिर मरते असंख्यात काल दुःख भोगै हैं बहुरि कदाचित् पंचेंद्रिय तिर्यच होय तिनमें जलचरनिमें निर्बलकूँ सबल भक्षण करै हैं धीवरनिके जालमें वा कांटेनिमें फंसि मरै हैं वा जीवितनिकूँ भुलसि खाय हैं वनके जीव सदाकाल भयरूप भये-जुधा तृषा, शीत, उष्ण, वर्षा, पवन कर्दमादिकी घोर वेदना सहै हैं प्रातःकालमें कहां भोजन अर वड़ी जुधा वेदना अर कदाचित् आहार मिलै है अर जल नाही मिलै है तीव्र तृषावेदना भोगै है शिकारी पारधी जातै मरै वा सबल होय सो निर्बलनिकूँ मार खाय हैं विलनिमें पारधा खादि खादि काढ़ि मरै हैं तथा बलवान तिर्यच निर्बलनिकूँ गुफानिमें पर्वतनिमें वृक्षनिमें छिपे हुयेनिकूँ बड़ा छलतै जाय पकड़ि मरै हैं सिंह व्याघ्रादिक हू सदा भयवान रहै हैं आहार मिलनेका नियम नाही बहुत जुधा तृषावान भये पड़े रहै हैं कदाचित् किंचित् अन्य आहार मिलै दो दिन तीन दिनमें मिलै वा नाही मिलै तदि घोरवेदना भोगता मरै हैं तथा कपायी मनुष्य यंत्रनिमें जालनिके उपायतै पकड़ि मार-मार बेचै हैं खाय हैं जीवतेनिके पग काटि बेचै हैं, जीभे काटि देय है इन्द्रियां काटि बेचै हैं, पूंछ काटि बेचै हैं, मरमस्थाननिकूँ काटै हैं, छेदैं हैं, तलैं हैं, राधैं हैं तिस तिर्यचगतिमें कोऊ रक्षक नाही, कोऊ उभाय नाही, तिर्यचनिके मध्य माता ही पुत्रका भक्षण करै है तहां अन्य कौन रक्षा करै ?

बहुरि नभचर पक्षीनिके हू दुःखनिका निरंतर समागम है निर्बल पक्षीनिकूँ सबल होय सो पकड़ि मरै हैं बाज शिकारी आकाशमें मरै हैं खाय हैं बागलि घूघू इत्यादिक रात्रिमें विचरने-वाले दुष्ट पक्षी कण्ठ जाय तोडैं हैं, मार्जार कूकरा पक्षीनिकूँ बड़ा छलतै मरै हैं पक्षी भयभीत भये वृक्षनिकी कोटि शाखा पकड़ि तिष्ठै हैं सावना विछावणा बैठना नाही, पवनकी जलकी

वर्षाकी गड़निकी शीतकी घोरवेदना भोगि भोगि मरें हैं दुष्ट मनुष्य पकड़ि पांखड़ा उपाड़ें हैं चीरें हैं तप्त तेलमें जीवतेनिकू तलि खाय हैं राधें हैं जहां देखें तहां तिर्यचनिके घोर दुःख हैं जातें हिंसाका फल है । बहुरि हाथी घोड़ा उंट बलध गधा भैम इनकी पराधीनताका दुःखकू कौन कहि सकै है नाक फोड़ि सांकल जेवड़ानिकी नाथ घालना पराधीन बंध्या रहना जिनकू स्वच्छन्द फिरना खाना नाही तावड़ामें बांधें हैं वर्षामें बांधें हैं शीतमें बांधें हैं पराधीन कहा करै बहुत बोकू लादैं हैं । मार मार करै हैं तीक्ष्ण लोह मय और कांटनिकरि वेधें हैं चर्ममय चाबुकनिकरि बारम्बार समस्त मार्गमें मारै हैं लाठी लकड़ीनिकी चोट मारि मरम-स्थाननिमें मारै हैं पीठ गलि जाय है मांस काटि खाड़े पड़ि जाय हैं कांधे गलि जाय है, नाक गलि जाय है कीड़ा पड़ि जाय हैं तो हू पत्थर लकड़ी धातुनिका कठोर भार तिनकरि हाड़निका चूर्ण हो जाय है पग टूटि जाय है महारोगी हो जाय है नासिका गलि जाय है उठ्या नाही जाय है जराकरि जरजरा हो जाय पीठ गलि जाय तो हू बहुत भार लादैं हैं बहुत दूर ले जाय हैं चुधा तृपाकी वेदना तथा रोगकी वेदना तथा तावड़ाकी वेदना नाही गिनते अर्धरात्रि गये बहुत भार लादैं हैं अर दूजे दिनके तीन प्रहर व्यतीत भये भार उतारै कुछ घास कांटा तुस भुस कणरहित नीरस अल्प आहार मिलै है सो उदर भरि मिलै नाही पराधीनताका दुःख तिर्यचगति समान और नाही । निरन्तर बंधनमें पींजरनिमें घोर दुःख भोगै है चांडालके वारणै बंध्या रहे चमारके कपायीनिके वारणै बंध्या रहै खावनेकू मिलै नाही, अन्य पुण्यवानके वारणै तिर्यचनिकू भक्षण करते देखि मानसिक दुःखकू प्राप्त होय हैं परके आहारघासमें मुख चलावै तो पांसली-निमें बड़े लठनिकरि मारिये है महान घोर चुधाका दुःख भोगै है, मारग चलनेका भार वहनेका घोर दुःख भोगै है रोगनिके घोर दुःख भोगै है अर तिर्यच बलध कूकरा इत्यादिकनिके नेत्रनिमें कर्णनिमें इन्द्रियमें पोतानिमें घोर वेदना देनेवाली गुंगां चींचड़ा पैदा होय है सो समस्त मरम-स्थाननिमें तीक्ष्ण मुखनिकरि लोहकू खेचै हैं तिनकी घोर वेदना भोगै हैं केतेककू घास खानेकू जल पीवनेकू नाही मिलै तदि घोर वेदना भुगतता ग्रीषमकू पूर्ण करै अर श्रावण आ जाय तदां बहुत तृण पैदा हो जाय तहां हू पापके उदयकरि कोट्या डांस माछर पैदा हो जाय तो जहां चरनेकू जाय तहां ही डांस माछरनिके तीक्ष्ण डंककरि उछलता फिर तृण हकी तरफ मुख नाही करि सकै, बैठे सोवै जहां जुवानिकी घोर वेदना भोगै है अर उंट बलध घोड़ा इत्यादिक मार्गमें भारके दुःखकरि तथा जगकरि वा रोगकरि थकि जाय चाल्या नाही जाय पड़ि जाय वा पांव टूटि जाय मारते मारते हू चलनेकू समर्थ नाही होय तदि वनमें जलमें पर्वतमें तहां ही छांडि घनी चल्या जाय निर्जनस्थाननिमें कादामें एकाकी पड़ा हुआ कोऊ शरण नाही कौनकू कहै पानी कौन पियावे घास कहातै आवै तावड़ामें कादामें शीतमें वर्षामें पड़ा हुआ घर चुधा-तृपाकी वेदना भोगै है अर अशक्त जानि दुष्टपत्नी लोहमय चूचनिकरि नेत्र उपाड़ लै हैं, मरमस्थान

निमेंतैं अनेकजीव मांस काटि काटि खाय हैं नरक समान घोर वेदना भोगता केई दिन तड़फड़ाट करता कठिनतातैं दुःख भोगि मरै हैं ये समस्त परका अन्याय धन हरनेका कपटी छली होय दान लेनेका विश्वासघात करनेका अभच्य-भक्षणका रात्रि-भोजन करनेका निर्माल्य देव द्रव्य भक्षण करनेका फल तिर्यचयोनिमें भोगैं हैं परके कलंक लगावनेका अपनी प्रशंसा करनेका परकी निन्दा करनेका पराये छल हेरनेका परके मिष्ट भोजनका लालसाका, अतिमायाचार करनेका फल तिर्यचनिमें भोगे हैं यहां असंख्याते अनंत भव तिर्यचगतिमें वारवार धारण करता अर माया-चारादि तीव्ररागके परिणामतैं नवीन तिर्यच नरकका कारण कर्मबन्ध करता अनंतकाल पूर्ण करिये है ये सब मिथ्याश्रद्धान मिथ्याज्ञान मिथ्याआचरणका फल है ।

बहुरि यहां मनुष्यगतिमें हू केई तो तिर्यचसमान ज्ञानरहित हैं केतेक गर्भमें आवते ही पिता आदि मर जाय तदि परका उच्छिष्ट भोजन करता चुथा-तृपाका पीड़ा सहता परके तिरस्कार सहता बधै है परका दासपना करै है तिर्यचनिकी ज्यो तीव्र भार बधै है एक सेर अन्नतैं उदर भरनेके अर्थ एक भार मस्तक ऊपरि एक भार पीठ ऊपर एक भार हस्तमें धारण करता वारा कोश गमन करता अन्न घृतका तेलका लूणाका धातुका कठोर भारकूं बधै है केई समस्त दिनमें जलका भारकूं बधै है केई विदेशनिमें रात्रि दिन गमन करै हैं गमन समान दुःख नाहीं, तीस कोश बीस कोश उदर भरनेकूं नित्य दौड़ैं हैं केई पाषाणमृत्तिकादिकनिका भार निरंतर बधै हैं केई सेवामें षराधीनताकरि मनुष्य जन्म व्यतीत करै हैं केई लुहार लोह घडि पेट भरै, केई काठ चीरै हैं फाड़ैं हैं तदि अन्न मिलै है केई वस्त्र धोवैं हैं केई वस्त्र रंगै हैं केई छापैं हैं केई सीवैं हैं केई तूमैं हैं केई वस्त्र बुने हैं केई तिर्यचनिकी सेवा करै है तो हू उदर नाहीं भरै है, केई तृणनिका काष्ठनिका भार बधैं हैं केई चमडानिका छीलना बनावना करै हैं, केई पीसैं हैं केई दलैं हैं केई खोदैं हैं केई राधैं हैं केई अग्निसंस्कार करै हैं केई भट्टी चलावैं हैं केई घृत तेल चारलवणा-दिकनिकरि जीमिका करै हैं केई दीनपना कहि घर-घरमें मांगै हैं केई रङ्ग भए फिरै हैं केई रोवैं हैं केई कर्मके आधीन हुए आपा भूलि मनुष्यजन्म वृथा व्यतीत करै हैं केई चोरी करै हैं छल करै हैं, असत्य बोलैं हैं व्यभिचार करै हैं केई चुगली करै हैं केई गैला मारै हैं, मार्ग लूटै हैं केई संग्राममें जाय है केई समुद्रनिमें विषम बनीमें प्रवेश करै हैं केई नदी उतरै हैं कूआ जोतै है खेती करै है नाव चलावै है बोवैं खूने है केई हिसाके आरम्भ हिसाके व्यापार अभिमानी लोभी हुआ करै हैं केई आमद खरचके लिखनकर्म करै हैं केई नाना चित्र करै हैं केई पाषाण ईट पकावै हैं केई घर चुने है केई घृतक्रीडामें रचै है केई वेश्यामें रचै है केई मद्यपायी है केई राजसेवा करै है केई नीचनिकी सेवा करै है केई गानविद्यातैं जीविका करै हैं केई वादित्र बजावै हैं केई नृत्य करै है कर्मके वश पड़े नाना प्रकारके क्लेशतैं मनुष्यपना व्यतीत करै है, पुण्य-पापके आधीन हुआ नाना मनुष्य नाना प्रकार कर्म



धारै' प्रत्यक्ष नाना फल भोगते दीखै' हैं' केई अन्नादिक बेचि जीवै' है' केई गुड़ खांड घृत तैलादि-  
 करि जीवै' है' केई वस्त्रनिकरि, केई स्वर्णरूपादिककरि, केते हीरा मोती मणि माणिक्यादिकनिका  
 व्यापारकरि आजीविका करै' हैं' केई लोहा पीतल इत्यादिक धातु, केई काष्ठ पाषाण, केई मेवा  
 मिठाई पूवा धेवर मोदकादिककरि, केई अनेक व्यंजन अनेक औषधि इत्यादिकनिकरि कर्म आधीन  
 नाना प्रकार जीविका करै' हैं, केई व्यापारी हैं' केई सेवक हैं, केई दलाल हैं, केई उद्यमी हैं, केई  
 निरुधमी आलसी हैं, केई यथेच्छ वस्त्र आभरण पहरै' हैं, केते कष्टतैं उदर भरै' हैं, केई कष्ट-  
 रहित सुखिया हुआ भोजन करै' हैं, केई परधर जाय जाचक होय खाय हैं, केई पूज्य गुरु वन  
 खाय हैं, केई रङ्ग दीन होय खाय हैं, केई नाना रससहित भोजन करै' हैं, केई नीरस भोजन करै'  
 हैं, केई उदर भरि अनेक बार भोजन करै' हैं, केई कनका नीरस भोजनतैं आधा उदर भरै' हैं, केई  
 कू' एक दिनके अन्तर मिलैं, केईनिकू' दो तीन दिन भये भी कठिनतातैं मिलैं केईनको नाहीं  
 मिलनेतैं चुधा तृषाकी वेदना कर मरण होय है केई वंदीग्रहमें पराधीन पड़ै' घोर वेदना सहै',  
 केई अपने हितूनिका वियोगकी दाहकरि बलैं हैं, केई रोगजनित घोर वेदना समस्त पर्यायमें  
 भोगता आर्तितैं मरै' हैं, केई ज्वरकी स्वासका कांसका अनीसारका केई प्रकारका वायुका पित्तका  
 उदरविकार जलोदर कटोदरादिककी घोर वेदना भुगतैं हैं, केई कर्णशूल दन्तशूल नेत्रशूल मस्तक  
 शूल उदरशूलकी घोर वेदना भोगि मरै' हैं, केई जन्मतैं अन्धा, केई जन्मतैं बहरा गूंगा केई  
 हस्त-पादादिक अंगकरि विकल भये जन्म पूर्ण करै' हैं, केई केनी आयु व्यतीत भए अन्धा भया  
 बहरा भया लूला भया पापल हुवा पराधीन पडया मानसीक अर शरीरसम्बन्धी घोर दुःख भोगै'  
 हैं, केतेक रुधिरविकारकरि कोढ़, खाज, पांवचीच दाद इत्यादिकनि करि अंगुल गलि जाय हस्त  
 गलि जाय नासिका पादादिक गलि जाय है, कर्मका उदयकी गहन गति है, केई अन्तरायका उदय-  
 करि निर्धन भये नाना दुःख भोगै' हैं कदाचित् उदर भरै' कदे नाहीं भरै' नीरस भोजन गला हुवा  
 सिडा हुवा बहुत कष्टतैं मिलैं नाना तिरस्कार भुगतैं हैं, घर रहनेकू' महाजीर्ण तिस ऊपरि तृणफूस  
 पत्रकी ह छाया धूरी नाहीं अति सांकडो तामें हू सांग वीछू घोरनिका चारों तरफ बिल अर  
 महादुर्गन्ध अर चांडालादि कुकर्मनिके घरनिके सनीप रहना खावनेकू' पाव भर धान नाहीं  
 भरै' अर कलहकारिणी काली कटुक वचनयुक्त महाभयङ्कर विडरूप डरावनी पापिणी स्त्रीका  
 संगम अर अनेक रोगी भूखे विलाप करते कुरूप पुत्र पुत्रीनिका संगम पापके उदयतें पावैं हैं तथा  
 व्यसनी दुष्ट महापातकी पुत्रका संगम वैरीनितैं हू महावैरी ज्वर दुष्ट भाईका संगम तथा दुष्ट  
 अन्यायमार्गी बलवान पापी दुर्गचारी व्यसनी पड़ौसीनिका संगम तथा लोभी दुष्ट अवगुणग्राही  
 कृपण क्रोधी मूर्ख स्वामीकी सेवा महाक्लेशकारी पापके उदयतैं पावैं हैं तथा कृतघनी दुष्ट  
 छिद्रहेरनेवाला ज्वर सेवकका मिलना ये समस्त संसारमें पापके उदयतैं देखिये है । बहुरि धर्म-  
 रहित अन्यायमार्गी क्रूर राजाका राजमें बसना, दुष्टमन्त्री प्रधान कोटपालनिका संगम मिलन, कलङ्क

लगल जाना, अपयश हो जाना, धनका नष्ट होना ये सब पंचमकालके मनुष्यनलके बहुत प्रकार पाइये हैं इस दुःखमकालमें जे मनुष्य उपजै हैं ते पूर्व जन्ममें मिथ्यादृष्टि व्रत-संयमरहित होय ते भरतक्षेत्रमें पंचमकालके मनुष्य होय हैं अर कोऊ मिथ्याधर्मी कुतप कुदान मन्दकषाय प्रभावसूँ आवैं सौ राज्य ऐश्वर्य धन भोग सम्पदा नीरोगता पाय अल्प आयु इत्यादिक भोगि पाप उपा-र्जन करनेवाले अन्याय अभक्ष्य मिथ्यामार्गमें प्रवर्तनकरि संसार परिभ्रमण करै हैं ।

कोऊ बिरले पुरुष यहां सम्यग्दर्शन संयम व्रत धारण करै हैं मन्दकषायी आत्म-निंदा गर्हायुक्ततैं मनुष्य जन्मकूँ सफलकरि स्वर्गमें महर्द्धिकदेव होय हैं अर यहां कोऊ पूर्वजन्ममें मन्दकषाय उज्ज्वलदानादिक करनेवाला पुण्य संयुक्त भी होय ताके हू इष्टका वियोग अनिष्ट संयोग होय ही । संसारके दुःखका म्बभाव देखो, जो भरत चक्रवर्तीके हू लघुभ्राता ही महा-अनिष्ट होय वलके मदकरि चक्रीको मानभंग कियो न्याय मार्गतैं देखिये तो बड़ा भाई पिताके पदमें तिष्ठता नमने योग्य था फिर चक्रवर्ती अर कुलमें बड़ा ताकी उच्चता लघुभ्राता होय देखि नाहीं सकै, भरत बड़ा सांचा ममत्वसूँ राज्यकूँ शामिल भोगनेकूँ बुलाया परन्तु भाईतैं बन्दी ईर्षा करी अपयश कायो तदि अन्यकी कहा कथा । कोऊकै तो स्त्री नाहीं ताकी तृष्णा करि स्त्री बिना अपना जीवन वृथा मानि दुःखित है, कोऊकै स्त्री है सो दुष्टिनी है, व्यभिचारिणी है, कलहकारिणी मर्मके विदारनेवाली तथा रोगकरि निरन्तर संताप करनेवाली होय ताकरि महादुःखकूँ प्राप्त होय है । बहुरि कोऊकै आज्ञाकारिणी भर्तारकी आज्ञानुसार चलनेवाली मर जाय ताके वियोगका महा दुःखकूँ प्राप्त होय है । केतेनके वृद्ध अवस्थामें निर्धनतामें स्त्रीका मरण हो जाय छोटे बालक माताके वियोगकरि रहि जाय तिनकूँ देखि संतापकूँ प्राप्त होय है बहुरि केते वृद्ध अवस्थामें अपना विवाहकी वांछा करै अर मिलै नाहीं ताकरि दुःखी होय हैं । केई पुत्ररहित होय दुःखा हैं केई कुपूत पुत्रनिकरि दुःखी हैं, कोऊके सुपुत्र यशवान है सो मरण करै ताके वियोगका महा दुःख है, केईनिके बैरी समान मारनेवाला कुवचन बोलनेवाला ऐसा भाईका समागम समान दुःख नाहीं, कोऊ महारोग अर निर्धनताके दुःखकरि क्लेशित होय हैं, केईकै पुत्री बहुत होय तिनके विवाहादिक योग्य धन नाहीं तातैं दुःखी हैं, केईकै पुत्री वर योग्य बड़ी होय अर वरका संयोग नाहीं मिलै तदि बड़ा दुःख अर कन्या आंधी लूली गूंगी बावली अङ्गहीन विडरूप होय, ताका महादुःख है अर पुत्रीके कुबुद्धी व्यसनी निर्धन रोगी पापी वरका संयोग हो जाय तो घोर दुःख होय अर पुत्री थोरी अवस्थामें विधवा हो जाय ताका महादुःख, पुत्रीकूँ निर्धन दुःखत देखै तो महादुःख होय अर पुत्री व्यभिचारिणी होय तो मरणतैं भी अधिक दुःख होय है अर विवाही पुत्रका मरण होय ता दुःख होय है, माता पिताके वियोगका दुःख होय है, पिता अन्य जोरावरनिका निर्दयीनिका कर्ज छांडि जाय, ताका दुःख होय है जातैं ऋणसमान दुःख नाहीं पिता ऋणकरि जाय तो दुःख, माता भगिनी व्यभि-

चारिणी दुष्ट होय, तों महादुःख कोई जवरातै इनकूं हर ले जाय, खोस ले तो महादुःख, अपना सन्तानकूं कोऊ चोर ले जाय तथा मार जाय ताका घोर दुःख, दुष्टनिका समागमका दुःख, दुष्ट अधर्मी अन्यायमार्गीनिके शामिल आजीविका होय तो महादुःख, दुष्ट अन्यायीनिका आधीन होय तो दुःख, बहुरि मनुष्यजन्ममें धनवान होय निधन होनेका दुःख तथा मानभंगका दुःख है बहुरि अपना मित्र होयकरि फिर छिद्र प्रगट करनेवाला असत्यसभापणकरि अपराध लगानेवाला शत्रु होय ताका बड़ा दुःख है यो संसारवास सर्वप्रकार दुःखरूप ही है राजा होय रंक होय है रकका राजा होय है इत्यादिक मनुष्यपर्याय में घोरदुःख ही हैं ।

अर कदाचित् देवपर्याय पावे तो तहां हू मानसीक दुःख होय हैं, यद्यपि देवनिकें निर्धनता नाही, जरा नाही, रोग नाही, जुधा-तृषा मारण ताडना वेदना नाही, तथापि महान ऋद्धिके धारकनिकूं देखि आपकूं नीचा मानता मानसीक दुःखकूं प्राप्त होय है । कोई इष्ट देवांगनाका वियोग होनेका दुःखकूं प्राप्त होय है, यद्यपि देवांगनादिक कोऊ मरण करै है ताकी एवज शरीर रूप ऋद्ध्यादिक करि तैमाका तैमा अन्य उपजै है तो हू उस जीवका वियोगका दुःख उपजै ही, बहुरि पुण्यहीन देव है ते इंद्र दिक महर्द्धिकदेवनिका सभा प्रवेश नाही कर सकें ताका मानसीक बड़ा दुःख है । तथा आयु पूर्ण भये देवलोकतै अपना पतन दीखै ताके दुःखकूं भगवान केवली ही जानै है । इस संसारमें स्वर्गका महर्द्धिकदेव मरिकरि एकेन्द्रीय आय उपजै है तथा मल मूत्रके भरे गर्भमें रुधिर-मांसमें आय जन्मै है इस संसारमें परिभ्रमण करता पाप-पुण्यके प्रभावकरि श्वानादिक तिर्यच है ते तो देव जाय उपजै है अर देव ब्राह्मण चांडाल तिर्यच हो जाय, कर्मनिके आधीन हुवा जीव चारूं गतिनिमें परिभ्रमण करे हैं संसारमें राजा होयकै रंक होय है स्वामीका सेवक होय है सेवकका स्वामी होय है, पिता होय सोही पुत्र हो जाय है, पुत्रका पिता हो जाय है, पिता पुत्र ही माता हो जाय भार्या हो जाय बहिन हो जाय दासी दास हो जाय, दासी दास हो पिता हो जाय, माता हो जाय, आप ही आपके पुत्र हो जाय, देवता होय तिर्यच हो जाय, धनाढ्यका निधन, निर्धनका धनाढ्यना पवै है, रोगी दरिद्रीनिका दिव्यरूपवान हो जाय दिव्यरूपवान महाविडूरुप देखने योग्य नाही रहै है ।

बहुरि शरीर धारण हू बड़ा भार है भारकूं बहता पुरुष तो कोऊ स्थानमें भार उतारि विश्रामकूं प्राप्त होय है देहके भारकूं बहता पुरुष कहां हू विश्रामकूं प्राप्त नाही होय है, जहां औदारिक वैक्रियिकका क्षणमात्र भार उतरै, तहां आत्मा इनु तै अनंतगुणा तैजस कार्माणशरीर का भार धारै है । कैसाक है तैजस-कार्माण जो आत्माका अनन्तज्ञान-दर्शन-वीर्यकूं दावि राख्या है जाकरि केवलज्ञान तथा अनन्तसुख शक्ति ताका अभावतुल्य हो रखा है जैसे वनेमें अन्ध मनुष्य भ्रमण करै है तैसे मोहकरि अन्ध चतुर्गतिमें परिभ्रमण करै है संसारी जीव रोग दरिद्र वियोगादिकके दुःखकरि दुःखित होय धन उपजाय दुःख दूर करनेकूं मोहकरि अन्ध हुवा विप्र-

रीत इलाज करै है सुखी होनेकूँ अभक्ष्य-भक्षण करै है, छल कपट करै है, हिंसा करै है, धन के वास्तै चोरी करै मार्ग लूटै, परन्तु धन हू पुण्यहीनकै हाथ नाहीं आवै है । सुख तो पंच पाप-निके त्यागतै होय, मध्यात्वा पंच पाप करि अपने धनकी वृद्धि सुखकी वृद्धि चाहै, इन्द्रियनि के विषयकी प्राप्ति होनेमें सुख जाने हैं सो ही मांहरि अन्धापना है । संसारी जीवके इहां हू दुःख देखिये हैं, ते जीवनिके मारनेतै असत्यतै चोरीतै कुशीलतै परिग्रहकी लालसातै क्रोधतै अभिमानतै छलतै लोभतै अन्यायतै ही दुःख देखिये है, अन्यमार्ग दुःख होनेका नाहीं है ऐसे प्रत्यक्ष देखता हू पापनिमें रचै है यो विपरीतमार्ग ही अनन्त दुःखनिका कारण ससार है, दुःख-नितै दुःख ही उपजै जैसे अग्नितै अग्नि उपजै है, ऐसै ससारका सत्यार्थ स्वरूपकूँ वारम्बार चिंतवन अनुभवन करै, ताकै ससारतै उद्वेग रहै विरक्त होय सो संसार-परिभ्रमण दूर करनेका उद्यममें सावधान होय । ऐसै तीसरी संसारभाषना वर्णन करी ॥ ३ ।

अत्र एकत्वभावना कहिये है ताहि अपना स्वरूपकी प्राप्तिके अर्थ चिंतवन करो । ये जीव कुटुम्ब स्त्रीपुत्रादिकके अर्थ, तथा शरीरके पालनेके अर्थ, वा देहके अर्थ बहु आरंभ बहुपरिग्रह अन्याय अभक्ष्यादिक करै है ताका फल घोर दुःख नरकादिपर्यायनिमें एकाकी आप भोगै है । जिस कुटुम्बके अर्थि वा अपना देहके अर्थि पाप करै है सो देह तो भस्म होय उड़ि जायगा, कुटुम्ब कहाँ मिलैगा ? अपने उपजाये कर्मनिका उदयकरि आये रोगादिक दुःख विधोग तिनकूँ भोगता जीवके समस्त मित्र कुटुंबादिक प्रत्यक्ष देखते हू किंचित दुःख दूरि नाहीं कर सकै है तदि नरकादिगतिमें कौन सहायी होयगा, एकाकी भोगैगा, आयुका अंत होते एकाकी मरै है, मरणतै रक्षा करनेकूँ कोऊ दूजा सहायी नाहीं है, अशुभका फल भोगनेमें कोऊ अपना सहायी नाहीं है परलोक प्रति गमन करते आत्माके स्त्री पुत्र मित्र धन देह परिग्रहादिक सहाई नाहीं है, कर्म एकाकीकूँ ले जायगा, इस लोकमें जे बांधव मित्रादिक हैं ते परलोकमें बांधव मित्रादिक नाहीं होंगें अर जे धन शरीर परिग्रह राज्य नगर महल आभरण सेवकादि परिकर यहाँ है ते परलोक लार नाहीं जायेंगे, इस देहके सम्बन्धी इस देहका नाश होतै सम्बन्ध छाड़ेंगे । ये अपने कर्मके आधीन सुख दुख आगके आपही भोगेंगे जीव एकाकी जायगा तातै सम्बन्धीनिमें समता करि परलोक विगाड़ना महा अनर्थ है । यहां जो सम्यक्त्व व्रत संयम दान भावनादिक करि धर्म उपार्जन किया सो इस जीवके सहाई होय है एक धर्मविना कोऊ सहाई नाहीं, एकाकी है, धर्मके प्रसादतै स्वर्गलोकमें इन्द्रना मण्डिकरना पाय तीर्थकर चक्रवर्तीपना मण्डलेश्वरपना उत्तम रूप बल विद्या संहनन उत्तम जाति कुन जगतपूज्यपना पाय निर्वाणकूँ प्राप्त होय है जैसे बन्दीगृहमें बन्धनि करि बन्ध्या पुरुषकूँ बन्दीगृहमें राग नाहीं है, तैसेँ सम्यग्ज्ञानी पुरुषकै देहरूप बन्दीगृहमें राग नाहीं है । जातै कुटुम्ब अभिमानादिक घोर बन्धनमें परार्थीन हुवा दुःख भोगै है एकाकी ही अपना स्वरूप छाड़ि परद्रव्य देह परिग्रहादिकनिकूँ आपा जाणि अनंतकाल भ्रमै है,

एकाकी अन्य गतितैं आय जन्म धारै हैं, कर्म विना अन्य लार नाहीं आय। है, पाप-पुण्यकर्म राजा रंक नीच ऊंवके गर्भादि योनिस्थानमें ले जाय उपजावै, अर एकाकी ही आयु पूर्ण भये समस्त कुटुम्बादि छांडि परलोककू जाय है फिर पीछा श्रावना नाहीं गर्भमें वसनेका दुःख, योनि-संकटका दुःख, रोगसहित शरीरका दुःख, दरिद्रका घोर दुःख, वियोगका महा दुःख, जुधा तथादि वेदनाका दुःख, अनिष्ट दुष्टनिका संयोगका दुःख यो जीव एकाकी भोगै है अर स्वर्गनिके असंख्यात कालपर्यंत महान सुख अर अपछरानिका संगम असंख्यात देवनिका स्वामीपना हजारों ऋद्ध्यादिक सामर्थ्य पुण्यके उदयकरि एकाकी जीव भोगै है अर पापके उदयतैं नरकमें ताड़न मरण छेदन भेदन शूलारोहण कुम्भीपाचन वैतरणीनिमज्जन, क्षेत्रजनित शरीरजनित मानसीक तथा परस्परकृत घोर दुःख एकाकी भोगै है, तथा तिर्यचनिके पराधीन बंधना बोझ भार लादना कुचवन श्रवण करना मरम-स्थानमें नानाप्रकार घात सड़न, दीर्घकालपर्यंत भार लेय बहुत दूर चलना, जुधा तथा सहना, रोगनिकी नानावेदना भोगना, शीत उष्ण पवन तावड़ा वर्षा गड़ा इत्यादिकी घोर वेदना भोगना, नासिकादिकमें जेवड़ा घालि दड़ बांधना, घसीटना, चढ़ना समस्त दुःख पापके उदयतैं एकाकी जीव भोगै है, कोऊ मित्र पुत्रादि सहाई लार नाहीं रहै है, एक धर्म ही सहाई है, ऐसैं एकत्व-भावना भावनेतैं स्वजननिमें प्रीति नाहीं बधै है अन्य परिजनोंमें द्वेषका अभाव होय, तदि अपने आत्माकी शुद्धतामें ही यत्न करै। ऐसैं एकत्वभावना वर्णन करी ॥४॥

अब अन्यत्वभावनाका स्वरूप चिंतवन करना योग्य है—हे आत्मन् ! इस संसारमें जे जे स्त्री पुत्र धन शरीर राज्य भोगादिकनिका तेरे सम्बन्ध है ते ते समस्त तेरा स्वरूपतैं अन्य हैं मित्र हैं, कौनके शोचमें विचारमें लागि रहे हो अनंतान्त जीवनिका अर अनंत पुद्गलनिका सम्बन्ध तुम्हारे अनन्त बार होय होय छूटै है, अज्ञानी ससारी आपतैं अन्य जे स्त्री पुत्र मित्र शत्रु धन कुटुम्बादिक तिनका संयोग-वियोग सुख दुःखादिकनिका चिंतवनकरि काल व्यतीत करै है अर अपने नजाक आया मरण वा नरक तिर्यचादिक गतिनिमें प्राप्त होना ताका चिंतवन विचार नाहीं करै है जो समय समय यो मनुष्य आयु जाय है यामें ही जो मेरा हित नाहीं क्रिया, पापतैं पराड्मुख नाहीं भया तथा कुगतिके कारण रागद्वेष मोह काम क्रोध लोभादिक महा छलीतैं आत्माकू नाहीं छुड़ाया तो तिर्यच नरकगतिमें अज्ञानी पराधीन अशक्त हुआ कहा करुंगा इस पंच परिवर्तनरूप संसारमें अनंतानन्तकालतैं परिभ्रमण करता जीवके कोऊ अपना स्वजन नाहीं है ये। स्वामी सेवक पुत्र स्त्री मित्र बांधवनिक्कू जो अपना मानो हो सो मिथ्यामोहकी महिमा है याहीकू मिथ्यात्व कहिये है। ये तो समस्त सम्बन्ध कर्मजनित अल्प काल है, अचानक वियोग होयगा। ये समस्त सम्बन्ध विषय-कषाय पृष्ट करनेकू अपना स्वरूपकी भूलि होनेकू हैं संसारमें समस्त जीवनिमें अपना शत्रु मित्रपना अनेक बार भया है अर आगानैं भी भी इस परद्रव्यनिके सम्बन्धमें आत्मबुद्धिकरि अनन्तकाल भोगोगे तहां राग द्वेष बुद्धिकरि शत्रु

मित्र बुद्धिहीनैँ एकेन्द्रियपना तथा ज्ञान पिछान विचाररहित अज्ञानी भये अनन्तकाल भ्रमोगे । जैसे अनेक देशनिनैँ आए भिन्न भिन्न अनेक पथिक रात्रिमें एक आश्रममें वसैँ हैं अथवा एक वृद्धके विषैँ अनेक दिशानिनैँ आए अनेक पत्नी आय वसैँ हैं प्रभातकाल भये नाना मार्गनिकरि नाना देशनिकूँ जाय हैं तैँसैँ स्त्री पुत्र मित्र वांधगादिक नाना गतिनिनैँ पाप पुण्य बांधि आज कुलरूप आश्रममें शामिल भये हैं आयु काल पूर्ण भये पाप पुण्यके अनुसार नरक तिर्यच मनुष्यादिक अनेक भेदरूप गतिनिकूँ प्राप्त होयेंगे कोऊ ही कोऊका मित्र नाहीं, पुण्य पापके अनुकूल दोग दिन आपका उपकार करि संसारमें जाय रुलैँ हैं, इस संसारमें जीवनिकी भिन्न-भिन्न प्रकृति है कोऊका स्वभाव कोऊसूँ मिले नाहीं है स्वभाव मिल्यां विना काहेकी प्रीति है, परस्पर कोऊ अपना अपना विषय कपायरूप प्रयोजन सधता दीखैँ है । तिनकैँ प्रीति होय है, प्रयोजन विना प्रीति नाहीं है । ये समस्त लोक वालू रेतका कणका ज्यों कोऊका कोऊसूँ सम्बन्ध है नाहीं, जैसे वालूका भिन्न भिन्न कण कोऊ जलादिक सचिककण द्रव्यका समागमतैँ मूठामें बांधि जाय, चिपि जाय, चेप दूर भये कणा कणा भिन्न भिन्न विखरैँ है, तैँसैँ समस्त पुत्र स्त्री मित्र वांधव स्वामी सेवकनिका सम्बन्ध हू कोऊ अपना विषय वा लोभ अभिमानादि कषाय जेते साधता दीखे है तेते प्रीति जानों । जिनतैँ इन्द्रियनिके विषय सधैँ नाहीं, अभिमानादि कषाय पुष्ट होय नाहीं, तिनके लूखे परिणामनिमें प्रीति नाहीं । अर विना प्रयोजन हू जगतमें प्रीति देखिये है सो लोकज्ञाजका अभिमानतैँ तथा आगामी कुल प्रयोजनकी आशातैँ, तथा पूर्वकालका उपकार लोपूंगा तो लोकमें मेरा कृतघ्नपना दीखैँगा इस भयतैँ मिष्ट वचनादिकरूप प्रीति करैँ हैं कषाय विषयनिका सम्बन्ध विना प्रीति है ही नाहीं सो देखिये ही है जिसतैँ अपना अभिमान सधता देखैँ वा धनका लाभ वा विषयभोगनिका लाभ तथा आदरका बडाईका वा अपना पूज्यपना होनेका लाभके अर्थ वा जसके अर्थ अथवा कोऊ प्रकार आपदाका भयतैँ प्रीति करैँ है, विषय कषायका चेप विना प्रीति है ही नाहीं समस्त अन्य हैं । माता हू जो पुत्रका पोषण करैँ सो दुःखमें वृद्धपनामें अपना आधार जानि पोषे है, अर पुत्र जो माताका पोषण करैँ है सो ऐसा विचार करैँ है जो मैं माताका सेवा नाहीं करूँगा तो जगतमें मेरा कृतघ्नीपनाका अपवाद होयगा तथा पांच आदम्प्यांमें मेरी उच्चता नाहीं रहैँगी ऐसा अभिमानतैँ प्रीति करैँ है । बैरी हू उपकार दान सन्मानादिकरि अपना मित्र होय है अर अपना अति प्यारा पुत्र हू विषयनिके रोकनेतैँ अमान तिरस्कारादि करनेकरि अपना वृणमात्रमें शत्रु होय है । तातैँ कोऊका कोऊ मित्र हू नाहीं अर शत्रु हू नाहीं है, उपकार अपकारकी अपेक्षा मित्र शत्रुपना है अर संसारीनिके जो अपना विषय अर अभिमान पुष्ट करैँ सो मित्र है, अर विषय अर अभिमानकूँ रोकैँ सो बैरी है जगतका ऐसा स्वभाव जानि अन्यमें रागद्वेषका त्याग करो, यहां जे घणा प्यारा स्त्री पुत्र मित्र वांधव तुम्हारे हैं ते समस्त स्वर्ग मोक्षका कारण जो धर्म संयमादिकनिमें वीतरागतापें

अत्यन्त विघ्न करै हैं, अर हिंसा असत्य चोरी कुशील परिग्रहादिक महा अनीतिरूप परिणाम कराय नरकादिक कुगति पावनेका बन्ध करावै है ते अति बैरी हैं, इस जीवकूँ मिथ्यात्व विषय कषायादिकतैँ रोकि संयममें दशलक्षणधर्ममें प्रवृत्ति करावै हैं ते मित्र हैं, ते निर्ग्रन्थ गुरु ही हैं। बहुरि यो आत्मा स्वभावहीतैँ शरीरादिकनिँ विलक्षण है चेतनमय है देह पुद्गलमय अचेतन जड़ है जो देह ही अन्य है विनाशीक है तो याका सम्बन्ध स्त्री पुत्र मित्र कुटुम्ब धन धान्य स्थानादिक अन्य कैसैँ नाहीं होय। यो शरीर तों अनेक पुद्गल परमाणुनिका समूह मिलि बन्या है ते शरीरके परमाणु भिन्न भिन्न विखरि जायगे अर आत्मा चैतन्यस्वभाव अखण्ड अविनाशी रहैगा तातैँ सकल सम्बन्धनिँ अन्यपनाका दृढ़ निर्णय करो। बहुरि कर्मके उदय-जनित राग द्वेष मोह काम क्रोधादिक ही भिन्न हैं विनाशीक हैं तो अन्य शरीरादिक सम्बन्धी अन्य कैसैँ नाहीं होय। यातैँ अपना ज्ञान दर्शनस्वभाव विना अन्य जे ज्ञान वरणादिक जे द्रव्यकर्म अर रागद्वेषादिक भावकर्म शरीर परिग्रहादिक नोकर्म ये समस्त अन्य हैं, ये पुत्रादिक हैं ते अन्य गतितैँ अन्य पाप पुण्य स्वभाव कषाय आयु कायादिकका सम्बन्धरूप देखिये हैं तुम्हारा स्वभाव पाप पुण्य इनतैँ अन्य है यातैँ अन्यत्वभावना भावो तो इनकी ममताजनित घोर-बंधका अभाव होय। ऐसैँ अन्यत्वभावनाका वर्णन किया ॥५॥

अब अशुचि भावना वर्णन करै हैं—भो आत्मन् ! इस देहका स्वरूपकूँ चितवन करो महामलीन मातका रुधिर पिताका वीर्यकरि उपज्या है, महादुर्गंध मलिन गर्भकेविषैँ रुधिर-मांसका भरया हुआ जरायुपटलमें नव मास पूर्णकरि महादुर्गंध मलीन योनितैँ निकलनेका घोर संकट सहै है, अर सप्तधातुमय देह रुधिर मांस हाड़ चाम वीर्य मज्जा नसांका जालमय देह धारया है, मल मूत्र लट कीड़ेनिकरि भरया महा अशुचि है, जाके नव द्वार निरन्तर दुर्गंध मलकूँ स्रवै है, जैसैँ मलका बनाया घड़ा अर मलकरि भरया अर फूटा चारों तरफ मल स्रवै सो जलस्र धोये कैसैँ शुचि होय ? जगतमें कपूर चन्दन पुष्प तीर्थनिके जलादिक हैं ते देहके स्पर्शमात्रतैँ मलीन दुर्गंध हो जाय सो देह कैसैँ पवित्र होय ? जेते जगतमें अपवित्र वस्तु हैं ते देहके एक एक अवयवके स्पर्शतैँ ही हैं, मलके मूत्रके हाड़के चामके रसके रुधिरके मांसके वीर्यके नसांके केशके नखके कफके लालके नासिकाके मल दन्तमल नेत्रमल कर्णमलके स्पर्शमात्रतैँ अपवित्र होय हैं, द्वांद्रियादिक प्राणीनिके देहका सम्बन्धविना कोऊ अपवित्र वस्तु ही लोकमें नाहीं हैं, देहका सम्बन्धविना कोऊ अपवित्र वस्तु ही लोकमें नाहीं हैं, देहको सम्बन्धविना लोकमें अपवित्रता कहाँतैँ होय ? अर देहके पवित्र करनेकूँ त्रैलोक्यमें कोऊ पदार्थ नाहीं, जलादिकनिँ कोटिवार धोइये तो जल हूँ अपवित्र होजाय। जैसैँ कोयलाकूँ ज्यों धोवो त्यों कालिमा ही स्रवै उज्ज्वल नाहीं होय तैँसैँ देहका स्वभाव जानि याकूँ पवित्र मानना मिथ्या दर्शन है। यो देह तो एक रत्नत्रय उत्तमद्वैतदिक धर्मकूँ धारण करता आत्माका सम्बन्धकरि देवनिकरि बंदनेयोग्य पवित्र

होय है, बहुरि धनादिक परिग्रह अर पंचइन्द्रियनिके विषय अर मिथ्यात्व अर क्रोध मान माया लोभ अमूर्तीक आत्माका स्वभावकू महा मलीन करै हैं, अधर्म करै हैं, निग्र करै हैं दुर्गतिकू प्राप्त करै हैं यातें काम क्रोध रागादि छांडि आत्माकू पवित्र करो, देह पवित्र नाही होयगा, इसप्रकार देहका स्वरूप जानि जे देहतें राग छांडि आत्मातें अनादितें सम्बन्धनै प्राप्त भये रागादिक कर्ममल तिनके दूर करनेमें यत्न करो, धन संपदादिक परिग्रह अर पंच इन्द्रियनिके भोग अर देहमें स्नेह ये आत्माकू मलीन करनेवाले हैं तातें इनका अभाव करनेमें उद्यम करो। धर्म है सो आत्माकै काम क्रोध लोभ मद कपट ममता वैर कलह महाआरभभ मुर्च्छा ईर्ष्या अतृप्तितादिक हजारों दोषानिक्कू उपजावै है, इस लोफसम्बन्धी समस्त दोष अतिचिंता दुर्ध्यान महाभय उपजावने-वाला एक धनकू निर्णयकरि चिंतवन करो, अर पंचइन्द्रियनिके विषय आत्माकू आपा भुलाय महानिग्र कर्म करावै हैं, जो निग्र कर्म नाही करनेयोग्य जगतमें हैं तिनकू इन्द्रियनिके विषयनिकी वांछा करावै है, अर देहमें स्नेह है सो मांस मज्जा हाडमय महादुर्गंध सिद्ध्या हुआ कलेवरसू राग है तो महामलिनभावको कारण है ऐसा शरीरकी शुचिता करनेवाला दशलक्षण धर्म ही है। शुचिपना दोय प्रकार है एक लौकिक, दूजा लोकोत्तर। जो कर्ममलकू धोय शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थिर होना सो लोकोत्तर शौच है याका कारण रत्नत्रयभाव है। तथा रत्नत्रयके धारक परम-साम्यभावतें तिष्ठते साधु हैं जिनके सङ्गमकरि शुद्धात्माकू प्राप्त होइये। अर लौकिकशुाच अष्ट प्रकार है—कोऊ कालशौच जो प्रमाणीककाल व्यतीत भये लोकमें शुचि मानिये है, कोऊकू अग्निकरि संस्कार स्पर्शनकरि शुचि मानिये है, कोऊकू पवनकरि, कोऊकू मस्मतें मांजने करि, कोऊकू मृत्तिकातें, जलतें, कोऊकू गोमयतें, कोऊ ज्ञानतें ग्लानि मिट जानेतें लौकिकजन मनमें शुचिपनाका संकल्प करै हैं। परन्तु शरीरके शुचि करनेकू कोऊ समर्थ नाही है, शरीरके संसर्गतें तो जल भस्मादिक अशुचि हो जाय हैं यो शरीर आदिमें अन्तमें मध्यमें कहां हू शुचि नाही। याका उपादान कारण रुधिर वीर्य सो शुचि नाही, यो आप शरीर शुचि नाही, याकै अभ्यन्तर दुर्गंध मल मूत्रादिक वाद्य चाम हाड मांस रुधिर शुचि नाही जो याकू समस्त तीर्थ समस्त समुद्रनिके जलकरि धोइये है तो समस्त जलकू हू अशुचि करै है। यो देह है सो सर्व-काल रोगनिकरि भरया है अर सर्व काल अशुचि है, अर सर्वथा विनाशीक है, दुःख उपजावने-वाला है, याकै शुचि करनेका इलाज प्रतिकार घृष गंध विलेपन पुष्प स्नान जल चन्दन कर्पूरादिक कोऊ है नाही, याकै स्पर्शनमात्रतें पवित्र वस्तु हू अङ्गाराके स्पर्शनतें अङ्गारा होय तैसै अपवित्र होय हैं। ऐसै शरीरका अशुचिपना चिंतवन करनेतें शरीरका संस्कार करनेमें रूपादिकमें अनुरागका अभावतें वीतरागमें यत्न करै है। ऐसै अशुचिभावना वर्णन करी ॥६॥

अब आस्रवभावनाका वर्णन करिये है—कर्मके आवनेके कारणतें आस्रव है जैसै समुद्रके बीच जहाजमें छिद्रनिकरि जल प्रवेश करै है तैसै मिथ्यात्वभावकरि अर पंच इन्द्रिय छटा मनका



विषयनिमें प्रवर्तनिके त्यागका अभावकरि अर छह कायके जीवनिकी हिंसाका त्याग नहीं करने-  
करि अर अनन्तानुबंधीकू आदि लेय पच्चीस कषायनिमें तथा मन वचन कायके भेदतैं पंद्रह  
प्रकार योग ऐसे सत्तावन द्वार कर्म आवने का है । तिनमें मिथ्यात्व कषाय अत्रतादिकनिके अनु-  
सार मन वचन कायतैं शुभ-अशुभ कर्मका आस्रव होय है, तहां पुण्यपापके संयोगतैं मिले विषयनि  
में संतोष करना, विषयनिमें विरक्तता, परोपकारके परिणाम, दुःखिनिकी दया, तत्पनिका चितवन  
समस्त जीवनिमें मैत्रीभाव इत्यादि भावना परिमेष्ठीमें भक्ती, धर्मात्मामें अनुराग, तप व्रत शील  
संयममें परिणाम इत्यादिकरूप मनकी प्रवृत्ति पुण्यका आस्रव करै है अर परिग्रहमें अभिलाषा,  
इन्द्रियनिके विषयनिमें अति लोलुपता, परके धन हरनेमें परिणाम, अन्याय प्रवर्तनमें अभक्ष्य  
भक्षणमें सप्त व्यसन सेवनमें परके अपवाद होनेमें अनुराग रखना, परके स्त्री पुत्र धन आजीविका  
का नाश चाहना, परका अपमान चाहना, आपकी उच्चता चाहना इत्यादिक मनके द्वारै अशुभ-  
आस्रव होय है । बहुरि सत्य हित मधुर वचनकरि तथा परमागमके अनुकूल वचनकरि परमेष्ठी  
का स्तवन करि सिद्धान्तका वांचना तथा व्याख्यानकरि न्यायरूप वचनकरि पुण्यका आस्रव  
होय है । बहुरि परका निंदा आपकी प्रशंसा अन्यायका प्रवर्तन जिस वचनकरि होय तथा  
हिंसाके आरम्भ करावनेवाला विषयानुराग बधावनेवाला कषायरूप अग्निके प्रज्वलित  
करनेवाला तथा कलह विसंवाद शोक भयका बधावनेवाला तथा धर्मविरुद्ध मिथ्यात्व असंयमका  
पुष्ट करनेवाला अन्य जीवनिके दुःख अपमान धन आजीविकाकी हानिके करनेवाले वचनतैं पापका  
आस्रव होय है ।

बहुरि परमेष्ठीका पूजन प्रणाम जिनायतनका सेवन धर्मात्मा पुरुषनिका वैयावृत्य, यत्नाचारतैं  
जीवनिपर दयारूप हुवा सोचना बैठना पलटना मेलना धरना सौपना खावना पीवना विद्यावना  
चालना हालना इत्यादिक कायका योग शुभ आस्रवका कारण है । बहुरि यत्नाचार विना करुणा  
रहित स्वच्छंद देहका प्रवर्तना, महा आरम्भादिकमें प्रवर्तन करना, देहके संस्कारमें रहना,  
सो समस्त कायके द्वारै अशुभ आस्रव होय है, ये मन वचन कायकी शुभ अशुभ प्रवृत्ति तीव्र मन्द  
कषायके योगतैं तीव्र मंद नानाभेदरूप कर्मके बन्धके निमित्त होय है इनका चितवन करनेत  
आत्मा अशुभ प्रवृत्तिसँ रुकि शुभप्रवृत्तिमें सावधान होय प्रवर्तन करै है । बहुरि कषाय आत्माका  
समस्त गुणनिका घात करनेवाले हैं क्रोध है सो तो परजीवनके मारनेमें घात करनेमें बंधनादि करने  
में चित्तकू दौडावै, अर मान है सो इस जीवकू दर्पकरि ऐसा उद्धत करै है जो पिता गुरु उपाध्याय  
स्वामीका हू तिरस्कार करना वाँछै है विनयका विध्वंस करै है, मायाकषाय है सो अनेक छल  
अनेक धूर्तता परकू भुलाय देना इत्यादि अनेक कपट ही विचारै है परिणामकी सरलताका अभाव  
करै है, लोभकषाय है सो सुखका कारण संतोषकू छेदै है योग्य अयोग्यके विचारका नाश करै  
है काम है सो मर्यादाका भंग करै लज्जाका भंग करै है हित अहितका नीचकर्म उच्चकर्मका विचार

रहित करै है, मोह है सो मदिराकी ज्यों स्वरूपकूँ भुलावै है, शोक है सो अतिदुःखतैं हाहाकार-शब्द करावै है रुदनादिक आत्मघातादिकमें प्रवृत्ति करावै है हास्य है सो परकी हास्य अज्ञानता प्रगट कीया चाहै है, स्नेह है सो मद्य विना पीये ही अचेतन करै है अर महाबन्धनरूप आत्माकूँ हित प्रवृत्तिमें रोकनेवाला है अनर्थका स्थान है, निद्रा है सो आत्माका समस्त चैतन्यका घातकरि आत्माकूँ जड अचेतन करै है, तृषा जो है सो नाही पीवनेयोग्य हू पानीकूँ पिवाया चाहै है, जुषा है सो चांडालका घरमें हू प्रवेश करायकै याचना करावै है कुलमर्यादादिककूँ नष्ट करै है घोर वेदना देवै है, नेत्र है सो रमणीक रूपादिक देखनेकूँ कंपापात लेवै हैं, जिह्वाइंद्रिय मिष्ट-भोजन करनेकूँ अति चंचल भई लज्जा उच्चपना संयमादिक नष्टकरि नीच प्रवृत्ति करावै है घ्राण-इंद्रिय सुगन्ध द्रव्यप्रति अचेत भया भुक्तै है । स्पर्शनइंद्रिय स्त्रीनिके कोमल अङ्ग कोमल शय्या-दिकमें तृष्णा बधोवै है, कर्णइंद्रिय नाना रागनिमें भुक्ति आपा भुलाय पराधीन करै है, मन है सो चंचल वानरकी ज्यों स्वच्छद घोर विकल्पकरि शुभध्यान शुभप्रवृत्तिमें नाही ठहरे है, विषय कषायादिकनिमें भ्रमै है, असत्यवाणी मुखमेंतैं अतिरागतै निहसि अपनी चतुरता प्रगट करै है, हस्त हैं ते हिंसाके आरम्भ करनेका मुख्य उपकरण हैं, चरण हू पाप करनेका मार्गमें अति दौड़ैं हैं, कविपना है सो अति राग करनेवाली कावता रच्या चाहै है, पण्डितपना कुतर्क अर असत्य-प्रलापीपना करि अपनी विख्यातता चाहै है, सुभटपना घोर हिंसा चाहै है बाल्यपना अज्ञानरूप है यौवन वांछित विषयनिके अर्थि विषम स्थानमें हू दौड़ै है वृद्धपना है सो विकराल कालके निकट वतै है उस्वाम निःश्वास निरन्तर देहतैं भागि निकसि जानेका अभ्यास करै है, जरा है सो काम भोग तेज रूप सौंदर्य उद्यम वाल बुद्ध्यादिक रहनेकूँ तस्करी है, रोग हैं ते यमराजके प्रबल सुभट हैं ऐसी सामग्री इस आत्माकूँ आपा भुलावनेवाली है तिनतैं महान् कर्मका आस्रव होय है । ये इन्द्रियविषय अर कषायनिके संयोगतैं मन वचन काय द्वारै आस्रव होय है ऐसैं आस्रव-भावना वर्णन करी ।

अब संवरभावना वर्णन करै हैं— जैसे समुद्रके मध्य नावके जल आवनेका छिद्र रोक दे तो नाव जलसूँ भरि नाही डूबै तैसे कर्म आवनेके द्वार रोकै ताकै परम संवर होय है सम्यग्दर्शनकरि तो मिथ्यात्वनाम आस्रवद्वार रुकै है इन्द्रियनिकूँ अर मनकूँ संयमरूप प्रवर्तवनेतैं इन्द्रियद्वारै आस्रव रुकि संवर होय है । अर छह कायके जीवनिका घात करनेवाला आरम्भका त्यागतैं प्राण संयमकरि अविरतनिके द्वारै कर्मके आगमनके रुकनेतैं संवर होय है, कषायनिकूँ जीति दशलक्ष्यरूप धर्मके धारनेतैं चारित्र प्रगट होनेतैं कषायनिके अभावतैं संवर होय है ध्यानादिक तपतैं स्वाध्याय तपतैं योगद्वारै कर्म आवते रुकै हैं यातैं संवर है जातैं गुप्तित्रय पंच-समिति दशलक्ष्यधर्म द्वादश भवना द्वाविंशति परीषह सहना पंच प्रकार चारित्र पालना इनकरि नवीन कर्म नाही आवै हैं तिनमें मन वचन कायके योगनिकूँ रोकना सो गुप्ति है, प्रमाद छांदि

यन्तै प्रवर्तना सो समिति है दया है प्रधान ज में सो धर्म है स्वतत्वका चिंतवन सो भावना है । कर्मके उदयतै आए लुधा-तृपादिपरीपहनिक्कं कायरतारहित समभावतै सहना सो परीपह जय है रागादि दोषरहित अपने ज्ञानस्वभाव आत्मामें प्रवृत्ति करना सो चारित्र हैं । ऐसै जो विषय-कषायतै पराङ्मुख होय सर्व क्षेत्र कालमें प्रवर्तै है ताकै गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परीपहजय चारित्र इनकरि नवीन कर्म नाहीं आवै सो संवर है यो संवरके कारण चिंतवन करता रहै ताकै नवीन आस्रव बन्ध नाहीं होय है । ऐसै संवरभावना वर्णन करी ।

अब निर्जराभावनाकूं कहिये है - जो ज्ञानी वीररागी हुआ मदरहित निदानरहित हुवा द्वादश प्रकार तप करै है ताकै महानिर्जरा होय है समस्त कर्मनिका उदय रूप रसकूं प्रगट करि भङ्गना सो निर्जरा है । सो दोय प्रकार होय है एक तो अपना उदयकालमें रस देय भङ्गना सो सविपाकनिर्जरा है सो तो चारों गतिनिमें कर्म अपना रसरूप फल देय निर्जरै ही है । अर जो व्रत तप संयम धारणकरि उदयका कालविना ही निर्जरा करै है सो अविपाकनिर्जरा है, मंद कषाय के भावसहित जैसे जैसे तप बधै है तैसे तैसे निर्जराकी वृद्धि होय है जो पुरुष कषाय वैरीकूं जीत दुष्ट जननिके दुर्वचन उपद्रव उपसर्ग अनादरादिकनिकूं कल्पभावरहित सहै है ताकै महा-निर्जरा होय है । अर जो दुष्टनिकरि क्रीया उपद्रव अर कर्मके उदयकृत परीपहादिक दरिद्र रोगा-दिक तथा दुष्टनिका संगमादिक आवतै ऐसा विचारै है जो पूर्व कालमें पाप उपार्जन कीया था ताका ये फल है अब समभावतै भोगो कर्मरूप ऋण छूटैगा नाहीं विषाद करोगे तो कर्म छोड़ने का नाहीं, संक्लेश करनेमें संख्यात-असंख्यातगुणा नवीन और बांधोगे जो उत्तम पुरुष शरीरकूं तो केवल ममत्वका उपजावनेवाला विनाशीक अशुचि दुःख देनेवाला जानै है अर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यकचारित्रकूं सुखका उपजावनेवाला निर्मल नित्य अविनाशी जानै है अर अपनी निंदा करै है अर गुणवन्तनिका बड़ा सत्कारकरि उच्च मानै है अर मनकूं अर इन्द्रियनिकूं जीति अपने ज्ञान स्वभावमें लीन होय हैं, तिनका मनुष्यजन्म पावना सफल होय है, अर तिस हीके पापकर्मकी बड़ी निर्जरा होय है, अर संसारका छेदनेवाला सातिशय पुण्यका बन्ध होय है अर तिसहीके परम अतीन्द्रिय अविनाशी अनन्तसुख होय है जो समभावरूप सुखमें लीन होय वारम्बार अपने स्वरूपकी उज्ज्वलताकूं स्मरण करै है अर इन्द्रियनिकूं अर कषायनिकूं महा-दुःखरूप जानि जातै है तिस पुरुषके महानिर्जरा होय है ऐसै निर्जरा भावना वर्णन करी ॥ ६ ॥

अब लोकभावना वर्णन करै हैं—सर्व तरफ अनन्तानन्त आकाश ताका बहुत मध्यमें लोक है जो जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल याका समुदाय जेता आकाशमें तिष्ठै है लोकिये है देखिये है सो लोक है । तीनसै तीयालीस घनराजूप्रमाण क्षेत्र है, बाहर अनन्तानन्त आकाश हैं ताकी अलोक संज्ञा है । इस लोकमें अनन्तानन्त जीव हैं जीवनिमें अनन्तगुणा पुद्गल हैं, धर्म-  
एक है, अधर्मद्रव्य एक है, आकाश एक है, कालद्रव्य असंख्यात है । सो इन द्रव्यनिका

स्वरूप, तथा लोका संस्थानादिकका स्वरूप अवगाहनादिक वर्णन करिये तो कथनी बहुत हो जाय, ग्रन्थका विस्तार थोरा थोरा करता हू बहुत हो जाय, अर अब आयु-कायका हू रोगके प्रचरतें बल घटनेतें अल्प अवसर दीखै है तातें ग्रन्थका संग्रह कीया ताकी पूर्णतारूप फलकी जरूरत है यातें अन्य ग्रन्थतें जानना ॥ १० ॥

अब बोधिदुर्लभभावनाका संक्षेप कहैं हैं । अनादिकालतें यो जीव निगोदमें वसै है, एक निगोदके शरीरमें अतीतकालके सिद्धनितैं अनन्तगुणे जीव हैं अपने अपने कार्माणदेहकरि युक्त अवगाहना भवकी एक देहमें है । ऐसैं बादर-सूक्ष्म निगोदजीवनिके देहकरि समस्त लोक नीचे ऊपरि मांहि वारै अन्तर-रहित भरया है । बहुरि पृथ्वीकायादिक अन्य पंचस्थावरनिकरि निरन्तर भरया है यामें त्रसपना पावना बालूका समुद्रमें पटकी हीराकी कणिकाका पावनावत् दुर्लभ है । अर जो त्रसपना हू कदाचित् पावै तो त्रसनिमें विकलेन्द्रियनिकी प्रचुरतामें पंचेन्द्रियपना असंख्यातकाल परिभ्रमण करतैं हू नाहीं पाइये है । फिर विकलत्रयमें मरि निगोदमें अनन्तकाल फिरि पंचस्थावर-निमें असंख्यातकाल संख्यातकाल फिरि निगोदमें जाय है ऐसैं परिभ्रमण करते अनन्त परिवर्तन पूर्ण होय हैं । पंचेन्द्रियपना होना दुर्लभ है पंचेन्द्रियपनामें हू मनसहितपना होना दुर्लभ है सो असंज्ञी हुवा हित-अहितका ज्ञानरहित शिक्षा क्रिया उपदेश आलापादि रहित अज्ञानभावतें नरक-निगोदादिक तिर्यचगतिमें दीर्घकाल परिभ्रमण करै है । अर कदाचित् मनसहित हू होय तो क्रूर तिर्यचनिमें रौद्रपरिणामी तीव्र अशुभलेश्याका धारक घोर नरकमें असंख्यातकाल नाना प्रकारके दुःख भोगै है असंख्यातकाल नरकके दुःख भोगि फिर पापी तिर्यच होय है फिर नरकमें तथा तिर्यचनि में अनेक प्रकार घोर दुःख भोगता असंख्यातपर्याय तिर्यचकी वा नरककी भोगता फिरि स्थावरनिमें परिभ्रमण करता अनन्तकाल जन्म मरण जुधा तृषा शीत उष्णता मारना ताडन सहता अनन्त-काल व्यतीत करै है कदाचित् चौहटामें रत्नराशिका पावना होय तैसें मनुष्यपना दुर्लभ पाय करकै हू म्लेच्छ मनुष्य होय तो तहां हू घोर पाप संचय करि नरकादिक चतुर्गतिमें परिभ्रमण करतैकै फिरि मनुष्य-जन्म पावना अति हो दुर्लभ है, तहां हू आर्यखण्डमें जन्म लेना अतिदुर्लभ है, अर आर्यखण्डमें हू उत्तमजाति उत्तमकुल पावना अति दुर्लभ है । जातैं भील चण्डाल कोली चमार कलाल धोवी नाई खाती लुहार इत्यादि नीच कुल बहुत हैं, उच्च कुल पावना दुर्लभ है । अर कदाचित् उत्तम कुल हू पावै अर धनरहित होय तो तिर्यच ज्यों भार वहना नीचकुलके धारकनिकी सेवा करनेमें तत्पर रहना, तथा अष्ट प्रहर अधर्म कर्मकरि पराधीन वृत्तिकरि उदर भरना ताका उच्चकुल पावना वृथा है । बहुरि जो धनसहित हू होय अर कर्णादिक इन्द्रियनिकरि विकल होय तो धन पावना वृथा है, इन्द्रिय परिपूर्णता हू होते रोगरहित देह पावना दुर्लभ है अर रोगरहितकै हू दीर्घ आयु पावना दुर्लभ है, दीर्घ आयु होते हू शील जो सम्यक् मन वचन कायका न्यायरूप प्रवर्तन दुर्लभ है, न्याय प्रवर्तन होते हू सत्पुरुषनिका संगति पावना दुर्लभ है,

अर सत्संगति होतैं हू सम्यग्दर्शन पावना दुर्लभ है, अर सम्यक्त्व होतैं हू चारित्रका पावना दुर्लभ है, अर चारित्र होतैं हू याका आयुकी पूर्णता पर्यंत निर्वाहकरि समाधिमरणपर्यंत निर्वाह होना दुर्लभ है, रत्नत्रय पाय करकैं हू जो तीत्र कषायादिकनिहूँ प्राप्त होय तो संसार समुद्रमें नष्ट हो जाय हैं, समुद्रमें पतन किया रत्नकी ज्यों फिर रत्नत्रयका पावना दुर्लभ है। अर रत्नत्रयका पावना मनुष्यगति हीमें है मनुष्यगतिहीमें तप व्रत संयम करि निर्वाणका पावना होय है ऐसा दुर्लभ मनुष्यजन्म पाय करकैं हू जो विषयनिमें रमै हैं ते दिव्यरत्नकूँ भस्मके अर्थ दग्ध करैं हैं। ऐसैं बोधिदुर्लभ भावना वर्णन करी ॥११॥

अब धर्मभावनाका संक्षेप करैं हैं — धर्मका स्वरूप दशलक्षण भावनामें कहा ही है, धर्म है सो आत्माका स्वभाव है सो भगवान सर्वज्ञ वीतरागकरि प्रकाशया दशलक्षण, रत्नत्रय तथा जीवदयारूप है ताका वर्णन यथा अवसर संक्षेपतैं इस ग्रन्थमें लिखया ही है। इस संसारमें धर्मके जाननेकी सामग्री ही अतिदुर्लभ है धर्मश्रवण करना दुर्लभ धर्मात्माकी सङ्गति दुर्लभ, धर्ममें श्रद्धा ज्ञान आचरण कोई विरले पुरुषनिके मोहकी मन्दतातैं कर्मनिकी उपशमतातैं होय है जो यो जीव जैसे इन्द्रियनिके विषयनिमें स्त्री पुत्र धान्यादिकमें प्रीति करै है तैसेँ एक जन्ममें हू जो धर्मसूँ प्रीति करै तो संसारके दुःखनिका अभाव होजाय, यो संसारी अपने सुखकूँ निरन्तर चाँछै है, अर सुखका कारण धर्म है तामें आदर नाहीं करै, ताकै सुख कैसेँ प्राप्त होयगा बीज विना धान्यकी प्राप्ति कैसेँ होय, इस संसारमें हू जो इन्द्रपना अहमिन्द्रपना तीर्थकरपना चक्रीपना तथा बलभद्र नारायणपना भया है सो समस्त धर्मके प्रभावतैं भया है। तथा यहां हू उत्तम कुल रूप बल ऐश्वर्य राज्य संपदा आज्ञा सपूत पुत्र सौभाग्यवती स्त्री हितकारी मित्र, वाञ्छित कार्यसाधने वाला सेवक निरोगता उत्तमभोग उपभोग रहनेका देवविमानसमान महल सुन्दर संगतिमें प्रवृत्ति क्षमा विनयादिक मंदकषायता पण्डितपना कविपना चतुरता हस्तकला पूज्यपना लोकमान्यता विख्यातता दातारपना भोषीपना उदारपना शूरपना इत्यादिक उत्तमगुण उत्तमसंगति उत्तमबुद्धि उत्तमप्रवृत्ति जो कुछ देखने में श्रवणमें आवै है सो समस्त धर्मका प्रभाव है धर्मके प्रसादतैं त्रिषम हू सुगम होय है, महा उपद्रव हू दूर भागै है, उग्रम-रहितहू के लक्ष्मीका समागम होय है। धर्मके प्रभावतैं अग्निका जलका पवनका वर्षाका रोगका मारोका सिंह सर्प गजादिक क्रूर जीवनिका नदीका समुद्रका त्रिषका परचक्रका दुष्ट राजाका दुष्ट वैरानिका चोरनिका समस्त उपद्रव दूर होय सुखरूप आत्माके अनेक धिम्ब प्राप्त होय हैं तातैं जो सर्वज्ञके परमात्मके श्रद्धानी ज्ञानी हो तो केवल धर्मका शरण ग्रहण करो। ऐमे धर्मभावनाका संक्षेप वर्णन किया।

धर्मध्यानका कवन ध्याननामा तपमें वर्णन किया है। अब धर्मध्यानका वर्णनमें ज्ञानार्ण-सादिक प्रबंधनिमें पितृउन्मथ पश्य, रूपस्य, रूपार्णित ध्यान ऐसैं चार प्रकार कया है तिनका संक्षेप

इस ग्रन्थमें हू जनाइए । त्रिंइस्थध्यानमें भगवान पंचधारणा वर्णन करी है तिनकूँ सम्यकूँ जानने वाला संयमी संसाररूप पाशीकूँ छेदै है । पार्थिवीधारणा, आग्नेयीधारणा, पवनधारणा, वारुणी-धारणा, तत्त्वरूपवतीधारणा ऐसैं पंच धारणा जानने योग्य हैं ।

तिनमें पृथ्वीसम्बन्धी पार्थिवीधारणाका ऐसा स्वरूप जानना—इस मध्यलोकसमान गोल एक राजूका विस्ताररूप क्षीरसमुद्र चितवन करना । कैसाक क्षीरसमुद्र चितवन करना शब्दरहित अर कञ्जोलरहित अर पाला वरफयमान उज्ज्वल तिस क्षीरसमुद्रके मध्यमें ताया सुवर्ण समान अप्र-माण प्रभाका धारक एक हजार पत्र पांखड़ी-युक्त अर पहारागणिमय उदयरूप केसरावली एक कमल चितवन करना कैसाक है कमल जम्बूद्वीपसमान एक लक्ष योजनका अर जाके बीच चित-रूप भ्रमरके रंजायमान करता मेरुसमान है कर्णिका जाकी, कांतिकरि दशदिशाकूँ पीत करती तिस कर्णिकाके मध्य शरदके चन्द्रमाकी कांतिसमान उज्ज्वल उच्च एक सिंहासन, तिसमें आप बेटा हुआ सुखरूप रागद्वेषादि रहित संसारमें उपज्या कर्मसमूहके नष्ट करनेमें उद्यमी ऐसा आपकूँ चितवन करै ।

भावार्थ—ऐसा ध्यान करै जो एक उज्ज्वल क्षोभरहित शब्द रहित मध्यलोकप्रमाण विस्तीर्ण क्षीरसमुद्र ताकै बीच जम्बूद्वीपप्रमाण ताये सुवर्णसमान कांतिका पुञ्ज पवाराग मणिमय केसरयुक्त एक हजार पांखड़ीका एक कमल है, तिस कमलके बीच मेरुसमान महाकांतिका पुञ्ज कर्णिका, तिस कर्णिकाके मध्य शरदके चन्द्रमासमान कांतिका पुञ्ज उन्नत एक सिंहासन, ताकै मध्य क्षोभ-रहित रागद्वेषरहित अर कर्मके नाश करनेमें उद्यमी निश्चल बैठया अपने आत्माका चितवन करना सो पार्थिवीधारणा है ।

याका दृढ़ अभ्यास हो जाय तदि तिस स्फटिकमय सिंहासनमें तिष्ठता आपका नाभिमण्डलमें मनोहर षोडश उन्नत पत्रका धारक एक कमल चितवन करै, तिस कमलका एक एक पत्र ऊपर तिष्ठती षोडश स्वरनिकी पंक्ति अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ऐ ओ औ अं अः ऐसैं स्थापनकरि चितवन करे, तिस कमलकी कर्णिका में तिष्ठना एक शून्य अक्षर रेफ त्रिंदु अर्धचन्द्राकार कला-युक्त बिन्दुमेंतैं कोटिकांतियुक्त दश दिशाकूँ व्याप्त करता 'हू' ऐसा मन्त्रकूँ चितवन करना, फिर तिस मन्त्रके रेफतैं मन्द-नन्द निकलता धूम चितवन करना । पाछैं अग्निके स्फुलिंगकी पंक्ति चितवन करै, पाछैं महामन्त्रका ध्यानतैं उपज्या ज्वालाका समूह ऊंचा बढ़ता हुआ चितवन करकै अपना हृदयमें तिष्ठता अधो-मुख अष्टकर्ममय अष्टपांखड़ीका कमलकूँ दग्ध करै, पाछैं बाह्य निकमि त्रिकोण अग्निमण्डल अग्निका बीजाक्षर रकारसहित स्वस्तिक चिह्नसहित ज्वालाका समूहकरि अग्नि शरीरकूँ दग्ध करै, पाछैं निर्धूम सुवर्णसमान प्रभाका धारक अग्नि धलधलाट करता मांही तो मन्त्रका अग्नि

कर्मनिकुं दग्ध करै, अर वारै अग्निपुर शरीरकू दग्ध करै, फिर दग्ध करने-योग्य कुछ नाहीं रखा तदि धीरे धीरे अग्नि स्वयमेव शांत होय शीतल होजाय । यहां पर्यंत अग्नि धारणा वर्णन करी ।

अब पवन धारणाका वर्णन करै हैं—कैसा है पवन महावेग युक्त अर महाबलवान अर देवनिके समूहकू चलायमान करता अर मेरुकू कंपायमान करता अर मेघनिके समूहकू लोभरूप करता अर भुवननिके मध्य गमन करता अर दिशानिके मुखमें संचार करता अर जगत के मध्य फैलता अर पृथ्वीतलमें प्रवेश करता ऐसा पवन आक भर करि विचरता स्मरण करै, तिस प्रबल पवनकरि वह कर्मका रज अर देहका रजकू उड़ाय धीरे धीरे पवन शांततानै प्राप्त होय ऐसै पवनधारणा वर्णन करी ।

बहुरि वारुणीधारणामें मेघका समूहकरि व्याप्त आकाशकू चितवन करै । कैसाक है मेघ इन्द्रधनुष, अर विजुलीनिके चमत्कार महागजनासहित स्मरण करै । बहुरि अमृततै उपजी सघन मोतीसमान उज्ज्वल स्थूल धाराकरि निरन्तर वरसता स्मरण करै, तीठां पाछै वरुणा बीजाचरकरि चिन्हित अर अमृतमय जलका पूरकर आकाशमें व्याप्त होता अर्द्धचन्द्रमाके आकार वरुणापुरकू चितवन करै, तिस अचिंत्य प्रभावरूप दिव्यध्वनिरूप जलकरि कायतै उपज्या समस्त रजकू प्रक्षालन करै, ऐसै वारुणीधारणा वर्णन करी ।

तीठां पाछै सिंहासन तिष्ठता अर दिव्य अतिशयनिकरि संयुक्त अर कल्याणनिकी महिमायुक्त अर च्यार प्रकार देवनिकरि पूजित ममस्त कर्मकरि रहित अतिनिर्मल प्रगट पुरुषाकार अपना शरीरके मध्य सप्तधातुरहित पूर्ण चन्द्रसमान कांतिका पुंज सबज्ञसमान अपने आत्माकू चितवन करै । या तत्त्वरूपवतीधारणा वर्णन करी ।

ऐसै पंचधारणारूप पिंडस्थ ध्यानके चितवनमें निश्चय अभ्यास करता योगी अल्प कालमें संसारका अभाव करै है । ऐसै इस पिंडस्थध्यानमें महाकांतिकरि जगतकू आल्हादन करता सर्वज्ञ-तुन्य मेरुके शिखर ऊपरि सिंहासनमें तिष्ठता समस्त देवनिकरि वंघ अपने आत्माकू निश्चल चितवन करता जिनागमरूप महा समुद्रका पारगामी होय है । इस ध्यानहीके प्रभावतै दुष्टनिकरि कीया विद्यामंडल मंत्र यंत्रादिक क्रूर क्रियाका नाश होय, सिंह सर्प शार्दूल व्याघ्र गंडा हस्ती इत्यादिक क्रूर जीव शांत होय, निःसार होय, भूत राक्षस पिशाच ग्रह शाकिन्यादिक दुष्ट देवनिके क्रूर वासनाका अभाव होय है । ऐसै पिंडस्थध्यानका वर्णन किया ॥१॥

अब पदस्थधर्मध्यानका वर्णन करै हैं । जे पूर्वले पाचार्यनिकरि प्रसिद्ध सिद्धान्तमें मंत्र-पद हैं तिनका ध्यान करना सो पदस्थ ध्यान है । अनादिमिद्धान्तमें प्रसिद्ध समस्त शब्दरचनाकी

जन्मभूमि जगतके बंदनेयोग्य वर्णमातृकाका ध्यान करना । नाभिविषै एक षोडश पांखड़ीका कमल चितवन करो, ताका पत्र पत्र प्रति षोडश स्वरनिकी पंक्ति भ्रमण करती चितवन करै—अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ऐ ओ औ अं अः ऐसै षोडश स्वरनिकी पंक्ति चितवन करै । बहुरि अपने हृदयमें चौबीस पांखड़ीका कमल चितवन करै, ताकी कर्णिकासहित पच्चीस स्थाननिमें पंच वर्ग के पच्चीस अक्षर क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ऐसै चितवन करै । बहुरि मुखके विषै अष्ट पांखड़ीका कमल विषै य र ल व श ष स ह ये अष्ट अक्षर प्रदक्षिणारूप परिभ्रमण करते चितवन करै । इस प्रकार अनादिप्रसिद्ध वर्णमातृकांशुं स्मरण करता ज्ञानी श्रुतज्ञान समुद्रका पारगामी होय है । बहुरि इस वर्णमातृका ध्यानतै नष्ट भई वस्तु का ज्ञान होय तथा क्षयरोग अरुचिरोग मंदाग्नि कोट उदरदोग कास-स्वासादिक रोगको विजय करै, तथा असदृश वचनकला तथा महंतपुरुषनितै पूजा पाय उत्तम गतिकुं प्राप्त होय है । बहुरि परमागम करि उपदेश्या पैतीस अक्षरका मन्त्र जपै 'णमो अरहंताण', णमो सिद्धाण', णमो आयगियाण', णमो उवज्जायाण', णमो लोए सव्वसाहूण', तथा 'अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्व-साधुभ्यो नमः, ऐसै षोडश अक्षरनिका मंत्रपदका ध्यान करे । तथा 'अरहंत सिद्ध, ऐसै छह अक्षर-निका मन्त्र जाप करै, तथा 'णमोसिद्धाण' ऐसा पांच अक्षरनिके मन्त्रका ध्यान करै तथा 'अरहंत, इन चार अक्षरनिका तथा 'सिद्ध' इन दोय अक्षरनिका तथा 'ओं' इस एक अक्षरका तथा 'अ' कारका ध्यान करै, तथा 'णमो अरहंताण' ऐसै सप्त अक्षरनिके मन्त्रका तथा 'असि आ उ सा' ऐसे पंच अक्षररूप इत्यादिक पंचपरमेष्ठीके वाचक अनेक मन्त्र परम गुरुनिके उपदेशकरि ध्यान करना तथा

चत्तारि मङ्गलं अरहंत मङ्गलं सिद्ध मङ्गलं साहू मङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं, ये चार मङ्गलपद, अर चत्तारि लोएगुत्तमा अरहंत लोएगुत्तमा सिद्ध लोएगुत्तमा साहू लोएगुत्तमा केवलि-पण्णत्तो धम्मो लोएगुत्तमा ये चार उत्तमपद, अर चत्तारिसरणं पव्वज्जामि अरहंत सरणं पव्व-ज्जामि सिद्धसरणं पव्वज्जामि साहू सरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मोसरणं पव्वज्जामि । वे चार शरणपद हैं इनका कर्मपटलके नाश करनेके अर्थ नित्य ही ध्यान करना । त्रैलोक्यमें ये चार ही मङ्गल हैं चार ही उत्तम हैं, चार ही शरण हैं इनका ध्यानकूं निरन्तर विस्म-रण मत होहु इत्यादिक अनेक मन्त्र इस जीवके राग द्वेष मोह मूर्च्छाके नाश करनेकूं वैर-विरोध दूर करनेकूं दुर्ध्यानका नाश करनेकूं परमशांतभाव उपजावनेकूं विषयनिमें राग नष्ट करनेकूं पञ्चइन्द्रियनिके जीतनेकूं वीतरागता वर्धन करनेकूं, सकल परवस्तुमें चांछा-ममता-रहित होय गुरुनिका उपदेशतै जाप्य करै हैं ध्यान करै हैं तिनके कर्मनिकी बड़ी निर्जरा होय है, क्रमकरि संसार-परिभ्रमणका अभाव होय है । जे रागी द्वेषी मोही होय परका मारण उच्चाटन वशीकरण इत्यादिकके अर्थि तथा विषय-भोगनिके अर्थि वैरीनिका विध्वंसके अर्थि राज्यसम्पदा ग्रहण



करनेके अर्थि मन्त्र जाप करै हैं- ध्यान मुद्रा तप इत्यादिक दृढ़ भये करै हैं ते घोर संसारपरिभ्रमण का कारण मिथ्यादर्शनादि अशुभ कर्मका बन्ध करै हैं खोटी वासना खोटा ध्यान तथा व्यंतर देव देवी यन्त यज्ञणी इत्यादिक कुदेवनिका ध्यानकरि अपने परिणामकूँ श्रद्धान ज्ञानतै भ्रष्ट-करि घोर संसार-परिभ्रमण करै हैं । अर कदाचित् कोऊके चित्तका एकाग्रपणारूप-तपके प्रभावतै वा मंदकषायके प्रभावतै वा शुभकर्मका उदयतै खोटी विद्या सिद्ध हो जाय तो विषय-कषाय अभिमानकी वृद्धिनै प्राप्त होय, सम्यक्श्रद्धान ज्ञान आचरणका घातकरि पापमें प्रवर्तनकरि दुर्गतिका पात्र होय, ऐसा जानि वीतरागताकूँ नष्ट करनेवाले खोटे मन्त्र यंत्र मुद्रा मण्डलनिका त्याग करो । महा मोहरूप अग्निकरि दग्ध होता इस जगविषै कषायनिकूँ छांडि करि केई परमयोगी ऊवरै हैं या हजारों कष्ट आधि-व्याधिकरि व्याप्त महा पराधीन रागद्वेष मोहरूप विषकरि व्याप्त अनिनिद्य गृह वासमें बड़े बड़े बुद्धिमान् हू प्रमादादिकनिकूँ जाति चञ्चल मनके वश करनेकूँ नहीं समर्थ होइए है । बहुरि इस गृहस्थाश्रममें अनेक धन-परिग्रहादिकनिका संयोगमें एक एक वस्तुकी ममतारूप पाशी अर खोटी आशारूप पिशाचणीकरि ग्रस्या हूवा अर स्त्रीनिके रागकरि अन्ध भये ये जीव आत्माका हितकूँ जाननेकूँ असमर्थ हैं । बहुरि इस गृहस्थाश्रमपणामें निरन्तर आर्तध्यानरूप अग्निकरि प्रज्वलित अर खोटीवासनारूप धूमकरि ज्ञानरूप नेत्र जिनका मुद्रित भया, अर अनेक चिंत्तारूप ज्वरकरि जिनका आत्मा अचेत हो रखा है तिनकै स्वप्नमें भी ध्यानकी सिद्धि नहीं होय है । आपदारूप महाकर्दममें फंसि रखा अर प्रबल रागरूप पिंजरेमें पीड़ित हो रखा अर परिग्रहरूप विषकरि मूर्च्छित गृहस्थी आत्माका हितरूप ध्यान करनेकूँ असमर्थ है । अपने ही आरम्भ परिग्रहमें ममतारूप बुद्धिकरि आप ही आपकूँ बांधि पराधीन होय रहे हैं रागादिक रूप वैरीनिकूँ गृहका त्यागी संयमी बिना नहीं जातिये है, अर गृहका त्यागी हू विपरित तत्त्वकूँ ग्रहण करते मिथ्यादृष्टिनिके स्वप्नमें हू ध्यानकी सिद्धि नहीं, यतीपणामें हू पूर्वापरविरुद्ध अर्थकी सत्ताकै अवलम्बन करनेवाले पाखण्डीको ध्यान नहीं संभव है, सर्वथा एकांत ग्रहण करनेवाले पाखण्डी अनेकान्तस्वरूप वस्तुकूँ जाननेकूँ ही समर्थ नहीं, तिनकै ध्यान कैसै होय ? जिनेन्द्रकी आज्ञातै प्रतिकूल प्रवर्तनेवाले मुर्खिलग धारण करते हू मन वचन कायकी कुटिलताके धारक अर शिष्यादिक परिग्रहतै आपकी उच्चताके माननेवाले अपनी कीर्ति अभिमान पूजा सत्कार वन्दनाके इच्छुक अर लोकनिके रञ्जायमान करनेमें चतुर अर ज्ञाननेत्रकरि अंध अर मदनिकरि उद्धत अर मिष्ट भोजनके लोलुपी पक्षपाती तुच्छशीली तिनकै मुनिमेप धारण करते हू कदाचित् धर्मध्यान नहीं हीय है । अर ऐसे पाखण्डी भेषी अन्य भोले लोकनिकूँ कहें यो काल दुःखमा है यामें ध्यानकी सिद्धि नहीं, या कहि अपने अर अन्यके ध्यानका निषेध करै हैं । तथा दाम भोग धनका लोलुप मिथ्याशास्त्रनिके सेमक तिनकै ध्यान कैमें होय । बहुरि रागभाव मर्दित द्वंद्वनिमें विषयनिमें वरुणारहित दाम्प्य कौतुक मायाचार बुद्ध कामशास्त्रनिके व्याख्यान

करनेवाले निकै ध्यान स्वप्न हूँ मैं नाहीं होय है । बहुरि जिनेश्वरकी दीक्षा धारण करिकै हूँ अपना गौरवका अर्थी होय करिकै वर्षीकरण आकर्षण मारण उच्चाटन जलस्थंभन अग्निस्थंभन विषस्थंभन रसकर्म रसायण पादुकाविद्या अञ्जनविद्या पुरचोभ इंद्रजाल बलस्थंभन जीति हारि विद्याछेद वेद वैद्यकविद्या ज्योतिष्कविद्या यक्षणीसिद्धि पातालसिद्धि कालवंचना जांगुलि सर्प मंत्र भूत पिशाच क्षेत्रपालादि—साधन, जल मंत्रन मूत्रबंधन इत्यादि कर्मनिके अर्थी ध्यान करै हैं, मंत्र-साधन करै हैं घोर तप करै हैं तिनके बीचि मिथ्यात्व कषायके वशतैं घोरकर्मका बन्धका कारण दुर्ध्यान जानना, ताके प्रभावतैं नरक तिर्यचादिक कुगतिमें अन्तकाल परिभ्रमण होय है । अर ऐसे पाखंडीनिकी उपासना करनेवाले अनुमोदन करनेवाले दुर्गतिमें परिभ्रमण करै हैं ऐसा दृढ़ श्रद्धान धारि खोटे मंत्र यंत्रनिका त्याग दूरहीतैं करो । यहां कोऊ कहै जो खोटे मारण उच्चाटनादि अनेक विद्या मंत्र तंत्रादिक द्वादशांगमें कहे हैं कि नाहीं ? ताकूँ कहिए है जो द्वादशांगमें तो समस्त त्रैलोक्यमें वर्तते द्रव्य क्षेत्र काल भाव विष अमृत समस्त कहे हैं परन्तु विषादिककं त्यागने योग्य कछा अमृतकूँ ग्रहण करने योग्य कछा, तैसे खोटे मन्त्र खोटी विद्या त्यागने योग्य कही है । तातैं अयोग्य विद्याका दुर्ध्यानादिकका त्याग करिकै कर्मका निर्जरा करनेवाली वीतरागताका कारण पंचपरमेष्ठीके वाचक मंत्र पदनिहीका ध्यान करो । ऐसैं धर्मध्यानके भेदनिमें पदस्थ ध्यान वर्णन किया ॥२॥

अत्र रूपस्थध्यानमें भगवान अर्हत परमेष्ठी समवसरणमें तिष्ठते असंख्यात इन्द्रादिक करि बंधमान द्वादश सभीके जांचनिकूँ परम धर्मका उपदेश करतेनिका ध्यान करनेका उपदेश करै हैं । भगवान अर्हतके धर्मोपदेश देनेका सभास्थान है सो भूमिखूँ पांच हजार धनुष उंचा आकाशमें बीस हजार पैड़ीनिकरि युक्त है । अर हरित नीलमणिमय जाकी भूमिका समवृत्त, भालरि के आकार गोल है मानूँ तीन लोककी लक्ष्मीके मुख अवलोकन करनेका दर्पण ही है । इस सभास्थानका वर्णन करनेकूँ कौन समर्थ है जाका सूत्रधार कुवेर है, जो अनेक रचना करनेमें समर्थ, ताका वर्णन हम सारिखे मंदबुद्धि करनेकूँ कैसेँ समर्थ होय ? तो हूँ शुभ ध्यान होनेके अर्थि तथा श्रवण वितवन करि भव्य जीवनिके आंत आनन्द होनेके अर्थि किंचित् वर्णन करिये है—तिस द्वादश योजनप्रमाण इन्द्रनीलमणिकी समवृत्त भूमिका पर्यंत अनेक वर्णनके रत्ननिकी धूलिकरि रच्या धूलीशाल कोट है । कहूँ तो हरितमणिनिकी कांतिकरि आकाश हरित किरणमय सोहै है, कहूँ पञ्चराग मणिनिकी प्रभाकरि व्याप्त है, कहूँ मेचक मणिनिकी प्रभाकरि व्याप्त है, कहूँ चन्द्रकांतमणिनिकरि व्याप्त चन्द्रमाकी ज्योत्स्ना चानखीकूँ धारण करै है । इत्यादिक अनेक कांतिके धारक रत्ननिका महाप्रभाकरि यो धूलीशाल कोट आकाशमें बलयाकार इन्द्रधनुषकी शोभाकूँ विस्तारता सोहै है, कहूँ सुवर्णमय धूलकी कांतिकरि दैदीप्यमान है इत्यादिक अनेक रत्ननिकी प्रभावा जुंज जो धूलीशाल ताकी चारि दिशानिमें सुवर्णमय दौय दौय स्तम्भ हैं तिन

स्तम्भनिके अप्रभागमें लूँवते मकराकृत तारण तिनमें रत्ननिका मात्रा सोहै हैं तिन धूलिशाल कोटकें च्यरू तरफ महा वीथी एक एक कोम चौड़ी मांहीं प्रवेश करनेकी हैं तिन महावीथीनिके मांही केतीक दूर जाइए, तहां वीथीनिके बीच सुवर्ण मानस्तम्भ हैं ते महा ऊंचे हैं तिन मानस्तम्भनिके च्यारू तरफ च्यार च्यार द्वारनिकरि युक्त तीन कोट हैं और तीन तीन कोटनिके मध्य षोडश सोपान जो सिंहाणनिकरि युक्त पीठ हैं तिन पीठनिके मध्यविषै बड़े ऊंचे मानस्तम्भ हैं ते पीठ सुर असुर मनुष्यनिकरि पूज्य हैं तिन स्तम्भनिकू दूरहीतै देखत प्रमाण मिथ्यादृष्टीनिका मान जाता रहै है । तिन मानस्तम्भनिके मूल विषै पीठ ऊपरि सुवर्णमय जिनेन्द्र-प्रतिमा विराजें हैं, तिनकू चारसमुद्रके जलतैं इद्रादिक देव अभिषेक करै हैं तिस जलकरि वह पीठ पवित्र है । अर तहां शाश्वते देव मनुष्यनिकरि कीये नृत्य वादित्र जिनेन्द्रके मगलरूप गान प्रवृत्त हैं पृथ्वीके मध्य पीठ ताके ऊपरि पीठनिका तीन कटनी तीन तीन पीठनिके ऊपरि सुवर्णमय मानस्तम्भ तिनके मस्तक ऊपरि तीन छत्र हैं मिथ्यादृष्टीनिके मान स्तंभन करनेतैं तथा त्रिलोकवर्ती सुर असुर मनुष्यादिकनिके माननेतैं पूजनेतैं इनका मानस्तम्भ सार्थक नाम है । इन मानस्तम्भनिका च्यारू तरफ च्यार बावड़ी हैं तिन बावड़ीनिमें निर्मल जल भरया है नानाप्रकारके कमल प्रफुल्लित होय रहे हैं तिनका स्फटिकमणिमय तट है, तिनके तटनि ऊपरी नाना प्रकारके पत्नीनिके शब्द होय रहे हैं, वा पत्नीनिके शब्दनिकरि तथा भ्रमरनिके गुंजनकरि जिनके गुण नका स्तवन ही करै हैं । पूर्वके मानस्तम्भके च्यारू तरफ नंदा नन्दोत्तरा नन्दवती नन्दघोषा ये चार बावड़ी, अर दक्षिणमें विजया वैजयन्ती जयन्ती अपराजिता, अर पश्चिममें अशोका सुप्रभा सिद्धा कुमुदा पुंडरीका हे उत्तरके मानस्तम्भके च्यारू तरफ प्रदक्षिणारूप नन्दा महानन्दा सुमबुद्धा प्रभंकरी ऐसैं च्यार दिशानिके च्यार मानस्तम्भनिके च्यार तरफ षोडश बावड़ी हैं अर एक एक बावड़ीके दोय तटनिके निकट दोय दोय पादप्रक्षालन करनेकू कुण्ड हैं, कुण्डनिके जलतैं चरण धोय मानस्तम्भनिकी पूजाकू मनुष्यादिक जाय हैं अर इहांतैं कछुक आगैं जाइए तहां महायोगिका मार्गकू छांडि च्यार तरफ कमलनिकरि व्याप्त जलकी भरी खातिका कहिये खाई हैं सो मानू प्रभुके सेवनकू गंगा ही च्यार तरफ आई है तिस खाईरूप आकाशमें तारा-नक्षत्रनिके प्रतिबिम्बसमान पुष्प सोहै हैं । तिस खाईके रत्नमय तटविषै नाना प्रकार पत्नीनिके समूह शब्द करि रहे हैं, अर अद्भुत तरंगनिकरि व्याप्त है तिस खातिकार्यन्त एक योजन बलयविष्कभ है, तिस खातिकाका अभ्यंतर भूमिका भागविषै च्यारू तरफ बल्लीनिका वन है तिसमें नानाप्रकार बल्ला छोटे गुल्म वृक्ष समस्त ऋतुनिके पुष्पकरि व्याप्त हैं जिनमें नानाप्रकारके पुष्पनिकी बल्ली उज्ज्वलपुष्पनिकरि व्याप्त मानू देवागनानिके मन्दहास्यकी लालाकू धारण करै हैं, जिन ऊपरि भ्रमर गुंजार करै हैं अर मन्दसुगंध पवनकरि बेलवृक्ष भूम रहे हैं, तिस बेलनिका वनमें अनेक क्रीड़ा करनेके सुदुर्पवत हैं रमणीक शय्यानिकरि सहित ठौर ठौर लतानिके मण्डप बन रहे हैं, तिनमें अनेक देवागना

जिनेन्द्रका यश गावें हैं, अर अनेक लताभवनमें हिमालयसमान शीतल चन्द्रकांतिमणिमय शिला देवनिका विश्रामके अर्थ तिष्ठै हैं। धूलीशालतैं लेयपुष्पवाड़ीपर्यन्त दौय योजनप्रमाण बलयविष्कंभ है सो दोऊ तरफ च्यार योजनप्रमाण क्षेत्र भया, इहांतैं महावीर्याके मध्य कितने दूर जाइए तहां च्यारुं तरफ ताया सुवर्णमय प्रथम कोट तिस भूमिकूँ बेदु है। सो यो सुवर्णमय प्रथमकोट अनेक रत्ननिकरि चित्र विचित्र है कहूँ हस्तीनिके मिथुन, कहूँ व्याघ्र सिंहनिके मनुष्यनिके हंस मयूर सूवा इत्यादिकनिके युगलनिके रूपनिकरि नाना प्रकार रत्ननिके जड़ाव करि व्याप्त है, कहूँ रत्नमय बेल पुष्प पल्लव वृक्षनिके सुन्दर रूपकरि व्याप्त है, अर ऊपरि नीचैं कांगुरेनिमें मोतीनिकी तथा पंचवर्णमय रत्नानकी माला तथा भालरनिका जालकरि व्याप्त है तिस कोटकी अप्रमाण कांतिकरि आकाश इन्द्रधनुषकरि व्याप्त हो रखा है, तिस सुवर्णमय प्रथम कोटके च्यारुं दिशानिमें महान् ऊंचे रूपामय उज्ज्वल चार गोपुर कहिये दरवाजे हैं ते गोपुर विजयार्द्रके शिखरसमान ऊंचे तीन तीन खणके ज्योतिके पुञ्ज मानूँ तीन जगतकी लक्ष्मीकूँ हंसै ही हैं, तिन रूपामई तीन खण्डके गोपुरनिके ऊपरि पद्मरागमणिमय दिशानितैं आकाशनैं कांतिकरि व्याप्त करते ऊंचे शिखर आकाशमें जाय रहे हैं, तिन गोपुरनिमें गान करनेवाले कई देव जगतका गुरु जो जिनेन्द्र ताके गुण गाय रहे हैं, कई जिनेन्द्रके गुण श्रवण करै हैं, कई जिनेन्द्रके गुणनिके भरे नृत्य करि रहे हैं। बहुरि एक एक दरवाजेनि प्रति एकसौ आठ आठ भारी कलश दर्पण ठोणा चप्पर छत्र ध्वजा बीजणा ये रत्नमय मङ्गल द्रव्य सोहैं है बहुरि एक एक गोपुर प्रति रत्ननिका आभरणकी कांतिकरि व्याप्त किया है आकाश जानै ऐसे सौ सौ तोरण दिपैं हैं मानूँ स्वभावहीतैं अतिकांतिका धारक जिनेन्द्रका देह तामें अप्ना अवकाश नाहीं जानिकरि ते आभरण गोपुरनिके तोरण तोरण प्रति लूवै हैं। बहुरि एक एक द्वारनिके बाह्य भूमिविपैं नव नव निधि तीन भुवनकूँ उल्लंघन करनेवाला जिनेन्द्रका प्रभावकी प्रशंसा करै हैं मानूँ वीतराग भगवानकरि तिरस्कार करि नव निधि हैं ते द्वारका बहिर्भाग सेवन करै हैं। बहुरि द्वारके अभ्यन्तर जो एक कौम चौड़ी महावीर्या ताका दोऊ भागमें दौय नाट्यशाला हैं ऐसैं च्यार दिशानिके द्वार प्रति दौय दौय नाट्यशाला हैं ते नाट्यशाला तीन तीन खनकी ऐसी सोहैं हैं मानूँ जीवनिक्कूँ रत्नत्रयात्मक मोक्षमार्ग जनावनेकूँ उद्यमी हैं तिन नाट्यशालानिकी उज्ज्वल स्फटिकमणिमय भीत हैं, अर सुवर्णमय स्तंभ हैं, अर स्फटिकमणिमय भूमिका है अर अनेक रत्नमय शिखरनिकरि आकाशकूँ रोकती शोभै हैं तिन नाट्यशालानिमें विजलीकी प्रभावत् नृत्य करती गान करती मोहकर्मका विजयकरि जिन नाम सार्थक पाया है ऐसा भगवानका यश गावती केतीक देवांगना पुष्पनिकी अंजुली चपैं हैं, केतीक देवांगना वीण बजावैं हैं, मृदङ्गादिक अनेक वादित्रनिकी ध्वनिके साथ नाना प्रकार जिनेन्द्रस्तवन उच्चारण करती नाट्यरममें जिनेन्द्रका गुणनिमें तन्मय भई नृत्य करै हैं, वीणाके नादसमान सुन्दर शब्दकरि गावते जे किन्नरदेव ते आवते

जावते देवादिकनिके मनकूँ आसक्त करै हैं । बहुरि नाट्यशालानितैँ आगैँ महावीथीके दोऊ पस-  
 वाडेनिमें दोय दोय धूसघडं हैं तिनतैँ निकसता धूपका धूम आकाशके आंगनमें फैलता दिशानिकूँ  
 सुगंध करै हैं आकाशतैँ उतरते देवनिकेँ मेघकी शङ्का उपजावै है, तिस महावीथीके दोऊ पसवाडे-  
 निका अंतरालमें च्यार तरफ वनवीथी है तिनका एक योजन चौड़ा बलयविष्कंभ है तामें एक  
 श्रेणी अशोकवृक्षनिकी दूजी सप्तपर्णवनकी तीजी चम्पकवनकी चौथी आम्रवनता श्रेणी है ते वन  
 पत्र पुष्प फलनिकरि शोभित मानूँ जिनेंद्रकूँ अर्घ ही दे हैं । या वनश्रेणी दोऊ तरफ दोय  
 योजनमें है तिनमें रत्नमय अनेक पत्नी शब्द करै हैं अमरनिके नाद हो रहे हैं नन्दनवनवत् कोट्यां  
 देव देशांगना नाना आभरणनिके धारक उद्योतके पुञ्ज विचरै हैं तिन वननिमें कहूँ तो कोकिलनिके  
 शब्द ऐसे हो रहे हैं मानूँ जिनेंद्रके सेवनकूँ देवेन्द्रनिकूँ बुलावै है जहां शीतल मद सुगंध पवन-  
 करि वृक्षनिकी शाखा नृत्य करै हैं, तिस वनकी भूमिका सुवर्णमय रजकरि व्याप्त है इन वननिमें  
 रत्नमय वृक्षनिकी ज्योतिररि रात्रि-दिनका भेद नाहीं, निरन्तर उद्योतरूप है अर वृक्षनिकी शीतल-  
 ताके प्रभावकरि सूर्यके किरण आताप नाहीं करै, तिन वननिमें कहूँ त्रिकोण चतुष्कोण निर्मल  
 निर्जंतु जलकी भरीं वातिका हैं तिन वावडीनिकेँ रत्ननिके सिवाण हैं सुवर्णरत्नमय तट हैं कहूँ  
 रत्नमय अनेक क्रीडापर्वत हैं, कहूँ रमणीक अनेक रत्नमय महल हैं, कहूँ अनेक प्रकारके क्रीडा-  
 मण्डप हैं, कहूँ प्रेक्षागृह हैं कहूँ एकशाला कहूँ द्विशाला, कहूँ त्रिशाला, अनेक महलनिकी रचना  
 है, कहूँ हरितभूमि इन्द्रगोपरूप रत्ननिकरि व्याप्त है, कहूँ महानिर्मल सरोवर हैं, कहूँ मनोज्ञ  
 नदी हैं प्राणीनिका शोक दूर करनेवाला अशोकवृक्षनिका वन मानूँ जिनेंद्रका सेवनतैँ अपने रक्त  
 पुष्प पल्लवनिकरि रागकूँ वमन ही करै है, अर सप्तच्छदनामा वन मानूँ अपने सप्तपत्रनिकरि  
 भगवानके सप्त परमस्त्राननिकूँ दिखावै ही है अर चंपक वन अपने दीपकसमान पुष्पनिकरि मानूँ  
 दीपाङ्गजातिके कल्पवृक्षनिका वन प्रभूकी सेवा ही करै है । बहुरि सुन्दर आम्रवन सो कोकिलनिके  
 शब्दनिकरि जिनेंद्रका स्तवन करै है बहुरि अशोकवनके मध्य एक अशोकनामा चैत्यवृक्ष है, तीन  
 सुवर्णमय पीठ ताके ऊपरि है तिस पीठके चौगिरद तीन कोट हैं, एक एक कोटके चार चार द्वार  
 हैं, ते द्वार छत्र चमर भारी कलस दर्पण बीजणो ठोणो ध्वजा इस प्रकार मङ्गलद्रव्य मकराकृत  
 तारण मोतिनिकी मालादिककार भूषित हैं, जसैं जम्बूद्वीपकी स्थलीमध्य जम्बूवृक्ष सोहै तसैं वनकी  
 स्थलीमध्य तीन पीठ ऊपरि अशोकनामका चैत्यवृक्ष सोहै है । शाखाका अग्र दश दिशानिमें  
 विस्तरता देखतप्रमाण शोककूँ नष्ट करै है अपने पुष्पनिकी सुगंधिकरि समस्त आकाशकूँ व्याप्त  
 करता अपना विस्तारकरि आकाशकूँ रोकै है मरुत्तमणिमय हारतकांतिसयुक्त पत्रनिकरि भरया  
 पन्नरागमणिमय पुष्पनिके गुच्छेनिकरि वेष्टित है सुवर्णमय ऊंची शाखा हैं वज्र जे हीरा तिनकरि  
 रच्या पेठ है अपनी प्रभाका मण्डलकरि समस्त दिशाकूँ उद्योतरूप करै है, रणत्कार करते  
 घण्टानिके नादकरि भगवानका विजयकी घोषणाकूँ त्रैलोक्यमें व्याप्त करै है ध्वजानिके चलायमान

वस्त्रनिकरि दर्शन करते लोकनिके अपराध पापरूप रजकू दूर करै है मुक्ताजालानिकरि युक्त मस्तक ऊपरि लूमते तीन छत्रकरि जिनेंद्रका तीन भवनका ईश्वरपणानै वचन विना ही कहै हैं अर वृत्तका पेडके मूलभाग च्यार दिशानिमें च्यार जिनेंद्रके प्रतिविंबकरि युक्त है अर तिन प्रति-विंबनिका इन्द्रादिकदेव अभिषेक करै हैं, अर गंधमाला धूप दीप नैवेद्य फल अक्षतनिकरि देव पूजन करै हैं ते अरहन्तकी प्रतिमा चौरसमुद्रके जलकरि प्रक्षालित हैं सुवर्णमय हैं नित्य सुर असुर देवलोकके उत्तम द्रव्यनिकरि इन्द्रादिक देव पूजै हैं स्तवन करै हैं वंदना नमस्कार करै हैं केतेक देव अरहन्तके गुणस्मरणकरि निश्चयकरि आनन्दतै गावै हैं, जैसे अशोकवनमें एक अशोक नाम चैत्यवृत्त है तैसे चम्पक सप्तच्छद आम्रनामके धारक वननिमें एक एक चम्पकादि नामधारक चैत्यवृत्त जानना । चैत्य जे जिनेंद्रकी प्रतिमा तिनकरि युक्त इनका मूल है तातै चैत्यवृत्त सार्थक नामकू धारै हैं तिन वननिका पर्यन्तभागविषै चौगिरद वेदी है । जो कांगुरे संयुक्त होय ताकू कोट कहिये कांगुरेरहित चौगिरद भीत होय ताहि वेदी कहिये है सो वनका पर्यंतमें सुवर्णमय वेदी है ताके महाय ऊंचे चार तरफ रूपामय च्यार द्वार हैं, सो वेदी अर दरवाजे अनेक रत्ननिकरि व्याप्त हैं, जिन द्वारनिके घण्टानिके समूह लूम रहे हैं मोतीनिकी माला भालर पुष्पमाला लंबायमान है, ते द्वार एकसौ आठ अष्ट मङ्गलद्रव्य अर रत्ननिके आभरणसहित रत्नमय तोरणनिकरि भूषित हैं, तिन तीन खणनिके द्वारनिमें अनेक देव गीत वादित्र नृत्यकरि जिनेंद्रके यशमें लीन हो रहे हैं तिन द्वारनिके आगै वेदीके लगता ही रत्नमय पीठनिके ऊपरि सुवर्णमय स्तम्भनिके अग्रमें नाना-प्रकारकी ध्वजानिकी षंक्ति हैं ते मणिमय पीठनिके ऊपरि सुवर्णमय अनुम कांतिके धारक स्तम्भ हैं ते अठ्ठासी अंगुल मोटे हैं, स्थूल हैं पच्चीस धनुषका अन्तराल परस्पर धारण करै हैं इनकी ऊंचाईका प्रमाण ऐसा जानना - समग्रसरणमें तिष्ठते सिद्धार्थवृत्त चैत्यवृत्तकोट वन वेदी अर स्तूप अर तोरणनि सहित मानस्तम्भ अर ध्वजानिकी अर वनके वृत्तनिके प्रसाद जे महल पर्वतादिक-निकी उच्चता तीर्थकरका देहकी उच्चतातै बारह गुणी जाननी । बहुणि पर्वतनिकी चौड़ाई है सो अपनी ऊंचाईतै अष्टगुणी है । अर स्तूपनिकी चौड़ाई उच्चतातै किंचित अधिक है । अर कोट वेदिकादिकनिकी चौड़ाई अपनी ऊंचाईके चौथे भाग जाननी । ते ध्वजा दश प्रकार हैं माला वस्त्र मयूर कमल हंस गरुड़ सिंह बलध हस्ती चक्रनिके चिह्नकी ध्वजा दश प्रकार हैं ते ध्वजा प्रत्येक एक एक प्रकारकी एकसौ आठ एक दिशामें हैं । समस्त दशप्रकारकी ध्वजा एक हजार अस्सी एक दिशामें भई, चारों तरफ की चार हजार तीनसै बीस हैं । समुद्रकी तरङ्गनिकी ज्यों पवनकरि तिनके वस्त्र लहलहाट करै हैं मालाकी ध्वजामें मालाके आकार व त्र लूमते हाल रहे हैं ऐसै वस्त्रकी ध्वजा मयूराकार मयूरध्वजा सहस्रपांखडीका कमलके आकार कमलध्वजा हंसध्वजा गरुड़ ध्वजा सिंहध्वजा वृषध्वजा गजध्वजा चक्रध्वजा ये दशप्रकार एक दिशाप्रति एकसौ आठ एकसौ आठ हैं ऐसे चार दिशामें चार हजार तीनसै बीस हैं मोहकर्मका विजयकरि उपाजन कीई जिनेंद्रका

त्रिभुवन नरेशपनाकी प्रशंसा करै हैं सो या ध्वजा भूमिका वलयविष्कम्भ एक योजनका दोऊ तरफ दोय योजन चौड़ा है तिसकू उल्लंघनकरि दूजा कोट अर्जुन कहिये सुवर्णका है इस द्वितीय कोटके हू प्रथम कोटवत रूपामई चार तरफ महाद्वार हैं ते द्वार हू प्रथम कोटके द्वारवत् मङ्गल द्रव्य तोरण रत्ननिके आभरणनिकी सम्पदा धारै हैं, ये द्वार हू तीन तीन खणके अर अर्भ्यंतर दोऊ तरफ नाट्यशाला धूपघटयुग्म महावीथीके दोऊ पसवाडेनिमें तिष्ठै हैं । वहरि आगै महावीथी की दोऊ कक्षाविपै एक योजन चौड़ा वलयविष्कम्भ धारता अनेक रत्नमय कल्पवृत्तनिका च्यारु तरफ वन है ते उन्नत छाया फल पुष्पनिकरि युक्त है, दश जातिके कल्पवृत्तनिके वनका रूपकरि देवकुरु उत्तरकुरु भोगभूमि ही जिनेन्द्रका सेवन करै हैं । जिन कल्पवृत्तनिके आभरण वस्त्रादिक फलपुष्पनिकी महान् महिमा है, वृत्तनिके अधोभागमें देव बैठे हुए अपने स्वर्गनिके स्थानकू भूलि चिरकाल तहां ही वसै हैं । ज्योतिरंग जातिके कल्पवृत्तनिमें ज्योतिष्कदेव अर दीपांगनिमें कल्प-वासीदेव अर ज्ञांगनिमें भावनेन्द्र यथायोग्य सुखित तिष्ठै हैं इन च्यार तरफके वनमें एक एक सिद्धार्थवृत्त मध्यमें है तिनका मूलमें सिद्धप्रतिमा विराजै हैं । जैसे चैत्यवृत्तनिका पूर्वे वर्णन कीया तैसें इनका वर्णन जानना । एता विशेष है ये कल्पवृत्त संकल्परूप कीया फलका देनेवाला है कल्पवृत्तनिका वनमें हू कहू वावडी कहू नदी, बालूके टीवेवत रत्नमय धूलके पुंज हैं, कहू सभा-गृह प्रासाद इत्यादिक अनेक सुखरूप स्थाननिकू धरै हैं । वहरि इस वनवीथीके अर्भ्यंतर वनवेदी रूपामई है उन्नत तीन तीन खणके च्यार द्वारनिकरि युक्त है अर पूर्ववेदीवत् तोरण आभरण मंगलद्रव्यनि करि युक्त है, तिन द्वारनिके अर्भ्यंतर जाय च्यार तरफ प्रासाद जे महल तिनकी पंक्ति है सुरशिल्पीकरि रचे नाना प्रकारके च्यारु तरफ है तिन प्रासादनिके सुवर्णमय स्तम्भ हैं वज्रमणि जे हीरा तिनमई भूमिका बन्धन है, चन्द्रकांतिमणिमय भीति है नाना रत्ननिकरि चित्रित है, केते दोय खणके, केते तीन खणके, केते च्यार खणके हैं केई प्रासाद चन्द्रशाला युक्त हैं ऊपरला ऊंचा चन्द्रशाला कहिये है केई बलभीछद च्यारु तरफ भीतिनिकरि सहित हैं ते प्रासाद अपनी उज्ज्वलप्रभामें दृवि रहे हैं केई अपने उज्ज्वल शिखरनिकरि चन्द्रमाकी चानणी-कार ही मानूं रचे हैं कहू बहुत भ्रिखनिके महल है, कहू सभागृह है कहू नाट्यशाला है कहू शय्यागृह है जिनके चन्द्रकांति मणिमय ऊंचे सोपान हैं तिनमें देव विद्याधरजातिके देव सिद्धजातिके देव गंधर्वदेव पन्नगदेव किन्नरदेव बहुत आदरसहित जिनेन्द्रके गुण गावै हैं, केई वजावै हैं । अनेक जातिके वादित्रनिकरि शब्दमय हैं, केई संगीत नृत्य करै हैं, केई जयजयकार शब्द करै है, केई जिनेन्द्रके गुणनिका स्तवन करै हैं । वहरि तिस हर्म्यावलीकी भूमिका मध्य-भागनिविपै नव स्तूप हैं ते स्तूप पद्मरागमणिमय पुंजके आकार उतग आकाशका अग्रकू उलंघन करते ऐसे हैं मानूं समस्त देव मनुष्यनिका चित्तका अनुराग ही स्तूपके आकारकू प्राप्त भया है है । कैसेक हैं स्तूप, सिद्धनिके अर अर्हतनिके प्रतिविंबनिके समूहकरि समस्त तरफ

व्याप्त हो रहे हैं, अपनी ऊँचाईकरि आकाशकूँ रोकै हैं । ते स्तूप देव विद्याधरनिकरि सुमेरुकी ज्यों पूज्य हैं उच्चदेवनिकरि चारणऋद्धिके धारीनिकरि आराध्य हैं । तथा ये नव स्तूप जिनेन्द्रकी नव केवललब्धि ही स्तूपाकार भए हैं तिन स्तूपनिके अन्तरालविषैँ रत्ननिके तोरणनिकी पक्ति ऐसी शोभैँ हैं मानूँ इन्द्रधनुषमय ही हैं, अर अपनी ज्योतिकरि आकाशरूप अङ्गणकूँ चित्ररूप करैँ हैं । ते स्तूप छत्रनिकरि सहित हैं, पताकाध्वजाकरि सहित हैं समस्त मङ्गलद्रव्यनिकरि भरया है । तिन स्तूपनिविषैँ जिनेन्द्रकी प्रतिमानिका अभिषेक करके अर पूजन स्तवन करके पाछैँ प्रदक्षिणा करिके भव्य जीव हर्षकूँ प्राप्त होय है । ऐसैँ अद्वयोजनप्रमाण बलयविष्कभरूप चौडी प्रासाद अर स्तूपनिकी भूमिकूँ उलंघन करके आगैँ आकाश स्फटिकमणिमय तीजा कोट है सो आकाश स्फटिक मणिमय आकाशसमान निर्मल कोट है सो जिनेन्द्रकी समीपताका सेवनतैँ निकट भव्यका आत्माकी ज्यों उज्ज्वल उत्तंग सद्वृत्तताकरि युक्त है तिस स्फटिकमणिमय कोटके च्यार दिशानिमैँ पद्मरागमणिमय च्यार महाउत्तङ्ग महाद्वार हैं मानूँ भव्यनिका रागपुंज हैं । इन द्वारनिके हूँ पूर्ववत मङ्गलद्रव्यनिकी सम्पदादिक समस्त है अर द्वारनिका समीप भागविषैँ दैदीप्यमान गम्भीर नौ निधि हैं वहुँरि तीन कोटनिके द्वारनिविषैँ गदादिक हस्तनिमैँ धारण करते देव तिष्ठैँ । प्रथमकोटके द्वारपाल तो व्यन्तरदेव हैं, दूजे कोटके द्वारपाल भवनवासी देव हैं, तीजा स्फटिक मणिमय कोटके द्वारपाल कल्पवासीदेव हैं । वहुँरि तिस स्फटिकमणिमय कोटतैँ गन्धकुटीका पहला अधस्तलका पीठपर्यन्त लम्बी षोडश भीति आकाशस्फटिकमणिनिका रची हैं तिनकी निर्मल कांति है आदिकी पीठतलतैँ लगाय स्फटिक कोटतैँ लगे षोडश भीति ते अपनी स्वच्छताके प्रभावतैँ नेत्रनिमैँ नाहीं दीखैँ हैं, आकाश ही दीखैँ, हस्तदिक शरीरके स्पर्शनते ही भीति जानिये है स्वच्छताके प्रभावतैँ दीखनेमैँ नाहीं आवैँ हैं निर्मल अर समस्त वस्तुनिके विष दिखावनेवाली भूमि जिनेन्द्रकी ज्ञानविद्या ज्यों सोहैँ है । इन षोडश भीतनिके मध्य षोडश ही दर तिनमैँ च्यार महावीथी हैं अर महावीथीनिके मध्य द्वादश सभास्थान हैं सो भीतनिकी आकाश समान स्वच्छताकरि न्यारापना नाहीं दीखैँ है सब एक दीखैँ हैं तिन षोडश भीतनिके ऊपरि रत्नमय षोडश स्तंभनिकरि धारण किया आकाशस्फटिकमणिमय श्री मण्डप महाउच्च है एक योजन चौड़ा लम्बा गोल है महान शोभायुक्त है जाकेविषैँ समस्त सुर असुरनिकरि बंधमान परमेश्वर तिष्ठैँ हैं तातैँ यो सत्य ही श्रीमंडप है यो श्रीमंडप आकाशस्फटिक मणिमय तातैँ आकाश दीखैँ हैं अर तीन जगतके जनसमूहकूँ निर्वाध स्थान देनेतैँ वड़ा वैभवकूँ प्राप्त है तिस श्रीमंडप ऊपरि गुह्यक देवनिकरि छोड़े पुष्पनिके समूह हैं ते श्रीमंडपके अधोभागमैँ तिष्ठते देवमनुष्यनिके तारानिका शकाकूँ उपाजावैँ हैं एकयोजनप्रमाण यो श्रीमंडप तामैँ समस्त देव मनुष्य परस्पर वाधारहित सुखरूप तिष्ठैँ हैं सो जिनेन्द्रको माहात्म्य है तिसका मध्यभागमैँ तिष्ठता प्रथम पीठ है सो वैदूर्यमणि जो मयूरकंठवर्ण हरित है अष्ट धनुष ऊंचा है । तिसपीठके षोडश



अन्तर है तिन षोडश अन्तरके षोडश षोडश पैडी चढ़ने उतरनेके सिवाए हैं पहला पीठके च्यार तरफ तो महावीथी एककोश चौड़ी अर धूलीशालतैं प्रथम पीठपर्यंत लम्बी सूथी है, तिस पीठके षोडश पैडीनिके ऊपर चढ़ि प्रथम पीठके ऊपरि जाय अपने अपने सभाके स्थानप्रति देव मनुष्यादि षोडश पैडी उत्तरि अपनी अपनी समामें जाय बैठे हैं तिस प्रथम पीठकूं च्यारूं तरफ अष्ट मङ्गलद्रव्य भूषित करै हैं अर तिस प्रथम पीठ ऊपरि ऊंचे यज्ञनिके मस्तक ऊपरि धर्मचक्र च्यार तरफ हैं ते धर्मचक्र एक हजार रत्नमय किरणनिके समूहकरि मानूं प्रथम पीठकारूप उदयाचल पर्वतऊपरि सूर्यके विष ही उदय भये हैं तिस प्रथम पीठ ऊपरि सुवर्णमय द्वितीय पीठ है सो पीठ सूर्यकी किरणनिसमान अपनी कांतिकरि आकाशकूं उद्योतरूप करै है । तिस द्वितीय पीठ ऊपरि अष्ट प्रकारकी ध्वजा है ते ध्वजा १ चक्र, २ हस्ती, ३ वृषभ, ४ कमल, ५ वस्त्र, ६ सिंह, ७ गरुड़, ८ माला इनकी ध्वजा है । ये पवनकरि हालते वस्त्रनिकरि पापरूप रजकूं उड़ावै है कहा मानूं । तिस द्वितीय पीठ ऊपरि अपने रत्ननिकी कांतिकरि अन्धकारकूं दूर करता सर्व रत्नमय तृतीय पीठ है ऐसैं त्रिमेखलामय पीठ समस्त रत्नमय भगवानकी उपासनाके अर्थि मानूं सुमेरु ही आया है । और समवसरणका ऐसा विस्तार जानना धूलिशालतैं खातिका पर्यंत बलयव्यास योजन एक, पुष्प बावडीको वेदीपर्यन्त बलयव्यास योजन एक, अशोकादिक वनको बलयव्यास योजन एक, ध्वजानिकी भूमिको बलयव्यास योजन एक, कल्पवृक्षनिका वनको बलयव्यास योजन एक, प्रासाद-पंक्तिको बलयव्यास योजन अर्द्ध, ऐसे साढा पांच योजन एक दिशा को भयो, दोऊ दिशाको ग्यारह योजन भयो अर आकाशस्फटिककोटके बीच श्रीमण्डपका विस्तार एक योजनका ऐसैं बारह योजनका प्रमाण समवसरणभूमिका है अर श्रीमण्डपमें स्फटिकमय कोटतैं गन्धकुटीका नीचला पीठपर्यंत सभाकी भूमि एक कोश दोऊ तरफकी दोय कोश मध्यमें तीन कटनीका पीठ चौड़ा कोश दोय तिनमें ऊपरला तीसरा पीठकी चौड़ाई धनुष १००० हजार एक, दूजा पीठकी धनुष ७५० साढा सातसैकी चौड़ी कटनी, दोऊ तरफका धनुष १५०० डेढ हजार, अर तीजा नीचला पीठका चौगिरद कटनी धनुष ७५० साढा सातसै, दोऊ तरफका धनुष १५००, ऐसैं तीन पीठका धनुष ४००० च्यार हजार तीका दोय कोश ऐसैं मध्यका विस्तार योजन एक जानना ।

बहुरि प्रथम पीठ भूमितैं आठ धनुष ऊंचा ताके ऊपर च्यार धनुष ऊंचा द्वितीय पीठ है ताके ऊपर च्यार धनुष ऊंचा तृतीय पीठ है अर एक कोश चौड़ी च्यारूं तरफकी महावीथी है तिसके दोऊ पसवाडेनिकी भीति प्रथम पीठकी ऊंचाई प्रमाण आठ धनुषकी ऊंची है अर भीतिनिकी मोटाई ऊंचाईके आठमें भाग एक धनुषकी है बारह सभाकी बारह भीतिनिकी ऊंचाई भी आठ धनुषकी अर चौड़ाई एक धनुषकी है । अब तीसरा पीठ ऊपरि नाना रत्ननिके समूहकरि इन्द्रधनुष हो रहे हैं तहां इन्द्रके हस्तकरि चेपे नाना प्रकारके पुष्प सोहैं है, तिस एक हजार धनुष प्रमाण गोल तीसरा पीठके मध्य छहसै धनुष चौड़ी लम्बी चौकोर अनेक रत्नमय गन्धकुटी कुबेर

रची है सो चौड़ाईतें अधिक ऊंचाई मान-उन्मानप्रमाणकरि युक्त है उच्चंग कोटकरि भूषित है, नाना रत्ननिकी प्रभायुक्त कूट शिखर तिनकरि आकाशमें व्याप्त है, अर उन्नत शिखरनिके बधी जे जयरूप ध्वजा तिनकरि मानूं देवनिकूं बुलावै ही हैं। स्थूल मोतीनिके जाल चारों तरफ लूम हैं, कहुं सुवर्ण रत्ननिके जालकरि भूषित हैं, चारों तरफ अनेक रत्नमय आभरण अर महा-सुगन्ध कल्पवृक्षनिके पुष्पनिकी मालाकरि भूषित हैं, अनेक सुगन्ध पुष्प अर महासुगन्ध धूप तिनतें अधिक जिनेन्द्रके शरीरकी सुगन्धकरि समस्त दिशानिकूं सुगन्धित करै है, तातें याको गन्धकुटी कहिये है। सुगन्धकी अर कांतिकी अर शोभाकी त्रैलोक्यमें परम हृद् है। छहसै धनुष प्रमाण चौकोर गंधकुटीके मध्य एक योजन ऊंचा सिंहासन है ताकी कांति किरण समूह अर सौन्दर्य वर्णन करनेकूं कोऊ समर्थ नाहीं है। तिस सिंहासन ऊपरि चार अंगुलि प्रमाण अन्तर छांडि अपनी महिमा करिकें ही सिंहासनकूं नाहीं स्पर्शन करता जिनेन्द्र तिष्ठै हैं, तहां तिष्ठता जिनेन्द्रकूं इन्द्रादिक देव अति भक्ति-संयुक्त पूजन स्तवन वंदना करै है देवरूप मेघकरि कल्पवृक्षनिके अति सुगन्ध पुष्पनिकी वृष्टि द्वादश योजन प्रमाण समस्त समवसरणमें होय है बहुरि एक योजन प्रमाण श्रीमण्डपके ऊपरि रत्नमय अशोकवृक्ष सर्व तरफ सोहै हैं जाके मरकतमणिमय हरितपत्र हैं नानाप्रकार मणिमय पुष्पनिकरि भूषित हैं, पवनकरि मन्द मन्द हालती शाखाकरि मानूं नृत्य करै हैं, मदोन्मत्त कोकिल अर भ्रमर तिनका शब्दकरि जिनेन्द्रका गुणनिका स्तवन करै हैं। एकयोजनप्रमाण अपनी शाखाकरि समस्त जीवनिका शोक दूर करै हैं, समस्त दिशाकूं अपने डालाकरि आच्छादित करै हैं, हीरामई पेड हैं, पुष्पसमान रत्ननिकें पुष्प वरषै हैं। बहुरि तीन छत्र अपनी कांतिकी उज्ज्वलताकरि सूर्य चन्द्रमा दीऊनिकी प्रभाका तिरस्कार करता, अद्भुत त्रैलोक्यके पदार्थनिकी प्रभाकूं जीतता, मोतीनिकी भालरी करि युक्त हैं सो त्रिलोककी लक्ष्मी को हास्यको पुञ्ज है, कि धर्मरूप राजाको तीन लोकके आनन्द करनेवाला हर्ष है, कि मोहके विजयतें उपज्या प्रभु का यशका पुञ्ज है ऐसे तर्कना उपजावता तीन छत्र सोहै है। बहुरि जिनेन्द्रका पर्यंतकूं सेवन करते यक्ष देवनिके हस्तनिके समूह करि चलायमान कीये चौसठ चमर प्रकट शोभै हैं, ते चामर मानूं क्षीरसमुद्रकी लहरनिकी पंकतिही है, तथा अमृतके खण्डनि करिही रचै है, तथा चद्रमाकी किरणनिका समूह ही है, तथा जिनेन्द्रके सेवनकूं चमरनिकें रूप करि गंगा ही आई है, तथा जिनेन्द्रका अंगकी द्युति ही है, वा क्षीर-समुद्रके भागनिकी पंकति पवनकरि हालै है तथा आकाशतें पड़ती हंसनकी पंकति ही है, तथा भगवानके उज्ज्वल यश ही च्यारों तरफ विस्तरै है। ऐसे शोभनीक चौसठ चमर डरै हैं। बहुरि जिनेन्द्रके देवदुन्दुभि आकाशमें मेघके आगमनकी शंका करते कणनिकूं अमृतकी ज्यौ सींचते मधुर शब्द करै हैं। देवलोकके अनेक जातिके वादित्र नानाप्रकारकी ध्वनिकरि समस्त दिशाकूं पूरा करते मेघकी गर्जनावत् समस्त लोकमें व्याप्त होता भगवान मोहका विजय कीया ताका

आनन्दशब्द लोकनिके हृदयमें प्रकट करे हैं। बहुरि जिनेन्द्रका देहकी अद्भुत प्रभा समस्त समवसरणमें व्यापै है, तिस प्रभाकरि समस्त सुर असुर मनुष्यनिके महाआश्चर्य उपजै है, जो प्रभा सूर्यका तेजकू आच्छादन करे है, कीट्यां कल्पवासी देवनिकी घुतिकू आच्छादती जगतमें एक अद्भुत महाउदयकू प्रकट करती फैली है। जिनेन्द्रका देहरूप अमृतका समुद्रविषै देव-दानव मनुष्य अपने-अपने सप्त भव देखै हैं, चन्द्रमाकी कांति तो जड़ता करे है, अर सूर्यकी प्रभा आताप करे है, अर जिनेन्द्रका देहकी प्रभा जड़ताकू दूर करि ज्ञानका प्रकाश करे है, अर समस्त संतापकू दूरकरि सुखित करे है। बहुरि जिनेन्द्रका मुख-कमलतै मेघकी गर्जना समान दिव्यध्वनि प्रकट होय है सो भव्यजीवनिके मनतै मौह-अन्धकारकू दूर करता सूर्यवत् अनेकान्त-स्वरूप वस्तुकू उद्योत करे है। अर एक रूप भी जिनेन्द्रका ध्वनि समस्त मनुष्यनिकी भाषारूप होय कर्णनिके अभ्यंतर प्रवेश करे है। अर तिर्यचनिके हृदयमें हू प्रवेश करे है अर विपरीत ज्ञानकू दूर करि सम्यक् तत्त्वके ज्ञानकू प्रकट करे है, जैसेँ एकरूप भी जलका समूह नानाप्रकारके वृत्तनिमें नानारूप परिणमै है, तैमें सर्वज्ञकी ध्वनि हू अनेक श्रोतारूप पात्रनिके विशेषतै नाना रूप प्राप्त होय है। जैसेँ एकरूप भी स्फटिकमणि नाना प्रकार ढाकके संयोगतै नानारूप परिणमै है, तैसँ एक प्रकार हू सर्वज्ञकी ध्वनि स्वच्छताके प्रभावकरि पात्रके प्रभावतै नानारूप परिणमै है। केई नाना भाषा स्वभावरूप परिणमन देवनिकृत गुण कहै है सो यामें देवकृतपणा सम्भवै नाहीं। अर दिव्यध्वनि अक्षरसहित ही है अक्षरसमूह बिना अर्थज्ञान कैसेँ होय ? ऐसेँ अष्ट प्रातिहार्यनिकी विभूतिसहित गंधकुटीमें अनंतज्ञान अनन्तदर्शन अनन्तवीर्य अनन्तसुखके धारक गंधकुटीमें पूर्वदिशाके सन्मुख अथवा उत्तर दिशा के सन्मुख तिष्ठै है अर गंधकुटीकी प्रदक्षिणारूप सन्मुख पहली सभामें गणधरादिक मुनीश्वर तिष्ठै है द्वितीय सभामें कल्पवासी देवनिकी स्त्री, तीसरी सभामें गणनीयुक्त अर्जिका, अर मनुष्यणी चौथी सभामें चक्रवर्त्यादिसहित मनुष्य, पंचमी सभामें ज्योतिष देवनिकी स्त्री, छठी सभामें व्यंतरनिकी देवी, सप्तमी सभामें भवनवासिनी देवी, अष्टमी सभामें भवनवासी देव, नवमी सभामें व्यंतरदेव, दशमी सभामें ज्योतिष्कदेव, ग्यारमी सभामें कल्पवासी देव, बारमी सभामें तिर्यच हैं ऐसेँ ये द्वादश सभाके जीव जिनेन्द्रके चरणनिकी भक्तिकरि नञ्जीभूत भये भगवान जिनेन्द्रका उपदेशया धर्मरूप अमृतका पान करे हैं। अर घातिया कर्मनिका नाश होनेतै अष्टादश दोषनिका अभाव भया है—लुधा १, वृषा २, जन्म ३, मरण ४, जरा ५, रोग ६, शोक ७, भय ८, विस्मय ९, अरति १०, चिन्ता ११, स्वेद १२, खेद १३, मद १४, मोह १५, निद्रा १६, राग १७, द्वेष १८, ये अष्टादश दोष समस्त संसारी जीवनिमें व्याप्त हो रहे हैं। भगवान अरहंतनिके घातिया कर्मनिका अभावतै ये समस्त दोष नष्ट भये तातै अनंतसुखरूप परमात्मा परमपूज्य परमेश्वर अनंतगुणनिकरि भूषित कोटि सूर्य-समान उद्योतका धारक अनेक अतिशयनिकरि युक्त

अनंतज्ञान अनंतदर्शन अनंतवीर्य अनन्तसुखरूप तिष्ठै है' ऐसे अरहंतस्वरूपका ध्यान करना सो रूपस्थध्यान है। जो पुरुष वीतराग हुवा संता वीतरागकूँ स्मरण करै है सो कर्मबन्धनतैं छूटै है, अर आप रागी हुवा सरागीको अवलम्बन करै है सो दुष्टकर्मनिकरि बन्धै है। क्रोधी हुवा हू अनेक विकारकरि असार ध्यानके मार्गकूँ अवलम्बन करै है। तथा मंत्र मंडल मुद्रादि अनेक प्रयोगकरि ध्यान करनेकूँ उद्यमी है' तिनका आत्माका एकाग्र होय जुड़नेमें ऐसा सामर्थ्य प्रगट होय है जो क्षणमात्रमें सुर असुर मनुष्यनिके समूहकूँ क्षोभनै प्राप्त करै है', विद्यानुवादमें अनेक विद्या मंडल मन्त्र अक्षरादिकनिका सामर्थ्य आत्माके भाव जुड़नेतैं प्रकट होतैं वर्णन किये है, जातैं अनादि वस्तुनिका स्वभाव कोऊका दूर किया दूर होय नाही है। जैसे केतेक पुद्गलनिका संयोग मिलि विष हो जाय, केते अमृत हो जाय है', केते शरीरके लगानेतैं विकार दूर करै, अर भक्षण करनेतैं प्राण हरै। तथा वचनके पुद्गलनिमें हू अचित्य सामर्थ्य है, जिनतैं आत्मामें क्रोधादिक विकार प्रगट हो जाय, तथा आजन्मके कषाय दूर हो जाय, तथा मंत्रादिकनितैं जहर उतरि जाय, अर जहर व्याप्त हो जाय, ऐसे ही मनके एकाग्र जुड़नेमें ध्यानका अचित्य सामर्थ्य है। नरक स्वर्ग मोक्ष होनेका कारण ध्यान है। केते असंख्यात ध्यान कुतूहलके अति कुमार्गमें प्रवर्तन करावनेवाले कुमतिके कारण कुध्यान है' क्योंकि आत्मामें अनंत सामर्थ्य स्वभावहीतैं है जैसा जैसा बाह्य निमित्त मिलै तैसा तैसा परिणमन होय है यातैं जिनेंद्रधर्मके धारक है ते छोटे ध्यान कुमंत्र मंडलादिसाधन कौतुक करकै हू स्वप्नमें कदाचित् सेवन मत करो। कुध्यानादिकके प्रभावतैं सम्यक् मार्गतैं अष्ट होजाय है, सांची उज्ज्वल बुद्धि नष्ट होय, फेर अनेक भवनिमें बुद्धिकी शुद्धता नाही आवै है, मिथ्यामार्ग नाही छूटै है। सन्मार्ग छूटै पाछैं असंख्यात भवपर्यंत सम्यक् बुद्धि प्रगट नाही होय, जिनसिद्धांतको उपदेश प्रवेश नाही करै, बुद्धि विपरीत होजाय। यातैं असत् ध्यान छोटे मंत्रादिक केवल आत्माके नाशके अर्थि हैं, रागादिका वर्द्धन करै हैं, गृहीतमिथ्यात्व है। जे पुरुष नीचे ध्यान छोटे मंत्र मुद्रा मंडल यंत्र प्रयोगादिककरि रागी द्वेषी कामी क्रोधी नीचे व्यंतरदेव भवनवासी ज्योतिषी देव देवी यक्ष यक्षणीनिकी आराधना करै हैं, संसारके विषय तथा धन तथा कषायनिकी छोटी आशाका अर्थि हुवा ये भोगांकी आत्तिकरि अपना पूर्व पुण्यका धातकरि नरकभूमिकूँ प्राप्त होय है। ये विषय-कषायनिकी बांछा ही दुर्गति करै है, फिर इनके अर्थि छोटी विद्या छोटे मंत्रादिककरि ध्यान करना आत्मामें मिथ्यात्व कषायनिका दृढ़ आरोपण करणा है सो निगोदादिकमें अनंतकाल परिभ्रमण करावै ही। बुद्धिमानकूँ तो ऐसा ध्यान करना तथा ऐसा चिंतवन करना तथा ऐसा आचरण करना जातैं जीवके कर्मबंधका विध्वंस होय। अर जे शांतचित्त हैं मंदकषायी हैं निर्वाञ्छक हैं संतोषी हैं मोक्षमार्गके अवलम्बी हैं तिनके विद्याका साधन, देवता आराधन विना ही स्वयमेव अनेक सिद्धि अनेक ऋद्धि प्राप्त होय है। अर नीच बांछाके धारक हीन-पुण्यके धारकनिके बांछित भी नाही होय, अर अनेक

मंत्रादिक साधन करते हूँ अनेक आपदा ही प्राप्त होय हैं, तातैं वीतरागधर्मका श्रद्धानी स्वप्नहमें नीचे ध्यान मंत्रादिककी प्रशंसा हूँ मत करो । वहुरि जो शरीरादिक नोकर्म अरु ज्ञानावरणादिकर्मरहित चैतन्यस्वरूप निजानंदमय शुद्ध अभूर्त अविनाशी अजन्मा स्पर्शरसगंधवर्णादिपुद्गल-विकार रहित अनंतदर्शन अनंतज्ञान अनंतसुख अनंतशक्तिस्वभाव स्वाधीन, निराकुल, अतीन्द्रिय सिद्ध कृतकृत्य ऐसा शुद्ध आत्माका स्वभाव चिंतवन करना सो रूपातीत ध्यान है । यद्यपि चित्तका एकाग्रपना ध्यान है तथापि सिद्धपरमेष्ठीके गुणसमूहके स्वरूप ध्यानमें अवलोकनकरि अनन्यशरण होय अरु तिस स्वरूपमें लीन होजाना सोई, धर्मध्यान है सिद्धपरमेष्ठीके गुणसमूहके स्वभावरूप अपना स्वरूपकूँ करना सो ही परमात्मामें युक्त होना है । परमात्मकै अरु हमारे गुणनिकरि तो समानता है, परन्तु हमारे गुण कर्मनिकरि आच्छादित हैं, सिद्धपरमेष्ठीकै कर्मके अभावतैं समस्त गुण प्राण्ड भये हैं । ऐसैं निरन्तर अभ्यासतैं आत्मा ऐसा निश्चल होय जो स्वप्नादिक अवस्थामें हूँ सिद्धनिका स्वभाव प्रत्यक्ष दीखै ताकै रूपातीत ध्यान होय है । ऐसैं रूपातीत ध्यानकूँ वर्णन करि धर्मध्यानका वर्णन समाप्त कीया ॥४॥

अब शुक्लध्यानके वर्णन करनेका अवसर आया । यद्यपि शुक्लध्यानके परिणामनिका एक देशमात्र हूँ अपने साक्षात् नार्हीं है, तथापि आगमकी आज्ञाके अनुकूल किंचित् लिखिये है । शुक्ल-ध्यान चार प्रकार है तिनमें आदिके दोय शुक्लध्यान तो पूर्वके ज्ञाता द्वादशांग धारक मुनीश्वरनिके होय हैं अरु पिछले दोय शुक्लध्यान केवली भगवानके होय हैं । पृथक्त्ववितर्कवीचार १, एकत्ववितर्कअवीचार २, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ३, व्युपरतक्रियानिवर्ति ४ ये चार नाम हैं तिनमें प्रथम शुक्लध्यान तो मन वचन कायके तीनूँ योगनिमें होय है, दूजा शुक्लध्यान एक योगहीमें होय है, तीजा शुक्लध्यान एक काययोगहीमें होय है, चौथा शुक्लध्यान अयोगीहीकै होय है । तिनमें प्रथम शुक्लध्यान तो सवितर्क कहिये श्रुतज्ञानका शब्द अर्थका अवलंबनसहित है, अरु सवीचार कहिये अर्थका पलटना शब्दका पलटना अरु योगका पलटना तिनकरि सहित है तातैं सवितर्कसवीचार है । अरु नाना शब्द अर्थ योगका पलटना सो पृथक्त्ववितर्कवीचार है । अरु दूजा शुक्लध्यान श्रुतका एक शब्द, एक अर्थ, एक योगका अवलंबनकरि होय है, अरु अवलंबन क्रिया तातैं परिणाम पलटै नार्हीं, तातैं एकत्ववितर्कअवीचार नाम दूजा शुक्लध्यान है इहां वितर्क नाम श्रुतज्ञानका है वीचार नाम अर्थका व्यंजनका अरु योगका संक्रांति कहिये पलट जानेका है । अर्थ नाम तो ध्यान करने योग्य ध्येयका है सो ध्येय द्रव्य है वा पर्याय है, व्यंजन नाम वचनका है, योग नाम मन वचन कायका हलन चलनरूप क्रियाका है संक्रांतिनाम परिवर्तनका है । द्रव्यकूँ छांडि पर्यायकूँ प्राप्त होना, पर्यायकूँ छांडि द्रव्यकूँ प्राप्त होना सो अर्थसंक्रांति है । एक श्रुतका शब्दकूँ ग्रहण करि अन्य श्रुतका वचनकूँ अवलंबन करना, ताकूँ छांडि अन्यका अवलंबन करना सो व्यंजनसंक्रांति है । काययोगनै छांडि अन्य योगकूँ ग्रहण करना सो

योगसंक्रांति है ऐसे परिवर्तनकूँ वीचार कहिये है । सो ये सामान्य विशेष कहे जो चार प्रकार शुक्ल ध्यान अर धर्मध्यान अर पूर्वे कहे बहुत प्रकार गुप्त्यादिक उपाय संसारका अभावके अर्थि महागुनिके धारने योग्य हैं । यहां ध्यानके आरम्भ एता परिकर होय है जिसकालमें उचम तीन शरीरके संहननपनाकरि परीषहनिकी बाधा सहनकी शक्ति आत्माकूँ प्राप्त होय तिस कालमें ध्यानकै संयोगका परिचयके अर्थि आरम्भ करै । कैसेँ करै सो कहै हैं—पर्वत गुफा कंदरू दरी वृद्धनिके कोटर नदीके तट श्मसान जीर्ण उद्यान शून्य गृहादिकमें कोऊ एक अवकाशस्थान होय, सो कैसा स्थान होय सर्प मृग पशु पक्षी मनुष्यनिके अगोचर होय, अर आगंतुक कीडा कीड़ी बीछू डांस मांछर मधुमक्षिकादिक जीवनिकरि रहित होय । अर जहां अति उष्मा नाहीं होय, अतिशीत नाहीं होय, अतिपवन नाहीं होय, वर्षा तावड़ाकी बाधारहित होय, समस्त प्रकार बाह्य शरीरमें अर अभ्यंतर मनविषै विक्षेपनिका कारणकरि रहित पवित्र अनुकूल स्पर्शरूप भूमितल में सुखरूप तिष्ठता, बांध्या है पल्पंकासन जाने अर सम सरल कठोरतारहित शरीरयष्टिकूँ निश्चलकरि अपने अंकमें वाम हस्ततलके ऊपरि दक्षिण हस्ततल सीधो स्थापना करि अर नेत्रकूँ अति नाहीं उघाड़ता, अर अति नाहीं निमीलन करता, दंतनि करि दंतनिके अग्रभाग स्पर्शन न करता अर किंचित् उन्नतमुख धारै सरल मध्य हृदय उदरादि धारै अंगका करडापनानै छांड़ि परिणाम मस्तक ओष्ठकी गंभीरता सरलताकूँ धारता प्रसन्न मुखका वर्ण धारै अर निमेषरहित स्थिर सौम्य दृष्टिसहित हुआ नष्ट भया है निद्रा आलस्य काम राग रति अरति शोक हास्य भय द्वेष ग्लानि जाकै, अर मंद-मंद है स्वास उश्वासका प्रचार जाकै इत्यादिक परिकरकूँ धारता साधु है सो नाभिके ऊपर अथवा हृदय में तथा मस्तकमें वा अन्य स्थानमें मनकी प्रवृत्तिकूँ जैसेँ पूर्वे परिचय होय तैसेँ निश्चल करिकै मोक्ष जो कर्मबन्धनतैँ छूटनेका अभिलाषी हुआ प्रशस्त ध्यानकूँ ध्यावै ।

तिस ध्यानमें एकाग्रमन हुवा अर राग द्वेष मोहकी उपशमताकूँ प्राप्त हुआ निपुण-पणातैँ शरीरका हलन-चलनक्रियाकूँ निग्रह करता मंदमंद उश्वास-निश्वासरूप सम्यक् निश्चल अभिप्रायकूँ धारता क्षमावान हुवा बाह्य अभ्यन्तर द्रव्य-पर्यायनिमें ध्यावता श्रुतका सामर्थ्यकूँ अंगीकार करता साधु है सो अर्थने अर व्यंजननैँ अर कायनैँ अर वचननैँ भिन्नपणाकरि परिवर्तन करता मन करिकैँ जैसेँ कोऊ पुरुष परिपूर्ण बलका उत्साहरहित निश्चलतारहित हुवा तीक्ष्णता-रहित मोटा शस्त्र करिकैँ बहुत कालमें सचिक्कन काष्ठकूँ छेद है तैसेँ अष्टम नवम दशम गुण-स्थानके भावका धारक साधुह संज्वलनकषायका उदयतैँ परिपूर्ण परिणामनिका बलके उत्साहकूँ नाहीं प्राप्त हुवा अर भावनिकैँ कषायके उदयके धक्कातैँ दृढ़ निश्चलताकूँ प्राप्त नाहीं होनेतैँ

अर मोहनीका समस्त उदयका नाश नहीं होनेतै श्रीरै धीरै करणरूप परिणामनिके सामर्थ्यतै मोहनीयकर्मकी प्रकृतिनिनै उपशम करता वा क्षय करता पृथक्त्ववितर्कवीचार नाम ध्यानका धारक होय है। फेरि धीर्यविशेषकी हानितै योगतै योगान्तरनै शब्दतै शब्दांतरनै अर्थतै अर्थान्तरनै आश्रय करता ध्यानके प्रभावतै समस्त मोहरजका अभावकार ध्यानका योगतै निमडै है ऐसै पृथक्त्ववितर्कवीचार नाम ध्यानका स्वरूप कहा। बहुरि इसही विधिकरि समस्त मोहनीय कूँ दग्ध करनेका इच्छुक अनन्तगुण विशद्ध योगविशेषकूँ आश्रयकरि बहुरि ज्ञानावरणकी सहाईभूत प्रकृतिनिका बंधकूँ घटावता वा क्षय करता श्रुतज्ञानका उपयोगवान दूरि भया है, अर्थ व्यंजन योगका पलटना जाकै, अर अविचलित है मन जाका अर क्षीण भया है कषाय जाकै, वैदूर्यमणिकी ज्यों निरुपलेप हुवा ध्यान करिकै फेर नहीं बाहुडै है, ऐसै एकत्ववितर्कध्यान कहा। ऐसै एकत्ववितर्कशुक्लध्यानरूप अग्निकरि दग्ध किया है घातिकर्मरूप ईंधन जानै, अर प्रज्वलित भया है केवलज्ञानरूप सूर्यमंडल जाकै, मेघपंजरका अभावतै निकस्या सूर्यकी ज्यों कांतिकरि दैदीप्यमान भगवान तीर्थंकर वा अन्य केवली सो तीन लोकके ईश्वर, जे इंद्र धरणिंद्रादिकनिकरि बंदनीय पूजनीय हुवा उत्कृष्टकरि देशोन कोटिपूर्व विहार करै हैं। अर सो ही केवली जो अंतर्मुहूर्त आयु बाकी रहि जाय अर वेदनी नाम गोत्रकर्मकी स्थिति हू आयुके समान ही होय तदि तो समस्त वचन मनोयोगकूँ छांडि करिकै सूक्ष्मकाय योगका अवलवन करै सो सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्याननै प्राप्त होनेकूँ योग्य होय है। अर जो अंतर्मुहूर्त आयु शेष रही होय अर वेदनी नाम गोत्रकी स्थिति अधिक होय तो सयोगी समस्त कर्मके रजकूँ नाश करनेकी शक्ति स्वभावतै दंड कषाट प्रतर लोकपूरण समुद्घात अपने आत्मप्रदेशनिके प्रसरणतै च्यारि समयनिमें करि बहुरि च्यारि समयमें आत्मप्रदेशकूँ संकोच करि समस्त कर्मनिकी स्थितिकूँ समानकरि पूर्वशरीरपरिणाम होय सूक्ष्मकाययोगकरि सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यानकूँ प्राप्त होय है। तहां पाछै समुच्छिन्नक्रियानिवृत्तिध्यानका आरम्भ करै हैं समुच्छिन्न कहिये नष्ट भया है स्वासोच्छ्वासका प्रचार अर समस्त काय वचन मनका योगरूप समस्त प्रदेशनिका हलन-चलनरूप क्रियाका व्यापार जामें यातै याकूँ समुच्छिन्नक्रियानिवृत्तिध्यान कहिये है तिस समुच्छिन्नक्रियानिवृत्तिध्यानके होते समस्त बंधका कारण समस्त आसवका निरोध अर समस्त कर्मका नाश करनेका सामर्थ्यकी उत्पत्तितै अयोगकेवलीभगवानकै सम्पूर्ण संसारका दुःखनिका संगमके छेदन करनेका कारण सम्पूर्ण यथाख्यातचारित्र ज्ञान दर्शन साक्षात् मोक्षका कारण उपजै है सो अयोगकेवली भगवान तदि ध्यानरूप अग्निकरि दग्ध किया है समस्त कर्ममलकलंकवर्ध जानै नष्ट भया है कीटधानु पाषाण जानै ऐमा सुवर्गकी ज्यों अपनी आत्माकी शुद्धता पाय निर्वाण-

कूँ प्राप्त होय हैं ऐसे शुक्लध्यानका संक्षेप स्वरूप वर्णनकरि ध्यान नामा तपका वर्णन समाप्त किया । ऐसै तप भावना वर्णन करी ॥

अब इहां अनेकांत भावना अर समयसारादिभावना वर्णन करी चाहिये परन्तु आयु कायका अब शिथिलपणातै ठिकाना नाहीं तातै सूत्रकारका कहा कथनकूँ समेटना उचित विचारि मूलग्रंथका कथन लिखिये है । यहां तक श्रावकके वारा व्रत तो वर्णन किये, अब अन्तकालमें सल्लेखना विना सफल नाहीं होय, वारह व्रतरूप सुवर्णका मन्दिर खडा किया अब या ऊपर सल्लेखना है सो रत्नमयी कलश चढावना है यातै सल्लेखनाका स्वरूप कहिये है तिसमें प्रथम सल्लेखनाका अवसरका वर्णन करनेकूँ सूत्र कहै हैं,—

उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे ।

धर्माय तनुविमोचनमाहुः सल्लेखनामार्गाः ॥१२२॥

अर्थ—जाका इलाज नाहीं दीखै, मिटनेका प्रतीकार नाहीं दीखै, ऐसा उपसर्ग होतै दुर्भिक्ष होतै जरा होतै रोग होतै जो धर्मकी रक्षाके अर्थि शरीरका त्याग करना ताहि गणधरदेव सल्लेखना कहै हैं । जातै देहमें रहना अर देहकी रक्षा करना तो धर्मके धारनैके अर्थि है, मनुष्यपणा इन्द्रिय अर मन इत्यादिक पावना सो समस्त धर्मके पालनेतै सफल है । अर जहां धर्महीका नाश दीखै जो अब धर्म नाहीं रहैगा, श्रद्धान ज्ञान चारित्र नष्ट हो जायगा, ऐसा निश्चय हो जाय, तहां धर्मकी रक्षाके अर्थि देहका त्याग करना सो सल्लेखना है । कोऊ पूर्वजन्मका वैरी असुर पिशाचादिक देव उपसर्ग आय करै तथा दुष्ट वैरी वा भील म्लेच्छादिक तथा सिंह व्याघ्र गज सर्पादिक दुष्ट तिर्यचनि कृत उपसर्ग आया होय अथवा प्राणनिका नाश करनेवाला पवन वर्षा गडग तथा शीत उष्णता धूप अग्नि पाषाण जलादिकृत उपसर्ग आया होय, तथा दुष्ट कुटुम्बके वांधवादिक स्नेहतै वा मिथ्यात्वकी प्रबलतातै तथा अपने भरण-पोषणके लोभतै चोरित्र धर्मके नाश करनेकूँ उद्यमी होय, तथा दुष्ट राजा, राजाका मन्त्री इत्यादिकनि-कृत उपसर्ग आवै तो तहां सल्लेखना करै । बहुरि निर्जन वनमें दिशा भूल हो जाय मार्ग नाहीं पावै, बहुरि अन्न-पान जासै मिलनेका नाहीं ऐसा दुर्भिक्ष आ जाय, बहुरि समस्त देहकूँ जीर्ण करनेवाली नेत्र-कर्णादिक इन्द्रियनिकूँ नष्ट करनेवाली जंघा-बल नष्ट करनेवाली हस्त-पादादिकनिकूँ शिथिल असमर्थ करने-वाली जरा आजाय तिस कालमें सल्लेखना करना उचित है । बहुरि असाध्य रोग आय गया हो, प्रबल ज्वर अतीसार तथा स्वास कास कफका वधना तथा वात-पित्तादिककी प्रबलता होय, तथा अग्निकी मन्दताकरि जुधाका घटना होय,



रुधिरका नाश होना होय, तथा कठोदर सोजा इत्यादिक विकारकी प्रवृत्तता होय, तथा रागकी दिन दिन वृद्धि होय, तदि शीघ्र ही धैर्य धारण करि उत्साहसहित सल्लेखना करना योग्य है। ये अवश्य मरणके कारण आय प्राप्त होय तहां च्यारि आराधनाका शरण ग्रहण करि समस्त देह गृह कुटुम्बादिकतै ममत्व छांडि अनुक्रमतै आहारादिकनिका त्यागकरि देहकू त्यागना। देह विनशि जाय अर आत्माका स्वभाव दर्शन ज्ञान चारित्र जैसै नाहीं विनशौ तैसै यत्न करना। यो देह तो विनाशोक है, अवश्य विनशौगा, कोट्या यत्नतै देव दानव मंत्र तंत्र मणि औषधादिक कोऊ रक्षा नाहीं करैगा। देह तो अनन्त भव-धारण करि छांडै हैं यो रत्न-त्रय धर्म अनंत-भवनिमै नाहीं प्राप्त हुवा यातै दुर्लभ है, संसार परिभ्रमणतै रक्षा करनेवाला है, ऐसा धर्म मेरे परलोकपर्यन्त मति मलीन होहू ऐसा निश्चय धरि देहतै ममता छांडि पण्डितमरणके अर्थि उद्यम करै।

अथ समाधिमरणकी महिमा कहनेकू सूत्र कहै हैं,—

अंतःक्रियाधिकारणं तपःफलं सकलदर्शिनः स्तुवते ।  
तस्माद्यावद्विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम् ॥१२३॥

अर्थ—अन्तःक्रिया जो संन्यासमरण सो ही जाका आधार होय तिस तपके फलकू सकलदर्शी सर्वज्ञ भगवान् स्तुवते कहिये प्रशंसा करते हैं जिस तप क रनेवालेके तपके फलतै अंतमें संन्यासमरण नाहीं भया सो तप निष्फल है तातै जेता आपका सामर्थ्य होय तेता समाधिमरण करनेमें प्रकृत यत्न करना योग्य है। भावार्थ—तप व्रत संयम करनेका फल लोकमें अनेक हैं। तप करनेका फल देवलोक है, तथा मिथ्यादृष्टिकै तपके प्रभावतै नवग्रैवेयक पर्यंतमें अहमिद्र होना हू है महान ऋद्धि संपदा हू है, तपका फल चक्रवर्तीपणा नारायणपणा बलभद्रपणा राजेन्द्रपणा विभव संपदारूप निरोगपणा बलवानपणा अनेक प्रकार है, अखण्ड आज्ञा ऐश्वर्य ऋद्धि विभव परिवार समस्त ये तपका फल है सो अंतमें समाधिमरण विना समस्त देवादिकनिकी संपदा अनेक वार भोगि भोगि संसारमें परिभ्रमण ही किया, परन्तु तप करकै जो अंतसमाधि मरणकी विधितै आराधनाका शरणसहित, भयरहित मरण कीया, तिस तपका फलकू सर्वदर्शी भगवान् प्रशंसा करै हैं। जातै कोटिपूर्व-पर्यंत तप कीया, अर अन्तकालमें जाका मरण विगडि गया, ताका तप प्रशंसा-योग्य नाहीं। तप करनेतै देवलोक मनुष्यलोककी संपदा पा जाय, परन्तु मरणकालमें आराधनामरणके नष्ट होनेतै संसारपरिभ्रमण ही करैगा। जैसे अनेक दूर देशनिमें बहुत भ्रमणकरि बहुत धन उपार्जन कीया,

परन्तु अपने नगरके समीप आय धन लुटाय दरिद्री होय है तैसँ समस्त पर्यायमें तप व्रत संयम धारण करकै हू जो अन्तकालमें आराधना नष्ट करि दीनी तो अनेक जन्म-मरण करनेका ही पात्र होयगा ।

अब संन्यास करनेका प्रारम्भमे कहा करै सो कहनेकूँ सूत्र कहै हैं—

स्नेहं वैरं सङ्गं परिग्रहं चापहाय शुद्धमनाः ।

स्वजनं परिजनमपि च ज्ञात्वा क्षमयेत्प्रियैर्वचनैः ॥१२३॥

अर्थ—अब स्नेह अर वैर संग परिग्रह इन्का त्याग-करि शुद्धमन होय स्वजन अर परिकर के जन तिनमे क्षमा ग्रहण करिके अर समस्त परिकरके जनकूँ आप हू प्रिय हित वचन करके क्षमा ग्रहण करावे सम्यग्दृष्टिक स्नेह अर वैर दोऊनिका अभाव होय है सम्यग्ज्ञानी ऐसा विचारै है जो इस पर्यायमें कर्मके वशतैँ मैं आय उपज्या अब जो पर्यायका उपकारक तथा अपकारक द्रव्यनिकूँ पुण्य पाप कर्मका उदयके आधीन जे बाह्य स्त्री पुत्रादिक थे तिनमें पर्यायके उपकारका अर्थि दान सन्मानादिकरि स्नेह किया, अर जे इस पर्यायके उपकारक द्रव्यनिकूँ नष्ट करनेवाले थे तिनकूँ चारित्रमोहके उदयकरि वैरी मान्या, उनतैँ पराङ्मुख होय रह्या । अब इस पर्यायका विनाश होनेका अवसर आया अब कौनसूँ स्नेह करूँ अर कौनसूँ वैर करूँ मेरा इनका आत्माके संबंध तो है ही नाहीं, मैं इन्का आत्माकूँ जानूँ नाहीं, ये लोक हमारे आत्माकूँ जाने नाहीं, केवल हमारा इन्का चामड़ा दीखनेमें आवै है यातैँ चामड़ाहीसूँ मित्र शत्रु का संबंध है सो ये चाम भस्म होय एक एक परमाणु उड़ि जांयगे अब कौनसूँ स्नेह वैरका संकल्प करिये । अर जे कोऊआपसूँ विना-कारण अभिमानसूँ वैर करनेवाले हैं तिनसूँ नम्रीभूत होय क्षमा ग्रहण करावै जो मेरी भूल चूक भई है जो मैं आप सारिखनितैँ अपूठा होय रह्या, मैं अज्ञ आपसूँ प्रार्थना करूँ हूँ मेरा अपराध क्षमा करो, आप सारिखे सज्जननि बिना कौन बकसीस करै, अर जो आप किसीका धन धरती दाव लई होय तो उनकूँ देय राजी करै जो मैं दुष्टताकरि आपका धन राख्या, तथा जमीन जायगा खोसी, सो अब ये आपकी ग्रहण करो । मैं पापी हूँ दुष्टताकरि छलकरि लोभकरि अंध भया दुराचार किया, अब मैं अंतरंगमें पश्चात्ताप करूँ हूँ, आपकूँ बड़ा दुख उपजाया अब जो अपराध किया सो तो कोऊ प्रकार उल्टा आवै नाहीं, अब मैं कहा करूँ, आप माफ करो इत्यादिक सरल भावनितैँ क्षमा ग्रहण करावै । अर जे अपने कुटुम्ब मित्रादिक स्नेहवान् होय, तिनसूँ कहै तुम हमारैँ सम्बन्धी स्नेही हो परन्तु तुमारे हमारे इस पर्यायका सम्बन्ध है सो थैँ इस देहका उपजावनेवाला माता पिता हो,

इस देहमें उपजे पुत्र पुत्री हो, इस देहके रमावनेवाली स्त्री हो, इस देहके कुलके सम्बन्धी बन्धुजन हो तुम्हारे हमारे इस विनाशीक पर्यायका सम्बन्ध एते काल रखा अर यो पर्याय आयुके आधीन है अब अवश्य विनश गा अब विनाशीकतै स्नेह करना वृथा है। इस देहमें स्नेह करो तो यो रहनेको नहीं यो तो अग्नि आदिकतै भस्म होय समस्त विश्वर जायगा, अर मेरा आत्मा ज्ञानस्वरूप है अविनाशी है अखंड है मेरा निजरूप है, निज स्वभावका विनाश नहीं। जाका संयोग है ताका अवश्य वियोग है, अर जो अनेक पुद्गल परमाणु मिलकरि उपज्या ताका अवश्य विनाश होय ही, तातै इस विनाशीक अज्ञान जड़स्वरूप मेरे पुद्गलतै स्नेह छांडि मेरे अविनाशी ज्ञायक आत्माका उपकार करनेमें उद्यमी होना योग्य है। जैसे मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्मा रागद्वेषमोहादिकतै घात नहीं होय, अर ज्ञानादिककी उज्ज्वलता प्रकट होय, वीतराग निज स्वभावकी प्राप्ति होय, तैसेँ यत्न करना। ये पर्याय तो अनंतानंत धारण करि छांडी हैं मैं दर्शन-ज्ञान चारित्रकी विपरीततातै च्यारि गतिनिमें परिभ्रमण किया। कहां मेरा सकलका ज्ञाता सर्वज्ञस्वरूप, अर कहां एकेन्द्रिय पर्यायमें अक्षरके अनंतवें भाग ज्ञानका रहना। तथा अनंत शक्ति अंतराय कर्मके उदयतै नष्ट होय, पृथ्वी पाषाण जल अग्नि पवन वनस्पतिरूप पंच-स्थावररूप धरना, विकलत्रय हाना, ये समस्त मिथ्या श्रद्धान ज्ञान आचरणका प्रभाव है। अब अनंतानंतकालमें कर्मके बड़े क्षयोपशमतै वीतरागका स्याद्वादरूप उपदेशतै मेरे किंचित् स्वरूप पररूपका जानना भया है तातै भो सज्जन जन हो, अब ऐसा स्नेह करो जैसे मेरा आत्मा राग द्वेष मोहरहित हुवा निर्भय हुवा देहका त्याग आराधनाका शरणसहित करै। जातै अनादि-कालतै अनंतानंत मिथ्यात्वसहित बालमरण किया, जो एक बार भी पण्डितमरण करता तो फेर मरणका पात्र नहीं होता। तातै अब देहमें स्नेहादिक छांडि जैसे मेरा आत्मा रागादिकनिके वश होय संसार समुद्रमें नहीं डूबै तैसेँ यत्न करना उचित है। ऐसे स्नेह वैरादिक छांडि अर देह-परिग्रहादिकका राग छांडि शुद्ध मन करो। बहुरि समाधिमरणका इच्छुक कहा करै सो सूत्र कहै हैं।

आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं त निर्व्याजम् ।

आरोपयेन्महाव्रतमामरणस्थायि निःशेषम् ॥ १२५ ॥

अर्थ—बहुरि जो पाप अपराध आप किया, तथा अन्यतै कराया होय तथा करतेकूँ आछा जाना होय, तिस अपराधकूँ एकान्तमें निर्दोष वीतराग ज्ञानी गुरुनितै कपटरहित आलोचना करके अर मरण पर्यंत समस्त महाव्रत आरोपण करै, ग्रहण करै।

भावार्थ—वीतराग निर्दोष गुरुनिका संयोग प्राप्त होजाय, अर अपना रागादिकषाय

घटि जाय, अर परीषहादिक सहनेमें अपना शरीर मन समर्थ होय, धैर्यादि गुणका धारक होय, निर्ग्रथ वीतराग गुरु निर्वाह करनेकूं समर्थ होय, देश काल सहायादिकका शुद्ध संयोग होय, तो महाव्रत अंगीकार करै । अर बाह्य अभ्यंतर सामग्री नाहीं होय तो अपने परिणाममें ही भगवान पंचपरमेष्ठीका ध्यान करि अरहंतादिकतै आलोचना करै । अपनी योग्यताप्रमाण समस्त पंच पापनिका त्यागकरि गृहमें तिष्ठता ही महाव्रती तुल्य हुवा रोगादिक वेदनाकूं कायरता रहित बड़ा धैर्यतै सहता दुःखरूप वेदनाकूं बाह्य नाहीं प्रकट करता सहै । कर्मक उदयकूं अपना स्वभावतै भिन्न जानता, समस्त शत्रु मित्र संयोग वियोगमें साम्य भाव धारता, परिग्रहादिक उपाधिकूं त्यागकरि विकल्परहित तिष्ठै है । जातै ऐसा जानना जा संन्यासका अवसर जानि परिग्रहका त्याग करै तहां जो प्रथम तो किसीका देना ऋण होय तो ताकूं देय ऋणरहित होजाय, बहुरि किसीकी धनादिक तथा जमीं जायगा आप अनीतिसूं ली होय तो ताकूं पाछी देय वाकै संतोष उपजाय अपना अपराध क्षमा कराय आपकी निंदा गर्हा करै । बहुरि जो धन परिग्रह होय ताका विभाग करिकै देय निराकुल होजाय स्त्रीको विभागकरि स्त्रीनै देवै, पुत्रनिका विभाग पुत्रनिको देवै, पुत्रीका विभाग होय पुत्रीकूं देवै, दुःखित दीन अनाथ विधवा ऐसै आपके आश्रय बहिण भुवा बंधु इत्यादिक होय, तिनकूं देय समस्त परिग्रह त्यागि ममतारहित होय देहका संस्कारका त्याग करै, स्त्री पुत्र गृहादिक समस्त कुटुम्बमें शय्या आसन वस्त्रादिक-निमें ममताकूं छोड़ै, जो हमारा इनका अब केताक संबंध है जिस देहका संबन्धीनितै संबंध था उस देहकूं ही अब हम छाड़ै हैं तब देहका संबन्धतै हमारै काहेकी ममता ? अब हमारा आत्माका संबंध तो अपने स्वभावरूप सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रतै है हमारा निज-स्वभाव है । देह तो चाम हाड मांस रुधिरमय कृतघ्न है, जड़ है ये हमारा नाहीं, हम इनका नाहीं देह विनाशीक है हमारा रूप अविनाशी है हमारे तो अज्ञान भावतै यामें ममता रही ताकरि अशुभ कर्मनिका बंध किया । अब ऐसा देहका संबन्धका नाशकूं वांछा करूं हूं देहका ममत्वतै ही अनन्त जन्म मरण भये हैं अर संसारके जितने दुःखनिके प्रकार हैं ते समस्त देहके संगमतै ही मेरे हैं राग द्वेष मोह काम क्रोधादिकनिका उत्पत्तिका कारण हू एक देहका सम्बन्ध ही है । ऐसै देहतै विरागताकूं प्राप्त होय समस्त व्रतनिकी दृढ़ता धारण करै । बहुरि कहा करै सो कहै हैं,—

शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा ।

सत्त्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्य श्रुतैरमृतैः ॥ १२६ ॥

अर्थ—संन्यासके अवसरमें शोक भय विषाद स्नेह कलुषपना अरति इत्यादिकनिकूं

छाँडि करिकेँ कायरपणाका अभाव करो अपना आत्मसत्त्वका प्रकाश करिकेँ अर श्रुतरूप अमृत-  
करि मन जो है ताहि प्रसन्न करै ।

भावार्थ—अनादिकालतैं ही पर्यायमें संसारीके आत्मबुद्धि लागि रही है अर पर्यायका  
नाशकूँ ही अपना नाश मानै है जव पर्यायका नाश होना अर धन परिग्रह स्त्री पुत्र मित्र  
वांधवादिक समस्त संयोगका वियोग होना दीखै है तव मिथ्यादृष्टिकेँ बड़ा शोक उपजै है  
सस्यगदृष्टीकेँ शोक नाहीं उपजै है ऐसा विचार करै है । जो हे आत्मन् ! पर्याय तो अनन्तानन्त  
ग्रहण होय होयकेँ छूटी हैं, यो देह रोगनिका उत्पत्तिका स्थान है अर नित्य ही क्षुधा तृषा  
शीत उष्ण भयादिक उपजावनेवाला हैं महाकृतघन है, अवश्य विनाशीक हैं, आत्माकेँ समस्त  
प्रकार दुःख क्लेशादि उपजावने वाला है, दुष्टके संगमंकी ज्यों त्यागने योग्य है समस्त दुःख-  
निका बीज है महा संताप उद्वेगका उपजावनेवाला है, सदा काल भयका उपजावनेवाला है,  
बंदीगृहसमान पराधीन करनेवाला है, जेती दुःखनिकी जाति हैं ते समस्त वाकेँ संगमतैं भोगिये  
है आत्मस्वरूपकूँ भुलावनेवाला है चाहकी दाहका उपजावनेवाला है, महामलीन है कृमिनिका  
समूहकरि भरया महादुर्गंधमय है, दुष्ट भ्राताकी ज्यों नित्य क्लेशनिके उपजावनेकूँ समर्थ अन-  
मारण शत्रु है, ऐसे देहका वियोग होनेका कहा शोक है ? यातैं ज्ञानी शोककूँ छाँडैं हैं, मरण-  
का भय नाहीं करै हैं विषाद स्नेह क्लुषपना तथा अरतिभाव कूँ त्यागकरि अर उत्साह साहस  
धैर्य प्रकट करके श्रुतज्ञानरूप अमृतका पानकरि मनकूँ तृप्ति करै हैं । अब इसही सूत्रका अर्थ  
की दृढ़ता करनेकूँ मृत्युमहोत्सवका पाठ अठारह श्लोकनिमें यहां उपकार जानि अर्थ सहित  
लिखिये है—

मृत्युमार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे ।

समाधि-बोधौ पाथेयं यावन्मुक्तिपुरी पुरः ॥

अर्थ—मृत्युके मार्गमें प्रवृत्तों जो मैं ताकूँ भगवान वीतराग जो है सो समाधि कहिये  
स्वरूपकी सावधानी अर बोध कहिये रत्नत्रयका लाम सो ही जो पर्याय कहिये परलोकके मार्गमें  
उपकारक वस्तु सो देहु, जितनेकमें मुक्तिपुरी प्रति जाय पहुंचूँ, या प्रार्थना करूँ हूँ ।

भावार्थ—मैं अनादिकालतैं अनन्त कुमारण किये, जिनकूँ सर्वज्ञ वीतराग ही जानै है,  
एक बार हू सम्यक् मरण नाहीं किया । जो सम्यक् मरण करता तो फिर संसारमें मरणका पात्र  
नाहीं होता । जातैं जहां देह मर जाय अर आत्माका सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव है सो  
विषय कषायनिकरि नाहीं घात्या जाय सो सम्यक् मरण है । अर मिथ्याश्रद्धानरूप हुआ देहका

नाशकूँ ही अपना आत्माका नाश जानना, संक्लेशतै मरण करना सो कुमरण हैं । सो मैं मिथ्यादर्शनका प्रभाव करि देहकूँ ही आपा मानि अपना ज्ञान दर्शनस्वरूपका घात करि अनन्त परिवर्तन किये । सो आप भगवान वीतरागसौँ ऐसी प्रार्थना करूँ हूँ जो मेरे मरणके समयमें वेदना मरण तथा आत्मज्ञान रहित मरण मत होहु क्योंकि सर्वज्ञ वीतराग जन्ममरणरहित भये है तातै मैं हूँ सर्वज्ञ वीतरागका शरणसहित संक्लेशरहित धर्मध्यानतै मरण चाहता वीतरागही का शरण ग्रहण करूँ हूँ । अब मैं अपने आत्माकूँ समझाऊँ हूँ—

**कृमिजालशताकीर्णै जर्जरे देहपंजरे ।**

**भज्यमाने न भेतव्यं यतस्त्वं ज्ञानविग्रहः ॥**

अर्थ—भो आत्मन् ! कृमिनिके सैकड़ां जालकरि भरया अर नित्य जर्जरा होता यो देहरूप पींजरा इसकूँ नष्ट होतै तुम भय मत करो, जातै तुम तो ज्ञानशरीर हो ।

भावार्थ—तुमारा रूप तो ज्ञान है जिसमें ये सकल पदार्थ उद्योतरूप हो रहे हैं अर अमूर्तीक ज्ञान ज्योतिःस्वरूप अखण्ड अविनाशी ज्ञाता दृष्टा है अर यह हाड़ मांस चमड़ा मय महादुर्गंध विनाशीक देह है सो तुमारा रूपतै अत्यंत भिन्न है कर्मके वशतै एक क्षेत्रमें अवगाहन करि एकसे होय तिष्ठै है तो हूँ तुमारै इनके अत्यंत भेद है । अर यो देह पृथ्वी जल अग्नि पवनके परमाणुनिका पिंड है सो अवसर पाय बिखर जायगा, तुम अविनाशी अखंड ज्ञायकरूप हो इसके नाश होनेतै भय कसै करो हो । अब और हूँ कहै हैं—

**ज्ञानिन् भयं भवेत्कस्मात्प्राप्ते मृत्युमहोत्सवे ।**

**स्वरूपस्थः पुरं याति देही देहान्तरस्थितिः ॥**

भावार्थ—भो ज्ञानिन् कहिये हो ज्ञानी ! तुमको वीतरागी सम्यग्ज्ञानी उपदेश करै है जो मृत्युरूप महान् उत्सवको प्राप्त होतै काहेतै भय करो हो, यो देही कहिये आत्मा सो अपने त्वरूपमें तिष्ठता अन्य देहमें स्थितिरूप पुरकूँ जाय है यामें भयका हेतु कहा है ।

भावार्थ—जैसे कोऊ एक जीर्णकुटीमेंतै निकसि अन्य नवीन महलकूँ प्राप्त होय सो तो बड़ा उत्सवका अवसर है तैसेँ यो आत्मा अपने स्वरूपमें तिष्ठता ही इस जीर्ण देहरूप कुटीकूँ छाँडि नवीन देहरूप महलको प्राप्त होतै महा उत्साहका अवसर है यामें कुछ हानि नहीं जो भय करिये अर जो अपने ज्ञायकस्वभावमें तिष्ठते परका अपना करि रहित परलोक जावोगे तो बड़ा आदर सहित दिव्य धातु उपधातु रहित वैक्रियिकदेहमें देव होय अनेक महद्विकनिमें पूज्य महान देव होवोगे । अर जो यहां भयादिक करि अपना ज्ञानस्वभावकूँ विगाड़ि परमें ममता धारि

मरोगे तो एकेन्द्रियादिकका देहमें अपने ज्ञानका नाश करि जड़ रूप होय तिष्ठोगे ऐसैं मलिन क्लेशसहित देहकूँ त्यागि क्लेशरहित उज्ज्वल देहमें जाना तो बड़ा उत्सवका कारण है ।

सुदत्तं प्राप्यते यस्मात् दृश्यते पूर्वसत्तमैः ।

भुज्यते स्वर्भवं सौख्यं मृत्युभीतिः कुतः सताम् ॥

अर्थ—पूर्वकालमें भए गणधरादि सत्पुरुष ऐसैं दिखावैं हैं जो जिस मृत्युतैं भले प्रकार दिया हुआका फल पाइये अर स्वर्गलोकका सुख भोगिये तातैं सत्पुरुषकै मृत्युका भय काहेतैं होय ।

भावार्थ—अपना कर्तव्यका फल तो मृत्यु भये ही पाइये है जो आप छहकायके जीवनि-कूँ अभयदान दिया अर रागद्वेष काम क्रोधादिकका घात करि असत्य अन्याय कुशील परधन-हरण का त्यागकरि परम सन्तोष धारणकरि अपने आत्माकूँ अभयदान दिया ताका फल स्वर्ग-लोक विना कहां भोगनेमें आवै ? सो स्वर्गलोकको तो मृत्यु नाम मित्रके प्रसादतैं ही पाइये तातैं मृत्युसमान इस जीवका कोऊ उपकारक नहीं । यहां मनुष्य पर्यायका जीर्ण देहमें कौन कौन दुःख भोगता, कितने काल तक रहता, आर्तध्यान रौद्रध्यानकरि तिर्यच नरकमें जाय परता, तातैं अथ मरणका भय अर देह कुटुम्ब परिग्रहका ममत्वकरि चिंतामणि कल्पवृक्ष समान समाधिभरणकूँ विगाड़ि भयसहित ममतावान हुआ कुमरण करि दुर्गति जावना उचित नहीं । और हू विचारै है—

आगर्भाद् दुःखसंतप्तः प्रक्षिप्तो देहपंजरे ।

नात्मा विमुच्यतेऽन्येन मृत्युभूमिपतिं विना ॥

अर्थ—यो हमारो कर्म नाम वैरी मेरा आत्माकूँ देहरूप पीजरामें छेप्या सो गर्भमें आया तिस क्षण में सदाकाल जुधा तृपा रोग वियोग इत्यादि अनेक दुखनिकरि तप्तायमान हुआ पड़्या हूँ । अथ ऐसे अनेक दुःखनिकरि व्याप्त इस देहरूप पीजरातैं मोकूँ मृत्यु नाम राजा विना कौन छुड़ावै ।

भावार्थ—इस देहरूप पीजरेमें कर्मरूप शत्रु करि पटक्या मैं इंद्रियानिके आधीन हुआ नाना प्रास सहूँ हूँ नित्य ही जुधा अर तृपाकी वेदना त्रास देवै है अर सासती स्वास उच्छ्वासकी पवनका खेंचना अर काढ़ना, अर नानाप्रकार रोगनिका भोगना, अर उदर भरनै वास्ते नाना पगधीनता अर सेवा कृपि वाणिज्यादिकनिकरि महा क्लेशित होय रहना, अर शीत उष्ण दुष्टनि-करि ताड़न मारन कुचन अपमान सहना कुटुम्बके आधीन होना, धनिककै राजाकै स्त्री पुत्रादिककै आधीन रहना, ऐमा महान वंदीगृह समान देहमेंतैं मरण नाम बलवान राजा विना कौन निकासै?

इस देहकूँ कहां ताई बहना जाकूँ नित्य उठावना जल पावना स्नान करावना निद्रा लिवावना कामादिक विषयनाशन करानना नाना वस्त्र आभरणादिककरि भूपित करावना रात्रि दिन इस देहकीका दागपना करता हूँ आत्माकूँ नाना प्राप्त देवै हैं भयभीत करै है ओपा भुलावै है ऐसा कृत्स्न देहकूँ निकसना मृत्यु नाम राजा विना नहीं होय जो ज्ञानसहित देहसौँ ममता छांडि साधनातैँ धर्मध्यानमहित संक्लेशरहित वीतरागतापूर्वक जो समाधिमृत्यु नाम राजाका सहाय ग्रहण करूँ तो फेरि मेरा आत्मा देह धारण ही नहीं करै दुःखनिका पात्र नहीं होय समाधिमरण नामा बड़ा न्यायमार्गी राजा है मोकूँ याहीका शरण होहु । मेरे अपमृत्युका नाश होहु । और हूँ कहै हैं—

सर्वदुःखप्रदं पिण्डं दूरीकृत्यात्मदर्शिभिः ।  
मृत्युमित्रप्रसादेन प्राप्यन्ते सुखसम्पदः ॥

अर्थ—आत्मदर्शी जे आत्मज्ञानी हैं ते मृत्युनाम मित्रका प्रसादकरि सर्व दुःखका देनेवाला देहपिंडकूँ दूर छांडिकरि सुखकी संपदाकूँ प्राप्त होय हैं ।

भावार्थ—जो इस सप्तधातुमय महा अशुचि विनाशीक देहकूँ छांडि दिव्य वैक्रियिक देहमें प्राप्त होय नाना सुख संपदाको प्राप्त होय है सो समस्त प्रभाव आत्मज्ञानीनिके समाधि-मरणका है । समाधिमरण समान इस जीवका उपकार करनेवाला कोऊ नहीं है इस देहमें नाना दुःख भोगना अरु महान रोगादि दुःख भोगि करि मरना फिर तिर्यच देहमें तथा नर्कमें असंख्यात अनंतकाल ताई असंख्य दुःख भोगना अरु जन्ममरणरूप अनन्त परिवर्तन करना तहां कोऊ शरण नहीं इस संसारमें परिभ्रमणसौँ रक्षा करनेकूँ कोऊ समर्थ नहीं । कदाचित् अशुभकर्मका मन्द उदयतैँ मनुष्यगति उच्चकुल इन्द्रियपूर्णता सत्पुरुषनिका संगम भगवान् जिनेन्द्रका परमा-गमका उपदेश पाया है अब जो श्रद्धान ज्ञान त्याग संयमसहित समस्त कुटुम्ब परिग्रहमें ममत्व-रहित देहकूँ भिन्न ज्ञान स्वभावरूप आत्माका अनुभवकरि भयरहित च्यार आराधना शरण सहित मरण हो जाय तो इस समान त्रैलोक्यमें तीन कालमें इस जीवका हित है नहीं जो संसार परिभ्रमणतैँ छूट जाना सो समाधिमरण नाम मित्रका प्रसाद है ।

मृत्युकल्पद्रुमे प्राप्ते येनात्मार्थो न साधितः  
निमग्नो जन्मजम्बाले स पश्चात् किं करिष्यति ॥

भावार्थ—जो जीव मृत्यु नाम कल्पवृक्षकूँ प्राप्त होतैँ हूँ अपना कल्याण नहीं सिद्ध किया सो जीव संसाररूप कर्दममें डूबा हुआ पाछैँ कहा करसी ।



भावार्थ—इस मनुष्य-जन्ममें मरणका संयोग है सो साक्षात् कल्पवृक्ष है जो वांछित लेना है सो लेहु जो ज्ञानसहित अपना निज स्वभाव ग्रहणकरि आराधनासहित मरण करो तो स्वर्गका महर्द्धिकपणा तथा इन्द्रपणा अहर्द्धिकपणा पाय पीछै तीर्थकर तथा चक्रीपणा होय निर्वाण पायो मरणसमान त्रैलोक्यमें दाता नहीं ऐसे दाताकूँ पायकरि भी जो विषयकी वांछाकषाय-सहित ही रहोगे तो विषयवांछाका फल तो नरक निगोद है । मरण नाम कल्पवृक्षकूँ विगाड़ोगे तो ज्ञानादि अक्षय निधानरहित भए संसार रूप कर्ममें डूब जाओगे । अर भो भव्य हो जो ये वंछाका मार्या हुवा खोटे नीच पुरुषनिका सेवन करो हो, अतिलोभी भए विषयनिके भोगनेकूँ धनके वास्तै हिंसा चोरी कुशील परिग्रहमें आसक्त भये निंद्य कर्म करो हो, अर वांछित पूर्ण हू नहीं होय, अर दुःखके मारे मरण करो हो, कुटुम्बादिकनिकूँ छांडि विदेशमें परिभ्रमण करो हो निंद्य आचरण करो हो अर निंद्यकर्म करिकै हू अवश्य मरण करो हो अर जो एक वार हू समता धारण करि त्याग-व्रतसहित मरण करो तो फेरि संसार-परिभ्रमणका अभोवकरि अविनाशी सुखकूँ प्राप्त हो जावो तातै ज्ञानसहित पंडितमरण करना ही उचित है ।

जीर्ण देहादिकं सर्वं नूतनं जायते यतः

स मृत्युः किं न मोदाय सतां सातोत्थितिर्यथा ॥

अर्थ—जिस मृत्युतै जीर्ण देहादिक-सर्व छूटि नवीन हो जाय सो मृत्यु सत्पुरुषनिके साताका उदयकी ज्यों हर्षके अर्थि नहीं होय कहा ? ज्ञानीनिके तो मृत्यु हर्षके अर्थि ही है ।

भावार्थ—यो मनुष्यनिको शरीर भोजन करावता नित्य ही समय समय जीर्ण होय है, देवनिका देह ज्यों जरा-रहित नहीं है, दिन-दिन बल घटै है, कांति अर रूप मलीन होय है, स्पर्श कठोर होय है, समस्त नसानिके हाडनिके बंधान शिथिल होय हैं, चाम ढीली होय, मांसादिकनिकूँ छांडि ज्वरलीरूप होय है, नेत्रनिकी उज्ज्वलता विगडै है कर्णनिमें श्रवण करनेकी शक्ति घटै है हस्त-पादादिकनिमें असमर्थता दिन दिन बधै है गमनशक्ति मंद होय है चलते बैठते उठते स्वास बधै है कफकी अधिकता होय है राग अनेक बधै हैं ऐसी जीर्ण देहका दुःख कहां तक भोगता अर कैसेँ देह का धींसणा कहांतक होता ?, मरण नाम दातार विना ऐसे निंद्य देहकूँ छुडाय नवीन देहमें वास कौन करावै ? जीर्ण देह है तिसमें बड़ा असाताका उदय भोगिये है सो मरण नाम उपकारी दाता विना ऐसी असाताकूँ दूर कौन करै ! अर जे सम्यज्ञानी हैं तिनकै तो मृत्यु होनेका बड़ा हर्ष है जो अब संयम व्रत त्याग शीलमें सावधान होय ऐसा यत्न कर जो फेरि ऐसे दुःखका भरधा देहको धारण नहीं होय, सम्यज्ञानी तो याहीकूँ महा साताका उदय मानै है ।

सुखं दुःखं सदा वेत्ति देहस्थश्च स्वयं व्रजेत् ।  
मृत्युभीतिस्तदा कस्य जायते परमार्थतः ॥

अर्थ—यो आत्मा देहमें तिष्ठतो हू सुखकूँ तथा दुःखकूँ सदाकाल जानै ही है अर परलोकप्रति हू स्वयं गमन तरै है तो परमार्थतँ मृत्युका भय कौनकै होय ?

भावार्थ—जो अज्ञानी बहिरात्मा है सो तो देहमें तिष्ठता हू मैं सुखी मैं दुखी मैं मरूँ हूँ मैं लुधावान मैं तृषावान मेरा नाश हुवा ऐसा मानै है । अर अंतरात्मा सम्यग्दृष्टि ऐसै मानै है—जो उपज्यो है सो मरैगा, पृथ्वी, जल अग्नि पवनमय पुद्गल परमाणुनिके पिंडरूप उपज्यो यो देह है सो विनशैगो, मैं ज्ञानमय अमूर्तीक आत्मा मेरा नाश कदाचित् नाहीं होय । ये लुधा तृषा-वात पित्त कफ रोग भय वेदना पुद्गलके हैं मैं इनका ज्ञाता हूँ, मैं यामें अहंकार वृथा करूँ हूँ, इस शरीर के अर मेरे एक क्षेत्रमें तिष्ठनेरूप अवगाह है तथापि मेरा रूप ज्ञाता है अर शरीर जड़ है, मैं अमूर्तीक, देह मूर्तीक, मैं अखंड एक हूँ, शरीर अनेक परमाणुनिका पिंड है, मैं अविनाशी हूँ देह विनाशीक है अब इस देहमें जो रोग तथा तृषादि उपजै तिसका ज्ञाता ही रहना । मेरा भी ज्ञायक-स्वभाव है परमें ममत्व करना सो ही अज्ञान है मिथ्यात्व है अर जैसेँ एक मकानको छाँड़ि अन्य मकानमें प्रवेश करै तैसेँ मेरे शुभ अशुभ भावनिकरि उपजाया कर्मकरि रच्या अन्य देहमें मेरा जाना है इसमें मेरा स्वरूपका नाश नाहीं, अब निश्चय करि विचारतँ मरणका भय कौनके होय ?

संसारसक्त्तित्तानां मृत्युभीत्यै भवेन्नृणाम् ।  
मोदायते पुनः सोऽपि ज्ञानवैराग्यवासिनाम् ॥

अर्थ—संसारमें जिसका चित्त आसक्त है अपना रूपकूँ जे जानै नाहीं, तिनकै मृत्यु होना भयके अर्थि है । अर जे निजस्वरूपके ज्ञाता हैं अर संसारतँ विरागी हैं, तिनकै तो मृत्यु है सो हर्षके अर्थि ही है ।

भावार्थ—मिथ्यादर्शनके उदयतँ जे आत्मज्ञानकरि रहित देहहीकूँ आपा माननेवाले अर खावन्त पीवना कामभोगादिक इंद्रियनिकूँ ही सुख माननेवाले बहिरात्मा तिनके तो अपना मरण होना बड़ा भयके अर्थि है जो हाय मेरा नाश भया फेरि खावना पीवना कहां नाहीं है, नाहीं जानिये मरे पीछे कहा होयगा कैसेँ मरूँगा, अब यह देखना मिलना कुटुम्बका समागम सब मेरे गया अब कौनका शरण ग्रहण करूँ, कैसेँ जीऊँ, ऐसै महा संक्लेशकरि मरै है । अर जे आत्मज्ञानी हैं तिनके मृत्यु आए ऐसा विचार उपजै है जो मैं देहरूप बंदीगृहमें पराधीन पडया हुआ इंद्रियनिके

विषयनिकी चाहनाकी दाहकरि अर मिले विषयनिकी अतृप्तिताकरि अर नित्य ही लुधा तृषा शीत रोगनिकरि उपजी महावेदना तिनकरि एकक्षण हू थिरता नाही पाई, महान दुःख पराधीनता अपमान घोर वेदना अनिष्टसंयोग इष्टवियोग भोगता ही संक्लेशतैं काल व्यतीत किया । अब ऐसैं क्लेश छुड़ाय पराधीनतारहित मेरा अनन्त सुख स्वरूप जन्म-मरणरहित अविनाशी स्थानकूँ प्राप्त करनेवाला यह मरणका अवसर पाया है यो मरण महासुखको देनेवालो अत्यंत उपकारक है अर यो संसारवास केवल दुःखरूप है यामें एक समाधिमरण ही शरण है और कहुँ ठिकाना नाही है इस विना च्यारों गतिनिमें महा त्रास भोगी है । अब संसारवासतैं अति विरक्त में समाधिमरणका शरण ग्रहण करूँ ।

**पुराधीशो यदा याति स्वकृतस्य बुभुत्सया ।  
तदासौ वार्यते केन प्रपञ्चैः पञ्चभौतिकैः ॥**

अर्थ—जिस कालमें यो आत्मा अपना क्रियाका भोगनेकी इच्छाकरि परलोककूँ जाय है तदि पंचभूत संबंधी देहादिक प्रपंचनिकरि याकूँ कौन रोकै ।

भावार्थ—इस जीवका वर्तमान आयु पूर्ण हो जाय अर जो अन्य परलोकसंबंधी आयु-कायादिक उदय आ जाय तदि परलोककूँ गमन करते आत्माकूँ शरीरादिक पंचभूत कोऊ रोकने समर्थ नाही हैं तातैं बहुत उत्साहसहित चार आराधनाका शरण ग्रहणकरि मरण करना श्रेष्ठ है ।

**मृत्युकाले सतां दुःखं यद्भवेदव्याधिसंभवम् ।  
देहमोहविनाशाय मन्ये शिवसुखाय च ॥**

अर्थ—मृत्यु अवसर विषैं जो पूर्वकर्मका उदयतै रोगादिक व्याधिकरि दुःख उत्पन्न होय है सो सत्पुरुषनिके देहकेविषैं मोहका नाशके अर्थि है अर निर्वाणका सुखके अर्थि है ।

भावार्थ—यो जीव जन्म लीयो तिस दिनतैं देहसौँ तन्मय हुवा वसनेकूँ ही बड़ा सुख मानै है या देहकूँ अपना निवास जानै है यासूँ ममता लग रही है यामें वसने सिवाय अपना कह ठिकाना नाही देखै है अब ऐसा देहमें जो रोगादिकरि दुःख उपजै है जब सत्पुरुषनिकै यासूँ मोह नष्ट हो जाय है अर साक्षात् दुःखदाई अथिर विनाशीक दीखै है अर देहका कृतघ्नपना प्रकट दीखै है तदि अविनाशी पदके अर्थि उद्यमी होय है चीतरागता प्रकट होय है तदि ऐसा विचार उपजै है जो इस देहकी ममताकरि में अनन्तकाल जन्म मरण नाना वियोग रोग संन्यापादिक नरकादिक गतिनिमें दुःख भोगे अब भी ऐसे दुःखदाई देहमें ही फेरि हू ममत्व करि

आपको भूलि एकेन्द्रियादि अनेक कुयोनिमें भ्रमणका कारण कर्म उपार्जन करनेकूँ ममता करूँ हूँ जो अब इस शरीरमें ज्वर काश श्वास शूल वात पित्त अतीसार मंदाग्नि इत्यादिक रोग उपजै हैं सो इस देहमें ममत्व घटावनेके अर्थि बड़ा उपकार करै हैं धर्ममें सावधानता करावै हैं । जो रोगादिक नाही उपजता-तो मेरी ममता हू देहतै नाही घटती, अर मद हू नाही घटता । मैं तो मोहकी अंधेरी करि आंधा हुवा देहकूँ अजर अमर मान रहा था सो अब यो रोगनिकी उत्पत्ति मोकूँ चेत कराया, अब इस देहकूँ अशरण जानि ज्ञान दर्शन चारित्र तपहीकूँ एक निश्चय शरण जानि आराधनाका धारक भगवान् परमेष्ठीकूँ चित्त में धारण करूँ हूँ । अब इस अवसरमें हमारे एक जिनेन्द्रका वचन रूप अमृत ही परम औषधि होहू, जिनेन्द्रका वचनामृत विना विषय कषायरूप रोगजनित दाहके मेटनेकूँ कोऊ समर्थ नाही । बाह्य औषधादिक तो असाता कर्मके मंद होते किंचित् काल कोऊ एक रोगकूँ उपशम करै, अर यो देह अनेक रोगनिकरि भर्या हुवा है अर कदाचित् एक रोग मिट्या तो अन्य रोगजनित घोर वेदना भोगि फेरि हू मरण करना ही पड़ेगा तातै जन्मजरामरणरूप रोगकूँ हरनेवाला भगवानका उपदेशरूप अमृत-हीका पान करूँ, अर औषधादिक हजार उपाय करते हू विनाशीक देहमें रोग नाही मिटैगा तातै रोगतै आर्ति उपजाय कुग्तिका कारण दुर्घ्यान करना उचित नाही । रोग आवते हू बड़ा ही मानो जो रोगहीके प्रभावतै ऐसा जीर्ण गल्या हुवा देहतै मेरा छूटना होयगा । रोग नाही आवे तो पूर्व कृत कर्म नाही निर्जरै अर देहरूप महा दुःखदाई बन्दीगृहतै मेरा शीघ्र छूटना हू नाही होय है अर यो रोगरूप मित्रको सहाय ज्यों-ज्यों देहमें बधै है त्यों त्यों मेरा रागबंधनतै अर कर्मबंधनतै छूटना होय है अर यो रोग तो देहमें है इस देहकूँ नष्ट करैगा मैं तो अमूर्तीक चैतन्यस्वभाव अविनाशी हूँ ज्ञाता हूँ अर जो यो रोगजनित दुःख मेरे जाननेमें आवै सो मैं तो जाननेवाला ही हूँ याकी लार मेरा नाश नाही । जैसे लोहेका सङ्गतिमें अग्नि हू घणनिका घात सहै है तैसे शरीरकी संगतितै वेदनाका जानना मेरे हू है अग्नितै भूँपड़ी बलै है भूँपड़ीके माहि आकाश नाही बलै है । तैसे अविनाशी अमूर्तीक चैतन्य धातुमय आत्मा ताका रोगरूप अग्निकरि नाश नाही अर अपना उपजाया कर्म आपकूँ भोगना ही पड़ेगा कायर होय भोगूंगा तो कर्म नाही छाँड़ेगा अर धैर्य धारण करि भोगूंगा तो कर्म नाही छाँड़ेगा तातै दोऊ लोकका विगाडनेवाला कायरपनाकूँ धिक्कार होहु । कर्मका नाश करनेवाला धैर्य ही धारण करना श्रेष्ठ है । अर हे आत्मन् ! तुम रोग आये एते कायर होओ हो सो विचार करो नरकनिमें यो जीव कौन कौन त्रास नाही भोगी ? असंख्यात-वार अनंतवार मारे विदारे चीरे फाड़े गये हो, इहां तो तुमारे कहा दुःख है ? अर तिर्यचगतिके घोर दुःख भगवान् केवलज्ञानी हू वचनद्वारकरि कहनेकूँ समर्थ नाही, अर मैं तिर्यच पर्यायमें पूर्व अनन्त-

वार अग्निमें बलि बलि मरधा हूं, अनंतवार जलमें डूबि डूबि मरा हूं, अनन्तवार विष भक्षण कर मरा हू, अनन्तवार सिंह व्याघ्र सर्पादिकनिकरि विदारधा गया हूं शस्त्रनिकरि छेधा गया हूं अनंतवार शीतवेदनाकरि मरा हू अनंतवार उष्णवेदनाकरि मरया हू अनंत बार लुधाकी वेदनाकरि मरा हूं अनंतवार तृषाकी वेदना करि मरा हूं । अब ये रोगजनित वेदना केतीक है रोग ही मेरा उपकार करै है रोग नहीं उपजता तो देहतै मेरा स्नेह नहीं घटता, अर समस्ततै छूटि परमात्माका शरण नहीं ग्रहण करता, तातै इस अवसरमें जो रोग है सोहू मेरा आराधना मरणमें प्रेरणा करनेवाला मित्र है ऐसै विचारता ज्ञानी रोग आये क्लेश नहीं करै है मोहके नाश करनेका उत्सव ही मानै है ।

ज्ञानिनोऽमृतसंगाय मृत्युस्तापकरोऽपि सन् ।

आमकुम्भस्य लोकेऽस्मिन् भवेत्पाकविधिर्यथा ॥

अर्थ—यद्यपि इसलोकमें मृत्यु है सो जगतके आताप करने वाली है तो हू सम्यग्ज्ञानी के अमृतसंग जो निर्वाण ताके अर्थि है जैसे काचा घड़ाकूं अग्निमें पकावना है सो अमृतरूप जलके धारणके अर्थि है । जो काचा घड़ा अग्निमें नहीं पकै तो घड़ामें जल धारण नहीं होय है अग्निमें एकवार पकि जाय तो बहुत काल जलका संसगकूं प्राप्त होय तैसै मृत्युका अवसरमें आताप समभावनिकरि एकवार सहि जाय तो निर्वाणकौ पात्र हो जाय ।

भावार्थ—अज्ञानीके मृत्युका नामतै भी परिणामतै आताप उपजै जो मैं अब चाल्या, अब कैसे जीऊं, कहा करूं, कौन रक्षा करै ऐसै संतापको प्राप्त होय है क्योंकि अज्ञानी तो बहिरात्मा है देहादिकका बाह्य वस्तुकूं ही आत्मा मानै है अर ज्ञानी जो सम्यग्दृष्टि है सो ऐसा मानै है जो आयुकर्मादिकका निमित्ततै देहका धारण है सो अपनी स्थिति पूर्ण भये अवश्य विनशैगा मैं, आत्मा अविनाशी ज्ञानस्वरूप हूं, जीर्ण देह छांड़ि नवीनमें प्रवेश करते मेरा कुछ विनाश नहीं है ।

यत्फलं प्राप्यते सद्भिर्ब्रतायासविडम्बनात् ।

तत्फलं सुखसाध्यं स्यान्मृत्युकाले समाधिना ॥

अर्थ—यहां मत्पुरुष है ते व्रतनिका बड़ा खेदकरि जिस फलकूं प्राप्त होइये सो फल मृत्यु अवसरमें धीरे काल शुभध्यानरूप समाधिमरणकरि सुखतै साधने योग्य होय है ।

भावार्थ—जो स्वर्गमें इन्द्रादिक पद वा परंपराय निर्वाणपद पंच महाव्रतादिकरि वा तपश्चरणादिकरि मिष्ट करिये है सो पद मृत्युका अवसरमें जो देह कुटुम्बादिसूं ममता

छांडि भयरहित हुवा वीतरागता सहित ज्यारि आराधनाका शरण ग्रहणकरि कायरता छांडि अपना क्षायिक स्वभावकूँ अवलंबनकरि मरण करै तो सहज सिद्ध होय, तथा स्वर्गलोकमें महद्विक देव होय, तहांतै आय बड़ा कुलमें उपजि उत्तम संहननादि सामग्री पाय दीक्षा धारण करि अपने रत्नत्रयकी पूर्णताकूँ प्राप्त होय - निर्वाण जाय है ।

**अनार्तः शांतिमान्मर्त्यो न तिर्यग् नापि नारकः ।**

**धर्मध्यानी पुरो मर्त्योऽनशनत्वमरेश्वरः ॥**

अर्थ—जाके मरणका अवसरमें आर्त्त जो दुःखरूप परिणाम नहीं होय अर शांतिमान कहिये रागरहित द्वेषरहित समभावरूप चित्त होय सो पुरुष तिर्यच नहीं होय, अर नारकी भी नहीं होय, अर जो धर्मध्यान सहित अनशनव्रत धारण करके मरै सो तो स्वर्गलोकमें इन्द्र होय, तथा महद्विकदेव होय, अन्य पर्याय नहीं पावै ऐसा नियम है ।

भावार्थ—जो उत्तम मरणका अवसर पाय करिके आराधना सहित मरणमें यत्न करो अर मरण आवतै भयभीत होय परिग्रहमें समत्व धारि आर्त्त परिणामनिर्षो मरणकरि कुमतिमें मत जावो । यो अवसर अनंत भवनिमें नहीं मिलैगा अर मरण छांडैगा नहीं, तातै सावधान होय धर्मध्यानसहित धैर्य धारण करि देहका त्याग करो ।

**तप्तस्य तपसश्चापि पालितस्य व्रतस्य च ।**

**पठितस्य श्रुतस्यापि फलं मृत्युः समाधिना ॥**

अर्थ—तपका भोगनेका अर व्रतनिके पालनेका अर श्रुतके पढनेका फल तो समाधि जो अपने आत्माकी सावधानी सहित मरण करना है ।

भावार्थ—हे आत्मन् ! जो तुम इतने काल इन्द्रियनिके विषयनिमें वाञ्छारहित होय अनशनादि तप किया है सो अनंतकालमें आहारादिकनिका त्यागसहित संयम-सहित देहका समतारहित समाधिमरणके अर्थ किया है । अर जो अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य परिग्रहत्यागादि व्रत धारण किये हैं सो हू समस्त देहादिक परिग्रहमें समताका त्यागकरि समस्त मनवचनकायतै आरंभादिककूँ त्यागकरि समस्त शत्रु मित्रनिमें वैर राग छांडि करि उपसर्गमें धीरज धारण करि अपना एक ज्ञायकस्वभाव अवलंबनकरि समाधिमरण करनेके अर्थ किये हैं । अर जो समस्त श्रुतज्ञानका पठन किया है सो हू संक्लेशरहित धर्मध्यानसहित होय देहादिकनितै भिन्न आपकूँ जानि भयरहित समाधिमरणके निमित्त ही विद्याका आराधनाकरि काल व्यतीत किया है । अर मरणका अवसर में हू समता भय द्वेष कायरता दीनता नहीं छांडोगे तो इतने काल तप कीने

व्रत पाले श्रुतका अध्ययन किया सो समस्त निरर्थक होंगे ताँ इस मरणके अवसरमें कदाचित् सावधानी मत बिगाड़ो ।

अतिपरिचितेष्ववज्ञा नवे भवेत्प्रीतिरिति हि जनवादः ।  
चिरतरशरीरनाशे नवतरलाभे च किं भीरुः ॥

अर्थ—लोकनिका ऐसा कहना है जो जिस वस्तुका अतिपरिचय अतिसेवन होजाय तिसमें अवज्ञा अनादर होजाय है रुचि घटि जाय है, अर नवीनका संगममें प्रीति होय है यह बात प्रसिद्ध है । अर हे जीव, तू इस शरीरको चिरकालसे सेवन किया, अब याका नाश होत भय कैसेँ करो हो, भय करना उचित नाहीं ।

भावार्थ—जिस शरीरकूँ बहुत काल भोगि जीर्ण कर दीना सार-रहित बल-रहित होगया अर नवीन उज्ज्वल देह धारण करने का अवसर आया, अब भय कैसेँ करो हो ? यो जीर्ण देह तो विनसैहीगो, इसमें ममता धारि मरण बिगाड़ि दुर्गतिका कारण कर्मबंध मत करो ।

शादूँलविक्रीडितम्—

स्वर्गादेत्य पवित्रनिर्मलकुले संस्मर्यमाणा जनै-  
र्दत्त्वा भक्तिविधायिनां बहुविधं वाञ्छानुरूपं धनम् ।  
भुक्त्वा भोगमहर्निशं परकृतं स्थित्वा क्षणं मंडले,  
पात्रावेशविसर्जनामिव मतिं सन्तो लभन्ते स्वतः ॥

अर्थ—ऐसेँ जो भयरहित होय समाधिमरणमें उत्साह-सहित चार आराधनानिको आराधि मरण करै है ताके स्वर्गलोक विना अन्य गति नाहीं होय है स्वर्गनिमें महद्विक देव ही होय है ऐसा निश्चय है । बहुरि स्वर्गमें आयुका अन्तपर्यन्त महासुख भोगि करिकै इस मनुष्यलोक-विषै पुण्यरूप्य निर्मल कुलमें अनेक लोकनिकारि चिंतवन करते करते जन्म लेय अपने सेवकजन तथा कुटुम्ब परिवार मित्रादि जननिकूँ नानाप्रकारके वाञ्छित धन भोगादिरूप फल देय अर पुण्य-करि उपजे भोगनिकूँ निरंतर भोगि आयुप्रमाण थोड़े काल पृथ्वीमंडलमें संयमादिसहित वीत-रागरूप भये तिष्ठ करकै जैसेँ नृत्यके अखाड़ेमें नृत्य करनेवाला पुरुष लोकनिके आनन्द उपजाय निकल जाय है तैसेँ वह सत्पुरुष सकल लोकनिके आनन्द उपजाय स्वयमेव देह त्यागि निर्वाणकूँ प्राप्त होय है ॥ १८ ॥

दोहा ।

मृत्युमहोत्सव वचनिका, लिखी सदासुख काम ।

शुभ आराधनमरण करि, पाऊं निज सुखधाम ॥ १ ॥

उगणीसै ठारा शुकल, पंचमि मास असाढ़ ।

पूरन लिखि वांचो सदा, मन धरि सम्यक गाढ़ ॥ २ ॥

ऐसें सल्लेखनाका वर्णनमें उपकारक जानि मृत्युमहोत्सव यामें लिखा है । यद्यपि याकी वचनिका संवत् (१९१८) उगणीससै अठारामें लिखी थी सो अब इहां सल्लेखनाके कथनकै शामिल हुवा विना और विशेष लिख्यौं ही सबक होय यातैं तयार कथनी लिख दीनी । अब इहां सल्लेखना दोय प्रकार है एक कायसल्लेखना एक कषायसल्लेखना । इहां सल्लेखना नाम सम्यक् प्रकारकरि कृश करनेका है तहां जो देहका कृश करना सो तो कायसल्लेखना है क्योंकि इस कायकूं ज्यों पुष्ट करो सुखिया राखो त्यो इंद्रियनिके विषयांकी तीव्र लालसा उपजावै है, आत्मविशुद्धताकूं नष्ट करै है, काम लोभादिककी वृद्धि करै है, निद्रा प्रमाद आलस्यादिक वधावै है परीषह सहनेमें असमर्थ होय है त्याग संयमकै सन्मुख नाहीं होय है, आत्माकूं दुर्गतिमें गमन करावै है वात पित्त कफादि अनेक रोगनिकूं उपजाय महा दुर्ध्यान कराय संसारपरिभ्रमण करावै है यातैं अनशनादि तपश्चरण करि इस शरीरकूं कृश करना । रोगादिक वेदना नाहीं उपजै परिणाम अचेतन नाहीं होय यातैं प्रथम कायसल्लेखना करनेका सूत्र कहैं हैं—

आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्द्धयेत्पानम् ।

स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत्क्रमशः ॥१२७॥

खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या ।

पञ्चनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत्सर्वयत्नेन ॥१२८॥

अर्थ—कायसल्लेखना करै सो अनुक्रमतैं करै अपना आयुका अवसर दीखै तिस प्रमाण देहसूं इंद्रियांस्यूं ममत्वरहित हुवा आहारके आस्वादनतैं विरक्त होय विचार करै जो हे आत्मन् ! संसार परिभ्रमण करता तू एता आहार किया जो एक एक जन्मका एक एक कणकूं एकठा करिये तो अनंत सुमेरु-प्रमाण होजाय, अर अनन्त जन्मनिमें एता जल पिया जो एक एक जन्मकी एक एक बूंद ग्रहण करिये तो अनन्त समुद्र भरि जाय । एते आहार जलसूं ही तृप्ति नाहीं भया तो अब रोग जरादिककरि प्रत्यक्ष मरण नजीक आया अब इस अवसरमें किंचित् आहारतैं तृप्ति कैसें होयगी ? अर इस पर्यायमें भी जन्म लिया तो दिनतैं नित्य आहार ही ग्रहण



किया अर आहारका लोभी होयके ही घोर आरंभ किया, अर आहारहीका लोभतैं हिंसा असत्य परधन-लालसा अन्न अर परिग्रहका बहुत संगमकरि अर दुर्घ्यानादिककरि कुकर्म उपार्जन किये, आहार की गृद्धतातैं ही दीनवृत्ति करि पराधीन भया अर आहारका लोभी होय भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नाहीं किया रात्रिका दिनका योग्यका अयोग्यका विचार नाहीं किया, आहारका लोभी होय क्रोध अभिमान मायाचार लोभ याचनाकूं प्राप्त हुवा, आहार की चाहकरि अपना बड़ापन अभिमान नष्ट किया, आहारका लोभी होय अनेक रोगनिका घोर दुःख सखा, आहारका लोभी होय करिकैं ही नीच जाति नीच कुलीनिकी सेवा करी, आहारका लोभी होय स्त्री के आधीन होय रखा, पुत्रके आधीन होय रखा, आहारका लंपटी निर्लज्ज होय है आचार-विचाररहित होय है, आहारका लंपटी कटि कटि मरै है दुर्वचन सहै है, आहार के अर्थि ही तिर्यचगतिमें परस्पर मरै हैं भक्षण करै है । बहुत कहनेकरि कहा, अब अल्पकाल इस पर्यायमें हमारे बाकी रखा है तातैं रसनमें गृद्धिता छांडि अर रसनाइन्द्रियकी लालसा छांडि आहारका त्याग करनेमें उद्यमी नाहीं होऊंगा तो व्रत संयम धर्म यश परलोक इनकूं विगाड़ि कुमरणकरि संसारमें परिभ्रमण करूंगा, अर ऐसा निश्चय करकैं ही अतृप्तताका करनेवाला आहारका त्यागके अर्थि कोऊ काल में उपवास, कदे बेला, कदे तेला, कदे एक बार आहार करना, कदे नीरस आहार अल्प आहार इत्यादिक क्रमतैं अपनी शक्ति-प्रमाण अर आयुकी स्थिति प्रमाण आहारकूं घटाय अर दुग्धादिकहीकूं पीवै । बहुरि क्रमतैं दुग्धादिक सचिककणका हू त्यागकरि छांछि वा तप्त जलादिक ही ग्रहण करै, पाछै क्रमतैं जलादिक समस्त आहारका त्यागकरि अपनी शक्तिप्रमाण उपवास करता पंच नमस्कारमें मनकूं लीनकरि धर्मध्यानरूप हुआ बड़ा यत्नतैं देहकूं त्यागै सो सल्लेखना जाननी । ऐसैं कायसल्लेखना वर्णन करी ।

अब इहां कोऊ प्रश्न करे या आहारादिक त्यागकरि मरण करना सो आत्मघात है, आत्मघात करना अयोग्य कखा है ताकूं उत्तर कहैं हैं—

जाकैं बहुत काल सुख करिकैं मुनिपना व श्रावकपना तथा महाव्रत अणुव्रत पलता दाखै, अर स्वाध्याय ध्यान दान शील तप व्रत उपवासादि पलता होय, तथा जिनपूजन स्वाध्याय धर्मोपदेश धर्मश्रवण चार आराधनाका सेवन आछी तरह निर्विघ्न सधता होय, अर दुर्भिक्षादिकनिका भय हू नाहीं आया होय, असाध्य रोग शरीरमें नाहीं आया होय, तथा स्मरणने ज्ञानने नष्ट करने वाली जरा हू नाहीं प्राप्त भई होय, अर दशलक्षण रत्नत्रयधर्म देहसू पलता होय, ताकूं आहार त्यागि संन्यास करना योग्य नाहीं । धर्म सधता हू आहार त्यागि मरण करै है सो धर्मतैं पराङ्मुख भया त्याग व्रत शील संयमादिकरि मोक्षका साधक उत्तम मनुष्य पर्यायतैं विरक्त हुआ

अपनी दीर्घ आयु होते हूँ अरु धर्म सेवन वनते हूँ आहारादिकका त्याग करूँ सो आत्मघाती होय है । जातै धर्मसंयुक्त शरीरकी बड़ी यत्नतै रक्षा करना ऐसी भगवान्की आज्ञा है । अरु धर्मके सेवनेका सहकारी ऐसा देहकूँ आहार त्यागकरि छाँडि देगा तदि कहा देव नारकी तिर्यचनिका देह संयमरहित तिनतै व्रत, तप संयम सधैगा ? रत्नत्रयका साधक तो मनुष्यदेह ही है, अरु धर्मका साधक मनुष्यदेहकूँ आहारादिक त्यागकरि छाँडै है ताकै कहा कार्य सिद्ध होय है ? इस देहकूँ त्यागनेतै हमारा कहा प्रयोजन सधैगा, नवीन देह व्रतधर्मरहित और धारण करेगा । परन्तु अनन्तानन्त देह धारण करावनेका बीज जो कार्माण्देह कर्ममय है ताकूँ मिथ्यात्व असंयम कषायादिकका परिहार करि मारो, आहारादिकका त्यागतै तो औदारिक हाड मांसमय शरीर मरि नवीन अन्य उपजैगा । अष्टकर्ममय कार्माण्देह मरैगा तदि जन्म मरणतै छूटोगे । यातै कर्ममय देहके मारनेकूँ इस मनुष्य-शरीरकूँ त्याग व्रत संयममें दृढ़ता धारणकरि आत्मा का कल्याण करो । अरु जब धर्म रहता नाहीं दीखै तब ममत्व छाँडि अवश्य विनाशीककूँ त्यागनेमें ममता नाहीं धरना ।

अब जैसे कायका तपश्चरणकरि कृश करना तैसे रागद्वेषमोहादिक कषायका हूँ साथ ही कृशपना करना सो कषायसल्लेखना है । कषायनिकी सल्लेखना विना कायसल्लेखना वृथा है । कायका कृशपना तो रोगी दरिद्री पराधीनतातै मिथ्यादृष्टिक हूँ होय है । जो देहके साथिराग द्वेष मोहादिकनिकूँ कृश करि इसलोक परलोक सम्बन्धी समस्त वांछाका अभावकरि देहके मरणमें कुटुम्ब परिग्रहादिक समस्त परद्रव्यनितै ममता छाँडि परम वीतरागतातै संयमसहित मरण करना सो कषायसल्लेखना है । इहाँ ऐसा विशेष जानना जो विषय-कषायनिका जीतनेवाला होयगा तिसही कै समाधिमरणकी योग्यता है, विषयनिके आधीन अरु कषाययुक्तके समाधिमरण नाहीं होय है । संसारी जीवनिकै ये विषय कषाय बड़े प्रबल हैं बड़े-बड़े सामर्थ्यधारीनिकरि नाहीं जीते जाय हैं । अरु बड़े बल के धारक चन्नी, नारायण, बलभद्रादिकनिकूँ अष्ट करि आपके आधीन किये तातै अति प्रबल हैं । संसारमें जेते दुःख हैं तितने विषयके लम्पटी अभिमानी तथा लोभीकै होय है । केते जीव जिनदीक्षा धारण करकै हूँ विषयनिकी आतापतै अष्ट होय हैं, अभिमान लोभ नाहीं छाँडि सकै हैं, अनादिकालतै विषयनिकी लालसाकरि लिप्त अरु कषायनिकरि प्रज्वलित संसारी आपा भूलि स्वरूपतै अष्ट होय रहे हैं यातै विषय कषायनितै वीतरागताका कारण श्रीभगवतीआराधनाजीमें विषय कषायनिका स्वरूप विस्तार सहित परम निर्ग्रथ श्रीशिवायन नाम आचार्यने प्रकट दिखाया है सो वीतरागका इच्छुक पुरुषनिकूँ ऐसा परम उपकार करनेवाला ग्रन्थका निरन्तर अभ्यास करना । समाधिमरणका अवसरमें जीवका कल्याण करनेवाला उपदेशरूप अमृतकूँ

सहस्रधाररूप होय वर्षा करता भगवती आराधना नाम ग्रन्थ है ताका शरण अवश्य ग्रहण करने योग्य है याहीतैं इहां ऐसा आराधना मरणका कथन अवसर पाय भगवतीका अर्थका लेश लेय लिखिये है । यहां ऐसा विशेष जानना जो साधु मुनीश्वरनिके तो रत्नत्रयधर्मकी रक्षा करनेका सहायी आचार्यदिकनिका संघ तथा वैयावृत्य करनेवाले धर्मके उपदेश देनेवाले निर्यापकनिका बड़ा सहाय है तदि कर्मनिका विजयकरि आराधनाकूं प्राप्त होय है याहीतैं गृहस्थीनिकूं हू धर्मवृद्ध श्रद्धानी ज्ञानी ऐसे साधर्मनिका समागम अवश्य मिलाया चाहिये । परन्तु यो पंचमकाल अति विषम है यातैं विषयानुरागीनिका तथा कषायीनिका संगम सुलभ है, तथा रागद्वेष शोक भयका उपजावनेवाला आर्तध्यानका बधावनेवाला असंयममें प्रवृत्ति करावनेवालेनिका ही संगम बनि रह्या है जातैं स्त्री-पुत्र मित्र बांधवादिक समस्त अपने राग-द्वेष विषय-कषायनिमें लगाय आपा भुलावनेवाले हैं समस्त अपना विषय कषाय पुष्ट करनेका इच्छुक हैं धर्मानुरागी धर्मात्मा परोपकारी वात्सल्यताका धारी करुणारसकरि भीजेनिका संगम महा-उज्ज्वल पुण्यके उदयतैं मिलै है, तथा अपना पुरुषार्थतैं उत्तम पुरुषनिका उपदेशका संगम मिलावना अर स्नेह मोहकी पासीनिमें उलझावने धर्मरहित स्त्री-पुरुषनिका संगमका दूरहीतैं परित्याग करना, अर अवशतैं कुसंगी आजाय तो तिनसौ वचनालापका त्यागकरि मौनी होय रहना, अर अपना कर्मके आधीन देश कालके योग्य जो स्थान होय तीमें शयन आसन करना, अर जिनसूत्रनिका परम शरण ग्रहण करना, जिनसिद्धांतका उपदेश धर्मात्मानितैं श्रवण करना, त्याग संयम शुभध्यान भावनाकूं विस्मरण नाहीं होना, अर धर्मात्मा साधर्मि हू अपने अर परके धर्मकी पुष्टता चाहता अर धर्मकी प्रभावना वांछता धर्मोपदेशादिरूप वैयावृत्यमें आलसी नाहीं होय । त्याग, व्रत, संयम, शुभध्यान शुभभावनामें ही आराधक साधर्मिकूं लीन करै । अर कोऊ आराधक ज्ञानसहित हू कर्मकै तीव्र उदयतैं तीव्र रोगादिक क्षुधा तृषादिक परीषहनिके सहनेमें असमर्थ होय व्रतनिका प्रतिज्ञात चलि जाय तथा अयोग्य वचनहू कहने लागि जाय, तथा रुदनादिकरूप विलापरूप आर्तपरिणामरूप हो जाय, तो साधर्मि बुद्धिमान पुरुष ताका तिरस्कार नाहीं करै, कटुवचन नाहीं कहै, कठोर वचन नाहीं कहै । जातैं वेदनाकरि दुःखित होय अर पाछैं तिरस्कारका अवज्ञाका वचन सुनै तदि मानसीक दुःखतैं दुःखीनिकूं प्राप्त होय चलायमान हो जाय, विपरीत आचारण करै, तथा आत्मघात करै, तातैं आराधकका तिरस्कार करना योग्य नाहीं । उपदेशदाता है सो महान् धीरता धारण करि आराधककूं स्नेह भरा वचन कहै, मिष्ट वचन कहै, हृदयमें प्रवेश करि जाय, श्रवण करते ही समस्त दुःख विस्मरण हो जाय, करुणारसतैं उपकारबुद्धितैं भरा वचन कहै । हो धर्मके इच्छुक ! अब सावधान होहु, पूर्वकर्मके उदयतैं रोग वेदनां तथा महा व्याधि उपजी है तथा परीषहनिका

संताप उपज्या है अर शरीर निर्वल भया है आयु पूर्ण होनेका अवसर आया है तातैं अब दीन मति होहू, अब कायरता छांडि शूरपना ग्रहण करो। कायर भये दीन भये असाता कर्म नाहीं छांडैगा। कोऊ दुःख हरनेकूं समर्थ नाहीं है, असाताकूं दूरिकरि साताकर्म देनेकूं कोऊ इन्द्र धरणेन्द्र जिनेन्द्र अहमिंद्र समर्थ हैं नाहीं, यातैं अब कायरता है सो दोऊ लोक नष्ट करनेवाला धर्मसू परान्मुखता करै है तातैं धैर्य धारि क्लेशरहित होय भोगोगे तो पूर्व कर्मकी निर्जरा होयगी, नवीन कर्म बंधका अभाव होयगा। बहुरि तुम जिनधर्म धारक धर्मात्मा कहावो हो, समस्त तुमकूं ज्ञानवान समझैं हैं धर्मके धारकनिमें विख्यात हो अर व्रती हो अर व्रत-संयमकी यथाशक्ति प्रतिज्ञा ग्रहण करी है, अब त्याग संयममें शिथिलता दिखावोगे तो तुम्हारा यश अर परलोक विगडैहीगा परन्तु अन्य धर्मात्मानिका अर धर्मकी बड़ी निन्दा होयगी, अर अनेक भोले जीव धर्मके मार्गमें शिथिल हो जायंगे। जैसे कुलवान मानी सुभट लोकनिके मध्य भुजास्फालन करि पाछैं बैरीकूं सम्मुख आवनै ही भयवान होय भागै तो अन्य लघु किंकर कैसे थिरता धारै ! अर दोय दिन जीया तो हू ताका जीवना हू धिक्कार होय है तैसें तुम त्याग व्रत संयमकी प्रतिज्ञा ग्रहणकरि अब शिथिल होवोगे तो निंदताके पात्र होवोगे, अर अशुभ कर्म हू नाहीं छांडैगा, अर आगाने बहुत दुःखनिका कारण नवीन कर्मका ऐसा दृढ़ बन्ध करोगे जो असंख्यातकालपर्यन्त तीव्र रस देगा। अर जो तुम्हारे पूर्वे ऐसा अभिमान था जो मैं जिनेन्द्रका भक्त जैनी हूं आज्ञाका प्रतिपालक हूं जिनेन्द्रके कहे व्रत-शील संयम धारण करूं हूं जो श्रद्धा ज्ञान आचरण अनन्त भवनिमें दुर्लभ है सो वीतराग गुरुनिके प्रसादतैं प्राप्त भया है ऐसा निश्चय करके हू अब किंचित् रोगजनित वेदना वा परीषह कर्मके उदय करि आवनेतैं कायर होय चलायमान होना अति लज्जाका कारण है ? वेदनाका एता भय करो हो सो वेदनातैं मरण ही होयगा, मरण तो एक बार अवश्य होना ही है जो देह धारया है सो अवश्य मरण करैहीगा।

अब जो वीतराग गुरुनिका उपदेशया व्रत-संयमसहित कायरत्तारहित उत्साह करि च्यारि आराधनाका शरणसहित जो मरण हो जाय तो इस समान त्रैलोक्यमें लाभ नाहीं, तीन लोक की राज्यसंपदा तो विनाशीक है पराधीन है आराधनाकी संपदा अनन्त सुख देनेवाली अविनाशी है। अर जिस भय-रहित धीरता-सहित मरणकूं मुनीश्वर आचार्य उपाध्याय चाहैं हैं अर समस्त व्रती संयमी सम्यग्दृष्टी चाहैं अर तुम हू निरन्तर बांछा करै थे सो मनोवांछित समाधिमरण नजीक आगया इस समान आनन्द कोऊ ही नाहीं है। अर या वेदना बधै है सो तुम्हारा बड़ा उपकार करै है, वेदनातैं देहमें राग नष्ट हो जायगा, पूर्व कर्म असातादिक बांधे थे तिनकी अल्प-कालमें निर्जरा होयगी, दुःख रोगनिताँ भ्रूया देहरूप बन्दीगृहतैं जरूर निकसना होयगा, विषय

भोगनितै विरक्तता होयगी, परद्रव्यनितै ममता घटैगी मरणका भय नाहीं रहैगा, मित्र पुत्र स्त्री वांधवादिकनितै ममता नष्ट होयगी इत्यादिक अनेक अनेक उपकार वेदनातै हू जानहू । अर कायर हुआ वेदना वधैगी, संक्लेश वधैगा, कर्मका उदय है सो अब टलैगा नाहीं, यातै अब दृढ़ता ही धारण करनेका अवसर है । अर कर्मका जीतना तो शूरपना धारण करे ही होयगा, कायर होय रोगोगे तड़फड़ट करोगे तो कर्म तुमकू मारि तिर्यं चादिक कुगतिकू प्राप्त करेगा, अनेक दुःखनिकू प्राप्त होवोगे । जैसे कुलका साधर्मीनिका धर्मका यश वृद्धिकू प्राप्त होय अर तुम दुःखके पात्र नाहीं होहु तैस प्रवर्तन करो । जैसे शूरवीर चत्रियकुलमें उपजै हैं ते संग्राममें शस्त्रनिकरि दृढ़ संतापित भये भृकुटीसहित मरण करै हैं परन्तु वैरीनितै मुखकू उलटा नाहीं फेरै हैं तैसे परम-चीतरागीनिका शरण ग्रहण करता पुरुष अशुभकर्मनिके अति प्रहारतै देहका त्याग करै हैं परन्तु दीनता कायरताकू प्राप्त नाहीं होय हैं । केई जिनलिंगके धारक उत्तम पुरुषनिके दुष्ट वैरी चारों तरफ अग्नि लगाय दीनी ताकी घोरवेदना वचनके अगोचर तिस अग्निमें सर्व तरफतै दग्ध होत हू अपना ऋण चुकने समान जानि पंच परमगुरुनिका शरणसहित धीरताकू धारते दग्ध होय गये हैं परन्तु कायरताकू नाहीं धारै हैं ऐसी आत्मज्ञानकी प्रभावना है जो इस कलेवरतै भिन्न अविनाशी अखण्ड ज्ञानस्वभावकू अनुभव किया है तिस अनुभव करनेका फल अकंपना भयरहितपना ही है । वहुरि मिथ्यादृष्टी अज्ञानी हू परलोकके सुखका अर्थी होय धैर्य धारण करै है, वेदनामें कायर नाहीं होय है, तदि संसारके समस्त दुःखनिके नाश करनेका इच्छुक जिन-धर्मके धारक तुम कायर होय आत्माका हितकू बिगाडो तथा उज्ज्वल यशकू मलीन करि दुर्गतिके पात्र कैसे बनो ? तातै अब सावधान होय धर्मका शरण ग्रहणकरि कर्मजनित वेदनाका विजय करो । ऐसा अवसर अनन्तभवनिमें हू नाहीं मिल्या है, या तीरां लागी नाव है अब प्रमादी रहोगे तो हूव जायगी, समस्त पर्यायमें जो ज्ञानका अभ्यास किया, श्रद्धान की उज्ज्वलता करी, तप त्याग नियम धार्या सो इस अवसरके अर्थ धारे थे । अब अवसर आये शिथिल होय भ्रष्ट होओगे तो भ्रष्ट हुआ अर समता छांटे रोग तथा मरण तो टलैगा नाहीं, अपना आत्माकू केवल दुर्गतिरूप अन्ध कीचमें डबोवोगे । वहुरि जो लोकमें मरी रोग आ जाय, तथा दुर्मिच्छ आ जाय, तथा भयानक गहन वनमें प्रवेश हो जाय, तथा दृढ़ भय आ जाय, तथा तीव्ररोग वेदना आ जाय तो उत्तम कुलमें उपजे पूज्य पुरुष संन्यासमरण करै; परन्तु निच आचरण नीच पुरपनिकी ज्यों कदाचिन् नाहीं करै । मरीके भयतै मदिरा नाहीं पीवै हैं, दुर्मिच्छ आ जाय तो मांसभक्षण नाहीं करै, बांश नाहीं खाय नीच चांडालादिकनिकी उच्छिष्ट नाहीं भक्षण करै हैं । भय आ जाय तो म्लेच्छ भील नाहीं हां जाय है कुकर्म हिंसादिक नाहीं करै हैं तसे रोगादिकनिकी प्रबल त्रास

होते हैं हू श्रावकधर्मका धारक जिनधर्मों कदाचित् अपने भावनिकू विकाररूप नहीं करै है । अर धर्मकी अर त्यागकी व्रतकी साधर्मिनीकी प्रभावनाका इच्छुक होय अन्तकालमें अपना श्रद्धान ज्ञान आचरणकी उज्ज्वलता ही प्रगट करै है तिनका जन्म सफल होय है मरणकरि उत्तम देवनिमें उपजै है । अर मनुष्य पर्यायमें उत्तमपना भी येही है जो घोर आपदा वेदना आवतैं हू सुमेरुकी ज्यों अचल होय है, अर समुद्रकी ज्यों क्षोभरहित होय है । अर भो धर्मके आराधक ! तुम अति घोर वेदनाके आवनैकरि आकुल मत होहू इस कलेवरतैं भिन्न अपना ज्ञायकभावकू अनुभव करो । अर वेदना तीव्र आवतैं पूर्वे भये वेदनाके जीतनेवाले उत्तम पुरुषनिका ध्यान करो । अहो आत्मन् ! पूर्वे जो साधु पुरुष सिंह व्याघ्रादि दुष्ट जीवनिकी डाढ़निकरि चावे हुए हू आराधनामें लीन होते भये तुम्हारे कहा वेदना है ?

बहुरि अति कोमल अंगका धारक अर तत्कालका दीक्षित ऐसे सुकुमाल स्वामीकू स्यालनी अपना दोय वञ्चानि करि सहित तीन रात्रि तीन दिन पर्यंत भक्षण करने लगी सो उदर विदारतादि मरण किया ऐसा घोर उपसर्गकू सहकरि परम धैर्य धारण करि उत्तम अर्थ साध्या, तुम्हारे कहा वेदना है । बहुरि सुकोशल स्वामीकी माताका जीव जो व्याघ्री ताकरि भक्षण किया हुवा उत्तमार्थतैं नहीं चिगे तुम्हारे कहा वेदना है, बहुरि भगवान गजकुमार स्वामीके समस्त अंगमें दुष्ट वैरी कीले ठोक दिये तो हू उत्तमार्थ साध्या तुम्हारे कहा वेदना है, बहुरि सनत्कुमार नाम महाशुनिके देहमें खाज, ज्वर, काश, शोष, तीव्र लुधाकी वेदना तथा वमन नेत्रशूल उदरशूलादिक अनेक रोग उपजे तिनकी घोर वेदनाकू सौ वर्ष पर्यंत साम्यभावतैं भोगी धैर्य नहीं छाड्या, तुम्हारे कहा वेदना है । बहुरि एणिकपुत्र गंगानदीमें नावमें डूब गये परन्तु आराधनातैं नहीं चिगे, तुम्हारे कहा वेदना है । बहुरि भद्रबाहुनामा मुनिके तीव्र लुधाका रोग उपज्या तो हू अवमौदर्य नाम तपकी प्रतिज्ञा करि आराधनातैं नहीं चिगे, तुम्हारे कहा वेदना है । बहुरि ललितघटादि नामकरि प्रसिद्ध बत्तीस मुनि कौसांबीमें नदीके प्रवाहकरि बहे हुए हू आराधना मरण किया, तुम्हारे कहा वेदना है । बहुरि चंपानगरीके ब्राह्म गंगाके तटविषै धर्मघोष नाम मुनि एक महीनाका उपवासकी प्रतिज्ञाकरि तीव्र तृषावेदनातैं प्राण त्यागे परन्तु आराधनातैं नहीं चिगे, तुम्हारे कहा वेदना है । पूर्वं जन्मका वैरी देव अपनी विक्रियाकरि शीत की घोर वेदना करि व्याप्त किया हू श्रीदत्त नाम मुनि क्लेशरहित हुवा उत्तमार्थकू सिद्ध किया, तुम्हारे कहा वेदना है । बहुरि वृषभसेन नाम मुनि उष्ण शिलातल अर उष्ण पवन अर उष्ण सूर्यका घोर आताप होते हू आराधनाकू धारण करी, तुम्हारे कहा वेदना है । बहुरि रोहेडनगरमें अग्नि नाम राजपुत्र क्रोंच नाम वैरीकरि शक्ति नाम अशुधतैं हत्या हू धारण करी, तुम्हारे कहा वेदना

है । बहुरि काकंदी नाम नगरीविषै अभयघोष नाम मुनिका समस्त अंगकू चंडवेगनाम वैरी छेद्यो तो हू घोर वेदनामें उत्तमार्थ साध्या, तुम्हारे कहा वेदना है ? विद्युच्चर नाम चोर डांस अर मच्छरनिकरि भक्षण किया हुआ हू संक्लेशरहित मरणतै उत्तमार्थ साध्या तुम्हारे कहा वेदना है । बहुरि चिलातिपुत्र नाम मुनिकू पूर्वाला वैरी शस्त्रनिकरि घात्या पाछै घावनिमें स्थूल कीडे पड़े बहुरि अंगमें प्रवेशकरि चलनीवत् छिद्र किये तो हू समभावनिताँ प्रचुर वेदनासहित उत्तमार्थ साध्या, तुम्हारे कहा वेदना है । बहुरि दण्ड नामा मुनिकू यमुनावक्र पूर्वाला वैरी वाणनिकरि वेध्या ताकी घोर वेदना होते हू समभावनिताँ आराधनाकू प्राप्त भया, तुम्हारे कहा वेदना है । बहुरि कुम्भकारकट नाम नगरमें अभिनन्दनादि पांचसै मुनि घाणीनिमें पेले हुए हू साम्यभावतै नाहीं चिगे, तुम्हारे कहा वेदना है । बहुरि चाणिक्यनामा मुनिकू गायनिके रहनेके घरमें सुवन्ध नाम वैरी अग्नि लगाय दग्ध किये परन्तु प्रायोपगमन संन्यासतै नाहीं चले, तुम्हारे कहा वेदना है । कुलालनाम ग्रामका बहिर्भागविषै वृषभसैन नाम मुनि संघसहितकू रिष्टाभ नाम वैरी अग्नि लगाय दग्ध किये ते परम वीतरागतातै आराधनाकू प्राप्त भये, तुम्हारे कहा वेदना है । भो आराधनाका आराधक हो, हृदयमें चिंतवन करो एते मुनि असहाय एकाकी इलाज प्रतीकाररहित वैयावृत्परहित हू परम धैर्य धारणकरि कायरता रहित समभावनिताँ घोर उपसर्गसहित आराधना साधी इहां तुम्हारे कहा उपसर्ग है, समस्त साधर्मी जन वैयावृत्त्यमें तत्पर हैं तो हू तुम कैसेँ क्लेशित हो रहे हो ये सब बड़े-बड़े पुरुष भये तिनके कोऊ सहाई नाहीं था अर कोऊ वैयावृत्त्य करनेवाला नाहीं था असहाय था तिन ऊपरि दुष्ट वैरी घोर उपसर्ग किये अग्निमें दग्ध किये पर्वततै पटक शस्त्रनिताँ विदारे तथा तिर्यचनिकरि विदारे गये, खाए गये, जलमें डुबोये गये, कुवचनके घोर उपद्रव किये तो हू साम्यभाव नाहीं तज्या, तुम्हारे उपसर्ग नाहीं आया । अर धर्मके धारक करुणावान धैर्यके धारक परमहितोपदेशमें उद्यमी समस्त परिकर हाजिर हैं अब आकुलताका कारण नाहीं, तथा शीत उष्ण पवन वर्षादिकनिका उपद्रव नाहीं, ऐसे अवसरमें हू कैसेँ शिथिल भए हो ? अर जो तुम्हारे रोग-जनित अशक्तता-जनित जुधा तृषादिक वेदना भई है तिसमें परिणाम मत लगावो, साधर्मी जनके मुखतै उच्चारण किये जिनेन्द्रका वचनरूप अमृत का पान करो, तातै समस्त वेदनारूप विषका अभाव होय परिणाम उज्ज्वल होय परम धर्ममें उत्साह होय पापकी निर्जरा होय कायरताका अभाव होय है । अर वेदना आवतै चतुर्गतिनिमें जो दुःख भोगे तिनकू चिंतवन करो । इस संसारमें परिश्रमण करता जीव कौन कौन वेदना नाहीं भोगी, अनेक बार जुधा वेदनातै तृषावेदनातै मरा है अनेकवार अग्निमें दग्ध होय मरे, जलमें डूबि अनेक बार मरे, विषभक्षणतै मरे, अनेक बार सिंह सर्प श्वानादिकनिकरि मारे गए हो शिखरतै पड़ि पड़ि मरे हो शस्त्रनिके

घाततै मरे हो अब कहा दुःख है ? अर-जो दुःख नरक तिर्यचगतिमें दीर्घकाल भोग्या है तिनकू ज्ञानी भगवान जाने हैं । इहां अब किचित् वेदना अति अल्पकाल आई तातै धैर्य मत छाड़ो जो घोर वेदना कर्मनिके वश होय चारों गतिनमें भोगी है तिनकू कोटि जिह्वानिकरि असंख्यात-कालपर्यंत कहनेकू समर्थ नहीं नरकमें जो दुःखकी सामग्री है तिनकी जात इस लोकमें है नहीं, कैसे दिखाई जाय भगवान केवलज्ञानी ही जानै हैं । जहां पंचम नरकताईका उष्ण विलनिमें उष्णता तो ऐसी है जो सुमेरुपरिणाम लोहेका गोला छोड़िये तो भूमि ऊपरि पहुँचता पहुँचता पाणी होय बहि जाय, इहां तुम्हारे रोगजनित कहा उष्णता है ? अर पंचम नरकका तीसरा भाग अर छठी सप्तमी पृथ्वीका विलनिमें ऐसा शीत है जो सुमेरुप्रमाण गोलाका शीततै खण्ड खण्ड हो जाय ऐसी वेदना यो जीव चिरकालपर्यंत भोगी है यहां मनुष्यजन्ममें ज्वरादिक रोग-जनित तथा तृषातै उपजी तथा ग्रीष्मकालतै उपजी उष्णवेदना तथा शीतज्वरादिकतै उपजी वा शीत-कालतै उपजी शीतवेदना केती है अल्पकाल रहैगी सो धर्मके धारक ममत्वके त्यागी तिनकू समभावनितै नहीं भोगनी कहा ? यो अवसर सभभावनितै परीषह सहनेको है अर क्लेशभाव केरोगे तो कर्मका उदय छोड़नेका नहीं, कहा हूँ भोगोगे अर अपघातादिकतै मरोगे तो नरकनिमें अनंतगुणी असंख्यातकाल वेदना भोगोगे । अर पापके उदयतै नारकीनिकै स्वभावहीतै शरीरमें कोट्यां रोग सासता है । नरककी भूमिका स्पर्श ही कोटि विच्छूनिका उंकतै अधिक वेदना करनेवाला है नारकीनिके लुधा वेदना ऐसी है जो समस्त पृथ्वीके अन्नादिक भक्षण किए उप-शम होय नहीं अर एक कणमात्र मिलै नहीं । अर तृषावेदना ऐसी है जो समस्त समुद्रका जल पिये हूँ बुझे नहीं अर एक बूँद मिलै नहीं । अर नरकधराकी पहली पटलकी महा दुर्गन्ध मृत्तिका ऐसी है जो एक कण इस मनुष्यलोकमें आ जाय तो आध आध कोश पर्यंतके पंचेद्री मनुष्य तिर्यच दुर्गंधतै मरण करि जाय, दूजा पटलकीतै एक कोशका, ऐसै पटल पटल प्रति आध आध कोश बधता सप्तम पृथ्वीका गुणचामसां पटलकी मृत्तिकामें ऐसी दुर्गंध है जो एक कण यहां आ जाय तो साढ़ा चौईस कोशताई का पंचेद्री मनुष्य तिर्यच दुर्गंधकरि प्राणरहित हो जाय अर ऐसा ही स्वरूप शब्दके अनुभवनिका दुःख वचनके अगोचर केवली ही जानै हैं ऐसे दुःख-निकू बहुत आरम्भ बहुपरिग्रहके प्रभावतै सप्तव्यसन सेवनतै अभक्ष्यनिके भक्षणतै हिंसादिक पंचपापनिमें तीव्र रागतै निर्माल्य भक्षणतै घोर दुःखनिका पात्र नारकी होय है नारकीनिका मान-सिक दुःख अपार है नारकीनिकै शारीरिक दुःख, क्षेत्रजनित दुःख, परस्पर कीये दुःख, असुरनिकरि उपजाये दुःख वचनके कहनेके गोचर नहीं हैं सो चिंतवन करो । अर नरकमें आयु पूर्ण भये बिना मरण नहीं । अर तिर्यचनिके अर रोगी दरिद्री मनुष्यनिके पापका उदयतै जे तीव्र दुःख



होय हैं सो प्रत्यक्ष देखो ही हो, वर्णन कहा करिये । पराधीन तिर्यचगतिके दुःख वचनरहितपना अर तिनके लुधाका तृषाका शीतका उष्णताका ताड़नाका अतिभार लादनेका नासिकाछेदन रज्जुनिकरि बांधनेका घोर दुःख है, अर स्वाधीन खान पान चालना बैठना उठना जिनके नहीं । अर कोऊकूं सुख-दुःखस्वरूप अभिप्राय जनाय कुछ उपाय उद्यम करना सो नहीं, इसके घर रहूं इसके नहीं रहूं सो अपने आधीन नहीं, चांडाल म्लेच्छ, निर्दयीनिके आधीन हू रहना अर ब्रह्मणादिकनिके आधीन होना । कोऊ नाना मारनिकरि मारै, कोऊ आहार नहीं देवै, अर अल्प देवै अर भार बधता बहावै तो कोऊ राजा-दिकनिकै निकट जाय पुकार करनेका सामर्थ्य नहीं, कोऊ दयाकरि रक्षा कर सकै नहीं, नासिका गलि जाय, स्कंध गलि जाय, पीठ कट जाय, हजारों कीडा पड़ जाय तो हू पापाणादिकनिका कर्कश भार लादना, अर भार नहीं बहा जाय, चाल्या नहीं जाय, तदि मर्मस्थाननिमें चामड़ी निका तथा लोहमय तीक्ष्ण आरनिका तथा लाठी लड्डुनिका घात अर दुर्वचननि करि बड़ी जब-रीतैं चपावना, नासिकादि मर्मस्थाननिमें ऐसा जेवड़ा सांकल चाममय नाड़ीनिकरि बांधै जो हलन चलन नहीं कर सकै ऐसे तिर्यचगतिके प्रत्यक्ष दुःख देखो हो तुम्हारे कहा दुःख है । जलचर नभचर वनचर जीव परस्पर भक्षण करै हैं, छिपे हुएनिकूं हेरि हेरि निर्वलकूं सबल भक्षण करै हैं शिकारी भील धीवर वागुरा देखत प्रमाण जहां जाय तहांतैं पकड़ि लावै हैं, मारै हैं, विदारै हैं, रांधै हैं, भुलसैं हैं कौन दया करै ? पूर्वजन्ममें दयाधर्म धारधा नहीं, धनका लोभी होय अनेक झूठ कपट छल किया ताका फल तिर्यचगतिमें उदय आवै है सो अब चिंतवन करो । अर मनुष्यनिमें इष्टका घोर दुःख है अर दुष्टनिका संयोगका अर निर्धन होनेका पराधीन बन्दीगृहमें पड़नेका अपमान होनेका मारन ताड़न त्रासन भोगनेका अर आंधा बहिरा गूंगा लूला पांगला होनेका, लुधा तृषा भोगनेका शीत-उष्ण आतापादि भोगनेका, नीचकुल नीच क्षेत्रादिकमें उपज-नेका, अंग उपांग गल जानेका, सिद्ध जानेका, वाञ्छित आहार नहीं मिलनेका घोर दुःख भोगे तिनकूं चिंतवन करो यहां तुम्हारे दुःख है । बहुरि नरक तिर्यचगतिके दुःख तो अपार हैं परन्तु पापके उदयतैं मनुष्यगतिमें भी मानसिक दुःख हू अज्ञान भाषतैं कषाय अभिमानके वश पड़्या जीवके अपार हैं कर्म बलवान है जिनका वचन हू मस्तकमें तीक्ष्णशूल समान वेदना करै ऐसे महा दुष्ट निर्दयी महावक्र अन्यायमार्गी तिनके शामिल कर्म उपजाय दे तिनकी रात दिन त्रास भोगना भयवान रहना अर जे उपकारी इष्ट प्राणनि समान जिनके संगम करि अपना जीवन सफल मानै था ऐसे स्त्री पुत्र मित्र स्वामी सेवकादिकनिका वियोग होनेका बाल्य अवस्थामें पुत्रीका विधवा होनेका तथा आजीविका अष्ट होनेका धन लुटि जानेका अति निर्धन होनेका, उदर भर भोजन नहीं मिलनेका, दुष्ट स्त्री कपूत पुत्र पावनेका, बांधवनिमें तिरस्कार होनेका, गुणज्ञ स्वामीके वियोग

होनेका तथा अपना अपवाद होने कलंक चढ़ानेका बड़ा दुःख भोगे है, यातै हे धीर ! यहां संन्यासके अवसरमें किंचित्मात्र उपजी कहा वेदना है- कर्मके उदयतै मनुष्यजन्ममें अग्निमें दग्ध हो जाय है, सिंह व्याघ्र सर्प दुष्ट गजादिककरि भक्षण करिये है, हस्त पाद कर्ण नासिका छेदै है शूली चढ़ावै है नेत्र पाड़ै है जिह्वा उपाड़ै है पापकर्मका उदयतै मनुष्यजन्महूमें घोर दुःख भोगै है तथा दुष्ट वैरीनिके प्रयोगतै दंडनिकरि वेतनकरि मुसंडीनिकरि मुदगरनिकरि चामठनिकरि लोहडीनिकरि मारे गये हो शस्त्रनितै विदारि गये लात घमूका ठोकरनिकी मार पाद-ताड़निकी मार तथा दलना बालना सब पराधीन होय भोगे हैं जो स्वाधीन होय कर्मके उदयजनित त्रासकूं साम्यभावनितै एकवार भोगै तो दुःखनिका पात्र नहीं होय । समस्त रोग अनेकवार भोगे हैं अब तुम्हारे ये रोग शीघ्र निर्जरैगा । अर रोग विना ऐसा जीर्ण दुष्ट क्लेवरतै छूटना नहीं होय, देहतै ममता नहीं घटे, धर्ममें प्रीति नहीं बधै, तातै रोगजनित वेदनाकूं हूं उपकार करनेवाली जानि हर्ष ही करो । हे धीर, जो दुःख तुम संसारमें भोगे हैं तिनके अनन्तवें भाग हू तुम्हारे दुःख नहीं है अब इस अवसरमें कायर होय धर्मकूं मलीन कैसें करो हो ? जो तुम कर्मके वश होय चतुर्गतिमें घोर वेदना भोगी तो इहां धर्मरूप तप व्रत संयम धारण करते वेदना भोगनेका कहा भय करो हो, कर्मके वश होय जो वेदना अनन्तवार भोगी सो वेदना धर्मकी रक्षाके अर्थि जो एक बार समभावनितै सहो तो बड़ी निर्जरा हो जाय । भो धीर, तुम भय-रहित होहू वा भय-सहित होहू इलाज करो वा मत करो प्रबल उदय आया कर्म तो नहीं रुकैगा । इलाज हू कर्मका मंद उदय भये कार्य करै है पापका प्रबल उदय होतै अति शक्तिमान हू औषधि बहुत यत्नतै युक्त किया हुवा हू वेदनाका नाश नहीं करि सकै है । जे असंयमी योग्य अयोग्य समस्त भक्षण करनेवाला त्यागव्रतरहित रात्रि दिन समस्त प्रतीकार करे तो हू कर्मके प्रबल उदयतै रोगकरि रहित नहीं होय तो तुम संयम व्रत सहित अयोग्यका त्यागी कैसें आकुल भये प्रतीकार बांछो हो । इहां राजा समान सामग्री अन्य कौनके होय, अर जिनके भक्ष्य अभक्ष्य, योग्य अयोग्यका विचार नहीं, हिंसाके कारण महान आरम्भ करनेका जिनके भय नहीं दया नहीं, अर बड़े-बड़े धन्वंतरि सारिखे अनेक वैद्य अर अनेक ही औषधि होय तो हू कर्मका उदयजनित वेदनाकूं उपशम नहीं करै तदि त्यागी व्रती तुम अर दयावान् व्रती वैयावृत्य करनेवाले कैसें तुम्हारा रोग हरैगे ? समस्त वेदनाका उपशम करनेवाला जिनेन्द्रका वचनरूप औषध ग्रहण करि परम साम्यभावरूप अभेद्य चक्रकूं धारण करो, पूर्वकर्मका उदयरूप रसकूं समभावनितै भोगो ज्युं अशुभ की निर्जरा हो जाय अर नवीन कर्मका बन्ध नहीं होय । मरण तो एक पर्यायमें एकवार होना ही है परन्तु संयमसहित मरणका अवसर तो इहां प्राप्त भया है तातै बड़ा हर्ष सहित

मरण करो जातैं अनेक जन्म धारि धारि अनेक मरण नाहीं करो, अर अति अल्प जीवनमें धर्म छांडि आर्तपरिणामी मति होहू, अशुभकर्मके उदयके रोकनेकूँ इंद्रादिकसहित समस्त देव समर्थ नाहीं ताहि ये अल्पशक्ति-धारी कैसेँ रोकेंगे । जिस वृत्तके भंग करनेकूँ गर्जेद्र समर्थ नाहीं तिस वृत्तकूँ दीन निर्बल सूसा कैसेँ भंग करै ? जिस नदीके प्रवल प्रवाहमें महान देहका धारक अर महा बलवान हस्ती बहता चल्या जाय तिस प्रवाहमें सूसाका वहनेका कहा आश्चर्य ? जा कर्म का उदयकूँ तीर्थकर चक्रवर्ती नारायण बलभद्र अर देवनिसहित इंद्रहू रोकनेकूँ समर्थ नाहीं तिस कर्मकूँ अन्य कोऊ रोकनेकूँ समर्थ है कहा ? तातैं कर्मके उदयकूँ अरोक जानि असाताका उदयमें क्लेशरूप मत होहू, शूरपना ग्रहण करो अर साम्यभावतैं कर्मकी निर्जरा करो । अर कर्मके उदयतैं दुःखित होहुगे रोवोगे विलाप करोगे दीनता करोगे तो वेदना नाहीं मिटैगी अर नाहीं घटैगी, वेदना बधैगी धर्म अर व्रत संयम यश नष्ट होय आर्तध्यानतैं घोर दुःखके भोगने वाले तिर्यच जाय उपजोगे यामें संशय नाहीं जो असाताका उदयमें सुखके अर्थि रोवना है विलाप करना है, दीनता भाषण करना है सो तेलके अर्थि बालू रेतका पेलना है, तथा घृतके निमित्त जलकूँ विलोवना है, तथा तंदुलके निमित्त परालकूँ खोदना है सो केवल खेदके निमित्त है आगानै तीव्र दंधनके निमित्त है । बहुरि जैसेँ कोऊ पुरुष अज्ञानभावतैं पूर्व अवस्थामें किसी-सौँ धन करज लेय भोग्या अब करार पूर्ण भये आय मांगै तदि न्यायमार्गी तो हर्ष मानि ऋण चुकाय करि अपना भार ज्यों उतारि सुखी होय तैसेँ धर्मके धारक पुरुष तो धर्मके उदयतैं आया रोग दरिद्र उपसर्ग परीषह तिनके भोगनेतैं ऋण दूर होनेकी ज्यों मानि सुखी होय हैं जो अवार हमारे पूर्वकृत कर्म उदय आया है भला अवसरमें आया, अवार हमारे ज्ञानरूप प्रचुर धन है भगवान पंचपरमेष्ठीका शरण है साधमीनिका बड़ा सहाय है सो सहज ऋणका भार उतारि निराकुल सुखनै प्राप्त होस्युँ अपना कषायादि भावनितैं उपजाया कर्म ऐसा बलवान है जो ऋद्धिका विद्याका बंधुजनका धनसंपदाका शरीरका मित्रनिका देव-दानवनिका सहायका बलकूँ आधी क्षणमें नष्ट करै है कर्मरूप ऋण छूटै नाहीं । बहुरि रोग शोक जीवन मरण अन्य किसी-हीके नाहीं उदय आया होय अर तुम्हारे ही उदय आया होय तो दुःख करना उचित है, जुधा तृपा रोग वियोग जन्म जरा मरण कौनके उदयके अवसरमें त्रास नाहीं देवैं हैं समस्त संसारी जीवनिके उदय आवैं हैं, मरण समस्तकूँ प्राप्त होय है चारूँ गतिनिमें कर्मका उदय आवैं है तातैं जो पूर्व अवस्थामें बंध किया ताका उदयमें आकुलता त्यागि परम धैर्य धारणकरि सम-भावनितैं कर्मका विजय करो समस्त दुःखनिका विजय करनेका अवसरमें अब काहेका विपाद करो हो, सम्यग्दृष्टी तो आजन्मतैं समाधिमरणकी ही वांछा करै है सो यो अवसर महा कठिन

प्राप्त भयो है समस्त दुःखनिका नाशका अवसर कठिनतातै पाया है उत्साहका अवसरमें विपाद करना उचित नहीं, यो अवसर चूक्यां फिर अनन्तकालमें नहीं मिलैगो । बहुरि अरहं सिद्ध आचार्यादिक भगवान परमेष्ठी अर समस्त साधर्मीनिकी साखतै जो त्याग संयम ग्रह किया तिस त्यागका भंग करनेतै पंचपरमेष्ठीनितै परान्मुखता भई, समस्त धर्मको लोप भयो धर्मके दूषण लगायो धर्मका मार्गकी विराधना करी अपना दोऊ लोक नष्ट किया । अर मरण त अवश्य होयहीगा मरण अर दुःखतो व्रत संयम भंग किये हू नहीं दूर होयगा । जो कार्य राजकू अर पंचोंकूं साक्षी करि करै अर फेर वाकूं लोपै तो तीव्र दंडने महा अपराधने प्राप्त होय अर समस्तलोकमें धिक्कार अर तिरस्कारकूं प्राप्त होय है अर परलोकमें अनन्तकाल पर्यंत अनन्त जन्म मरण रोग शोक वियोग होनेका पात्र होय है जो त्याग नहीं करै सो तो अनादि का संसारी है ही, वाने तो त्याग संयम व्रत पाया ही नहीं । अर जो त्याग करि व्रत संयम संन्यास विगाड़े है ताकै धर्मवासना अनन्तानन्त कालमें दुर्लभ है । बहुरि आहारकी गृद्धिता है सो तो अति निंघ है जे उत्तम पुरुष है तो तौ लुधा वेदनाकूं प्राणापहारिणी जानि लुधाका इलाज मात्र आहार करै है सो हू बड़ी लज्जा है आहारकी कथा हू दुर्ध्यानकूं करनेवाली जानि त्याग करै है यो हाड मांस मय देह आहार विना रहै नहीं अर देह विना तप व्रत संयमरूप रत्नत्रयधर्म पलै नहीं तातै रत्नत्रयका पालनकै अर्थि रस नीरस जैसा कर्म विधि मिलावै तैसा निर्दोष उज्ज्वल भोजनतै उदर पूर्ण करै है रसना इन्द्रियकी लंपटतानै कदाचित् प्राप्त नहीं होय है, मनुष्यजन्मकी सफलता तो आहारका लंपटताकै जीतनेतै ही है तिर्यचगतिमें तो आहारकी लंपटतातै बलवान होय सो निर्बलनै तथा परस्पर भक्षण करै है आहारकी गृद्धितातै माता पुत्रकूं भक्षण करै है मनुष्य गतिमें हू नीच उच्च जातिका भेद समस्त आचारका भेद भोजनके निमित्ततै ही है इसलोकमें जेता निंघ आचारण हैं तितना भोजनका विचाररहितकै ही है अर भोजनमें जिनके लंपटीपना नहीं ते उज्ज्वल हैं बांछारहित हैं ते उत्तम हैं अर नीच उच्च जाति कुलका भेद भी भोजनके निमित्त तै ही हैं आहारका लंपटी घोर आरम्भ करै है बाग वगीचेनिमें एक अपने जीमनेके अर्थि कोट्यां प्रस जीवनिक्कूं मारै है महापापकी अनुमोदना करै है अभक्ष्य भक्षण करै है असत्य वचन हिंसादिक महापापके वचन आहारका लंपटी बोले है आहारको लंपटी सुन्दर भोजन वास्ते चोरी करै है कुशील सेवन करै है भोजनका लंपटी धन परिग्रहमें महामूर्च्छावान होय है अन्य लोकनिक्कूं मारि भूठ बोलै चोरी करकै हू मिष्ट भोजन वास्ते धन संग्रह करै है मिष्ट भोजन वास्ते क्रोध करै है मान करै है कपट छल करै है चोरी करै है कुलका क्रम नष्ट करै है नीच जातिके शामिल हो जाय है नीच कुलके मद्य मांसके भक्षकनिका दासपना अंगीकार

करै है भोजनका लंपटी निर्लज्ज होय जाय है भोजनका लंपटी अपना पदस्थ उच्चता जाति कुल आचार नहीं देखै है स्वादिष्ट भोजन देखि मन विगाड दे है। बहुत धनका धनी अर अपने गृहमें सुन्दर भोजन नित्य मिलता हू नीचनिकै रंकनिकै शूद्रनिकै म्लेच्छ मुसलमानकै घर हू जाय भोजन करै है भोजनका लोलुपी ग्राम नगरमें विकता नीच वृत्तिकरि कीया अर समस्त मुसलमानादिक जिनकूँ स्पर्श कर जाय वेच जाय ऐसे अधम भोजनकूँ खरीद व्यावै है भोजनका लंपटी तपरचरण ज्ञानाभ्यास श्रद्धान आचरण समस्त शील संयमकूँ दूरतैं ही छांडै है अपना अपमान होना नहीं देखै है अभक्ष्यमें उच्छिष्टमें मांसादिकनिमें आसक्त हो जाय है अयोग्य आचरणकरि अपने कुलका क्रमकूँ नष्ट करै है मलीन करै है जिह्वा इन्द्रियकी लंपटता कहा-कहा अनर्थ नहीं करै ? शोधना देखना तो आहारके लंपटीकै है ही नहीं अर ये आहार कैसा है कहातैं आया है ऐसा विचार आहारका लंपटीकै नहीं रहे है जो आहारका लंपटी है ताकी तीक्ष्णबुद्धि हू मन्द हो जाय है बुद्धि विपरीत हो जाय सुमार्ग छांडि कुमार्गमें प्रवीण हो जाय है धर्मतैं पराङ्मुख हो जाय है सो देखिये है केई पुरुष अनेक शास्त्र पढ्या है वचनादिकरि अनेक जीवनिकूँ शुभमार्गका उपदेश करै है तथा बहुत कालत सिद्धान्त श्रवण करै है तो तिनकै सत्यार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण नहीं होय है विपरीत मार्गतैं नहीं छूटै है सो समस्त अन्याय अभक्ष्य भोजन करनेका फल है मुनीश्वरनिकै तो प्रधान आहारकी शुद्धता ही है अर श्रावककै हू समस्त बुद्धिकी शुद्धताका कारण एक भोजनकी शुद्धता ही जानो आहारका लंपटीकै योग्यका, अयोग्यका, शोधनेका, नेत्रनितैं देखनेका थिरपना नहीं होय धैर्यरहित शीघ्रतातैं भक्षण ही कर है जिह्वा का लंपटी मान सन्मान सत्कार अपना उच्च पदस्थता नहीं देखता मिष्ट भोजन मिलै तहां परम निधीनिका लाभ गिनै है भोजनका लंपटी मिष्ट भोजन देनेवालेके आधीन होय माताका पिताका स्वामीका गुरुका उपकार लोपि अपकार ग्रहण करै है भोजनके लंपटीका विनय अपना स्त्री पुत्र हू नहीं करै है भोजनका लंपटीकै धर्मका श्रद्धान भी नहीं होय है जातैं सम्यग्दृष्टी आत्मीक सुखकूँ सुख जानै ताकै तो इन्द्रियनिका विषयजनित सुखमें अत्यन्त अरुचि होय है जाकूँ सुन्दर भोजन ही सुख दीख्या सो तो विपरीत ज्ञानी मिथ्यादृष्टी ही है जिह्वाका लंपटी है सो महा-अभिमानी हू उच्चकुली हू नीचनिका चाडुकार स्तवन करै है तथा भोजनका लंपटी दीन हुवा परका मुख देखता फिरै है याचना करै है, नहीं करनेयोग्य कर्म करै है एक भोजनकी चाहतैं शालिमच्छ सप्तम नरक जाय है अर अनेक जन्तु भक्षणकरि महामच्छ हू सप्तम नरक जाय है देखहु सुभौम नाम चक्रवर्ती देवोपनीत भी दशांग भोगनितैं तृप्त नहीं भया अर कोऊ विदेशीका लाया फलके रसकी गृद्धताकरि कुटुम्बसहित समुद्रमें डूबि सप्तम नरक गया और-

निकी कहा कथा ? अर ऐसा जिनेन्द्रका वचनरूप अमृतपान करनेतै हू जो तुम्हारै आहारमें रस-वान भोजनमें गृद्धता नाहीं नष्ट भई तो जानिये है तुम्हारै अनन्तकाल असंख्यातकाल संसारमें परिभ्रमण करना अर जुधा तृषा रोग वियोग जन्म मरण अनन्त बार भोगना है । अर जो तुम या विचारो हो जो मैं भोजन-पान कर तृषाकूँ मेदि तृप्त होऊंगा सो कदाचित् आहारकरि तृप्तता नाहीं होयगी, जुधा तृषाकी वेदना तो असाता नाम कर्मके नाशतै मिटैगी, आहार करनेतै नाहीं घटैगी । आहारतै तो अधिक गृद्धिता बधैगी जैसे अग्नि ईन्धन करि तृप्त नाहीं होय, अर समुद्र नदीनिकरि तृप्त नाहीं होय तैसे आहारतै तृप्तता नाहीं होयगी, लालसा अधिक अधिक बधैगी । लाभांतरायके अत्यन्त क्षयोपशमतै उपज्या अत्यन्त बल वीर्य तेज कांतिके करनेवाला मानसिक आहार असंख्यातकालपर्यन्त स्वर्गमें इन्द्र अहमिन्द्रका सुख भोग्या तो हू जुधा वेदनाकी अभाव-रूप तृप्तता नाहीं भई तथा चक्रवर्ती नारायण बलभद्र प्रतिनारायण भोगभूमिके मनुष्यादि लाभांतराय भोगान्तरायका अत्यन्त क्षयोपशमतै प्राप्त भया दिव्य आहार ताकूँ बहुत काल भोग करकै हू जुधा वेदना नाहीं दूर करी तो तुम्हारे किंचित् मात्र अन्नादिक भक्षण करि कैसे तृप्तता होयगी ? तातै धैर्य धारण करि आहारकी बांछाके जीतनेमें यत्न करो । अब आहार केताक भक्षण करोगे अर याका स्वाद केतेक काल है जिह्वाका स्पर्श मात्र स्वाद है, गिल गयां पाछै स्वाद नाहीं, पहले स्वाद नाहीं केवल अधिक अधिक तृष्णा बधावै है । समस्त प्रकारके आहार भक्षण तुम अनादितै किये हैं तदि तृप्ति नाहीं भई तो अब अन्तकालमें कंठगत प्राणके समय किंचित् आहारतै तृप्ति कैसे होयगी तातै दृढ़ता धारणकरि अपना आत्महितकूँ करो । अर ऐसा कोऊ आहार भी लोकमें अपूर्व नाहीं है जाकूँ तुम नाहीं भोग्या, जो समस्त समुद्रका जल पीये तृप्त नाहीं भया तो ओसकी बूँदको चाटनेकरि कैसे तृप्त होहुगे ? अर पूर्वकालमें हू रात्रि-दिन आहारकै निमित्त ही दुःखित हुआ पर्याय व्यतीत करी है देखो बहुत काल तो आहारका स्वादकी बांछा रहै सो दुःख, अर आहारकी विधि मिलावनेकूँ सेवा वणिज इत्यादिककरि धन उपार्जन करनेमें दुःख, दीनता करतां पराधीन रहां हू दुःख, धन खरच होता दीखै तामें दुःख, स्त्रीपुत्रादिक आहार-का विधि मिलावै तिनकै आधीन होने का दुःख तथा आप बहुत काल पर्यंत वचाना आरम्भ करना अर भोजन तय्यार नाहीं होय तेतै बांछासहित रहना सो हू दुःख, कोऊ रसादिक सामग्री नाहीं तो लावनेका दुःख, अपनी इच्छाश्रमाण नाहीं मिलै तो दुःख, अर मिष्टभोजन भक्षण करते खाटा की लालसा फिर चिरपराकी लालसा फिर मीठाकी लालसा इत्यादिक बारम्बार अनेक लालसा जहां नाहीं घटै तहां सुख कहां ? अर जिह्वाके स्पर्शमात्र हुआ अर निगलै है श्रेष्ठ मनवांछित हू आहार एक क्षणमें जिह्वाका मूलकूँ उलंघन करै है एक जिह्वाका अग्र ही

स्वाद जानै है जिह्वा नहीं भिड़ै तितनै स्वाद नहीं अर जिह्वातैं पार उतरया कि स्वाद जिह्वाके नहीं, एक निमेषमात्र आहारका स्पर्श का स्वाद है तिसके निमित्त घोर दुःखान करै है महासंकट भोगै है अर भोजन करकै हू वांछारहित नहीं होय है । तातैं ऐसा दुःखका करनेवाला आहारके त्यागका अवसर आया इस अवसरकू महा दुर्लभ अक्षय निधानका लाभ समान जानो । आहारके स्वादमें अति विरक्त होहू यहां जो दृढ़ परिणामनितैं आहारमें विरक्त होहुगे तो स्वर्गलोकमें जाय उपजोगे जहां हजारों वर्षताईं जुधावेदना नहीं उपजैगी । जहां जितना सागर-प्रमाण आयु तितना हजार वर्ष-पर्यन्त तो भोजनकी इच्छा ही नहीं उपजै । अर पाछैं किंचित् इच्छा उपजै तदि कंठनि में अमृत परमाणु ऐसे द्रवै सो एक क्षणमात्रमें इच्छा को अभाव हो जाय । सो समस्त प्रभाव असंख्यात वर्ष-पर्यन्त जुधावेदना नष्ट होनेरूप पूर्वजन्ममें आहारकी लालसा छांड़ि अनशनतप अवमौदर्य तप रसपरित्यागतपके करनेका है । ये तिय च मनुष्यगतिमें जो जुधा तृषा रोगादिकका घोर दुःख अनन्त कालतैं भोगे हैं सो समस्त आहारकी लंपटताका प्रभाव है । जिन-जिन आहारकी लंपटता छांड़ी ते जुधादिवेदना-रहित कथलाहार-रहित दिव्य देव होय हैं जो अब इस वेदनातैं दुःखित हो तो आहारके त्यागमें ही अचल प्रवतैं, जो अल्पकालमें वेदना रहित कल्पवासी देव-निमें जाय उपजो । अर आहार भक्षण करने करिकैं तो वेदनारहित नहीं होवोगे । बहुरि समस्त दुःखनिका मूल कारण इस जीवके एक शरीरका ममत्व है याकी ममतातैं याकी रचाके निमित्ततैं ही अनंतानंत कालपर्यंत दुःख भोगे हैं जेते जुधा तृषा रोगादिक परीषहनिका दुःख है ते समस्त एकदेहकी ममतातैं हैं । जे महन्त पुरुष देहमें ममताका त्यागी भये हैं तिनके हाड-मांस-चाममय महा दुर्गंध रोगनिका भरा देह धारण नहीं होय । जेतै संसारका अभाव नहीं होय तितने इन्द्रा-दिक देवनिका दिव्य देह प्राप्त होय है पाछैं शील-संयमादि सामग्री पाय निर्वाणकू प्राप्त होय है । जो देहकी वेदनातैं दुःखी हो तो शीघ्र ही देहकी ममता लालसा छांड़ो जो देह नहीं धारो । अर आहारकी चाहतैं दुःखी हो तो आहारहीका त्याग करो जो फेरि जुधा तृषादिक वेदनातैं आहार ग्रहण नहीं करो, क्रमतैं देहकू ऐसैं कृश करो जैसे वात पित्त कफका विकार मन्द होता जाय परिणामनिकी विशुद्धता बधती जाय ऐसैं आहारका त्यागका क्रम पूरै कहा ही है । पाछैं अन्त-कालमें जेती शक्ति होय तिस प्रमाण जलकाहू त्याग करना । अन्तकालमें जेती शक्ति रहै तेतैं पंच-नमस्कारमन्त्रका तथा द्वादश भावनाको स्मरण करना जब शक्ति घट जाय तो अरहंत नामकाही सिद्धका ध्यान मात्र करना । अर जब शक्ति नहीं रहै तदि धर्मात्मा वात्सल्य अंगका धारक स्थितिकरणमें सावधान ऐसे साधमीं निरन्तर चार आराधना पंचनमस्कार मधुर स्वरनितैं बड़ी धीरतातैं श्रवण करावै जैसे आराधकका निर्बल शरीरमें मस्तकमें वचन करि खेद दुःख नहीं उपजै । अर श्रवण

करनेमें चित्त लग जाय तैसें श्रवण करावै । बहुत आदमी मिलि कोलाहल नहीं करै, एक-एक साधर्मी अनुक्रमतै धर्मश्रवण जिनेन्द्रनाम स्मरण करावै । अर आराधक के निकट बहुत जनांका वा संसारीक ममत्व मोहकी कथा करनेवालेनिका आगम रोक देवै, पंच नमस्कार वा च्यार शरण इत्यादिक वीतराग-कथा सिवाय नजीक नहीं करै, दोय चार धर्मके धारक सिवाय अन्यका समागम नहीं रहै । अर आराधक हू सल्लेखना का पांच अतीचार दूर ही तै त्यागै, तिन पंच अतीचारनिके कहनेकूँ सूत्र कहै हैं ।

जीवितमरणाशंसे भयमित्रस्मृतिनिदाननामानः ।

सल्लेखनातिचाराः पंच जिनेन्द्रैः समादिष्टाः ॥१२६॥

अर्थ—सल्लेखना करकै जो जीवनेकी वांछा करै जो दोय दिन जीऊँ तो ठीक है सा जीविताशंसा नाम अतीचार है ॥१॥ अर मरणकी वांछा करै जो अब मरण हो जाय तो ठीक है सो मरणाशंसा नाम अतीचार है ॥२॥ अर भय करना जो देखिये मरणमें कैसा दुःख होयगा, कैसे सहंगा, सो भय नाम अतीचार है ॥३॥ अर अपने स्वजन पुत्र-पुत्री मित्रनिकूँ याद करना सो मित्रस्मृति नाम अतीचार है ॥४॥ आगामी पर्यायमें विषयभोग स्वर्गादिककी वांछा करना सो निदान नामा अतीचार है ॥५॥ ऐसै पंच अतीचार सल्लेखनाके जिनेन्द्रने कहे हैं ।

भावार्थ—सल्लेखनामरणमें समस्त त्याग करि केवल अपना शुद्ध ज्ञायकभावका अवलंबन करि समस्त देहादिकतै ममत्व छांड़ि संन्यास धारा, फेरहू जीवनेकी मरनेकी वांछा करना भय करना मित्रनिमें अनुराग करना, आगै सुखकी वांछा करना सो परिणामनिकी उज्ज्वलता नष्ट करि राग द्वेष मोह बधावने वाले परिणाम हैं तातै सल्लेखनाकूँ मलीन करनेवाले अतीचार कहे । निर्विघ्न आराधनाका धारणतै गृहस्थके स्वर्गलोकमें महद्विक होना तो वर्णन किया पाछै संयम धरि निःश्रेयस कहिये निर्वाणकूँ प्राप्त होय है ।

तिस निःश्रेयसका स्वरूप कहनेकूँ सूत्र कहै हैं—

निःश्रेयसमभ्युदयं निस्तीरं दुम्तरं सुखाम्बुनिधिम् ।

निःपिबति पीतधर्मा सर्वैदुःखैरनालीढः ॥१३०॥

अर्थ—ऐसै सम्यग्दृष्टी अन्तसल्लेखनासहित वारा व्रतकूँ धारण करै है सो जिनेन्द्रका धर्मरूप अमृत पान करि तृप्त हुआ तिष्ठै है यातै जो पीतधर्मा कहिये आचरण किया है धर्म जानै ऐसा धर्मात्मा श्रावक है सो अभ्युदय जो स्वर्गका महद्विकपना असंख्यात कालपर्यंत भोगि फिर मनुष्यनिमें उत्तम राज्यादिक विभव पाय फिर संसार देह भोगनितै विरक्त होय शुद्ध संयम



अङ्गीकार करि निःश्रेयस जो निर्वाण है ताहि निःपिवति नाम आस्वादन करै है अनुभव करै है। कैसाक है निःश्रेयस निस्तीर कहिये तीर जो पर्यंतताकरि रहित है, बहुरि दुस्तर है जाका पार नहीं है, बहुरि सुखका समुद्र है ऐसा निर्वाण में समस्त दुःखनिकारि अस्पृष्ट हुवा संता भोगे है अब और हू निःश्रेयसका स्वरूप कहिये है—

जन्मजरामयमरणैः शौकैर्दुःखैर्भयैश्च परिमुक्तम् ।

निर्वाणं शुद्धसुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यम् ॥१३१॥

अर्थ—जो जन्म जरा रोग मरण करिके रहित अर शोक दुःख भय करि रहित अर नित्य अविनाशी समस्त परके संयोग रहित केवल शुद्ध सुखस्वरूप जो निर्वाण है ताहि निःश्रेयस इष्ट कहिये है। बहुरि निःश्रेयसका स्वरूपकू कहैं हैं—

विद्यादर्शनशक्तिस्वास्थ्यप्रल्हादतृप्तिशुद्धियुजः ।

निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखम् ॥१३२॥

अर्थ—विद्या कहिये ज्ञान अर अनंतदर्शन अनंतवीर्य अर स्वास्थ्य कहिये परम वीतरागता अर प्रल्हाद कहिये अनंतसुख अर तृप्ति जो विषयनिकी निर्वाञ्छकता, शुद्धि जो द्रव्यकर्मरहितता इनकरि आत्मसंबंधकू प्राप्त भये अर निरतिशया कहिये ज्ञानादिक पूर्वोक्त गुणनिकी हीनता अधिकता रहित अर निरवधयः कहिये कालकी मर्यादारहित भये संते निःश्रेयस जो निर्वाण तामें सुखरूप जैसे होय तैसे वसते हैं।

भावार्थ—धर्मके प्रभावतैं आत्मा निःश्रेयसमें वसै है केवलज्ञान केवलदर्शन अनन्तशक्ति परमवीतरागतारूप निराकुलता अनंतसुख विषयनिकी निर्वाञ्छकता कर्ममलरहितता इत्यादिक गुणरूप होय गुणनिकी हीनाधिकतारहित कालकी मर्यादारहित सुखरूप अनंतानंत काल वसै है। अब और हू निःश्रेयसका स्वरूप कहैं हैं—

काले कल्पशतेऽपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या ।

उत्पातोऽपि यदि स्यात्त्रिलोकसंभ्रान्तिकरणपटुः ॥१३४॥

अर्थ—अनंतानंत कल्पकाल व्यतीत हो जाय तो हू मुक्तजीवनिकै विकार जो स्वरूपको अन्यथा-भाव सो नहीं लखिये है, नहीं प्रमाणकरि जानने योग्य है। बहुरि त्रैलोक्यके संभ्रम करने में समर्थ ऐसा कोऊ उत्पात हू होय तोह सिद्धनिकै विकार नहीं होय है। और हू सिद्धनिका स्वरूप कहैं हैं—

निःश्रेयसमधिनास्त्रैलोक्यशिखामणिश्रियं दधते ।

निःकिट्टिकालिकाच्छविचामीकरभासुरात्मानः ॥१३५॥

अर्थ—निर्वाणकूं प्राप्त भये ऐसे मुक्तजीव हैं ते किट्टि अर कालिकारहित कांतिमान सुवर्णावत् द्रव्यकर्म नोकर्मरूप मलरहित प्रकाशमानस्वरूप भए त्रैलोक्यका शिखामणिकी लक्ष्मीकूं धारण करै हैं । अर संन्यासके धारक पुरुष स्वर्गकूं हू प्राप्त होय हैं—

पूजार्थाज्ञैश्वर्यैर्बलपरिजनकामभोगभूयिष्ठैः ।

अतिशयितभुवनमद्भुतमभ्युदयं फलति सद्धर्मः ॥१३५॥

अर्थ—बहुरि सम्यक् धर्म है सो अभ्युदयं फलति कहिये इन्द्रादिकपदवीकूं फलै । कैसाक अभ्युदयकूं फलै है जो पूजा अर अर्थ अर आज्ञा अर ऐश्वर्य करकै अर बल अर परिकरका जन अर काम-भोगनिकी प्रचुरताकरि तीन भुवनकूं उल्लंघन करे अर त्रैलोक्यमें आश्चर्यरूप ऐसा अभ्युदयकूं यो सम्यक् धर्म ही फलै है ।

भावार्थ—तीन लोकमें जो देखनेमें श्रवणमें चितवनमें नाही आवै ऐसा अद्भुत अभ्युदय सम्यग्धर्म ही का फल है धर्मका प्रभावही तैं इन्द्रपना अहमिन्द्रपना पाइये है ।

अब श्रावकधर्मके ग्यारह पद हैं जैसा जाका साभर्थ्य होय सो ही पद ग्रहण करो ऐसा कहै हैं—

श्रावकपदानि देवैरेकादश देशितानि येषु खलु ।

स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रमविवृद्धाः ॥१३६॥

अर्थ—भगवान सर्वज्ञदेव श्रावकधर्मके एकादश स्थान कहै हैं ते स्थान पूर्वके स्थाननिके गुणनिकरि सहित अनुक्रमतैं विवर्द्धित भये तिष्ठै हैं श्रावकपदके ग्यारह पद हैं—दर्शन १, व्रत २, सामायिक ३, प्रोषधोपवास ४, सचित्तत्याग ५, रात्रिभोजनत्याग ६, ब्रह्मचर्य ७, आरंभ-त्याग ८, परिग्रहत्याग ९, अनुमतित्याग १०, उद्दिष्टआहारत्याग ११, ऐसै ग्यारह पद हैं । जो ऊपरले पदका आचरण करैगा ताकै पाछला पदका समस्त व्रत नियमादि आचरण धारण होयगा । अर ऐसा नाही जो ऊपरला पदका तो व्रत नियम धारा अर नीचला है ही नाही ऐसै जो ब्रह्मचर्य धारैगा ताकै दर्शनादिक छह स्थानका आचरण नियमसू' होय, आठवां पदमें नीचले सप्त स्थानका आचरण होय ही ।

अब प्रथम दर्शन नाम स्थानका धारकका लक्षण कहै हैं—

सम्यग्दर्शनशुद्धः संसारशरीरभोगनिर्विण्णः ।

पञ्चगुरुचरणशरणो दर्शनिकस्तत्त्वपथगृह्यः ॥१३७॥

अर्थ—जो सम्यग्दर्शनके पच्चीस मलदोषनिकरि रहित होय अर निरन्तर संसारवासमें अर देहका संगममें अर इन्द्रियनिके भोगनिमें विरक्त होय अर पंच परमेष्ठी ही जाके शरण होय अर सर्वज्ञभाषित जीवादिक तत्व ताका श्रद्धान करने वाला होय सो सत्यार्थमार्गमें ग्रहण करने योग्य दार्शनिक श्रावक प्रथम पदका धारक होय ।

भावार्थ—जो स्याद्वादरूप परमागमके प्रसादतैं निश्चय-व्यवहाररूप दोऊं नयनिकरि निर्णयपूर्वक स्वतत्त्व अर परतत्त्वकूँ जानि श्रद्धान दृढ़ किया होय जाति कुलादि अष्टमद रहित होय अभिमान-मंदताकरि आपकूँ समस्त गुणवंतनिके गुण विचारि आपकूँ तृणसमान लघु मानता होय । अर यद्यपि अप्रत्याख्यानावरणके उदय की जवरीतैं अपना विषयनिमें राग नाही घटा है अर समस्त गृहके आरंभनिमें वतैं है तो हू या जानैं है ये हमारे समस्त मोहके प्रभावतैं अज्ञानभाव है त्यागने योग्य हैं कत्र यासूँ छूटूँ मेरा हाल तीव्र रागभावपरिणामनिक्कूँ चलायमान करै हैं । बहुरि मेरा धर्मात्मा जननिके उत्तम गुण ग्रहण करनेमें जाके अनुराग अर रत्नत्रयके धारकनिमें जाके बड़ा विनय अर धर्मके धारकनिमें बड़ा अनुराग धारै सो ही सम्यग्दृष्टि होय है जो देहादिक तथा राग द्वेष मोहादिकनितैं अनादिका मिल्य हू अदना ज्ञायकस्वभावकूँ भेदविज्ञानका बल, करि भिन्न अनुभवे है अर जीवसूँ मिल्या हुवां हू । देहकूँ वस्त्र समान न्यारा जानै है अर अष्टादश दोषरहित सर्वज्ञ वीतरागमें ही देवबुद्धिकरि आराधना करै हैं अर दोषसहितमें देवबुद्धि नाही करै, अर दयारूप ही धर्म है हिंसामें कदाचित तीनकालमें धर्म नाही, आरम्भ परिग्रहरहित ही गुरु हैं अन्य गुरु नाही, ऐसा दृढ़ श्रद्धान होय अर कोऊ जीव कोऊकूँ मारै नाही, जिवावै नाही, दरिद्री धनाढ्य करै नाही, केवल अपना भावनितैं बंध किया कर्मनिका उदयतैं जीवैं हैं मरै हैं सुखित दुखित होय हैं, दरिद्री धनाढ्य होय हैं अपना कर्मके उदयतैं उपज्या संसारमें भोग भोगै है भक्तितैं पूजे व्यंतरादिक देव मंत्र जंत्रादिक समस्त पुण्यहीणके कुछ उपकार अपकार करनेकूँ समर्थ नाही है, पुण्य नष्ट हो जाय तदि समस्त मंत्रादिक हू शत्रु होय हैं पुण्य पापके प्रबल उदयतैं माटी धूली भस्म पाषाणादि देवताका रूप होय उपकार अपकार करै हैं । बहुरि सम्यग्दृष्टिकैं ऐसा निश्चय है जिस जीवके जिस देशमें जिस कालमें जिस विधान करके जन्म वा मरण वा लाभ अलाभ सुख दुःख होना जिनेन्द्र भगवान दिव्यज्ञानकरि जान्या है तिस जीवके तिस देशमें तिस कालमें तिस विधान करके जन्म मरण लाभ नियमतैं

होय ही, ताहि दूर करनेकूँ कोऊ इन्द्र अहमिन्द्र जिनेन्द्र समथ नाहीं है । ऐसैं समस्त द्रव्यनिकी समस्त पर्यायनिकूँ जाने है श्रद्धान करै है सो सम्यग्दृष्टि दार्शनिक श्रावक प्रथमपदका धारक जानना ।

अब दूजा पदकूँ कहैं हैं,—

निरतिक्रमणमणुव्रतपञ्चकमपि शीलसप्तकं चापि ।

धारयते निःशल्यो योऽसौ व्रतिनां मतो व्रकिः ॥१३८॥

अर्थ—जो अतीचाररहित पंच अणुव्रत अर सप्त शील इन बारह व्रतनिकूँ माया मिथ्या निदान शल्यकरि रहित हुवा धारण करै सो व्रतीनकूँ मध्य याकूँ व्रती श्रावक कहिये है ॥२॥

अब तीसरा पदकूँ कहैं हैं—

चतुरोवर्तत्रितयश्चतुःप्रणामस्थितो यथाजातः ।

सामयिको द्विनिषद्यस्त्रियोगशुद्धिस्त्रिसन्ध्यमभिवन्दी ॥१३९॥

अर्थ—सामायिकमें पंचनमस्कारकी आदिमें अर अंतमें अर थोस्सामिकी आदिमें एक एक प्रणाममें तीन तीन आवर्त अर कायोत्सर्ग अर बाह्य अभ्यन्तर परिग्रह-रहितता अर देव-वंदनाका प्रारम्भ समाप्तिमें दोय बार बैठना ऐसैं तीन काल वंदना करै ताकै सामायिक नाम तीसरा स्थान जानना । याकी विशेष विधि बहुज्ञानी गुरुनिकी परिपाटीतैं कहैं सो प्रमाण है ॥३॥

अब चौथा प्रोषधस्थान कहैं हैं—

पर्वदिनेषु चपुर्ष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुह्य ।

प्रोषधनियमविधायी प्रणधिपरः प्रोषधानशनः ॥१४०॥

अर्थ—एक एक मास में दोय अष्टमी अर दोय चतुर्दशी ऐसैं चार जे पर्वदिन तिनमें अपनी शक्तिकूँ नाहीं छिपाय करकै आहार पानादिकका त्यागकर वा नीरस आहार वा अल्प आहार वा कंजिका ग्रहण करि अर शुभग्यानमें लीन हुवा नियम धारण करकै चार पर्वमें रहै सो प्रोषधानशननाम चतुर्थ स्थान है ॥ ४ ॥

अब सचित्तत्याग नाम पंचमपद श्रावकका है ताहि कहैं हैं—

मूलफलशाकशाखाकरीरकन्दप्रसूनबीजानि ।

नामानि योऽत्ति सोऽयं सचित्तविरतो दयामूर्तिः ॥१४२॥

अर्थ—जो श्रावक मूल फल पत्र डाहली करीर कहिये वंश-किरण (कैरिया) अर कन्द

अर फूल अर बीज ये अग्निकरि पके हुए नहीं होय, काचे होय तिनकूं निरर्गल हुआ भक्षण नहीं करै सो श्रावक दयाकी मूर्ति सच्चित्तविरतनाम पंचमपद अंगीकार करै है ॥ ५ ॥

अन्नं पानं खाद्यं लेह्यं नाश्नाति यो विभावर्याम् ।

स च रात्रिभुक्तिविरतः सत्त्वेष्वनुकम्पमानमना : ॥१४२॥

अर्थ—जो प्राणीनिकी अनुकंपा दयारूपमनका धारक पुरुष रात्रि में अन्न कर किया भाजन अर पान कहिये जल दुग्ध शरबत इत्यादि पीवने योग्य अर खाद्य कहिये पेडा मोदक पाकादिक अर लेह्य आस्वादन करने का तांबूल इलायची सुपारी लवंग अन्य औषधादिक ऐसे चार प्रकार कहनेकरि समस्त भक्षण करने योग्य पीवने योग्यकूं रात्रिमें भक्षण नहीं करै सो रात्रिभुक्तिविरत नाम छठा पदका धारक श्रावक होय है ॥ ६ ॥

अब ब्रह्मचर्य नाम सप्तम स्थानकूं कहैं हैं—

मलबीजं मलयोनिं गलन्मलं पूतगंधि वीभत्सं ।

पश्यन्नङ्गमनङ्गाद्विरमति यो ब्रह्मचारी सः ॥१४३॥

अर्थ—यो अंग जो शरीर है सो माताको रुधिर पिताको वीर्यरूप मलतैं उपज्यो है यातैं याका मल ही बीज है, अर यो मलकूं ही उत्पन्नकरै है, तातैं मलकी योनि है, अर सासता नवद्वार मल ही कूं भारै है अर महादुग्ध हैं अर घृणाका स्थान है ऐसा शरीरकूं देखता संता जो कामतैं विरक्त होय सो ब्रह्मचारी है सप्तम पद है । यो ब्रह्मचारी है सो अपनी विवाही स्त्रीका सम्बन्ध अर निकट एक स्थान में शयन नहीं करै हैं, पूर्व भोग भोग्या ताकी कथा चितवन नहीं करै है, कामोद्दीपन करनेवाला पुष्ट आहार त्याग करै है राग उपजावनेवाला वस्त्र आभरण नहीं पहरे है गीत नृत्य वादित्रनिका श्रवण अवलोकन त्यागे है पुष्पमाला सुगंध विलेपन अतर फुलेलादि त्यागे है शृंगारकथा हास्यकथारूप काव्य नाटकादिकनिका पठन श्रवणकूं त्यागे है तांबूलादिक रागकारी वस्तु दूर ही तै त्यागे है ताकै ब्रह्मचर्य नाम सप्तम पद श्रावकका है ॥ ७ ॥

अब फिर परिणाम वधै तो आरम्भत्याग करै है—

सेवाकृषिवाणिज्यप्रमुखादारम्भतो व्युपारमति ।

प्राणान्तिपातहेतोर्योऽसावारम्भविनिवृत्तः ॥१४४॥

अर्थ—जो सेवा अर कृषि अर वाणिज्य इत्यादि असिकर्म लिखनकर्म शिल्पकर्म

इत्यादि हिंसाका कारण जे आरम्भ तिनतै विरक्त होय सो आरम्भविनिवृत्त नाम अष्टम पदधारी श्रावक है ।

भावार्थ—धन उपजावनेका कारण समस्त व्यापारादि पापके आरम्भ त्यागै है अर जो स्त्री पुत्रादिकनिकूँ समस्त परिग्रहका विभाग करि अल्पधन निकट राखै, नवीन उपार्जन नहीं करै । अर जो अल्प धन निकट राख्यो तामेंछुँ दुःखित बुभुक्षितनिका उपकार करना तथा अपने शरीरका साधन औषधि भोजन वस्त्रादिकमें लगावै तथा आपका हित ममत्ववाला तथा साधर्मोतिके दुःख निवारणके अर्थि देवै, अन्य पापके आरम्भमें नहीं लगावै । अर कदाचित् मर्यादारूप अल्प धन राख्या अर ताकूँ चोर वा दाइयादार दुष्ट राजादिक हर ले तो क्लेश नहीं करै, तथा फेरि नहीं उपजावनेमें यत्न करै, त्याग करि ऊँचा ही चढै, जो अहो मैं रागी मोही होय एता परिग्रह राख्या था सो गया मेरा कर्म बड़ा उपकार किया, ममता आरम्भ रक्षा भयादिक समस्त क्लेशतँ छूट्या याका बड़ा दुर्घ्यान था सो सहज ही छूट्या । ऐसा भाव जाकै होय ताकै आरम्भनिवृत्त नाम अष्टम स्थान है ।

अब नवमस्थान परिग्रहत्याग ताहि कहै हैं—

बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः ।

स्वस्थः संतोषपरः परिचित्तपरिग्रहाद्विरतः ॥१४५॥

अर्थ—बाह्य दश प्रकारके परिग्रहमें ममत्व छाँडि करकै अर हमारा किंचित् कुछ हू नाही ऐसे निर्ममत्वपनामें रत आसक्त रहै अर देहादिक रागादिक समस्त परद्रव्य परपर्यानिमें आत्म-बुद्धिरहित होय अपना अविनाशी ज्ञायकभावमें स्थिर रहै अर जो भोजन वस्त्र स्थान क्रमें मिलाया तातँ अधिक नाहा चाहता सन्तोषमें तत्पर समस्त वांछा दीनतारहित तिष्ठै अर परिचयमें जो परिग्रह है तातँ अति विरक्त रहै सो परिग्रहत्यागी नामा नवमा श्रावक होय है ।

भावार्थ—नवमा श्रावककै रुपैया मोहर सुवर्ण रूपी गहणी आभरणादिक सकल परिग्रहका त्याग है कोऊ शीत उष्णताकी वेदना दूर करने मात्र अल्पमोलका प्रमाणीक वस्त्र रहे तथा हस्त-पादादि धोवनेके अर्थि वा जल पीवनेका पात्र-मात्र परिग्रह है सो परिग्रहत्याग नाम स्थान है । अर जो गृहमें वा अन्य एकांत स्थानमें शयन आसनादिक करै है अर भोजन वस्त्रादिक जो घरका देवै सो अंगीकार करै अर सिवाय औषध आहार पान वस्त्रादिकनिकी तथा शरीरका टहल करानेकी आपके इच्छा होय सो स्त्री-पुत्रादिकनिकूँ कहै, अर घरका स्त्री-पुत्रादिक कर दे तो करो, अर नहीं करे तो वासुँ उजर करे नहीं जो हमारा मकान है धन है श्याजी-

विका है हमारा कद्दा कसें नहीं करो ऐसा उजर वा परिणाममें संकलेशादि चिंतवन नहीं करे ताके परिग्रहत्याग नाम नवमा स्थान है ।६॥

अथ अनुमतित्याग नाम दशमा स्थानकू' कहें हैं—

अनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वैहिकेषु कर्मसु वा ।

नास्ति खलु यस्य समधीरनुमतिविरतः स मन्तव्यः ॥१४६॥

अर्थ—जाके आरंभमें वा परिग्रहमें वा इस लोकसम्बन्धी कर्म जे विवाहादिक तथा गृह वनावना विणज सेवा इत्यादिक क्रियामें कुटुम्बका लोग पूछै तो हू अनुमोदना नहीं देना, तुम भला किया ऐसा मन वचन कायतें नहीं करना जाके रागादिरहित समबुद्धि होय सो श्रावक अनुमतिविरत है ।

भावार्थ—जो भोजन खारा वा कड़वा मीठा इत्यादिक स्वाद-सहित वा स्वाद-रहितमें रागद्वेषरहित होय सुन्दर असुन्दर नहीं कहै तथा वेटाका वेटीका लाभका अलाभका हानिका वृद्धिका दुःखका सुखका समस्त कार्यानिक्कै माहीं हर्ष विषादरहित होय अनुमोदना नहीं करै ताके अनुमतिविरत नाम दशमा स्थान होय है ।

अथ उद्दिष्टत्याग नाम ग्यारमा स्थानकू' कहें हैं—

गृहतो मुनिवनमित्वा गुरुपकंठे व्रतानि परिगृह्य ।

भैक्ष्याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टश्चेलखंडधरः ॥१४७॥

अर्थ—जो समस्त गृहका त्याग करि अपना गृहनै मुनीश्वरनिके तिष्ठवेका वनमें प्राप्त होय गुरुनिके समीप व्रतनिकू' ग्रहण करके तपश्चरण करता वस्त्र का खंडकू' धारण करता भिक्षा भोजन करै सो उत्कृष्ट श्रावक होय ।

भावार्थ—जो समस्त गृह कुटुम्बतैं विरक्त होय वनमें जाय मुनीश्वरनिके निकट दीक्षा ग्रहण करै अर एक कोपीन मात्र वा कोपीन अर खण्डवस्त्र जातैं समस्त अंग नहीं ढकै, मस्तक ढकै तो पग ढकै नहीं, अर पग ढकै तो मस्तक ढकै नहीं केवल किंचित् डांस, मांछर, जीत, आताप, वर्षा पवनका परीसहमें महारा रहै, अर भिक्षाभोजन अजाचीकवृत्तिमें मौनतैं ग्रहण करै, अपने निमित्त भोजन किया दूवा ग्रहण करै नहीं, न्योतातैं चुलाया जाय नहीं, आपके निमित्त वृद्ध भी आरम्भ जाने तो भोजनका त्याग करै वनमें वा बाल्य वस्तिकामें रहै उपसर्ग पर्यप्त आजाय तो निर्भय दूवा सटै, कायरता दीनता करै नहीं, ध्यान-स्वाध्यायमें सदाकाल मौन रहै, गृहस्थतैं रिना चुलाया जाय, गृहस्थ आपके निमित्त भोजन किया तामेंत भक्तिपूर्वक

दिया हुआ ग्रहण करै सो रससहित वा रसरहित कड़वा खारा मीठा जो गृहस्थ दे सो समभ वनितै आहार ग्रहण करै, एक दिनमें एक चार आहार-पान ग्रहण करै, अंतराय हो जाय तो उ वाम करै, अनशनादिक तपमें शक्तिप्रमाण उग्रमी रहै सो उद्दिष्टआहार त्यागी नामा ग्यारा उत्कृष्ट श्रावका स्थान है। ऐसैं श्रावकधर्मके ग्यारह स्थान कहे तिनमें अपनी शक्तिप्रमा अंगीकार करो। अब और कहैं हैं—

पापमरातिर्धर्मो बन्धुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन् ।

समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति ॥१४८॥

अर्थ—इस जीवका पाप वैरी है अरु धर्म है सो बंधु है ऐसा दृढ़ निश्चय करता जे आपकूँ जाने तदि यो अपना कल्याणकूँ जानने वाला होय है।

भावार्थ—संसारमें दुःखका देनेवाला इस जीवका कोऊ वैरी है नाहीं, एक अपना विष यादि विपरीत अनुरागतै पापकर्म उपजाया सो वैरी है अन्य तो बाह्य निमित्तमात्र हैं। अन्य जे दुर्वचन बोलनेवाला दोषनिकूँ घोषणा करनेवाला धनका अरु आजीविकाका अरु स्थानका जब रीतै हरनेवाला तथा ताडन मारन बंधन छेदन करनेवाला मेरा उपजाया पापका उदयतै समस्त सम्बन्ध है आपका पापकर्म विना अन्य पुरुषनिकूँ वैरी समझै सो मिथ्याज्ञानी जिनेन्द्रक आगम जान्या नाहीं। ऐसैं ही इस जीवका उपकारक बंधु है सो पुण्य कर्म है जो पुण्यकर्म क उदय विना अन्यकूँ उपकारका जानै है सो भगवानका आगमका ज्ञानी नाहीं समझै मिथ्या ज्ञानी है अब श्रावकाचारका उपदेशकूँ समाप्त करता श्रीसमन्तभद्रस्वामी फल प्रतिपादन करता सन्ता घृत्र कहैं हैं—

येन स्वयं वीतकलंकविद्याद्विष्टक्रियारत्नकरण्डभावम् ।

नीतस्तमायाति पतीच्छयेव सर्वार्थसिद्धिस्त्रिषु विष्टपेषु ॥ १४९ ॥

अर्थ—जो पुरुष अपना आत्माकूँ कलंक अतीचारनिकरि रहित ज्ञानदर्शनचारित्ररूप रत्ननिका करण्ड कहिये पिटारो पात्रपणानै प्राप्त करै है तिस पुरुषनै तीन भुवनमें सर्व वाञ्छित अर्थ की सिद्धि अपना पतिकी इच्छा करकै ही प्राप्त होय है।

भावार्थ—जो पुरुष अपने आत्माकूँ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्ररूप रत्ननिका पात्र किया ताकूँ तीन भुवनकी सर्वोत्कृष्ट अर्थ की सिद्धि स्वयमेव प्राप्त होय है ऐसा नियम है। अब प्रार्थना करैं हैं—



सुखयतु सुखभूमिः कामिनं कामिनीव,  
 सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तु ।  
 कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनाता  
 जिनपतिपदद्वप्रेक्षिणी दृष्टिलक्ष्मीः ॥१५०॥

अर्थ—जिनेन्द्र भगवानका चरणकमलकूँ अवलोकन करती ऐसी सम्यग्दर्शनलक्ष्मी है सो कामी पुरुषके सुखकी भूमि ऐसी कामिनीकी ज्यों मोकूँ सुखी करो, अर शुद्धशीला शुद्ध-स्वभावका धारक माता जैसे पुत्रनै पालना करै तैसें मनै पालना करो, अर शीलादिक गुण ही हैं आभूषण जाके ऐसी कन्या कुलनै पवित्र करै तैसें मनै पवित्र करो, उज्ज्वल करो ।

भावार्थ—जैसे कामकी आतापका धारककूँ कामिनी सुखी करै है, अर जैसे शुद्धस्वभाव की धारक माता पुत्रकी पालना कर है अर गुणवान कन्या कुलनै पवित्र करै है तैसें जिनपति जो शुद्धात्मा तानै भावाँतै साक्षात् अवलोकन करानेवाली सम्यग्दर्शन की लक्ष्मी है सो मिथ्या-ज्ञानजनित आताप दूर करके मोकूँ नित्य अनंतज्ञानादिरूप आत्मीक सुखकूँ प्राप्त करो अर संसारके जन्म जरा मरणादि दुःख निवारण करि मेरे अनंतचतुष्टयादिक स्वरूपकूँ पुष्ट करो, अर राग द्वेष मोहरूप मलकूँ दूर करि मेरा आत्मस्वरूपकूँ उज्ज्वल करो ।

इति श्रीस्वामी समंतभद्राचार्यविरचित रत्नकरण्ड-श्रावकाचारकी  
 देशभाषामयवचानका में पंचम अधिकारके  
 साथ समाप्त भई ॥

